भारतीय भाषा कोश



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय भाषा कोश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

पी.ई.डी. - 873

1000-2004 (DSK - II)

प्रथम संस्करण : 1984

द्वितीय संस्करण (संशोधित एवं परिवर्धित : 2012)

मूल्य (देशी मुद्रा) : ₹ 4138.00

(विदेशी मुद्रा) : $ 75.00

£ 48.00

प्रकाशक :

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय

पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली-110066

मुद्रक :

हुगली प्रिंटिग कं. लि.

(भारत सरकार की संस्था)

41, चौरंगी रोड, कोलकाता-700071

पुरोवाक्

भारत के विभिन्न प्रदेशों की विशेषता है-उनकी अलग-अलग भाषाएँ एवं वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश। सामूहिक रूप में एकबद्ध होते हुए भी हर प्रदेश की भाषा और संस्कृति अपने विशिष्ट सौंदर्य से परिपूर्ण है। इन विविधतापूर्ण विशिष्टताओं को सुरक्षित रखते हुए उनमें आपस में भाषागत एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की परंपरा को सुदृढ़ करने की दिशा में निदेशालय द्वारा निरंतर विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। साधारण भारतीय जन को, चाहे वे किसी भी प्रांत के हों अथवा कोई भी भाषा-भाषी हों, समस्त भारतीय भाषाओं की विपुल शब्द-संपदा से परिचित करवाने के लिए निदेशालय द्वारा अनेक हिंदीमूलक एवं भाषामूलक कोशों का द्विभाषी, त्रिभाषी एवं बहुभाषी आधार पर निर्माण किया जाता रहा है। इसी क्रम में वर्ष 1984 में भारतीय भाषा कोश का निर्माण किया गया था जिसमें संविधान की तत्कालीन आठवीं अनुसूची की 14 भाषाओं–हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया, ओड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड को सम्मिलित किया गया।

पाँच हजार प्रविष्टियों वाले इस कोश (पूर्व संस्करण) में हिंदीमूलक आधार शब्दावली के सामने (संस्कृत को छोड़कर) अन्य तेरह भाषाओं के पर्याय अंकित किए गए थे। इस कोश का हिंदी जगत में भरपूर स्वागत हुआ जिससे निदेशालय-कर्मियों का भी उत्साहवर्धन हुआ। वर्ष 1993 में संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन अन्य भाषाएँ-कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी शामिल की गईं। इन तीनों भाषाओं के साथ विद्वानों के बहुमत एवं परामर्श से सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को भी जोड़ते हुए भारतीय भाषा कोश का नवीन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि इन भाषाओं की शब्द-संपदा का ज्ञान भी सर्वसाधारण को एक ही स्थान पर सुलभ हो सके तथा हिंदी को इन भाषाओं के समीप लाने तथा उनमें परस्पर समान तत्वों की खोज का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। परिणामत: 18 भाषाओं से सुसज्जित भारतीय भाषा कोश का नवीन संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूर्व संस्करण के अनुसार यह कोश दो खंडों में है। प्रथम खंड में 'वर्गीकृत शब्दावली' है जो वर्गों के अनुसार अकारादिक्रम में है। खंड दो में 'सामान्य शब्दावली' है। इसे भी अकारादिक्रम में दिया गया है। कोश में प्रथम प्रविष्टि हिंदी की है जिसके सामने 17 भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं। पूर्व की ही भाँति सभी भाषाओं की क्रम-अवस्थिति भौगोलिक निकटता के आधार पर रखी गई है। हिंदी के पश्चात् संस्कृत के पर्याय रखे गए हैं। इसके पश्चात् पहले वर्ग में पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी; दूसरे वर्ग में मराठी, गुजराती, कोंकणी; तीसरे वर्ग में नेपाली, बंगला, असमिया, मणिपुरी, ओड़िया तथा चौथे वर्ग में तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड भाषाएँ रखी गई हैं।

नवीन संस्करण को तैयार करते समय पिछले संस्करण में निर्धारित मानदंडों का यथासंभव ध्यान रखा गया है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और संस्कृत के पर्याय अंकन के साथ इस संस्करण में पूर्व-संस्करण की तेरह भाषाओं के निर्धारित पर्यायों का भी संबंधित भाषाविदों से पुनरीक्षण कराकर समावेशन किया गया है ताकि काल एवं परिवेश के आधार पर उस भाषा–विशेष में हुए परिवर्तनों एवं प्रचलनों को ग्रहण किया जा सके तथा शब्दों में अधुनापन की अनुभूति बनी रहे।

कुछ समय पूर्व वर्ष 2003 में चार अन्य भारतीय भाषाएँ–डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो–संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भारतीय भाषा कोश के आगामी संस्करण में इन भाषाओं को जोड़ने का कार्य निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा।

इस संस्करण को तैयार करने में संबंधित भाषाओं के अनेक विद्वानों ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है जिनका मैं हृदय से आभारी हूँ। इस कार्य से जुड़े निदेशालय के अधिकारी भी परिश्रम एवं निष्ठापूर्वक कार्य के लिए साधुवाद के पात्र हैं। आशा है, पूर्व संस्करण की भाँति भारतीय भाषा कोश के इस नवीन संस्करण से सुविज्ञ पाठकजन एवं शोधार्थी लाभान्वित होंगे।

(अनन्त कुमार सिंह)
निदेशक

भारतीय भाषा कोश से संबद्ध निदेशालय के अधिकारी

प्रधान संपादक
श्री अनन्त कुमार सिंह
निदेशक

प्रो. के. बिजय कुमार
पूर्व निदेशक

संपादक
डॉ. बलिराम प्रसाद
सहायक निदेशक

सह-संपादक
डॉ. डेजी लहरी
अनुसंधान अधिकारी

डॉ. सुबच्चन पांडे
अनुसंधान अधिकारी

डॉ. अनुपम माथुर
सहायक अनुसंधान अधिकारी

श्रीमती हर्षा मनोहर नाईक
सहायक अनुसंधान अधिकारी

डॉ. किरण झा
सहायक अनुसंधान अधिकारी

श्री शुभंकर मिश्र
सहायक अनुसंधान अधिकारी

श्री चरणजीत सिंह
सहायक अनुसंधान अधिकारी

श्रीमती हेमलता
उपनिदेशक (सेवानिवृत्त)

मुद्रण एवं प्रकाशन

श्री राधेश्याम मीणा
सहायक निदेशक

श्री हुकमचंद मीणा
अनुसंधान अधिकारी

डॉ. प्रतिष्ठा श्रीवास्तव
सहायक अनुसंधान अधिकारी

भारतीय भाषा कोश से संबद्ध भाषा–विशेषज्ञ

भाषा	भाषाविद्
हिंदी	स्व. डॉ. नरेंद्र व्यास
	डॉ. जे. लक्ष्मी रेड्डी
	डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी
	डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम
	डॉ. ललित मोहन बहुगुणा
असमिया	डॉ. महेंद्रनाथ दूबे
उर्दू	डॉ. जिल्ल–ए–हुमा
	डॉ. एस.ए. रहमान
ओड़िया	श्री मानसरंजन महापात्र
कन्नड	डॉ. शरेशचंद्र चूलकीमट
	डॉ. टी.आर. भट्ट
कश्मीरी	डॉ. चमन लाल सप्रू
	श्री बी.एन. बेताब
कोंकणी	डॉ. चंद्रलेखा
	डॉ. स्नेहलता शरेशचंद्र
गुजराती	श्री कन्हैयालाल भट्ट
तमिल	डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम
तेलुगु	डॉ. जे. लक्ष्मी रेड्डी
नेपाली	डॉ. प्रकाश प्रसाद उपाध्याय
	श्री विष्णु बहादुर गुरंग
पंजाबी	प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
	डॉ. गुरचरण सिंह
बंगला	डॉ. स्वप्न पी.रे
मणिपुरी	डॉ. हजारीमयूम सुबदनी देवी
	डॉ. टी.एच. सरजू देवी
मराठी	डॉ. चंद्रलेखा
मलयालम	डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम
संस्कृत	डॉ. आशुतोष दयाल माथुर
	डॉ. रामप्रकाश दास
	डॉ. दयाशंकर तिवारी
सिंधी	स्व. डॉ. मोतीलाल जोतवाणी

प्राक्कथन

(प्रथम संस्करण की भूमिका)

देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों की जनता को भावनात्मक दृष्टि से परस्पर निकट लाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वस्थ परंपरा को उत्तरोत्तर बहुआयामी प्रोत्साहन दिया जाए। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न भाषा-भाषियों को निकट लाने में एक सुगम सेतु का काम कर सकता है। इसके लिए भाषिक स्तर पर आदान-प्रदान को तथा एक दूसरे की भाषा को सीखने-समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में हिंदी के राजभाषा स्वीकृत हो जाने पर यह और भी आवश्यक हो गया है कि उसे संविधान में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं के निकट लाया जाए और उनमें परस्पर समान तत्वों की खोज की जाए।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने पिछली तीन दशाब्दियों से विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद कराने तथा परस्पर आदान-प्रदान की सहज सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। संपूर्ण देश की जनता सभी भारतीय भाषाओं की शब्द-संपदा से सुविधापूर्वक परिचित हो सके, इस महत् उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनेक कोश योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।

केंद्रीय हिंदी समिति के सुझाव पर गठित जेबी कोश समिति ने 1974 में जो सिफारिशें की थीं उनके अनुसरण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पहले द्विभाषी व्यावहारिक लघु कोशों का निर्माण कार्य आरंभ किया। बाद में इसी क्रम में समस्त भारतीय भाषाओं का कोश बनाने का कार्य भी शुरू किया गया। त्रिभाषा कोश बनने का कार्य तो पहले से ही चल रहा था।

'भारतीय भाषा कोश' में लगभग 5 हजार प्रविष्टियाँ हैं। हिंदीमूलक आधार शब्दावली केंद्रीय हिंदी निदेशालय में संकलित की गई और सभी भारतीय भाषाओं में (संस्कृत को छोड़कर) पर्याय-अंकन और पुनरीक्षण का कार्य संबंधित भाषा-विशेषज्ञों से करवाया गया है। कोश निर्माण के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यह कोश जनसाधारण तथा भारतीय भाषाओं को सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके।

1. शब्दों का चुनाव

शब्द-प्रविष्टियों का चुनाव करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा गया है:

(क) इसमें ऐसे शब्द सम्मिलित किए गए हैं जिनका व्यवहार सामान्य जनता अपने दैनिक कामों में करती है।

(ख) ऐसे भी शब्द दिए गए हैं जो देशव्यापी सांस्कृतिक और भावात्मक एकता के द्योतक हैं,

1. महीनों, ऋतुओं आदि से संबंधित शब्द,
2. काल, दिशा आदि से संबंधित शब्द,
3. सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के द्योतक शब्द,
4. संस्कारों, पर्व-त्योहारों, रीतिरिवाजों आदि से संबंधित शब्द,
5. विभिन्न व्यवसायों से संबंधित शब्द,
6. संख्यावाचक शब्द।

(ग) दैनिक प्रयोग की विभिन्न वस्तुओं, फलों, सब्जियों, गहनों, कपड़ों, औजारों आदि के ऐसे नामवाची शब्द जो बहुत अधिक प्रयोग में आते हैं।

2. शब्दों का रूप और वर्तनी

इस कोश में मुख्यत: बोलचाल की भाषा के शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे शब्दों का स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है, इसलिए उनका रूप और वर्तनी निम्नलिखित आधार पर निश्चित की गई है:

(क) यदि तत्सम और तद्भव दोनों ही रूप समान रूप से प्रचलित हैं तो शब्द प्रविष्टि के रूप में तत्सम रूप ही दिया गया है और तद्भव रूप कोष्ठक में दिया गया है।

(ख) यदि तद्भव रूप तत्सम रूप से बहुत भिन्न है या उसमें अर्थ-परिवर्तन हो गया है तो दोनों रूप दिए गए हैं।

(ग) तद्भव और देशज शब्दों के विभिन्न रूपों में से सबसे अधिक प्रचलित रूप को ही प्रविष्टि माना गया है।

(घ) भारतीय ऋतुओं, महीनों, दिशाओं, संस्कारों, पर्व-त्योहारों आदि के तत्सम रूप ही दिए गए हैं। उनके तद्भव रूप आवश्यकतानुसार रखे गए हैं।

(ङ.) शब्दों के सामान्यत: पुंलिंग रूप ही दिए गए हैं।

(च) शब्द प्रविष्टियों के व्याकरणिक अथवा व्युत्पन्न रूप सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

(छ) जिन संख्यावाची शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं, उनके सबसे अधिक प्रचलित रूपों को ही प्रविष्टि माना गया है।

3. रूपबंध (फ़ार्मेट)

(क) यह कोश दो खंडों में है। खंड 1 में 'वर्गीकृत शब्दावली' है जो वर्गों के अनुसार अकारादिक्रम में दी गई है। खंड 2 में 'सामान्य शब्दावली' है जो अकारादिक्रम में दी गई है।

(ख) इस कोश में प्रथम प्रविष्टि हिंदी की है जो मोटे टाइप में दी गई है। इसके बाद भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं। भारतीय भाषाओं का क्रम वर्णक्रमानुसार न होकर भौगोलिक निकटता के अनुसार रखा गया है। मोटे तौर पर इनके चार वर्ग हैं : 1. पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी और सिंधी, 2. मराठी और गुजराती, 3. बंगला, असमिया और उड़िया, 4. तेलुगु, तमिल, मलयाळम और कन्नड। संस्कृत पर्याय सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रत्येक भाषा के पर्याय परिवर्धित देवनागरी लिपि में दिए गए हैं, अर्थात् जिन भाषाओं में विशेष ध्वनियाँ हैं उनके लिए देवनागरी वर्णों के साथ विशेषक चिह्न लगाए गए हैं।

(घ) लक्ष्य भाषाओं के अधिकाधिक 3 पर्याय दिए गए हैं। मूल प्रविष्टि के विशेष लाक्षणिक अर्थ सामान्यत: नहीं दिए गए हैं।

(ड.) जिन शब्दों का समावेश पहले खंड में 'वर्गीकृत शब्दावली' के अंतर्गत हो गया है उन्हें दूसरे खंड में 'सामान्य शब्दावली' में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(च) पहले खंड में प्रत्येक वर्ग की समाप्ति पर वर्ग-विभाजन की दृष्टि से 3 तारक चिह्न लगाए गए हैं, प्रत्येक वर्ग के शीर्षक मोटे टाइप में दिए गए हैं।

(छ) दूसरे खंड में हिंदी प्रविष्टि के तीसरे कालम में अर्थ भी दिए गए हैं। इन्ही अर्थों के सामने भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं।

मूल योजना में इस कोश के तृतीय खंड में सामान्य वार्तालाप से संबंधित लगभग 2,500 वाक्य और वाक्यांश दिए जाने थे। चूंकि निदेशालय अपनी योजनाओं के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं की द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिका भी कालांतर में प्रकाशित करेगा इसलिए निदेशालय के कार्यकलाप के लिए मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर कलेवर वृद्धि और दुहराव के भय से इन वाक्यों को इस में सम्मिलित नहीं किया गया है।

निदेशालय लंबे समय से पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में काम करता आ रहा है और भारतीय भाषाओं के द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी कोशों की रचना के क्षेत्र में निदेशालय के आरंभिक प्रयास हैं। इस दृष्टि से हमें अपनी कमियों और सीमाओं का भली प्रकार से ज्ञान है तथा इस कोश में कुछ त्रुटियाँ रह जाने की संभावना का भी हमें पूरी तरह से अहसास है। इस तथ्य को हम स्वीकार करते हैं इसीलिए इस कोश को प्रथम प्रारूप के रूप में सुविज्ञ प्रयोक्ताओं के सम्मुख इस आशा से प्रस्तुत करते हैं कि इसमें पाई जाने वाली कमियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे। ध्यान में लाई गई कमियों को अगले संस्करण में दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

इस कोश के निर्माण कार्य में अनेक विद्वानों ने सहयोग दिया है। निदेशालय के अधिकारियों ने परिश्रम और निष्ठापूर्वक कार्य किया है। इन सभी सहयोगियों की सूची आगे दी जा रही है। मैं इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्टूबर, 1984

राजमणि तिवारी
निदेशक

भारतीय भाषा कोश (प्रथम संस्करण) से संबद्ध विशेषज्ञ
और
केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी

	पर्याय- अंकन	पुनरीक्षण
असमिया	डा. जी.सी. गोस्वामी	डा. रमानाथ त्रिपाठी
उर्दू	श्री मसूद हाशमी	श्री अबुल फैज़
उड़िया	श्री के. बी. त्रिपाठी	डा. (कु.) शिवप्रिया महापात्र तथा श्रीमती कानन मिश्रा
कन्नड	डा. विनोदाबाई	श्री जी.बी. भक्तप्रिय
कश्मीरी	प्रो. चमन लाल सप्रू	श्री मोहन लाल सर
गुजराती	डा. महेंद्र दवे	श्री चंद्रकांत मेहता
तमिल	(स्व.) श्री एस. महालिंगम	डा. एस. नारायण अय्यर
तेलुगु	डा. ई. पांडुरंग राव	डा. जे. लक्ष्मी रेड्डी
पंजाबी	डा. हरभजन सिंह	-
बंगला	श्रीमती कणिका तोमर	डा. इंद्रनाथ चौधरी
मराठी	डा. न.चि.जोगलेकर	डा. सविता जाजोदिया
मलयाळम	डा. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर	-
सिंधी	डा. एस. के. रोहरा	डा. एम. के. जेतली

निदेशालय के अधिकारी

संपादन

श्री राजमणि तिवारी	निदेशक
डा. नरेंद्र व्यास	प्रधान संपादक
श्री एस. एल. गूमर	सहायक शिक्षा अधिकारी
श्रीमती सुदर्शन अरोड़ा	अनुसंधान सहायक

परामर्श

डा. नगेंद्र	परामर्शदाता

संकलन

श्री प्रेमदास	सहायक शिक्षा अधिकारी
श्रीमती सरोज जैन	अनुसंधान सहायक
श्रीमती पुष्पलता तनेजा	अनुसंधान सहायक
श्रीमती बीना धाम	अनुसंधान सहायक
श्री ब्रजमोहन लाल रस्तोगी	अनुसंधान सहायक
श्री बालकृष्ण सेठी	अनुसंधान सहायक
श्रीमती सुमन शर्मा	अनुसंधान सहायक

निदेशालय के भूतपूर्व अधिकारी

डा. गोपाल शर्मा	निदेशक
डा. हरवंश लाल शर्मा	निदेशक
डा. रणवीर रांग्रा	निदेशक
श्री राजमल जैन	उपनिदेशक
श्री पी. एन. शर्मा	सहायक शिक्षा अधिकारी
श्रीमती संतोष नंदा	अनुसंधान सहायक
डा. भगवती प्रसाद निदारिया	अनुसंधान सहायक

प्रकाशन

श्री के. आर. कर्ण	सहायक शिक्षा अधिकारी
श्री महेंद्र पाल सिंह	अनुसंधान सहायक
श्रीमती कुलदीप कौर	अनुसंधान सहायक
श्री दुर्गा प्रसाद	अनुसंधान सहायक
श्री नं. कृ. नागराज	अनुसंधान सहायक

कोश में प्रयुक्त विशेषक चिह्न

स्वर :	(i)	ह्रस्व ए और ओ	ऎ ऒ
		मात्राएँ	ॆ ॊ
	(ii)	कश्मीरी के विशिष्ट स्वर	उॅ ऊॅ अॅ आॅ
		मात्राएँ	ॖ ॗ ॅ ॉ
व्यंजन :	(i)	कश्मीरी चवर्ग	च़ छ़
	(ii)	सिंधी अंत:स्फुट व्यंजन	ॻ ॼ ॾ ॿ
	(iii)	तमिळ और मलयाळम (ழ ഴ)	ळ
	(iv)	बंगला, असमिया	य
	(v)	दक्षिण भारतीय भाषाओं के 'र' का कठोर उच्चारण	ऱ
	(vi)	तमिळ, मलयाळम (ன,ന)	ऩ
	(vii)	फारसी-अरबी/अंग्रेजी से गृहीत	क़ ख़ ग़ ज़ फ़

संक्षेपाक्षर सूची

व्या. को.	व्याकरणिक कोटि
पुं.	पुंलिंग
स्त्री.	स्त्रीलिंग
स.	सर्वनाम
वि.	विशेषण
क्रि.वि.	क्रियाविशेषण
अ.क्रि.	अकर्मक क्रिया
स.क्रि.	सकर्मक क्रिया
अव्य.	अव्यय
अ.पु.	अन्य पुरुष
म.पु.	मध्यम पुरुष
उ.पु.	उत्तम पुरुष
कर्म.	कर्मवाच्य

भारतीय भाषा कोश
खंड-1

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अनाज, दालें, तिलहन आदि	अन्न-द्विदल-तैलबीजा-दीनि	अनाज, दालां, तिलहन आदि	अनाज, दालें, तिलहन वग़ैरह	अनाज, दालॅ, तिलफल बेत्रि	अनाज, दालियूं, दाल्यूं तेलीबिज वग़ैरह	धान्यें, डाळी, गाळिताये धान्य	अनाज, दाळ, कठोळ	धान्याचो दाणो, कड्डणां, तेलबिंया आनी हेर
अरहर	आढकी तुरी	हरहर	अरहर	अरहर	थूहर	तुरी	तुवेर, तुवर	तुर, तोर
अलसी	अतसी	अलसी	अलसी	ॲलिश	हल्सी, अल्सी	जवस	अळसी	अगशे, अळशी
उड़द	माषः	मांह	उड्द (माश)	माह	मांहिं	उडीद	अडद	उडद
गेहूँ	गोधूमः	कणक	गेहूँ (गँदम)	कुँनुँख	कणिक	गहूं	घउं	गंव
चना	चणः, चणकः	छोले	चना	चनुॅ	चणा	हरभरा, चणा	चणा	चणो
चावल	तण्डुलः	चौल	चावल	तौंमुल	चांवर	तांदुळ, भात	चोखा, भात	तांदूळ
छोले	चणः, चणकः	छोले	छोलॉ	छोलुॅ	छोला	सोलाणा, हरभरा	छोळा	काबूली चणो
जौ	यवः	जौं	जौ	वुशुकुॅ	जव	जव	जव, जौ	वरय, सवाद
ज्वार	यवनालः	जुआर	जवार	जवार	जूअरि, जुआरि	ज्वारी	जुवार	जोंदळो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अन्न, दाल, तेलहन इत्यादि	**शस्य, डाल**	**शस्य, अन्न, आञ्जा, तिल शस्य आदि**	**महै मरोङ्, हवाइशिङ्, थाओ शुंबा याबा पांबी असिनाचिङ्बा**	**शस्य, रबि फसल, तैल-जातीय पदार्थ आदि**	**धान्यमुलु, पप्पु दिनुसुलु, नूने वित्तनमुलु मांदलैनवि**	**दानियंगळ्, परुप्पुगळ् एंण्णंय् विदैगळ् मुदलियवै**	**धान्यङ्ङळ्, परिप्पकळ्, ऍण्णक्कुरु/ककक् मुनलायव**	**धान्य, बेळे, कुसुबि मुंतादवु**
अरहर, रहर	अड़हर, अड़ा, अड़र	माह, आञ्जा रहर	माइरोंबी, उरोल	हरड़	कंदुलु	तुवरै	तुवर, तुवरप्परिप्पु	तोगरि
आलस, तिसी	अतसी, तिसि, मसिना	अतसी, तिचि	मरुना थाओ शुंबा याबा	पेशी	अविर्सलु	आळि विदै	अलसी, चणक्कुरु	अगसे
मास	बिरिकलाइ	माटिमाह	शगोल हवाइ	बिरि डालि	मिनुमुलु	उळुंदु	उळुन्नुं	उद्दु
गहुँ	गम, गोधूम	गम	गेहु	गहम	गोधुमलु	गोदुमै	गोतंपुं	गोदि
चना	छोला, चाना	बुट	चना	चणा	शनगलु	कडलै	कटल	कडले
चामल, भात	चाल, चाउल	चाउल	चेङ्, चाक्	चाउल	बिय्यमु	अरिसि	अरि	अक्कि
छोला, काबुली चना	बुट, चाना, काबुली छोला	भजा, बुट	चना अचौबा मखल अमा, तीसी	बुट, चणा	सुंडलु	कांतुक्कडलै	पच्च क्कटल	कडले
जौ	यब, बार्लि	ज-धान	जौ, बर्लि	जअ	यवलु	बार्लि, वार् गोदुमै	यवम्, बार्लि	जवेगोदि
ज्वार, जुनेलो	जोयार, गम जातीय शस्य	जोवार	ज्वार, चनाल मखल अमा	जबार	जांन्नलु	चोळम्	चोळम् (चंरिय चोळम्)	जोळ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
तिल	तिलम्	तिल	तिल	तेल	तिर	तीळ	तल	तीळ
धान	धान्यम्, व्रीहि:	धान	धान	दानि	सारियूं, सार्यूं	साळी, भात	डांगर, कमोद	भात
बाजरा	वज्रक:	बाजरा	बाजरा	बाजरुँ, शोलॅ	ब॒झिरी	बाजरी	बाजरी	बाजरी
मकई, मक्का	मकाय:, कटिज:	मकई, मक्की	मक्का	मकॉय	मकई, मकाई	मक्का	मकाई	मको
मटर	कलाय:, हरेणु:	मटर	मटर	मटर	मटर, पीज़	मटर वाटाणा	वटाणा	वाटाणो
मसूर	मसूर:	मसर	मसूर	मुसुर	मसूर (दालि)	मसूर	मसूर, मसुर	मसूर
मूँग	मुद्ग:	मुंग	मूँग	मोंग	मुङ	मूग	मग	मूग
मूँगफली	मण्डपी	मुंग्फली	मूँगफली	जलगोजुं, मोंगफॅल्य	बोहीमुङ	भुईमूग	मगफळी	मसमी भिकण
राजमा	राजमाष:	राजमांह	राजमा	राज़माह	राजमा	एक प्रकारचे कडधान्य	राजमा	आवरो, राजमा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तिल	तिल	तिल	थोइदिङ्	राशि	नुव्वुलु	ऍळ्ळु	ऍळ्ळुॅ	ऐळ्ळु
धान	धान, धान्य	धान	फौ	धान	वड्लु	नॅल्	नॅल्लुॅ	बत्त
बाजरा	बजरा, गम जातीय शस्य	बज्रा	चनाल	बाजरा	सज़्ज़लु	कंबु	बजऱ्	नवणे
मकै	मकाइ, मक्का	माकै, गोमधान	चुजाक	मका	मॉक्कॅ जॉन्नलु	मक्काच्चोळम्	मक्कच्चोळम्	मुसुकिन जोळ
मटर, केराउ	मटर, कड़ाइ शुँटिर दाना	मटर, माह	हवाइथराक	मटर	बटाणीलु	पट्टाणि	पच्चप्पट्टाणि	बटाणि
मुसुरी, मुसुरो	मसूर, मसुरी, मसुरि	रंगचुवा माह	मुशोरी	मसुर डालि	मसूर पप्पु	सिवप्पु तुवरंपरुप्पु	चुमन्न तुवरप्परिप्पुॅ	केंपु तोगरि
मुँग, मुगी	मुग दाल	मुगु, मुगुमाह	मुक	मुग	पॅसलु	पयरु	चॅरुपयर्	हेसरु
चिनियाँ-बदाम, बदाम	चीने बादाम	चिना बादाम	लैबाक् हवाई	चिना-बादाम	वेरु शनगलु	निलक्कडलै	निलक्कटल, कप्पलण्टि	कडले कायि, शेंगा
राजमा	राजमा, लालचे रं-एर बरबटी दानार मतो	राजमा	राजमा, मखोङ् नेम्ना पालबा हवाइ मखल अमा	डालिविशेष, राजमा	राजमाषमु	पॅरिय कारामणि	वन्पयर्, पॅरुंपयर्	तिंगळ हुरुळि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सरसों	सर्षप:	सरों	सरसों	तिलुँगोंगुल, सँदिज	सरहिं	मोहरी	सरसव	सांसवां
सोयाबीन	सोयाशिम्बी	सोयाबीन	सोयाबीन	सोयाबीन	सोयाबीन	सोयाबीन (एक गळिताचें धान्य)	सोयाबीन	सोयाबीन
आयुर्विज्ञान	**आयुर्विज्ञानम्**	**तिब्ब**	**तिब**	**तिब वैदंगी**	**आयुर्विज्ञान, तिब**	**आरोग्यशास्त्र**	**आयुर्विज्ञान**	**आयुर्विज्ञान**
रोग	रोग:	बिमारी, रोग	बीमारी	ब्यमॉर्य	रोगु, बीमारी	रोग	रोग	रोग
अजीर्ण	अजीर्ण:	अजीरण	बदहज़्मी	बदहज़मी, नश्रपुन, अपाचुक	बदहाज़िमो	अपचन	अजीर्ण, अजीरण, अपचो	अजीर्ण
अतिसार	अतिसार:	दस्त	इस्हाल (दस्त)	ज़ॉहीरॅ	अतीसार, दस्त	अतिसार	अतिसार, अतीसार	अतिसार
अम्लता	अम्लता	अमलता	तेज़ाबियत	च़ौकुन	खटाई, खटि	आम्लता, आँबटपणा	अमळता, खटाश	आंबट
अम्लपित्त	अम्लपित्तम्	अमलपित्त	तेज़ाबी माद्दे से पैदा होने वाला मरज़, बाद, रियाह	ऐस्डिटी	खटो पित्तु	पित्तविकार	अम्लपित्त, पित्तविकार	अमलपित्त

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सर्स्यूं	सरसे, सरषे	सरियह	हंगाम-येला, आचाथाओ, हंगामथाओ	सोरिष	आवालु	कडुगु	कटुकुँ	सासिवे
भटमास, सोयाबीन	सयाबीन	चयाबीन	नुङ्हवाइ	सोयाबीन	सोयाबीन्	सोयाबीन्	सोयाबीन्	सोयाबीन्
आयुर्विज्ञान	**आयुर्बिज्ञान, चिकित्सा शास्त्रो**	**आयुर्विज्ञान**	**आयुर्विज्ञान, लाइयेङ् मखल अमा**	**आयुर्विज्ञान**	**वैद्यशास्त्रमु**	**मरुत्तुवम्**	**आरोग्यशास्त्रम्**	**आयुर्विज्ञान**
रोग	रोग	रोग, असुख, बेमार	लाइना	रोग	जब्बु	नोय्	रोगम्	कायिले, रोग
अजीर्ण	अजीर्ण (र्न्), बदहजम	अजीर्ण	तुंबा ङंदबा, चाबा तुंदबा	अजीर्ण	अजीर्णमु	अजीर्णम्	अजीर्णम्, दहनक्केटुँ	अजीर्ण
अतिसार	अतिसार, उदरामय	अतिसार	थी फाइथबा, इतोल फाइबा	अतिसार, उदरामय	अतिसारमु	वयिट्टुक्कडुप्पु	अतिसारम्, वयरि़ळक्कम्	भेदि
अम्लता	अम्लता, अंबल, अम्लरोग	अम्लता	अशिन्बा थागेबा	अम्लता, अमलरोग	पैत्यमु	पुळिप्पु	अम्लत, पुळिप्पुँ	आम्लते
अमलपित्त, अम्लपित्त	अम्लपित्त	अम्लपित्त	अशिन्बा काबा	अम्लपित्त	पित्तमु	पुळिप्पुत्तट्टल्	अम्लपित्तम्	आम्लपित्त

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अरक्तता	अल्परक्तता	भुस्स, सटका	किललते दम (ख़ून की कमी)	खूनुँच कॅमी	रतु जी घटिताई	रक्ताची कमी, पांडु रोग	पांडुरोग, कमण्णे	पंडूरोग
आमवात	आमवातः	पेचस	पेचिश	पीचिश	पेचिश, आँव अचणु	आमवात, आमांश	आमवात, आमने लीधेथतो संधिवा	आमांश
कंठमाला	कण्ठमाला	हंजीरां	ख़नाज़ीर (कंठमाला)	हॅट्य दोद	कंठमाल्हा	गंडमाळा	कंठमाळ, कंठमाथतो रोग	कंठमाळ
कनपेड़	गलशोथः	कन्नपेड़े	वरमे गोश (कनफेड़)	कनफेडु	कन जी पाड़ वटि गिल्टी सुजणु, कनपेड़ी	कानाच्या मागे होणारी गांठ	लापोटियुं	गालगूट
कब्ज	कोष्ठबद्धता, कोष्ठबन्धः	कबज	क़ब्ज़	कबज़ी	कब्ज़ी	मलावरोध	कबज, कबजियत, कबजियात, मळावरोध, बंधकोश	बद्धकोश्ठ
कालामोतिया	तिमिरः	कालामोतिया	काला मोतिया	ठ्यूर	कारो मोतियो	मोतीबिंदू	काळो मोतियो	मोतीबिंदू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाण्डुरोग, रक्तशून्यता	रक्तशून्यता, ल्याबा	रक्तहीनता, तेजकमा	ई-वातपगी लाइना	रक्तहीनता, रक्त्तशुन्यता	पांडुरोगमु	रत्त सोगै	रक्तहीनत, विळर्च्च	रक्तहीनते
आउँको रोग, पेटकट्टी	आमबात	आमबात	इतोन फाइबा, पुक-येक्रपा	आमबात, संज्ञाहीनता	जिगटवातमु	सीतबेदि	आमवातम्	आमशौचि
गाँड, गलगण्ड	गलगंड (एकप्रकार रोग)	गँरल	ऊरिक	गलगंड	कंडमाले	कंडमालै	कंठमाल	गंडमाले
काने खटिरो	कानेर रोग	यदुमणि, गाल ऊखहा बेमार	नाकोङ् लाइखून	गालुआ	गवदबिळ्ळलु	पॉन्नुक्कु वींगि	मुण्टिनीरुँ	गद्दकट्टु
कोष्ठ-बद्धता, गोटा	कोष्ठबद्धता (काठिन्य)	कोष्ठबद्धता, शौचकाठिन्य	थी-यैखत्पा, थी-फाइबा यादबा	मलाबरोध, झाड़ा-अबरोध (कब्जा), मलकंटक	मलबद्धमु	मलच्चिक्कल्	मलबंन्धम्	मलबद्धते
मोतिया-बिंदु, फूलो	छानि, नेत्र रोग	एबिध नेत्र रोग, ग्लकोमा	मीत् चोत्पगी लाइना, पी ताबगी लाइना	मोतिया-बिंदु	शुक्लमु	कण्सदै नोय्	तिमिरम्	मोतिबिंदु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कुष्ठ (कोढ़)	कुष्ठः	कोढ़, कोड़ूह	जुज़ाम	म्योंद	कोढ़ु	कोड, महारोग	कोढ, कुष्ठ रोग, रक्तपित्त	कुश्टरोग, रक्तपिती
कृमि (कीड़ा)	कृमिः	किरम	किर्म (कीड़ा)	आम	कींओं, कीड़ो	कृमि (किडा)	कीडो, करमियो, करम, कृमि	दंत
कैंसर	कर्कटः	कैनसर	कैन्सर, सरतान	कन्सर	कैंसर	कर्क	केन्सर	कॅन्सर, कोंक्र
कै (वमन)	वमनम्	कै, उलटी	क़ै	द्रोंख	कै, उल्टी	वांती	उलटी, वमन	ओंक
खाँसी	कासः	खंघ, खांसी	खाँसी (सुआल)	च़ास	खंघि	खोकला	खांसी, उधरस	खांक
खुजली	कण्डु	खाज, खुरक	ख़ारिश	तॅछिन्य	ख़ारिस	खाज, खरूज	खुजली (ळी), खंजवाळ, खण अळूर, चळ	खाज
गठिया	सन्धिवातः	गंठीआ, गठीआ	वजअे-मफ़ासिल (गठिया)	रिह हार	संधनि जो सूरु	संधीवात	संधिवात, सांधाना दरदनो एक रोग	सांद्यांची पिडा
चेचक	मसूरिका	माता, चेचक	चेचक	शुतुॅल्य	माता, वड़ी माता	देवी	बळिया, माता, शीतळा मातानो रोग	देवी, असूक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कुष्ठ, कोर, महारोग	कुष्ठ, कुठ, महाब्याधि	कुष्ठ	कुस्ती लाइथुङ्	कुष्ठ	कुष्ठु	तॉळु नोय्	कुष्ठम्	कुष्ठ
कृमि, जुका	कृमि, कीठ	कृमि	तील-काङ्	कृमि	पुरुगु	किरुमि	कृमि	क्रिमि, हुळ
क्यान्सर, कर्कटरोग, अर्बुद	क्यानसार, कर्कठ-रोग	केन्सार, कर्कट रोग	कैन्सर	कान्सर, कर्कट रोग	कैन्सरु	पुट्टु नोय्	कान्सर्	क्यान्सर, अर्बुद
बांता, वमन	बमि, बमन	बमि	ओबा, हंदोक़पा	बांति	वांति, डोकु, वमनमु	वांदि	वमनम्, छर्दि	वांति, उल्टी
खोकी	काशि, कासि	काह	लोक खुबा	काश	दग्गु	इरुमल्	चुम, कुर	केम्मु
लुतो, चिलचिलाइ	खुजली, चुलकानि (खोस)	खाज, खजुवति, खजुली	हाकाचबा	कुंडिआ	दुरद	अरिप्पु	चॉरिच्चिल्	तुरिकै
संधिवाथ	गँढेबात, संधिबात	बातविष, गाँठेबात	लू-ताङ चिक़पा	गांठेबात	कीळ्ळ वातमु	कील् वादम्	वातम्	संधिवात
बिफर	बसंत	बसंत रोग	लाइकूप थोकपा	बसंत	मशूचि	वैसूरि, पॅरिय अम्मै	वसूरि	सिडुबु, मैलीबेने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
छाला (फफोला)	स्फोटकः, पिटिका	छाला	छाला (आबला)	बस्तुं, हठ	लिफ़, फोफींडो	फोल्लो, किंवा चोळल्यान आलेला फोड	फोड चांदुं, घारूं	फोड
छोटीमाता	खसः	छोटी माता, काकडा-लाकडा	ख़सरा	हॉलहॅज	नंढी माता ख़सरो	कांजिणी	अछबडा	फुगांव
जलोदर	जलोदरः	जलोदर, जलोधर	अजमे नेहाल (इस्तिस्क़ा)	यॅड दग	जलंदर (रोगु)	जलोदर	जलंधर रोग	जलोदर
जुकाम (बुखार)	प्रतिश्यायः	जुकाम	जुकाम	जुकाम, नॅजलुं	जुकाम	पडसे, सर्दी	सळेखम, शरदी	थंडी
ज्वर	ज्वरः	बुख़ार	बुख़ार	तफ	बुख़ार	ताप	ज्वर, ताव	जोर
टेटनस	धनुर्वातः	टैटनस	टेटनस	टेटनस	टेटनस	धानुर्वात	धनुर, धनुर्वा, धनुर्वात	धनुर्वात, धणकुटी
तपेदिक (यक्ष्मा)	यक्ष्मन्	तपदिक्क	तपेदिक़	सिलुं	तपेदिक सिल्ह	क्षय	क्षयरोग, धासर्ण	क्षयरोग
दमा	श्वासः	दमां	दमा	तम	दम, दमो	दमा	दमनो रोग	दमो, उसरमट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फोको	छाला, फोस्का, पानबसत्त, जल-बसत्त, गुटिका	पानीजला सरु-बिधर बसंत	पोकथोकपा लाइकूप-मचा थोकपा	फोटका, फुला, हाडफुटि	बाब्बे	कोप्पुळम्, चिन्नम्मै	पोळ्ळल् चिक्कन् पोक्स्, नीर्पोळन्	बोब्बे, होप्पळे अम्म, सीताळे गोब्बर
ठेउला	पानबसत्त, जल-बसत्त, गुटिका	आइ, सरु आइ सरु बसंत	—	हाड़फुटी	चिन्नअम्मवारु	चिन्नम्मै	चिक्कन् पोक्स, नीर्पोळन	अम्म, सीताळे सिडुबु, देवि
जलोदर	उदरी	उदरि	फुगाम	जलोदर	जलोदरमु	महोदरम्	महोदरम्	जलोदर
रुघा	सर्दि-ज्वर, सर्दि	पानीलगा, सर्दि	लोक थूङबा	सर्दि	जलुबु, पडिशमु	जलदोषम्	जलदोषम्, नीरिळक्कम्	नेगडि
जरो	ज्वर	ज्वर, जर	अरुम लाइहौ	ज्वर	ज्वरमु	जुरम्, काय्च्चल्	ज्वरम्, पनि	ज्वर
धनुष्टङ्कार	धनुषटङ्कार	धनुष्टंकार	तितानस	धनुष्टंकार	टिटानस	दनुर् वायु	टॅट्टनस्	टेटनस्
क्षयरोग, सुकेनास	यक्ष्मा, क्षयरोग	यक्ष्मा, क्षयरोग	टी.बी., यक्ष्मार	राजजख्मा, क्षयरोग	क्षय रोगमु	काश रोगम्	क्षयम्, राजयक्ष्मावुँ	क्षय
दम, धम्कीको रोग	हाँफानि	हंफानी आस्थामा	हारा	श्वास रोग	उब्बसमु	आस्तुमा, सुवास कासम्	आस्त्म, वलिवॅ	दम्मु, अस्तमा

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दाद	दद्रु:, दद्रू:	दद्दर, दाद	दाद	दॅदुॅर	ड॒द्रु	गजकर्ण	घाघर, दराज	चरतें, दाद
नासूर	नाडीव्रण:, जीर्णव्रण:	नसूर, नासूर	नासूर	नोसूर	नासूर	खोल जुनाट व्रण	सडतुं छिद्र, सडानुं छिद्र, जेमांथी ऊंडेथी परु नीकळया करे, एवो पाकेलो घाव	नाकांची कोरांतपी पिडा
पागलपन	उन्माद:	पागलपण	पागलपन (ख़लले- दिमाग़)	फलवॉय, बावरुँ, द्यमॉगी	चरियाई, चर्याई	वेड	गांडपण	पिशेंपण
पीड़ा (दर्द)	पीडा	पीड़	दर्द	दग	सूरु	व्यथा, वेदना	पीडा, दर्द, दरद, वेदना, दुख, व्यथा	पिडा
पीलिया	पाण्डुरोग:	पीलीआ	यरक़ान	कांबल	साई	कामीळ	कमळो, कमळी	कामीण
पेचिश	अतिसार:, प्रवाहिका	पेचसा	पेचिश	पीचिश	सूरी, पेचिश	मुरडा, आव झाल्या मुळे पोटांत उठणारी कळ	मरडो, मरडानो रोग	हागवण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दाद	दाद	खुरा खर	लाइकोइ	जादु	तामर	पडै नोय्	पुळुक्कटि	हुळुकड्डि
पुरानो घाउ	शोष, नाली-घा	नाडीब्रण	चाफत्पा/ चाथत्पा	नाक-रोगविशेष	लूटि, व्रणरंध्रमु	पुण्, रणम्	व्रणम्	नाडि व्रण
बहुलापन	पागलामि	बलियालि	अङाऔबगी	पागलामी	पिच्चि	पैत्तियम्	उन्मादम्, भ्रांतुं	हुच्चु, मतिभ्रमे
दुखाइ, दर्द, पीडा, व्यथा	व्यथा, बेदना, कष्ट	बेदना, पीड़ा	नाबा	पीड़ा (दरज)	बाधॅ, नॉप्पि	वलि	वेदन	नोवु
कमलपित्त, कामला	न्याबा, पाण्डुरोग कॉंओलारोग, क़ामला	कमला बेमार, पाण्डुरोग	जोनतिस, नापू कारकपा लैना	कालांमल रोग	पसिरीकलु	मंजळ् कामालै	मञ्ञप्पित्तम्	कामाले, कामणि
आउँको रोग, अतिसार	आमाशा, अतिसार	ग्रहणी, अतिसार	पुक थिनबा, येकपा	आमाशय	भेदुलु	वयिट्टु कडुप्पु, सीत बेदि	वयरुकटि	आमशंके

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रदर	प्रदरः	लकोरिया	सैलाने-रहम (लिकोरिया)	सॉलानुँ	अछो पाणी, लकोरिया	प्रदर, धुपणी	प्रदर	प्रदर
प्रमेह	प्रमेहः	ज़रिआन	जरयान	सॉलानुँ	जरयान	मूत्ररोग	प्रमेह, परमियो	प्रमेह
प्लेग	मूषिकरोगः	पलेग	ताऊन (प्लेग)	तोवूनुँ	प्लेग	प्लेग	प्लेग	महामारी, प्लेग
फोड़ा	स्फोटः, गण्डः	फोड़ा	फोड़ा (दुंबल)	फ्यफुर	फुरिड़ी, फुर्ड़ी	फोड	फोडलो	फोफूड, फोफूट
बवासीर	अर्शः	बवासीर	बवासीर	बवासीर	बवासीर, मोका	मूळव्याध	हरस, हरसनो रोग	मूळव्याध, बीक
भैंगापन	केकरता	भैंगापण, भविंगापण	भेंगापन (हवल)	शार्यर	टेड्डाई	तिरळेपणा	बांडापणुं (नजरनुं)	तिरशेपण
मतली	विवमिषा	कचिआह्ण, मतली	मतली	आवलुन फेरुन	उब्रिथो, दिल कची थियण जी हालत	मळमळ	ऊबक, ऊबको, बकारी, ऊलटी	धवळ
मधुमेह	मधुमेहः	शक्कर रोग, ज़िआबतीस	जियाबी तुस	शक्कर, डायबिटीज़	मिठा पेशाब	मधुमेह	मधुमेह, मधुप्रमेह	गोडेमूत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रदर	प्रदर	प्रदर स्त्रीरोग विशेष	फिङौ चत्पा	प्रदर रोग	प्रदरमु	वॅळ्ळैपोक्कु नोय्	प्रदरम्, वॅळ्ळपोक्कॅु	बिळिसेरगु
प्रमेह	प्रमेह, मेह, बहुमूत्र रोग	प्रमेह	धातु थोकपगी लाइना	बहुमुत्र रोग	प्रमेहमु	मेह नोय्	प्रमेहम्	प्रमेह
महामारी, प्लेग	प्लेग	प्लेग	प्लेग	प्लेग, मुषा कामुडिबा द्वारा हेउथिबा रोग	प्लेगु	कॉळ्ळै नोय्	प्लेग	प्लेगु
फोडा, फुड्डुल्को	फोड़ा	फोंहा	अपोमबा, पोमबा	फोटका	कुरुपु, बॉब्बॅ	कट्टि, शिरंगु	परु, कुरु	कुरु
बवासिर, अर्स रोग	बबासीर, अर्श	अर्श	नुङ्सङ्	अर्श	मूलव्याधि	मूल वियादि	अर्शस्सुॅ, मूलक्कुरु	मूलव्याधि
डेढोपन	टेरामो, टयारा	केराँचुक एफाललैचाओंत आन फाले देखा	मीतशेप्पा	आखिरोग, टेरा करि चार्हिंबा	मॅल्लकन्नु	मास्कण्	कोंकण्णुॅ	मेळ्ळेगण्णु
वाकवाक	बिबमिषा, बमिर भाब	बमिर भाव	ओनिङ्बा	बांति लागिबा	विकारमु, वांति	कुमट्टल्	मनंमरिप्पु, ओक्कानम्	होट्टे तोळसु
मधुमेह, मधुप्रमेह	मधुमेह, बहुमूत्र रोग	मधुमेह, बहुमूत्र	ईशिङ् पुकचत्पा, डाइवेटिज	बहुमुत्र रोग, डाइबेटिस	मधुमेहमु	नीरिळिवु/ सर्क्ककरै वियादि	मधुमेहम्	सिहिमूत्र, सक्करे रोग, मधुमेह

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मरोड़	आन्त्रशूल:	मरोड़	मरोड़	पेछ	पेचु, वटु	मुरडा (पोटातील)	पेटमां मरडावानी पीडा, मरोड	पोटांत जावपाची पिडा, पोट खाणें
मलेरिया	मशकज्वर:	मलेरिया	मलेरिया	मलेरिया	मलेरिया	हींवताप	टाढ़ियो ताव, मेलेरिया	मलेरिया, कुडकड्याचो जोर
मसा	माँसकोल:	महुका, मस्सा	मस्सा	स्यस	हसो, मसो	चामखीळ	हरस, मसो	चामखीळ
मिरगी	अपस्मार:	मिरगी	मिरगी	लठ	मिरगी, मिर्गी	फेंफरें	वाई, एक मानसिक रोग	फेंपरें
मोतियाबिंद	मुक्ताबिन्दु:	मोतिआबिंद	मोतियाबिंद	अॅछछ़ाँफ, ज़ाल	मोतियो	मोतीबिंदू	आंखनो मोतियो	मोतीबिंदू
मोती झरा	विषमज्वर:	मोतीर्झरा	मोती झारा	लौकॅट्य, शुतुॅल्य	सन्हो तपु, मोतीझरो	गोवर	मोतीझरो, छातीए मोती जेवी फोल्ली थाय छे एवो ताव	मोतीझरो
रक्तचाप	रक्तचाप:	लहू-दबा	ब्लडप्रेशर (फिशारे-ख़ून), ख़ून का दबाव	बुलडप्रेशर	रतु जो दाबु	रक्तदाब	लोहीनुं दबाण	प्रेसांव, रक्तदाब

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उदरशूल	मोचड़ देओया (पेटे)	पेटर खामोच	पुक ताखत्वा	पेट-पीड़ा, पेट बिंधा	मॅलिक्कि	कुळ्दैगळिन् वयिट्टु वलि	उरुण्टु कयट्टम्	मुरिगे
औलो, मलेरिया	म्यालेरिया	मेलेरिया	मेलेरिया	मेलेरिया	मलेरिया	कुळिर् जुरम्	मलंपनि, मलेरिय	चळि ज्वर, मलेरिया
कोठी, मुसा; खटिरो (बवासिरको)	आँचिल	माह, आँचिनाई	सजिक, समब्रू अचौबा	कलाजाइ-रोग (शरीरर उपरे उठिथिबा कलारंगर मांसर छोट दाना), भातुडि	मॅाललु	मच्चम्	मरुकुॅ	गंटु, मच्चे
मिर्गी, छारेरोग	मिरगी, मृगी	मृगी	शारै हौबगी लाइना	अपस्मार	अपस्मारमु	काक्कै वलि	अपस्मारम्, चुऴलि	अपस्मार
मोतियाबिंदु, मोतीबिंदु	छानि (चोरवे)	छानिपरा, जालपरा	ङौढोड.	मोतिआबिंदु	पॅारलु, शुक्लमु	कण् सदै नोय्	तिमिरम्	मोतिबिंदु
म्यादी जरो, टाइफाइड	आंत्रिक ज्वर (टायफयेड)	सन्निपात	टायफॉयड	मिलिमिला	टाइफाइडु	कपवाद जुरम्	इन्फलुर्वन्सा	इन्फुलएन्जा
रक्तचाप	रक्तचाप, बल्लाड प्रेशर	रक्तचाप	बी.पी. लाइना	रक्तचाप	रक्तपु पोटु	रत्त अळुत्तम्	रक्तसंमर्दम्	ब्लड् प्रेशर्, रक्तदोत्तड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रति-रोग	रतिरोगः	गुपत-रोग	पोशीदा अमराज़	मयथनु रूग, पूशीदुँ ब्यमॉर्य	आतिश जी बीमारी, गुझी बीमारी	संभोगजन्य रोग	जातीय रोग	रतीरोग
रतौंधी	रात्र्यन्धता	अंधराता	शबकोरी (रतौंधी)	ॲछ दोद	राति अंधाई	रातांधळेपण	रतांधळो, रतांधळापणुं	रातांधळ
रोहे	नेत्रलौहित्यम्	कुकरे, रोहे	रमद	रोहि	रोहा, कुकरा	खुपऱ्या	खील (आंखनो)	पुळी (दोळ्याची)
विषरक्तता	विषरक्तता	जहिरबाद	सम्मीयते ख़ून (फ़सादे-ख़ून)	रथ-जॅहरीलुँ बनुन	ज़हरबाद, रत में ज़हर फहिलिजणु	विषमिश्रित रक्तता	लोहीमां विषामळी जाय ते रोग	रक्त विखार
व्रण	व्रणः	फोड़ा	दुंबल (फोड़ा), ज़ख़्म	ज़ख़ुम, फ्युफुर	घाउ, फटु	फोड	घा, नारुं, जखम	घाय
शूल	शूलः	सूल	दर्द	दग	सूरु, दर्दु	वेदना	शूळ, पीडा	वेदना

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रतिरोग	यौन (जौन) रोग	रतिरोग, यौन रोग	हकतिन्नबा यादबा लाइना, फिनुङगी लाइना	गुप्तरोग, जौनरोग	सुखॅ रोगमु	मेह नोय्	रतिरोगम्, गुह्यरोगम्	रतिरोग, गुप्त रोग
रतंधो	रातकाना	कुकुरी कणा रोग	नुमिदाङ् मित उदबा लाइना	अंधारकणा (अंधार-कणा)	रेजीकटि	मालैक्कण् वियादि	मालक्कण्णॅ	इरुळुगण्णु, रात्रिकुरुडु
चक्षुरोग, आनो, ट्रकोमा	चक्षुरोग	चकुर रोग	लौनगनबा मीत की लाइना अमा	आखि धरिबा, आखि पता धारेबा	ट्रकोमा	कण् इमैककुळ् उंडागुम् पुण्	कण्पुटिरक-रोगम्	कण्णुनोवु
विषरक्तता	रक्तविषाक्तता, रक्तदुषण	तेज विष रोग	हू चेनबा ई, महिक याओबा ई	विष-रक्तता	रक्तदोषमु	नच्चुरत्तनोय्	विषरक्तत	विषरक्तते
घाउ, फोडा	फोड़ाफुसकुड़ि, ब्रण	ब्रण, फोंहा	याइरोङ, खूतलाइना-करिना शोकखिबा अनाबा	व्रण	व्रणमु, पुंडु	शदै वीक्कम्, कट्टि, पुण्	व्रणम्,फोड पुण्णॅ	गाय
शूल, व्यथा	पेटेर व्यथा, पेटेर यंत्रणा	शूल	पुक येक-थिनबा	शूल, पेट व्यथा	शूलॅ	शूल नोय्, कुडल् तिरुगुवलि	शूल	शूले, नोवु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शोथ	शोथः	सोज	वरम	वरॅम	सो<u>जि</u>	सूज	सोजो	सूज
श्लेष्मा	श्लेष्मन्	बलगम	बलग़म, कफ़	बलगम	बलग़म, कफ़	कफ, बेडका	कफ, श्लेष्म	कफ
संधिवात	सन्धिवातः	गंठीआ, गठीआ	वजअे-मफ़सिल, जोड़ों का दर्द	रीह	संधनि जो सूरु, वाई सूरु	संधीवात	संधिवात	सांद्याची पिडा
सन्निपात	सन्निपातः	सरसाम	सरसाम	सरसान	सरसाम	मेंदूचा विकार, मति-भ्रम संनिपात	सन्निपात, संनिपात, त्रिदोष रोग	दुषीत जोर, कफ, पित्त आनी वात हांचो अतिरेक जावन आइल्लो जोर
सिर दर्द	शिरोवेदना	सिर पीड़	दर्दे सर, सुदाअ	कलुॅदोद	मथे जो सूरु	डोकेदुखी	माथानो दुखावो	तकली उसव्ठप
हिचकी	हिक्का	हिचकी	हिचकी	ह्युक	हि<u>ड</u>िकी	उचकी, हुंदका	हेडकी, वधणी	खिवणी
हर्निया	अन्त्रवृद्धि	हरनीआ	हर्निया	हरनिया	हर्निया	हर्नियॉ, अंतर्गळाचा विकार	सारण गांठ	हर्निया
हिस्टीरिया	उन्मादः	हिसटीरिया	इख़तिनाक़े-रहम, हिस्टीरिया	बेहोश गछ़नुक दोद, हिस्टीरिया	हिस्टीरिया, उन्मादु	हिस्टीरिया, उन्माद	वाई, एक मानसिक रोग	उन्माद रोग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शोथ, सूज	शोथ	शोथ	पोमबा	शोथ	शुद्धि	वीक्कम्	वीक्कम्	ऊत
खकार,श्लेष्मा, कफ	श्लेष्मा (स्मा)	श्लेष्मा	लोक थूङ्बा, लोक खूबा	श्लेष्मा, कफ	श्लेष्ममु	कोळै	कफ़म्	श्लेष्मु, कफ
संधिवाथ	गैंठे-बात	बात विष	लू-ताङ चिकपा	सँधिवात, गंठिबात	संधिवातमु	कील्वादम्	संधिवातम्	संधिवात
सन्निपात, विषमज्वर	सन्निपात	सन्निपातज्वर	थगेबा, लोक-नूङ्शित्	सन्निपात	सन्निपातमु	जन्नि	सन्निपातम्	मलरोग, सन्निपात
शिरदर्द, कपाल दुख्नु	माथाब्यथा	मूररविष, मूर कामोरणि	कोक् कचिकपा	मुण्डबथा, मुण्ड-दरज, मुणबिंधा	तलै नोप्पि	तलै वलि	तलवेदन	तलेनोवु
वाडुली, वाडुल्की	हेंचकि, हिकका	हिकटि	थगोकपा	हिक्का-रोग, हाकुटि	एक्किळ्ळु	विक्कल	एक्किल्, विक्कल्	बिक्कळिके
हर्निया, अन्त्रवृद्धि	हार्निया, अंत्रबृद्धि	हार्निया	खोइरिन पोम्थोकपा	हार्निया, अंत्रवृद्धि	हर्निया	कुडल् इरक्कम्	हर्णिय	हर्निया
उन्माद, विकृत उत्तेजना, मूर्छा	हिस्टरिया, मूर्च्छा रोग	मृगी	सारै हौबा	हिष्टेरिया, मूर्च्छा रोग	हिस्टीरिया	हिस्टीरिया	हिस्टीरिय	उन्माद रोग

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हृदयरोग	हृदयरोग:	हिरदा रोग	अमराज़े-क़ल्ब	वॉलिंजि-दोद	दिल जी बीमारी	हृद्रोग, हृदयविकार	हृदय रोग	हृदयरोग, हृदय विकार
हैजा	विसूचिका	हैज़ा	हैज़ा	हैज़ु, कालरा	कालरा, वबा, हैज़ा	पटकी, कॉलरा	कोगळियुं, कॉलेरा	कॉलरा, हाग-ओंकीची पिडा
उपचार	**चिकित्सा**	**इलाज**	**इलाज**	**यलाज**	**इलाजु**	**उपचार**	**उपचार, इलाज सारवार**	**उपचार**
अर्क (अरक)	आसव:	अरक	अर्क़	ऑरक	अर्कु	रस, अर्क	अर्क, अरक	अर्क, अगळ
आपरेशन	शल्यक्रिया	अपरेशन, चीर-फाड़	आपरेशन (जर्राही)	अपरेशन	आपरेशन	शल्य क्रिया, सर्जरी, शल्य चिकित्सा	ओपरेशन, वाढकाप, दाक्तरी शल्यक्रिया	ओपेरसांव, ओपेरासांव
इंजेक्शन (अंत:क्षेप)	सूची	इन्जैक्शन	इन्जेक्शन, सूई	इनजकशन	सुई, इंजेक्शन	टोचून शरीरांत घालणे, इन्जेकशन, अंत:क्षेप	इन्जेक्षन, इंजेक्शन	इंजेसांव
एक्सरे	क्षकिरणम्, क्षरश्मि:	ऐकसरे	एक्सरे	अकसरे	एक्सरे	'क्ष'-किरण, एक्सरे	एक्स-रे, फोटो	एक्स रे, क्ष-किरण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हृदयरोग, मुटुको व्यथा	हृद्रोग	हृद्रोग	थमोइगी लाइना	हृद्रोग	गुंडे जब्बु, हृदय रोगमु	नंजु वलि	हृद्रोगम्	हृदयरोग
हैजा	ओलाउठा, बिसूचिका	जहनी कलेरा	पुकचत्पा	हैजा, कलरा, विसुचिका	कलरा	कालरा, वांदि बेदि	विषूचिक, कोळऱ्	कालरा
उपचार, चिकित्सा	**इलाज, उपचार**	**उपचार, चिकित्सा**	**लाइयेङ्बा**	**उपचार**	**चिकित्स**	**चिकिच्चै**	**चिकित्स**	**चिकित्से**
अरक, अर्क	आरक	निर्यास आरक	शुङ्दोक़लबा मही हिदाक	अर्क	आसवमु	कषायम्	अर्कम्, अरिष्टम्	कषाय, अर्क
शल्य चिकित्सा, चिरफार, अपरेशन	शल्य चिकित्सा, अस्त्रोपचार	अस्त्रोपचार, अपारेसन	ओपरेशन, थाङ्थाबा	आपरेसन (शल्य चिकित्सा)	आपरेशनु, शस्त्र चिकित्स	अरुवै चिकिच्चै	ओपरेशन्	शस्त्र चिकित्से, आपरेशन्
सुई, अंत:क्षेपण	इन्जेकशन	बेजि, इन्जेक्श्यन	हिदाक काप्पा	इंजेक्सन्	इंजेक्शनु, सूदिमंदु	ऊसि पोडुदल्, इंजेक्शन	कुत्तिवय्प्पु	सूजिमद्दु
एक्सरे, क्ष-किरण	एक्सरे, रंजन-रश्मि (रिशँ)	एक्सरे, रंजन-रश्मि	एक्सरे	एक्सरे, रंजन रश्मि	एक्सरे	ऍक्स्रे	एक्स्रे	एक्सरे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
औषध	औषधम्	दवा, दवाई, दारू	दवा	दवा	दवा, औखद	औषध	औषधि, औषध, दवा, ओसड	वखद
काढ़ा	क्वाथः	काढ़ा, काड़्हा	काढ़ा (जोशांदा)	शरबथ, शीरूँ	काढ़ो	काढा	काढो, उकाळो	काडो, कसाय
खुराक	मितिः	खुराक	ख़ूराक	खौंराख, ख्यन	ख़ोराक, वज़्नु	औषधाचा भाग, खुराक	मात्रा; दवानो डोझ	वखदाचो वांटो (डोझ) घांस
गोली	वटी	गोली	हब् (गोली)	फौंल, चॉट्य	गोरी	गोळी	गोळी, गुटिका, टीकडी	गुळी
चूर्ण	चूर्णः	चूरन	चूरन (सुफ़ूफ़)	चूरन, फ्यख	चूरणु	चूर, चूर्ण	चूर्ण, चूरण	चूर्ण
टिकिया	वटी	टिक्की	क़ुर्स (टिकिया)	टिकी, पिल	टिकी	वडी	टीकडी	वखदाची गुळी, काप
ताप-चिकित्सा	तापचिकित्सा	तापचिकितसा	थरमो थेरापी	तापुँ यलाज	तापचिकित्सा	ज्वर-मींमांसा, तापचिकित्सा	तावनो उपचार	ताप चिकित्सा
दवा	औषधम्	दवा	दवा	दवाह	दवा, औखद	औषध	दवा, औषध, ओसड	पोटांत घेवपाचें वखद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
औषधी, ओखती, औषध	औषध, औषुध	औषध, दरब	हिदाक	औषध	औषधमु, मंदु	मरुंदु/ औडदम्	औषधम्, मरुन्नुँ	औषधि
काँढा, क्वाथ	क्वाथ (का)	कोवाथ (क्वाथ)	फुतलगा शैंबा हिदाक मही	पाचन, अर्क	कषायमु	कषायम्	कषायम्	कषाय, काढा
खुराक, मात्रा	मात्रा, परिमाप	मात्रा, खोराक	चिन्जाक	खोराक, मात्रा, खुराक	मात्रॆ, डोसु	मात्र	मरुंदिन् अळवु	औषधिय अळते, डोजु
चक्की, गोली, टिकिया	गुलि, बड़ि, टयाबलेट	गुटि, बटि	गुली	बटिका	मात्रॆ, गुळिर्ग	मात्तिरै	गुळिक	गुळिगे, मात्रे
चूर्ण	चूर्ण (र्न)	गुरि, चूर्ण	मकूप, पाउडर	चूर्ण	चूर्णमु	चूरणम्	चूर्णम्, चूर्ण	पुडि
टिकिया, चक्की	बड़ि, टयाबलेट	टिकिरा, बटि	गुली	साबुन	गुळिर्ग	विल्लै, मात्तिरै	गुळिक	गुळिगे, मात्रे
ताप-चिकित्सा	ताप चिकित्सा	तापभैषज जर-चिकित्सा	थरमो थेरापी	तापचिकित्सा	तापॆ चिकित्सॆ	वॆप्प चिकिच्चै	तापचिकित्स, चूटुवय्पुॅ	कावु चिकित्से
ओखती, औषधी	ओषुध	दरब, दवाइ, औषध	हिदाक	औषध	मंदु	मरुंदु/ औडदम्	औषधम्, मरुन्नुँ	औषधि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पट्टी	पट्टी	पट्टी	पट्टी	पॅटगंडुॅन्य	पटी	कापडाची चिंधी, पट्टी	पट्टी	मलमपट्टी
पथ्य	पथ्यम्	पथ, परहेज	परहेज़ी	परिहेज़	किरी, परहेज़	पथ्य, संयम	पथ्य, अनुकूल आहार, परेजी, करी	पथ्य
पाउडर	चूर्णकम्	पाउडर, पोडर	सुफ़ूफ़, पाउडर	पोडर, फ्यख	पाऊडर	पावडर	पाउडर	पूड, बको
पुनःश्वसन प्रविधि (बनावटी साँस)	कृत्रिम-श्वासनम्	बनाउटी साह-प्रविधी	मसनूअी तनफ़्फ़ुस	बनावटी शाह	बनावटी साहु खणाइणु	पुनःश्वसन प्रविधी, कृत्रिम श्वास	बनावटी श्वास आपवानी क्रिया	कृत्रीम स्वास-उस्वास
प्रायोगिक चिकित्सा	प्रायोगिक-चिकित्सा	प्रयोगक चिकितसा	तज्रिबाती इलाज	वरतावुक-यलाज	प्रयोगिक चिकित्सा	प्रायोगिक चिकित्सा	प्रायोगिक चिकित्सा (उपचार)	प्रायोगिक चिकित्सा
मलहम	लेपः, उपनाहः	मल्लहम	मरहम	मॅहलाम	मलम, मरहम	मलम	मलम, मरहम	मलम
मवाद	पूयः	राध, मुआद	मवाद	मवाद	मवाद, रोगु	घाण, पू	पाच, पस, रसी, परु	पूं, मातेर
रोगी	रोगी	रोगी, बिमार	मरीज़	मॅरीज़	रोग़ी, मरीज़ु, बीमारु	आजारी, रोगी	रोगी	रोगी, पिडेस्त

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पट्टी, ब्याण्डेज	पटि, ब्याण्डेज	पटि, बेंड़ेज	बेनडेज	पट्टी, व्याड़ेंज	पट्टी, कट्टु	प्लास्टर्, कट्टु	प्लास्टर्	पट्टि
पथ्य, आहार	पथ्य (थ)	पथ्य	अनाबदा पिजबा याबा चिन्जाक्	पथ्य, पथि	पथ्यमु	पत्तियम्	पथ्यम्	पथ्य
पाउडर	पाउडर, चूर्ण (र्न)	पाउडार, गुरि, चूर्ण	पाउडर	पाउडर	पौडरु	पॉडि/ चूरणम्	पॉटि	पुडि
कृत्रिम श्वास-प्रक्रिया	कृत्रिम श्वास-प्रश्वास	कृत्रिम श्वास प्रक्रिया प्रविधि	खुतशेमगी स्वर होनबा	कृत्रिम श्वास प्रणाली	कृत्रिम श्वास	संयकैं मुरै-सुवासित्तल्	कृत्रिम श्वासो-च्छ्वासम्	कृत्रिम श्वासोच्छ्वास
प्रायोगिक चिकित्सा	प्रयोग-चिकित्सा	प्रायोगिक चिकित्सा	अनाबा मशाना लाइयेंजबा	प्रयोगात्मक, प्रायोगिक चिकित्सा	प्रायोगिक चिकित्स	अनुबव/ नडैमुरै चिकिच्चै	प्रायोगिक चिकित्स	प्रायोगिक चिकित्से
मलम	मलम	मलम	मोलोम	मलम	मलामु	कळिंबु	कुळंपुं	मुलामु
पीप	पूँज	पूँज, मल	नाइ	पूज	चीमु	सीळ्	चलम्, पळुप्पुं	कीवु
रोगी, बिरामी	रोगी, असुस्थ	रोगी, बेमारी, रुग्न	अनाबा मी	रोगी	रोगि	नोयाळि	रोगि	रोगि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
लक्षण	लक्षणम्	अलामत, लच्छण	आसार (अलामत)	अलामॅच़,	अलामत, बीमारीअ जी निशानी	खूण, लक्षण	चिहन, लक्षण, निशानी	लक्षण
विकिरण-चिकित्सा	विकिरण-चिकित्सा	विकिरन चिकितसा	शुआई-तरीक़ा-ए-इलाज	ज़ुचुँ यलाज	विकिरण चिकित्सा	किरण विसर्जक चिकित्सा	विकिरण चिकित्सा, रेडियो एक्टिव उपचार	विकिरण चिकित्सा
विरेचक	विरेचकम्	जुलाबावर	जुल्लाब (दस्तावर दवा), मुसहिल	मुसिल करन वोल	जुलाबु	रेचॅक, जुलाब, दस्तावर	जुलाब लावनार, विरेचन, रेचक	भायरी
विरेचन	विरेचनम्	जुलाब, विरेचन	तनक़ियह (तनक़िय:)	जौंलाबुँ	विरेचन, जुलाबु	रेचक औषध	जुलाब	कोठो सदळ करपी, रेचक
व्यायाम-चिकित्सा	व्यायाम-चिकित्सा	वरजिश चिकितसा	वर्ज़िशी इलाज़	वरज़िशी-यलाज	व्यायाम चिकित्सा	व्यायाम चिकित्सा	अमुक प्रकारना व्यायाम (कसरत) द्वारा कराती चिकित्सा (उपचार)	व्यायाम चिकित्सा
शल्य-चिकित्सा	शल्यचिकित्सा	जराही	जर्राही, सर्जरी	अपरेशन, सॅरजरी	जराही	शस्त्रक्रियेची विधा, शल्य चिकित्सा	शस्त्र चिकित्सा, वाढ़कापनुं वैंदुं; सर्जरी, ओपरेशन्	शल्य चिकित्सा
संवेदना-हरण-विज्ञान	निश्चेतना-विज्ञानम्	सुन्नक विगिआन	तख़ादीरियात	न्यतसोथ करनुक-तरीकुँ	सुन करण जो विज्ञानु	संवदेना हरण विज्ञान	बेंभान (बेहोश) करनारुं विज्ञान	संवेदनाहरण विज्ञान, भेरावणी (गुंगी) विज्ञान

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लक्षण, लच्छिन	लक्षण (कख) (न)	लक्षण, चिन	लाइओङ्	लख्यण, लक्षण	लक्षणमु	वियादियिन्- लक्षणंगळ् (अरिकुरिगळ)	लक्षणम्	लक्षण
विकिरण- चिकित्सा	रश्मि बिकिरण	बिकिरण चिकित्सा	रेइडिएड्डशन लाइयेङ्बा	बिकिरण चिकित्सा	एक्सरे चिकित्स	कदिरियक्क चिकिच्चै	रेडियम् चिकित्स	रेडियम् चिकित्से
विरेचक, जुलाफ	बिरेचक, जोलाप	बिरेचक, जुलापकारी	थी फायदोकनबा हिदाक	बिरेचक, हस्तावरण- कारी	भेदिमंदु	बेदि मरुंदु	विरेचकम्	भेदि औषधि, रेचक
विरेचन, जुलाब	बिरेचन, जोलाप	बिरेचन, जुलाप	थी फायदोकपा	बिरेचन, हस्त आवरण	भेदि, विरोचनमु	बेदि	विरेचनम्, शोधन	भेदि, रेचन
व्यायाम- चिकित्सा	ब्यायाम चिकित्सा	ब्यायाम चिकित्सा	साजेल लायेङ्	ब्यायाम चिकित्सा	व्यायाम चिकित्स	उडर्पयिर्चि चिकिच्चै	व्यायाम चिकित्स	व्यायाम चिकित्से
शल्य- चिकित्सा	शल्य चिकित्सा (ल्ल)	शल्य- चिकित्सा	सर्जरी	शल्य- चिकित्सा	शस्त्र चिकित्स	अरुवै चिकिच्चै	शल्य चिकित्स	शस्त्र चिकित्से
संवदेना- हरण विज्ञान	अबेदन बिज्ञान	संज्ञाहीन- करण	पङ्थहनवगी विज्ञान	संज्ञाहीन- करण विज्ञान	मत्तुमंदु- शास्त्रमु	उणर्चि इन्मैयाक्कुम्	संवेदनाहरण विज्ञानम्	अनस्तीशिया शास्त्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सिकाई	उष्णोपचार:	सेक	सिंकाई	टकोरुँ	सेकु	शेकण्याची क्रिया, शेक	शेक	शेकप, शेक मारप
अस्पताल	**चिकित्सालयः**	**हसपताल**	**दवाख़ाना**	**शफ़ाखानुँ**	**अस्पताल**	**इस्पितळ**	**इस्पिताल, होस्पिटल, दवाखाना**	**आस्पत्री, ओश्पिताल**
विभाग	विभागः	**विभाग**	**शोबा**	**हातु**	**विभागु**	**विभाग**	**विभाग**	**विभाग**
अंतरंग-विभाग	आभ्यंतर-विभाग:	अंतरंग विभाग	इनडोर डिपार्टमेन्ट	अंदर्युम निज़ाम (हातुँ)	अंदरियों/ अंदिर्यों विभागु	आतला विभाग	अंतरंग विभाग	अंतरंग विभाग
आपरेशन-कक्ष	शल्यक्रिया-कक्ष	अपरेशन थेटर	आपरेशन थियेटर	आपरेशन-रूम	आपरेशन रूम	शल्यक्रियेची खोली	ऑपरेशन थियेटर	ओपेरासांव-कूड (कक्ष)
एक्सरे-विभाग	क्षरश्मि-विभाग:	ऐकसरे विभाग	एक्सरे डिपार्टमेन्ट	अकसरे-हातुँ	एक्सरे विभागु	'क्ष'-किरण विभाग	एक्सरे विभाग	क्ष-किरण विभाग
आपात-विभाग	आपद्विभाग:	कैजुयलटी विभाग, आपात विभाग,	शोबए हादेसाते इत्तेफ़ाक़ी	केजवल्टी-हातुँ	दुर्घटना विभागु	दुर्घटना विभाग, अपघात विभाग	अकस्मात विभाग	अपघात विभाग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सेकाइ	सैक देओया सेंका	सेक दिया, सेकन	हिगा यैबा, मै याइबा	सेक	कापटमु	ऑत्तड्म	आवि पिटिक्कल्	शाख कोडुवुदु
अस्पताल	**हासपाताल, चिकितसालय**	**हॉसपाताल, चिकित्सालय**	**अना लाइयेङशङ्, होस्पिपाल**	**आसपाताल, हसपाताल, डाक्तरखाना**	**आस्पत्रि**	**मरुत्तुव मनै, आस्पत्तिरि**	**आशुपत्रि**	**आस्पत्रे**
विभाग	**विभाग**	**बिभाग**	**विभाग, लोइशङ्**	**बिभाग**	**शाखँ**	**इलाका/ पिरिवु**	**विभागम्, वकुप्पुं**	**विभाग**
अंतरङ्ग विभाग	अंतर्विभाग, इन्डोर	अंतरंग बिभाग	लाइशङ्, विभाग	अंतर्बिभाग	अंतरँग शाखँ	उळ् नोयाळर् पगुदि	इन्पेषन्ट् विभागम्	वळरोगि विभाग
अपरेशन कक्ष	अपारेशन कक्ष (क्ख)	अस्त्रोपचार कक्ष	आई.पी.डी.	अपरेसन- कक्ष, अस्त्रोपचार गृह	आपरेषनु गदि	रणचिकिच्चै- पिरिवु	शस्त्रक्रियाशाल, ओपरेषन तियेट्टर्	आपरेशन कोणे
एक्सरे विभाग	एक्सरे विभाग	एक्सरे विभाग	एक्सरे लोइशङ/ एक्सरे विभाग	एक्सरे विभाग, रंजन- रश्मि विभाग	एक्सरे शाखँ	ऍक्सरे पिरिवु	ऍक्सरे विभागम्	ऐक्सरे विभाग
आपात विभाग	क्याजुयेलटि विभाग, आकस्मिक दुर्घटना बिभाग	आकस्मिक दुर्घटना- विभाग	कैजुअल्टी लोइशङ् (विभाग)	काजुएल्टि बिभाग, आपतकालीन बिभाग	कैजुअल्टी शाखँ	अवसर चिकित्च्चै पिरिवु	काष्वालिट्टी विभागम्	अपघात विभाग

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दंत चिकित्सा-विभाग	दंतचिकित्सा-विभाग:	दंदचिकितसा विभाग	शोबए-अमराज़े-दंदाँ	दंदुॅ यलाज-हातुॅ	ड॒ंद-इलाजु विभागु	दंतचिकित्सा विभाग	दंतरोग तपास विभाग	दांत वैजकी विभाग
नसबंदी-विभाग	नाडीबन्ध-विभाग:	नसबंदी विभाग	शोबए-नसबंदी	नसबँदी मॅहकमु	नसबंदी विभागु	नसबंदी विभाग	नसबंधी विभाग	नसबंदी विभाग
नाक, कान और गला विभाग	नासिका, कर्ण कण्ठ-विभाग:	नक-कन्न-गला विभाग	शोबए-अमराज़े-नाक, कान व गला	नस, कन-तुॅ हट्युक-हातुॅ	नकु, कनु ऐं गलो विभागु	नाक, कान, घसा विभागु	नाक, कान तथा गळांनो विभाग	नाक, कान, गळ्या-विभाग
नेत्ररोग विभाग	नेत्र-चिकित्सा विभाग:	नेतर-रोग विभाग	शोबए-अमराज़े-चश्म	अॅछ दॉद्य-हातुॅ	नेत्ररोग विभागु	नेत्ररोग विभाग	आंखनां-रोगोनो विभाग	नेत्ररोग विभाग
पुनःस्थापन विभाग	पुनःस्थापन-विभाग:	पुनर सथापण विभाग	शोबए-बहालियत (दुरुस्ती)	बहॉली हातुॅ	पुनर्स्थापन विभागु	पुनःस्थापन विभाग	पुनःस्थापन विभाग	पुनर्वसणूक विभाग
प्रसूति विभाग	प्रसूतिविभाग:	प्रसूती विभाग	शोबए-ज़चगी (मेटरनिटी वार्ड)	लोसुॅ वाड	वियम विभागु	प्रसूति विभाग	सुवावड विभाग	प्रसूती विभाग, बाळंटेर विभाग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दंतु चिकित्सा विभाग	दंत चिकिंत्सा विभाग	दंत चिकित्सा विभाग	या लाइयेङशङ	दंतचिकित्सा बिभाग	दंत वैद्य शाखे	पल् वैद्यप्पिरिवु	दंतचिकित्स विभागम्	दंतचिकित्सा विभाग
बंध्या-करण विभाग	निर्बीजकरण बिभाग, बंध्याकरण बिभाग	बंध्याकरण विभाग	नसबंदी लोइशङ्	बंध्याकरण बिभाग	गर्भ निरोध शाखे	कुडुंबक्क-ट्टुप्पाडु अरुवै पिरिवु	वंध्यंकरण विभागम्	कुटुंब नियोजने आपरेशन विभाग
नाक, कान एवम् गला विभाग	नाक, कान एबं गला विभाग	नाक, कान, कंठ विभाग	इ.एन.ती. विभाग, नाकोङ, नातोल खौरी लाइयेङशङ	नाक, कान ओ गला बिभाग	ई.एन.टी. शाखे	कादु, मूक्कु, तॉण्डै पिरिदु	चेवि, नासिक गळ विभागम्	मूगु, किवि मत्तु गंटलु विभाग
नेत्ररोग विभाग	चक्षुचिकित्सा बिभाग (क्ख)	नेत्ररोग बिभाग	मीत लाइयेङ्शङ्	चक्षुरोग बिभाग, नेत्ररोग बिभाग	नेत्र वैद्य शाखे	कण् वैद्दियप्पिरिवु	नेत्ररोग विभागम्	नेत्र चिकित्सा विभाग
पुनर्स्थापन विभाग	पुनःस्थापन बिभाग	पुनःस्थापन बिभाग	हन्ना लैताहनबा विभाग	प्रतिरोपण बिभाग	पुनःस्थापन शाखे	मरुवाळ्क्कै वशदिप्पिरिवु	पुनर्वास विभागम्	पुनर्वास विभाग
प्रसूति विभाग	प्रसूति बिभाग	प्रसूति बिभाग	चाबोक पीगी लोइशङ् (विभाग)	प्रसुति बिभाग	प्रसूति शाखे	मक्कट्पेरु पिरिवु	प्रसूति विभागम्	हेरिग विभाग

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बहिरंग विभाग	बाह्यरोगि-विभाग:	बहिरंग विभाग	आउट-पेशन्ट डिपार्टमेन्ट	न्यॅबरिम्यन-ब्यमारन-हुंद हातुॅ	ब॒ाहरियों/बाहियों विभाग॒ु	बाह्य रुग्ण विभाग	बहिरंग विभाग	बाह्य रुग्ण विभाग
बाल रोग विभाग	बालरोग-विभाग:	बालरोग विभाग	शोबए-अमराज़े-तिफ़्लाँ	शुर्यु ब्यमारि-हातुॅ	बालरोग॒ विभाग॒ु	बालरोग विभाग	बाळरोग विभाग	बाळरोग विभाग
भौतिक चिकित्सा विभाग	कायचिकित्सा-विभाग:	भौतिक चिकितसा विभाग	शोबए-तबीओयाती इलाज (फिज़्योथेरापी)	तबीयाती-यलाजुक-हातुॅ	भौतिक चिकित्सा विभाग॒ु	भौतीक चिकित्सा विभाग	भौतिक चिकित्सा विभाग	भौतीक उपचार विभाग
मनोविकार चिकित्सा विभाग	मानसरोग-विभाग:	मनोविकार चिकितसा विभाग	शोबए-इलाजे-नफ़सियात	नफसियॉती-यलाजुक-हातुॅ	मानसिक इलाज विभाग॒ु	मनोरुग्ण चिकित्सा विभाग	मानसरोग विभाग	मनोविकार चिकित्सा विभाग
मानसिक रोग विभाग	मानसरोग-विभाग:	मनोरोग विभाग	शोबए-अमराज़े-दिमाग़	द्यमॉगी-ब्यामार्यन-हुंद हातुॅ	मानसिक रोग॒ विभाग॒ु	मानसिक रोग विभाग	मानसरोग विभाग	मानसीक रोग विभाग
वार्ड	**रुग्णकक्ष:**	**वारड**	**वार्ड**	**वाड, हातु**	**वार्ड॒ु**	**वॉर्ड, रोगी कक्ष**	**वॉर्ड**	**हॉस्पिटलांतलो विभाग, वॉर्ड**

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बहिरङ्ग विभाग	बहिर्बिभाग, आउट डोर	बहिरंग बिभाग	ओ.पी.डी.	बहिरंग विभाग, बहिर्विभाग	बहिरंगरोगुलशाखे	वंळि नोयाळर् पिरिवु	ओ.पि. विभागम्	होर रोगि विभाग
बालरोग विभाग	बालरोग बिभाग, शिशु-रोग बिभाग	शिशुरोग बिभाग	अङाङ लायेङ्शङ्	बालरोग बिभाग, शिशुरोग बिभाग	शिशुवैद्य शाखे	कुळदै नोय् पिरिवु	बालचिकित्सा विभागम्	मक्कळ चिकित्सा विभाग
भौतिक उपचार विभाग	भौतिक चिकित्सा बिभाग	भौतिक चिकित्सा बिभाग	हकचांङ् लायेङ्शङ् फिजिओ थेरापी विभाग	भौतिक चिकित्सा बिभाग	भौतिकि चिकित्से शाखे	उडल् मरुत्तुव पिरिवु	भौतिक चिकित्सा विभागम्	भौतिक चिकित्सा विभाग
मनोविकार-चिकित्सा विभाग	मनोबिकार चिकित्सा बिभाग	मनोविकार चिकितसा बिभाग	अङाओबा लाइयेङशङ् साइक्यिात्रिक विभाग	मनोबिकार चिकित्सा बिभाग	मनोव्याधि चिकित्से शाखे	मन इयल् पिरिवु	मनोविकार चिकित्सा विभागम्	मनोविकार चिकित्सा विभाग
मानसिक रोग विभाग, मनोरोग विभाग	मानसिक रोग बिभाग	मानसिक रोग विभाग	वाखल लायना लायेङफम	मानसिक रोग बिभाग	मनारोग शाखे	मन इयल् पिरिवु	मानसिक रोग विभागम्	मानसिक रोग विभाग
वार्ड (अस्प-तालको विभाग वा कक्ष)	**वार्ड**	**वार्ड, कोठा, प्रकोष्ठ**	**वार्ड**	**रोगी रहिबा कक्ष**	**वार्डु**	**वार्डु**	**वार्ड्**	**वार्डु**

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विकलांग विभाग	विकलाङ्ग-विभागः	टुटंग विभाग	शोबए-माज़ूरीन	अंगुँहीन्यन-हुंद हातुँ	विकलांग विभागु	अंगहीन विभाग, विकलांग विभाग	अपंग विभाग	विकलांग विभाग
विकृति विज्ञान विभाग	विकृतिविज्ञान-विभागः	बिगाड़ विगिआन विभाग	शोबए-इल्मुल अमराज़ (पैथोलोजी)	इलमुल-अमराज़-हातुँ	विकृती-विज्ञान विभागु	विकृती विज्ञान विभाग	विकृति विज्ञान विभाग	विकृती विज्ञान विभाग
शल्य चिकित्सा विभाग	शल्यचिकित्सा-विभागः	जराही विभाग	शोबए-जर्राही (सर्जरी)	सॅरजिकल-वाड	जराही सरजिकल विभागु	शल्य चिकित्सा विभाग	शल्य चिकित्सा विभाग	शल्य चिकित्सा विभाग
शवगृह	शवगृहम्	मुरदेख़ाना, लोथघर	मुर्दा-ख़ाना	लाशि-गरुँ, मौंरदुँ-खानुँ	मुर्दाघरु, लाश-घरु	प्रेतागार	शवघर, मुडदाघर	मड्यांकूड, शवागार
स्त्री-रोग विभाग	स्त्रीरोग-विभागः	इसत्री-रोग विभाग	शोबए-अमराज़े-निस्वाँ	ज़नानुँ-दॉद्य-हातुँ	स्त्री-रोगु विभागु	स्त्री-रोग-विभाग	स्त्री-रोग-विभाग	अस्तुरी रोग विभाग
पदनाम	**पदनाम**	**ओहदे**	**ओहदा**	**ओंहदुँ नाव**	**ओहदो, पद-नालो**	**पदनाम**	**पदनाम**	**पद**

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विकलाङ्ग विभाग	बिकलांग विभाग, प्रतिबंधी बिभाग	बिकलांग बिभाग	नाम सोइनाइवगी लोइशङ् (विभाग)	बिकलांग बिभाग	विकलांगॆ शाखॆ	ए॑लुंबु चिकिच्चै पिरिवु	विकलांग विभागम्	विकलांग विभाग, अंगविकलर विभाग
विकृति विज्ञान विभाग	बिकृति बिज्ञान बिभाग	बिकृति बिज्ञान बिभाग	पैथोलोजी लोइशङ्	बिकृति बिज्ञान बिभाग, पागलखाना	विकारॆ शास्त्रॆ शाखॆ	नोय्कुरि- इयल् पिरिवु	रोग लक्षण विभागम्	विकृति शास्त्र विभाग
शल्य चिकित्सा विभाग	शल्य चिकित्सा बिभाग (ल्ल)	शल्य चिकित्सा बिभाग	सर्जरी लोइशङ्	शल्य चिकित्सा बिभाग	शस्त्रॆ चिकित्सॆ शाखॆ	रण चिकिच्चै पिरिवु	शल्य चिकित्सा विभागम्	आपरेशन् विभाग
शवगृह	शब गृह	शव गृह, मरा-श-घर, शगृह	मोग	शबगृह	शवगृहमु	शवक् किडंगु	शवगृहम्	शवगृह
स्त्रीरोग विभाग	स्त्री-रोग बिभाग	स्त्री-रोग बिभाग, नारीरोग बिभाग	नुपीगी अना लाइयेङ्शङ्	स्त्री रोग बिभाग	स्त्री रोगॆ शाखॆ	मगळिर् नोय पिरिवु	स्त्री रोग- चिकित्सा विभागम्	स्त्रीरोग विभाग
ओहदा, पद	**पोस्ट, पदनाम**	**पोस्ट, पदनाम, डाकनाम**	**फम**	**पोस्ट, पदवी**	**पदवुलॆ पेवर्लु**	**पदविप्पंयर्**	**उद्योगप्पेरुॅ**	**हुद्दे**

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अंत:शिक्षु	प्रशिक्षु:	अंदर-सिखिआरथी	इंटरनशिप-वोल	इंटरनशिप-वोल	अंदर-सिख्यार्थी	अंतशिक्षु	अंत:शिक्षु	शिकवण घेवपी उमेदवार कामगार
काय-चिकित्सक	कायचिकित्सक:	काइआ-चिकितसक	मुआलिज, तबीब (मेडिकल प्रेकटिशनर)	बदन दॉद्य डाखटर	काया-चिकित्सक	चिकित्सक	कायपरीक्षक	दोतोर, पिडेस्ताची तपासणी करपी
तंत्रिका-विज्ञानी	नाडीविशेषज्ञ:	तंदड़ी विगिआनी	माहिरे आसाबियात	नीरोलाजिस्ट	तंत्रिका-विज्ञानी	तंत्रिका तज्ञ	तंत्रविज्ञानी	तंत्रिका विज्ञानी, नेरवां-पिडेचो वैज
दंत चिकित्सक	दंतचिकित्सक:	दंद चिकितसक	मुआलिजे-दंदाँ	दंद दॉद्य-डाखटर	डुंदनि जो डाक्टरु, दंदान्साज़	दंत चिकित्सक	दांतना दाक्तर	दांतांचो दोतोर
दाई	धात्री	दाई	दाई (दाया)	दाय	दाई	सुईण	दाई, दायण, सुवाणी	वैजीण
नर्स	परिचारिका	नरस	नर्स	नॅरॅस	नर्स	नर्स, परिचारिका	नर्स, परिचारिका	नर्स
निवासी-सर्जन	निवासिशल्य-चिकित्सक:	रिहाइशी सरजन	रेज़िडेन्ट सर्जन	हस्पतालस-मंज़, रोज़न-वोल सॅरजन	निवासी सर्जन	निवासी शल्य चिकित्सक	निवासी सर्जन	राबितो करपी सर्जन, कामाचे सुवातेर रावपी सर्जन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंत:शिक्षु, इन्टर्न	अंतरित छात्र, शिक्षानविस छात्र	अंत:शिक्षु	पुक्नुङ्गी अङाङ्	शिक्षानवोस	अप्रेंटिसु	पयिऱ्चियाळर्, अप्रेन्टिस्	अप्रेन्टिस्	इंटर्निशिप
भिषक, चिकित्सक, फिजिशियन	काय-चिकित्सक	काय-चिकित्सक	आयुर्वेदगी लाइयेङ मखल अमा	काया चिकित्सक, ड़ात्कर	फिज़िशियनु, डाक्टरु	मरुत्तुवर्, डाक्टर्	कायचिकित्सकन्, फिसिष्यन्	वैद्य, फिजिशियन्
स्नायुविद्	स्नायु बिज्ञानी	तंत्रिका-बिज्ञानी	नैरोलोजिस्ट, शिङ्लि नाउरीगी मरमदा निङ्थिना खङ हैबा मी	तंत्रिका बिज्ञानी, स्नायु विज्ञानी	नरालॆ डाक्टरु	नरंबु इयल् मरुत्तुवर्	तंत्रिका विज्ञानी, ञरंपुरोग विदग्धन्	नर विज्ञानि
दंत चिकित्सक	दंत-चिकित्सक	दंत-चिकित्सक	या लाइयेङ्बा मी	दंत चिकित्सक	पंड्लॆ डाक्टरु, दंतॆ वैद्युड्डु	पल् वैद्दियर	दंतचिकित्सकन्, दंत वैद्यन्	हल्लिनडाक्टरु, दंत वैद्य
धाई	दाई, धाई, दाईमा, छात्री	धाई	योकचबी, खोमइनबी	धाई	दादि	मरुत्तुवच्चि, आया	वयट्टाट्टि, सूतिकर्मिणि	दादि
नर्स, उपचारिका	नर्स, सेबिका	धाइ, नार्च	नर्स	नर्स, सेविका	नर्सु	सॆविलि	नर्स, परिचारिक	नर्स्
निवासी सर्जन	आबासिक सर्जन	निबासी चिकित्सक	रजिडेन्ट सर्जन	निबासी सर्जन, आबासि चिकित्सक	रॆसिडॆंट सर्जनु	रॆजिडेन्ट सर्जन्, (आस्पत्तिरियिलेये तॅंगियिरुक्कुम मरुत्तुवर्)	रसिडन्ट् सर्जन्	रैसिडॆंट् सर्जन्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नेत्र विशेषज्ञ	नेत्रविशेषज्ञ:	नेतर विशेशग्ग	माहिरे-अमराज़े-चश्म	अॅछन हुंद मॉहिर	अखियुनि जो माहिर	नेत्र विशेषज्ञ	नेत्ररोग निष्णात, आंखना खास दाक्तर	नेत्र विशेशज्ञ
भौतिक-चिकित्सक	काय-चिकित्सक:	भौतिक चिकितसक	तबीओयाती मुआलिज	शरीर-दाद्युक-मॉहिर	भौतिक चिकित्सक	भौतिक चिकित्सक	भौतिक चिकित्सक	भौतीक चिकित्सक
मनोविकार-विज्ञानी	मनोरोग-चिकित्सक:	मनोविकार विगिआनी	माहिरे-अमराज़े-नफ़्सियात	नफसियॉती-दाद्युक-मॉहिर	मनोविकार विज्ञानी	मनोविकार तज्ज्ञ	मानसशास्त्री	मनोविकार विज्ञानी
वार्ड-बाल-सेवक (वार्ड ब्वाय)	उपचार-सहायक:	वारड सेवक	वार्ड ब्वाय	वाड बाय	वार्ड-बाल-सेवक, वार्डबाय	वॉर्ड-बाल-सेवक, रोगिकक्ष-बालसेवक, वॉर्ड बॉय	वॉर्ड बोय	वॉर्ड बॉय, सेवेकार
विकिरण-चिकित्सक	विकिरण-चिकित्सक:	विकिरन चिकितसक	रेडियो थेरापिस्ट	ज़ॅचुं यलाजुक-डाखटर	विकिरण चिकित्सक	किरण-विसर्जन चिकित्सक	विकिरण चिकित्सक	विकिरण चिकित्सक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नेत्र विशेषज्ञ	चक्षु रोग बिशेषज्ञ	नेत्र-विशेषज्ञ	मीत अमदि मीत की लाइनागी मरम दा खङबा मी	नेत्र (चख्यु) बिशेषज्ञ, आखि रोग विशेषज्ञ	कंड्ल̄ डाक्टरु, नेत्रॆ वैद्युडु	कण् वैद्दिय निपुणर्	नेत्ररोग विदग्धन्, कण् डाक्टर्	कण्णिन डाक्टरु, नेत्र विशेषज्ञ
भौतिक चिकित्सक	भौतिक-चिकित्सक	भौतिक चिकित्सक	हकचाङ् लाइयेङबामी	भौतिक चिकित्सक	भौतिकॆ वैद्युडु	मरुंदियल् मरुत्तुवर्	भौतिक चिकित्सकन्, फिसियो थेरपिस्ट्	फिसियो थॅरपिस्ट्
मनोरोग चिकित्सक	मनोबिकलन बिज्ञानी	मनोविकार बिज्ञानी	अङाउ-लाइयेङ्बा मी	मनोबिकार बिज्ञानी	मनोरोगॆ वेत्तॆ	मन नोय् वैद्दिय निपुणर्	मनोरोग विदग्धन्	मनोविकार विज्ञानि
वार्ड-सेवक, वार्ड बाय	ओवार्ड बय	वार्ड बय, कक्ष सहायक	वार्ड बोय, वार्डकी अङाङ्	बार्ड सेबक (वार्ड बय)	बार्ड बाय	वार्डु पैयन्	वार्ड्-बाय्	वार्ड् बाय्
विकिरण चिकित्सक	रश्मि बिकिरण चिकित्सक	विकिरण चिकित्सक	रेडियो थेरापिस्ट	बिकिरण चिकित्सक	रेडियालाजिस्टु	कदिरियक्क चिकिच्चै निपुणर्	विकिरण चिकित्सकन्, रेडियोलजिस्ट्	रेडियम् चिकित्सक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
संज्ञाहरण-विज्ञानी	संज्ञाहर-विशेषज्ञ:	सुन्नक विगिआनी	माहिरे-तख़दीरियात	बेहोश-करनुक-मॉहिर, अनस्थीसिस्ट	संज्ञाहरण-विज्ञानी	चेतनाहरण-तज्ज्ञ	बेभान (बेहोश) करनार निष्णात	भेरावणी-विज्ञानी, शस्त्र क्रिया करचे आदी पिडेस्ताक तपासून गुंगी दिवपी वैज
सर्जन	शल्य-चिकित्सक:	जराह, सरजन	सर्जन	सॅरजन	सर्जन	शस्त्र क्रिया तज्ज्ञ	सर्जन, सरजन, शस्त्रवैद्य, वाढकापनुं खास काम जाणतो दाक्तर	सर्जन, ऑपरेशन करपी वैज
स्टाफ नर्स	उपचारिका	सटाफ नरस	स्टाफ़ नर्स	स्टाफ-नॅरुस	स्टाफ़ नर्स	कर्मचारी, परिचारिका	स्टाफ नर्स	स्टाफ नर्स, तेंको दितली आया
स्त्री रोग विशेषज्ञ	स्त्रीरोग-चिकित्सक:	इसत्री-रोग विशेशग्ग	माहिरे-अमराज़े-क़ल्ब	ज़नानुं दाद्यन-हुंद मॉहिर	स्त्री रोगु-माहिर	स्त्री-रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञ दाक्तर	स्त्री-रोग निष्णात, स्त्रीओंना खास दाक्तर	अस्तुरी रोग विशेशज्ञ
हाउस सर्जन	आवासिशल्य-चिकित्सक:	हाउस सरजन	हाउस सर्जन	हउस सरजन	हाऊस सर्जन	स्थानिक शल्य चिकित्सक	हाऊस सर्जन	हाउस सर्जन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संज्ञाहरण-विज्ञानी	अबेदन बिज्ञानी, एनासथिसिस्ट्	संज्ञाहरण बिज्ञानी	शिथहन्बगी डॉक्टर	संज्ञाहरण बिज्ञानी, निश्चेतना-बिज्ञानी	मतुमंदु इच्चे डाक्टरु	मयक्क मरुंदु कोडुप्पुवर/ उणर्चियिन्मै सेयल् निपुणर्	संवदेनाहारकन् (अनास्तिटिस्ट्)	अनास्तिटिस्ट्
शल्य चिकित्सक, सर्जन	सर्जन, शल्य चिकित्सक	चार्जन, चिकित्सक	सर्जन	सर्जन, चिकित्सक	सर्जनु	अरुवै चिकिच्चै निपुणर्	सर्जन्, शल्य चिकित्सकन्	सर्जन्, शस्त्र चिकित्सक
स्टाफ नर्स	स्टाफ नर्स	ष्टाफ नार्छ, कर्मचारी नार्छ, धाइ	स्टाफ नर्स	ष्टाफ नर्स, कर्मचारी सेविका	स्टाफ नर्सु	स्टाफ् नर्स्	स्टॉफ नर्स्	स्टॉफ नर्स्
स्त्रीरोग विशेषज्ञ	स्त्री-रोग बिषेषज्ञ	स्त्री-रोग विशेषज्ञ	नुपी लाइना लाइयेङ्बामी गायनी डॉक्टर	स्त्री-रोग विशेषज्ञ	स्त्री रोग निपुणुलु	मगळिर, नोय् निबुणर्	स्त्रीरोग विदग्धन्	स्त्री रोग तज्ञ
हाउस सर्जन	हाउस सार्जन	हाउच चार्जन, भवन शल्य चिकित्सक	हाउस सर्जन	हाउस सर्जन	हाउस सर्जनु	हवुस् सर्जन्	हौस् सर्जन्	हौस् सर्जन्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हृदयरोग विशेषज्ञ	हृच्चिकित्सकः	हिरदारोग विशेशग्ग	माहिरे-अमराज़े-क़ल्ब	वॉलिंजि दाद्युक मॉहिर	दिल जे बीमारियुनि जो माहिर	हृद्रोग विशेषज्ञ, हृद्रोग तज्ज्ञ	हृदय रोग निष्णात, हृदय रोगना खास दाक्तर	हृदय रोग विशेशज्ञ
औजार	उपकरणानि	औज़ार	औज़ार	अवज़ार, हॅथ्ययार	औज़ार	औजार	औज़ारो	आवतां
आरी	क्रकचः, करपत्रम्	आरी	आरी	लितुॅर	काराई, आरी	लहान करवत	नानी करवत, करवती	खरवत
उस्तरा (उस्त्रा)	क्षुरः	उसतरा	उस्तरा	खूर	पाकी, उस्तरो	वस्तरा	अस्तरो, अस्त्रो	वाखर
कुदाली	कुद्दालः	कही	कुदाली	टोंगुर	कोड॒रि	कुदळ	कोदाळो	कुदळ
कुल्हाड़ी	कुठारः, परशु	कुहाड़ी	कुल्हाड़ी	तबुॅर	कुहाड़ी	कुर्हाड	कुहाडी	कुराड
कुसी (फाल)	कुशिलः	फाल	फाल	आलुॅ फाल	फारु, फाल़	नागराचा फाळ	फाळ	भेतो, सूळ
कैंची	कर्तरी	कैंची	क़ैंची	म्यकराज़, कैंची	कैंची	कात्री	कातर	कातर
खुर्पा (खुर्पी)	खुरप्रम्	खुरपा (खुरपी)	खुर्पा (खुर्पी)	ख्रोंपुॅ	खुरिपी, खुर्पी	खुरपें	खूरपी, खरपडी	खुरपें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हृदयरोग विशेषज्ञ	हृद्रोग बिशेषज्ञ	हृद्रोग विशेषज्ञ	थम्मोइगी लाइनागी मरमदा खङहैबा मी	हृदरोग विशेषज्ञ	हृदय रोग वेत्त	इदय नोय निपुणर्	हृद्रोग विदग्धन्	हृदय रोग तज्ञ
औजार, ज्याबल	**यंत्रपाति ओ सरञ्जाम (ज)**	**सरंजाम उपकरण**	**खुत्लाई**	**सरंजाम एवं उपकरण**	**परिकरमुलु, कॉरमुट्लु**	**करुविगळ्**	**पणि आयुधङ्ङळ्**	**उपकरण**
आरा, करौंदी	करात	करत	होराइ	करत	चेरंपमु	रंबम्	ईर्च्चवाळ्, अऱुप्पुवाळ्	गरगस, करगस
छुरा, उस्तरा	क्षुर (खु)	खुर (क्षुर)	खूर	खुर	मंगलि कत्ति	सवरक्कत्ति	क्षौरक्कत्ति	क्षौरद कत्ति
कोदालो	कोदाल	कोर	योत्पाक्	कोदाल	गुद्दलि	पिक्कासु	कूँतालि	गुद्दलि
बञ्चरो	कुडुल	कुठार	शीङ्जङ्	कुराह्ड़ी	गॉड्डलि	कोडालि	कोटालि	कोडलि
फाली, फाल	फाल	फाल	गैरंती, योतकी लाङ्गोल मचीन	लंगल-लुहा	नागलि कर्रु, पलुगु	एरिन् कॉळु	कलप्पमुन	उळि
कैंची	काँचि, काँइचि	कँची	काती	कतुरी, कइंची	कर्त्तर	कत्तरिक्कोल्	कत्रिक	कत्तरि
खुर्पा (खुर्पी)	खुरपी	खुर्पि, खंति	खुरपी	खुर्पा (खुरपी)	दोकुडुपार	उळ्वारम, कळैक्कॉट्टु	कळमांति	कुरपि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
छैनी	आरक:	छैणी	छैनी, टांकी	छॉन्य	छेणी	छिन्नी	चुनाळुं	विन्नें
पेचकस	कर्षण:	पेचकस	पेंचकश	पेचकश	पेचकश	स्क्रू ड्राइव्हर	स्क्रू ड्राईवर, पेचियुं	स्क्रू ड्राइव्हर, दिशपीश
बेलना (बेल्चा)	वेल्लन:	वेलणा	बेलचा	बील्यचि, बेल	बेल्चो, वेलणु	लाटणे, बेल्चा	वेंलण	लाटणी, लाटणे
फावड़ा	टङ्क:, खनित्रम्	फौहड़ा	फावड़ा	फोहरु	फावड़ो	खोरे, फावडे	पावडो	खोरें
रंदा	तक्षणी	रंदा	रंदा	रंदुं	रंदो	रंधा	रंदो, रंधो	रंधो, किसूब्ठ
रंभा (खंती)	लोहदण्ड:	रंबा	रंबा	तोर	रंबो, पाराई	टिकाव	कोश	पारय
रिंच	वर्तक:	रैंच	रिंच	रेंच	पानो, रिंच	पाना	पानुं	पानो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छेनी	छेनी	छेनी	पाइज मखल अमा	छेणी	शानमु, उलि	उळि	उळि	उळि
पेचकस	स्क्रू ड्राइभार, पेचकस	पेचकस	स्क्रू ड्रायवर	पेचकस	स्क्रू ड्राइवरु	तिरुप्पुळि	स्क्रू ड्रैवर, पिरिमुरुक्कि	स्क्रूड्रैवर
बेल्चा	बेलुन, बेलना	बेल्ना, चाकति	–	बेल्चा	अप्पडाले कर्र	अप्पळा-क्कुऴवि चप्पात्ति कुऴवि	चप्पात्ति क्कुऴवि	लट्टणिगे
कोदाली	फाओड़ा, कोदाल	कोर, कोदाल	योत्पाक्	फाउड़ा, कोदाल	पार	मण्वेट्टि	तूंप	सलिगे
रण्डा, रंदा	रँयादा, रेंदा	रांदा, रेंदा	अरामदार	रंदा	बाडिसे	इळैप्पुळि	चीवुळि, चिंतेरुँ	हत्तरित, रंदा
खंती	खुंती	खुंती कैंची चिपाङ्	तोक्, मखुल हुतनबा योतचै	खणति	गुनपमु, गड्डे पार	पिक्कासि	तूंप	पिकासी, गुटळी
रिञ्च	रेञ्च्	रेन्स	रैंच, लैखतनबा अमदि चिङ-थोकनबा खुलाइ अमा	रेंची	रिंचि	तिरुहु-कुरडु	कट्टमुरुक्कि	रिंच्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रुखानी	तक्षिका	निहाणी	रुखानी	पोंन	छेणी, रुखानी	पटाशी	छीणी, रुखानी	चिन्नें
रेती	लोहतक्षिका	रेती	रेती	फॅहरुॅवाव	रेती	कानसी, कानस	कानस	कानस
संडसी (संडासी)	सन्दंश:	सन्नी (सन्नही)	संडासी	जोंबूरु	जंबूरी, संडासी	सांडशी	साणशी (साणसी)	पकड, सांडशी
सरौता (सरोता)	शङ्कुला	सरौता	सरौता	सुफॉर्य-चटनुक-श्रापकुच	सरौतो	आडकित्ता	सरोतो, सूडी, सूडो	आडकाती, आडकातयो
सुई	सूची	सूई	सूई	सुॅचन	सुई	सुई	सोय	सूय
हँसिआ	दात्रम्	दात, दात्री	दरांती, हंसिया	द्रोत	डा॒टो	विळा, कोयता	दातरडुं	हिळ्ळो, विळ्ळो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काठको सतह मिलाउन्, काट्न् र प्वाल पार्न्का लागि सिकर्मीले प्रयोग गर्ने औजार	छुतोरेर यंत्र विशेष, छोला, काटा ओ छिद्र करा हय (ज)	सरुबटालि	पाइज	निहण	उलि	उळि	उळि	मरद उळि
रेती	रेति, उखा	रेति	रेती	रेंथी	आकुरायि	अरम्	पर्क्कवाळ्, अरम्	अर
सँडसी	सॉड़ाशि	चेपेना	चेगम	संडुआसी	पटकारु	कुरडु, इडुक्कि	चॅरिय चवण, चॅरिय कॉटिल्	इक्कळ
सरौतो	जाँति	चोर्ता	क्वाजप	गुआकाति	अडकर्त्तर	पाक्कु वॅट्टि	पाक्कु वॅट्टि	अडकोत्तरि
सियो	छूँच, सूच	बेजि	येतुम	छुंची, सूची	सूदि	ऊशि	सूचि	सूजि
हँसिया, आँसी	बँटि	काँचि	थाङ्गोल	दा	कांडवलि	अरिवाळ्	अरिवाळ्	कुडुगोलु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हथौड़ा	घनः	हथौड़ा	हथौड़ा	डोंकुर	मुतरिको, मुतिर्को, हथौड़ो	हातोडा	हथोडो	तुतयो, हातोडो
हल	हलम्	हल	हल	आलुं, अलुंबॉन्य	हरु	नांगर	हळ	नांगर
उपकरण	**उपकरणानि**	**उपकरण, साजोसमान**	**साज़ो-सामान**	**सामानुं, असबाब**	**साज़-सामान**	**उपकरण**	**उपकरण**	**साज सरंजाम**
अंकुश	अङ्कुशः	अंकस	आंकस (कजक)	टोंग	कुंढी, अंकुश	अंकूश	अंकुश	अंकूश
कटार	कृपाणीः	कटार	कटार (नीमचा)	करतल, दॅशवुॅन्य अँन्दव तेज द्रोत	खंजर, छुरो, कटारी	कट्यार, खंजीर	कटार, कटारी	खंजीर
करघा	वेमा	खड्डी	करघा (खड्डी)	वोवुॅर्य वान	आडाणो	माग	साळ के तेनी पावडीनो खाडो	हातमाग
कील	कीलः	किल	कील	क्युल	कोको	खिळा	खीली, कांटो, खीलडो, चूंक	खिव्ळो
कोल्हू	निष्पीडकः	कोल्हू, कोलू	कोल्हू	तीलुॅवॉन्य-वान	घाणो	घाणा	कोलु, चिचोडो	घाणो
चरखा	सूत्रचक्रम्	चरखा	चरख़ा	यॅन्दुॅर	चर्खो	चरखा	चरखो, रेंटियो	चरखो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हतौडो, होत्रो	हातुड़ि	हातुरि	नुङ्धङ्	हातुडि	सुत्ते	सुत्तियल्	कोट्टुवटि	सुत्तिगे
हलो, हर	लाङ्गल, हाल	हाल, नाङल	लाङ्गोल	हल	नागलि	एर्	कलप्प	नेगिलु
उपकरण, औजार	**सरञ्जाम, उपकरण**	**उपकरण, उपादान**	**खुत्लाइ, पोत्लम्**	**उपकरण, सरंजाम**	**परिकरमुलु**	**सादनंगळ्**	**उपकरणम्**	**सलकरणे**
अङ्कुश	अङ्कुश, डाङगश	अंकुश, आँकुहि	शामु काती	अंकुश	अंकुशमु	अंकुशम्	अंकुशम्, तोट्टि	अंकुश
कटार, कटारी	काटारी, दा	कटारी	शोरी	कटुरी	कटारु, चिन्नकत्ति	पिच्चुवा, कटारि	कठार, कठारि	कठारि
करघा	ताँत (ताँत)	उघा-चेरेकी	योङ्घम	तँत	मग्गमु	तरि	तरि	कैमग्ग
कीलो, काँटी	पेरेक, काँटि	गँजाल	योत्पी	कीला	चील	आणि	आणि	मोळे
कोल	घानि (तेलेर)	घानी, तेलपेराकल	कोल्हू	घणा	गानुगं	चक्कु	चक्कुँ	गाण
चर्खा	चरखा, चरका	यँतर, चरखा	तरेङ्	चरखा	राट्नमु	इराट्टै	चर्क्क	चरक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चरस (मोट)	मोटः, चर्मद्रोणी	चरस	चरस	दालुव ठेलुं	चरस, खूह मां पाणी कढण लाइ चमिड़े जी पख़ाल	मोट, पखाल	कोस	पखाल
जाल	जालम्	जाल	जाल	ज़ाल	ज़ारी, ज़ारु	जाळ	जाल, जाळ	जाव्ठ
जीन (काठी)	पर्याणम्	काठी	जीन	ज़ीन, कॉठ्य	हनो, ज़ीन	खोगीर	जीन, घोडानुं पलाण	खोगीर, बसका
जुआ	योक्त्रम्, युगम्	जूआ	जुआ	यिपॅट	पाञारी	जोखड	हाथो (घंटीनो हाथो), झूंझरी, जुगार	जोत, जूं
ढिबरी	रोधनी	ढिबरी	ढिबरी	डिबुॅर	ढिबरी	पत्र्याची किंवा काचेची चिमणी	रेंटियामां लागती चामडानी अथवा मुंजनी गोळ चकती	मळसूद
तकला (तकुआ)	तर्कुटी	तकला	तकला	त्रकुन	टकली	चाती, टकळी	टांकणुं	चाकी, टकळी
दुर्मुट (दुर्मुठ)	दुर्मुटः	दुरमट	दुर्मट	दुरमठ	धमक, दुरमट	लोखंडी ढोकणी, सडक कुटण्याचे यंत्र	कडियानो रंदो (घो)	खुट्याचे पेटणें, चिकंदर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चरेस	सेचेर जुन्य ब्यवहृत चामड़ार बड़ो थलि (न्न)	पानी- अना चामरार मोना	लबुकता ईशिङ् चाइबदा शिजिन्नबा शउन खाओ	चमडा निर्मित बड थली, मुणा	मोट, तोलु संचि	कपिलै	तोल् संचि (वळ्ळं कोरुन्नतु)	चर्मद चील
जाल	जाल	जाल	लाङ्	जाल, जालेणी	वले	वलै	वल	बले
काठी	जिन	(घोंरार) जीन	जीन	जीन, घोड़ापिठिर आसन	जीनु	सेणम्	जीनि	कुदुरेय जीनु
जुवा	जोयाल, जूया (ललचा)	युँवली, उकनी	ज्वार	जुआली	काडि	नुगत्तडि	नुकम्	नोग
ढिब्री	लंप, डिबे, टेमि	माटिर चाकि	पोदोन	डिबिरि, डिबि	बरिणें	सुरै	पिरि, स्क्रू नटट्टु	नट्टु
तकुवा, टेकुवा (चर्खामा जडिएको टेको)	तकला, (तकुआ) टाकु, तक्लि	शला-काठि	तरेङ् मयोत	टाकुआ	कदुरु	कदिर्	तक्किळि	तकलि, कदिरु
धुर्पिस, धुर्मुस	दुरमुष	दुमुठीया	दुरमुस	धुरमुष	सम्मेट	दिमुशु	इटितटि इतियन्	दम्मसु, धुम्मसु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
धौंकनी	भस्त्रिका	धोकणी	धौंकनी, दमकुश	दमन-बस्तुॅ	धवणी/ धवणि	भाता	धमण	भातो, फुंकणी
निहाई	स्थूणा	अहरण, अहिरण	अहरन, निहाई	अॅहरन	संदाणि	ऐरण	एरण	ऐरण, धपटपट्टी
लगाम (करियारी)	प्रग्रहः	लगाम	लगाम, बाग	लाकम	लग़ामु	लगाम	लगाम	लगाम
हौदा	गजपीठिका	हौदा	हौदा	तगारुॅ, तगॉर्य, टठुॅज	हाथीअ जी पुठीअ ते रखियल खुलियल पालकी, हौदो	हत्तीची अंबारी, हौदा	अंबाडी	अंबारी
ऋतुएँ, काल, दिशा, समय आदि	**ऋतुकाल-दिक्-समयादीनि**	**मौसम, काल, दिशा, समा आदि**	**मौसम, ज़माना, अतराफ़, वक़्त वग़ैरह**	**मूसिम, काल, तरफ, वख वक़्त बेतरि**	**मुंदूं, वक़्तु, तरफ़ वग़ैरह**	**ऋतु, काळ, दिशा, वेळ इत्यादी**	**ऋतु, काल, दिशा वगेरे**	**ऋतू, काळ, दिका, वेळ इत्यादी**

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ढुङ्ग्रो (सुनारले प्रयोग गर्ने)	बाँकनल, हापर	भाती	मैकाम उतोङ्	कुंभारर हतिआर बिशेष	कालिमि तित्ति	तुरुत्तित	तीत्तुरुत्ति, उल	तिदि
फलामको ठोस टुका जसमाथि घनले फलाम इत्यादि धातुलाई ठोकठाक गारिन्छ	नेहाइ, नेयाइ	नियारि	योत्फाल	निहण	दागलि	पट्टरै	इरुंपुकल्लुं	अडिगल्लु
लगाम	लागाम	लागाम, लेकाम	खुर्जी, चुक्ली	लगाम	कळ्ळेमु	कड़िवाळम्	कटिञ्जाण्	लगामु
हौदा	हौदा, हाओदा	सरु पुरुरीबा, पानीर कुंड	शामु माथक्ता शाबा फमफम	पाणि कुंड़	अंबारि	अंबारि	अंबारि	अंबारि
ऋतु, काल, दिशा, समय इत्यादि	**ऋतु, दिशा, दिक्, समय इत्यादि**	**ऋतु, दिश, दिशा, समय, काल इत्यादि**	**ऋतुशिङ्, काल, माइकै मतम असिनचिङ्बा**	**ऋतु, दिग, समय इत्यादि**	**ऋतुवुलु, कालमुलु, दिशलु, समयमु मांदलैनवि**	**परुवंगळ्, कालंगळ्, दिशै, नेरम्, मुदलियवै**	**ऋतु, कालम्, दिश, मुतलायव**	**ऋतु, काल, दिक्कु, समय मुंतादवु**

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ऋतुएँ	**ऋतवः**	**मौसम**	**मौसम**	**मूसिम**	**मुंदूं**	**ऋतू**	**ऋतुओ**	**ऋतू, रुतू**
1. बसंत	वसन्तः	बसंत	बसंत, बहार	सोंथ, बहार	बसंतु, बहारु	वसंत	वसंत	वसंत रुतू
2. ग्रीष्म (गरमी)	ग्रीष्मः	हुनाल, गरमी	गरमी, गर्मी	ग्रुॅशिम, र्‌यतुॅकोल	ऊन्हारो	ग्रीष्म, उन्हाळा	ग्रीष्म (उनाळो)	गीम, उन्हाळो
3. वर्षा (बरसात)	प्रावृद्, वर्षा	बरखा, बारश, मींह	बरसात	वॅहराथ	बरसात	वर्षा, पावसाळा	वर्षा (चोमासुं)	पावसाळो
4. शरद् (जाड़ा, सर्दी, शीत)	शरद्	सिआला, सीत, सरदी	सर्दी, जाड़ा	वंदुॅ	सियारो, सर्दी	शरद्, हिवाळा, थंडी	शरद (शियाळो) (ठंडी), शीत, ठंडक, टाढ	हिंवाळो
5. हेमंत	हेमन्तः	पतझ़ड़	ख़िज़ाँ, पतझड़	हरुद, खज़ान	सरउ, ख़िंजां	हेमंत (पानखर)	हेमंत (पानखर)	पानझड
6. शिशिर	शिशिरः	सिआला, पाला	सरदी, जाड़ा	शिशुर	सियारो	शिशिर	शिशिर	शिंयाळो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऋतु	**ऋतु**	**ऋतु**	**ऋतुशिङ्**	**ऋतु**	**ऋतुवुलु**	**परुवंगळ्**	**ऋतुक्कळ्**	**ऋतुगळु**
वसंत्	बसंत, ऋतुराज	बसंत्	बसंत, येननिङ् था	बसंत	वसंतमु	इळवेनिर् कालम, वसंत कालम्	वसंतम्	वसंत
ग्रीष्म्	ग्रीष्म (श्श), गरमकाल	ग्रीष्म, जह् जह-कालि	कालेन था	ग्रीष्म (गरम)	ग्रीष्ममु, वेसवि	कोडैक्कालम् मुदुवेनिर् कालम्	ग्रीष्मम्, वेनल्क्कालम्	बेसिगेकाल
वर्षा	बर्षा	बर्षा, बरखूवर- ऋतु	नोङ्जु था	बर्षा	वर्षे ऋतुवु	मऴैक्कालम्	वर्षकालम्, मळक्कालम्	मळेगाल
शरत्, शरद्	शैत्य, जाड़ शीत	जारकाल, शरत्	मेरा था	शरत	शरत्तु, शरद्रुतुवु	कुळिर् कालम्	शरत्कालम्, मञ्ञुकालम्	शरद्काल चळिगाल
हेमंत्	हेमंत	हेमंत	हेमंत, नाकेन था	हेमंत	हेमंतमु	इलै उदिर् कालम्/पिन् पनिक्कालम्	हेमंतम्, इल पोळियुं कालम्	हेमंत
शिशिर	शिशिर	शीतकाल, शिशिर	शिशिर (शीत)	शिशिर (शीत)	शिशिरमु, शिशिर ऋतुवु	मुन् पनिककालम्	शिशिरम्	शिशिर

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
काल	**कालः**	**काल**	**ज़माना**	**ज़मानुॅ, काल**	**काल, वक़्तु, ज़मानो**	**काळ**	**काळ**	**काळ**
भविष्यत-काल	भविष्यत्कालः	भविक्ख काल	मुस्तक़्बिल, ज़मानए-आइंदा	ब्रॉन्ह काल, यिनुॅवोल-जमानुॅ	मुस्तक़्बिल (ईंदड़ु वक़्तु)	भविष्यकाळ	भविष्य काळ	भविष्यत्काल
भूतकाल	भूतकालः	भूतकाल	माज़ी	पथ काल	माज़ी (गुज़िरियलु वक़्तु)	गतकाळ, भूतकाळ	भूतकाळ	भूतकाळ
वर्तमान काल	वर्तमान-कालः	वरतमान काल	हाल	अज़काल, हाल	हालु (हलंदड़ु वक़्तु)	वर्तमानकाळ	वर्तमान काळ	वर्तमानकाळ
दिनों के नाम	**दिननामानि**	**दिनां दे नांव**	**दिनों के नाम**	**दोंहन हुँद्य नाव**	**डींहंनि जा नाला**	**दिवसांची नांव**	**दिवसनां नामो**	**दिसांची नांवां**
इतवार (रविवार)	रविवासरः	ऐतवार	यकशँबा, इतवार	आथवार	आर्तवारु, रवीवारु	रविवार, आदित्यवार	रविवार, आइतवार, आतवार, आदित्यवार, इतवार	आयतार
सोमवार (चंद्रवार)	सोमवासरः	सोम (वार)	दोशँबा, पीर	चॅन्दरुॅवार	सूमरु, सोमवारु	सोमवार	सोमवार (चंद्रवार)	सोमार
मंगलवार	मङ्गलवासरः	मंगल (वार)	सह शंबा, मंगल	बौंवार	मंगलु	मंगळवार	मंगळवार	मंगळार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काल	**काल, समय, युग**	**काल**	**मतम, काल**	**काल**	**कालमुलु**	**कालम्**	**कालम्**	**काल**
भविष्यत्-काल	भबिष्यत्काल (भबिष्यत काल)	भविष्यत् आदी काल अनागत	लाकदौबा मतम	भविष्यत काल	भविष्यत् कालमु	ऍदिर् कालम्	भाविकालम्	भविष्यत्काल
भूतकाल	अतीत काल, भूत काल	भूत, भूतकाल	हौखबा मतम	अतीत काल	भूतकालमु	इरंद कालम्	भूतकालम्	भूतकाल
वर्तमान काल	बर्तमान काल	बर्त्तमान काल	हौजिक् की मतम	बर्त्तमान काल	वर्तमाॅन कालमु	निहळ् कालम्	वर्तमान कालम्	वर्तमान-काल
दिनहरूको नाउँ	**दिनेर नाम**	**दिवसर नाम, बारर नाम**	**नुमित्शिङ्गी ममिङ्**	**दिनर नाम**	**वारमुलु**	**नाट्कळिन् पंयर्गळ्**	**आळूच - प्पेरुकळ्**	**दिनगळ हेसरु**
आइतबार, आदित्यबार	रबिबार	देओबार, रबिबार	नोङ्माइजिङ्	रबिबार	आदिवारमु	ञायिट्टु-क्किळमै	ञायराळ्च,	आदित्यवार, रविवार, भानुवार
सोमबार, सौँबार	सोमबार	सोमबार	निङ्थौकाबा	सोमबार	सोमवारमु	तिंगट्किळमै	तिंकळाळ्च	सोमवार
मङ्गलबार	मंगलबार	मंगलबार	लैबाक् पोक्पा	मंगलबार	मंगळवारमु	सॅव्वाय् किळमै	चॉव्वाळ्च	मंगळवार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बुधवार	बुधवासरः	बुध (वार)	चहार शँबा, बुध	बॉदवार	बुधरु	बुधवार	बुधवार	बुधवार
गुरुवार (बृहस्पति वार)	बृहस्पति-वासरः, गुरुवासरः	वीर (वार)	जुमेरात	ब्रसवार	विस्पति	गुरुवार	गुरुवार, बृहस्पतवार, बृहस्पतिवार	बिरेस्तार
शुक्रवार	शुक्रवासरः	शुक्कर (वार)	जुम्आ, जुमा	शोंकरुँवार	जुमो, शुक्रवारु	शुक्रवार	शुक्रवार, शक्करवार	शुक्रार
शनिवार (शनीवार, शनिश्चर)	शनिवासरः	सनिच्चर (वार), छनिच्छर, शनीवार	शंबा, हफ़्ता	बटुँवार	छंछरु, शनीवारु	शनिवार	शनिवार	शेनवार
दिशा	**दिक्**	**दिशा**	**सम्त**	**तरफ**	**तरफ़**	**दिशा**	**दिशा**	**दिशा, दिका**
उत्तर	उत्तरदिक्	उत्तर (पहाड़)	शिमाल	वोंतुर, शुमाल	उतरु	उत्तर	उत्तर	उत्तर
दक्षिण (दक्खिन)	दक्षिणदिक्	दक्खण	जुनूब	दख्युन, जोंनूब	ड॒खणु	दक्षिण	दक्षिण, दख्खण	दक्षिण
पश्चिम (पच्छिम)	पश्चिमदिक्	पच्छम (लहिंदा)	मग़्रिब	पछुम, मगरिब	ओलहु	पश्चिम	पश्चिम, आथमणी दिशा	पश्चिम, अस्तम
पूर्व (पूरब)	पूर्वदिक्	पूरब (चढ़दा)	मश्रिक़	पूर, मशरिख	ओभरु	पूर्व	पूर्व, उगमणी दिशा	पूर्व, उदेंत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बुधबार	बुधबार	बुधबार	युमशकैश	बुधबार	बुधवारमु	बुदन् किऴमै	बुधनाऴ्च	बुधवार
बृहस्पतिबार	बृहस्पतिबार, गुरुबार	बृहस्पतिबार, गुरुबार	शगोलसेन	गुरुबार	गुरुवारमु	वियाऴक्किऴमै	व्याऴाऴ्च	गुरुवार
शुक्रबार	शुक्रबार	शुकुरबार	इराई	शुक्रबार	शुक्रवारमु	वॆऴ्ळिक् किऴमै	वॆऴ्ळियाऴ्च	शुक्रवार
शनिबार, शनि-श्चरबार	शनिबार	शनिबार	थाङ्ज	शनिबार	शनिवारमु	शनिक्किऴमै	शनियाऴ्च	शनिवार
दिशा	**दिक्, दिशा**	**दिक्, फाल**	**माइकै**	**दिग**	**दिशलु**	**दिशैगळ्**	**दिक्कुकळ्**	**दिक्कु**
उत्तर	उत्तर	उत्तर	अवाङ थङबा	उत्तर	उत्तरमु	वडक्कु	वटक्कुॅ	उत्तर
दक्षिण, दक्खिन	दक्षिण (क्ख) (न)	दक्षिण	मखा थङ्बा	दक्षिण	दक्षिणमु	तॆंकु	तॆक्कुॅ	दक्षिण
पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम, पछिम	नोंचुप, मनीङ् थङ्बा	पश्चिम	पश्चिममु, पडमर	मेर्कु	पटिञ्ञारुॅ	पश्चिम
पूर्व	पूर्ब	पूर्ब, पूब	नोंपोक ममाङ् थङ्बा	पूर्ब	तूर्पु	किऴक्कु	किऴक्कुॅ	पूर्व

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
महीनों के नाम	**मासनामानि**	**महीनियां दे नाओं**	**महीनों के नाम**	**र्यतन हुँद्य नाव**	**महिननि जा नाला**	**महिन्यांची नांवे**	**महिनानां नामों**	**महिन्यांची नांवां**
अंग्रेजी	**आङ्ग्लभाषा**	**अंगरेजी**	**अंग्रेज़ी**	**अंग्रीज़ी**	**अंग्रेज़ी**	**इंग्रजी**	**अंग्रेजी**	**इंग्रजी, इंग्लीश, इंग्लेझ**
जनवरी	जनवरी-मास:	जनवरी	जनवरी	जनवरी	जनवरी	जानेवारी	जान्युआरी, जानेवारी	जानेर
फरवरी	फरवरी-मास:	फ़रवरी	फ़रवरी	फरवरी	फ़ैबरवरी	फेब्रुवारी	फेब्रुआरी	फेब्रुवारी, फेब्रेर
मार्च	मार्च-मास:	मारच	मार्च	मारुच	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
अप्रैल	अप्रेल-मास:	अपरैल	अप्रैल	अपरेल	अप्रेल	एप्रील	एप्रिल	एप्रील
मई	मई-मास:	मई	मई	मॅयी	मे	मे	मे	मे, माय
जून	जून-मास:	जून	जून	जून	जून	जून	जून	जून, ज्यून
जुलाई	जुलाई-मास:	जुलाई	जूलाई	जुलय	जूलाइ	जुलै	जुलाई	जुलय, ज्युलय
अगस्त	अगस्त-मास:	अगस्त	अगस्त	अगस्त	आगस्ट	ऑगस्ट	ऑगस्ट	ऑगस्ट
सितंबर	सितम्बर-मास:	सतंबर (सितंबर)	सितंम्बर	सतंबर	सेप्टेंबर	सप्टेंबर	सप्टेंम्बर	सप्टेंबर, सेतेंब्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महिनाहरूको नाउँ	मासेर नाम	माहर नाम	भाशिङ्गी ममिङ्·	मासर नाम	नेलल पेर्लु	मादंगळिन् पेयर्गळ्	मासप्पेरुकळ्	मासगळ हेसरु
अङ्ग्रेजी	इंग्रेजी, इंग्राजी	इंराजी	अंग्रेजी	इंग्राजो	इंग्लीषु नेललु	आंगिल मादंगळ्	इंग्ळीष् मासङ्ङळ्	आंग्ल
जनवरी	जानुयारी	जानुवारी	वाक्चीङ्	जानुआरी	जनवरि	जनवरि	जनवरि	जनवरि
फेब्रुअरी, फर्बरी	फेब्रुयारी	फेब्रुवारी	फाइरेन	फेब्रुआरी	फिब्रवरि	पिब्रवरि	फेब्रुवरि	फेब्रुवरि
मार्च	मार्च	मार्च	लम्ता	मार्च	मार्चि	मार्चु	मार्च्	मार्च
एप्रिल, अप्रिल	एप्रिल	एप्रिल	शाजिबु	अप्रेल	एप्रिलु	एप्रल्	एप्रिल्	एप्रिल्
मे, मई	मे	मे, मइ	कालेन	मइ, में	मे	मे	मेय्	मे
जून	जुन	जुन	इंङा	जून्	जूनु	जून्	जूण्	जून्
जुलाई	जुलाइ	जुलाइ	इङेल	जुलाइ	जूलै	जूलै	जूलाय्	जुलै
अगस्त	अगस्ट (आ)	अगष्ट (आगष्ट)	थवाल	अगष्ट	आगस्टु	आगस्टु	आगस्ट्	आगस्ट्
सेप्टेंबर, सितंबर	सेप्टेंबर	चेप्तेंबर	लाङ्बल	सेप्टेंबर	सेप्टेंबरु	सेप्टंबर्	सेप्टंबर्	सेप्टेंबर्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अक्तूबर	अक्तूबर-मासः	अकतूबर	अक्तूबर	ऑक्तूबर	आक्टोबर	ऑक्टोबर	ऑक्टोबर	ऑक्टोबर, ओतुब्र
नवंबर	नवम्बर-मासः	नवंबर	नवंबर	नवंबर	नवंबर	नोव्हेंबर	नवेंबर, नवेंबर	नोव्हेंबर, नोवेंब्र
दिसंबर	दिसम्बर-मासः	दसंबर	दिसंबर	दसंबर	डिसंबर	डिसेंबर	डिसेंबर	डिसेंबर, देझेंब्र
समय	कालः	समां	वक्त	वख	वक़त	वेळ	समय	वेळ
आज	अद्य	अज	आज, इमरूज़	अज़	अजु	आज	आजे	आयज
ऊषा	उषस्	उशेर, प्रभात, तड़का, सवेर	सुबह	सुबह	प्रभात	उषा, पहाट, सकाळ	सवार, उषा	फांतोड
कल (बीता हुआ/ आगामी)	ह्यः, श्वः	कल्ह	कल (बीता हुआ/आइंदा)	राथ, पगाह	काल्ह (गुज़िरियलु); सुभाणो (ईंदड़ु)	काल, उद्या	काल (गई, आवती)	काल, फाल्या (फाया)
क्षण	क्षणम्	छिण, खिण	लमहा, पल, लहजा	च़्युह, ब्रुंज़	खिन, पल	क्षण	क्षण, पल	खीण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अक्टोबर, अक्टुबर	अक्टोबर	अक्तोबर	मेरा	अक्टोबर	अक्टोबरु	अक्टोबर्	ऑक्टोबर्	अक्टोबर्
नोभेंबर, नभेंबर	नबेंबर, नभेंबर	नवेंबर	हियाङ्गै	नभेंबर	नवंबरु	नवंबर्	नवंबर्	नवंबर
डिसेंबर, दिसंबर	डिसेंबर	डिचेंबर	पोइनु	डिसेंबर	डिसैंबरु	डिसंबर्	डिसंबर्	डिसेंबर्
समय, बेला	**समय, बेयाला**	**समय**	**मतम**	**समय**	**समयसुलु**	**नेरम्**	**नेरम्**	**समय**
आज़	आज, अद्य	आजि	ङसि	आजि	नेड्डु, ई रोजु	इन्ऱु	इन्नु॑	इंदु
उषा, बिहाऩ	उषा, प्रभात, ऊषा, बिहान	ऊषा, उषा	चिङ्खै हुनबा	ऊषा (पाहांती), पाहांता, भोर	वेकुव, उषस्सु	अदिकालै	उषस्सु॑	नसुकु, उष:काल
हिजो (बितेको), भोलि (आगामी)	काल, गतकाल, आगामी काल	कालि/ काइलै	ङराङ्, हयेंङ्	कालि (गतकालि, आसंताकालि)	निन्न/ रेपु	नेट्ट्रु / नाळै	इन्नलॅ/ नाळॅ	निन्ने, नाळे
क्षण, छिन	क्षण, मुहूर्त्त (ख)	क्षण, पल	मिकुप, मित्कुप	क्षण (ख्यण), मुहूर्त्त	क्षणमु	नॉडि	क्षणम्	क्षण, गळिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
घंटा	होरा	घंटा	घंटा, साअत	गंटॅ	कलाकु	तास	कलाक	वर, तास, घंटो
घड़ी	घटिका	घंड़ी	घड़ी	गॅर	घड़ी	घड़ी	घड़ी	घडी
छमाही	षाण्मासिक	छमाई	शिशमाही	शमॉही	छमाही	सहामाही	छमासिक, छमासी	स-माही
तिथि	तिथि:	थित, तिथ	तारीख़	तॉरीख	तारीख़, तिथि	तिथी, तीथ, तारीख	तिथि	तीथ
तिमाही	त्रैमासिक	तिमाई	सहमाही, तिमाही	तिमॉही	टिमाही	तिमाही	त्रिमासिक, त्रैमासिक	तिमाही
दशक	दशकम्	दहाका	दहा, दहाई	दॅह्युल	डहाको	दशक	दशक, दशको, दसको	दशक, दसक
दिन	दिनम्	दिन	दिन, रोज़	दौंह	डींहुं	दिवस	दिन, दिवस, दहाडो	दीस
दोपहर (दुपहर)	मध्याह्ण:	दुपहिर, दुपेह्र	दोपहर	दुपहर	मंझंदि, बिपहरी	दुपार	बपोर, मध्याह्न	दनपार
पक्ष	पक्ष:	पख	तरफ़दारी	पछ	पखु	पक्ष	पक्ष, पखवाडियु	पंद्रस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घण्टा	घंटा	घंटा	पुङ्जा	घंटा	गट्टे	मणि	मणिक्कूर्	गंटे
घडी	घड़ि	घड़ी	पुङ, घड़ी	घड़ी	गडियँ	नाऴिगै	नाऴिक	गळिगे
छमाहि	षाण्मासिक, छयमासेर	छमहीया	चहि ताङखाई, था तरुक	छमासीआ	अर्धसंवत्सरमु	अरैयाण्डु	अर्धवार्षिकम्	षण्मासिक
तिथि	तिथि	तिथि	थाबान	तिथि	तिथि	तिदि	तिथि, तीयति	तिथि
तिमाही	त्रैमासिक, तिनमासेर	त्रैमासिक	था अहुम-अहुमगी	त्रैमासिक	मूडु नॅललु	कालाण्डु	त्रैमासिकम्	त्रैमासिक
दशक	दशक	दशक	चही तरा गी मतम	दशक, दशंधि	दशाब्दमु	पत्ताण्डु	दशकम्	दशक
दिन	दिन, दिबस	दिन, दिवस	नुमित्	दिन, दिवस	पगलु, दिनमु	नाळ्, पगल्	दिवसम्, पकल्	दिन
दिउँसो	द्विप्रहर, दुपर (दि)	दुपर (दोपर), दुपरीया	नुमित खुङबा मतम	द्वि-प्रहर (दि-पहर)	मध्याह्नमु	मद्दियानम्, मदियम्	उच्च	मध्याह्न
पक्ष	पक्ष (क्ख)	पक्ष, पख	थाखाइ	पक्ष	पक्षमु	पक्षम्	पक्षम्	पक्ष

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पखवाड़ा	पक्ष:	पखवाड़ा, पंदरवाड़ा	पंदरवाड़ा, पखवाड़ा	पछिवार	पखवाड़ो	पंधरवडा	पखवाडियुं, पखवाडुं	पंद्रवडो
परसों (बीता हुआ/ आगामी)	परह्य:, परश्व:	परसों	परसों (बीता हुआ/आने वाला)	ऊतरुँ, कॉल्यक्यथ	टियों ड्रींहुं (गुजिरियलु); परींहं (ईंदड़ु)	परवा (मागचाव पुढ़चादिवस)	परम दिवस (गयो, आवतो)	पयर, परां
पल	पलम्	पल	पल, आन	पल	पलु	पळ	पल, पळ	पळ
प्रात: (सवेरा, सुबह)	प्रात:काल:	सवेरा, तड़का	सुबह (सवेरा)	सुबह	सुबह	प्रात:काळ	प्रात:, सवार	फांतोड, उजवाडटें
बरसी	वार्षिकश्राद्ध:	बरसी, वर्हीणा	बरसी	वॅहरवॉर	बर्सी	वर्षश्राद्ध, पुण्यतिथी	वार्षिक, बरशी, बरसी	स्राद्ध
महीना (मास, माह)	मास:	महीना	महीना (माह)	र्‌यथ	महिनो	महिना, मास	महिनो, मास, माह	म्हयनो
मिनट	निमेष:, निमिष:	मिंट	मिनट	मिनट	मिन्टु	मिनिट	मिनिट	मिनूट, मिनीट
मुहूर्त	मुहूर्तम्	महूरत	महूरत, घड़ी, साअत	साथ	मुहुरत	मुहूर्त	मुहूर्त, मुरत	म्हूर्त

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पंध्र रोजा, पाखो	पक्ष (क्ख), पोनेरो दिन	पक्ष, पख पष पषेकिया	नुमित् तरामङागी मतम	वर्षोकिया, पक्ष	पक्षमु	पट्चम्	पक्ष	पक्ष
अस्ति (बितेको), पर्सि (आगामी)	परशु (गत) (आगामी)	परहि/ परहिलै	नहान, हङ्चित	पअरि दिन	मोन्न, एल्लुंडि	मुंदानाळ्, नाळै मरुनाळ्	मिनिञ्ञान्नुॅ/ मट्टन्नाळ्	मोन्ने, नाडदु
पल पला	पल, मुहूर्तो	पल	मित्कूप	पलक, अल्प समय	क्षणमु	नॉडि	क्षणनेरम्	क्षण, गळिगे
प्रातः, बिहान	प्रातःकाल, सकाल बयाला (बयाला)	पुवा, रातिपुवा	अयुक	प्रातः, सकाल	उदयमु	कालै	प्रभातम्, राविलॅ	मुंजाने, बेळग्गे
बर्सी, बर्खी	बार्षिक (ी), सांबात्सरिक	बार्षिकी	चहीगी	वार्षिक, सांबत्सरिक	एडादि	तिदि	वार्षिक श्राद्धम, वर्षश्राद्धम, आण्टुबलि	श्राद्ध
महिना	मास	माह, माहिना	था	मास	नॅलॅ	मादम्	मासम्	तिंगळु
मिनेट	मिनिट	मिनिट	मिनित	मिनिट	निमिषमु	निमिडम्	मिनिट्टुॅ	निमिष
मुहुर्त, साइत	मुहूर्त (ी), पल	मुहूर्त्त	मंगोलगी पुङ्फम	मुहूर्त्त	मुहूर्तमु	मुहूर्त्तम्, नल्ल नेरम्	मुहूर्तम्	मूहूर्त, गळिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
युग	युगः	जुग, युग	ज़माना, दौर, अहद	यौंग	युगु, जुगु	बारा वर्षांचा काळ	युग	यूग
रात	रात्रिः	रात	रात (शब)	राथ	रात	रात्र	रात्रि, रात	रात
वर्ष (साल)	वर्षम् ,अब्दः	वर्‌हा (साल)	साल (बरस)	वॅरियि	सालु	वर्ष	वर्ष, वरस, साल	वर्स
शताब्दी (सदी)	शताब्दः	सदी	सदी	सॅदी, हथुॅवोर	शताब्दी, सदी	शंभर वर्षांचाकाळ शतक, शताब्दी	शताब्दी, सदी, सैको, सैंकुं, सो वरस	शंबरी, शताब्दी
संध्या (शाम, साँझ, सायं)	सन्ध्या	संझ	शाम	शाम	सांझी, शाम	संध्याकाळ, सांझ, सायंकाळ	संध्या (सांज), सांझ	सांज, तिनसांज
संवत्सर	सम्वत्सरः	सम्मत	सन, साल	सनुॅ, वॅरियि	सालु, वरिह्यु	संवत्सर	संवत्सर, वर्ष	संवत्सर
सप्ताह (हफ्ता)	सप्ताहः	हफता	हफ़्ता	हफतुॅ	हफ़्तो	आठवडा	सप्ताह (अठवाडियुं)	सातवडो, आठवडो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
युग, जमाना	युग (जु), पुराणे उक्तो कालबिभाग	युग	जुग	जुग	युगमु	युगम्	युगम्	युग
रात	रात, रात्रि	राति	नुमिदाङ्, अहिं	राति, रात्रि	रात्रि	इरवु	रात्रि/ रावुँ	रात्रि
वर्ष, साल	बर्ष, बत्सर, बछर, साल	बछर, वर्ष	चही	वर्ष (बरस)	संवत्सरमु	वरुडम्, आंडु	वर्षम्, कॉल्लम्	वर्ष
शताब्दी	शताब्दी, शताब्द, एकशो बछर	शताब्दी, शतिका	चही चामा	शताब्दी	शताब्दमु	नूट्राण्डु	शताब्दम्, नूट्टाण्डुँ	शतवर्ष, नूरुवर्ष, शताब्दि
साँझ	संध्या, सँध्ये (न्धा, न्धे), सांझ	संधिया, संध्या, साँजलगा	नुमिदाङ्-वाइरम	संध्या (संज)	सायंत्रमु	मालै नेरम्/ सायंकालम्	संध्य, अंति	संजे, सायंकाल
संवत्सर	संबत्सर, बर्ष, साल	बर्ष, बछट	चही	बर्ष, साल	संवत्सरमु	वरुषम्/ वरुड्म्/ आण्डु	संवत्सरम्, वर्षम्	संवत्सर
सप्ताह, साता	सप्ताह, हफ्ता, सात दिन	सप्ताह	चयोल, हपता	सप्ताह	वारमु	वारम्	आळूच	वार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सवेरा	प्रभात:	सवेरा	सवेरा (सुबह)	सुबुॅहॉय	असुरु, सुबह	सकाळ	सवार	सकाळ
कार्य-पालिका	**कार्यपालिका**	**कारज-पालिका**	**इंतेज़ामिया**	**इंतज़ामिया**	**कार्यपालिका**	**कारजपालिका**	**कार्यपालिका**	**कार्यपालिका**
आयुक्त	आयुक्त:	कमिशनर	कमिश्नर	कमिशनर, सदर, ज़्युठ	कमिश्नर, आयुक्त	आयुक्त	कमिशनर, सरसूबो, अमलदार	आयुक्त
उपमंत्री	उपमन्त्री	उपमंतरी	नायब वज़ीर	नॉयिब वॅज़ीर	नाइब वज़ीर, उपमंत्री	उपमंत्री	नायब प्रधान	उपमंत्री
उपमहापौर	उपमहापौर:	उपमेयर	डिपटी मेयर	नॉयिब-मेयर	डिप्टी मेअर, उपमहापौर	उपमहापौर	उपनगरपति	उपमेयर
उपराज्य-पाल	उपराज्य-पाल:	उपराजपाल	लेफ्टीनेन्ट गवर्नर	लेफटिनंट-गवरनर	उप-राज्यपाल, लेफ़्टीनन्ट गवर्नर	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल
उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति:	उपराशटरपती	नायब सद्रे-मम्लकत	नॉयिबि-सदुॅर, उपराष्ट्रपती	उप-राष्ट्रपती	उपराष्ट्रपती	उपराष्ट्रपति	उपराश्ट्रपती
कार्यकारी पार्षद	कार्यकारि-पार्षद:	कारजकारी कौंसलर	एक्ज़िक्यूटिव कौंसिलर	कॉमचलाव कोंसल	कारोबारी मेंबर	कार्यकारी पार्षद, कार्यकारी सभासद	कार्यकारी पार्षद	कार्यकारी परिशदेचो वांगडी (सदस्य)

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिहान	सकाल, प्रातःकाल, बिहान	रातिपुवा	अयुक	सकाल	उदयमु	कालै नेरम्	प्रभातम्	मुंजावु
कार्यपालिका	**पदिक एक्सिक्युटिव**	**कार्यपालिका**	**थबकपुबा**	**कार्ज्यबाही**	**कार्यपालिकॆ**	**संयर् कुळु**	**एक्सिक्यूटीव्**	**कार्यांग**
आयुक्त	आयुक्त, कोमिशनर, कर्माध्यक्ष	आयुक्त	कमीशनार	आयुक्त, अध्यक्ष	कमीशनरु	कमिशनर्/ आणैयर	कम्मीषणर्	कमीशनरु, आयुक्त
उपमन्त्री	उपमंत्री	उपमंत्री	उपमंत्री	उपमंत्रि	उपमंत्रि	तुणै अमैच्चर्	उपमंत्रि	उपमंत्रि
उपमहापौर	उपपौरमुख्य, (प्रधान)	उपमहापौर	डिपटी मेयोर	उपनगरपाल	उपमेयरु	तुणै मेयर्	उपमहापौरन्, उपमेयर	उपमहापौर, उपमेयर्
उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपगवर्नरु	लॅप्टिनन्ट् गवर्णर्	लफ्टनन्ट् गवर्णर	उप राज्यपाल
उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	कुडियरसुत् तुणैत् तलैवर्	उपराष्ट्रपति	उप राष्ट्रपति
कार्यकारी पार्षद	कार्यकारी पार्षद (र्ज)	कार्यकारी पारिषद	थौपुबा मीओई	कार्ज्यकारी परिषद् सभ्य	एक्जक्युटिव कौंसिलरु	चंयर् कुळु उरुप्पिनर्	ऐक्सिक्युटीव कौण्सिलर्	कार्यकारि परिषत् सदस्य

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नगर-निगम	नगरनिगमः	नगर निगम	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, बलदिया	म्यूनसपल-कारपरेशन	म्यूनिसपिल कापोरेशन, नगर निगम	महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन	महानगरपालिका	महानगरपालिका
नगरपालिका	नगरपालिका	नगरपालका	बलदिया, म्यूनिसिपलटी	म्यूनसपलटी	म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका	म्यूनिसिपालिटी, नगरपालिका	नगरपालिका, नगर सुधराई, म्युनिसिपालिटी	नगरपालिका
निगमायुक्त	निगमायुक्तः	मियुँसपल कमिशनर	म्युनिसिपल कमिशनर	कमिश्नर	म्यूनिसिपिल कमिश्नरु, निगम-आयुक्त	महानगर पालिका आयुक्त	सुधराई कमिशनर	नगरपालिका आयुक्त
पार्षद	पार्षदः	पारशद/ कौंसलर	कौंसिलर	कोंसलर	मेंबरु, काऊंसिलरु	सभासद	पार्षद	परिशदेचो सदस्य (सभासद)
प्रधान मंत्री	प्रधानमन्त्री	प्रधान मंतरी	वज़ीरे-आज़म (प्रधान मंत्री)	वज़ीरि अज़म, प्रधान मंत्री	वज़ीर ऐज़म, प्रधान मंत्री	पंतप्रधान	वडा प्रधान	प्रधान मंत्री
मंत्रि-मंडल	मन्त्रिमण्डलम्	वज़ारत, मंतरी मंडल, काबीना	काबीना	कैबनिट, वजारती-कोंसल	मंत्रीमंडलु, वज़िरात	मंत्रिमंडळ	प्रधान मंडळ	मंत्री मंडळ
मंत्री	मन्त्री	मंतरी, वज़ीर	वज़ीर	वॅज़ीर	वज़ीरु, मंत्री	मंत्री	प्रधान	मंत्री
महानगर	महानगरम्	महानगर	मेट्रोपोलीटन	बोंडशहार, मैट्रो पालिस	वडो शहरु, महानगरु	महानगर	महानगर	महानगर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नगरनिगम	निगम, पौरोसभा कर्पोरेशन	पौर निगम, नगर निगम	म्युनिसिपाल कार्पोरेशन	पौर प्रतिष्ठान	कार्पोरेषनु	मानगराट्चि	कोर्परेषन्	महानगर पालिके कार्पोरेशन्
नगरपालिका	पौरसभा, पौरनिगम	नगर पालिका	म्युनिसिपालिटी	पौर समिति	म्युनिसिपालिटी	नगराट्चि	नगरसभ	पौर समिति
निगमायुक्त	पौर प्रधान, निगम-महाध्यक्ष (द्‌ध) (क्ख)	निगमायुक्त	कोपरेशनगी कमीशनर	पौर आयुक्त	म्युनिसिपल कमीशनरु	नगराट्चि-आणैयर्	कोर्परेषन् कम्मीषणर्	मुनिसिपल कमिषनर
पार्षद	मेयर, पार्षद, परिषद, काउन्सिलर	पारिषद, पार्षद	परिषद मेंबर, काउन्सलर	परिषद सभ्य	कौंसिलरु	नगराट्चि अंगत्तिनर्	कौंसिलर्	परिषत् सदस्य
प्रधानमन्त्री	प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री	प्रधान मंत्री	प्रधान मंत्री	प्रधान मंत्रि	पिरदम मंतिरि, पिरदमर्	प्रधान मंत्रि	प्रधान मंत्रि
मंत्रिमण्डल	मंत्रिमंडल, मंत्रिसभा	मंत्रीमंडल, मंत्रीमंडली, मंत्रीसभा	मंत्रि-मंडोल	मंत्रि-मंडल	मंत्रि मंडलि	अमैच्चरवै	मंत्रि-सभ	मंत्रिमंडल, संपुट
मंत्री	मंत्री	मंत्री	मंत्री	मंत्री	मंत्रि	अमैच्चर्	मंत्रि, कार्यदर्शि	मंत्रि, सचिव
महानगर	महानगर	महानगर	अचौबा सहर	महानगर	महा नगरमु	मानगरम्	महानगरम्	महानगर

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
महापौर	महापौरः	मेयर	मेयर	मेयर, मीर	मेअरु, महापौरु	महापौर	मेयर, नगरपति	मेयर
मुख्य आयुक्त	मुख्यायुक्तः	मुक्ख कमिशनर	चीफ़ कमिशनर	चीफ कमिशनर	चीफ कमिशनर	चीफ़ कमिशनर, मुख्य आयुक्त	चीफ़ कमिशनर	मुख्य आयुक्त
मुख्य कार्यकारी पार्षद	मुख्यकार्यकारि-पार्षदः	मुक्ख कारजकारी कौंसलर	चीफ़ एक्ज़िक्यूटिव कौंसिलर	चीफ एक्ज़िक्यूट्यू कोंसलर	मुख्य कारोबारी मेंबरु	मुख्य कार्यकारी सभासद	मुख्य कार्यकारी पार्षद	मुख्य कार्यकारी सदस्य (वांगडी, सभासद)
मुख्यमंत्री	मुख्यमन्त्री	मुक्ख मंतरी	वज़ीरे-आला	बोंड वज़ीर	वडो वज़ीर, मुख्य मंत्री	मुख्यमंत्री	मुख्य प्रधान	मुख्यमंत्री, मुखेल मंत्री
राजनिवास	राजनिवासः	राजनिवास	राजनिवास, गवर्नर हाउस	राज निवास	राजनिवासु	राजनिवास	राजनिवास	राजनिवास
राजभवन	राजभवनम्	राजभवन	राजभवन	राजभवन	राजुभवनु	राजमहल	राजभवन	राजभवन
राज्यपाल	राज्यपालः	राजपाल	गवर्नर	गवरनर	गवर्नर, राज्यपाल	राज्यपाल	राज्यपाल, गवर्नर	राज्यपाल
राज्यमंत्री	राज्यमन्त्री	राजमंतरी	वज़ीरे-ममलकत	वॅज़ीर-ममलिकथ	राज्यमंत्री, राजु वज़ीर	राज्यमंत्री	राजपाल	राज्य मंत्री

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महापौर, मेयर	पौरपति, मेयर, पौर प्रधान	महापौर	मेयोर	नगरपाल	मेयरु	मेयर्/ मानगराट्चित् तलैवर	मेयर, महापौरन्	महापौर, मेयर
मुख्य आयुक्त	प्रधान, मुख्य कमिशनार, मुख्याध्यक्ष (क्ख) (द्ध) (क्ख)	मुख्य आयुक्त	चीफ कमीशनर	मुख्य आयुक्त	चीफ कमीषनरु	तलैमै आणैयर्	चीफ् कमीषनर्	चीफ कमिशनर, मुख्य आयुक्त
मुख्य कार्यकारी पार्षद	प्रधान कार्यकारी पार्षद (र्ज)	मुख्य कार्यकरी पारिषद	चीफ एक्जिक्यूटिव मैंबर	मुख्य कार्य्यकारी पारिषद	प्रधान एक्सेकुटिव कौंसिलरु	मुदन्मै निर्वाह कबुन्सिलर	चीफ़ एक्सिक्यूटिव् कौण्सिलर्	मुख्य कार्यकारि परिषत् सदस्य
मुख्यमंत्री	मुख्य मंत्री (क्ख)	मुख्यमंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्यमंत्रि	मुदलमैच्चर्	मुख्य मंत्रि	मुख्य मंत्रि
राजनिवास	राजनिबास	राजनिवास	राज भवन	राज निवास	राजगृहमु	राज निवास्	राज निवासम्	राजनिवास
राजभवन	राजभबन	राजभवन	राज भवन	राज भबन	राजभवनमु	आळुनर्माळिगै	राजभवन्	राजभवन
राज्यपाल	राज्यपाल (ज्ज)	राज्यपाल	गवर्नर, राज्यपाल	राज्यपाल	गवर्नरु	आळुनर्	गवर्णर्	राज्यपाल
राज्यमंत्री	राज्यमंत्री	राज्यमंत्री	राज्य मंत्री	राज्यमंत्री	राज्यमंत्रि	मानिल अमैच्चर्	स्टेट् मंत्रि	राज्य मंत्रि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
राष्ट्रपति	राष्ट्रपतिः	राशटरपती	सदरे-मम्लकत (राष्ट्रपति)	राश्ट्रपति, सदरि जमहूरिया	राष्ट्रपती	राष्ट्रपती	राष्ट्रपति	राष्ट्रपती
राष्ट्रपति भवन	राष्ट्रपति-भवनम्	राशटरपती भवन	राष्ट्रपति भवन (क़सरे-सदारत)	राश्ट्रपति बवन	राष्ट्रपती भवन	राष्ट्रपती भवन	राष्ट्रपति भवन	राष्ट्रपतीभवन
कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे	कृमिकीटादयः पशुपक्षि-वृक्षवनस्पतयः	कीड़े-मकौड़े, पशु-पंछी, पेड़-पौदे	कीड़े-मकोड़े, चरिंद व परिंद और पेड़-पौदे	केंम्य-क्रूॅल, चारुॅवॉय, पॅश, वुडवुन्य, जानवर तुँ कुल्य कट्य	जीत, पसूं, पखी, वण-बूटा	किडे, पशुपक्षी व झाडेझुडपे	कीड़ा मकोड़ा, पशुपक्षी, झाडपाना	कीडें, पशु-पक्षी आनी झाड-झुडूप
कीड़े-मकोड़े	कृमिकीटा-दयः	कीड़े-मकौड़े	कीड़े-मकोड़े	केंम्य-क्रूॅल	कींआं, कीड़ा माकोड़ा	किडे-लहान किडे	कीड़ा-नाना कीड़ा	कीडें
केकड़ा	कर्कटः, कुलीरः	केकडा,	केकड़ा, सरतान	केकडु	खेखिड़ो	खेकडा	करचलो	कुल्ली
खटमल	मत्कुणः	खटमल	खटमल	च़र	मुंधिणु, खटमल	ढेकूण	माकण (मांकण), माकड़ (मांकड़)	भिकूण
घुन	घुणः	घुंण	घुन (दीमक)	खोडुॅ क्योम	घुणो	पोरकीडा	इयळ, जीवडुं	टोंको, फळांतलो जीव

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	कुडियरसुत्तलैवर्	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन	राष्ट्रपति भबन	राष्ट्रपति भवन	राष्ट्रपति भवन	राष्ट्रपति भबन	राष्ट्रपति भवनमु	कुडियरसुत्तलैवर् माळिगै	राष्ट्रपति भवनम्	राष्ट्रपति भवन
कीरा-फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी र बोट-बिरुवा	पोका-माकड़, पशु-पाखि ओ गाछ-पाला	कीट-पतंग, पशु-पक्षी, गछ-गछनि	तिल-काङ्, शा-उचेक अमदि उपाल-वापाल, नापी-शिङ्वी	कीट-पतंग, पशुपक्षी, गछ-बृक्षय	क्रिमि, कीटकालु, पशुपक्षुलु, चेट्लु, मोक्कलु	पिराणिगळ् परवैगळ्, मरम् चेड़िगळ्, पुळु पूच्चिगळ्	कृमिकळ्, पक्षिमृगादिकळ्, वृक्षलतादिकळ्	क्रिमि-कीटगळु, पशु पक्षिगळु-मत्तु, गिडमरगळु
कीरा-फट्याङ्ग्रा	पोका-माकड़, कीट-पतंग	कीट-पतंग	तिल-काङ्	कीट-पतंग	क्रिमि-कीटकालु	पुळु-पूच्चिगळ्	कृमिकळ्	क्रिमि-कीटगळु
कर्कट, केकडा, गँगटो	काँकड़ा, कर्कट (राशि)	कँकाँरा	वाइखू	कंकडा	ऍन्ड्रकाये	नंडु	ञंडु	एडि
उडुस	छारपोका	उरह	मा	ओड़स/ छारपोक	नल्लि	मूट्टैप्पूच्चि	मूट्ट	तिगणे, तगणि
घुन	घुण (न) पोका	घुण	शुम	घुण	कोय्यपुरुगु, चेदलु	अंदु	पुळु	कुट्टे हुळु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चींटी	पिपीलिका	कीड़ी	च्यूंटी	र्‌यय	किविली, किउली	मुंगी	कीड़ी	मूय
जूँ	यूका	जूँ	जूँ	ज़ौ	जूँ	ऊ	जू	ऊ, ऊय
झींगुर	झीरिका, झिरिका, झिल्लिका	वींडा	झींगर	ज़ींगुर	तिड्डि	झुरळ	तमरुं	रातकिडो
टिटिहरी	टिट्टिभः	टटीहरी	टटीरी	रंगुंचॅर	टिटिहरी	टिटवी	टिटोडी	टिटाबय
टिड्डा (टिड्डी)	शलभः	टिड्डा (टिड्डी)	टिड्डा (टिड्डी)	हालव	तिॾो	टोळ	तीड	तोळ
तितली	चित्रपतङ्गः	तितली	तितली	पनपोंपुर	पोपटु	फुलपाखरुं	पतंगियुं	पिसोळें
दीमक	पुत्तिका	सिउंक	दीमक	सफेद रय्य, लॅकरि क्योंम	उॾोही	वाळवी	ऊधई	वायटी, वाळटी
पतंगा	पतङ्गः	पतंगा	पतंगा	पोंपुर	पतंगो	पतंग	पंतगियुं	पाखो
पिस्सू	कुटः	पिस्सू	पिस्सू	प्युश	कारिड़ो, पिसू	पिसू	पिस्सू	हुलूक, सामको बारीक रगत लुचपी जीव

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कमिला	पिँपड़ा, पिँपिड़ा, पिँपड़े	परुवा	काक्चेङ्	पिम्पुडि	चीमॅ	एऱुँबु	उऱुँमुॅं	इरुवे
जुम्रा, जुम्रो	उकुन	ओकणी	हिक्	उकुणी	पेनु	पेन्	पेन्	हेनु
साङ्लो	उच्चिंड़ा (-ड़े), झिंझि	जिलि	हारौ	झिंटिका	कीचुरायि	शिल्वण्डु	चीवीटुॅं	जीरुण्डे
टिँटिँबाँस, हुटिट्याउँ	टिट्टिम (भ)	तितियलि	पात्ता ताबा उचेक मखल अमा	झिंकारी	टिट्टिभमु	वालाट्टिकुरुवि	टिट्टिभम्, वालाट्टिप्पक्षि	टिट्टिभ
सलह	पङगपाल	काकतिफरिं	काऊजेङ्	पंगपाल (शस्य आदिरे हानिकारक)	मिडतॅ	वॅट्टुक्किळि	वॅट्टुकिळि	मिडते
पुतली	प्रजापति	पखिला	कुराक	प्रजापति	सीताकोकॅ चिलकॅ	वण्णत्तुप्पूच्चि	चित्रशलभम्	चिट्टे
धमिरो	उइ (पोका)	उँइ	शुम, लैशौ	उइ	चॅदलु	सॅल/ करैयान्	चितल्	गेद्दलु
पतङ्ग, फट्याङ्ग्रो	पतंग, फरिं	पतंग	मैरान्बी	पतंग	मिडतॅ	विट्टिल्पूच्चि	ईयांपाट्टॅ	दीपदहुळु
उपियाँ	एक प्रकारेर जोंक	चेरेपा, कैँत्कुरि	तुमित्	सढ़ा फल, एक प्रकारर लोक	पिरुदु	उण्णि, तॅळ्ळुप्पूच्चि	चॅळ्ळुॅं	चिगट, चिक्काडु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बिच्छू	वृश्चिक:	बिच्छू	बिच्छू	ब्युच	विछूं	विंचू	वींछी	विंचू
भिड़ (बरैं, ततैया)	वरट:	भंड, भंरिंड	भिड़	तॅलुॅर	ड॒ंभू	गांधीलमाशी	भमरो	कुमान्न, एके जातीचो-गांजील
मकड़ी	लूता	मकड़ी	मकड़ी	ज़लुॅर	कोरीअड़ो	कोळी	करोळियो	मावळी, काळी
मक्खी	मक्षिका	मक्खी	मक्खी	मॅछ	मखि	माशी	माखी	मूस
मधुमक्खी	मधुमक्षिका	मख, शहद दी मक्खी	मगस (शहद की मक्खी)	मांछ तुॅलुॅर	माखीअ जी मखि	मधमाशी	मधमाख, मधमाखी	म्होंवामूस
जलचर	जलचरा:	**पाणी दे जानदार**	**आबी जानवर**	**ऑबी-ज़ीव**	**आबीजीव**	**जलचर**	**जळचर**	**जलचर**
कछुआ	कच्छप:, कूर्म:	कच्छू, कछवा	कछुआ	कॅछवुॅ	कुमी, कछुओ	कासव	काचबो	कांसव
घड़ियाल	ग्राह:	घंड़िआल	मगरमच्छ, घड़ियाल	मगरमछ, गॅडियाल	वाघू	मगर	मगर	मानगें
बतख	वर्तक:	बत्तख	बत्तख़, बत	बतुख	बदक	बदक	बतक	बदक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिच्छी	बिछा, बिछे	बिछा	बृच्छिक	बिछा	तेलु	तेळ्	तेळ्	चेळु
अरिङाल, अरिङ्गाल	बोल्ता	बरल	लैबाक् खोइ	एक प्रकार पोक, बिरुडी	कंदिरीगं	कुळवि	कटन्नल्	कणजद हुळु
माकुरो	माकड़सा	मकरा	मि	मांकड़सा, बुढ़िआणी	सालीडु	सिलंदि	एट्टुकालि	जेडर हुळु
झिँगो, माखो	माछि	माखि	हयिङ्	माछि	ईंग	ई	ईच्च	नोण
माहुरी, मौरी	मौमाछि	मौमाखि	हयिङ् खोई	महु-माछि	तेर्नटीगं	तेनी	तेनीच्च	जेनुनोण
जलचर	**जलचर**	**जलचर, पानीत चरिफुरा प्रानी**	**इशिङदा लैबा जीबा**	**जलचर**	**जलचरमुलु**	**नीर्वाळ्वन**	**जलजंतुक्कळ्**	**जलचरगळु**
कछुवा	कच्छप, काछिम	काछ	थेङ्गु	कंइछ, कधिम	ताबेलु	आमै	आम	आमे
घडियाल, गोही	कुमीर, घड़ियाल, घड़ेल	घँरियाल	गुमभीर	घड़िआल	मोसलि	मुदलै	मुतल	मोसळे
बत्तक, हाँस	हाँस	पातिहाँह	ङानू	बतक	बातु	वात्तु	तारावुं	बातु कोळि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मछली	मीनः, मत्स्यः	मच्छी	मछली, माही	गाड	मछी	मासा	माछली	नुस्तें
मेंढक	मण्डूकः, भेकः	डड्डू	मेंडक	न्यनि मोंडॅज	ड॒ड॒रु	बेडूक	देडको	बेबो
जीव-जंतु	जंतवः	जीव-जंतु	हेवानात	ज़ीवुँ ज़ॉच़	जीव जंतू	प्राणी (जीवजंतू)	प्राणी (जीवजंतु)	जीव जंतू
खरगोश	शशः	सैहा (खरगोश)	ख़रगोश	खरगोश	सहो, ख़रगोश	ससा	ससलुं	सोसो
गिलहरी	चमरपुच्छः	गाहलड़, काटो	गिलहरी	गिलहरी	नोरीअड़ो, गिलहरी	खार	खिसकोली	चानी
गोह	गोधा	गोह	गोह, सूसमार	नूल	गो॒ह	घोण	घो	शिल्ली, शेड्डो
चूहा	मूषः, मूषकः	चूहा	चूहा	गगुर	कूओ	उंदीर	उंदर	हूंदीर
छछूँदर	छछुन्दरी	चछूंदर	छछूंदर	अनुँगगुॅर	अंधो कूओ, घुस	चिचुंदरी	छछुंदर	चिचुंदर, चिचोंदर
नेवला	नकुलः	निउला	नेवला, रासू	नूल	नोरु	मुंगुस	नोळियो	मुंगूस
बिल्ली	बिडालः, मार्जारः	बिल्ली	बिल्ली	ब्रोर	बि॒ली	मांजर	बिल्ली, बिलाड़ी	माजर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माछा	माछ	माछ	ङा	माछ	चेप	मीन्	मत्स्यम्, मीन्	मीनु
भ्यागुतो	ब्यांग, भेक, मण्डूक	भेकुली	हडोइ	बेंग, मंडुक	कप्प	तवळै	तवळ	कप्पे
पशुपक्षी	**जीब-जंतु**	**जीव-जंतु**	**जीबा पानबा, थवाइ पानबा**	**जीव-जंतु**	**जीवॅ जंतुवुलु**	**जीव जंतुक्कळ्**	**जीवजंतुक्कळ्**	**जीवजंतुगळु**
खरायो	खरगोश	शहापहु	थेबा	ठेकुआ	कुंदेलु	मुयल्	मुयल्	मोल
लोखर्के	काठबेड़ाली	केर्केटुवा	गिलहरी, खैरोइगुंबा जीबा अमा	काकतुआ	उडुत	अणिल्	अण्णान्	अळिलु
गोही	गोसाप,गोधिका	गुँइ	चुम अचौबा मखल अमा	गोधि	उडुमु	उडुंबु	उटुंपॅ	उड
मुसो	इँदुर	एंदुर	उची	मूषा	एॅलुक	एॅलि	एॅलि	इलि
छुचुँन्द्रो	छुँचो	चिका	उतिन	चुचुंदरा	चुंचु	मूंजूरु	मूषिकम्	सुंडिलि, सोंडिइलि
न्याउरीमुसो, न्याउरी	नेउल	नेउल	खैरोइ	नेउल	मुंगिस	कीरिप्पिळ्ळै	कीरि	मुंगुसि
बिरालो	बेड़ाल, बिड़ाल	मेकुरी	हौदोङ्	बिलेइ, बिराड़ी	पिल्लि	पूनै	पूच्च	बेक्कु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पशु	**पशुः**	**पशु**	**चौपाया**	**चारवॉय**	**पसूं**	**पशू**	**पशु**	**पशू**
ऊँट	उष्ट्रः	ऊठ, बोता	ऊँट	वूंठ	उठु	उंट	ऊँट	उंट, करें
कुत्ता	कुक्कुरः	कुत्ता	कुत्ता, सग	हून	कुतो	कुत्रा	कूतरो	सुणो
खच्चर	अश्वतरः	ख़च्चर	ख़च्चर	खचुर, कातुर	ख़चरु	खेचर	खच्चर	खेंचर
गधा	गर्दभः, रासभः	खोता, गधा	गधा, ख़र	खर	ग<u>ड</u>हु	गाढव	गधेडो	गाढव
गाय	गौः, धेनुः	गाँ, गऊ	गाय	गाव	गांइ	गाय	गाय	गाय
गीदड़	जम्बूकः, शृगालः	गिद्दड़	गीदड़	शाल	गिदड़ु	कोल्हा	शियाळ	कोलोसुणो
गैंडा	गण्डः, गण्डकः	गैंडा	गैंडा	गेंडा	गेंडो	गेंडा	गेंडो	गेंडो
घोड़ा	अश्वः, घोटः	घंड़ा	घोड़ा, अस्प	गुर	घोड़ो	घोडा	घोडो	घोडो
चीता	चित्रकः	चीता	चीता	सुँह	चीतो	चित्ता	चित्तो	चितो
तेंदुवा	द्वीपिन्	तंदुआ	तेंदुआ	लॉश	तेंदुओ, चीतो	चित्ता	चित्ता जेवुं एक हिंसक प्राणी	बिबटो वाग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पशु	पशु, जानोयार	पशु	शा	पशु	पशुवुलु	मिरुगंगळ्	जंतुक्कळ्	पशुगळु
ऊँट	उट	उट	ऊट	ओट	ऑंट	ऑट्टगम्	ऑट्टकम्	ओण्टे
कुकुर	कुकुर	कुकुर	हुई	कुकुर, श्वान	कुक्कं	नाय्	श्वानन्, नाय, पट्टि	नायि
खच्चड, खच्चर	खच्चर	खच्चर	शगोल थिकनेमबा	खचर	कंचरं गाडिदं	कोवेरु, कक्कुदै	कोवरुकळुत	हेसरगत्ते
गधा	गाधा, गर्दभ	गाध	गधा	गध	गाडिदं	कळुदै	कळुत	कत्ते
गाई, गौ	गाई, गामी गोरु	गाइ, गाइ गरु	शन्बी	गाई	आवु	पशु	पशु	हसु
स्याल	शियाल, शृगाल	शियाल	कैशाल	बिलुआ	नक्कं	नरि	कुरुक्कन्	नरि
गैँडा	गँडार, गन्डार	गंडा	शामुगंदा	गंडा	खड्गमृगमु	कांडा मिरुगम्	काण्टामृगम्	घेण्डामृग, खड्गमृग
घोडा	घोड़ा, अश्व	घोँड़ा,	शगोल	घोड़ा	गुर्रमु	कुदिरै	कुतिर	कुदुरे
चितुवा, घुँगी	चीता, बाघ	चिता, बाघ	कबोकै	चिता-बाघ	चिरुतपुलि	सिरुत्तै	पुलि	चिरते
चितुवा	बृहदाकार चिता बाघ	नाहर-फुटुकी	कबो कै गुंबा शा मखल अमा	चिताबाघ (मांसाहारी पशुविशेष)	चिरुत	सिरुत्तै	पुळ्ळिप्पुलि	चिरते

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बंदर	वानरः	बांदर	बंदर	पोंज़	बांदरु, भोलिड़ो	माकड	वांदरो	माकड
बकरी	अजा	बकरी	बकरी	छ़ावुँज	ब़ुकरी	शेळी	बकरी	बोकडी
बाघ	व्याघ्रः	बाघ	शेर	बबर सुँह	वाघु, शींहुं	बाघ	वाघ	वाग
बारहसिंगा	कृष्णसारः	बारासिंगा	बारहसिंगा	हाँगुल	फाड़हो, बारंहसिङो	सांबर	साबर	सांबर, मेरू
बैल	वृषभः	बौलद, बल्द	बैल	दाँद	ढग़ो	बैल	बळद	बैल
भालू (रीछ)	ऋक्षः, भल्लूकः	रिच्छ	रीछ	हापुथ	रिछु	अस्वल	रींछ	आंसवेल, वांस्वेल
भेड़	एडकः	भेड	भेड़	कठ, गॅब	रिढ	मेंढी	घेटो, घेटी	मेंढरां
भेड़िया	वृकः	बघिआड़	भेड़िया	रामुॅ हून	बघड़ु	लांडगा	वरुं	लांडगो
भैंस	महिषी	मज्झ, मैंह	भैंस	माँश	मेंहिं	म्हैस	भेंश, भेस	म्हस
भैंसा	महिष	संढा, झोटा	भैंसा	माँशि कोंट	सानु	रेडा	पाडो	रेडो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बाँदर	बाँदर, हनुमान	बांदर	योङ्	मांकड़, मर्कट	कोति	कुरंगु	कुरङ्ङुॅ	कोति, मंग
बाखी	छागोल	छागली	हमेङ्	छेलि/छागल	मेकॅ	आडु	आटुॅ	आडु, मेके
बाघ	बाघ	बाघ	कै	बाघ	पुलि	पुलि	व्याघ्रम्	हुलि
बाह्रसिङ्गा, जरायो	बारशिङ्गा, (हरिण विशेष) (न)	कृष्ण सार	शजी मखल अमा	बराह/ बार्हा	दुप्पि	कलैमान्	कलमान्	सारंग
गोरु	बलद	षाँड, बलध	शन लाबा	बलद	एंद्दु	एंरुदु/ काळैमाडु	काळ	एत्तु
भालु	भाल्लुक, भल्लुक, भालूक	भालुक	शओम	भालु	एलुगुबंटि	करड़ि	करटि	करडि
भेडो	भेड़ा (भैंड़ा), मेष	भेडाँ, भेड़ा, छागली	याओ	मेंढा	गर्रि	संम्मरियाटुॅ	चंम्मरियाटुॅ	होत
ब्वाँसो	नेकड़े बाघ	कुकुरनेचीया	कैशाल	भेड़ी	तोडेलु	ओनाय्	चंन्नाय	तोळ
भैंसी	मोष, महिष	माइकी मह (मॅह)	इरोइ	महिष, मइंषी	गेदं, बर्रे	एंरुमै	एंरुम	एम्मे
राँगो, महिष	छोट महिष	मता मह	इरोइ लावा	पंड्रा	दुन्नपोतु	एंरुमैक्कडा	पोत्तुॅ	कोण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मेमना	छागशावः, अजशावकः	मेमणा	मेमना	कटुॅ मोंगुर	घेटो (रिढ जो ब॒चो), छेलो (ब॒करीअ जो ब॒चो)	कोंकरू	घेटानुं बच्चुं	बोकडे-पील
लोमड़ी	लोमशा	लूंबडी	लोमड़ी	पोंछुॅलोव	लूमड़ु॒	खोकड, कोल्हा	लोंकडी, शियाळ	कोलो
शुतुरमुर्ग	उष्ट्रकुक्कुट	शुतरमुरग	शुतुरमुर्ग	शुतुर मुरुग	शुतुरमुर्ग	शहामृग	शाहमृग	शहामृग
सांड (साँड़)	वृषभः	सांह	सांड	ब्यॉल्य दांद, ब्यॉल्य हखुर	सानु	वळू, पोळ	सांढ, खूंट	सांड
सिंह	सिंहः	सिंघ, शेर	शेर	सुॅह	शींहुं	सिंह	सिंह	शींव
सियार	जम्बूकः	गिद्दड़	गीदड़ (सियार)	शाल	गिदड़ु॒	कोल्हा, खोकड	शियाळ	कोलो
सुअर	शूकरः, वराहः	सूर	ख़िनज़ीर	सोर	सूअरु	डुक्कर	सूंवर, शूलर, भूंड	दुकर
हाथी	गजः, हस्ती	हाथी	हाथी	होंस	हाथी	हत्ती	हाथी	हत्ती, हस्ति
हिरन	हरिणः, मृगः	हरन	हिरन	हरनुॅ, रूस्य-कॅट	हिरणु	हरीण, मृग	हरण	हरीण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाठो, पठरु	मेष शावक, भँड़ार बाच्छां	भड़ा पोवालि	याओ मचा	भेडी-शाबक मेंढ़ा छुआ	गर्रि पिल्ल	आट्टुक्कुट्टि	आट्टिन्कुट्टि	कुरिय मरि
स्याल	खेंकशियाल	शियाल	लम्हुई	शिआल, शृगाल	गुंट नक्क	कुळ्ळनरि	कुरुक्कन्, कुरुनरि	नरि
शुतुरमूर्ग	उटपाखि	उट चराइ	लैनुङ्दा मकोन शाबा येन मखल अमा	ओट पक्षी	निप्पु कोडि	नेरुप्पुक्कोळि	ऑट्टकप्पक्षि	उष्ट्र पक्षि
साँढे, साँढ	षांड़, षण्ड	षाँड़	शन लाबा	षंढ़, बृषभ	आबोतु	काळै	काळ	गूळि, होरि
सिंह	सिंह, पशुराज	सिंह	नोङशा	सिंह	सिंहमु	सिंगम्	सिंहम्	सिंह
स्याल	शियाल, शृगाल	शियाल	लमहुई	बिलुआ, शिआल	नक्क	कुळ्ळ नरि	कुरुक्कन्	नरि
सुँगुर	शुयोर	गाहरि	ओक्	घुषुरी	पंदि	पन्नि	पन्नि	हंदि
हात्ती	हाति, हाती, ऐराबत	हाती, गज	शमु	हाती	एनुगु	यानै	आन	आने
मिर्ग, हरिण	हरिण, मृग	हरिण	शजी	हरिण	जिंक	मान्	मान्	जिन्के, हरिणि, चिगरि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पक्षी	**पक्षिणः**	**पंछी**	**परिंदे**	**वुडॅवुॅन्य जानवर**	**पखी**	**पक्षी**	**पक्षी, पंखी**	**पक्षी**
उल्लू	उलूकः	उल्लू	उल्लू	रातुॅ मोंगुल	चिबि॒रो, उल्लू	घुबड	घुवड़	घूगूम
कबूतर	कपोतः, पारावतः	कबूतर	कबूतर	कोतुर	कबूतरु	कपोत, कबुतर, पारवा	कबूतर, पारेवुं	पारवो
कोयल	पिकः, कोकिलः	कोइल	कोयल	कुकिल	कोइलि, कोयलि	कोकिळा	कोयल	कोगूळ
कौआ	काकः	काँ	कौवा	काव	कांउं	कावळा	कागडो	कावळो, कायळो
गरुड़	गरुडः	गरड़	गरुड़	गरुड	गरुडु॒	गरुड	गरुड़	गरुड
गिद्ध	गृध्रः	गिरझ	गिद्ध	ग्रद	गि॒झ	गिधाड	गीध	गीद
गौरैया	गृहचटकः	गौरीआ	गौरैया	च्रॅर	झिर्की	एक पक्षी, चिमणी	एक पक्षी	चिमणी
चमगादड़	जतुकाः	चमगिद्दड़	चिमगादड़	रातुॅ क्रूॅल	चिमिड़ो, चमगादडु॒	वटवाधुळ	चामाचीडियुं	पाखो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पक्षी	**पाखि**	**पक्षी, पहु-चराइ**	**उचेक्**	**पक्षी**	**पक्षुलु**	**पर्वैगळ्**	**पक्षिकळ्**	**पक्षिगळु**
लाटोकोसेरो, उल्लू	पँचा, उलुक, उल्लुक	फँचा	मकू	पेचा	गुड्लगूबॅ	आंदै	मूङ्ङ, कूमन्	गूबे
परेवा	पायरा, कबुतर	पार, पारचराइ	खुनू	पारा, कपोत	पावुरमु	पुरा	प्रावुॅ	पारिवाळ
कोइली	कोकिल, कोयेल	कुलि	कोकिल	कोइलि, कोकिल	कोकिलॅ	कुयिल्	कुयिल	कोगिले
काग	काक, काग	काउरी	क्वाक्	काउ (कुआ)	काकि	काक्कै, कागम्	काक्क	कागे
गरुड	गरुड़	गडुर पखि	गरुड़	गरुड़ (बड़ बाज)	गरुड़ पक्षि	गरुडन्	गरुडन्, परुंतुॅ	गरुड
गिद्ध	शकुनि, गृध्र	शगुण	लङ्जा	शागुणा, गृध्र	गद्दॅ	कळुगु	कळुकन्	रणहद्दु
भँगेरो	चड़ाइ, चड़ुइ पाखि	घनचिरिका/ घरचिरिया	सेनद्राङ्	पाणिकुआ (कलारंगर जलचर पखीविशेष)	पिच्चुकॅ	चिट्टुक्कुरुवि	कुरुवि	गुब्बच्चि
चमेरो	चामचिके	बादुली	शेक्पी	बादुड़ि	गब्बिलमु	वौवाल्	वावल्	तोगलबावलि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चिड़िया	खग:, चटक:	चिड़ी	चिड़िया	चॅर	झिर्की	चिमणी	चकली	सवणें
चील	चिल्ला, चिल्ल:	इल्ल	चील	गाँठ	सिरणि	घार	समड़ी (ळी)	घोण
तीतर	तित्तिर:	तित्तर	तीतर	तीतर	तितिरु	तित्तर, कवडा, होला	तेतर	कवडो
तोता	शुक:	तोता	तोता	तोतुॅ	तोतो	पोपट	पोपट, सूडो	पोपट
पपीहा	चातक:	बंबीहा, पपीहा	पपीहा	पोशिनूल	पपीहो	चातक	पपैयो, चातक	चातक
बगुला	वक:	बगला	बगुला	कौलुॅटूँच	ब॒घु, ब॒घुलो	बगळा	बगलो	बकें
बाज	श्येन:	बाज	बाज़	पॉज़	बाज़	बहिरी ससाण	बाज	गिड़गो
बुलबुल	बुलबुल:	बुलबुल	बुलबुल	बुलबुल, बिल्यबिचुर	बुलबुल	बुलबुल	बुलबुल	बुलबूल
मुर्गा	कुक्कुट:	कुक्कड़	मुर्ग़ा	कोंकुर	कुकुड॒	कोंबडा	मरघो	कोंबो
मैना	सारिका	मैना	मैना	हॉर	मैना	सारिका, मैना	मेना	मैना

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चरो	चड़ाइ, चड़ुइ, पाखि	चराइ	उचेक	पखी/ पक्षी	पिट्ट, पक्षि	परवै	पक्षि	गुब्बि
चील	चिल	चिलनी	उमाइबी	चिल	गद्द	परुंदु	कळुकन्	हद्दु
तित्रो	तितिर	डँरिक	उरेमबी	सारी	तीतुव	कौदारि	तित्तिरिप्पक्षि	कवुजुग हक्कि, तित्तिर पक्षि
सुगा	तोता	भाटौ	तेनवा	शुआ (शुक)	चिलुक	किळि	शुकम्, तत्त	गिळि
चातक, काकाकुल	पापिया, चातक	पानीपिया, चातक	नोङगौबी	शारी–विशेष	वान कोयिल	इराप्पाडि	चातकम्, वेळांपल्	चातक पक्षि
बकुल्लो	बक	बगली	उरोक	बगुला, बग	कांगि	कांक्कु	कांक्कुं, बकम्	कोक्करे
बाज	बाजपाखि	शेन	खुनुखरंग	छंचाण, बाजपखी	डेग	राजाळि	परुँतुं	गिडग
जुरेली चरो, बुलबुल	बुलबुल, बुलबुलि	बुलबुल	खोइनिङ्	बुलबुल	बुलबुल	वानंबाडि	वानंपाटि, बुलबुल्	बुलबुल्-पक्षि
कुखुरो	मोरग, मुर्गी	कुकुरा	येन् लाबा, येन्बा	कुकुडा	कोडि, पुंजु	सेवल्	कोळि	हुंज
मैना, सारिका	मयना	मइना चराइ	मोयना	सारी	सारिक	मैना	मैन	मैना हक्कि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मोर	मयूर:	मोर	मोर	मोर	मोरु	मोर	मोर	मोर
सारिका	सारिका	मैना	मैना	हॉर	मैना	मैना, सारिका	सारिका, मेना	चिंवचिंव करपी एक लहान काळें शेवणें
हंस	हंस:	हंस	हंस	अॅन्ज़्, हंस	हंसु	हंस	हंस	हंस
रेंगने वाले प्राणी	**सरीसृपाः/ उरगाः**	**रेंगण वाले**	**हशरात**	**यडसूॅत्य-पकन-वॉल्य**	**रिढंदड़ प्राणी**	**सरपटणारे प्राणी**	**सरकनार प्राणी**	**घश्टत वचपी प्राणी**
कनखजूरा	शतपद:	कनखजूरा	कनखजूरा	कर्नुहॅपिन्य	कनसोपारी	गोम	कानखजूरो	वागोणी
केंचुआ	भूनाग:	सपोलीआ	केचुआ	केंचवु	सपु, केंचुओ	गांडूळ	अळसियुं, सरसियुं	गांयडोळ
गिरगिट	सरट:	गिरगट	गिरगट	गिरगिट	सांडो	सरडा	काचिंडो	शेड्डो
छिपकली	गृहगोधा:	किरली	छिपकली	केंकुॅलॅट	किरिड़ी	पाल	घरोळी, गरोळी	पाल, पाल्ल
साँप	सर्प:	सप्प	सांप	सरुफ	नांगु	सर्प, साप	साप, नाग	सोरोप

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुजुर	मयूर	मरा (मॅरा), मयुर	वाहोंङ्	मयूर	नंमलि	मयिल्	मयूरम्, मयिल्	नविलु
सारिका, मैना	सारिका, सारि	शालिका, मइना	मोयना	सारी	सारिकँ	मैना	किळि, शारिक	मैना
हाँस	हाँस, हंस	हाँह	कांङा	हंस	हँसॅ	अन्नप्पर्‌वै	अरयन्नम्	हंस
घस्रिएर हिँड्ने प्राणी	**सरिसृप जातीय**	**सरिसृपा**	**मपुकना सीत्तूना चत्पा जीबा**	**सरिसृप**	**प्राकुनवि**	**ऊर्‌वन**	**उरगङ्ङ्ळ्**	**तेवळुवंथवु**
कानखजुरो, कानसुत्लो	केन्नो, कानकोटारि	केरेलुवा	नाचल	तेंतुलिआ बिछा	काळ्ळॆ जॅर्रि	पूरान्	चंविप्पांबुॅ	जरि
गँडेउलो, गँड्यौलो, बस्यौंलो	कैंचो	कँचु	तीनथ्रोक	केंचुआ, कोचिआ	वानपामु	मणपुळ्	ञाञ्ञूल्	एरे हुळु, मण्णु हुळु
छेपारो	गिरगिट, गिरगिटि	तेजपिया	नूमीत् युङबी	ऐंडुअ	तोंडॅ, ऊसरवॅल्लि	ओणान्	ओंतुॅ	गोसुंबे, ओतिकाट
माउसुली	टिकटिकि	जेठी	चुम	झिटिपिटि	बल्लिॅ	पल्लि	पल्लि	हल्लि
सर्प, लाम्कीरो, साँप	साप	साप	लीन	साप	पामु	पांबु	सर्पम्, पांपुॅ	हावु, सर्प

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पेड़-पौधे	**वृक्षवनस्पतयः**	**पेड़-पौदे**	**नबातात/ पेड़-पौधे**	**कुल्य-कॅट्य**	**वण-बटा**	**झाडे-झुडपे**	**झाड-छोड़**	**झाड-झुडूप**
अमलतास	अमलतासः	अमलतास	अमलतास	फोलूस कुल	अमलतास	एक औषधी वनस्पती, बाहवा, भावा	गरमाळो	शिरीष, अमलतास
अशोक	अशोकः	अशोक	अशोक	अशोक	अशोक	अशोक	अशोक	अशोक
आम	आम्रः	अंब	आम	अंबुॅ	अंबु	आंबा	आंबो	आंबो
इमली	तिन्तिणीवृक्षः	इमली	इमली	तंबुॅर	गिदामिड़ी	चिंच	आमली, आंबली	चींच
कचनार	कोविदारः	कचनार	कचनार	कचनार	कचनार	कचनार, बहावा, आपटा	कांचनार	आपटो
कटहल	पनसः	कठल	कटहल	कटुॅहल	कटहल	फणस	फणस	पणस
करौंदा	करन्दकः	करोंदा	करौंदा	करोंदुॅ	करौंदो	करवंद	करमदो	करांदां, करवंदा
कीकर (बबूल)	करीरः	किक्कर	कीकर, बबूल	किकर	बबुरु	बाभळी, बाभळ	बावळ	बाभळ
केला	कदलीवृक्षः	केला	केला	केलुॅ	केलो	केळ	केळ	केळें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बोट-बिरुवा	**गाछ पाला**	**गछ-गछनि**	**ऊ-वा**	**गछ-बृक्ष**	**चंट्लु-पोक्कलु**	**मरंगळ्, चंड्गिळ्**	**मरङ्ङ्ळ्, चंटिकळ्**	**गिड-मरगळु**
अमलतास, राजवृक्ष	सोंदाल, सोनालु, कर्णिकार (र्नि), अमलतास	अमलतास	ऊ पांबी मखल अमा	अमलतास	अमलतास	सरक्कोन्नै	कोन्न	कक्केमर, क्यासिय गिड
अशोक	अशोक	अशोक	अशोक	अशोक	अशोकवृक्षमु	अशोकमरम्/ नैट्टुलिंगम्	अशोकम्	अशोक वृक्ष
आँप	आम	आम	हैनौ	आंब	मामिडि	मा	मावॅ	माविन मर
अमिली, तित्री	तेँतुल	तैँतली	मङ्गे	तेंतुलि	चिंत	पुळि	पुळि	हुणिसे मर
कोइरालो, कोविदार	काञ्चन	काञ्चन	चीङ्थ्राओ	कंचन, कांचन	कोविदारमु	कोविदारमरम्	कचनारम्, मलयकत्ति	कंचिवाळदगिड
कटहर	काँठाल	कँठाल	थैबोङ्	पणस	पनसं	पला	प्लावॅ	हलसिन मर
करौँदा	करम्चा	पनीयल	करौंदा	करमंगा	वाक्कायँ	कळाक् काय्	करमर्दम्	कवळि गिड
बबुर	बाबला	एबिध काँइटीया गछ, सरुवा	चिगोंलै मखल अमा	बबुल, बबुरि	तुम्मं	करुवेलम्	करुवेलवृक्षम्	जालिय गिड
केरा	कला	कल	लफू, लफोइ	कदली	अरटि	वाळै	वाळ	बाळेय गिड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
केवड़ा	केतक:	किओड़ा	केवड़ा	केवड़ुं	केवड़ो	केवडा	केवड़ो	कवासो
खजूर	खर्जूर:	खजूर	खजूर	ख़ॅज़ॅर	खजूरि	खजूर	खजूरी	खाजूर
चंदन	चन्दनम्	चंदन	संदल	चंदुन	चंदनु, संदलु	चंदन	चंदन	चंदन
ताड़	ताल वृक्ष:	ताड़	ताड़	ज़ांगुल	ताड़	ताड	ताड़	ताड
तुलसी	तुलसी	तुलसी	तुलसी	तौंलसी	तुलसी	तुळसी	तुलसी, तुळसी	तुळस
देवदार	देवदारु:	बिआर, दिआर	देवदार	दिवदोर	दयाल	देवदार	देवदार (रु)	देवदार
धतूरा	धत्तूर:	धंतूरा	धतूरा	दतुर	धातूरो	धोत्रा	धतूरो, धंतूरो	धुतरो
नागफनी	नागफण:	थोहर	नागफनी	नागुँफनी	नागफणी	नागफणी	नागफणी	निवलकांडे, क्याकॅटॅस
नारियल	नारिकेल:	नारीअल	नारियल	नारजील	नारेल	नारळ	नारियेळ	नाल्ल
नींबू	जम्बीर:	निंबू, निब्बू	नीबू	न्योंम	लीमो	लिंबू	लींबु, लिंबु	लिंबू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
केवँरा	केया, केतकी	केतेकी	केतुकी	किआ	मोगलि	ताळै	कैत	केदिगे गिड
खजूर	खेजुंर	खेजुर	खजूर पांबी	खजुरी	खर्जूरमु	ईच्चै	ईत्तप्पन	खर्जूरद मर
चंदन	चंदन	चंदन	चंदन पांबी	चंदन	चंदनमु	चंदनम्	चंदनम्	गंधदमर
ताड	ताल	ताल गछ	ताड़, कोनागुंबा पांबी मखल अमा	ताल	ताटि	पनै	पन	ईचलु मर
तुलसी	तुलसी	तुलसी	तुलसी	तुलसी	तुलसि	तुळसि	तुळसि	तुळसि
देवदार, दियाल	देबदारु	देबदारु	देवदार, उचान पांबी	देवदारु	देवदारु	देवदारु	देवदारु	देवदारु मर
धतुरो	धूतुरा, धुत्रो	धतुरा	सगोइदाक	दुदुरा	उम्मेत्त	ऊमत्तै	उम्मम्	धत्तरि गिड
नागफणी	फणिमनसा	नागफेना	मैपोकपी	नागफैणी	नागजेमुडु	शप्पात्ति/ नागतळि	कळ्ळिप्पाल, कळ्ळिच्चेंटि	पापास् कळ्ळि केक्टसु
नरिवल	नारिकेल, नारकेल, नारकोल	नारिकल	यूबी	नड़िआ	कोब्बरि	तेंन्नै	तेंङ्ङ्	तेंगिन मर
निंबू, कागती	नेबु, लेबु (कागजि)	नेमू	चमप्रा	लेंबु	निम्म	एलुमिच्चै	चेरुनारकम्	निंबे गिड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नीम	निम्बः	निम्म	नीम	नीम	निमु	कडू, लिंब, निंब	लीमडो, लींबड़ो	कोडूलिंबू
पलाश	पलाशः	ढक, पलाह	ढाक, पलास	पलाश	पलाश, केसूफूल	पळस	पलाश, खाखरो	पळस
पीपल	पिप्पलः, अश्वत्थ	पिप्पल	पीपल	पीपल	पिपिरु	पिंपळ	पीपळ, पीपळो	पिंपळ, पिपळ
बाँस	कीचकः, वेणु	वांस, बाँस	बांस	बाँस	बांस	बांबू, वेळु	वांस	बांबू, कोंडो
बेंत	वानीरः	बैंत	बेंत	बाँथ	बेद	बेत	बेतर	बेत
बेरी	बदरः	बेरी	बेरी	ब्रेथि	बेरि	बोर, बोरी	बोरड़ी	बॉर
बेल	बिल्वः	वेल	बेल	थॅर	वलि	बेल	वेल	बेल
मौलसिरी	बकुलः	मौलसरी	मौलसिरी	मौलसिरी	हिकु सदाबहार वणु, मौलसिरी	वकुळ, बकुळी	बकुल	वोंवळ, ओंवळ
वट (बरगद)	वटः, न्यग्रोधः	बोहड़, बरोटा	बरगद	वट	बड़ु	बट, वड	वड, वडलो	वड
सागौन	सालः	सागवान	सागौन, साल	सागवान	सागु, सागुवान	सागवान	सागनुं झाड, शाल वृक्ष	सागवान, सयला

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नीम	निम	निम	नीम	निम	वेप	वेंबु	वॅप्पॅ	बेविन मर
पलाँस, पलाश	पलाश	पलाश	पाङ्गोङ्	पलाश	मोदुग	पूवरसु	प्लाशॅ	मुत्तगद गिड
पीपल, पिप्पल	अशथ, अश्वत्थ	आँहत, अश्वत्थ	खोङनाङ्	ओस्त (अश्वत्थ)	रावि	अरशु	अरयाल्	अश्वत्थ वृक्ष, अरळे मर
बाँस	बाँश	बाँह	वा	बांउस (बाउंश)	वेदुरु	मूंगिल्	मुळ	बिदिरु
बेत	बेत	बेंत	ली	बेत	पेमु	पिरंबु	चूरल्	बेत्त
बयर, बदरिका	कुल	बनबगरि	बोरोइ	बरकोलि गछ	रेगि पंडु	इलंदै	इलंतमरम्	इलाचि गिड
बेल	बेलफल, श्रीफले	बेल	हैरी, उरि	बेल	मारेडु	विल्वम्	कूवळम्, विल्वम्	बिल्व मर
मौलसिरी, मौलश्री, बकुल	बकुल	बकुल	बोकुल	बउल (बकुल)	पोगडमु	मगिळम्	इलञ्ञि	बकुळ वृक्ष
बर	बट (बृक्ख)	बट, बड़गछ	सनाखोङनाङ खोङ्नाङ् बोट	बट, बरगछ	मर्रि	आल्	वटवृक्षम्, पेराल्	आलद मर, वटवृक्ष
सागौन, शालवृक्ष	शाल, शेगुन	चेगुन, शाल	साल पांबी, चीङशु	सागुआन	सारग	तेककु	तेक्कॅ	तेगद मर, शाल वृक्ष

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सेमल	शाल्मलिः	सिंबल	सेंमल	सेमल	सेमल	शीवरी	सेमल, सेमर, शीमळो, शीमळ	सांवर, सांवरी
खेलकूद	**क्रीडाः**	**खेलकूद**	**खेलकूद**	**गिंदुन-द्रकुन**	**रांदियूं**	**खेळ**	**रमतगमत**	**खेळ-क्रीड़ा**
आँख-मिचौनी	गूहनम्	लुकणमीटी	आंखमिचौली	ॲन्य-छ्यपुंछॉर, चूरु-चूरि	अखि बूट, लिक छिप	लपंडाव	संताकूकडीनी रमत	आपालिपा
आखेट (शिकार)	आखेटः, मृगया	शिकार	शिकार	शिकार	शिकार	शिकार	शिकार	शिकार, कास
कबड्डी	कबड्डी-क्रीडा	कौडी, कबड्डी	कबड्डी	कबठ	कबुडी, को<u>डी</u> को<u>डी</u>	हुतूतू	हु तु तु तु कब्बडी	कबड्डी
कुश्ती	मल्लस्पर्धा	घंल, कुश्ती	कुश्ती	दबुॅदब, कुश्ती	कुश्ती, मल्ह	कुस्ती, मल्ल युद्ध	कुस्ती	कुस्ती
कूद (ऊँची/ लंबी)	लम्बकूर्दनम्	छाल (उच्ची/ लम्मी)	कूद (ऊँची/ लंबी), छलाँग	वौंठ (थॅज़/ जीठ)	टपो (ऊचो/ व<u>डो</u>) छलांग	उडी (उंच/ लांब), उंच उडी/ लांब उडी	कूदको (ऊंचो/ लांबो)	उडी (ऊंच/ लांब)

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिमल	शिमूल	शिमलु	तेरा पांबी	शिमिलि	बूरुग	इलवै	इलवॅ	बूरुगद मर
खेलकुद	**खेलाधूला**	**खेलाधुला खेल**	**साना-खोतनबा**	**खेल-कसरत**	**आटपाटलु**	**विळैयाट्टुगळ्**	**कळिकळ्**	**आटपाट/ आट ओटगळु**
लुकामारी	लुकोचुरि	लुकाभाकु	केकुलोत्पी	लुचुकाली	दागुडुमूतलु	कण्णामूच्चि	कण्णुर्कट्टिक्कळि	कण्णुमुच्चाले
सिकार	शिकार, आखेट	चिकार	शा तानबा	शिकार	वेट	वेट्टै	नायाट्टॅ	बेटे, शिकारी
कपर्दी	कपाटि, हा-डु-डु-खेला	हाईगुदु, काबादि	कबड्डी	डुडु/ किति-किति, कबाडि	चेंडुगुडु	कबड़ी/चडुकुडु	चटुकुटु/कबडि	कबड्डि, हुतुतु
कुस्ती	कुस्ति	कुस्ति, कुस्ति-व्यायाम	मुक्ना	कुस्ति	कुस्ती	गुस्ती	गुस्ति	कुस्ति
कुद (अग्लो/ लामो)	हाइजंप (इं), लंगजंप (इं)	जाँप (ओख, दीघल)	जम	डिआँ (उंचा/लंबा)	हाई/लांग जंप	उयरत्तांडल/ नीळतांडल	है जंप्/ लाँग जंप्	एत्तर जिगित उद्द

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कैरम	कैरमक्रीडा	कैरम	कैरम	कैरम	कैरम	कॅरम	केरम	कॅरम
क्रिकेट	क्रिकेटम्	क्रिक्रट	क्रिकेट	किरकट	क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकेट
खोखो	खो-खो-क्रीडा	खोखो	खोखो	खो खो	खो खो	खो खो	खोखो	खोखो
गिल्ली-डंडा	दण्डवीटिका	गुल्ली डंडा	गिल्ली डंडा	लॅठ्य-किंज-लौंठ	इटी डुकरु	विटी दांडू	गिल्लीदंडो, मोईदंडे	इटि-दांडो, विटी-दांडो
गोलरक्षक	गोलरक्षकः	गोलची	गोली	गोलकी	गोली, गोलची	गोलरक्षक	गोलकीपर, गोलरक्षक, गोलसाचवनार	गोलकी
गोल्फ	गोल्फक्रीडा	गोलफ	गोल्फ़	गाफ़	चौग़ानबाज़ी, गोलफ़्	गोल्फ़	गोल्फ	गोल्फ
घुड़दौड़	अश्वारोहणस्पर्धा	घुड़दौड़, दौड़ रा घोड़ा	घुड़दौड़	गुर्यदोर	घोड़नि जी डोड़	घोड-दौड	घोड़ादोड़	घोडया होड, घोड्या ची रेस
घुड़सवारी	अश्वारोहणम्	घुड़स्वारी	घुड़सवारी	गुर्य सवॉर्य	घोड़े सवारी	घोडेस्वारी	घोड़े सवारी	घोडेस्वारी
छीका गेंद (बास्केट-बॉल)	बास्केटबॉलक्रीडा, करण्डकन्दुकम्	बासकेट-बाल	बास्केट बाल	बास्कट बाल	बास्केट बालु, छिको बालु	बास्केट बॉल	बास्केट बोल	बास्केट बॉल
जिमनास्टिक	व्यायामः	जिमनास्टक	जिमनास्टिक	जमनास्टिक	कसरत, जिमनास्टिक	तालीमबाजी, व्यायाम	जिमनास्टिक, अंगकसरत	व्यायामसाळ, व्यायामशाळा
जुआ	द्यूतः	जूआ	जुआ	ज़ार	जूआ	जुगार, द्युत	जुगार, जूगटुं	जुगार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्यारम	क्यारम (ख्याला)	केरम	कैरम	केरम	कैरमु	केरम्	क्यारम्	केरम्
क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकेट	क्रिकॅट्टु	किरिक्कट्टु	क्रिक्कट्टॅ	क्रिकेट
खोखो	खो-खो	खोखो खेल	खो-खो	खोखो	खोखो	को-को	खो खो	खोखो
डन्डीबियो	डांगुलि, गुलिडाण्डा	टांगुटि	चैतेक्-कोत्पी	पुआ-बाडि, केलि	बिळ्ळम्गोड्डु	गिल्ली दांडु, किट्टिपुळ्	कुट्टियुम् कोलुम्	चिन्नी दांडु/ गिल्लिदंडा
गोलरक्षक	गोलरक्षी (रक्षक)	गोलरक्षक	अमाङबी सानाबा	गोल-रख्यक	गोल्कीपरु	गोल् काप्पोन्	गोळि	गोलकीपर्
गोल्फ	गल्फ	गोल्फ़	गोलफ	गोल्फ, गल्फ	गोल्फ	गोल्फ्	गोल्फ	गोल्फ
घोडदौड	घोड़दौड़	घोराँदौर	शगोल लमजेल	घोड़ा-दौड़	गुर्रपु पंदॅमु	कुदिरैप्पंदयम्	कुतिरप्पंतयम्	कुदुरे ओट
घोडसवारी	घोड़सओयारि	घोराँत उठा	सगोल तोङ्बी	घोड़ा चढ़िवा	गुर्रपु स्वारि	कुदिरै सवारि	कुतिर सवारि	कुदुरे सवारि
बास्केटबल	बास्केट बल (इं)	बास्केट बल	बास्केट बॉल	बास्केट बल	बास्केट बालु	कूड़ैप्पंदु	बास्कट् बॉळ्	बास्केट्बाल्
जिमनास्टिक	जिमनास्टिक(इं), ब्यायाम	व्यायाम	जिमनास्टिक	जिमनाष्टिक, ब्यायाम	जिम्नास्टिक	कवात्तु/ उडर्पयिर्चि	शरीर व्यायामम्	जिमनास्टिक
जुवा	जुआ	जुवा खेल	ज्वार सानाबा	जूआ	जूदमु	सूदाट्टम्	चूतुॅ	जूजु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
जूडो	जूडोक्रीडा	जूडो	जूडो	जूडो (लतुँचंजि तूँ खूंकिलुँ)	जूडो	जूडो	जूडो	जूडो
टेनिस	टेनिसक्रीडा	टैनस	टेनिस	टेनिस	टेनिस	टेनिस	टेनिस	टॅनिस
ताश	पत्रक्रीडा	ताश	ताश	तास	तास, पत्ते, रांदि	पत्ते	गंजीपत्तो, पाना, गंजीफो	इस्पीक
तीरंदाजी	धनुर्विद्या	तीरंदाजी	तीर-अंदाज़ी	तीरअंदाॅज़ी	तीरंदाज़ी	तीरंदाजी	तीरंदाजी	तिरमारी, धनुर्विद्या
तैराकी	प्लवनम्	तराकी	तैराकी	छ़ांठ	तैराकी, तरणु	जलतरण-पटुता, पोहोणे	तरण	पेंवपीविद्या
दौड़	धावनम्	दौड़	दौड़	दोर, दव	डोड़	धाव	दोड	धांव
निशानेबाज	धन्वी	निशानेबाज़	निशानेबाज़	निशानुँबाज़	निशानेबाज़ु	नेमबाज	निशानबाज	निशाणबाजी
नौकादौड़	नौचालन-स्पर्धा	किश्ती-दौड़	कशतीरानी	नावुँ दोर	बेड़ी डोड़	नौकादौड़, नौकांची शर्यत	नौकादोड	नौका होड (रेस)
पतंगबाजी	पतङ्गक्रीडा	पतंगबाज़ी	पतंगबाज़ी	पतंगबाॅज़ी, गाँटुँब्रारि-बुडुँनावनि	लगड़बाज़ी	पतंगबाजी	पतंगबाजी	पतंगबाजी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जुडो	जुडो (खेला)	जुडो खेल	जूडो	जुडो	जूडो	जूड़ो	जूडो	जूडो
टेनिस	टेनिस (इं)	टेनिच	टेनिस	टेनिस	टेनिस	टन्निस्	टेन्निस्	टेन्निस्
तास	तास	ताच	ताश, ज्वार	तास	पेकाट	चीट्टाट्टम्	चीट्टुकळि	इस्पीट
तीरंदाजी, धनुर्विद्या	तीरंदाजी	तीर खेल, काँडर-व्यवहारशिक्षा, धनुर्विधा	तेनकाप्पा	तीर-निक्खेप खेल, तीरचालना	विलुविद्य	विल्विद्दै	अस्त्रविद्य, अंपयुत्तु	बिल्लुगारिके
पौडाइ, प्लवनविद्या	साँतार, संतरन	साँतोर खेल	ईरोइबा	संतरण, पंहरिबा	ईत	नीच्चल्	नींतल्	ईजु
दौड, दौडाइ	दौड़	दौर	लमजेन्	दौड़	परुगु पंदेमु	ओट्टम्	ओट्टम्	ओट
निशानाबाज	निशानबाज, लक्खभेदक	लक्ष्यभेदक	खुत चुंबा सानाबा	बंधुक चालक	गुरिकाडु	कुरिवैप्पवन्	उन्नक्कारन्	गुरि इडुवुदु
नौकादौड	नौकादौड़	नाओदौर	ही तान्नबा	नौका चालना	पडवलं पंदेमु	पडहोट्टम्	वळ्ळंकळि	दोणि स्पर्धा
चङ्गाबाजी	घुड़िबाजी	चिला-उरुओवा	तेलंगा पाइबा सानाबा	गुड़ि-उड़ा	गालिपटालं पंदेमु	पट्टम् विडुदल्	पट्टम् परत्तल्	गाळिपट-हारिसुवुदु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पाली	पाली	पाला	पाली	वॉर्य, अनुॅवॉर्य	वारो	पाळी	पाळी, वारी	पाळी
पोल वाल्ट	वंशकूर्दनम्	पोलवालट	पोल वाल्ट	पोलवाल्ट	पोलवाल्ट	पोलवॉल्ट	वांसकूद	वांस-उडी
पोलो	पोलोक्रीडा	पोलो	पोलो	पोलो	पोलो	पोलो	पोलो	पोलो
फुटबाल	पादकन्दुक-क्रीडा	फुटबाल	फुटबाल	फुटबाल	फुटबालु	फुटबॉल	फूटबोल	फुटबॉल
बल्ला	दण्ड:	बल्ला	बल्ला	बॉठ	बैट, बल्ला	बॅट	बेट	बॅट
बल्लेबाज	दण्डधर:	बल्लेबाज	बल्लेबाज़	बॉठबाज् (बलुॅबाज़)	बैट्स्मैन, बैटबाजु, बल्लेबाजु	फलंदाज	बेट्समेन	बॅट्स मन्
बास्केटबॉल	बास्किटबॉल-क्रीडा, करण्डकन्दुकम्	बासकट बाल	बास्केटबाल	बास्कट बाल,	बास्केट बालु	बास्केट बॉल	बास्केट बोल	बास्केट बॉल
बैडमिंटन	बैडमिण्टन-क्रीडा	बैडमिंटन	बेडमिन्टन	बैडमिंटन, ज़ाल बॉठ	बैडमिंटन	बैडमिंटन	बेडमिन्टन	ब्याडमिंटन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाली	पाला, बार	पाली, पाल, फाल	पाली	पाली	इन्निंगु	इन्निंग्/ आट्टम्	इन्निंग्	पाळि
डण्डाटप, पोलभाल्ट	पोलभॉल्ट्	दंड जाँप, पोल	पोल-वाल्ट	पोलभल्ट	पोल्वाल्टु	कोल् तांडुदल्	पोळ् वाळ्ट्	पोल वाल्ट्
पोलो	पोलो	पल (पोलो)	शगोल काङजै, पोलो	पोलो	पोलो	पोलो	पोळो	पोलो
फुटबल	फुटबल	बलखेला, फुटबलखेल, कंदुक क्रीड़ा	फुटबाल	फुटबल	फुटबालु	काल् पंदु	फुट्बाळ्	फुट्बाल्
ब्याट	ब्याट्	क्रिकेटर बेट	ता- लङ्बी	ब्याट	ब्याटु	बेट्/ पंदडिक्कुम् मट्टै	बाट्टु	ब्याटु
ब्याट्सम्यान	ब्याट्सम्यान	बेट्छ्मेन	क्रिकेत सानाबा हैबामी	ब्याट्सम्यान	ब्याट्समेनु	मट्टैयडिप्पवन्/ बैट्स्मैन्	बाट्समान्	ब्याट्समन्
बास्केटबल	बास्केटबल	बास्केटबल	बास्केटबाल	बास्केट बल	बास्केटु बालु	कूडैप्पंदु	बास्कट् बाळ्	बास्केट् बाल्
ब्याड्मिन्टन	बैडमिंटन	बेडमिंटन	बैडमिंटन	बेड्मिंटन	बैडमिंटनु	पूप्पंदु/ बाडमिंटन्	बाड्मिन्टन्	ब्याड्मिन्टन्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बोलर (गेंद फेंकने वाला)	क्षेपकः	गेंदबाज	बोलर, बाउलर	बालर, बाल-लायनवोल	बोलर, बालबाजु	गोलंदाज़	गोलंदाज़ बोलर	गोलंदाजी, गोलबाजी
ब्रिज	ब्रिजक्रीडा	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज
भारोत्तोलन	भारोत्तोलनम्	भार-चुक्क, बेट-लिफ्टिंग	वेट लिफ़्टिंग	बार तुलुन	वज़नु खणणु	भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग	वजन ऊंचक्द	वजन उबारप, वेट लिफ़्टिंग
भालाफेंक (जेवेलियन थ्रो)	शूलक्षेपणम्	नेज़ा-सुटट, नेजेबाज़ी	नेज़ा-अंदाज़ी	बलमि कश	भाले-उछल, नेज़ा-अंदाज़ी	भालाफेंक	भालाफेंक	भालोफेंकप
मुक्केबाजी (बॉक्सिंग)	मुष्टिक्रीडा	मुक्केबाज़ी	मुक्केबाज़ी (बाक्सिंग)	मुश्तुँबॉज़ी	ठौंशेबाज़ी	ठोसा नेशी, बॉक्सिंग	मुक्काबाजी, बोक्सिंग	मुक्काबाजी, बाक्सिङ्ग
मुगदर	गदा	मुगदर	मुग्दर	मुगद्र	मुदगरु	जोडी	मगदळ	मुदगल
रस्साकशी	रज्जुक्रीडा	रस्साकशी	रस्साकशी	रज़ि लमुन	नोड़ी-छिक	रस्सी खेच	रस्सा खेंच, गजग्राह	रस्सीखेंच

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बलर, गेंदबाज	बोलर, जे क्रीकेट बॉल छोंड़े	बलार, बल दिओँता	बोल लङ्गदबा मी	बोलर (क्रिकेटबल-फिंगिबाबाला), बलाफिगाली	बौलरु	पंदु वीसुबवन्	बॉळेरुँ	बौलर्
ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज	ब्रिज्	ब्रिड्ज्	ब्रिज्
भारोत्तोलन	भारोत्तोलन कारी	भार उत्तोलन	योत् थाङ्गत्पा, वेट लिफ्टिंग	भारोत्तोलन	वेयिट् लिफ्टिंगु	बारम् तूक्कुदल्	भारोद्वहनम्	भार एत्तुवुदु
भालाफेंक, ज्याभलिन थ्रो	बल्लम छोंड़ा	याठीदलिओवा खेल	ता लङ्बा, जेवेलियन थ्रो	भाली फिंगा, बर्छा फिंगा	जेवेलियन थ्रो	ईट्टि एरि्दल्	जावलिन् त्रो	ईटि-एसेयाट
मुक्काबाजी, बक्सिंग	बॉक्सिंग	बक्सिं	खूत्तुम्ना शूनबा, बॉक्सिङ्	मुष्टिजुद्ध, बाक्सिं	बाक्सिंगु	कुत्तुच्चण्डै	बोक्सिंग्	मुष्टि युद्ध, बाक्सिंग
मुद्गर	मुगुर, मुद्गर	मुगदर	उना शाबा गदा मखल जूरा अमा (हक्चाङ् शाजेल तौबदा शिजिन्ना)	मुद्गर	मुग्दरु, गदॅ	गदै	गद	गदे
डोरी-तानातानको खेल	दड़िटानाटानि	रछीटना खेल	थौरी चोङ्बी	रशि-कर्षण, दउडि टणा	टग ऑफ वार	कयिरु इळुक्कुम् पोट्टि	वटंवलि	हग्ग-एळेयुव-आट

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
लेजियम	लेजियमम्	लेज़ीअम	लेज़ियम	लेज़ियम	लेज़ियम	लेजीम	लेजीम	लेजीम
वालीबॉल	कन्दुकक्रीडा	बालीबाल	वालीबाल	वॉली बाल	वाली बाल	व्हॉलीबॉल	वोलीबॉल	व्हाली बॉल
विकेट	विकेट:	विकट	विकेट	विकेट	विकेट	विकेट, विटी दांडी	विकेट, विकिदांडी	विकेट
विकेटरक्षक	विकेटरक्षक:	विकट-कीपर	विकेटकीपर	विकटुं रॉछ, विकटकीपर	विकेट रक्षकु	विकेट रक्षक	विकेट-कीपर, दांडीरक्षक	विकेट रक्षक
शतरंज	शतरंज-क्रीडा	शतरंज	शतरंज	शतरंज	शतरंज	शतरंज, बुद्धिबळ	शतरंज, चेस, चोपट, चोपाट	बुद्धिबळ
साइकिल दौड़	द्विचक्रिका-स्पर्धा	साइकल दौड़	साइकिल दौड़	बॉसकल दोर	साइकिल डोड़	सायकलीं ची शर्यत	साइकल दोड	सायकलीं ची सर्त
हॉकी	हॉकीक्रीडा	हाकी	हाकी	हाकी	हॉकी	हॉकी	हॉकी	हॉकी
हैमर थ्रो	मुद्गरक्षेपणम्	संगल गोला-सुट	हैमर थ्रो	हैमर थ्रो	हैमर थ्रो, हथोड़ी फेंक	हातोडा फेंक	हथोडाफेंक	हातोडो फेंकप, घण फेंक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लेजियम	लेजिम	लेजिम	लेजियम्	लेजिम	लेजियम	लेज़िम्	लेसियम्	लेझीम्
भलिबल	भलीबल	भलिबल	बोलीबॉल	भली-बल	वालीबालु	वालीबाल्/ कैप्पंदाट्टम्	वोळीबाळ्	वालीबाल्
विकेट	उइकेट	उइकेट	विकेट	विकेट	विकेंटु	विक्केट्	विक्कट्	विकेट्
विकेटरक्षक	उइकेट कीपर	उइकेट-रक्षक	विकेट शेन्नबा मी	विकेट-रख्यक	विकेंट कीपरु	विक्केट् कीपर्	विक्कट् कीपर्	विकेट् कीपर्
बुद्धिचाल, बुद्धिबल	शतरञ्च	शतरंच, पाशाखेल, दाबाखेल	शतरंज, चेस	पशाखेल	चदरंगमु	चतुरंगम्	चतुरंगम्	चदुरंग
साइकल दौड	साइकेल दौड़	चाइकेल दौर	साइकल लमजेल	साइकेल-दौड़	साइकिलु पंदेमु	सैक्किळ् ओट्ट पंदयम्	सैकिळ् रेस, सैक्किळ् ओट्टम्	साइकल-स्पर्धे
हकी	हकि	हकि	हॉकी	हकि	हाकी	हाक्कि	होक्कि	हाकि
ह्यामरथ्रो	हाथुड़ि छोड़ा	हेमार थ्र (थ्रो)	हैमर थ्रो	हामर्-थ्रो हामरफिंगा	हैमर् थ्रो	हेमर् त्रो	हामर त्रो	गुण्डु एसेत

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
गहने	**आभूषणम्**	**गहणें, जेवर**	**ज़ेवरात**	**गहनु**	**ज़ेवर**	**दागिने**	**घरेणां**	**दागिनें**
अँगूठी	मुद्रिका	छाप, मुंदरी	अंगूठी	वॉज	मुंडी	अंगठी	वींटी, मुद्रिका	मुदी, आंगठी
आरसी	अङ्गुष्ठी	आरसी	आरसी	ऑनुॅ	आरसी	छोटा आरसा बसवल्ले दागिना	खाप जडेली वींटी	हारसो
कंगन	कङ्कणम्	कंगण	कंगन	कौर	कंगणु	कांकण	कंगन, कंकण, बंगडी	तोडो
कड़ा	कङ्कणम्	कड़ा	कड़ा	कौर, गुनुस	चूड़ो	कडे	कडुं	कडें
करधनी	कटिबन्धः, मेखला	कमरपट्टी	पटका	तागुॅर	चेल्हिकी, चेल्हि जी पटी	करधनी	कंदोरो	कमरबंद, कमर पटो
कर्णफूल	कर्णवेष्टम्	बुंदे	कनफूल	कनुॅ दूर	दुरु, कनफुलु	कर्णफूल	कर्णफूल	कर्णफूल
गुलूबंद	गलबन्धः, ग्रैवेयकम्	गुलूबंद	गुलूबंद	गुलोबंद	गलेपटी, गुलूबंद	चिंचपेटी	हांसडी जेवुं, गळाने चपोचप बीडातुं घरेणुं, कोलर	कंठी
चूड़ी	कंङ्कण	चूड़ी	चूड़ी	बुंगुॅर, कछ़कर	चूड़ी	बांगडी	चूडली, चूडी	कांकण, बांगडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गरगहना	**गहना, गयना, अलंकार**	**गहणा, अलंकार, आभूषण**	**सनागी लिक्-कोन**	**गहणा**	**आभरणमुलु**	**नगैगळ्, आबरणंगळ्**	**आभरणङ्ङळ्**	**ओडवे**
औँठी	आंटी	आङुठि, आङठि	खुदोप	मुदि	उंगरुमु	मोदिरम्	मोतिरम्, अंगुलीयम्	उंगुर
आरसी, ऐना	आयना-बसानोआंटी, दर्पन, आरसि	आर्ची, दापोण	नुपीना शिबा खुदोप मखल अमा	आरसी, दर्पण, आइना	अद्दमु	कण्णाडि	कण्णाटि, दर्पणम्	कन्नडि
ककनी, कङ्कण, बाला	कंकण, काँकण (बाला)	कंकण (न)	खुजी	कंकण	कंकणमु	वळै	वळ, कंकणम्,	कंकण
बाला, कडा	बाला (चूड़ि)	बाला	खुजी पोकचाओबी	कड़ा, बला	कडियमु	काप्पु	काप्पु	कडग
कंदुनी, कंधुनी	गोट	कद्र्दनि	ख्वाङ्ली	अंटासूता, गोठ, चंद्रहार	वड्डाणमु	ऑड्डियाणम्	अरञ्ञाणम्	डाबु
कर्णफूल	कानेर फुल	काणफुल, कँरिया	नागी लै	कानफुल	कम्मलु	कम्मल्, तोडु	कम्मल्	बेण्डोले, ओले
कण्ठी, कण्ठमाला	चिक्, कण्ठमाला	गलाबान	खैरिदा तप नपशिनदुना शिबा लैटेङ मखल अमा	गलार-गहणा, हार	कंठहारमु	अट्टिगै	नेंकलेस्	कण्ठि
चुरो,चुरा	चुड़ि (धातु बा काँचेर)	चुरी, चुरीखारु	खुजी	चूड़ी, काच	गाजु	वळैयल्	वळ	बळे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
झुमका	कर्णाभूषणम्, कर्णवेष्टम्	झुमका	झुमका	जुमुर्कुँ	झूमक, झुमको	डूल, इयररिंग	झूमखुं	डूल
टीका	तिलकम्	टिक्का	टीका	टिकु, ट्रयोक	बिंदी, टिकड़ो	बिंदी	तिलक,चांल्लो चांदलो, टीलुं	भांगतिळो
नथ	नाथः	नत्थ	नथ	नस्तुवॉज	नथ	नथ	नथडी, नथणी, नथनी, नाकनीव नथ, वेसर	नथ
पायल (पाजेब)	नूपुरम्	पजेब	पाज़ेब (पायल)	पांज़ेबुँ	पाज़ेबु, पायल	तोरडी, नूपुर	पायल, झांझर, झांझरी	पांयजण
बाली	कर्ण-पूरम्, कर्णिका	वाली	बाली	कनुँवॉज़	वाली, बाली	भिकबाळी, वाळी	वाळी	कानांतले, पेनेत
बिछुआ (बिछवा)	पादाङ्गुली-भूषणम्	बिछुआ	बिछवा	बिछर्वुँ	विछूंअड़ो	जोडवे	वीछुवा, वींछियो, वींछुआ	वेडो, सुत्तुंगुर
बुंदा	कुण्डलम्	बुंदा	बुंदा	दूर	कन जो कोको, कुंडलु	लोलक	बूटियुं	कुंडल
मंगलसूत्र	मङ्गलसूत्रम्	मंगलसूतर	मंगलसूत्र	मंगलसूत्र	मंगलसूत्र	मंगळसूत्र	मंगळसूत्र	मंगळसूत्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झुम्का	झुम्को	काणत पिंधालट्‌कन्	लै यांथबी	झुमुका	जूकालु	जिमिक्कि	कुणुक्कुँ, जिमिक्कि	जुमुकि
टिको, टिकुली	टिक्लि	फोट, तिलक	बिंदी	टीका, तिलक	तिलकमु	पॉट्टु	पॉट्टुँ	बोट्टु, तिलक
नत्थ	नथ	नाकफुल, नाकबालि	नासिका अराओबा	नोथ	मुक्कुपुडकॅ	पुल्लाक्कु, मूक्कुत्ति	मूक्कुत्ति	नत्तु
पाउजेब, पाउजु	नूपुर, पाँइजोर	पायल, नुपुर	पायल, खोङजी मखल अमा	पाउँजि, पाउँज	गज्जॅ	सलंगै	काल्चिलंपुँ	किरूगेज्जे, नूपुर
बाला	माकड़ि, इयारिङ (इं)	काणबालि	नाराओबी	बालि (बला)	लोलाकु	वळैयम्	लोलक्कुँ, कुणुक्कुँ	ओले
बिछुआ	आङ्‌गोट, बिछाहार	भरिर आङुलित पिंधा अलंकार विशेष	खोङ्‌तोप	बिछा	मॅट्टॅ	मॅट्टि	काल्मॅट्टि	कालंदुगे
टप, कर्णफूली	दुल (काणेर)	कुंडल	नागी लै मखल अमा, नानप्पी	कुण्डल	कम्मॅ	लोलाक्कु	जिमिक्कि	लोलाकु
मङ्‌गलसूत्र	मंगलसूत्र, कालो पुँतिरमाला (बिबाहितारा परेन)	मंगलसूत्र	मंगल सूत्र	मंगलसूत्र	मंगळसूत्रमु	तालि	मांगल्यसूत्रम्, तालि	मंगळसूत्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मुकुट (ताज)	मुकुटः	मुकट (ताज)	सेहरा (ताज)	मुकट, ताज	मुकुटु, मुटिकु, छटु	मुकूट	मुकुट, मुगट, ताज़	मुकूट
लौंग	लवङगम्	लौंग	लौंग (नाक की कील)	रोंग	फुली, लौंग	चमकी, कर्ण व नाकाचे आभूषण	लवंगियुं, लविंगियुं	पिली
हार	हारः	हार	हार	हार	हारु	हार	हार	हार, माळ
प्रसाधन	**प्रसाधनम्**	**साज सिंगार**	**सामाने-आराइश**	**साज़ सिंगार**	**सींगार-सामानु**	**प्रसाधन**	**प्रसाधन**	**प्रसाधन**
अलता (आलता)	अलक्तकम्	अलता	अलता	आलतु	अल्तो, अलतो	अळता, बायकांच्या हाताळा	अळतो	अलतो
इत्र	गन्धः	अतर	इत्र	अँतुॅर	अतुरु, इत्रु	अत्तर	अत्तर	अत्तर, चेर
कंघी	कङकतम्	कंघी	कंघी	कंगन्य	फणी	फणी	कांसकी, कांसको दंतियो	फणी, दांतोणी
काजल	अञ्जनम्	कज्जल	काजल	कजुल	कजलु, काजलु	काजळ	काजळ, आंजण, अंजन, मेश	काजळ

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुकुट, श्रीपेच	मुकुट	ताज, मुकुट	लुहूप	मुकुट	किरीटमु	मुकुडम्, किरीडम्	किरीटम्	किरीट
फूली	नाकछाबि (नाकेपरबार गहणा)	नाकफुल	नातोनदा नप्शिल्लगा चिन्बा लैतेङ्, नासिका	नाकफुल	मुक्कुपुडकॅ	मूक्कुत्ति	मूक्कुत्ति	मूगबट्टु
हार, माला	हार, माला	हार	लिक्	हार	हारमु	मालै/ आरम्	हारम्, माल	सर,हार
प्रसाधन	**प्रसाधन**	**प्रसाधन**	**केनबा पोत्लम**	**प्रसाधन**	**अलंकरण सामग्रि**	**अळगु सादनंगळ्**	**अलंकारवस्तुक्कळ्**	**शृंगारसाध नगळु**
आलता	आलता, अलक्त	आल्ता	अलता, नुपीशिङ्गी खोङ्दा तैनबा अङाङ्बा मचुगी पोत्लम अमा	अलता	पाराणि	चॅचाॅदु	अलक्तकम्, चॅपञ्चिच्चारॅ	आलतिगे
अत्तर	आतर (सुगंधि)	आतर	थाओ मनम नुङ्शिबा	अतर	अत्तरु	अत्तर्	अत्तरु	अत्तरु, पन्नीरु
काँगियो, काइँयो	चिरुणी, काँकुइ (न)	कंठी, फणि	समचेत	पानिआ, चिरूणी	दुव्वॅन	सीप्पु	चीप्पॅ	बाचणिगे
गाजल	काजल	काजल	काजोल	कजल, कला	काटुकॅ	कण् मै	कण्मषि	काडिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चोटी	वेणी	गुत्त	चोटी	लठुर, छोग	चोटी	वेणी	शिखा, चोटली, चोटलो	विणी
जूड़ा	जूट:	जूड़ा	जूड़ा	जूडुँ	चोटो, जूड़ो	अंबाडा, बुचडा	अंबोडो	आंबाडो
तेल	तैलम्	तेल	तेल	तील	तेलु	तेल	तेल	तॅल
दर्पण (आईना, शीशा)	दर्पण:	शीशा	शीशा, आईना	ऑनुँ	आईनो/ आरसी	दर्पण, आरसा, आयना	दर्पण, अरीसो, आयनो, आरसो	हारशो
पाउडर	चूर्णम्	पौडर	पाउडर	पोडर	पाऊडरु	पावडर	पाउडर	पोव
बिंदिया	तिलकम्, बिन्दु:	बिंदी	बिंदी	बिंदुँर, ट्योक	तिलकु, टिकड़ो	टिकली	चांदलो, चांल्लो	टिको, टिकुली, बिंदी
महावर	अलक्तकम्	महावर	लाखा	महावर	महावरु	सौभाग्यवतीच्या कपाळा लावयचा रंग	अळतो, महावर	आलता
मेहँदी	मेधी, मेधिका	मैहंदी	मेंहदी, हिना	माँज़	मेंदी	मेंदी	महेंदी, मेंदी	मेंदी
वेणी	वेणी	गजरा	चोटी	लठुर, वाँख	वेणी	वेणी	वेणी	फांती

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टुपी, चुल्ठो, शिखा	बिनुनि, वे̱णी (नी)	बेणी	बेनी, शिखा	चुटी, बेणी	पिलकँ, जडॆ	शिकै/ कुड्डुमि	शिख, कुट्टुम	चौरि
जुरो	खोपाँ	बेणीर खोपा	शमबुल	जूड़ा, खोसा	कॉप्पु	कॉण्डै	मुटिक्केट्टु	तुरुबु
तेल	तेल	तेल	थाओ	तेल, तैल	नूने	ऍण्णॅय्	एण्ण, तैलम्	एण्णे
ऐना	आयना, आरसि, दर्पण	दापोन, दर्पण, आइना	मिङ्शेल	दर्पण (आइना)	अद्दमु	निलैक्कण्णाडि	दर्पणम्, निलक्कण्णाटि	कन्नडि
पाउडर	पाउडर	पाउडर	पाउडर	पाउडर	पउडरु	पवुडर	पौडर्	पाउडर्
टिको, टिकुली, बिंदी	टिप, बिंदि	फौँट	बिं दी	बिंदिआ, बिं दी	बॉट्टु, बिंदि	पॉट्टु	पॉट्टुँ/ तिलकम्	बोट्टु
आलता	आल्ता, आलता	आल्ता	अङाङ्बा मचुगी खोङ्दा तैनबा	महाबर, एक प्रकार अलता	पाराणि	शॅंपूच्चु	चॅंपञ्चिच्चारु̱ँ	केंपरगु, लाक्ष्य
मेहदी	मेहेदी (मेहंदी)	जेतुका	मेहंदी	मंजुआती	गोरिंटाकु	मरुदाणि	मयिलांचि	गोरंटि, मेहंदी
वेणि, चुल्ठो	बेणी, बिनुनि (नी)	वेणी	बेनि	बेणी	जडॆ, वेणि	पिन्नल्	मुटि	जडे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सिंदूर	सिन्दूरम्	संधूर	सिंदूर	स्यंदुॅर	सिंदुरु	शेंदूर	सिंदूर	शेंदूर
गिनती	**गणना**	**गिणती**	**गिनती**	**ग्रंद**	**अंग, गणप**	**मोजणी, गणना**	**गणत्री**	**मेजणी**
एक	एक	इक	एक	अख	हिकु	एक	एक	एक
दो	द्वि	दो	दो	जुँ	ब़ु	दोन	बे	दोन
तीन	त्रि	तिन्न, त्रै	तीन	त्रें	टे	तीन	त्रण	तीन
चार	चतुर्	चार	चार	च़ोर	चारि	चार	चार	चार
पाँच	पञ्चन्	पंज	पांच	पाँछ़	पंज	पाच	पांच	पांच
छह	षट्	छे	छ:	शें	छह	सहा	छ	स
सात	सप्तन्	सत्त	सात	सथ	सत	सात	सात	सात
आठ	अष्टन्	अट्ठ	आठ	ऑठ	अठ	आठ	आठ	आठ
नौ	नवन्	नौं	नौ	नव	नव	नऊ	नव	णव
दस	दशन्	दस	दस	दॅह	ड़ह	दहा	दस, दश	धा
ग्यारह	एकादशन्	यारां (गिआरां)	गियारह	काह	यारहं/यार्हां	अकरा	अगियार	इकरा
बारह	द्वादशन्	बारां	बारह	बाह	ब़ारहं/ब़ार्हां	बारा	बार	बारा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिंदूर, सिँदुर	सिंदूर	सेंदुर	सिंदूर	सिंदुर	कुंकमँ	कुंकुमम्	सिंदूरम्	कुंकुम
गन्ती	**गणना (न), गोना**	**गँति**	**मशिङ्**	**संख्या, गणति, अंक**	**संख्यलु**	**एंगळ्**	**एण्णङ्ङळ्**	**एणिके**
एक	एक	एक	अमा	एक	ऑकटि	ऑन्रु	ऑन्नुँ	ओंदु
दूई	दुइ	दुइ	अनि	दुइ	रॅण्डु	इरंडु	रण्टुँ	ऍरडु
तीन	तिन	तिनि	अहुम	तिनि	मूड्डु	मून्रु	मून्नुँ	मूरु
चार	चार	चारि	मरि	चारि	नालुगु	नान्गु	नालुँ	नाल्कु
पाँच	पाँच	पाँच	मङा	पाँच	अयिदु	ऐंदु	अंचुँ	ऐदु
छ	छय	छय	तरूक	छअ	आँरु	आरु	आरुँ	आरु
सात	सात	सात	तरेत्	सात	एड्डु	एळु	एळुँ	एळु
आठ	आठ	आठ	निपान	आठ	ऍनिमिदि	ऍट्टु	ऍट्टुँ	एण्टु
नौ	नय	न	मापल, मापन	नअ	तॉम्मिदि	ऑन्बदु	ऑन्पतुँ	ओंबत्तु
दस	दश	दह	तरा	दश	पदि	पत्तु	पत्तुँ	हत्तु
एघार्	एगारो	एघार	तरामथोइ	एगार	पदकॉड्डु	पदिनॉन्रु	पतिनॉन्नुँ	हन्नोंदु
बाह्र	बारो	बार	तरानिथोइ	बार	पन्नेंड्डु	पन्निरण्डु	पंत्रण्टुँ	हन्नेरडु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
तेरह	त्रयोदशन्	तेरां	तेरह	त्रुवाह	तेरहं/तेर्हां	तेरा	तेर	तेरा
चौदह	चतुर्दशन्	चौदां	चौदह	च़ौंदाह	चोड॒हं/चोड॒हां	चौदा	चौद	चवदा
पंद्रह	पञ्चदशन्	पंदरां	पंद्रह	पंदाह	पंद्रहं/पंद्रहां	पंधरा	पंदर	पंदरा
सोलह	षोडशन्	सोलां	सोलह	शुराह	सोरहं/सोर्हां	सोळा	सोळ	सोळा
सत्रह	सप्तदशन्	सतारां	सत्रह	सदाह	सत्रहं/सत्रहां	सतरा	सत्तर	सतरा
अठारह	अष्टादशन्	अठारां	अट्ठारह	अरदाह	अरिढ़ं/अरिढ़ां	अठरा	अढ़ार	अठरा
उन्नीस	नवदशन्, एकोनविंशतिः	उन्नी	उन्नीस	कुनवुह	उणवीह	एकोणीस	ओगणीस	एकुणीस
बीस	विंशतिः	वीह	बीस	वुह	वीह	वीस	वीस	वीस
इक्कीस	एकविंशतिः	इक्की	इक्कीस	अकुॅवुह	एकीह, एकवीह	एकवीस	एकवीस	एकवीस
ब़ाईस	द्वाविंशतिः	बाई	बाईस	जुतोवुह	ब॒ावीह	बावीस	बावीस	बावीस
तेईस	त्रिविंशतिः	तेई	तेईस	त्रोवुह	टेवीह	तेवीस	तेवीस, त्रेवीस	तेवीस
चौबीस	चतुर्विंशतिः	चौवी	चौबीस	च़ोवुह	चोवीह	चोवीस	चोवीस	चोवीस
पच्चीस	पञ्चविंशतिः	पंझी, पच्ची	पच्चीस	पुनचुॅह	पंजुवीह	पंचवीस	पचीस, पचीश	पंचवीस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तेह्र, तेर्	तेरो (त्यारो)	तेर	ताहुमदोइ	तेर	पदमूडु	पदिमून्रु	पतिमून्नुँ	हदिमूरु
चौध्	चोद्दो	चैध्य	तरामरि	चौद, चउद	पध्नालुगु	पदिनान्गु	पतिनालुँ	हदिनाल्कु
पंध्र	पँनेरो	पोंधर	तरामङा	पंदर	पदिहेनु	पदिनैंदु	पतिनञ्चुँ	हदिनैदु
सोह्र	षोलो	षोल्ल	तरातरूक	षोहल	पदहारु	पदिनारु	पतिनारुँ	हदिनारु
सत्र	सतेरो	सोतर	तरातरेत्	सतर	पदिहेडु	पदिनेळु	पतिनेळ्	हदिनेळु
अठार्	आठारो	ओठर	तरानिपान	अठर	पद्धनिमिदि	पदिनेट्टु	पतिनेट्टुँ	हदिनेँटु
उन्नाइस	उनिश	उनैश	तरामापल	उणिश, उणेइश	पंदोम्मिदि	पत्तोंपदु	पत्तोन्पतुँ	हत्तोंबत्तु
बीस	कुड़ि, बिश	बिश/ बिच	कून	कोडिए	इरवै	इरुपदु	इरुपतुँ	इप्पत्तु
एक्काइस	एकुश	एकैश	कूनमाथोइ	इकोइश	इरवै ओंकटि	इरुपत्तोन्रु	इरुपत्तोन्नुँ	इप्पत्तोंदु
बाइस	बाइश	बाइश	कूननिथोइ	बाइश	इरवै रेण्डु	इरुपत्ति रंडु	इरुपत्तिरण्टुँ	इप्पत्तेरडु
तेइस	तेइश	तेइश	कूनहुमदोइ	तेइश	इरवै मूडु	इरुपत्तुमून्रु	इरुपत्तिमून्नुँ	इप्पत्मूरु
चौबीस	चब्बिश	चब्बिश	कूनमरि	चबिश	इरवै नालुगु	इरुपत्तु नान्गु	इरुपत्तिनालुँ	इप्पत्नाल्कु
पच्चीस	पँचिश	पँचिश	कूनमङा	पचिश	इरवै अयिदु	इरुपत्तैंदु	इरुपत्तियंचु	इप्पत्तैदु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
छब्बीस	षड्विंशति:	छब्बी	छब्बीस	शतुंवुह	छवीह	सव्वीस	छव्वीस	सवीस
सत्ताईस	सप्तविंशति:	सताई	सत्ताईस	सतोवुह	सतावीह	सतावीस	सत्तावीस, सत्यावीस	सत्तावीस
अट्ठाईस	अष्टाविंशति:	अठाई	अट्ठाईस	अठोवुह	अठावीह	अठ्ठावीस	अठ्ठावीस, अठ्ठयावीस	अठ्ठावीस
उनतीस	नवविंशति:, एकोनत्रिंशत्	उनत्ती	उनतीस	कुनुँत्रुँह	उणटींह	एकोणतीस	ओगणत्रीस, ओगणतीस	एकुणतीस
तीस	त्रिंशत्	तीह	तीस	त्रुँह	टीह	तीस	तीस, त्रीस	तीस
इकतीस	एकत्रिंशत्	इकत्ती	इकतीस	अकुँत्रुँह	एकटीह	एकतीस	एकत्रीस, एकतीस	एकतीस
बत्तीस	द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्	बत्ती	बत्तीस	दोयित्रुँह	ब॒टीह	बत्तीस	बत्रीस	बत्तीस
तैंतीस	त्रित्रिंशत्	तेत्ती	तैंतीस	तेयित्रुँह	टेटीह	तेहतीस	तेत्रीस	तेत्तीस
चौंतीस	चतुर्त्रिंशत्	चौत्ती	चौंतीस	च़ोयित्रुँह	चोटीह	चौतीस	चोंत्रीस	चवतीस
पैंतीस	पञ्चत्रिंशत्	पैंती	पैंतीस	पाँचुत्रुँह	पंजुटीह	पस्तीस	पांत्रीस	पस्तीस
छत्तीस	षट्त्रिंशत्	छत्ती	छत्तीस	शेयित्रुँह	छटीह	छत्तीस	छत्रीस	शत्तीस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छब्बीस	छाब्बिश	छाब्बिश	कूनतरुक	छबिश	इरवै आरु	इरुपत्तारु	इरुपत्तियारुँ	इप्पत्तारु
सत्ताइस	साताश	साताइश	कूनतरेत्	सताइश, सतेइश	इरवै एड्डु	इरुपत्तेळु	इरुपत्तियेळ्	इप्पत्तेळु
अट्ठाइस	आटाश, आटाइश	आठाइश	कूननिपाल	अठाइश, अठेइश	इरवै एनिमिदि	इरुपत्तेट्टु	इरुपत्तियट्टुँ	इप्पत्तेंटु
उनन्तीस	उनत्रिश	उनत्रिश	कूनमापल	अणतिरिश	इरवै तोम्मिदि	इरुपत्तोन्बदु	इरुपत्तियोन्पतुँ	इप्पत्तोंबत्तु
तीस	त्रिश	त्रिश	कूनथ्रा	तिरिश	मुप्फै	मुप्पदु	मुप्पतुँ	मुवत्तु
एकतीस	एकत्रिश	एकत्रिश	कूनथ्रामाथोइ	एकत्रिश, एकतिरिश	मुप्फै ओकटि	मुप्पत्तोन्रु	मुप्पत्तोन्नँ	मुवत्तोंदु
बत्तीस	बत्रिश	बत्रिश	कूनथ्रानिथोइ	बतिश	मुप्फै रेण्डु	मुप्पत्तिरंडु	मुप्पत्तिरन्टुँ	मुव्वत्तेरडु
तेत्तीस	तेत्रिश	तेत्रिश	कूनथ्राहुमदोइ	तेतिश	मुप्फै मूडु	मुप्पत्तु मून्रु	मुप्पत्तिमून्नु	मुव्वत्मूरु
चौंतीस	चौत्रिश	चौत्रिश	कूनथ्रामरि	चउत्रिश, चउतिरिश	मुप्फै नालुगु	मुप्पत्तु नान्नु	मुप्पत्तिनालुँ	मूवत्नाल्कु
पैंतीस	पँइत्रिश, पँयत्रिश	पँयत्रिश	कूनथ्रामङा	पइंत्रिश, पंचतिरिश	मुप्फै अयिदु	मुप्पत्तैंदु	मुप्पत्तंचुँ	मुव्वत्तैदु
छत्तीस	छत्रिश	छयत्रिश	कूनथ्रातरूक	छतिश	मुप्फै आरु	मुप्पत्तारु	मुप्पत्तारु	मुव्वत्तारु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सैंतीस	सप्तत्रिंशत्	सैंती	सैंतीस	सतुॅंत्रुॅह	सतुटीह	सदतीस	साडत्रीस	सात्तीस
अड़तीस	अष्टात्रिंशत्	अठत्ती	अड़तीस	अरुॅत्रुॅह	अठुटीह	अड़तीस	आडत्रीस	आठ्ठीस
उनतालीस	नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्	उनताली	उनतालीस	कुनतॉजी	उणेतालीह	एकुणचाळीस	ओगणचाळीस, ओगणचालीस	एकुणचाळीस
चालीस	चत्वारिंशत्	चाली	चालीस	च़तजी	चालीह	चाळीस, चालीस	चाळीस	चाळीस
इकतालीस	एकचत्वारिंशत्	इकताली	इकतालीस	अकतॉजी	एकेतालीह	एक्केचाळीस	एकताळीस, एकतालीस	एकेचाळीस
बयालीस	द्वाचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्	बिआली	बयालीस	दोयितॉजी	ब़ाएतालीह	बेचाळीस	बेंताळीस, बेंतालीस	बेचाळीस
तैंतालीस	त्रिचत्वारिंशत्	तिताली (तिरताली)	तैंतालीस	तेयितॉजीह	टेतालीह	त्रेचाळीस	तेंताळीस, तेंतालीस	तेवेचाळीस
चवालीस	चतुश्चत्वारिंशत्	चुआली, चुताली	चवालीस	च़ोयितॉजी	चोएतालीह	चव्वेचाळीस	चुंमाळीस, चुंमालीस	चवेचाळीस
पैंतालीस	पञ्चचत्वारिंशत्	पंताली	पैंतालीस	पांॅचुॅतॉजी	पंजेतालीह	पंचेचाळीस	पिस्ताळीस, पिस्तालीस	पंचेचाळीस
छियालीस	षट्चत्वारिंशत्	छिआली	छियालीस	शेयितॉजी	छाएतालीह	सेहेचाळीस	छेताळीस, छेतालीस	सवेचाळीस
सैंतालीस	सप्तचत्वारिंशत्	संताली	सैंतालीस	सतुॅतॉजी	सतेतालीह	सत्तेचाळीस	सुडताळीस, सुडतालीस	सत्तेचाळीस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सैँतीस	सॉइत्रिश	सातत्रिश	कूनथ्रातरेत्	संइत्रिश, सइंतिरिश	मुप्फै एड्डु	मुप्पत्तेळु	मुप्पत्तेळुँ	मूवत्तेळु
अठतीस	आठत्रिश (आड्त्रिश)	आठत्रिश	कूनथ्रानिपाल	अड्तिश, अठतिरिश	मुप्फै एनिमिदि	मुप्पत्तेट्टु	मुप्पत्तेट्टुँ	मुव्वत्तेण्टु
उनन्चालीस	उनोचल्लिश	उणचाळिश	कूनथ्रामापल	अणचालिश	मुप्फै ताम्मिदि	मुप्पत्तोन्बदु	मुप्पत्तोन्पतुँ	मुव्वत्तोंबत्तु
चालीस	चल्लिश	चल्लिश	निफू	चालिश	नलभै	नार्पदु	नाल्पतुँ	नलवत्तु
एकचालीस	एकचल्लिश	एकचल्लिश	निफूमाथोइ	एकचालिश	नलभै ओकटि	नारपतोन्नु	नाल्पत्तोन्नुँ	नलवत्तोंदु
बयालीस	बियाल्लिश	बियाल्लिश	निफूनिथोइ	बयालिश	नलभै रेण्डु	नार्पत्तिरंडु	नाल्पत्तिरण्टुँ	नलवत्तेरडु
त्रिचालीस	तेताल्लिश	तियाल्लिश	निफूहुमदोइ	तेयालिश	नलभै मूडु	नार्पत्तु मून्रु	नाल्पत्तिमून्नुँ	नलवत्मूरु
चवालीस	चुयाल्लिश	चौरल्लिश	निफूमरि	चउरालिश	नलभै नालुगु	नार्पत्तु नान्गु	नाल्पत्तिनालुँ	नलवत्नाल्कु
पैंतालीस	पंयताल्लिश	पंचल्लिश	निफूमङा	पइंचालिश	नलभै अयिदु	नार्पत्तैंदु	नाल्पत्तंचुँ	नलवत्तैदु
छयालीस	छेचल्लिश	छयल्लिश	निफूतरूक	छैयालिश	नलभै आरु	नार्पत्तारु	नाल्पत्तारुँ	नलवत्तारु
सतचालीस	सातचल्लिश	सातचल्लिश	निफूतरेत्	सतचालिश	नलभै एड्डु	नार्पत्तेळु	नाल्पत्तेळुँ	नलवत्तेळु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अड़तालीस	अष्टाचत्वारिंशत्	अठताली	अड़तालीस	अरुतॉजी	अठेतालीह	अठ्ठेचाळीस	अडताळीस, अडतालीस	अठ्ठे चाळीस
उनचास	नवचत्वाारिंशत्	उनंजा	उनचास	कुनुँवनज़ाह	उणवंजाहु	एकुणपन्नास	ओगणपचास	एकुण पन्नास
पचास	पञ्चाशत्	पंजाह	पचास	पनज़ाह	पंजाहु	पन्नास	पचास	पन्नास
इक्यावन	एकपञ्चाशत्	इकवंजा	इक्यावन	अकुँवनज़ाह	एकवंजाहु	एक्कावन्न	एकावन	एकावन
बावन	द्विपञ्चाशत्	बवंजा	बावन	दुवनज़ाह	बावंजाहु	बावन	बावन	बावन
तिरपन	त्रिपञ्चाशत्	तरवंजा (तिरवंजा)	तरेपन	त्रुवनज़ाह	टेवंजाहु	त्रेपन	त्रेपन	त्रेपन्न
चौवन	चतु:पञ्चाशत्	चुरंजा	चव्वन	चुवनज़ाह	चोवंजाहु	चोपन्न	चोपन	चवपन
पचपन	पञ्चपञ्चाशत्	पचवंजा	पचपन	पांचुवनज़ाह	पंजवंजाहु	पंचावन्न	पंचावन	पंचावन
छप्पन	षट्पञ्चाशत्	छपंजा	छप्पन	शुवनज़ाह	छावंजाहु	छप्पन्न	छप्पन	शप्पन
सतावन	सप्तपञ्चाशत्	सतवंजा	सत्तावन	सतुँवनज़ॉह	सतवंजाहु	सत्तावन्न	सत्तावन	सत्तावन
अठावन	अष्टपञ्चाशत्	अठवंजा	अट्ठावन	अरुँवनज़ाह	अठवंजाहु	अठ्ठावन्न	अठ्ठावन	अठ्ठावन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अठचालीस	आटचल्लिश	आठचल्लिश	निफूनिपाल	अठचालिश	नलभै एंनिमिदि	नार्पत्तंट्टु	नाल्पत्तंट्टुँ	नलवत्तंण्टु
उनन्चास	उनोंपञ्चाश	उनपंचाश	निफूमापल	अणचाश	नलभै तोम्मिदि	नार्पत्तोंबदु	नाल्पत्तोन्म्पतुँ	नलवत्तोंबत्तु
पचास	पञ्चाश	पंचाश	याङ्खै	पचाश	याभै	ऐंबदु	अन्पतुँ	ऐवत्तु
एकाव<u>न्न</u>	एकान्नो	एकावन	याङ्खै माथोइ	एकाबन	याभै ओंकटि	ऐंबत्तोंन्रु	अन्पत्तोंन्नुँ	ऐवत्तोंदु
बाउ<u>न्न</u>	बाहान्नो	बावन	याङ्खै निथोइ	बाउन	याभै रेंण्डु	ऐंबत्तिरंडु	अन्पत्तिरण्टुँ	ऐवत्तेरडु
त्रिप<u>न्न</u>	तिप्पान्नो, तेपान्नो	तेप्पन, तेरपन	याङ्खै हुमदोइ	तेपन	याभै मूडु	ऐंबत्तु मून्रु	अन्पत्तिमून्नुँ	ऐवत्मूरु
चव<u>न्न</u>	चुयान्नो	चौवन/ चोवन्न	याङ्खै मरि	चौबन,चउबन	याभै नालुगु	ऐंबत्तु नान्गु	अन्पत्तिनालुँ	ऐवत्नाल्कु
पचप<u>न्न</u>	पञ्चान्नो	पाँचपत/ पाँचपन्न	याङ्खै मङा	पञ्चाबन	याभै अयिदु	ऐंबत्तैंदु	अन्पत्तंचुँ	ऐवत्तैदु
छप<u>न्न</u>	छापान्नो, छाप्पान्नो	छापन/ छापन्न	याङ्खै तरूक	छपन	याभै आरु	ऐंबत्तारु	अन्पत्तारुँ	ऐवत्तारु
संताउ<u>न्न</u>	सातान्नो	सातावन/ सातावन्न	याङ्खै तरेत्	सताबन	याभै एडु	ऐंबत्तेळु	अन्पत्तोळ्ँ	ऐवत्तेळु
अन्ठाउ<u>न्न</u>	आठान्नो	आठावन/ आठावन्न	याङ्खै निपाल	अठावन	याभै एनिमिदि	ऐंबत्तंट्टु	अन्पत्तंट्टुँ	ऐवत्तेण्टु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उनसठ	नवपञ्चाशत्	उनाह्ठ	उनसठ	कुनुँहॉठ	उणहठि	एकोणसाठ	ओगण साठ	एकुणसाठ
साठ	षष्टिः	सट्ठ	साठ	शेठ	सठि	साठ	साठ	साठ
इकसठ	एकषष्टिः	इकाह्ठ	इकसठ	अकुँहॉठ	एकहठि	एकसष्ट	एक सठ	एक सठ
बासठ	द्विषष्टिः	बाह्ठ	बासठ	दुहॉठ	ॿाहठि	बासष्ट	बासठ	बासठ
तिरसठ	त्रिषष्टिः	त्रेह्ठ	तरेसठ	त्रुहॉठ	टेहठि	त्रेसष्ट	त्रेसठ	त्रेसठ
चौंसठ	चतुःषष्टिः	चौंह्ठ	चौंसठ	चुँहॉठ	चोहठि	चौसष्ट	चोसठ	चवसठ
पैंसठ	पञ्चषष्टिः	पैंह्ठ	पेंसठ	पांचुँहॉठ	पंजहठि	पासष्ट	पांसठ	पांसठ
छियासठ	षट्षष्टिः	छिआह्ठ	छियासठ	शुहॉठ	छाहठि	सहासष्ट	छासठ	सांसठ
सड़सठ	सप्तषष्टिः	सताह्ठ	सड़सठ	सतुँहॉठ	सतहठि	सदुसष्ट	सडसठ	सातसठ
अड़सठ	अष्टषष्टिः	अठाह्ठ	अड़सठ	अरुँहॉठ	अठहठि	अडुसष्ट	अडसठ	आठसठ
उनहत्तर	नवषष्टिः, एकोनसप्ततिः	उन्हत्तर	उनहत्तर	कुनुँसतथ	उणहतरि	एकुणसत्तर	अगण्योसित्तेर, ओगणसित्तेर	एकुणसत्तर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उनसाठी, उनसट्ठी	उनोषाट	उनषाठि	याङ्खै मापल	अणषठि	याभै तॉम्मिदि	ऐंबत्तु ऑन्पदु	अन्पत्तॉन्पतुॅ	ऐवत्तोंबत्तु
साठी	षाट	षाठि	हुंफू	षाठिए	अरवै	अरुपदु	अरुपतुॅ	अरवत्तु
एकसट्ठी	एकषट्टि	एषष्ठि	हुंफू माथोइ	एकषठि	अरवै ऑकटि	अरुपत्तॉन्रु	अरुपत्तॉन्नुॅ	अरवत्तॉदु
बयसट्ठी	बाषट्टि	बाषष्ठि	हुंफू निथोइ	बाषठि	अरवै रॅण्डु	अरुपत्तिरण्डु	अरुपत्तिरण्टॅ	अरवत्तेरडु
त्रिसट्ठी	तेषट्टि	तेषष्ठि	हुंफू हमुदोइ	तेषठि	अरवै मूड्डु	अरुपत्तु मून्रु	अरुपत्तिमून्नुॅ	अरवत्मूरु
चौसँट्ठी	चौषोट्टि	चौषष्ठि	हुंफू मरि	चउषठि, चौषठी	अरवै नालुगु	अरुपत्तु नान्गु	अरुपत्तिनालुॅ	अरवत्नाल्कु
पैँसट्ठी	पँयषट्टि	पँयषष्ठि	हुंफू मङा	पंषठि, पञ्चषठि	अरवै अयिदु	अरुपत्तैंदु	अरुपत्तंचुॅ	अरवत्तैदु
छयसट्ठी	छेषोट्टि	छयषष्ठि	हुंफू तरुक	छअषठि	अरवै आरु	अरुपत्तारु	अरुपत्तारुॅ	अरवत्तारु
सतसट्ठी	सातषोट्टि	सातषष्ठि	हुंफू तरेत्	सतषठि	अरवै एड्डु	अरुपत्तोळु	अरुपत्तेळ्ॅ	अरवत्तेळु
अठसट्ठी	आटषोट्टि	आठषष्ठि	हुंफू निपाल	अठषठि, अडषठि	अरवै ऍनिमिदि	अरुपत्तॅट्टु	अरुपत्तॅट्टुॅ	अरुवत्तोण्टु
उनन्सत्तरी, उनहत्तर	उनोसत्तर	उनसत्तर	हुंफू मापल	अणस्तुरी, अणस्तरी	अरवै तॉम्मिदि	अरुपत्तॉन्बदु	अरुपत्तॉन्बतु	अरुवत्तोंबत्तु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सत्तर	सप्तति:	सत्तर	सत्तर	सतथ	सतरि	सत्तर	सित्तेर	सत्तर
इकहत्तर	एकसप्तति:	इकहतर	इक्हत्तर	अकुँसतथ	एकहतरि	एक्काहत्तर	एकोतेर, इकोतेर	एकात्तर
बहत्तर	द्विसप्तति:	बहत्तर	बहत्तर	दुसतथ	ब़ाहतरि	बाहत्तर	बोतेर	ब्यात्तर
तिहत्तर	त्रिसप्तति:	तिहत्तर	तिहत्तर	त्रुसतथ	टेहतरि	त्र्याहत्तर	तोतेर	त्र्यात्तर
चौहत्तर	चतु:सप्तति:	चुहत्तर	चौहत्तर	च्रुसतथ	चोहतरि	चौर्‍याहत्तर	चुमोतेर	चवद्यात्तर
पचहत्तर	पच्चसप्तति:	पँझतर	पचहत्तर	पांच्रुसतथ	पंजहतरि	पंच्याहत्तर	पंचोतेर	पंच्यात्तर
छिहत्तर	षट्सप्तति:	छिहत्तर	छिहत्तर	शुसतथ	छाहतरि	शहात्तर	छोंतेर	शात्तर
सतहत्तर	सप्तसप्तति:	सतत्तर	सतत्तर	सतुँसतथ	सतहतरि	सत्याहत्तर	सत्योतेर, सत्तोतेर	सत्यात्तर
अठहत्तर	अष्टसप्तति:	अठहत्तर	अठहत्तर	अरुँसतथ	अठहतरि	अठयाहत्तर	अठ्ठयोतेर, इठयोतेर	अठ्ठ्यात्तर
उनासी	नवसप्तति:	उनासी	उनासी	कुनुँशीथ	उणासी	एकुणऐंशी	ओगण्याएंशी, अगण्याएंशी	एकुण अंयशीं

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सत्तरी	सत्तर	सत्तर	हुम्द्रा	सतुरी	डब्भै	एळुपदु	एंळुपतुॅ	एप्पत्तु
एकहत्तर	एकात्तोर	एसत्तर	हुम्द्रा माथोइ	एकस्तरि	डब्भै ओंकटि	एंळुपत्तु ओंन्रु	एंळुपत्तोंन्नुॅ	एप्पत्तोंदु
बहत्तर	बाहात्तोर	बासत्तर	हुम्द्रा निथोइ	बास्तरि	डब्भै रेंण्डु	एंळुपत्तिरंडु	एंळुपत्तिरण्टुॅ	एप्पत्तेरडु
त्रिहत्तर	तियात्तोर, तिहात्तोर	तेसत्तर	हुम्द्रा हुमदोइ	तेस्तरी	डब्भै मूडु	एंळुपत्तु मून्रु	एंळुपत्तिमून्नुॅ	एप्पत्मूरु
चौहत्तर	चुयात्तोर	चौसत्तर	हुम्द्रा मरि	चउस्तरी	डब्भै नालुगु	एंळुपत्तु नान्गु	एंळुपत्तिनालुॅ	एप्पत्नाल्कु
पचहत्तर	पँचात्तोर	पँचसत्तर	हुम्द्रा मङा	पञ्चस्तरी	डब्भै अयिदु	एंळुपत्तु ऐंदु	एंळुपत्तंचुॅ	एप्पत्तैदु
छयहत्तर	छियात्तोर	छयसत्तर	हुम्द्रा तरूक	छअस्तरि, छस्तरि	डब्भै आरु	एळुपत्तु आरु	एंळुपत्तारुॅ	एप्पत्तारु
सतहत्तर	सातात्तोर	सातसत्तर	हुम्द्रा तरेत्	सतस्तरि	डब्भै एडु	एंळुपत्तु एळु	एंळुपत्तेळुॅ	एप्पत्तोळु
अठहत्तर	आटात्तोर	आठसत्तर	हुम्द्रा निपाल	अठस्तरि	डब्भै ऐनिमिदि	एंळुपत्तु एंट्टु	एंळुपत्तेट्ट	एप्पत्तेण्टु
उनासी	उनोआशि	उनुआशी	हुम्द्रा मापल	अणाअशि	डब्भै तोंम्मिदि	एंळुपत्तु ओंन्बदु	एंळुपत्तोंन्पतुॅ	एप्पत्तोंबत्तु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अस्सी	अशीतिः	अस्सी	अस्सी	शीथ	असी	ऐंशी	एंसी, एंशी	अंयशीं
इक्यासी	एकाशीतिः	इकासी	इक्यासी	अकुँशीथ	एकासी	एक्यांऐंशी	एकाशी, एक्याशी	एक्यांयशीं
बयासी	द्वाशीतिः	बिआसी	बयासी	दुशीथ	<u>बि</u>यासी	ब्याऐंशी	ब्याशी	ब्यांयशीं
तिरासी	त्र्यशीतिः	तिरासी, तरिआसी	तिरासी	त्रुशीथ	टियासी	त्र्याऐंशी	त्याशी	त्र्यांयशीं
चौरासी	चतुरशीतिः	चुरासी	चौरासी	च़ुशीथ	चोरासी	चवर्ऱ्यांशी	चोराशी	चवद्‌यांयशीं
पचासी	पञ्चाशीतिः	पचासी	पचासी	पांचुँशीथ	पंजासी	पंच्चाऐंशी	पंचाशी, पच्चासी	पंच्चायशी
छियासी	षड्शीतिः	छिआसी	छियासी	शेयिशीथ	छियासी	श्यांऐंशी	छाशी, छयाशी	शांयशीं
सतासी	सप्ताशीतिः	सतासी	सत्तासी	सतुँशीथ	सतासी	सत्याऐंशी	सत्याशी	सत्यांयशीं
अठासी	अष्टाशीतिः	अठासी	अट्ठासी	अरुँशीथ	अठासी	अठ्ठयांऐंशी	अठ्ठयाशी, इठ्ठयाशी	अठ्ठयांयशीं
नवासी	नवाशीतिः, एकोननवतिः	उनानवें	नवासी	कुनुनमथ	उणानवे	एकुणनव्वद	नेव्याशी, नव्याशी	एकुणणवद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
असी	आशि	आशी	मरिफू	अशी	एंनभै	एंण्पदु	एंण्पतुॅ	एंबत्तु
एकासी	एकाशि	एकाशी	मरिफू माथोइ	एकाशी, एकाअशी	एंनभै ओंकटि	एंण्पत्तान्रु	एंण्पत्तान्नुॅ	एंबत्तोंदु
बयासी	बिराशि	बिराशी	मरिफू निथोइ	बयाअशी	एंनभै रेण्डु	एंण्पत्तिरण्डु	एंपत्तिरण्टु	एंबत्तेरडु
त्रियासी	तिराशि	तिराशी	मरिफू हुम्दोइ	तेयाअशी	एंनभै मूडु	एंण्पत्तु मून्रु	एंण्पत्तिमून्नुॅ	एंबत्तमूरु
चौरासी	चुराशि	चौराशी	मरिफू मरि	चौराअशी	एंनभै नालुगु	एंण्पत्तु नान्नु	एंण्पत्तिनालुॅ	एंबत्नाल्कु
पचासी	पँचाशि	पँचाशी	मरिफू मङा	पंचाअशी	एंनभै अयिदु	एंण्पत्तैंदु	एंण्पत्तंचु	एंबत्तैदु
छयासी	छियाशि	छियाशी	मरिफू तरूक	छयाअशी	एंनभै आरु	एंण्पत्तारु	एंण्पत्तारुॅ	एंबत्तारु
सतासी	साताशि	सप्ताशी	मरिफू तरेत्	सताअशी	एंनभै एडु	एंण्पत्तेळ्	एंण्पत्तेळु	एंबत्तेळु
अठासी	अष्टोआशि	अष्टाशी	मरिफू निपाल	अठाअशी	एंनभै एंनिमिदि	एंण्पत्तंट्टु	एंण्पत्तंट्टु	एंबत्तेण्टु
उनान्नब्बे	उनोनोब्बइ	उनानब्बै	मरिफू मापल	अणानबे	एंनभै तोम्मिदि	एंण्पत्तोन्बदु	एंण्पत्तोन्पत्तुॅ	एंबत्तोंबत्तु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नब्बे	नवतिः	नब्बे	नव्वे	नमथ	नवे	नव्वद	नेवुं, नेवु	णवद
इक्यानवे	एकनवतिः	इकानवें	इक्यानवे	अकुँनमथ	एकानवे, इक्यानवे	एक्कयाण्णव	एकाणु, एकाणुं	एकयाणव
बानवे	द्विनवतिः	बानवें	बानवे	दुनमथ	ब़ियानवे	ब्याण्णव	बाणु, बाणुं	ब्याणव
तिरानवे	त्रिनवतिः	तिरानवे, तरिआनवें	तिरानवे	त्रुनमथ	टियानवे	त्र्याण्णव	ताणु, त्राणु, ताणुं, त्राणुं	त्र्याणव
चौरानवे	चतुर्नवतिः	चुरानवें	चौरानवे	च्नुनमथ	चोरानवे	चौरयाण्णव	चोराणु, चोराणुं	चवद्याणव
पचानवे	पञ्चनवतिः	पचानवें	पिचानवे	पांचुँनमथ	पंजानवे	पंच्याण्णव	पंचाणु, पंचाणुं	पंच्याणव
छियानवे	षण्णवतिः	छिआनवें	छियानवे	शुनमथ	छहानवे	शहाण्णव	छन्नु, छन्नुं	शाणव

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नब्बे	नोब्बइ	नब्बै	मउद्रा, मरिफू तरा	नबे	ताँभै	ताँण्णूरु	ताँण्णूरुँ	तोंबत्तु
एकान्नब्बे	एकानोब्बइ	एकानबै	मउद्रा माथोइ, मरिफू तरा माथोइ	एकानबे	ताँभै आँकटि	ताँण्णूट्टॉन्रु	ताँण्णूट्टॉन्नुं	तोंबत्तोंदु
बयानब्बे	बिरानोब्बइ	बिरानबै	मउद्रा निथोइ, मरिफु तरा निथोइ	बयानबे	ताँभै रॅण्डु	ताँण्णुट्टिरण्डु	ताँण्णूट्टिरंडुँ	तोंबत्तेरडु
त्रियानब्बे	तिरानोब्बइ	तिरानबै	मउद्रा हुम्दोइ, मरिफु तरा हुम्दोइ	तेयानबे, तिरानबै	ताँभै मूडु	ताँण्णूट्ट मून्रु	ताँण्णूट्टि मून्नुँ	तोंबत्मूरु
चौरान्नब्बे	चुरानोब्बइ	चौरानबै	मउद्रा मरि, मरिफु तरा मरि	चौरानबे	ताँभै नालुगु	ताँण्णूट्टू नान्गु	ताँण्णूट्टिनालुँ	तोंबत्नाल्कु
पन्चान्नब्बे	पँचानोब्बइ	पँचानबै	मउद्रा मङा, मरिफु तरा मङा	पंचानबे	ताँभै अयिदु	ताँण्णूट्टैंदु	ताँण्णूट्टंचुँ	तोंबत्तैदु
छयान्नब्बे	छियानब्बइ	छियानबै	मउद्रा तरुक, मरिफु तरा तरुक	छयानबे	ताँभै आरु	ताँण्णूट्टारु	ताँण्णूट्टारुँ	तोंबत्तारु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सतानवे	सप्तनवतिः	सतानवें	सत्तानवे	सतुँनमथ	सतानवे	सत्तयाण्णव	सत्ताणु, सत्ताणुं	सत्याणव
अठानवे	अष्टानवतिः	अठानवें	अट्ठानवे	अरुँनमथ	अठानवे	अठ्ठयाण्णव	अठ्ठाणु, अठ्ठाणुं	अठ्ठ्याणव
निन्यानवे	नवनवतिः	नढ़िनवें, नड्हिनवें	निनावे	नमुँनमथ	नवानवे	नव्याण्णव	नव्वाणु, नवाणु, नव्वावुं, नवाणुं	णव्याणव
सौ	शतम्	सौ	सौ	हथ	सौ	शंभर	सो	शंबर
हजार	सहस्रः	हज़ार	हज़ार	सास	हज़ार, सहस्	हजार	हजार	हजार
लाख	लक्षः	लक्ख	लाख	लछ	लखु	लाख, लक्ष	लाख	लाख
करोड़	कोटिः	करोड़	करोड़	करोर	किरोड़ु, करोड़ु	कोट	करोड	कोटी
शून्य	शून्यम्	सिफ़र	सिफ़र	सिफर	बुड़ी	शून्य	शून्य	शून्य

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सन्तानब्बे	सातानोब्बइ	सातानबै	मउद्रा तरेत्, मरिफु तरा तरेत्	सतानबे	तांभै एड्डु	तोण्णूट्ट्टेळु	तोण्णूट्ट्टेळुँ	तोंबत्तेळु
अन्ठान्नब्बे	आटानोब्बइ	आठानबै	मउद्रा निपाल, मरिफु तरा निपाल	अठानबे	तांभै एंनिमिदि	तोण्णूट्टेट्टु	तोण्णूट्टेट्टुँ	तोंबत्तेण्टु
उनान्सय	निरानोब्बइ, निरानोब्बुइ	निरानबै	मउद्रा मापल, मरिफु तरा मापल	अनेशत, अनेशोत	तांभै तोम्मिदि	तोण्णूट्टोन्बदु	तोण्णूट्टोंपतुँ	तोंबत्तोंबतु
सय	एकशो	एश/श	चामा	शहे, एकशह	नूरु, वंद	नूरु	नूरुँ	नूरु
हजार	हाजार	सहस्त्र, हाजार/हेजार	लिशिङ्	हजार	वंय्यि	आयिरम्	आयिरम्	साविर
लाख	लाख, लक्खो (क्ष)	लाख	लाख	लख्य, लक्ष	लक्ष	लक्षम्	लक्षम्	लक्ष
करोड़, कडोर	कोटि, क्रोर	कोटि/ कौटि	कोटी, करोड़	कोटि	कोटि	कोड़ि	कोटि	कोटि
शून्य	शून्य	शून्य	सिनो, शून्य	शून्य, शुन	सुन्न	सैबर्, शूनियम्, पूज्यिम्	पूज्यम्	सोन्ने, सूजि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पहला	प्रथम	पहिला	पहला (अव्वल)	गोंडुन्युक	पहियों	पहिला	पहेलो	पयलो
दूसरा	द्वितीय	दूजा	दूसरा (दोयम)	दोयुम	ब़ियों	दुसरा	बीजो	दुसरो
तीसरा	तृतीय	तीजा	तीसरा (सोयम)	त्रेयुम	टियों	तिसरा	त्रीजो	तिसरो
चौथा	चतुर्थ	चौथा	चौथा (चहारुम)	चूर्युम	चोथों	चौथा	चोथो	चवथो
पाँचवाँ	पञ्चम्	पंजवाँ	पाँचवाँ (पंजुम)	पाँच्युँम	पंजों	पांचवा	पांचमो	पाँचवो
छठा	षष्ठ	छेवाँ	छटा (शिशुम)	शेयुम	छहों	सहावा	छठ्ठो	सवो
सातवाँ	सप्तम्	सतवाँ	सातवाँ (हफ़्तुम)	सॅत्युम	सतों	सातवा	सातमो	सातवो
आठवाँ	अष्टम्	अठवाँ	आठवाँ (हशतुम)	ऑठ्युम	अठों	आठवा	आठमो	आठवो
नवाँ	नवम्	नौवाँ	नौवाँ (नहुम)	नॅव्युम	नाओं	नववा	नवमो	णववो
दसवाँ	दशम्	दसवाँ	दसवाँ (दुहम)	दॅह्युम	ड॒हों	दहावा	दसमो	धावो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पहिलो, पहिला	प्रथम, पइला	पहिला/ प्रथम	अहान्बा	प्रथम	मॉदटि	मुदलावदु	ऑन्नामत्तं/ आद्यत्तं	ओंदनेय
दोस्रो	द्वितीय, दोसरा	द्वितीय	अनिशुबा	द्वितीय	रॅण्डवॅ	इरंडावदु	रण्टामत्तं	एरडनेय
तेस्रो	तृतीय, तेसरा	तृतीय	अहुमशुबा	तृतीय	मूडवॅ	मून्ऱावदु	मून्नामत्तं	मूरनेय
चौथो	चतुर्थ, चौठा	चतुर्थ	मरिशुबा	चतुर्थ	नाल्गवॅ	नान्गावदु	नालामत्तं	नाल्कनेय
पाँचौं	पञ्चम, पाँचुइ	पंचम	मङाशुबा	पंचम	अयिदवॅ	एंदावदु	अंचामत्तं	ऐदनेय
छैटौं	षष्ठ, छठइ	षष्ठ	तरुकशुबा	षष्ठ	आरवॅ	आऱावदु	आऱामत्तं	आरनेय
सातौं	सप्तम, सातुइ	सप्तम	तरेत्शुबा	सप्तम	एडवॅ	एऴावदु	एँऴामत्तं	ऐळनेय
आठौं	अष्टम, आटुइ	अष्टम	निपालशुबा	अष्टम	एनिमिदवॅ	एंट्टावदु	एँट्टामत्तं	एॅण्टनेय
नवौं	नवम, नउइ	नवम	मापल शुबा	नबम	तॉम्मिदवॅ	ऑन्पदावदु	ऑन्पतामत्तं	ओंबत्तनेय
दसौं	दशम, दशइ, दशमि	दशम	तरा शुबा	दशम	पदवॅ	पत्तावदु	पत्तामत्तं	हत्तनेय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चौथाई	पाद	चुथाई, चौथाई	चौथाई (पाव)	चूर्युम हिस्सुँ	चोथों, चौथाई	एक चतुर्थांश	पा, एक चतुर्थांश	एक चतुर्थांश
आधा (अद्धा)	अर्द्ध	अद्धा	आधा (अद्धा), निस्फ़	ऑड न्यसुफ	अधु, अद्धो	अर्धा, निम्मा	अरधो, अडधो, एक द्वितीयांश	अर्द
पौना (पौन)	पादोन	पौणा	पौन	दून	पौणो	पाऊण, तीन चतुर्थांश	पोणो, त्रण चतुर्थांश	तीन चतुर्थांश, पावण
सवा	सपाद	सवा	सवा	स्वाद	सवा	सवा	सवा, एक पूर्णांक एक चतुर्थांश	सवा
डेढ़	सार्ध	डेड़, डेढ़	डेढ़	डोंड	ड॒ेढु	दीड	दोढ़, एक पूर्णांक एक द्विवितीयांश	दीड
पौनेदो	पादोनद्वि	पौणें दो	पौने दो	दूनें जुँ	पौणा ब॒	पावणे दोन	पोणा बे, एक पूर्णांक त्रण चतुर्थांश	पावणे दोन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चौथाइ	चतुर्थांश	चौवा भाग, पोवा भाग, चारि भागर ए भाग	शरुक मरि थोक्पा	पाए (पाआ), एक चतुर्थांश	पावु	काल्, नान्गिल आरु बागम	काल्	कालुभाग
आधा, अर्ध	आधा, अर्धेक	आधा	तङ्खाई	अधा, अर्ध	सगमु	अरै, पादि	अर, पकुति	अर्ध
पौने, तीन चौथाई	पौने, तिन चतुर्थांशो	पोने, पौने	मिनिट तरा मङा वात्पा	तिनि चतुर्थांश	मुप्पावु	मुक्काल्	मुक्काल्	मुक्कालु
सवा	सओया	चोवा	मिनिट तरा मङा चत्पा	एक पुर्णांक एक चतुर्थांश, पांच पां	ओंकटिंबावु	आन्रे काल्	आन्नेकाल्	ओंदुकालु
डेढ, साढे एक	देड़	डेर	पुङ् अमा मखाय ताबा	देढ, एक पुर्णांक एक द्वितीयांश	ओंकटिन्नरै	आन्रै	आन्नर	ओंदुवरे
पौने दुई	पौने दुइ	पोने दुइ	पुङ् अनि तागदबा मिनिट तरा मङा वात्पा	एक पुर्णांक तिनि चतुर्थांश	ओंकटिम्मुप्पावु	आन्रे मुक्काल्	आन्ने मुक्काल्	ओंदूमुक्कालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सवा दो	सपादद्वि	सवा दो	सवा दो	स्वादुं ज़ुं	सवा ब	सवा दोन	सवा बे, बे पूर्णांक एक चतुर्थांश	सवा दोन, सवाय दोन
ढाई **(अढ़ाई)**	सार्धद्वि	ढाई	ढाई	डाय	अढाई	अडीच	अढी, बे पूर्णांक एक द्वितीयांश	अडेज
पौने तीन	पादोनत्रि	पौणें तिन्न	पौने तीन	दुनुँ त्रे	पौणा टे	पाऊणे तीन	पोणात्रण, बे पूर्णांक त्रण चतुर्थांश	पावणे तीन
सवा तीन	सपादत्रि	सवा तिन्न	सवा तीन	स्वादुँ त्रे	सवा टे	सवा तीन	सवात्रण, त्रण पूर्णांक एक चतुर्थांश	सवा तीन
साढ़े तीन	सार्धत्रि	साढ्ढे तिन्न	साढ़े तीन	साडु त्रे	साढा टे	साडे तीन	साडात्रण, त्रणपूर्णांक एक द्वितीयांश	साडे तीन
पौने चार	पादोनचतुर	पौणें चार	पौने चार	दूनुँ च़ोर	पौणा चार	पाऊणे चार	पोणाचार, त्रण-पूर्णांक त्रण चतुर्थांश	पावणे चार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सवा दुई	सओया दुइ	चोवा दुइ	पुङ् अनि मिनिट तरा मङा चत्पा	ढुई पुर्णांक एक चतुर्थांश	रॅण्डुंबावु	इरण्डे काल	रण्टेकाल्	एरडूकालु
साढे दूई, अढाई	आड़ाइ	आढ़ै	पुङ् अनि मखाय ताबा	अढेइ, दुई पुर्णांक एक द्वितीयांश	रॅण्डुन्नर	इरण्डरै	रण्टर	एरडूवरे
पौने तीन	पौने तिन	पौने-तिनि	पुङ् अनि मिनिट निफू मङा	दुइ पुर्णांक तिनि चतुर्थांश	रॅण्डुम्मुप्पावु	इरंडे मुक्काल्	रण्टेमुक्काल्	एरडूमुक्कालु
सवा तीन	सओया तिन	चोवा-तिनि	पुङ् अहुम मिनिट तरा मङा चत्पा	तिनि पुर्णांक एक चतुर्थांश	मूडुंबावु	मून्रे काल्	मून्नेकाल्	मूरुकालु
साढे तीन	साढ़े तिन	चारे-तिनि	पुङ् अहुम मखाय ताबा	साढे तिन, तिनि पुर्णांक एक द्वितीयांश	मूडुन्नर	मून्रै	मून्नर	मूरुवरे
पौने चार	पौने चार	पौने-चारि	पुङ् अहुम मिनिट निफू मङा चत्पा	तिनि पुर्णांक तिनि चतुर्थांश	मुडुम्मुप्पावु	मून्रे मुक्काले	मून्नेमुक्काल्	मूरुमुक्कालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
घरेलू सामान	गृहसामग्री	घरेलू समान	ख़ानगी सामान	गरवेठ	घरेलू सामानु	घरगुती सामान	घरगथ्थु सामान	घरगुती सामान
अलमारी	कपाटवती	अलमारी	अलमारी	अलमॉर्य	कबट्टु, अलमारी	कपाट	कबाट	आरमार
आराम कुर्सी	सुखा-सन्दिका	अराम कुरसी	आराम कुर्सी	आराम कुरॅस्य	आराम-कुर्सी	आराम खुर्ची	आराम खुरशी	ऑल्तेर, आराम खुर्ची
ओखली	उलूखलम्	उक्खली	ओखली	वोंखुल	उखिरी	उखळ	खांडणियो, खांडणी	ओखळी
कंबल	कम्बलम्	कंबल	कंबल	कर्मुल्य	कंबलु	कांबळे, घोंगडी	कामळो, घाबळो	कांबळ
कुर्सी	आसन्दिका	कुरसी	कुर्सी	कुरॅस्य	कुर्सी	खुर्ची	खुरशी	खुर्ची, कदेल
खूँटी	नागदन्तः	किल्ली	खूँटी	किज	किली, खूँटी	खुंटी	खूंटी, खींटी	खुंटी
गमला	पुष्पधानी	गमला	गमला	गमलुं	कूंडी	कुंडी	कुंडुं	कुंडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घरेलु सरसामान, घरायसी सरसामान	**गृहस्थालीर आसबाब पत्रादि**	**घरुवा बस्तु बाहानि**	**युमगी पोत्चै**	**घरकरणा जिनिष अथवा आसबाबपत्र**	**इंटि सामानु**	**वीट्टु सामान्गळ्**	**वीट्टु- सामानङ्ङळ्**	**मनेय सामानुगळु**
आलमारी	आलमारि	आलमारि	अलमारी	आलमारि	अलमारी	अलमारि	अलमार	अल्मेरा, कपाटु
आरामकुर्सी	आराम- केदारा, आरामचेयार	आरामी चकी	आराम चौकी	आराम चौकि	वालु कुर्ची	चाय्वु नार्कालि	चारुकसेर	आराम कुर्चि
ओखली	उदुखल	खुबलि, उरल, उखलि	शुंबल	हेमाम दस्ता	रोलु	उरल्	उरल्	ओरळु
कंबल, काम्लो	कंबल	कंबल	कंबल, कमपोर	कंबल	कंबळि	कंबळि	कंबिळि	कंबळि
कुर्सी	चेयार, कुर्सि	चकी	चौकी	चउकि, चौकि	कुर्ची	नार्कालि	कसेर	कुर्चि
किल्लो	खुँटि	खुँटि	उखोङ्, उचुक, खूँटी	कंटा	मेकु, कॉक्कि	मुळै	कुट्टि	गूट
गमला	गामला	गाम्ला, चरिया	गमला	कुंड़	पूलतॉट्टिट	पू तॉट्टि	पूत्तॉट्टि, चॅटिच्चट्टि	हू तोट्टि, हू कुंड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
गलीचा (कालीन)	स्तरणम, औशी	गलीचा	ग़ालीचा	कॉलीनुँ	ग़ालीचो	गालीचा	गालीचो	गालिचो
घड़ी	घटिका	घंड़ी	घड़ी	गॅर	वाच, घड़ी	घड्याळ	घडियाळ	घडयाळ
चक्की	पेशनी, पेषिणी	चक्की	चक्की	ग्रॅटिन्य, ग्रटुँ	चकी	जाते	घंटी	दांतें
चटाई	कटः	चटाई	चटाई	वगुव, पतुँज	तड॒ी, तड॒ो, चटाई	चटई	चटाई, सादडी, शेतरंजी	शेंदरी
चाबी	कुंञ्जिका	चाबी	चाबी, कुंजी	कुँज़	कुंजी, चाब॒ी	चाबी, किल्ली	चावी	चावी
चारपाई	खट्वा	मंजी	चारपाई	चारपाय	खटोलो, खट, चारपाई	बाज, खाट	ढोलियो, खाटलो, खाटली	बाज, खाट
छड़ी	यष्टिका	सोट्टी	छड़ी	लूर	लकुणु, छड़ी	छडी, काठी	लाकड़ी	बडी
छाता	छत्रम्	छतरी	छत्री	छॅतुॅर्य	छटी	छत्री	छत्री	सत्री
झाड़ू	मार्जनी	झाँडू, बुहारी	झाडू	लछुॅल, लछुॅज	बुहारो, बुहारी	केरसुणी, झाडू	झाडू, सावरणी, सावरणो	सान्न, झाडू
टोकरी	पिटकः, कारण्डः, कण्डोलः	टोकरी	टोकरी	टूकुॅर, क्रेंजुल	टोकरी, टोकरो	टोपली	टोपली, छाबड़ी	पांटुली, पाटलो, टोपली

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गलैंचा	गालचे, गालिचा, कारपेट	दलिछा, गालिचा	गलीचा	गालिचा	तिवाची	जमक्काळम्/ विरिप्पु	परवतानि	रत्नगंबळि
घडी	घड़ि	घड़ि	घड़ी	पात्र	गडियारमु	कडिगारम्	घटिकारम्	गडियार
घट्ट, जाँतो	चाकि, जाँता	जाँत	चक्की	चकि	तिरगलि	एंळुंदिरम्	तिरिकल्लु	बीसुव कल्लु, कल्लु
सुकुल, गुंद्री	मादुर, चाटाई	ढरा, ढारि	फक्	चटाइ	चापे	पाय्	पाय्	चापे
साँचो	चाबि	चाबि, संचार-काठि	चाबी	चाबि, कंचि	तालम् चेवि	चावि/ तिरुवुकोल्	ताक्कोल्, चावि	बीगद कै
चारपाई, खाट	खाट, चारपाया	चारपाइ, खाट	फमूङ, काङ्थोल	चारपाइ (खट)	मंचमु	कट्टिल्	कट्टिल्	मंच
छडी	छड़ि	लाखुटि, एछारि	चैशु, लीचै	छड़ी, बाड़ी	बेत्तमु	कंबु/कळि/ कुच्चि/तडि	वटि	कोलु
छाता	छाता	छाति	छातीन	छता	गोडुगु	कुडै	कुट	कोडे
कूचो	झाँटा, झाडु	शोता, बाढ़नी	शूमजित्	झाडु, छांचुणी	चीपुरु	तुडैप्पम्/ विळक्कुमारु	चूल्	पोरके
टोकरी, डाली, डालो	डाला, झुड़ि, टुक्रि	पाछि, खराहि	पोलाङ, थुममोक्	झुड़ी, टोकेई, डाला	बुट्ट	कूडै	कुट्ट, कोट्ट, वट्टि	बुट्टि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
तकिया	उपधानम्	सराण्हा	तकिया	तॅकियि	विहाणो	उशी	तकियो, ओशींकु	उशी
ताला	तालकः	जंदरा	ताला	कुलुफ	कुल्फु, तालो	कुलूप	ताळुं	कुलूप
तिपाई	त्रिपादी	तिपाई	तिपाई	टीपाय-स्यपायि	टिपाई	तिवई, तीन पायांची घडवंची	टिपोई, टिपोय	तामरेत, टिपॉय
दरी	कटः, स्तरी	दरी	दरी	सतुँरँड	फ़रासी	सतरंजी	शेतरंजी, जाजम	जमखण, जाजम
दीया	दीपः	दीवा	दिया	च़ोंग	ड॒ियो, ड॒ीओ	दिवा	दीवो	दीवो, दीप
पंखा	व्यजनम्	पक्खा	पंखा	वावुॅज	विजिणो (हथ जो), पंखो (बिजलीअ जो)	पंखा	पंखो	पंखो, आयणो
परदा	तिरस्करिणी	परदा	परदा	परदुॅ	पड्दो, पर्दो	पडदा	परदो, पड़दो	पड्डो
पलंग	पर्यङ्कः	पलंघ	पलंग	पलंग, प्रंग	पलंगु	कॉट, पलंग	पलंग	पलंग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तकिया	बालिश, ताक़िया	गारू उपधान	मोन	तकिया, माण्डि	दिंडु	तलगाणि, तलैयणै	तलयिण	तलेदिंबु
ताल्चा	ताला	तला, बादुलि, सँचार	वाइखू	ताला	ताळमु	पूट्टु	पूट्टुॅ, ताळ्	बीग
त्रिपाई	तेपाया, तिपय	त्रिपदी, तिनटा-खुरार-मेज	तूल, मखोङ् अहुम पान्बा फाल	तिपई, टी-पए (त्रिपदी)	मुक्कालु पीटॅ	मुक्कालि	स्टूळ्, मुक्कालि	मुक्कालु, मणे, स्टूलु
दरी, सतरन्जा	शतरञ्चि, शतरञ्जि	गालिचा	दरी	दरी, शतरंजि	पट्टॅ	जमक्काळम्	विरि, जमक्काळम्	जमखाने
दियो, दीपदानी	प्रदीप	चाकि	केगाम, थाङ्मै	दीप, प्रदीप	दीपमु	विळक्कु/ दीपम्	दीपम्, विळक्कुॅ	हणते
पङ्खा	पाखा	बिचनी	हुम्माइ	पंखा, बिंचणा	विसनकर्र, फ्यानु	विसिरि	विशरि	बीसणिगे
पर्दा	परदा (पर्दा)	आँर-कापोर, पर्दा	परदा	परदा, पर्दा	तॅरॅ, परदा	पडुदा, तिरै	पर्द, तिरश्शील, कर्टन्	परदे
पलङ	पालङ्, पालङ्ग, पालङ्क	पालें, खाट	फमूङ्, काङ्थोल	पलंक, खट	पट्टे मंचमु	कट्टिल	कट्टिल्, मंचम्	मंच

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मच्छरदानी	मशहरी	मच्छरदानी	मच्छरदानी	मछरदॉन्य	मछरदानी	मच्छरदाणी	मच्छरदानी	मच्छरदाणी
मूसल	मूसलम्	मोल्हा	मूसल	मुहुल	मुहिरी	मुसळ	मुशळ, मुसळ, सांबेलुं	मुसळ
मेज	पटलम्	मेज़	मेज़	मेज़	मेज़	टेबल	मेज़, टेबल	मॅज
मोमबत्ती	सिक्थवर्त्तिका	मोमबत्ती	मोमबत्ती	मोमबॅत्य	मेणबती, मोमबती	मेणबत्ती	मीणबत्ती	मेणवात
रजाई (लिहाफ)	कम्बलम्, तूलवती	रजाई	रज़ाई, लिहाफ़	रज़ॉय, लेफ़	सवड़ि, रज़ाई	रजई	रजाई	पांगरूण, रजय
लालटेन	काचदीप:	लालटैन	लालटेन	लालटीन	लालटीनु	कंदील	लालटेन, फानस	लाटण, लांपया
शृंगारदान	प्रसाधन-पेटिका	शंगारदान	सिंगारदान	सिंगारदान, सँज़्यवोंर	सींगारदानु, सींगार जी पेती	प्रसाधन पेटी, शृंगारदान	शणगार पेटी, मेइकप बोक्स	शृंगार पेटूल
संदूक	पेटिका	संदूक, बक्सा	संदूक़	सोंदूख	संदूक, पेती	ट्रंक, पेटी	पेटी	पेटी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झूल, मच्छडदानी	मशारि	आठुवा, मशारि	काङ्खल	मशारि	दोम तेर	कॉशुवलै	कॉतुकुवल	सोळ्ळेपरदे
मुसल	मुषल, मुषलि	उराल-मारि	शूक	मुसल	रोकलि	उलक्कै	उलक्क	ओनके
मेच, टेबुल	टेबिल (इं)	मेज	मेज	मेज, टेबुल	मेजा	मेजै	मेश	मेजु
मैनबत्ती, मइनबत्ती	मोमबाति	ममबाति	मोमबत्ती	महमबत्ती	कॉव्वॉत्ति	मेळुगुवत्ति	मेकुतिरि	मेणबत्ति
सिरक	लेप	निहालि, लेप	कॉंथ	रेजाइ, गदि	रजायि	रजाय	रजायि	रजाई
लालटिन, लालटिनी	हारिकेन, लंठन	लेम, लंटन	लालटेन	लंठन	लांतरु	लांदर्, अरिक्कन् विळक्कु	रांतल्	लांद्र, लाटीनु
सिँगारदान, शृङ्गारदान	प्रसाधन-सामग्री राखबार छोटो बाक्स, शृंगार दान	प्रसाधन-सँफुरा	मेक-अप बोक्स	प्रसाधन-बाक्स	सिंगारमु पेट्टे	अळगुसादन पेट्टि	मेक् अप् पेट्टि	शृंगारपेट्टिगे
संदुस, संदुक	सिंदुक	चंदुक, हातपेरा	तरग उपू	सिंदुक	पेट्टे	पेट्टि	पेट्टि	पेट्टिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
साबुन	फेनम्	साबण	साबुन	साबन	साबुणु	साबण	साबु	साबांव, शाबू
सोफा	सुखासनम्	सोफा	सोफ़ा	सोफुं	कोचु, सोफ़ा	सोफा	सोफो	सोफा
हुक्का	तमाखुशलाका	हुक्का	हुक़्क़ा	जजीर, नॉर्यलु	हुक्को, चिलम	गुडगुडी, हुक्की	हुक्को, हूको, होको	गुडगुडी
मिर्च-मसाले	**गन्धा:**	**मिरच मसाले**	**मिर्चमसाले**	**मसालुं**	**मिर्च-मसाला**	**मिरची मसाले**	**मरी-मसाला**	**मसाल्याचो जिनस, सांबार**
अजवाइन	यवानिका	जवैण	अजवाइन	जाव्यंदु	जाणि	ओवा	अजमो	वोंवों
अनारदाना	दाडिम-बीजम्	अनारदाणा	अनारदाना	अनारदॉन	डाढूंखटा	आंबट डाळिंबाचे सुकलेले दाणे	दाडमना दाणा	दाळींबाच्यो बियो, दाळींमाच्यो बियो
अमचूर	आम्रचूर्णम्	अमचूर	अमचूर	अंबुंचूरूँ	अंबचूर	सुकविलेल्या कैर्यांची भुकटी	आंबोळियुं, फेरीनी कचूंबर	आंबसोल
इमली	अम्लिका	इमली	इमली	तंबुंर	गिदामिड़ी	चिंच	आमली, आंबली	ऑबटाण, आमसाण
इलायची (छोटी/ बड़ी)	एला	इलाची (छोटी/ वड्डी)	इलायची (छोटी/ बड़ी)	ऑल (सबुंजुऑल/ बुडुंऑल	फोटा (नंढा/ वडा)	वेलदोडा	एलची (नानी, मोटी)	वेलची (होडली/ धाकली)

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साबुन	साबान, साबुन	चाबोन	सापोन	साबुन	सब्बु	सोप्पु	सोप्पुँ	साबूनु
सोफा हुक्का	सोफा हुँका, हुक्का	चोफा होका	सोफा हिदाक- फू	सोफा हुका, चिलम	सोफा हुक्का	सोफा हुक्का	सोफ़ हुक्क	सोफा गुडगुडि, चिलिमि
मरमसला	**मरिच मसला**	**जालुक मसला**	**मोरोक, मरुमराङ्**	**मसला, लंका मसला**	**मसाला दिनुसुलु**	**मसाला पोरुक्गळ्**	**वसालकळ्**	**मसाले पदार्थगळु**
ज्वानु	जोयान	जनि,	अजवाइन	जुआणि	वामु	ओमम्	अयमोदकम्, ओमम्	अजवान
अनारदाना	डालिमदाना, अनारदाना	शुकान डालिम-गुटि	कफोइ मरु	डालिंब- दाना	दानिम्मॆ गिंजलु	उलर्न्दमादुळै मणिगळ्	मातळक्कुरु बीज	दाळिंबे
अम्चुर, अमचुर	आमचुर, आमसि	आमता	हैनौ ना शेंबा	आँबुल	मामिडि पॉडि	मांगाय् पॉडि्	माङ्ङ- प्पॉटि	माविन हुळि
तित्री, अमिली	तेंतुल	तेंतेलि	मंगे	तेंतुलि	चिंतपंडु	पुळि	वाळन् पुळि	हुणसे हण्णु
सुकुमेल/ अलैंची	एलाच (छोटो/ बड़ो)	इलाचि	इलायची	अलेइच, गुजुराति	एलक्कायॆ (चिन्नॆ/ पॆद्द)	एलक्काय्	एलक्काय्	ऐलक्कि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
काली मिर्च	कृष्ण-मरिच:	काली मिरच	काली मिर्च	मरुॅछ़	कारा मिर्च	मिरी	मरी	मिरीं
जीरा	जीरक:	जीरा	जीरा	ज़्युर	जीरो	जिरें	जीरुँ	जिरें
तेजपात	गन्धपत्रम्	तेज पत्तर	तेज़पात	तेजवॅथुॅर	कमालपट्टु, तमालपट्टु	तमालपत्र	तमालपत्र	तेजपात
दालचीनी	दारुसिता	दालचीनी	दारचीनी	दालचीन	दालचीनी	दालचीनी	तज	तिखी
धनिया	वितुन्नकम्	धनिया	धनिया	दानिवल	धाणा	धणे	धाणा	कोथमीर, सुकी कोथमीर
नमक	लवणम्	लूण	नमक	नून	लूणु	मीठ	मीठुं, निमक, लूण	मीठ
नौसादर	क्षार:	नुशादर	नौशादर	नवसादन	नौशादरु	नवसागर	नवार, खार	नौसागर, खार
फिटकरी	स्फटिका	फटकड़ी	फिटकरी	फटकर	फिटकी	तुरटी	फटकडी	फडकी, तुरटी
मुलैठी	यष्टिमधु, मधुयष्टि	मुलट्ठी	मुलेठी	शंगुॅर	मिठी काठी	ज्येष्ठमध	जेठीमध	ज्येश्ठमध, गोडेकाष्ट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मरीच	गोल मरिंच	जालुक	गुन मोरोक	गोलमरीच	मिरियालु	मिळगु	कुरुमुळकुँ	मेणसु
जीरा, जिरो	जीरे, जीरा	जीरा	जीरा	जीरा	जीलकर्रे	जीरगम्	जीरकम्	जीरिगे
तेजपात, सिन्कौली	तेजपात, तेजपाता	तेजपात	तेजपात	तेजपत्र	तेजपत्ता	लवंगप्पत्तिरि	वळनयिल	लवंगदेले
दालचिनी	दारचिनि, दारुचिनि	दालचेनि	उशिङ्-सा, दाल चीनी	डालचिनि	दार्चन चेक्क	लवंगप्पट्टै	करुवप्पट्ट	दालचिन्नि
धनियाँ	धने	धनिया	फदिगोम	धनिया (धनिआ)	धनियालु	दनिया/ कोत्तमल्लिविदै	मल्लि	कोर्तंबरि
नुन, निमक	नून, लबण (न)	निमख	थूम	लुण	उप्पु	उप्पु	उप्पुँ	उप्पु
नौसादर, एक क्षार	निशादल (एक जातीय खार)	निशादल	हार मखल अमा	एक तीक्ष्ण खार बा लुण	नवासागरमु	नवच्चारम्	नवसारम्	नवसागर
फट्किरी, फिट्किरी	फटकिरि	फिटकिरि	फिजीगरी	फिटिकिरि	पटिक	पडिक्कारम्	पटिक्कारम्	पटिक
जेठीमधु, यष्टिमधु	योष्टिमधु (जो), जोठमधु	यष्टि मधु	मुलैठी, हिदाक कान्नबा उपांबी मखल अमा	जेठी मधु, जष्टि मधु	मधुयष्टि	अदिमदुरम्	इरट्टिमधुरम्	गुलगुंजी बेरु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मेथी	मेथिका	मेथी	मेथी	मीथ्य	हुर्बो, मेथी	मेथी	मेथी	मेथी
राई	सर्षपः	राई	राई, ख़रदल	आसुर, संदिजि दानुॅ	अहुरि, राई	राई	राई	सांसंव
लाल मिर्च	रक्त मरिचः	लाल मिरच	लाल मिर्च	मरचुॅवाँगुन	गाढ़ा मिर्च	तांबडी मिर्ची	लाल मरचुं	सुकी मिरसांग
लौंग	लवङ्गाः	लौंग	लौंग	रोंग	लौंग	लवंग	लविंग	लवंग
सरसों	सर्षपः	सर्हों	सरसों	तिलुॅ गोंगुल	सरहिं	मोहरी	सरसियुं	म्होवरी
सौंठ	शुण्ठीः	सुंड्ढ	सोंठ	शोंठ	सुंढि	सुंठ	सूंठ	सूंठ
सौंफ	शतपुष्पी	सौंफ़	सौंफ़	बॉदियानुॅ	सौंफ़	बडीशेप	वरियाळी	बडिशेप
हल्दी	हरिद्रा	हलदी	हल्दी	ल्यैंदुॅर	हैड	हळद	हळदर	हळद
हींग	हिङ्गुः	हिंग	हींग	यंगुॅ	हिङ्गु	हिंग	हिंग	हींग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मेथी	मेथी	मिथि	मेथी, मिथि	मेथी	मेंतुलु	वेंदयम्	उलुव	मेंते
राई, रायो	राइ सरषे	राइ	हंगाम येला	राइ/ सोरिष	आवालु	कडुगु	कटुकुँ	सासिवे
रातो खुर्सानी	लङ्का, मरीच	जलकीया, शुकान-जालुक	मोरोक् अङाङबा	लंकामरीच, नालि लंका	एर्र मेरपकायलु	मिळगाय् वट्टल्	वट्टल् मुळकुँ	केंपु मेणसिनकायि
ल्वाङ	लबङ्ग	लं	लौंग	लबंग	लवंगमु	इलवंगम् (किरांबु)	लवंगम, ग्रांपु	लवंग
सर्सिउँ, सर्स्यूं	सरषे (सो)	सरियह	हंगाम	सोरिष	आवालु	पेरिय कडुगु	पेरुं कटुकुँ	सासिवे
सुठो	शुँठ	शुँठ	चैराङ्	शुंठी	सोंठि	चुक्कु	चुक्कुँ	शुंठि
शतपुष्पा, सौंफ	मौरि	गुवामरि	होफ	पानमहुरी, पानमधुरी	सोंफु	सोंबु	पेरुंजीरकम्	सोंपु, सोपु
हलेदो, बेसार	हलुद	हालधी	याइङङ्	हलदी	पसुपु	मंजळ्	मञ्ञळ्	अरिशिन
हिङ	हिंग	हिं	हिंग	हिंगु, हेंगु	इंगुवँ	पेरुंकायम्	कायम्	हिंगु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रसद	खाद्य-सामग्री	रसद	रसद	रसद ख्यन-चन	रसद खादे जो सामानु	रसद	रसद	रसद
आटा	गोधूमचूर्णकम्	आटा	आटा	ओट	अटो	कणिक, पीठ	लोट	पीठ
ईंधन	इन्धनम्	बालण	ईंधन	ज़ालुन, ज्युन	काठियूं (बारण जूं)	जळाऊ लाकूड,	छाणां-लाकड़ां, ईंधन, बळतण	इंधन
गुड़	गुडम्	गुड़	गुड़	गोर	गुड़ु	गूळ	खावानो, गोळ	गोड
घी	घृतम्	घिंओ	घी	ग्यव	गीहु	तूप	घी	तूप
चावल	तण्डुलम्	चौल	चावल	तोंमुल	चांवर	तांदूळ	चोखा, भात	तांदूळ
चीनी	शर्करा	खंड, चीनी	चीनी	मॅदरेर	खंडु	साखर	खांड	साकर
दियासलाई	दीपशलाका	डब्बी, माचस	दियासलाई (माचिस)	गंदख तुज	माचीस	काडी, आगपेटी	दीवासळी, माचिस	फस्काकाडी
बेसन	चणक-चूर्णकम्	वेसण	बेसन	बेसन	बेसणु	बेसन, डाळीचे पीठ	वेसण, चणानो लोट, चणाना लोटनुं खीरुं	चण्याचे पीठ
मिट्टी का तेल	मृदातैलम्	मिट्टी दा तेल	मिटटी का तेल	मेंचितील	गासलेट	घासलेट	घासतेल, घासलेट, केरोसीन	घासलेट, राकेल
मैदा	समिता	मैदा	मैदा	मॉदुं	मैदो	मैदा	मेंदो, मेदो	मैदो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रसद, खाद्य सामग्री	**रसद (खाद्य सामग्री)**	**रसद**	**राशन**	**रोषेइ सामग्री**	**अंगडि दिनुसुलु**	**मळिगै सामान्**	**पलव्यंजनम्**	**अडिगे सामानु**
पिठो	आटा	आटा	आटा	अटा	पिंडि	मावु	मावुॅ (गोतंपुमावुॅ)	हिट्टु
इंधन	काठ, इंधन, ज्वालानि (जा)	खरि, ईंधन	शिङ्	जालेणी, इंधन	वंट चेरकु	विऱगु	विऱकुॅ	इद्दलु-सौदे, उरुवलु
सखर, गुड	गुड़	गुड़	चिनि अङाङ्बा	गुड़	बेल्लमु	वेल्लम्	शर्कर, वेल्लम्	बेल्ल
घिउ	घि	घिँउ	घी	घिअ	नेय्यि	नेय्	नेय्युॅ	तुप्प
चामल	चाल, चाउल	चाउल	चेङ्	चाउल	बिय्यमु	अरिसि	अरि	अक्कि
चिनि	चिनि	चेनि	चिनि	चिनि	पंचदार, चक्केर	सक्करै/ जीनि	पंचसार	सक्करे
सलाई, दियासलाई	देशलाइ, दियाशालाइ	दियाचलाइ, जुइशला	मैखेत्	दिआसिलि	अग्गि पुल्लै/पेट्टे	तीप्पेट्टि/ नेरुप्पुप्पेट्टि	तीप्पेट्टि	बेन्किकड्डि, बेंकिपट्टण
बेसन	बेसन, बेसम	बेछन	बेसोन	बेसन	शनगपिंडि	कड़लै मावु	कटलमावुॅ	कडलेहिट्टु
मटीतेल, मट्टीतेल	केरोसिन, केरासिनतेल	केराचिन	केरोसिन	किरोसिनि, माटि तेल	किरसनायिलु	मण्णेण्णय्/ केरसिनायिल्	मण्णेण्ण	सीमे ऐण्णे
मैदा	मयदा	मयदा	मोइदा, मेदा	मइदा	मैदा	मैदा	मैदा	मैदाहिट्टु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शहद	मधु	शेह्द, माखिओं	शहद	माँछ	माखी	मध	मध	म्हों‌व
सरसों का तेल	सर्षप-तैलम्	सर्हों दा तेल	सरसों का तेल	तिलुॅ-गोंगुल-तील	सरहिं जो तेलु, मिठो तेलु	मोहरीचे तेल	सरसियुं, सरशियुं	म्होवरी चे तेल
सिरका	शौक्तिकम्	सिरका	सिरका	सिरकुॅ	सिर्को	शिरका, व्हिनिगर	सरको	विनाग्र, इनाग्र
सूजी	कणकम्	सूजी	सूजी	सूज	सूजी	रवा	रवो	रवो
रसोईघर की वस्तुएँ	**पाकशाला वस्तूनि**	**रसोई घर दा समान**	**बावर्ची खाने की चीज़ें**	**चोकुॅक्य-चीज़**	**रसोई घर जूं शयूं**	**स्वयंपाक धरातील सामान**	**रसोडानो सामान**	**रांदची कूड्येचो सामान**
अँगीठी	हसन्ती, अङ्गारधानी	अंगीठी, चुल्हा	अंगीठी	दमचूलुॅ	सिगिरी, अंगीठी	शेगडी	सगड़ी, शगड़ी	शेगडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मह	मधु	मौ	खोइही, खोयही	महु	तेने	तेन्	तेन्	जेनुतुप्प
सर्स्यूंको तेल, तोरीको तेल	सरषेर तेल	मिठा तेल, सरिहर तेल	हंगाम थाओ	सोरिष-तेल	आवे नूने	कडुगॅण्णंय्	कटुकॅण्ण	सासिवे ऐण्णे
सिरका	सिरका, सिकी	चिरिका	नुङशादा फौदोकलबा चु, अंगुर नचिङ्बगी मही	भिनिगार	पुलिसिने रसमु	काडि	सॅर्क्क, विनिगर	द्राक्षिहुळि, कडलेहुळि, विनेगर्
सुजी	सुजि	चुजि	सुजि, सुचि	सुजि	रव्वे	रवै	रुव	रवे
भान्छाघरका मालसामान	**रान्नाघरेर सरोन्जाम**	**रांधनी-घरर-सरन्जाम**	**चाक्खूमगी पोतलम, चाकशङ्गी पोत चै**	**रोषेइ घर जिनिष**	**वंटिंटि वस्तुवुलु**	**शमयलरै सामान्गळ्**	**अटुक्कळ सामानङ्ङळ्**	**अडिगे मने सामानुगळु**
अँगेठी, बोर्सी	काठ कयलादिर तोलाउनुन (स्थानांतर जोग्यो)	अङवा, आंगठी	मैफू	उठा चुली	पॉय्यि, कुंपटि	कुमुट्टि अडुप्पु	करियटुप्पुं	अग्गिष्टिके

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कूंडी	कुण्डी	कुंडी	कूंडी	हाँकल	कूंडी (पथर या मिटीअ जी नंढी बाटी)	कुंडी	कुंडी, कूंडी	रगडो
कटोरी	कटोरी, कटोरिका	कौली	कटोरी	कटोरॅ, कवुॅल्य	वटी, कटोरी	वाटी	कटोरी, वाडकी, वाटकी	वाटी
कड़ाही	कटाही, कटाह:	कड़ाही	कढ़ाई	क्राय	तई, कड़ही	कढई	कडाई	कायल
कलछी	वलनी	कड़छी	करछी	क्रॅछ्-चोंचि	केवी, कड़्छी	पळी	कडछी	पळी, दवली
कोयला	पाषणाङ्गार:, कृष्णाङ्गार:	कोला	कोयला	चुॅन्य, चॅनि	कोइलो	कोळसा	कोलसो	कोळसो, विंगळो, इंगळो
गागर	गर्गर:	गागर	गगरा, गागर	गागुॅर	घाघर, मोर्यो	घागर	गागर	कळशी, कळसो
गिलास	गल्वर्क:, कुन्तल:	गलास	गिलास	गिलासुॅ	गिलास	पेला, ग्लास	ग्लास, प्यालो, पवालुं	पेलो, ग्लास
घड़ा	घट:	घॅड़ा, मटका, झञ्जर	घड़ा	नोंट	दिलो	मोठी घागर	घडो	घडो, मडकी
चकला	वेल्लनम् पीठिका	चकला	चकला	चकलुॅ	चकुलो	पोळपाट	चकलो, पाटली	लाटफळें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कडा, कान (भाँडाको)	हाँड़ि- कुँड़ि	हाँकोटा	पुना, पोना	हाण्डि	गाळ्ळमु	शिरुतॉट्टि	कल्तॉट्टि	कल्लिन तोट्टि, ओरळु
कचौरा, बटुको	बाटि	बाटि	तेङ्कोत	पात्र	गिन्नं	कोप्पै/ किण्णम्	किण्णम्, ओटम्	बट्टलु
कराही	कड़ाइ, कड़ा	केराहि	खाङ्	कड़ेइ	बाणलि	कडाय्/ वाणलि/ इलुप्पच्चट्टि	चीनच्चट्टि, वार्पु, उरुळि	बाणले
पनिउँ, पन्यूँ	हाता	हेता, करचळि	खाबै	कलसी	गरिटॆ	करंडि	चट्टकम्	सौटु
कोइला	कयला	कयला	कोयला	कोइला	बॉग्गु	करि/ अडुप्पुक्करि	कल्करि	इददलु
गाग्रो	बड़ो घड़ा, गागर	गागरि, कलह	सनाबुल	गरा	बिंदॆ	तोण्डि/ कुडम्	कलम्/ कुडम्	बिंदिगे
गिलास	गेलास	गिलाच, गेलाच	गिलास	गिलास, ग्लास	ग्लासु	टम्ळर्	ग्ळास्	लोटा
घडा, कलश, गाग्रो	घड़ा, कलसि	घट, कलह	चफू	घड़ा, कलसी	कुंडॆ, कडवॆ	पानै	कुटम्	कोड
चकला	चाकि	चाकति, बेलना	तलफान, तल तक्नबा फाल	चकी	चपाती पलकॆ	चप्पातिप्पलकै, चप्पातिक्कल्	चप्पात्तिप्पलक, चप्पात्तिक्कल्लु	बीसुवकल्लु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चम्मच	चमसः	चिमचा, चमचा	चमचा	चमचि, काशवुॅ	चिम्चो, चमचो	चमचा	चमचो	चमचो
चाकू	क्षुरिका, छुरिका	चाकू, काचू, चक्कू	चाकू	श्रापुॅकुच	कपु, चाकूं	चाकू	चाकु, चप्पु	चाकू
चायदानी	चायधानी	चाहदानी, केतली	चायदानी	चायिदॉन्य	चांहिदानी	चहादाणी, किटली	कीटली	च्याची बुल, किटली
चिमटा	कङ्कमुखः, सन्दशः	चिमटा	चिमटा	चुमटुॅ	चिम्टो, चिमटो	चिमटा	चीपियो	चिमटा
छलनी (चलनी)	तितउ, पावनी	छानणी	छलनी	पर्युन	छाणी	चाळणी	चाळणी	चाळणी
छुरी-काँटा	विशाखा-छुरिका	छुरी-कांटा	छुरी-कांटा	छुरी-कांटुॅ	छुरी-कांटो	सुरी काटा	छरी-कांटो	सुरी-कांटो
जग	भृङ्गारः	जग	जग	जग	जग, सुराही	जग, सुरई	जग, सुराई	खुजो
तवा	तप्तकम्	तवा	तवा	तॉव	तओ	तवा	तवो	तवो
तश्तरी	स्थाली	रकाबी, पलेट	तश्तरी	रिकॉब्य	तसिरी, रकाबी	तबक, ताटली	रकाबी, अडारी	पीर, प्लेट
तसला	तांसलम्, ऋचीकम्	तसला, तगारी	तसला	तगारुॅ	तसिरो	तसराळे	तांसळुं	तसरळे

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चम्चा, चमुच	चामचे	चामुच	चमोच	चामुच	चमचा	स्पून/ तेक्करण्डि	स्पूणुं, करंटि	चमचे
चक्कु	छुरि, चाकु	कटारी, छुरी	थाङ्, हैज्राङ्	छुरि	चाकु	पेनाक्कत्ति	पिच्चात्ति, पेनाक्कत्ति	चाकू
चियादानी	चादानि, केटलि	केटलि	चा लोनबा कोल, केतली	चा-दानी, चापात्र	टी पाटु	तेनीर् पात्तिरम्/ टीपाट्	चायप्पात्रम्, चायक्केट्टिल	चा कित्तली
चिम्टा	चिम्टे, चिम्टा	चेपेना, चिम्टा	मैरौ चेगप	चिमुटा	पटकारु	चिम्टा/ इडुक्कि	कॉटिल्	इक्कळ
चल्नी, चालनी	चाल्नी, चालुनि	चालनी	चालोनी, चाजूम	चालुणी	जल्लेड	सल्लडै	अरिप्प	जरडे
छुरी-काँटा	छुरि-काँटा, काँटा-चामच	काटा चामुच	थाङ्-तेन	छुरी-कँटा (चामुच)	मुल्लु-कत्ति	कत्तियुम् मुळ् करण्डियुम्	कत्तियुं मुळ्ळुम्	नैफु-फोर्कु
जग	जग	जग	जग	जग्	जग्गु	जग्	जग्ग्	हूजि
तावा	चाटु, ताओया	तावा	तवा	ताऊआ, तावा	पेनमु	तोसैक्कल्	दोशक्कल्लुं	कावलि
रिकापी	छोटो रेकाबि	सरु काँही,	शेंग्याक, प्लेट	थालिआ	प्लेटु	तांबाळम्/ तट्टु	तट्टम्, प्लेट्टुं	प्लेटु
तसुला	रान्नार पात्रो	केराहि, मलाहि पात्र	बेसिन	तसला, पात्र	गोळमु	बेसिन्	बेसिन्	हरिवाण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
थाली	स्थाली, स्थालम्	थाली	थाली	थाल	थाल्ही, थाल्हु	थाळी, ताट	थाळी	ताट, थाळी
देगची	उखा	देगची	देगची (देग़ची)	दीकचि	देगिड़ी, तपेली	तपेली	देग, देगडी	तोप
प्याला	चषकम्, शरावः	पिआला	प्याला	प्यालुँ, खोस	प्यालो	पेला	प्यालो, पालो	पेलो
बालटी	दोलम्	बालटी	बालटी	बालटीन	बाल्टी	बादली	डोल, बालटी	बालदी
बेलन	वेल्लनी	वेलणा	बेलन	बेलन	वेलणु	लाटणें	वेलण	लाटणी
भगौना	स्थाली	पतीला	भगौना	बोंहगुन	तपेली	पातेले	तपेलुं	भगुणें
मथानी	मथनी	मधाणी	मथनी	द्योन, छोंफ	मांधाणी	रवी	रवई	रवी
मर्तबान	तेमनम्, निष्ठानम्	मरतबान	मर्तबान	मरतबानुँ	बर्णी, कूलो, मर्तबानु	चीनी माती ची बरणी	बरणी (अथाणांनी)	बुयांव, भरणी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
थाली	थाला	थाल, कॉही	पुखम	थाली	पळ्ळमु, कंचमु	तट्टु	तळिक	तट्टे
डेक्ची	डेक्चि, डेग्चि	डेक्चि, डेग्चि	चाक थोङ्नबा पात्र	डेक्चि	डेगिसा	सिरि्य तवलै	चॅरि्य चॅम्बुकलम्	कोळगप्पळे, चिक्कतप्पले
प्याला, कप	पेयाला, पियाला	पियला	कप	पिआला	कप्पु	किण्णम्/ कोप्पै	कोप्प, कप्पुॅ	कप्पु
बाल्टिन, बाल्टी	बाल्टि, बाल्ति	बाल्टि	बाटिन	बाल्टी	बकेट	वाळि	तांट्टि, बक्कट्टुॅ	बकेट्
बेलना	बेलन, बेल्ना, बेलुन	बेलनामारि	बेलन	बेलणा	चपाती कर्र	अप्पळक्कुळवि, चप्पात्तिकुऴवि	चप्पात्तिक्कुऴवि	लट्टणिगे
तपेस, डेक्ची	बोग्नो	एबिध-डाङर बाटि	टेक्सी	पलम	भगोणी	पोगिणि/ अडुक्कु	चरुवम्	बोगुणि
मधानी, मंथनी	घोल-मउनि, माथानि	मथनी, घोंटनी	दही नैखायनबा चै	खुआ, मंथनदण्ड	कव्वमु	मत्तु	मत्तु, कटकोल्	कडगोलु
अचार राख्ने चिनियाँ माटोको भाँडो, गोयम	बयेम, बयाम	बैयाम	अचार हापनबा पात्र मखल अमा	जार (आचार-बोतल)	जाडी	भरणि	भरणि	जाडि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मसालेदानी	गन्धाधानी	लूणदानी, मसालेदानी	मसालेदानी	मसालुँदॉन्य	मसालेदानी	मसालेदाणी	मीठां मरचांनो (मसालानो) डब्बो, कठोडुं	मसाल्याचो डबो
रकाबी	स्थालिका	रकाबी	रकाबी	रिकॉब्य	रकेबी	बशी	रकाबी, अडारी	बशी, पीर
लोटा	द्रोणः	गड़वी	लोटा	गडुँ, लोटुँ, गॅडवुँ	लोटो	तांब्या	लोटो	लोटो
संडासी	सन्दंशः	सनास	संडासी	संडासुँ, चुमटुँ	जंबूरी, पकड़ि, संडासी	सांडशी	साणसी, सांडसी	सांडशी
सिल बट्टा	शिलावटम्	सिल वट्टा	सिल-बट्टा	काजवठ	सिल बटो	पाटा-वरवंटा	निसार	फातरी
सुराही	सुराधिः, गलन्तिका	सुराही	सुराही	सुरय	सुराही, घुघी	सुरई	कुंजो, सुराई	सुरई

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पञ्चपाला, मसलादानी	मस्लादानि	मछला–पात्र	मरु–मराङ् हापफम	मसलादानी	मसाला पंट्ट	अंजऱैप्पेट्टि	मसालप्पेट्टि	मसाले डब्बि
रिकापी	रेकाबि	मेलाहि–काँही	शेमपाक्, पुखम	रेकावी	चिन्न प्लेटु	चिरु तट्टु	पिञ्ञाणम्, किण्णम्	चिक्क पलेटु
लोहोटा, लोटा	घटि, लोटा	घटि	खुजाइ	लोटा (ढ़ाल)	चेंबु	चेंबु	मॊंत	चोंबु
सनासो	साँड़ाशि	चेपेना, लेप	चेगप	संढुआसी	पट्टकारु	चिम्टा	चवण	इक्कळ
लोहोरो सिलौटो	शिलनोड़ा	पटागुटि, शिल–पटा	मशाला तक्नबा नुङ्पाक अमदि नुङ्जै	शिल–शिलपुआ	नूरुड्डु बंडॆ	अम्मि–कुऴवि	अम्मिक्कल्लुम् कुऴवियुम्	अरेयुव कल्लु
सुराही	कुँजो, सोराइ, स	लोटा	चफू, लैबाक्ना शाबा सनाबुल मओङ् मान्बा ईशिङ् चफू	सुरेइ	कूजा	मण्कूजा/ सुराय्	कूज	मण्णिन हूजि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
डाक-घर	पत्रालयः	डाकखाना	डाकघर	डाकखानु	टपालघरु	टपाल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस	टपाल ऑफिस, पोस्ट आफिस	पोस्ट ऑफीस, टपाल कचेरी
अंतर्देशीय डाक	अंतर्देशीय-प्रैषम्	अंतरदेशी डाक	अंदरूने-मुल्क डाक	मुलर्कु-ॲन्दुर्युक-डाक	अंतरदेसी टपाल	अंतर्देशीय टपाल	अंतर्देशीय टपाल	अंतर्देशीय टपाल
अंतर्देशीय पत्र	अंतर्देशीय पत्रम्	अंतरदेशी पत्तर	अंदरूने-मुल्क ख़ात (इनलेन्ड लैटर)	मुॅल्कुॅ-ॲन्दर्युच चिठ्य, अंतरदीशी (इनलैंडचिठ्य)	अंतरदेसी ख़ातु	अंतर्देशीय पत्र	अंतर्देशीय पत्र	अंतर्देशीय पत्र
एक्नोलिज-मेंट फार्म (प्राप्ति स्वीकृति/ रसीद)	प्राप्तिपत्रकम्	ऐकनालिज-मेंट फारम, प्रापती सूचना-पत्तर	रसीदी फ़ार्म	वातनुक रसीद	पहुच फ़ारम, एकनालेज-मेंट फ़ार्म	प्राप्ती-स्वीकृती, पावती	एक्नॉलेज-मेंट फोर्म, रसीद, प्राप्ति स्वीकृति	पावती
एरोग्राम (हवाई पत्र)	वायवीयपत्रम्	हवाई पत्तर	एरोग्राम	एरोग्राम	एरोग्राम, हवाई ख़तु	एरोग्राम, हवाई पत्र	हवाई पत्र	हवाई पत्र
टेलीप्रिंटर	दूरमुद्रकम्	टेलीप्रिंटर	टेलीप्रिंटर	टॅलिप्रिंटर	टेलीप्रिंटर, दूरमुद्रक	दूर-मुद्रक, टेलीप्रिंटर	टेलिप्रिंटर	टेलिप्रिंटर
टेलेक्स-एक्सचेंज	दूरसञ्चारः केन्द्रम्	टैलेकस ऐक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज	टॅल्यक्स एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज, दूरसंचार केंद्र	दूर मिलान केंद्र, टेलेक्स एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज
डाक	प्रैषः	डाक	डाक	डाख	टपाल, डाक	टपाल, पोस्ट	डाक, टपाल	टपाल-पोस्ट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
डाँकघर, डाँकखाना, हुलाकघर	डाकघर	डाकघर	**पोस्ट ऑफिस, डाक-घर**	डाकघर	**तपालफ़ीसु**	**तपाल् आपीस्/ अंजल् निलयम्**	तपाल् आफीस्	**अंचे कचेरि, पोस्ट् आफीसु**
अंतर्देशीय डाँक	अंतर्देशीय डाक, इनल्यण्ड लेटार	अंतर्देशीय डाक	इनलेण्ड डाक	अंतर्देशीय डाक	स्वदेशी तपालु	उळ् नाट्टु कडिदम्	इन्लैंड लेंट्र्	अंतर्देशीय टपालु
अंतर्देशीय पत्र	अंतर्देशीय पत्र	अंतर्देशीय पत्र	इनलेण्ड लेटर, चिट्ठी	अंतर्देशीय पत्र	इन्लैंड लैंट्टरु	उळ् नाट्टु कडिदम्	इनलैंड लेंट्ट्र	अंतर्देशीय पत्र
प्राप्ति/ स्वीकृत्ति/ रसिद	प्राप्ति स्वीकार- पत्र/ रसिद (सी)	स्वीकृति- पत्र (प्राप्ति स्वीकृति रचीद)	एकनॉलेजमेंट फोर्म	आकनलेजमेंट फर्म (प्राप्ति स्वीकृति रसीद)	एक्नोलिजमेंटु फारमु	कडिदम् पंट्टु क्कोण्ड रसीदु	मरुपटि रशीति, अक्नालड्- जर्मन्ट स्लिप्	तलुपिद- पावति
हवाईपत्र	एयारोग्राम	एरोग्राम	एरोग्राम	एरोग्राम	एरोग्रामु	एरोग्राम	एरोग्राम्	एरोग्राम्
टेलिप्रिंटर	टेलीप्रिंटर	टेलिप्रिंटार	टेलीप्रिंटर	टेलीप्रिंटर	टेलिप्रिंटरु	टॅलिप्रिंटर्	टॅलिप्रिंटर्	टॅलिप्रिंटर्
टेलेक्स- एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज	टेलेक्स- एक्सचेंज	टेलेक्स एक्सचेंज	टॅलेक्स एक्सचेंजि	टॅलक्स् निलयम्	टॅलक्स् एक्सचेंज्	टेलेक्स केंद्र
डाँक	डाक	डाक	पोस्ट	डाक	पोस्टु, तपाला	तपाल्, अंजल्	तपाल्, पोस्ट्	अंचे, पोस्टु, टपालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
डाकघर	प्रैष-केन्द्रम्	डाकघर, डाकखाना	डाकख़ाना	डाक गरुँ, डाक खानु	टपाल आफ़ीस, पोस्ट आफ़ीस	टपाल घर	पोस्ट ऑफिस, टपाल ऑफिस, डाकघर	टपाल घर
डाकघर बचत बैंक	पत्रालय-सञ्चय:	डाकघर बचत बैंक	डाकघर बचत बैंक	डाख गरुँ बचत बंक	टपाल/पोस्ट-आफ़ीस बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक	डाकघर बचत बैंक	टपाल ऑफिस बचत बैंक	पोस्ट ऑफिस बचत खातें
डाक टिकट	प्रैष-पत्रकम्	डाक टिकट	डाक टिकेट	डाख टिकट	टपाल-टिकिली	पोस्टाची तिकिट	टपालनी टिकिट	टपाल टिकेट
डाक तार	दूर-सन्देश:	डाक तार	डाक व तार	डाक तार	टपाल तार, डाक तार	डाक तार	तार टपाल	टपाल तार
डाकिया	प्रैषवाह:	डाकीया	डाकिया, चिट्ठीरसां	डाकुँवोल, चिट्ठी-रसान	टपाली	पोस्टमन	टपाली	टपाली
तार	तारसन्देश:	तार	तार	तार	तार	तार	तार	तार
तार-मनीआर्डर	दूरधनादेश:	तार मनीआडर	तार मनीआर्डर	तार मॅनीआडर	तार मनीआर्डर	तारेची मनिआर्डर	तारथी मनीआर्डर	तार मनीआर्डर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हुलाकघर, डाँकघर	डाकघर	डाकघर	पोस्ट ओफिस	डाकघर	पोस्टाफीसु	अंजल् निलयम्	तपाल् आफीसुँ	अंचे कचेरि
डाँकघर बचत ब्याङ्क, बैंक	डाकघर संचय बैंक	डाकघर संचय बैंक	पोस्ट ओफिस को सेविंग बैंक	डाकघर जमा ब्यांक्	पोस्टाफीसु सेविंग्स ब्यांकु	अंजल् निलय चेमिप्पु वंगि	तपाल् आफीस् सेविंग्स् बैंक्	अंचे कचेरिय् उळिताय ब्यांक
डाँक-टिकट, हुलाक-टिकट	डाक टिकिट	डाक-टिकट	पोस्ट गी टिकेट	डाक टिकट	तपाला बिळ्ळॆ	तपाल् तलै	तपाल् मुद्र, पोस्टल् स्टांपुँ	स्टांपु
डाँक-तार	डाक-तार	तार, टेलिग्राम	टेलिग्राम	डाकतार	तपाला तंति	तपाल्-तंदि	कंपित्तपाल्	अंचे तंति
हलकारो	पियोन, पोस्टम्यान, डाक हरकरा	डाक पियन, डाकोवाल	पोस्ट-मेन	डाकबाला	तपाला बंट्रोतु, पोस्टमैन	तपाल् कारन्	तपाल् शिपायि, पोस्ट् मैन	टपालिनवनु, पोस्ट्मन्
तार	तार, टेलिग्राम	ताँर, टेलिग्राम	टेलिग्राम	तार	तंति	तंदि	कंपि	तंति
तार-धनादेश, तार-मनीआडर	तार-मनिअर्डर (मोनि)	टेलिग्राम मनि-आर्डार	टेलिग्राम मनीआर्डर	तार मनीअर्डर	टी.एम.ओ.	तंदि मणि आर्डर्, तंदि पण अंचल्	कंपि मनीयार्डर्	तंति मनिआर्डर्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दूर-संचार (टेलीकॉम)	दूरसञ्चारः	दूर संचार (टेलीकॉम)	दूर मुवासलात (टेलिकम्यू-निकेशन)	टेलि-कम्यूनिकेशन	दूर-संचार	दूरगामी	दूरसंचार, टेळिकोम्युनिकेशन	दूरसंचार
धनादेश (मनीआर्डर)	धनादेशः	मनीआडर	मनीआर्डर	मनीआडर	मनीआर्डर	मनीआर्डर, चेक	तारथी मनीआर्डर	मनीआर्डर
पंजीकरण	पंजीकरणम्	पंजीकरण	रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन	पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन
पता	सङ्केतः	पता	पता	पताह	ऐड्रेस, सरनामो, पतो	पत्ता	सरनामुं	नामो, सरनामो, पतो
पार्सल	पोट-सम्प्रैषः	पारसल	पार्सल	पारसल	पार्सल	पार्सल	पारसल	पार्सल
पिनकोड	प्रैषकूटः	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड
पैकेट	कूर्चः	पैकेट	पैकेट	पाक्यट	पैकेट	पुडके, पुडा	पेकेट	पैकेट, बंडल
पोस्टकार्ड	प्रैषपत्रः	पोस्ट कारड	पोस्टकार्ड	खत, कार्ड	पोस्टकार्ड	पोस्टकार्ड	पत्तुं	पोस्ट कार्ड
पत्र	पत्रम्	पत्तर	ख़त	चिठ्य, पॅत्तुॅर	ख़तु, चिठी	पत्र	पत्र, कागळ	पत्र, चीट
पत्रपेटी	पत्रपेटिका	पत्तर पेटी, लैटर बाक्स	लैटरबक्स	खतुॅ पीट्य, लेंटर बॉक्स	टपाल जो दब्बो	लेटर बॉक्स, पत्राची-पेटी	टपाल पेटी	टपाल पेटी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दूरसञ्चार	दूरसंचार, बेतार, दुर संपर्को	दूरसंचार, केबल- ग्राम	टेलि- कम्युनिकेशन	बेतार	टेलिकम्यूनि- केशनु	तॉलै तोडर्बु	टॅलिकम्यूनिकेषन्, दूरवार्त्ता विनिमयम्	दूर संपर्क
मनीआडर, धनादेश	मनिअर्डर	धनादेश, मनीअर्डार	मनीआर्डर	मनीअर्डर/ धनादेश	मनीयार्डरु	मणि आर्डर्, पण अंचळ्	मणियार्डर्	मनि आर्डर्
दर्ता, पञ्जीकरण	पंजीकरण (न)	पंजीकरण	रेजिस्ट्रेशन	रेजिष्टरीकरण, पंजीकरण	रिजिस्ट्रेषनु	पदिवु अंजल्	रजिस्ट्रॅशन्	नोंदणि, दाखलाति
ठेगाना	ठिकाना	ठिकना	लैफम	ठिकणा	चिरुनामा, अड्रसु	मुगवरि, विलासम्	मेल्विलासम्	विळास
पार्सल	पार्सेल	पार्चेल	पार्सेल	पार्सल	पार्सलु	पार्सल्	पार्सल्	पार्सल
पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिनकोड	पिन्कोड	पिन्कोडु	अंजल् कुरिप्पॅण्	पिन्कोडुँ	पिन्कोडु
प्याकिट पत्र	प्याकेट पत्र	पेकेट पत्र, चिठि	पैकेट, चिट्ठी	प्याकेट	प्यार्कट्टु	पाक्कॅट्	पाक्केटुँ	प्याकेटु
पोस्टकार्ड	पोस्टकार्ड, कार्ड	पोस्टकार्ड	पोस्टकार्ड	पोष्टकार्ड	पोस्टुकार्डु	तपाल् कार्ड	पोस्टकार्ड	पोस्ट् कार्डु
पत्र	पत्र	पत्र, चिठि	चिट्ठी	पत्र	उत्तरमु, जाबु	कडिदम्	एँळुत्तु कत्तुँ	पत्र, कागद
ढ्वाङ, पत्रपेटिका, पत्रमञ्जूषा	पत्र-पेटिका	चिठिर बाकच	चिट्ठी थादफम, लैटर बॉक्स	चिठि बाक्स	लॅटर बाक्सु	तपाल् पॅट्टि	एँळुत्तु पॅट्टि	अंचे- पेट्टिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बीमा शुल्क	आगोप-शुल्कम्	बीमा फीस	बीमा महसूल	बीमुँ फीस	वीमो फ़ी	बिमा शुल्क	बीमादर	विमा दर
मूल्य देय वस्तुएँ (वी.पी.पी.)	मूल्यदेय-वस्तूनि	वी.पी.पी.	वी.पी.पी.	वी.पी.पी.	रक़म भरण वारियूं शयूं (वी.पी.पी.)	मूल्य देय वस्तु/ वी.पी.पी.	वी.पी.पी.	वी.पी.पी.
रजिस्टर्ड पत्र	पंजीकृत-पत्रम्	रजिस्टरी पत्तर	रजिस्टर्ड लेटर (रजिस्ट्री)	रजिस्टॉर्ड चिठ्य	रजिस्टर्ड ख़तु/चिठी	रजिस्टर्ड पत्र	रजिस्टर्ड कागळ	रजिस्टर्ड पत्र
रसीदी टिकट	राजस्वमुद्रा	रसीदी टिकट	रसीदी टिकट	रॅसीदी-टिकट	रसीदी टिकिली	पावती चे तिकिट	रेवन्यू स्टेंप	पावतीचो तिकेट, पोंच ची तिकेट
लिफाफा	आवरणम्	लिफ़ाफ़ा	लिफ़ाफ़ा	लिफार्फु	लिफ़ाफ़ो	पाकिट	परबीडियुं, कवर	लाखाटो, कवर
विदेशी डाक	विदेशीय-प्रैष:	विदेशी डाक (पत्तर)	ग़ैरमुल्की डाक	न्यबर्युम-डाक	विदेशी टपाल/डाक	विदेशी टपाल	परदेशनी टपाल	विदेशी टपाल
संचार	सञ्चार:	संचार	मुवासलात (ख़बररसानी)	मुवॉसिलात	संचार	संचार, कम्युनिकेशन	संचार	संचार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिमाशुल्क	बीमाशुल्क	बीमा-शुल्क	इन्शुरेन्स-फी	बीमा-शुल्क	इन्शूरेन्स चार्ज	ईट्टुरुति कट्टणम्	इन्श्रूरन्स् फीस	विमे-फीसु
भी. पी. पी.	भि. पि. पि	भि. पि. पि	वी. पी. पी.	मूल्य पार्शल (भि.पि.पि.)	वी. पी. पी.	वी. पी. पी.	वी. पी. पी.	वि. पी. पी.
रजिस्टरी पत्र	रेजिस्ट्री पत्र	रेजिष्टार चिठि	रजिस्टर्ड लेटर	रेजिष्टर्ड चिठि	रिजिस्टर लेटरु	रजिस्टर् कडिदम्	रजिस्टर्ड् कत्तुं, रजिस्टर्ड् पत्र	नोंदायित पत्र
रसिदी टिकट	रसीदी टिकिट	रिभिनिउ टिकेट	रेवन्यू स्टांप	रेभिन्यु टिकट, रसीदी टिकट	रेविन्यु स्टांपु	रेवन्यू स्टांपुं	रेवन्यू स्टांपुं	रसीदि स्टांपु
खाम	खाम, लेफाफा	लेफाफा, खाम	चे-खाउ एनबेलप	लफाफा	कवरु	कागिद उरै/ कवर्	कवर्, लक्कोट्टुं	कवरु, पाकीटु
विदेशी डाँक	बिदेशी डाक	बिदेशी डाक	मीरैबाकता थाबा चिट्ठी	विदेशी डाक	विदेश तपाला	वेळि नाट्टु तपाल्	विदेशत्तपाल्	विदेशी अंचे
सञ्चार	योगायोग, चिठि पत्र (कम्युनिकेशन) (जो), (जो)	योगायोग	ई-पाओ चत्नबगी थबक्	जोगाजोग	संचारमु	सयदि अरिविप्पु	वार्ता विनिमयम्	संचार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
स्टांप	प्रैषमुद्रा	टिकट, अशटाम	स्टांप	टिकट इष्टाम	स्टांप	पोस्टाचा शिक्का	टिकिट (स्टेंप)	शिक्को
तरकारी, फल, फूल	**व्यञ्जनानि, फलानि पुष्पाणि**	**सब्जी, फल, फुल्ल**	**तरकारी, फल, फूल**	**सब्ज़ी, म्यवुॅ, पोश**	**सब्ज़ी, फलफूल, मेवो**	**भाज्या, फळे, फुलें**	**शाक, फळ, फूलो**	**भाजी पालो फूल, फळ**
तरकारी	**शाकः**	**सब्ज़ी**	**तरकारी (सब्ज़ी)**	**सबज़ी (तरकॉर्य)**	**सब्ज़ी, भाजी**	**भाजी**	**शाक-भाजी**	**भाजी**
अदरक	आर्द्रकम्	अदरक	अदरक	अदरख़	अदरक	आले	आदु	आलें
अरबी	आलुकी	अरबी	अर्वी	अरबी	कचालू	अळकुडी	अळवी	अळमें
आँवला	आमलकम्	औला	आंवला	ओमलुॅ	आँवरो	आवळा	आमळुं, आंबळुं	आंवाळो
आलू	आलुकम्	आलू	आलू	ओलव	पटाटो	बटाटा	बटाटो, बटाटा	बटाट
कटहल	पनसः	कठल	कटहल	कटहल	कटहलु	फणस	फणस	पणस
करेला	कारवेलम्	करेला	करेला	करेलुॅ	करेलो	कारले	कारेलुं	करातें, कारेटी
काशीफल (कद्दू)	काशीफलम्	कद्दू	कद्दू	अल	काशीफलु, पेठो	लाल भोपळा	कोळुं	कोंकण दुदी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टिकट	टिकिट, स्टयांप, स्टांप	टिकिट	स्टांप	ष्टांप, टिकट	स्टंपु	स्टांपु/ तपाल् तलै	स्टांपॅ, मुद्र	स्टांपु
तरकारी, फलफूल	तरितरकारि, फलफूल	पाचलि, तरकारि फलफुल	एन्जाङ् नापी, है, लै	तरकारी, फल-फुल	कूरगायलु, पंड्लु, पूलु	कायकरि, पळम्, पू	पच्चक्करि, पळम्, पूवॅ	तरकारि, हण्णु हूवु
तरकारी, सब्जी	तरितरकारि, शब्जी	पाचलि	एन्जाङ्	तरकारी	कूरगाय	काय्करि	पच्चकरि, मलक्करि	कायिपल्य
अदुवा	आदा	आदा	सीङ्	अदा	अल्लमु	इंजि	इंचि	हसिशुंठि
पिँडालु	कचु	कचु	पाल्	सारु	चेम	चेप्पंकिळंगु	चेंपुॅ	केसुवु
अमला	आमलोकी	आमलखि	कैक्रू	अला, अंला	उसिरिक	नेल्लिक्काय्	नेल्लिक्क	नेल्लिकायि
आलु	आलु	आलु	आलू	आलु	बंगाळादुंप	उरुळैक्किळंगु	उरुळन् किळङङ्ङु	आलूगेड्डे
कटहर	काँटाल, काँठाल, ऐंचोर	कठाल	थैबोङ्	पणस	पनस	पला	चक्क	हलसु
करेलो	करला, उच्छे (छोटो जातीय करला)	केरेला	कारोल-अखाबी	कलरा	काकर	पागर् काय्	पावक्क, कैप्पक्क	हागलकायि
कुभिंडो	कुमड़ो, कुमड़ा	रङा लाओ	माइरेल	कखारु	गुम्मडि	पूसणिक्काय्	मत्तङ्ङ	कुंबळकायि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
खीरा	खीरकम्, कर्कटी	खीरा	खीरा	लॉर	वंगो, खीरो	काकडी	काकडी	तवशें, पिंपरी
गाँठगोभी	ग्रन्थिगोभी	गंड्ढगोभी	गांठगोभी	म्वंजि	गॖंढिगोभी	नवलकोल	नोलकोल	फलावर, फुलकोबी
गाजर	गर्जरम्	गाजर	गाजर	गाज़ुॅर	गजर	गाजर	गाजर	गाजर
गुआरफली	–	गुआरा	गुआरफली	गुवार फली	गुआरि	गवार	गवार शींग (फळी)	चिडकी मिडकी, चिटकी मिटकी
चौलाई	काण्डेरः	चुलाई	चौलाई	चोलॉई	हिक क़िस्म जी साई भाॼी, चौलाई	चवळीची, पालेभाजी	तांदळजो	पालेभाजी
जमींकंद (सूरन)	सूरणः	जिमींकंद	ज़मींक़ंद	जमींकंद	सूरणु, ज़मींकंद	सुरण	सूरण	सुरण
टमाटर	ताम्रतरः, रागालुः	टमाटर	टिमाटर	रूवांगुन, टमाटर	टमाटो	टोमॅटो	टमेटुं	टमाट, तोमांत
तोरी (तोरई)	कोशातकी	तोरी	तोरी, तोरई	तोॅरेल	तूरी, तोरी	दोडका	तुरियुं	घोंसाळें, दोडगें
धनिया	वितुन्नकम्	धनिया	धनिया	दॅनिय	सावा धाणा, कोतमीरु	कोथिंबीर	लीला धाणा, कोथमीर	कोथमीर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काँक्रो	शसा (क्षीरिका) (खी)	तिंयह	थबी	काकुड़ि	खीरा, दोसकाय	वंळ्ळरिक्काय्	मुळ्ळन् वंळ्ळरिक्क	सौतेकायि
गाँठकोपी, गाँठगोभी	ओलकपि	ओलकबि	कोबी मरुकाबी	ओल-कोबि	कैबेजी	मुट्टै कोस रगं	ओरुतरं मुट्टक्कूस	गेड्डे कोसु
गाजर	गाजर	गाजर	गाजर	गाजर	क्यारट्ट	कारॅट्	कारट्टॅ	गज्जरि
गहतको कोसा, गुआरफली	कुलति-शुँटि	बीन	गुआरफली, हवाइ मखल अमा	गुआंर छुइं	गोरुचिक्कुडु	कॉत्तवरंकाय्	कॉत्तमरक्क	हुरळि
लट्टे (साग)	नटे (शाक जातीय)	एबिध शाक	चेङ्कुक्	एक प्रकार शाग	तोटकूरॅ	अरैक्कीरै	चीर	अमरांति सोप्पु
ओल, ओलक	ओल, कंद जातीय	काठ आलु	मंग्रा	ओलुअ, ओल	कंदगड्डॅ	चेनै-क्किळंगु	चेन	सुवर्ण गेड्डे
गोलभेंडा, रामभेँडा, टमाटर	टमेटो, टम्माटो, बिलाती बेगुन	बिलाही	खामेन असिनबा	टमाटो/ विलाति बाइगण	टमोटा	तक्काळि	टॉमाट्टो, तक्काळि	टोमाटो, चप्परहण्णु
घिरौंलो, तोरियाँ	धुँधुल, मौलो	भोल, जिका, झिंगा	सेबोत	जांहनि, तरडा	बीरॅ कायॅ	पीर्क्कै	पीच्चिङ्ङ	हीरेकायि
धनियाँ	धनेपाता	धनिया, मेमेधु	फदीगोम	धनिआपत्र	कोतिमिरि	कॉत्तमल्लि	कॉत्तमल्लि	कोत्तंबरि सोप्पु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नीबू	निम्बुकम्	निंबू	नींबू (लीमूं)	न्योंम	लीमो	लिंबू	लींबू, लिंबु	लिंबू
परवल	पटोल:	परमल	परवल, परमल	परुँवल	परवल	तोंडल्या सारखी एक पळ भाजी	परवळ	पडोळें, पडवळें
पालक	पालक्यम्	पालक	पालक	पालख	पालक	पालक	पालक	पालक
पेठा	पेठकम्	पेठा	पेठा	अल	पेठो	कोहळा	भूरुं कोळुं	कुवाळो, दुदीन
पोदीना	पुदीन:	पूदना, पुदीना	पोदीना	पुद्‌नुँ	पुदीनो	पुदिना	फुदीनो, फूदनो	पुदिना, वहटेलांव
प्याज	पलाण्डु:	गंढा	प्याज़	गंड्डुँ	बसरु	कांदा	डुंगळी, कांदो	कांदो, पियांव
फूलगोभी	फुल्लगोभी	फुल्लगोभी	गोभी	फूलगूपी	गुलगोभी, फूलगोभी	फुलवर	फुलावर	फुलावर
बंदगोभी	पत्रगोभी	बंदगोभी	बंदगोभी	बंदगूपी	बंदगोभी	कोबी	कोबी, कोबीज	कोबी
बैंगन	वृन्ताक:	वताऊँ	बैंगन	वांगन	वाङ्‌णु	वांगे	रींगणुं, रींगण	वांगी, वांयगें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निबुवा, निंबू, कागती	लेबु, नेबु कागजि	नेमु टेङा	चमप्रा	लेंबु	निम्मकाय	एलुमिच्चम् पळम्	चेरुनारङ्ङ	निंबे-हण्णु
परबर	पटोल	पटल	परवल	पोटल	दोंडकाय	परवल्/ कोवैक्काद् पोन्र् काय्	कोवक्क	तोण्डेकायि
पालुङ्गो	पालङ (शाक)	पालें	पालक	पालंग (शाग)	पालकूर	पालक्कीरै	पालक चीर	पालक
कुभिंडो, पेठा	चाल कुमड़ो	कोमोरा	तोरोबोत	पाणिकखारु	बूडिद गुम्मडि	चांबल् पूषणिक्काय्	इळवन्, कुंपळङ्ङ	बूदु गुंबळकायि
पुदिना, बाबुरी	पुदिना	पदिना	नुङशीहिदाक	पोदिना	पोदीना	पुदिना	पुदीना	पुदीना
प्याज	पँयाज, पियाज	पियाज	तिलहौ	पिआज	उल्लिगड्ड	वेंकायम्	उळ्ळि, चुवन्नुळ्ळि	ईरुळ्ळि, उळ्ळेगड्डि
काउली, कोपी	फुलकपि	फुलकबि	कोबी लै, कोबी थम्चेत् मान्बी	फुलकोबि	कैबेजि पुव्वु	कालि फ्लवर्, पूक्कोस्	कालिफ्लवर्	कालिफ्लावर
बंदकोपी, बंदगोभी	बाँधा कपि	बंधा-कबि	कोबी	बंधाकोबि	कैबेजि	मुट्टैक्कोसु	मुट्टक्कोस्	कोसु
भन्टा	बेगुन	बेङेना	खामेन	बाइगण	वंकाय	कत्तरिक्काय्	कत्तरिक्क, वळुतिनङ्ङ	बदनेकायि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
भिंडी	भिण्डी	भिंडी	भिंडी	बिंडी	भींडी	भेंडी	भींडो	भेंडो
मटर	कलाय:	मटर	मटर	मटर	मटर	मटर, वाटाणा	वटाणा	वटाणे, वाटाणे
मूली	मूलकम्	मूली	मूली	मुज	मूरीं	मुळा	मूळो	मुळो
मेथी	मेथिका	मेथी	मेथी	मीथ्य	मेथी	मेथी	मेथी	मेथी
लहसुन	लशुनम्	लसण, थोम	लहसुन	रौहन	थूम, लहसुण	लसूण	लसण	लसूण
लोबिया	लोम्य:	रौंग, रवांह	लोबिया	राजमाह-ह्यमुँ	राहां	चवळी	चोळा	हळसांदो, चवळी
लौकी (घिया)	तुम्बी	घीआ	कद्दू, लौकी (घिया)	अल	कदू, घिओ	दुध्या भोपळा	दूधी	गुरदुदे
शकरकंदी	शर्कराकन्दम्	शकरकंदी	शकरक़ंद	शकरकंद	लाहोरी गजर, शकरकंदी	रताळे	शकरियुं	कणंग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रामतोरियाँ, भिण्डी	ढेंड़स, भिण्डी	भेंडि	भेलंद्री	भेंडी	बेंडकाये	वेण्डैक्काय्	वेण्डक्क	बेण्डेकायि
केराउ, मटर	कड़ाइशुँटि, मटरशुँटि	मटर, कोलाइ	हवाइ थाराक, हवाइ थ्राक	मटर	बटाणीलु	पट्टाणि	पच्चप्पट्टाणि	वटाणि
मूला	मुलो, मुला	मूला	मूली, मूला	मूला	मुल्लंगि	मुळ्ळंगि	मुळ्ळंकि	मूलंगि
मेथी	मेथि (शाकबीज)	मिथि	मेथी	मेथि	मेंतिकूर	वेंदयक्कीरै	उलुवच् चीर	मेंत्यद सोप्पु
लसुन, लशुन	रसुन, रसोन, लशुन	नहरु	चनम्	रशुण	वेल्लुल्लि	उळ्ळिप्पूण्डु	वेळ्ळुळ्ळि, वेळुत्त उळ्ळि	बेळ्ळुळ्ळि
बोडी	बरबटि, बर्बटी	एक प्रकारर उरहि	हवाइ अशाङबी	छुंई, एक प्रकार बड़ फली, झुड़ंग	अलसंदे	कारामणि	अच्चिङ्-ङाप्पयरु	अलसंदे
लौका, लौको	लाउ पानीलाउ	लाओ	खोङ्द्रुम	लाऊ	सोरकाये	सुरैक्काय्	चुरक्क	सोरेकायि
सखरखण्ड	राङ्गालु, मिस्टि आलु, शकरकम्द	मिठा	मंग्रा	कंदमूल	गेनुसुगड्ड, चिलकडदुंपे	सक्करै वळ्ळि	मधुरक्किळङ्ङु	सिहिगेणसु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शिमला मिर्च	पार्वतमरिचम्	शिमला मिरच	शिमला मिर्च	शिमला मिर्च	सिमला मिर्च	सिमला मिरची, ढोबळी मिरची	धोलर मरचुं	फोग्या/फुग्या मिरसांग, ढबू
सरसों	सर्षपः	सरहों	सरसों	तिलगोंगुल	सरहिं	मोहरी, राई	सरसियुं	म्होवरी
सेम	शिम्बी	सेम	सेम	ह्यमुँ	फरी, सेम	घेवडा	वालोळ (पापडी)	घेवडो, आवरो, बीन्स
हरी मिर्च	हरित-मरिचम्	हरी मिरच	हरी मिर्च	सबुँज़ मरचुँवांगुन	साओ मिर्च	हिरवी मिरची	लीलुं मरचुं	हरवीं मिरसांग
फल	**फलानि**	**फल**	**फल**	**म्युवुँ**	**फलु, मेवो**	**फळे**	**फळ**	**फळ**
अंगूर	द्राक्षा	अंगूर	अंगूर	दछ	अंगूरु	द्राक्ष	लीली द्राक्ष	द्राक्षा
अंजीर	अञ्जीरम्	अंजीर	अंजीर	अंजीर	अंजीर	अंजीर	अंजीर	अंजीर
अनन्नास	आपसनम्	अनानास	अननास (अनानास)	अनुँनास	अनास	अननस	अनानस, अनेनास	अनस, अननस
अनार	दाडिमः	अनार	अनार	दॉन	डाढ़ूं	डाळिंब	दाडम	दाळींब

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भन्टे-खुर्सानी, शिमला-मिर्च	सिमला-लङ्का, मरीच (पहाड़ी बड़ो झालहीन लङ्का)	चिमला जलकींया	येन्जाङ मोरोक, शिमला मिर्च	शिमला-मरीच	सीमँ मिरपँ कायँ	सीमै/ कुड मिळकगाय्	उण्टमुळकुँ	दोणगाई सिनकाई
सर्सिउँ, सर्स्यूँ	सरषे (शाक)	सरियह	हङ्गाम येला	सोरिष	आवालु	मंजळ् कडुगु	कटुकुँ	सासिवे
सिमि	शिम	उरही	हवाइ उरि	शिम	सीमँ चिक्कुडु	अवरैक्काय्	अमर	हुरळिकाकु
हरियो खुर्सानी	काँचा लङ्का	कँचा जलकीया	मोरोक अतेक्पा	कंचा लंका मरीच	पच्चि मिरपकायँ	पच्चै मिळगाय्	पच्चमुळकुँ	हसिमेण-सिनकाइ
फल	**फल**	**फल**	**उहै**	**फल**	**पंड्लु**	**पळंगळ्**	**पळङ्ङळ्**	**हण्णु**
अङ्गुर	आङ्गुर	आङुर	अंगुर	अंगुर	द्राक्ष	दिराट्चैपळम्	मुंतिरिङ्ङ	द्राक्षि
अन्जीर	आञ्जीर	डिमरु	हैबोङ पांबी मखल अमा	डिमिरि	अत्तिपंडु	अत्तिप्पळम्	अत्तिप्पळम्	अंजूर
भुइँकटहर, अनारस	आनारस	आनारस	किहोम	सपुरि-पणस	पाइनेपिल्	अन्नाशिप्पळम्	पृत्तिच्चक्क, अन्नारच्चक्क, कय्दच्चक्क	अनानस्
अनार	डालिम, आनार, बेदाना	डालिम, बेदाना	कमफोइ, काफोइ	डालिंब	दानिम्मँ	मादुळंप्पळम्	मातळम्	दाळिंबे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अमरूद	पेरुकम्	अमरूद	अमरूद	अमरूद	जेतूनु	पेरू	जमरुख, जामफल	पॅर
आम	आम्रः	अंब	आम	अंब	अंबु	आंबो	केरी	आंबो
आलू बुखारा	आलूकम्	आलू बुखारा	आलू बुख़ारा	आलू-बुखारॅ	आलू बुख़ारो	आलुबुखार	आलुबुखार	सुकें प्लम
ककड़ी	कर्कटी	तर	ककड़ी	ककुॅर	वंगी, ककड़ी	काकडी	काकड़ी	तवशी, तवशे
केला	कदलीफलम्	केला	केला	केलुॅ	केलो	केळे	केळुं	कॅळे
खजूर	खर्जुरम्	खजूर	खजूर	खॅजूॅर	खजूर	खजूर	खजूर	खाजूर
खरबूजा	खर्बूजम्	खरबूजा	ख़रबूज़ा	खरबुज़	गिदरो, खरबूजो	खरबूज	खडबूच, खडबूचुं	चिबड, चिबूड
खूबानी	क्षुरमाणी	खुरमानी	ख़ूबानी	च़ेर	खूबानी, ज़र्दालू	जरदाळू	जरदाळु	जर्दाळू
गन्ना	इक्षु :	गन्ना	गन्ना	नयशकर	कमंदु	ऊस	शेरडी	कोबु, ऊस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंबा, लताम, बेलौती	पेयारा	मधुरि-आम	पुङ्दोल	पिजुलि	जामि	कोय्याप्पळ्म्	पेरक्क	सीबे
आँप	आम	आम	हैनौ	आंब	मामिडि	मांपळ्म्	माङ्ङ	मावु
आलुचा, आलु-बखुडा	आलुबोखारा	आलु बुखारा	हैखा	आलुबखरा	आलबकारा	आलुसा, पळ्म्	प्लम्	प्लम्
ककडी	काकड़ि, काँकड़ि	दीघल तियँह	अशाङ्बा थबी मखल अमा	काकुडि	दोसकायि	कक्करिक्काय्	कक्करिक्क, वेळ्ळरिक्क	सौतेकायि
केरा	कला	कल	लफोइ	कदली	अरटि	वाळैप्पळ्म्	वाळ्प्पळ्म्	बाळेहण्णु
खजूर	खेजुर	खाजुरि, खेजुर	खजूर, अथुंबा थाङ्तुप मखल अमा	खजुरी	खर्जूरमु	पेरीच्चंपळ्म्	ईंतप्पळ्म्	खर्जूर
खरबुजो	खरमुज, खरबुज	छिराल, खरमुज	खरबूजा	खरबुज	खर्बूजा	मुलाम् पळ्म्/ गिर्नी पळ्म्	वेळ्ळत्तण्णिमत्तन्	कल्लगंडि
खुर्पानी	खुबानि, खोबानि	खेबानी, एबिध फल	अप्रिकोट, चुंबैगुंबा उहै मखल अमा	एक प्रकार आलु	ज़रदारु	अप्रिकोट्	अप्रिकोट्	सक्करे-बादामि
उखु	आक, आख	कुँहियार	चू	आखु	चेरकु	करुंबु	करिंपुं	कब्बु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चकोतरा	मधुकर्कटी	चकोंधरा	चकोतरा	बोंड न्योंम	चकोतरो	पपनस	चकोतरुं	मावळिंग
चीकू	चिकूलम्	चीकू	चीकू	चीकू	चकूं, चीकू	चिकू	चीकु	चिकू
जामुन	जम्बूफलम्	जामणु, जामण	जामुन	जामन	जमूं, जामुन	जांमुळ	जांबु	जांबळ
तरबूज	कालिङगम्	हदवाणा	तरबूज़	ह्यंदुॅ-व्यंद	हिंदाणो, छाहीं	टरबुज	तरबूच, तड़बूच	काळिंगण
नारंगी	नारंगम्	नरंगी	नारंगी	संगतरुॅ	नारंगी	नारिंग	नारंगी	संत्र, लारांज
नारियल	नारिकेलम्	नारियल	नारियल	खूपरुॅ, नारजील	नारेलु	नारळ	नारियेळ (नारियेल), श्रीफल	नाल
नाशपाती	अमृतफलम्	नाशपाती, बग्गूगोशा	नाशपाती	टंग	नासपाती	नासपाती	नासपाती	नासपाती
पपीता	स्थूलैरण्ड:	पपीता	पपीता	पॅपीता	पपयो, पपीतो	पपई	पपैयुं	पपाय
बेर	बदरफलम्	बेर	बेर	ब्रेंयि	बेरु	बोर	बोर	बोर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ज्यामिर, ठूलो निबुवा	बाताबि, बातापि (लेबु)	रबाब-टेङा	नोबाप	एक प्रकार बड लेंबु, बातापि	मादीफलमु	नारत्तै	ओरुतरं वलिय नारङ्ङ	चक्कोत-हण्णु
सपाटो, चिखु	सफेदा, सबेदा	चपेटा, चिकू	चीकू	सपेटा	सपोटा	सप्पोटटा पळम्	सपोट्ट	सपोटा, चिक्कु
जामुनु, जामूनो	जाम	जामु	जाम	जामु कोलि	नेरेडु	नावल् पळम्/ नागप्पळम	ञावल्	नेरळे हण्णु
तरबुजो	तरमुज	तरमुज	तरबूज	तरबुज	पुच्चे कायँ	तरबूज पळम्	तण्णि मत्तन्	कल्लंगडि-हण्णु
सुंतला	कमला लेबु (नेबु)	सुमथिरा, कमला	कोमला अचौबा मखल अमा	नारंगी	कमला पंडु	कमला आरंजु	मधुर नारङ्ङ	कित्तळे हण्णु
नरिवल	नारकेल, नारिकेल, नारकोल	नारिकल	यूबी	नडिआ	कॉब्बरि कायँ	तेङ्गाय्	तेङ्ङ, नाळिकेरम्	तेंगिन-कायि
नास्पाती, नासपाती	नाशपाति	नाचपति	नाशपाती	नाशपाती	बेरी कायँ	बेरिक्काय्	सबर्जलि	मरसेबु
मेवा, पपिता	पैंपे	अमित्ता	अवाथबी	अमृतभंडा	बॉप्पायि	पप्पाळि पळम्	पप्पय्क्क, ओमक्क	परंगि हण्णु, पप्पई हण्णु
बयर	कुल	बगरि	बोरोइ	बरकोलि	रेगि पंडु	इलंदै	लंतप्पळम्	ऐलचि हण्णु, बोरे हण्णु, बारि, हण्णु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बेल	बिल्वफलम्	बेल	बेल	बेल	बेल	बेलफळ	बीलुं	बेलफळ
मौसमी	ऋतुजाता	मुसम्मी	मौसमी	मोसमी	मोसंबी, मौसमी	मोसंबे	मोसंबी	मोसंबी
रसभरी	रसभरी	रसभरी	रसभरी	रसबॅरी	रासबेरी	रासबेरी	रसभरी, रासबरी	रासबेरी, म्होंवाळ लालफळ
लीची	लीची, रसिनी	लीची	लीची	लीचि	लीची	लीची, लांची	लीची	लीची
शरीफा	सीताफलम्	शरीफा	शरीफ़ा	शरीफुॅं	सीताफलु, शरीफ़ो	सिताफळ	सीताफल, सीताफळ	आंतेर, सिताफळ
संतरा	नारंगम्	संतरा	संतरा, संगतरा	संगतरॅ	नारंगी	संत्रे	संतरुं, नारंगी	संत्र
सेब	सेवफलम्	सेउ, सेब	सेब	चूठ	सूफ़ु	सफरचंद	सफरजन	सफरचंद
मेवे	शुष्कफलानि	मेवे	मेवाजात	म्यवॅु	सुका मेवा	सुका मेवा, सुकलेली फळे	सूको मेवो	सुको मेवो
अखरोट	अक्षोटम्	अखरोट	अख़रोट	डून	अखरोट	अक्रोड	अखरोट	अक्रोड
काजू	काजुकम्	काजू	काजू	काजू	खाजा, काजू (जमउ)	काजू	काजू	काजू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बेल	बेल, श्रीफल	बेल	हरि खागोक्	बेल	मारेडु	विल्वप्पळम्	बिल्वम्, कूवळप्पळम्	बिल्वद-हण्णु
मोसम, मोसंबी	मोसंबी, मुसंबी	रबाब-टेङा	हैथुम	मोसंबी, कान्धिआ	चीनापंडु, बत्तायि	शात्तुक्कुडि पळम्	चात्तुक्कुटिपळम्, मूसंम्पि	मूसंबि-हण्णु
रासबेरी, राज्बेरि	टेपारि	रसबरी	रासबेरी	एक प्रकार स्वादु कोलि	रसभरी	रास्बरि पळम्	रास्पर्बेरी	रसबेरी
लिच्ची	लिचु	लिचु, लेचु	लीचू	लिचु	लीची	लीच्चि पळम्	लीचिप्पळम्	लीचि
सलिफा, सरिफा	आता	आतलच	आटाफोल, सरिफा	शीताफल, आत, बढिआल	सीताफलमु	सीताप्पळम्	सीतप्पळम्	सीताफल
सुंतला	बड़ोलेबु, कमलालेबु	सुमथिरा, कमला	कोमला	संतरा, कमला	कमला, पंडु	कमला, आरंजु	आरंज्, मधुरनारङ्ङ	कित्तळे-हण्णु
स्याउ	आपेल	आपेल	सेम	सेउ	आपिल्	आप्पिळ्	आप्पिळ्	सेबु
सुक्खा फल, मेवा	**मेओया, शुकानफल**	**शुकान फल**	**उहै अकङ्बा, ड्राई-फ्रूट्स**	**शुष्क फल**	**ड्राई फ्रूट्स**	**उलर्ंद पळंगळ्**	**उणङ्ङिय पळङ्ङळ्**	**ओणगिद-हण्णुगळु**
ओखुर	आखरोट	आख़रोट	हैजूकाक्	आखरोट	अखरोटु	अकरोट्	अक्रोट्	अखरोटु
काजु	काजु बादाम	काजु, काजु बादाम	काजू	काजू-बादाम	जीडि पप्पु	मुंदिरि परुप्पु	कशुवण्टि, पर्ंकियण्टि	गोडंबि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
किशमिश	शुष्कद्राक्षा	किशमिश	किशमिश	किशमिश	किशमिश	बेदाणा	किसमिस	किसमीस, खिसमीस
छुहारा	छोहारा	छुहारा	छुवारा, छुहारा	खॅजूर	छुहारो	खारीक	खारेक	खारीक
पिस्ता	पिस्तम्	पिसता	पिस्ता	पिस्तुॅ	पिस्तो	पिस्ता	पिस्ता	पिस्तो
बादाम	वातामम्	बदाम	बादाम	बादाम	बादामी, बादाम	बदाम	बदाम	बदाम
मुनक्का	द्राक्षा	मुणक्का, सौगी	मुनक़्क़ा	मुनकुॅ	वड॒ी किशमिश, मुनको, द्राक्ष	मुनुका	काळी मोटी द्राक्ष	व्हडली खिसमीस
मूँगफली	भूशिम्बी	मुंगफली	मूंगफली	मौंगुॅफॅल्य/ जलगोजि	बोहीमुङ	भुईमुगाची शेंग-दाणें	मगफळी	शेंगा, मसमी भिकणां
सुपारी	पूगम्, काष्ठाफलम्	सुपारी	सुपारी, छालिया	सुफॉर्य	सोपारी	सुपारी	सोपारी	सुपारी
फूल	**पुष्पम्**	**फुल्ल**	**फूल**	**पोश**	**गुलु, फूलु**	**फुलें**	**फूल**	**फूल**
कचनार	कोविदारः	कचनार	कचनार	कचनार	कचनार	कंचनाचें फूल, आपटयाचे फूल	कांचनार	आपटो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
किसमिस	किशमिश	किच्मिच्	किशमिश	किसमिस	ऍंडु द्राक्ष किसमिसु	किस्मिस्/ दिराक्षै	किस्मिस्	द्राक्षि
छोहोरा	छोयारा, छोहारा	शुकान खेजूर	खजूर पांबी मखल अमा	पिंड-खजूर	खर्जूरपुकाय	पेरीच्चम् पळम्	ईत्तप्पळम्	उत्तत्ति, खर्जूर
पेस्ता	पेस्ता	पेस्ता	पिस्ता	पेस्ता	पिस्ता	पिस्ता	पिस्त	पिस्ता
कागजी बदाम	बादाम	बादाम	बादाम	बादाम	बादामु	वादाम्	बदाम्	बादामि
मनक्का, दाख	मोनक्का (मनोक्का)	किच्मिच्	किशमिश अचौबा मखल अमा	बड़ किसमिस	पंद्द द्राक्ष	उलर्तिय परिय दिराट्चै/मुंतिरि दिराट्चै	उणक्क मुंतिरिङ्ङ.	दीपद्राक्षि
चिनियाँ-बदाम, बदाम	चीने बादाम, चीना बादाम	चिना बादाम, बादाम	लैबाक	चिनाबादाम, मुगफाली	वेरुशनग	निलक्कडलै	निलक्कटल, कप्पलंडि	शेंगा, कडलेकायि
सुपारी	सुपुरि (सुपारि)	चुपारि, शुकान तामोल	कवा, सुपारी	गुआ, सुपारी	वक्क	पाक्कु	पाक्कुँ, अटक्क	अडके
फूल	फुल	फुल	लै	फुल, पुष्प	पूलु	पुष्पंगळ्, पूक्कळ्	पूक्कळ्	हूवु
कोइरालो	काञ्चन	कचनाफुल	चीङ थ्राओ	कांचन	कोविदारु	कोविदारप्पू	मलयकत्ति	कंचिवाळ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कनेर	कर्णिकार:	कनेर	कनेर	कनेर	कनेर	कण्हेर	करेण	कणेर
कमल	कमलम्	कमल	कंवल, नीलोफ़र	पंपोश	कमलु, कंवलु	कमळ	कमळ	कमळ
केतकी	केतकम्	केतकी	काजी, केतकी, केवड़ा	केतकी	केतकी	केतकी	केतकी	केवडो, केतकी
केवड़ा	केतकम्	केउड़ा	केवड़ा	क्येवड्डॅ	केवड़ो	केवडा	केवडो	कवातो, हातो
गुलाब	पाटलम्	गुलाब	गुलाब	गौंलाब	गुलाबु	गुलाब	गुलाब	गुलाब
गेंदा	गन्धपुष्पम्	गेंदा	गेंदा	जाफुर	गेंडो	झेंडू	हजारीगल	गोंडो, रोंजा
चमेली	मालतीपुष्पम्	चमेली	चंबेली, चंबेली	चंबेली	चंबेली	चमेली	चमेली	चमेली
चंपा	चम्पकम्	चंपा	चंपा	चंपा	चंपा	चाफा	चंपो	चापो, चाफो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
करबिरं, कनेर	कल्केफुल करबी	करबी	कबीरै	कनिअर	गन्नेरु	अरळिप्पू	अरळिप्पूवुँ	कणिगले
कमल	पद्म, कमल	पदुम, कमल	थंबाल	पद्म	कमलमु	तामरैप्पू	तामर	तावरे
केतकी, केतक	केतकी, केया	केतेकी	केतुकी	केतकी	केतकि	ताळंबू	ताळंपू	केदगे
केवडा	केओड़ा, केया	केतेकी	केतुकी-गुंबा मनम नुङशिबा लै अमा	किआ	मोंगिलि	ताळंबू	ताळंपू	ताळे हू
गुलाफ	गोलाप	गोलाप	अदुगुलाब	गोलाप	गुलाबी	रोजाप्पू	रोसाप्पूवुँ	गुलाबि
सयपत्री	ग्याँदा, गाँदा	नाजी, गेंधारी	सनारै	गेंडु	बंति	जवंतिप्पू	कांकणिप्पूवुँ, जमंति	चण्डु हूवु
चमेली	चामेली	चामेली, यूति, मालती	चमेली	चामेली (धला, छोट सुगंध फुल विशेष ओ एहार लता)	मल्लि	मल्लिगैप्पू	पिच्चिप्पूवुँ	जाजि
चंपा, चंपक, चाँपो	चाँपा, चंपा, चंपक	चंपा	लैहाओ	चंपा	संपंगि	संण्बगप्पू	चेंपकम्	संपिगे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
जूही	यूथिकापुष्पम्	जूही	जूही	सॅन्दिजि पोश	चंबेलीअ जी जातीअ जे हिक क़िस्म जो गुलु, जुही	जुई	जूई	जूय
डेहलिया	डाहलियापुष्पम्	डेलिया	डालिया	डहलिया	डेलियो, डेहलिया	डेलिया	डेलियो	डेळिया
पलाश	किंशुकम्	पलाह	ढाक	फलाश	पलाश	पळसाचे फूल	पलाश	पलास, पळस
बेला	मल्लिकापुष्पम्	बेला	बेला	बेलुॅ	बेला, मोतिए जी जातीअ जे हिक क़िस्म जो गुलु, राबेल	मोगरा, मोतियां	बेला	जॉय
मुंगरा (मोंगरा)	अतिगन्धम्	मोंगरा	मोंगरा	मोंगरुॅ	मुगिरो, मोंगरो	मोगरा	मोगरो	मोगरो
मोती (मोतिया)	मुक्तापुष्पम्	मोतीआ	मोतिया	मूतिया	मोत़िओ	मोगरा, मोतिया	मोगरो	बट मोगरो
रात की रानी (रजनीगंधा)	रजनीगन्धम्	रात दी राणी	रात की रानी (रजनीगंधा)	रातुॅच रॉन्य (रजनीगंधा)	रातजी राणी, रजनीगंधा	रातराणी	रातराणी	रातराणी
सूरजमुखी	सूर्यमुखम्	सूरजमुखी	सूरजमुखी	गुलि अफताब	सूरजमुखी	सूर्यफुल, सूर्यमुखी	सूरजमुखी	सूर्यफूल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जुही	जुँइ, युथी, युथिका (जु)	यूति	जातिकुप्पी	जूई	सन्नँ जाजि	मुल्लैप्पू	मुल्ल	सण्ण जाजि
डेलिया	डालिया	डालिया	डालिया	डालिआ	–	डाळियाप्पू	डालिय	डेलिया
पलाँस	पलाश	पलाश	पाङ्गोङ्	पलाश	मोदुगँ	पुरशप्पू	प्लाश्	मुत्तुग
बेली	बेलफुल, बेला, बेलि	बेलि फुल	मालिका	मल्ली (फुल)	बेला	मल्लिगैप्पू	पिच्चि	मल्लिगे
मुगरा, मोंगरा	चाप बेलि	डाङर मालती, फुल	कुंदो	एक प्रकार बढ़िया बड़ मल्ली	मुंगि	गुंडु मल्लि	मुल्ल	मल्लिगे
मोतिया	बेलफुल	एबिध मालती मोगरा	कुंदोगुंबा मनम नुंशिबा लै अमा	एक प्रकार मल्ली	गुंडुमल्लं	गुंडु मल्लि	मुल्ल	दुंडु मल्लिगे
रजनीगंधा	रजनीगंधा	रजनीगंधा	थाबल लै कुंदा लै अङौबा	रजनीगंधा	नाइट क्वीन (रजनी गंधा)	रात्तिरियिन् राणि	रजनीगंधि	रात्रिराणि
सूर्यमुखी, अजम्मुरी	सुर्यमुखी (र्ज)	सूरुजमुखी	नुमित लै	सूर्य्यमुखी	पाँद्दुतिरुगुड्डु पुव्वु	सूर्यकांतिप्पू	सूर्यकाँति	सूर्यकांति

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
धातु	**खनिजानि**	**धाता**	**धातें**	**दात**	**धातू**	**खनिज पदार्थ**	**खनीज, धातु**	**धातु**
इस्पात (स्टील)	वज्रायस्, लौहसार:	सटील	इस्पात (स्टील)	सिटील	रुकु, इस्पात	स्टील	स्टील	स्टील
काँसा	कांस्यम्	कैंह, कांसी	काँसा	लोंय	कंझो, कुटि	कासें	कांसुं	कांशे
चाँदी	रजतम्	चांदी	चाँदी	रोंफ	चांदी	चांदी, रुपे	चांदी, रूपुं	चांदी, रूपें
जस्ता	यशदम्	जिसत	जस्त	जस्तुं	जिस्तु	जस्त	जसत	जसत, जस्त
ताँबा	ताम्रम्	तांबा	ताँबा	त्राम	टामो	तांबे	तांबुं, त्रांबुं	तांबे
पारा	सीसम्	पारा	पारा, सीमाब	पारुद	पारो	पारा, पारद	पारो	पारो
पीतल	पीतलम्	पित्तल	पीतल	सरतल	पितलु	पितळ	पित्तळ	पितूळ
राँगा	कुरुप्यम्	कली	राँग	कलय	कलई	कथील, शिसे	कलाई	शिशें, कथील
लोहा	लौहम्	लोहा	लोहा, आहन	शॅशतुॅर	लोहु	लोखंड	लोढुं	लोखंड
सोना	स्वर्णम्	सोना	सोना	सोंन	सोनु	सोने, सूवर्ण	सोनुं	भांगर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धातु	**धातु**	**धातु**	**धातु**	**धातू**	**धातुवुलु**	**उलोगंगळ्**	**लोहङ्ङळ्**	**खनिज**
इस्पात, स्टील	स्टील, इस्पात	तीखा, इस्पात, स्टील	इस्पात (स्टील)	ष्टील	उक्कु	एंहकु	उरुक्कु	स्टीलु, उक्कु
काँस, काँसो	काँसा	काँह	सेनजेंग	कंसा	कंचु	वेंणकलम्	ओटुॅ	कंचु
चाँदी	रुपो, रुपा	रूप	लूपा	रूपा	वेंडि	वेंळ्ळि	वेंळ्ळि	बेळ्ळि
जस्ता	दस्ता	दस्ता	मीसि	दस्ता	तुत्तुनागमु	तुत्तनागम्	नाकम्	सतुवु
तामा	तांबा, तामा	ताम	कोरी	तंबा	रागि	चेंबु	चेंपुॅ	ताम्र
पारा	पारा	पारा	सनाहिदाक	पारा	पादरसमु	पादरसम्	रसम्	पादरस
पित्तल	पेतल, पितल	पितल	पीथ्राई	पितल	इत्तडि	पित्तळै	पिच्चळ	हित्तळे
राङ, राँग	राङ (रां)	रां, राङ्	तिन	शिसा	तगरमु	ईयम्	वेंळुत्तीयम्	तवर
फलाम, लोहा	लोहा, लौह	लो, लोहा	योत	लुहा, लौह	इनुमु	इरुंबु	इरुंपुॅ	कब्बिण
सुन, स्वर्ण	सोना, स्वर्ण	सोण	सना	सुना	बंगारमु	तंगम्	स्वर्णम्	बंगार, चिन्न

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पोशाक आदि	**परिधानादि**	**पोशाक आदि**	**पोशाक वग़ैरह**	**पलव दलव**	**पोशाक वग़ैरह**	**पोशाक इत्यादी**	**पोशाक वगेरे**	**भेस**
अँगिया	अंगिका	अंगी	अँगिया (चोली)	बबुँगंड, बाडी	चोली, अंगी	चोळी	चोळी, बांय वगरनो स्त्री नो कबजो	चोळी
अंगोछा	प्रोञ्छम्	परना, अंगोछा	अंगोछा	अंगोचि	अंगोछो	पंचा	अंगूछो, पंचियुं	वालो, पंचो
अचकन	आचकनम्	अचकन	अचकन, शेरवानी	अचकन	डिघो कोट, अचकन	उत्तर हिंदुस्तानी अंगरखा	अचकन	ज्युदी
कमीज	वस्त्रभेद, कञ्चुकभेद	कमीज़	क़मीस	कुरतॅन्य	कमीज़, ख़मीस	सदरा, शर्ट	पहेरण, खमीस	खोमीस, शर्ट
कुरता	चोलकः	कुरता	कुरता	कुरतुॅ	कुड़तो, कुरतो	कुडते	कुरतुं	सदरो
कोट	प्रावारकः, कञ्चुकम्	कोट	कोट	कोठ	कोट	कोट	कोट, डगलो	कोट
गुलूबंद	गलपटः, गलबन्धः	गुलूबंद	गुलूबंद	गुलोबंद	गुलूबंद, गलाबंद, मफ़िलर	गळपट्टा	मफलर	मफलर
चोली	चोली, अंगिका	चोली	चोली	बबुँगंड, बुलोज	चोली	चोळी	चोळी, पोलकुं	पोलको
जाँघिया	अंतरीय, कच्छा	जांघीआ	जाँघिया	कछि	जांघियो, कछो	चड्डी	जांघियो	चड्डी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पोसाक आदि	**पोशाकादि, पोशाक**	**पोशाक बेशभूषा आदि**	**फीजेत नचिङवा**	**पोषाक, बेशभूषा, परिच्छद**	**दुस्तुलु मांदलैनवि**	**उडैगळ् मुदलियन**	**वस्त्रङ्ङळ् मुतलायव**	**उडिगे-तोडिगे**
चोली, कन्चोलो	आङ्गीया, काँचुलि	काँचुलि	ब्लॉज गुंबा फुरित अकौबा	अंगा, अंगिया	रविकं	रविक्कै	बोडिस्, रवुक्क	कुप्पस
गम्छा	गामछा	गामोछा	खुदै, गमछा	गामुछा	अंगवस्त्रमु	मेल्वेट्टि	अंगवस्त्रम्	अंगवस्त्र
सेरबानी, अचकन	चापकान	चापकण, ओढ़णि	अचोनबा फुरित	उत्तरीय, उतुरि	जुब्बा	नींड कोट्टु	निलयंकि	निलुंवंगि
कमिच, कमिज	कामिज	कामिज	फुरित	कमिज	चांक्का	सट्टै, चांक्काय्	उदुप्पुं, कुप्पायम्	अंगि, शरटु
कुर्ता	कुर्ता, पाञ्जाबि	कुर्त्ता, पांजाबी चोला	पुम्यात	कुर्ता, पंजाबी	लालची	जिब्बा	जुब्ब	जुब्ब
कोट	कोट	कोट	कोट	कोट	कोटु	कोट्टु	कोट्टुं	कोटु
गलबंदी, मफलर	गलाबंध, माफलार	गलाबांध	मफलर, कंफोती	गलाबंध	मफलरु	मफ्ळर्	मफ्ळर्	मफ्लर्
चोली, कन्चोलो	काँचुलि, बॅडिश	काँचुलि	ब्लॉज गुंब्रा नुपीगी फुरित	चोली, ओढ़णी	रविकं	रविक्कै	चोळि, रवुक्क	रविके
जाँघिया	जाङ्गीया, आन्डरवेयर	जाङिया	अन्डरवेयर	जंघिया	चेड्डी	लंगोडु/ अंडरवेयर्	निक्कर्	चड्डि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
टोपी	शिरस्कम्	टोपी	टोपी	टूप्य	टोपी	टोपी	टोपी	तोपी
तहमत	धौतम्	तहमत	तहबंद, तहमद	तहमद	लूंगी, तहमत	लुंगी	लुंगी	लुंगी
तौलिया	प्रोञ्छम्	तोलीआ	तौलिया	तौलिया, तौली	टुवालु	टॉवेल	टुवाल	तुवालो
दस्ताना	करच्छद:	दसताना	दस्ताना	अथुँपंजि	दस्तानो	हातमोजे	हाथनुं मोजुं	हातमेय
दुपट्टा	द्विपट्टम्	दुपट्टा	दुपट्टा	डुपटॅ	दुपटो	उपरणें (दुपेटा)	खेस, उपरणो	दुपेटो, दुपट्टो
दुशाला	प्रावारकम्, द्विशालम्	दुशाला	दोशाला	दुसुॅ	दुशालो	शाल	दुशालो, किंमती बेवडी शाल	शाल
धोती	धौतम्	धोती	धोती, लूंगी	दूत्य	धोती	धोतर	धोतियुं	धोतर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टोपी, शिरपोस	टुपी	टुपी	तूपी	टोपी	टोपी	तॉप्पि	तॉप्पि	टोपि
लुँगी	लुङ्गि	लंगी	लोंगी, खुदै	कटिरे झुला हेबा कपड़ा बा गामुछा (लुंगी)	लुंगी	मुण्डु	लुंकि	लुंगी
तौलिया, भुवादार रुमाल	तोयाले	गामोछा	फदी, खुदै	तउलिया	टवलु	तुवालै	तूवाल, तोर्तु	टवलु, वस्त्र
पन्जा	दस्ताना	हातमोजा	खुत-मोजा	दस्ताना, करत्राण, हस्ताबरण	चेजोडु, ग्लोव	कै उऱै	कय्युर	कै चील
दुपट्टा, पछ्यौरा	दोपाट्टा, चादर, ओढ़णा	ओढ़णी	इन्नफि	दोपट्टा, दुपट्टा, ओढणी	पै पंचॆ	महळिर् अणियुम् मेल्तुण्डु	मेलमुण्डु॑	दुपट्टा
दोसल्ला	दोशाला, शाल	शाल कापोर	शाल	शाल, ओढ़नी	शालवा	साल्वै	साल्व, षाळ्	शालु
धोती, फरिया	धुति	चुरिया	फैजोम	धोति	पंचॆ	वेट्टि	डबिळ् मुण्डु॑, दोत्ति	पंचॆ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नाड़ा	नीवी	नाला	कमरबंद, नाड़ा	ड्डूर	अग॒ठु नाड़ो	नाडी	नाडुं	नाडी
पगड़ी	उष्णीषम्	पग्ग, पगड़ी	पगड़ी, साफ़ा	साफ़ुॅ, दस्तार	पग॒ड़ी	पगडी	पाघड़ी, पागड़ी	पगडी
पतलून (पैंट)	–	पतलून (पैंट)	पतलून (पैंट)	पतलून, पैंठ	पतलून (पैंट)	पाटलोण, पँट	पाटलून, पेन्ट	कलसाँव, पँट
पायजामा	पादयामः	पजामा	पायजामा (पाजामा)	पॉजामुॅ	सुथण, पतलून, पाजामो	पायजमा	पायजामो, लेंघो	लेंगों, पायजमो
मोजा	पादच्छदः	जुराब	जुर्राब (मोज़ा)	मोज़ुॅ, जोराब	जोराब	पायमोजा	मोजुं	मेय
रूमाल	करपटम्	रुमाल	रूमाल	रूमाल, दॅज	रूमाल	रूमाल	रुमाल	लेंस
लंगोट	कौपीनम्	लंगोट	लंगोट	लंगोटुॅ	लंगोटु, लंगोटी	लंगोट, लंगोटा	लंगोट	लंगोट
लहँगा	चण्डातकम्	लहिंगा	लहँगा	लहंगुॅ	पड़ो, घाघरो, लहंगो	घेरदार परकर	घेरदार घाघरो	घागरो
लुंगी	धौतम्	लुंगी	लुंगी	लूंग्य	लूंगी	लुंगी	लुंगी	लुंगी
शाल	प्रावारकम्	शाल	शाल	शाल	शाल	शाल	शाल	शाल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
इँजार, इजार	दड़ि, फिता (पाजामार)	पायजामा	मरी	सुतार मोटा डोरि (घाघरा पाइजामा बांधिबा पांइ)	नाडा	नाडा	नाट	लाडि
पगरी, फेटा	पागड़ि, पाग	पागुरि	कोयेत	पगड़ी	तलपागा	तलैप्पागै, मुण्डासु	तलप्पावुॅ	पेटा, पटग
पतलुन, पैन्ट	पयान्ट (प्यान्ट)	ठेङ्न, पटलुं	खोंग्राऊ, खोंगाऊ	पतलुन, पाइजामा	पेंटु	काल्सराय्	पैंट्स्, काल्स्राय्	प्यान्टु
पाइजामा	पायजामा	पायजामा	पायजामा	पाइजामा	पाइजामा	पैजामा	पैजाम	पैजामा
मोजा, जुराफ, जुराब	मोजा	मुजा	मोजा	मोजा	मेजोळ्ळु	मेल् जोडु/मेजोडु	कालुर, सोक्स्	कालुचील
रुमाल	रुमाल	रूमाल	रूमाल	रुमाल	चेंतिगुड्डॆ	उरुमाल्	उरुमाल्	करवस्त्र
लँगोटी	लेंगटि, लेंढि, कोपनि	लेंटि	लेंगोटा	लेंगुटी, कोपुनि	लंगोटा	लंगोडु	लंकोट्टि	लंगोटि
लहँगा	घाघरा	मेखेला	लहंगा	घाघरा	परिकिणी	पावाडै	पावाट	लंग
लुँगी	लुङ्गी	लुंगी	लोंगी, लुंगी	लुंगी	लुंगी	लुंगि	लुंकि	लुंगि
शाल	शाल	शालं	शाल, शान	शाल	शालुवॆ	साल्वै	षाळ्	शालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शेरवाना	आचकनम्	शेरवानी	शेरवानी	शेरवॉन्य, अचकन	शेरवानी	बंद गळयाचा कोट, शेरवानी	शेरवाणी	शेरवाणी
सलवार	पादयाम:	सलवार	शलवार	शिलवार	सलवार	एक तरहेचा पेशावरी पायजामा, सलवार	सुरवाल	सलवार
साड़ी	शाटी, शाटिका	साड़ी, साड़्ही	साढ़ी	सॉड्य	साढ़ी, साड़ी	लुगडे, साडी	साडी	साडी
प्रशासनिक शब्द	प्रशासनिक-शब्द	प्रशासनक शबद	इंतेज़ामी अल्फ़ाज़	दफतरी लफुज़	दफ्तरी इंतिज़ाम जा लफ़्ज़	प्रशासनीक शब्द	प्रशासनिक शब्द	प्रशासनीक शब्द
अंतरिम	अन्तरिम	अंतरिम	उबूरी	मंज़कालुक, ओबूरी	दर्मियानी, अंतरिम	अंतरिम काळ	वचगाळानुं	अंतरीम
अग्रेषण-पत्र	अग्रेषण-पत्रम्	भिजवाई पत्तर	ईसाली मुरासला	इरसॉली मरासलु	अगोतरो ख़तु	अग्रेषण पत्र	अगोतरो कागळ, अग्रिम नकल	अग्रेषण-पत्र
अतिक्रमण	अतिक्रमणम्	खिलाफ-वरज़ी/ उलंघणा	मुदाख़लते बेजा, दख़्लअंदाज़ी, तजावुज़	खलल, दखल-अंदॉज़ी	उलंघन	हस्तक्षेप, अतिक्रमण	अतिक्रमण, उल्लंघन	अतीक्रमण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सेरबानी	शेरओयानी (शेरोयानी)	चाप्कन	फुरित अचोन्बा	हातकटा चोला, हातकटा कोट	शेरवाणी	नींड कोट्टु/ षेर्वानी	षेर्वाणि (नींड कोट्टुँ)	शेरवानि
सलवार, सुरुवाल	संलोयार, सालोयार	चेलोवार	सलवार	सालबार	सलवारु	सल्वार्	सल्वार्	सलवार
सारी, सारी	शाड़ि, सारी	शारी	सारी	शाढ़ी	चीर	पुडवै	सारि	सीरे
प्रशासनिक शब्द	**प्रशासनिक शब्द**	**प्रशासनिक शब्द**	**वायेन थौदाबदा शिजिन्नबा वाहै**	**शासकीय शब्दावली**	**परिपालनकु संबंधिंचिन पदालु**	**निर्वाह चार्कळ्**	**भरण पदङ्ङळ्**	**आडळित शब्दगळु**
अँतरिम	मध्यकालीन, अंतबर्ती कालीन	अंतबर्ती-कालीन	मतम खरतगी ओइबा	मध्यबर्तीकालीन	मध्यांतर	इडैक्काल	इटक्काल	तात्कालिक
अग्रेषण पत्र	प्राग्रसर-पत्र	अग्रेषण पत्र	फोर्वाडिङ्-लेटर, माङ्जिन थाबा चिट्ठी	आगामि पत्र, अग्रेषण पत्र	अग्रोत्तरमु	अनुप्पुरै	अग्रेषण पत्रम्	अग्रेषण पत्र
अतिक्रमण	अतिक्रमण (न)	अतिक्रमण	खुत थिङ्-जिनबा, हेन्जिन्बा	अतिक्रमण	अतिक्रमणमु	मीरुदल्	अतिक्रमणम्	उल्लंघने, मीरुवुदु, अतिक्रमण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अतिरिक्त	अतिरिक्त	अतिरिकत	इज़ाफ़ी, इलावा (ज़इद)	अलावु	वाधू, वधीक, सिवाइ	शिवाय, खेरीज, अतिरिक्त	सिवाय	शिवाय
अधिकार	अधिकार:	अधिकार	इख़्तियार, हक़	यखतियार	अधिकारु, हकु, इख़्तियारु	प्रभुत्व, सत्ता, अधिकार	अधिकार (अमल), हक	अधिकार
अधिकारी	अधिकारी	अधिकारी	अफ़सर, हाकिम	हॉकिम (मोखतार)	अधिकारी, अमलदार	सत्ताधारी, अधिकारी	अधिकारी (अमलदार)	अधिकारी
अधि-प्रमाणित	अधिप्रमाणितम्	परमाणीक कीता	मुस्तनद, मुसद्दक़ा	मुसनद	प्रमाणित कयलु	अधिप्रमाणित	प्रमाणित	अधिप्रमाणीत
अधिवक्ता	अधिवक्ता	ऐडवोकेट, वकील	वकील	वॅकील	वकीलु, ऐडवोकेट	प्रवक्ता, स्पोक्समन	ऐडवोकेट, वकील	प्रवक्ता, मुखेल व्याख्यातो
अधिसूचना	अधिसूचना	अधिसूचना	इत्तिला (एलान)	येलान, पारय	पधरनामो, ज़ाहिरात	प्रकटन, विज्ञापना, अधिकृत, सूचना	जाहेरनामुं	अधिसूचोवणी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अतिरिक्त	अतिरिक्त	अतिरिक्त	अहेन्बा	अतिरिक्त	अदनमु	अदिगप्पडियान, उपरियान तुणै, कूडुतल्	अतिरिक्तम् कूटुतल्	अपर, हेच्चिन
अधिकार	अधिकार	अधिकार	हक, अधिकार	अधिकार, हक	अधिकारमु	उरिमै	अवकाराम्	अधिकार
अधिकारी	अधिकारी	अधिकारी	ओफीसर फम्नाइबा	अधिकारी	अधिकारि	अदिकारि, अलुवलर्	ओफीसर्, अधिकारि	अधिकारि
अधिप्रमाणित	प्रमाणीकृत, प्रमाणित	अधिप्रमाणित	अचुंबनि हायना प्रमाण तौबा	अधिप्रमाणित	प्रमाणितमु	चान्ऱळिक्कप्पट्ट	अधिकृतम्	प्रमाणीकरिसिद
अधिवक्ता, एडभोकेट	अधिबक्ता, उकील, ऐडभोकेट, प्रबक्ता	अधिबक्ता	उकिल, ऐडवोकेट	अधिबक्ता, ओकिल	अधिवक्त	वऴक्कुरैञर्, वक्कील्, एडवोकेट्	वक्कील्, अडवोक्क्ट्टॅ, प्लीडर्	अधिवक्ता, वकील
अधिसूचना	अधिसूचना	अधिसूचना	पाओ खङ्हन्बा नोट्टिफि-केशन	अधिसूचना	अधिसूचन	अऱिविक्कै	अऱियिप्पुॅ, नोट्टिफिक्केशन्	अधिसूचने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अधीक्षक	अधीक्षकः	सुपरडैंट	निगरान, मोहतमिम (सुपरिटेंडेंट)	सुपरनडेन्ट	निगरान	अधीक्षक	अधिकारी	अधिक्षक
अध्यक्ष	अध्यक्षः	मुखी/ सभापती/ सपीकर	सद्र, स्पीकर	सिपीकर	सभापती, प्रधान, सदर	निरीक्षक, मुख्य अधिकारी, चेयरमन, स्पीकर, अध्यक्ष	अध्यक्ष (प्रमुख), उपरी, मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष
अध्यादेश	अध्यादेशः	अधियादेश	सदारती फ़रमान (आर्डिनेंस)	आर्डनेस, हुकुमनामुँ	आर्डीनन्स, अधियादेश	वटहुकुम, ऑर्डिनेन्स	वटहुकम	अध्यादेश/ वटहुकूम
अनुक्रमणी	अनुक्रमणिका	अनुक्रमणी/ विषासूची	इशारिया, फ़ेहरिस्त	फीरिस	फ़ेहरिस्त	अनुक्रमणिका, क्रम सूची	अनुक्रम, अनुक्रमणिका,	अनुक्रमणिका, मांडावळ
अनुच्छेद	अनुच्छेदः	अनुछेद	पैरा, दफ़ा	परेग्राफ, हिसुँ, दफा	पैरा, दफ़ो	परिच्छेद, कलम, आर्टिकल,पॅरेग्राफ	परिच्छेद फकरो	अनुच्छेद, परिच्छेद
अनुज्ञापन	अनुज्ञापनम्	इजाज़त-नामा/आगया पत्तर	लाइसेंस, इजाज़त-नामा, परमिट	हुकुमनामुँ, वारंठ	इजाज़तनामो, परवानो	अनुमति पत्र	परवानगी पत्र, रजा चिट्ठी	अनुमती पत्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अधीक्षक	अधीक्षक (क्ख)	अधीक्षक	सुपरिटंडेंट	अधीक्षक, व्यवस्थापक, कार्यालय/ बिभाग प्रमुख, सुपरिटेंडेंट	सूपरेंडेंटु	कण्काणिप्पाळर्	सूप्रण्टॅ	अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट्
अध्यक्ष	अध्यक्ष, सभापति (द्य) (क्ख)	सभापति, अध्यक्ष	चेयरमेन, स्पीकर	अध्यक्ष, सभापति	अध्यक्षुडु	पेरवैत्तलैवर्/ अवैत्तलैवर्	अध्यक्षन्, स्पीक्कर्	अध्यक्ष, सभापति
अध्यादेश	अध्यादेश (ध्दा)	अध्यादेश	आडिनेंस	अध्यादेश	अध्यादेशमु	अवसरचट्टम्	ओर्डिनन्स्	अध्यादेश
अनुक्र-मणिका	अनुक्रमणिका (नि)	सूची, क्रमसूची, अनुक्रमणिका	इन्डेक्स	अनुक्रमणीका, सूची	अनुक्रमणिकं	अट्टवणै	अनुक्रमणिक, इन्डक्स	सूची
अनुच्छेद, परिच्छेद	अनुच्छेद, परिच्छेद	अनुच्छेद, परिच्छेद	पेरेग्राफ	अनुच्छेद, कलम, आर्टिकल	अनुच्छेदमु	पिरिवु, पत्ति	खकुप्पुॅ	अनुच्छेद लेखन, प्रकरण कट्टळे
इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स	अनुज्ञापत्र, अनुमति पत्र, लाइसेंस	अनुमति पत्र, अनुज्ञापत्र	लाइसेंस परमिट	अनुज्ञापत्र, अनुमति-पत्र	अनुज्ञापत्रमु	अनुमति	अनुज्ञापत्रम्, सम्मत पत्रम्, पॅरमिट्टु	अनुमति पत्र, पर्मिट्टु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अनुदान	अनुदानम्	अनुदान	माली इमदाद (ग्रांट)	मॉली इमदाद, ग्रांट	सहाइता, माली मदद, ग्रांटि	ग्रँट, आर्थिक मदत, सरकारी मदत, अनुदान	अनुदान	अनुदान
अनुपालन	अनुपालनम्	पालणा	बजाआवरी, तामील	तॉमील	तामील, पोइवारी	पालन	अनुपालन	अनुपालन
अनुबंध	अनुबन्धः	अनुबंध/ मुचलका	इक़रारनामा, मुआहदा, क़रार	मुहार्दु, समजोतुं, यकरारनामुं	क़रार, अहद, कांट्रैक्ट	करार, करारनामा, बंधन	करार, करारनामु	अनुबंध
अनुभाग	अनुभागः	अनुभाग, धारा	सीग़ा	स्यकशन, खातुं	खातो, विभागु	अनुभाग	शाखा	अनुभाग
अनुमति	अनुमतिः	अनुमती, इजाज़त	मंजूरी, इजाज़त	मंजूरी	इजाज़त, मंजूरी	संमती, स्वीकृती, मान्यता, अनुमती	परवानगी, हुकम, आज्ञा, रजा, बहाली, संमति, मंजूरी	अनुमती
अनुमोदन	अनुमोदनम्	परवानगी	तौसीक़, मंजूरी, ताईद	तॉयीद	ताईद, टेको	पाठिंबा, समर्थन, अनुमोदन	समर्थन (टेको), संमति	अनुमोदन
अनुलग्नक	संलग्नकम्	नाल-लगदा/ नत्थी कागज़, वलगण	मुनसलिका (शामिल)	शॉमिल-काकज़	गडु शामिल, जोड़ियलु	अनुलग्नक	साथे लागेलुं, जोडेलुं, बीडेलुं	अनुलग्नक
अनुशासन	अनुशासनम्	अनुशासन	नज़्म, इंतिज़ाम	रबतु-ज़बुंत, अनुशासन	इंतिज़ाम	शिस्त, अनुशासन	शिस्त	शिस्त, अनुशासन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अनुदान	अनुदान, मञ्जुरी, ग्रांट	अनुदान	शेंथङ् ग्रांट	अनुदान, सहायता, मंजुरि	अनुदानमु, ग्रांटु	मानियम्	अनुदानम्, ग्रांट्	अनुदान
अनुपालन	आज्ञापालन (ग्गाँ)	अनुपालन, पालन	हायबा इनबा हायजबा याबा	अनुपालन	पालिंचु	कडैप्-पिडित्तल्	अनुसरणम्	अनुपालने
अनुबंध	अनुबंध	अनुबंध, चुक्ति	करार, कांट्रेक्ट	अनुबंध	अनुबंधमु	इणैप्पु	अनुबंधम्, करार्	षरत्तु, अनुबंध
अनुभाग	अनुभाग	अनुविभाग	सेकसन	अनुभाग	अनुभागमु	पिरिवु	अनुभागम्, सेक्षन्	अनुभाग
अनुमति, हुकुम	अनुमति	अनुमति, स्वीकृति दे ग्रहन कर	याथङ्	अनुमति, आदेश	अनुमति	अनुमदि	अनुमति, अनुज्ञ	अनुमति, अप्पर्ण
अनुमोदन	अनुमोदन, मन्जुरी	अनुमोदन, मंजुर	सौगत्पा	अनुमोदन, मंजुर	आमोदमु	अंगीकारम्	अंगीकरणम्	अनुमोद्ने, ओप्पिगे
संलग्नक	संश्लिष्ट	संलग्नक, संलग्न	हापचिन्लकपा	जोडिबा, मिशिबा	जतपरचिनॆ	इणैप्पु	उळ्ळटक्कम्	सेरिकेगळु
अनुशासन	अनुशासन	अनुशासन	नियम ङाकपा	अनुशासन, निति	क्रमशिक्षण	ऑळुंगु	अच्चटक्कम्	शिस्तु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अनुस्मारक	अनुस्मारक:	याद-पत्तर	याददाश्त (याद दिहानी)	यादॉशती-चिठ्य	याद लाइ चिठी, रिमांइडर	स्मरण पत्र, रिमांइडर	अनुस्मारक	स्मरण पत्र
अनौपचारिक	अनौपचारिक, अनौपचारिकी	ग़ैर-रसमी	ग़ैर रसमी	गॉर रसमी	ग़ैरदस्तूरी	अकृत्रिम, सर्व साधारण, अनौपचारिक	अनौपचारिक	अनौपचारीक
अपील	निवेदनम्	अपील	अपील (मुराफ़आ)	ॲपील	निवेदन, अपील	विचारार्थ निवेदन, आवाह्न, अपील	अपील, आग्रहभरी विनंती, अनुरोध	अपील
अभिरक्षा	अभिरक्षणम्	संभाल, हिरासत	तह्वील, सुपुर्दगी	ह्यफाज़थ, सुपरदुंगी	संभाल, सुपुर्दगी, हिरासत	राखण, ताबा, कस्टडी	संरक्षण	अभिरक्षा
अभिलेख	अभिलेख:	रिकारड, अभिलेख	रिकार्ड, काग़ज़ात, दस्तावेज़	रिकार्ड	रिकार्ड, काग़ज़ात, दस्तावेज़	नोंद, रेकॉर्ड	रेकर्ड, पत्रक, दस्तावेज, नोंधणीपत्रक	अभिलेख
अभ्यावेदन	अभ्यावेदनम्	प्रतिबेनती/ प्रतिनिधिता	अर्ज़दाश्त, गुज़ारिश (दरख़ास्त)	गुज़ॉरिश	अर्ज़ी, गुज़ारिश, दरख़्वास्त	विनंतिपत्र	विनंतिपत्र	विनंती पत्र
अराजपत्रित	अराजपत्रित	अगज़टी, अराजपतरित	नान-गज़ेटेड	नानगज़िटिड	नानगज़ेटेड, ग़ैर-ग़ज़टी	नॉन गॅझेटेड, अराजपत्रित	अराजपत्रित	अराजपत्रीत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अनुस्मारक, ताकितापत्र	स्मारक (सों), रिमाइडंर	अनुस्मारक, स्मारकपत्र	रिमाइंडर, निङ्शिङ- हन्बा चिट्ठी	स्मारक- पत्र	ज्ञापकपत्रमु	निनैवूट्टल् कडिदम्	स्मरण पत्रम्, रिमैंडर्	स्मरण पत्र
अनौपचारिक	अनानुष्ठानिक, अनुपचारिक	अनानुष्ठानिक	इनर्फोमल नियम याओदना तौबा	अनौपचारिक, साधारण	लांछनप्रायमु कानि	मुरैसारा	अनौपचारिकम्	अनौपचारिक
अपिल	आपिल, पुनराबेदन	आपील	अपील	अपील, प्रार्थना	अपीलु	अप्पील्/ मेल्मुरैयीडु	अप्पील्	मनवि
अभिरक्षा, संरक्षण	अभिरक्षा, सुरक्षा (क्ख) (क्खा)	अभिरक्षा	ङाकशेन्बा	जिमा, तत्वाबधान, सुरक्षा	रक्षण	पारुप्पिल् वैत्तल्	सूक्षिप्पुं, कस्टडि	अभिरक्षे
अभिलेख	अनुलेख, अनुशासन	अभिलेख	रेकोर्ड	अभिलेख, अनुशासन	रिकार्डु	आवणम्	रिकार्ड्	अभिलेख
अभ्यावेदन	अभ्याबेदन (ब्भा), दर्खास्त	अभ्याबेदन, दर्खास्त	हायजबा	बिबरण, प्रतिभूति, प्रतिरूप, दरखास्त	आवेदनपत्रमु	मुरैयीडु	निवेदनम्	निवेदने
अराजपत्रित	तत-गेजेठेड	अराजपत्रित	नन गेजेटेड	बेसरकारि कागजपत्र	नान्गार्जटेड्डु	अरसिद्ळ् पॅयर्, पदिवुर्पॅराद	नाण् गजटट्ड्	गळिके- रजे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अर्जित छुट्टी	अर्जितावकाश:	कमाई-छुट्टी	रुख़्सते-इसतिहक़ाक़ी	कमॉवमुंच़ छुटी	हकी मोकल	हक्काची रजा	हकनी रजा	अर्जीत रजा
अर्धसरकारी	अर्द्धशासकीय	अध-सरकारी	नीम सरकारी	नीम सरकॉर्य	नीम-सरकारी, अध-सरकारी	अर्ध सरकारी	अर्ध सरकारी	अर्ध सरकारी
अवकाश	अवकाश:	छुट्टी, अवकाश	छुट्टी, फुरसत, रुख़्सत	छुटी, तॉतील	मोकल	वेळ, फुरसत	रजा, फुरसत	अवकाश
अवज्ञा	अवज्ञा	दुराचार	नाफ़रमानी, हुक्मउदूली	होंकुम-ओदूली	नाफ़रमानी, हुकुमु उदूली	आज्ञोल्लंघन, अवज्ञा	अवज्ञा, उलंघन	अवज्ञा
अवयस्क	अवयस्क:	नाबालग	नाबालिग़	नाबॉलेंग	नाबालिग़	वयांत न आलेला, अवयस्क	सगीर	अवयस्क
अवर सचिव	अवर-सचिव:	अधीन सकत्तर	अंडर सेक्रेट्री	अंडर सेंकट्री	अंडर सेक्रेटरी	दुय्यम सचिव	उपमंत्री	सेक्रेतार, अंडर सेक्रेटरी
अवहेलना	अवहेलना, अनादर:	लापरवाही	हुक्मउदूली, नाफ़रमानी	लापरवॉही	नज़रअंदाज़ी, अनादर	उपेक्षा, अवहेलना	अवहेलना, अनादर, अवगणना	उपेक्षा
आकस्मिक छुट्टी	आकस्मिका-वकाश:	अचणचेती छुट्टी	रुख़्सते-इत्तेफ़ाक़ी	यितिफॉकी छुट्टी	आकस्मिक मोकल, इतफ़ाक़ी मोकल	नैमित्तिक रजा	प्रासंगिक रजा, परचुरण रजा	आकस्मिक रजा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अर्जित बिदा	अर्जित छुटि, आर्नलिम	अर्जित छुटी	आर्न्ड-लीव	अर्जित छुटि	अर्न्ड लीवु	ईट्टिय विडुप्पु	अर्जितावधि	गळिसिद रजे
अर्धसरकारी	आधा सरकारी	अर्ध चरकारी	सेमी-गोवर्मेन्ट	अर्ध सरकारी	अर्ध सरकारी	नेर्मुहकडिदम्/ अरै अलुवल् मर्यान	अर्ध-औद्योगिकम्	अर्धसर्कारि
बिदा, अवकाश	अबकाश, छुटी	छुटी, अबकाश	छुट्टी	अबकाश, छुटी	सेलवु	विडुमुरै, विडुप्पु	ऑळिवॅ, लीवॅ	बिडुवु, अवकाश
अवज्ञा, अटेर्याइँ	अबज्ञा (ग्गाँ)	उल्लंघन	हायबा इंदबा	अवज्ञा, अमान्य	उल्लंघनँ	कील्-प्पडियामै	अवज्ञ	निर्लक्ष्य
अवयस्क, नाबालिग	नाबालक (लो)	अबयस्क, नाबालक	मपुङ फाना चाओद्रिबा	अबयस्क, नाबालक	मैनरु	उरिय वयदडैयादवर्	मैनर्	अल्पवयस्क
अवरसचिव	अबर सचिब	निम्न सचिब	अंडर सेक्रेटरी	तलिया सचिब, अनुकर्म सचिब	अंडर सेक्रटरी	सार्-सॅयलाळर्	अण्डर् सॅक्रटरि	अवर-सचिव
अवहेलना, अवहेला, हेपाइ	अबहेला	अवहेलना, अबहेला	यओइदबा	अबहेला	निर्लक्ष्यमु	अलट्चियम्	अवहेळनम्	अवहेळने, उपेक्षे
आकस्मिक बिदा	क्याजुयाल लीभ, आकस्मिक छुटि (स्सिँ)	आकस्मिक छुटी	केजुवल लीभ	आकस्मिक छुटि	काजुवल सेलवु	चिरु विडुप्पु	आकस्मिक अवधि	आकस्मिक रजे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
आदेश	आज्ञा	आदेश, हुकम	हुक्म (फ़रमान)	हौकुम	हुकुमु	आदेश	आज्ञा, हुकम	आदेश
आद्यक्षर	आद्यक्षर	छोटे दसखत	मुख्तसर दस्तख़त (इनिशियल्ज़)	मौख्सर दसख़ात	नंढी सही	अद्याक्षर, इनीशल्स	टूंकी सही	आद्याक्षर
आबंटन	वितरण	वंड	तअय्युन (तक्सीम)	नावुॅकरुन, करुन	विरहास्त	वाटणी, वितरण	वितरण, वहेंचणी	वितरण
आयुक्त	आयुक्त	कमिशनर	कमिश्नर	कॅमिशनर	कमिश्नर	आयुक्त, कमिशनर	कमिशनर	आयुक्त, कमिश्नर
आयोग	आयोग	कमिशन	कमीशन	कॅमिशन	कमीशन	नियुक्त मंडल, कमिशन, आयोग	पंच, आयोग	आयोग
आरोग्य प्रमाण-पत्र	आरोग्य प्रमाणपत्र	दरुस्ती, पत्तर	फिजिकल फिटनेस	सेहतयोबी सॉरटीफिकेट	सेहत सर्टीफिकेट	आरोग्य प्रमाण-पत्र, वैधकीय प्रमाण पत्र	तंदुरस्तीनो दाखलो	आरोग्य प्रमाण पत्र
आवती	आवती पत्रक	रसीद	रसीद	आर्मुॅच़ चिट्य	रसीद	आवती	रसीद	पावती, पोंच
आवास	आवास	आवास, रिहायश, टिकाणा	रिहाइश (मकान)	रोजन जाय	रिहाइश, निवास	निवास	रहेठाण	निवास

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आदेश, आज्ञा, हुकुम	आदेश	आदेश	याथङ्, ऑर्डर	आदेश	उत्तरुवु	आणै	कल्पन, ओर्डर्	आदेश, आज्ञे
आद्यक्षर	आद्यक्षर (द्‌द) (क्ख)	आद्यक्षर	अशान्बा सोइ, इनीशल्स	आद्यख्यर	पोडिअक्षरालु	तलैप्पेळुत्तु/ चुरुत्कोप्पम्	आद्यक्षरम्, ओप्पटयाळम्	आद्यक्षर, चिक्क-सहि, रुजु
वितरण, बाँडचुँड	आबंटन	आबंटन, वितरण	शरुक तंबा, आलोटमेन	आबंटन, वितरण	पंपिणी	ओदुक्कल, ओदुक्कीडु	नीक्किवेक्कल्, विहितम्	हंचुविके
आयुक्त	आयुक्त	आयुक्त	कमिशनर	आयुक्त, कमिशनर	कमीशनरु	आणैयाळर् आणैयर	कम्मीषणर	आयुक्त, कमिशनर्
आयोग	आयोग	आयोग	कमिशन	आयोग, कमिशन, मंडल	कमीशनु	आणैक्कुळु आणैयम्	कम्मीषन्	आयोग
आरोग्य प्रमाणपत्र	आरोग्य प्रमाण-पत्र (ग्गा) (न)	आरोग्य प्रमाण-पत्र	नादे हायबगी सार्टिफीकेट	आरोग्य प्रमाण पत्र	आरोग्य प्रमाणपत्रमु	उडल्नल चान्दिदळ्	फिट्नस् सर्टिफिक्क<u>टट</u>	आरोग्य प्रमाणपत्र
रसिद, भर्पाइ	रसीद	रसीद	फङ्ले हायना खङ्हन्बा	रसीद	रसीदु	बरुगैळ् कडिदम्	वरवुॅ	रसीदि
आवास	आवास	आबास, निबास	लैफम	आबास, बासगृह	निवासमु	इरुप्पिडम्, वीडु	आवासम्	वसात

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
आवेदक	आवेदक	दरखासतकार/ बिनैकार	अर्जी गुजार (मुद्दअी)	सॉयिल, अरज़ीनियाज़	अर्जदार	अर्जदार, निवेदक	अरजदार, निवेदन करनार	अर्जादार
आवेदन-पत्र	आवेदन पत्र	दरखासत/ बिनेपत्तर, अरज़ी	अर्ज़ी (दरख़ास्त)	अरज़ी	अरीज़ी, दरख़्वास्त	अर्ज, विनतिपत्र	अरजी	अर्जी
आशुलिपि	आशुलिपि	संकेत लिपि	शार्टहेंड, मुख्तसरनवीसी	शार्टहैंड	शार्टहैंड	लघुलिपी	लघुलिपि	लघुलिपी स्टेनो
आशुलिपिक	आशुलिपिक	सटैनो टाइपिस्ट	मुख़्तसरनवीस, स्टेनोग्राफर	शार्टहैंड जाननेवोल	स्टेनोग्राफर	लघुलिपिक	स्टेनोग्राफर	लघुलिपिक
उत्पादन शुल्क	उत्पादन शुल्क	उत्पादन कर	आबकारी महसूल	मो'हसूल	उत्पादन टैक्सु, आबकारी, महसूल	अंतर्गत मालावरील जकात, ड्यूटी, उत्पादन शुल्क	अबकारी जकात	उत्पादन शुल्क
उपदान	उपदान	धन्नदान, गरैचूटी	अतिया (इमदाद)	ग्रेचुटी	ग्रैचुटी, उपदान	ग्रॅच्युइटी	उपदान	ग्रैच्युटी, दुडवांचो आधार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आवेदक	आवेदक	आबेदक, आबेदनकारी	दरखास थारिबा मी	आबेदक, आबेदनकारी	अभ्यर्थि	विण्णप्पदारर्	अपेक्षकन्, आवेदकन्	अर्जिदार
बिंतीपत्र, निवेदनपत्र	आवेदन-पत्र	आबेदन-पत्र	दरखास	आबेदन पत्र	प्रार्थना-पत्रमु	विण्णप्पम्	अपेक्षापत्रम्	अर्जि
आशुलिपि	शर्ट हयांड, लघु लिपि	आशुलिपि	शार्ट हैंड	आशुलिपि, लघुलिपि	शीघ्र लेखनमु	सुरुक्केळुत्तु	चुरुक्केलुत्तुँ	स्टेनोग्राफि
आशुलिपिक	स्टेनोग्राफर, लघुलिपिक	आशुलिपिक	स्टेनोग्राफर	आशुलिपिक, सम्यक् लेखा	शीघ्र लेखकुडु	सुरुक्केळुत्तर	स्टनोग्राफर	स्टेनो
उत्पादन शुल्क	उत्पादन शुल्क	उत्पादन शुल्क	एकसाइज डयूटी, पोत्थोक्की खाजना	उत्पादनशुळ्क एकसाइन शुल्क	उत्पादन शुल्कमु	आयत्तीरवै	एक्सैस, उत्पादन निकुति	उत्पादन शुल्क, उत्पादन तेरिगे
उपदान	आनुतोषिक	उपदान	लन्नाइ लल्लोनबदा नत्रगा इंदस्त्रिदा सरकारना पीबा शेलगी मतेङ् सबसिडि	उपदान	ग्राचुटी	पणिम्प्पुत्तोगै	ग्राटुविट्ट, उपदानम्	उपदान, ग्रेचुटि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उपनिदेशक	उपनिदेशक:, उपनिदेशिका	डिपटी-डाइरेक्टर, नाइब निरदेशक	डिप्टी डाइरेक्टर (नाइब नाज़िम)	नॉयिब नॉज़िम	उपनिदेशक, डिप्टी डाइरेक्टर	उपनिदेशक, उपसंचालक	नायब निर्देशक	उपनिदेशक
उपनियम	उपनियम	उपनियम	ज़ैली क़ानून (बाईला)	सब रूल	नंढो क़ाइदो, उपनेम	पोट नियम, उपनियम	उपनियम, पेटा नियम	उपनियम
उपमंत्री	उपमन्त्री	उपमंतरी	नाइब वज़ीर	नॉयिब-वज़ीर	उपमंत्री, नाइब वज़ीर	उप मंत्री	नायब मंत्री	उपमंत्री
उप-राज्यपाल	उपराज्यपाल:	उपराजपाल	लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर	लेफटिनेंट गवर्नर	उपराज्यपाल	उप राज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल
उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति:	उपराशटरपती	नाइब सद्रे मम्लकत	नॉयिबि-सदर उपराशटर-पति	उप राष्ट्रपती	उप राष्ट्रपती	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपती
उपर्युक्त	उपर्युक्त:	उपरोकत	मज़कूरा बाला	हेंरिकनि दरुंज	मथे चयलु	बरीलप्रमाणे, उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त, वयर
उपसचिव	उपसचिव:	उपसकत्तर	डिप्टी सेक्रेट्री (नायब मोतमद)	डिप्टी-सेकंट्र, नॉयिब-सकतर	डिप्टी सेक्रेटरी	उप सचिव	नायब सचिव	उपसचीव
उपसमिति	उपसमिति:	उप कमेटी, उप समती	सब-कमेटी (ज़ैली कमेटी)	सब कॅमीटी	उप समिती, नंढी कामेटी	उप समिती	उपसमिति, पेटा समिति	उपसमिती

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपनिदेशक, उपनिर्देशक	उपअधिकर्ता	उपसंचालक	डिपुटी डाइरेक्टर	उपनिर्देशक	डिप्टी डैरेक्टरु	तुणै इयक्कुनर्	डेप्यूटि डयरक्ट्र्	उपनिर्देशक
उपनियम	उपनियम	उपनियम	आइन, मतम खरा अमदि मफम खरदा शेम्बा नियम	उपनियम	उपनियममु	तुणै विदि	उपनियमम्	उपनियम
उपमन्त्री	उपमंत्री	उपमंत्री	उपमंत्री	उपमंत्री	उपमंत्रि	तुणै अमैच्चर्	उपमंत्रि	उपमंत्रि
उपराज्यपाल	उपराज्यपाल (ज्ज)	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	उपराज्यपाल	लेफ्टनेंट गवर्नरु	तुणै आळुनर्	लेफ्टिनेन्ट गवर्णर्	उपराज्यपाल
उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	उपजनादिपदि/ कुडियरसुत् तलैवर्	उपराष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
उपर्युक्त	उपर्युक्त (जु)	उपर्युक्त	मथक्ता पनखिबा	उपजुक्त	पइनँ चेप्पिनँ	मेर्कुरित्त	मेल्प्परञ्ञ	मेले नमूदिसिद
उपसचिव	उपसचिब	उपसचिब	डिपुटी सेक्रेटरी	उपसचिव	सहाये कार्यदर्शि	तुणै सॆयलाळर	डेप्यूटि सेक्रट्टरि	उपसचिव उपकार्यदर्शि
उपसमिति	उपसमिति	उपसमिति	सब कमिटी	उपसमिति	उपसमिति	तुणैक्कुळु	उपसमिति	उपसमिति

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उपस्थिति	उपस्थितिः	हाजरी	हाज़िरी (मौजूदगी)	हॉज़िरी	हाज़िरी	हजेरी, उपस्थिती	हाजरी	उपस्थिती– हजेरी
उल्लंघन	उल्लङ्घन्	उलंघणा	ख़िलाफ़वर्ज़ी	नमानुन, खलाफवरज़ी	उलंघन	उल्लंघन	उल्लंघन, अनादर	उल्लंघन, कायदो मोडचो
एकक	एकांशः, एककम्	इकाई, यूनिट	इकाई (यूनिट)	यूनिट	यूनिट, इकाई	घटक, युनिट	एकमात्र	युनिट
एकपक्षीय	एकपक्षीय	इकतरफा, इकपक्खी	यकतरफ़ा	यक तरफुं	हिक तरफ़ो	एक पक्षीय़	एक तरफी, एक बाजुनुं	एकपक्षीय
औचित्य	औचित्यम्	उचितता	माक़ूलियत (जवाज़)	पज़र, हॅकीकत	मुनासिबत, उचितता	योग्यपणा, औचित्य	औचित्य; उचित, योग्यता	औचित्य, उचीत
औपचारिक	औपचारिक, औपचारिकी	रसमी	रस्मी (बाज़ाब्ता)	रसमी	दस्तूरी	औपचारिक	औपचारिक, केवळ उपचार	औपचारिक
कटौती	परिहारः	कटौती	मिनहाई, मुजराई (दस्तूरी)	कॅमी	काट, लाथि, छूट	कपात	अंदाजपत्रमां मुकातो काप, दलाली, लागो	कपात

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपस्थिति, हाजिरी	उपस्थिति	उपस्थिति	स्कूल, ऑफिस नचिङ्बदा काबा	उपस्थिति	हाजरु	वरुकै/ मुन्निलै	हाजर्	उपस्थिति, हाजरि
उल्लुङ्घन	उल्लंघन	उल्लंघन	थओइदबा	उल्लंघन	उल्लंघनमु	मीरुदल्	उल्लंघनम्	उल्लघंनं
एकाइ, एकांश, एकांक	एकक, युनिट	एकक	युनिट	एकक	यूनिट्टु	अलगु, पगुदि	यूणिट्ट	घटक, यूनिट्
एकपक्षीय	एक पक्षीय (क्खी)	एक पक्षीय	नाकल अमत्तगी ओइबा	एक पक्षीय	एकपक्षीयमु	ओरुतलैप्पट्ट/ ओरुतरप्पान	एकपक्षीयम्	एकपक्षीय
औचित्य	औचित्य (त्त)	औचित्य	मओङ् चाबा, मता चाबा	उचित	औचित्यमु	पोरुत्तम्	औचित्यम्	औचित्य
औपचारिक	औपचारिक, आनुष्ठानिक	आनुष्ठानिक	नियम गी ओइबा	औपचारिक, आनुष्ठानिक	लांछनं प्रायमु	मुरैयान/ मुरैसार्न्द	औपचारिकम्	औपचारिक
कटौती	बाद, छाड़	ह्रासकरण बाद	कक्थबा	कौणसि रकम देवा समये तहिँ किछि धर्मार्थ काटि रखिबा, बाद देबा, छाड़	तग्गिंपु	कळिवु/ तळ्ळुपडि	किळिवुँ	कडित

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कदाचार	कदाचारः, दुराचारः	दुराचार	बदकिर्दारी (बदउन्वानी)	बदचलनी	दुराचारु, बदचलनी	दुराचरण	गेरवर्तणूक	गैर वेव्हार
कनिष्ठ	कनिष्ठ	जूनीयर	जूनिअर अदना	कूंस, जूनियर	नंढो, जूनियर	कनिष्ठ	जुनियर, हाथ नीचेनो	कनिश्ठ
करार	संवित्	करार	क़रार	यकरार, मानुन	क़रार	वायदा, करार	करार	करार
कर्मचारी	कर्मकरः	करमचारी	कारकुन (मुलाज़िम)	मुलॉज़िम	कर्मचारी, कमु कंदडु	सेवक, कर्मचारी	कर्मचारी	कर्मचारी, नोकर
कार्यकाल	कार्यकालः	कारजकाल	मुद्दतेकार (टर्म)	कामिवख	कम जो मुदो, नौकरीअ जो अर्सो	कामची मुदत, कार्यकाळ	कार्यकाळ (समय)	कार्यकाळ
कार्यदिवस	कार्यदिवसः	कारजी-दिन	यौमे/ऐयामे कार	कामि-दोह	कम जो ड्रींहुं	कार्याचा दिवस	कामकाजनो दिवस, चालु दिवस	कार्यदीस
कार्य-समिति	कार्यसमितिः	कारज-कमेटी	मजलिसे-आमिला	मजलिस-आमिला, वर्किंग-कमीटी	कार्य-समिती	कार्य-समिती	व्यवस्थापक समिति	कार्यसमिती

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुराचार, कदाचार	कदाचार निंदनीय-आचरण	कदाचार	फजदबा लिचत्	कदाचार, दुर्व्यबहार, खराप ब्यबहार	दुर्व्यवहारमु	तीय नडत्तै	अपचारम्, दुर्नटत्त	दुर्वर्तने
कनिष्ठ	कनिष्ठ	कनिष्ट	इतोन तोनबा	कनिष्ठ, छोट, सान	कनिष्ठ	इळनिलै	जूनियर्	किरिय, कनिष्ठ
करार	करार, चुक्ति, सम्मति	कथादिया-चर्त चुक्ति	यानचे	चुक्ति	निर्णयमु	करार्/ कण्डिप्पु	करार्	करारु, शरत्तु
कर्मचारी	कर्मचारी	कर्मचारी	थबक तौबा मी	कर्मचारी	उद्योगि	अलुवलर्	जोलिक्कार्	कर्मचारी, नौकर
कार्यकाल	कार्यकाल (र्ज)	कार्यकाल	थबक तौबगी मतम	कार्ज्यकाल	कार्यावधि	पदिविक्कालम्	जोलिक्कालम्	सेवावधि
कार्यदिवस	कार्य दिवस (र्ज), कर्म्म-दिवस	कामर दिन	थबक शुबा नुमित्	कार्ज्य-दिबस	पनिचेयु दिनमु	वेलैनाळ्	प्रवृति-दिवसम्	केलसद-दिन, कार्यदिन
कार्यसमिति	कर्मसमिति	कार्यकरी-समिति, कार्य-पालिका	थबक पाइनबा खन्बा काङ्न, एक्सिक्युतिप मेंबर	कार्ज्य-समिति	कार्य-समिति	चेयरकुळू	प्रवर्तक समिति	कार्य समिति

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कार्य-सूची	कार्यसूची	कारजसूची	ऐजन्डा	कमिहुंद-फिहरिस	कार्य-सूची	कार्यसूचि	कार्य-सूचि, कार्यानुक्रम, एजन्डा, कार्यावलि	कार्यसुची
कार्यालय	कार्यालय:	दफ़तर	दफ़्तर	दफ़तर	आफ़ीस	कचेरी, ऑफिस, कार्यालय	कार्यालय, कचेरी, दफ्तर, ओफिस	कार्यालय ऑफिस
कार्यालय आदेश	कार्यालयादेश:	दफ़तरी हुकम	दफ़्तरी हुक्म	दफतरी होंकुम	आफ़ीस आर्डर	कचेरीची आज्ञा, कचेरीची नोटीस, कार्यालय आदेश	ओफिस हुकम	कार्यालय आज्ञा
कार्यालय ज्ञापन	कार्यालयज्ञापनम्	दफ़तरी मीमो/ दफ़तरी यादपत्तर	दफ़्तरी याददाश्त	दफ़तॅरी मेमोरंडम	दफ़्तरी ज्ञापनु, आफ़ीस नोटीफिकेशन	कार्यालयाचें निवेदन, कार्यालय-ज्ञापन	कचेरीनु निवेदन	कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय निवेदन
किस्त	देयांश	किसत	क़िस्त	कुॅस्त	क़िस्त	हफ्ता	महसूल के देवानो हपतो, सरकारी-भरणुं (कीस)	हफ्तो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कार्यसूची, विषयसूची	कार्य-सूची (र्ज)	कार्यसूची	खन्नगदबा हिरम, एजन्डा	कार्ज्य-सूची	कार्यसूचिकै	निगळ्च्चिनिरल्	कार्यपरिपाटि	कार्यसूचि
अड्डा, कार्यालय	कार्यालय (र्ज)	कार्यालय आदेश	लोइशङ्, ओफिस	कार्ज्यालय	कार्यालयमु	अलुवलगम्	कार्यालयम्, ऑफीस्	कार्यालय, आफीसु, कचेरि
कार्याल-यादेश	कार्यालय आदेश (र्ज)	कार्यालय-ज्ञापन	लोइशङगी याथङ्, ओफिस ऑर्डर	कार्ज्यालय-आदेश	कार्यालयपु उत्तरुवु	अलुवलग आणै	ओफीस ओर्डर	कचेरि आज्ञे, कचेरिय आदेश
कार्यालय ज्ञापन	कार्यालय-ज्ञापन (र्ज)	कार्यालय-ज्ञापन	लोइशङ् मेमोरेन्डम	कार्ज्यालय ज्ञापन	कार्यालयँ निवेदिकॅ	अलुवलग निनैवाणै	कार्यालय ज्ञापनम्	कचेरि ज्ञापनपत्र, नेनपिन ओलॅ
किस्ता	किस्ति	किस्ति	मतम अमदि मशिङ् कक्तुना मचित्-मचित् शिङ्बा, नत्रगा पिबा	किस्ति	किस्तु, वायिदा	तवणै	तवण, गडु	कंतु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
खजाना	कोष:	खज़ाना	ख़ज़ाना	खज़ानुँ	ख़ज़ानो	खजिना, निधि	खजानो (तिजोरी)	खजिनो
खेद	खेद:	खेद	माज़रत (अफ़सोस)	माज़रथ, अफसूस	अफ़सोस	खेद	खेद, दिलगीरी	खेद
गोपनीय	गोपनीय	गुपत	राजदाराना (ख़ुफ़िया), बसीग़ऐराज़	सिरस लायख, ख़ुफिया	मुख्फी ख़ानिगी	गुप्त, गोपनीय	खानगी, अंगत, गुप्त	गुप्त
घोषणा	घोषणा	ऐलान	ऐलान	येलान, पारय	पधिराई, ऐलानु	दवंडी, घोषणा	घोषणा, जाहेरात, ढंढेरो	घोषणा, घोशणा
चपरासी	प्रेष्य:, प्रेष्या	चपड़ासी	चपरासी	चपरॉस्य	चपरासी, पटेवालो	शिपाई, चपरासी	चपरासी, पटावाळो	शिपाय
चेतावनी	तर्जना	चेतावनी	तंबीह	ख़ेनवुॅन्य, तंबिह	चिताउ, चेतावणी	ताकीद	चेतवणी	चत्राय
छानबीन	अन्वेषणम्	छाणबीण	तहक़ीक़ात, छानबीन	छ़ाँड, छानबीन	छंडछाण, जाच-पड़ताल	तपासणी, शोध	बरोबर तपास/ के विचार	तपास

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खजाना, ढुकुटी, तहबिल	खाजाञ्चिखाना, कोषागार, तहबिल	कोष, धनर-भराँल	ललगैं, पुक्कैं	खजणा, धन कोषागार	खजाना, कोशागारमु	कजाना, करुवूलम्	खजनावुँ	खजाने
खेद	खेद	खेद	नुङ्ङाइतबा	दु:खित	विचारमु	वरुत्तम्	खेदम्	व्यर्थ
गोपनीय, गोप्य	गोपनीय	गोपनीय	अरोनबा	गोपनीय	गोप्यमु	रगसियमान	गोपनीयम्	गुप्त, रहस्य
घोषणा, राजाज्ञा, उर्दी	घोषणा (ना)	घोषणा	लाओथोक्पा	घोषणा	प्रकटन	पोंदु अरिविप्पु	प्रख्यापनम्	घोषणे
चप्रासी, चपरासी	चापरासी	चापराची	चपरासी	चपराशी	बंट्रोतु	सेवगन्/ अडिप्पडैप् पणियाळर्	शिपायि	चपरासि, आळु, सिपाइ
चेताउनी	सतर्कीकरण, चेताबनी, हुँसियारि सतर्क करेदेया सजाग करा (न)	सतर्कवाणी, सतर्कबाणी	चेकशिन्-वा	चेताबनी	हेच्चरिकं	एँच्चरिक्कै	ताक्कीतुं	एच्चरिके
छानबिन, खोजतलास	तदंत, तल्लासी	परीक्षण-निरीक्षण तदुंतकर	थि-हुंबा	वाछिवा	विचारणं, तनिकी	पुलनाय्वु	परिशोधन	तनिखे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
छुट्टी	अवकाशः	छुट्टी	छुटटी (रुख़सत) (तातील)	छुटी, तॉतील	मोकल	मुक्तता, सुटका, रजा	रजा	सुट्टी, सुटी, रज़ा
ज्येष्ठ	ज्येष्ठः	वड्डा, उच्चा	सीनियर (बरतर)	ज्युठ	बाला, वडो (पदु वग़ैरह), सीनियर	ज्येष्ठ	वडो (अवल)	ज्येष्ठ
ज्ञापन	ज्ञापनम्	याद-पत्तर	याददाश्त	यादाश	निवेदन, ज्ञापनु	निवेदन	जाहेरात (ढंढेरो)	ज्ञापन, निवेदन
टंकक	टङ्कक:	टाइपिस्ट	टाइपिस्ट	टायपिस्ट	टाइपिस्ट	टाईपिस्ट, टंकक	टाईपिस्ट	टंकक, टंकलेखक
टिप्पण	टिप्पणी	टिपणी	रायज़नी (तब्सिरा), तौजीह	नोठ, राय	नोट, टिपणी	संक्षिप्त टिपण	टिप्पणी, टांचण, टूंकनोंध	टिप्पण, टिपण
ठेका	अनुबन्धः	ठेका	ठेका	ठेकुं	ठीको	मक्ता	ठेको, इजारो, कंत्राट	ठेक़ो
त्याग-पत्र	त्यागपत्रम्	तिआग-पत्तर, असतीफ़ा	इस्तीफ़ा	इसतीफ़ुं	इस्तीफ़ा	त्यागपत्र, राजीनामा	राजीनामुं	राजीनामा, त्यागपत्र
दफ्तर	कार्यालयः	दफतर	दफ़्तर	दफतर	दफ़्तर, आफ़ीस	कार्यालय, कचेरी	दफ्तर, कचेरी, कार्यालय	ऑफिस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिदा, छुट्टी	छुटि, अबकाश	छुटी	छुटी	छुटि	सेलवु	विडुमुरै	अवधि, ओळिवु	रजे
वरिष्ठ, ज्येष्ठ	ज्येष्ठ	ज्येष्ठ	मयाम्बा, मथक थोङ्बा	ज्येष्ठ, बड़	ज्येष्ठ	उयर्निलै	ज्येष्ठ, वरिष्ठ	ज्येष्ठ
ज्ञापन	ज्ञापन, जानानो	ज्ञापन	मेमोरेन्डम	ज्ञापन, जगाइबा	निवेदिक	कुरिप्पाणै	ज्ञापनम्, मेम्मराण्डम्	स्मरण-पत्र
टंकक	टाइपिस्ट, मुद्रालेखक	टाइपिष्ट, मुद्रालेखन-यंत्री	टाइपिस्ट, ताइप तौबा मी	टाइपिस्ट	टाइपिस्टु	तट्टेलुत्तर्	टैपिस्टु	टैपिस्ट, बेरळच्चुगार
टिपन, टिप्पणी	टिप्पणी (नी)	पादटोका	शम्लप्ना, नोट थिबा	टिप्पणी	नोटु	कुरिप्पु	नोट्टुं/ कुरिप्पुं	टिप्पणि, नोटु
ठेक्का	ठिका, चुक्ति	ठिका	थादोक-चे	ठिका	कंट्राक्टु	कुत्तगै	कुत्तक	गुत्तिगे
राजीनामा, त्यागपत्र	पदत्याग-पत्र	त्याग-पत्र, परित्याग-पत्र	रिंजाइन	त्यागपत्र, छाडपत्र	राजीनामा	राजीनामा कडिदम्	राजिक्कत्तुं	राजीनामे
अड्डा, कार्यालय, आफिस	दफ्तर, करण (न)	कार्यालय	लोइशङ्, ऑफिस	दप्तर, कार्यालय	आफीसु, कार्यालयमु	अलुवलगम्	आप्पीस्	कार्यालय, आफीसु, कचेरि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दावा	स्वत्व-प्रतिपादनम्	दावा	दावा	दावा	दावा	हक्क	दावो	दावो
देय	देय	बणदा	वाजिब (वाजिबुल अदा)	वॉजिब	ड़ियणो, ड़ियण-जोगो	देण्यासारखे, देण्यायोग, बाकी देय	बाकी रकम	देणगी
दैनिक भत्ता	दिनभृति:, दैनिकभृति:	रोज़ाना भत्ता	यौमिया भत्ता	रोज़ानुँ-अलोंस	रोज़ानो भतो	दैनिक प्रवास व भोजन खर्च, दैनिक भत्ता	दैनिक भत्तुं	दैनीक भत्तो
नगर भत्ता	नगरभृति:	नगर भत्ता	शहरी भत्ता	शहरी अलोंस	शहर भतो	नगरांत होणा खर्च, नागरी खर्च, नगर भत्ता	नगर भत्तुं (भथ्थुं)	नगर भत्तुं (भथ्थुं)
नाबालिग	अवयस्क:	नाबालग	नाबालिग़	नाबालेंग	नाबालिग़	लहान, वयांत न आलेला, अज्ञान, नाबालिग	सगीर	अवयस्क
निदेशक	निदेशक:	डाइरैकटर, निरदेशक	डायरेक्टर (नाज़िम)	डायरेक्टर, नॉज़िम	डाइरेक्टर, हिदायतकार (नाटकु वग़ैरह)	डॉयरेक्टर, संचालक, दिगदर्शक, निदेशक	निर्देशक, नियामक	निदेशक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दाबी, दावा	मुकद्दमा, मामला/ दाबी	दाबी, अभियोग, मोकर्दमा	पिगदबा	अभिजोग, दाबी	दावा	दावा/ उरिमै	अवकाश-वादम्	दावा
देय	देय, बाकि	देय, दिनरयोग्य	नोङमगी चादिङ्	देय	देयमु, बाकी	वरवेंडियतांगै	बाक्कि	बाकि
दैनिक-भत्ता	दैनिक भाता	दैनिक भात्ता	मीओइ शुद्रिबा	दैनिक भत्ता	दिनँ भत्ता	दिनप्पडि	दिवसप्पटि	दैनिक भत्ते
नगर-भत्ता	नगर भाता	नगर-भात्ता	सहरगी चादिङ्	नगर भत्ता	नगरँ भत्ता	नगरप्पडि	सिट्टि अलवन्स्, नगर बत्त	नगर भत्ते
नाबालिग	नाबालक (-लो)	नाबालक	नूपामचा	नाबालक	अवयस्कुडु	उरियवयदुवराद, मेजरागाद	मैनर्	अल्प वयस्क
निदेशक, निर्देशक, डाइरेक्टर	अधिकर्ता	कार्य परिचालक	डायरेक्टर	निर्देशक, कार्य परिचालक	डायरेक्टरु	इयक्कुनर्	निदेशकन्, डयरक्टर्	निर्देशक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
निदेशालय	निदेशालय:	डाइरैक्टोरेट	डाइरेक्टोरेट	डायरेक्टर सुंद दफ़्तर	डाइरेक्टोरेट, निदेशालय	संचालन विभाग	निदेशालय	निदेशालय
निधि	निधि:	फंड, धंन, कोश	सरमाया (फंड)	फंड	निधी, ख़ज़ानो, फंड	फंड, निधी	भंडार, खजानो	निधी
नियंत्रक	नियन्त्रक:	कंटरोलर	कंट्रोलर (नाज़िम)	कंट्रोलर, नॉज़िम	कन्ट्रोलर, नाज़िम	नियामक, नियंत्रक	नियंत्रक, नियंता	नियंत्रक
नियम पुस्तक	नियमसंहिता	नियम पुसतक	दस्तूरुल-अमल (लॉ बुक)	कॉयिदुँ किताब	क़ाइदनि जो किताबु	नियमांचे पुस्तक	नियमावलि, धारोधारण	विधान ग्रंथ
नियुक्ति	नियुक्ति:	नियुकती, तैनाती	तैनाती (तक़र्रुर)	तकरुरी	मुक़ररी	नेमणूक, नियुक्ती	नियुक्ति, निमणूक	नियुक्ती
नियोक्ता	नियोजक:, नियोक्ता	नियोजक, नियुकती-करता	तक़रुरी करने वाला	तकरुरी-करन-वोल	मुक़ररी कंदड़ु	नियोजक	निमणूक करनार अधिकारी (अमलदार)	नियोक्ता
निरीक्षक	निरीक्षक:	इंसपैक्टर, निरीखक	नाज़िर, निगरान (इन्स्पेक्टर)	निगरान, मॉयीनुँ करन वोल	चकासींदड़ु, इन्स्पेक्टर, निरीक्षकु	तपासनीस, निरीक्षक	निरीक्षक	निरीक्षक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निदेशालय	अधिकर्तार दफ्तर, कार्यालय (जा)	निर्देशालय	डाइरेक्टोरेट	निर्देशालय	डायरेक्टरेटु	इयक्कगम्	निदेशालयम्, डयरक्टरेट्टू	निर्देशालयम्
निधि	निधि, तहबिल, तबिल	निधि, ट्रेज़री भँराल	लन, लनगै, फण्ड	भंडार	निधि	निदि	निधि, फण्ड्	निधि, कोश
नियन्त्रक	नियंत्रक	नियंत्रक	येङशिनबा मी, कन्ट्रोलर	नियंत्रक	नियंत्रकुडु	कण्काणि-प्पाळर्	कण्ट्रोलर, नियंत्रकन्	नियंत्रक
नियम पुस्तक, नियमावली	बिधान ग्रंथ बिधि-नियम, आइनि पुस्तिका (शब्दकोश)	बिधि-ग्रंथ	नियमगी लाइरिक	नियम पुस्तक	नियमं-पुस्तकमु	विदिमुरै कैयेडु	नियम ग्रंथम्	नियमगळ पुस्तक
नियुक्ति	नियुक्ति (जु)	नियुक्ति	थबक खन्बा	निजुक्ति	नियामकमु	वेलैयिल् अमर्त्तल्	नियमनम्, नियुक्ति	नेमक, नियुक्ति
नियोक्ता	नियोक्ता (जो), नियोगकर्त्ता	नियोक्ता	फम हाप्पिबा मी	निजोक्ता	नियामकुडु	वेलैयिल् अमर्त्तबवर्	तॉळि़लुटम	नियोजक
निरीक्षक	निरीक्षक (क्ख), परिदर्शक	परिदर्शक	इन्सपेक्टर	निरीक्षक	पर्यवेक्षकुडु	आय्वाळर्	इन्स्पेक्टर्, निरीक्षकन्	निरीक्षक, मेल्विचारक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
निर्देशिका	निर्देशिका	डाइरैकटरी, निरदेशका	हिदायतनामा	डरेंकटरी	हिदायतनामो	निर्देशिका, डायरेक्टरी	निर्देशीका	निर्देशिका
निर्धारण	निर्धारणम्	निरधारण	तअय्यनु	तायुन	तइ करणु, मुक़रर करणु, निश्चित करणु	निश्चय, आकारणी, असेसमेण्ट, निर्धारण	निर्धारण, निश्चय, निर्णय	निर्धारण
निविदा	निविदा	टंडर	टैन्डर	टेंडर	टेंडर, निविदा	टेण्डर, निविदा	जाहेरखबर	निविदा, टेंडर
निवेदन	निवेदनम्	बेनती, निवेदन	गुज़ारिश, दरख़ास्त (अर्ज़)	अरुॅज़	अर्जु, निवेदन	कथन, निवेदन	निवेदन, अरज, अहेवाल	निवेदन
नौकरशाही	अधिकारितन्त्रम्	नौकरशाही	नौकरशाही	नोकरशॉही	नौकरशाही	ब्यूरोक्रसी, नोकरशाही	नोकरशाही, सरकारी नोकरोना दोर वाळुं राज्यतंत्र	नौकरशाही
पंजीकरण	पञ्जीयनम्	रजिसट्रीकरन	रजिस्ट्री	रजिस्टरी	रजिस्ट्रेशन, दाख़िला, पंजीकरण	रजिस्ट्रेशन, नोंदणी	रजिस्ट्रेशन, नोंधणी	रजिस्ट्रेशन, नोंद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्देशिका	निर्देशिका	निर्देशिका	डायरेक्टरी	निर्देशिका	निर्देशिक	विवरक्कैयेडु	निर्देशिक	डैरेक्टरी
निर्धारण, तोक, निर्णय	निर्धारण (न)	निर्धारण	अरेप्पा	निर्धारण	निर्धारण	निर्णयित्तल्	मतिप्पुं, निर्धारणम्	निर्धारण
बोलपत्र, टेन्डर	मूल्य (ल्ल) बेदनपत्र	निबिदा, मूल्यवेदन पत्र	टेन्डर	मूल्यपत्र, मान्य, प्रस्ताबित बिषय	टेंडरु	ओप्पन्दप् पुळ्ळि	टेन्डर, दर्ख़ास	टेंडर
निवेदन	निबेदन	निबेदन	हाइजबा	निबेदन	मनवि	समर्प्पित्तल्	निवेदनम्	निवेदने, प्रार्थने
नोकरशाही	आमलातंत्र	आमोला-तांत्रिक	मीखंदगी कारक्पा मी नत्तबा ओफिसार शिङ्ना पुबा शासन	अमलातंत्र	उद्योग तंत्रमु	अदिकार वर्गम्	उद्योगस्थ मेधावित्तम्	ब्यूरोक्रसी
पञ्जीकरण	पंजीकरण	पंजीकरण	रजिस्ट्रेशन	पंजीकरण	रिजिस्ट्रेषनु	पत्तिरप्पदिवु	रजिस्टराक्कल, रजिस्टर् चेय्युक	नोंदणि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पंजीकार	पञ्जीयक:, पञ्जीकार:	रजिसट्रार	रेजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार, पंजीयक	रजिस्ट्रेशन अधिकारी, नोंदणी अधिकारी, रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन करनार नोंधणी अधिकारी	नोंदकरपी
पंजीकृत	पञ्जीकृत	रजिसटरशुदा	रजिस्टर्ड	रजिस्टर्ड	रजिस्टर्ड, रजिस्टर शुदा	रजिसटर्ड, नोंदलेले	रजिस्टर्ड	रजिस्टर्ड, नोंद जाल्लें
पदनाम	पदनामन्	पदनाम/ अहुदा	ओहदा	ओंहदुक नाव	पद-नालो, उहदो	अधिकार, पद, हुद्दा, डेसिग्नेशन	होदो	अधिकारी पद
पदेन	पदेन	अहुदे नाते, पद अनुसार	बअेतबारे-ओहदा (बलिहाज़े मनसब)	ओंहदस प्यठ कॉम करन वॉल	पद सबबि, उहदे जे लिहाज़ खां	एक्स-ऑफिशियो, पद सिद्ध	होद्दानी रुए	पदसिद्ध
परमिट	अनुज्ञापत्रम्	परमिट	परमिट (इजाज़तनामा)	परमट	परमिट, इजाज़तनामो	अनुमती पत्र, परमिट	परमिट, परवानो, रजानो लेखीतहुकम	परमिट
परिचय	परिचय:	शनाखत	तआरुफ़	तोरुफ, ज़ान	परिचय, वाक़िफ़ियत	परिचय	परिचय, आलेख, आलेखाण	परिचय
परिपत्र	परिपत्रम्	गशती चिट्ठी	गश्ती मुरासिला	गश्ती-चिठ्य	सर्क्यूलर, गश्ती चिठी	सर्क्युलर, परिपत्रक	परिपत्र, सर्क्युलर	परिपत्रक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पञ्जीकार, पञ्जीकाध्यक्ष	निबंधक, रेजिस्ट्रार	पंजीयक, निबंधक	रजिस्ट्रार	पंजीकार	रिजिस्ट्रारु	पदिवाळर्	रजिस्ट्रार्	नोंदणिकार, दाखलिसुववनु
पञ्जीकृत	पंजीकृत	पंजीकृत	रजिस्टर्ड	पंजीकृत	रिजिस्टर-चेयबडिन	पदिवु चेय्यप्पट्ट	रजिस्टर् चेय्त	नोंदणिसिद
पदनाम, ओहदा	पदनाम	पदनाम	फमगी ममिङ्	पदनाम, पदबि	पदवि पेरु	पदविप्पेयर्	पदनामम्	पदनाम, हुद्दे
पदेन	पदाधिकारबले	पदेन	एक्स ओफिसिओ	पद अनुजायी	पदमूलमैन	पदवि मुरैप्पट्ट	एक्स ऑफिष्यो	पदनिमित्त
परमिट, अनुमतिपत्र	पारमिट, अनूमतिपत्र	पारमिट, अनुमति पत्र, अनुज्ञा-पत्र	पारमिट	परमिट, अनुमति	परमिटु	अनुमति-च्चीट्टु	पेर्मिट्टु	पर्मिट्टु
परिचय	परिचय	परिचय	शकताकपा, शकखङ्बा	परिचय	परिचयमु	अरिमुगम्	परिचयम्	परिचय
परिपत्र	परिपत्र, सार्कूलार	परिपत्र	सर्क्युलर, खङहन्बा-चे	परिपत्र, बिज्ञप्ति	सर्कुलरु	सुट्टरिक्कै	सर्कुलर्, परिपत्रम्	परिपत्र, सुत्तोले

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
परिशिष्ट	परिशिष्टम्	अंतका	ज़मीमा	खुलासुॅ	जमीमो, परिशिष्ट	परिशिष्ट	परिशिष्ट	परिशिष्ट
परिषद्	परिषद्	परिशद	मजलिस, (कौंसिल)	कॅमीटी	परिषद	परिषद	परिषद (सभा)	परिशद
पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक:	सुपरवाइज़र	सुपरवाइज़र (नाज़िर), निगरान	मॉयीनुॅ करनवोल, निगरान	ड्रिसंदड़ु, जाचीदड़ु	पर्यवेखक, सुपरवायझर	अवेक्षक, सुपरवाईझर	पर्यवेक्षक
पहचान	अभिज्ञानम्	पछाण	शनाख़्त (पहचान)	पछानुन, परज़नावुन	सुञाणप, पछाण	ओळख	पिछान, ओळखाण	वळख
पाद-टिप्पणी	पादटिप्पणी	फुट नोट, पैर टिप्पणी	हाशिया (फुट नोट)	फुटनोट	फुटनोट	पूटनोट, तळटीप	फूटनोट (नोंध)	तळटीप
पार-पत्र	पारपत्रम्	पासपोरट, पार-पत्तर	पासपोर्ट (परवाना-ए-राहदारी)	पासपोट	पासपोर्ट	परदेशी जाण्याचा परवाना, पासपोर्ट, पारपत्र	पासपोर्ट	पासपोर्त, परवानो
पारिश्रमिक	भृतिः, पारिश्रमिकम्	मेहनताना	मुआविज़ा, मेहनताना	मेहनुॅतानुॅ	उजूरो, मेहनताणो	मेहेनताना, रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक	महेनताणुं	वावराचे मोल
पावती	प्राप्तिपत्रम्	पहुंच	रसीद	रॅसीद	पावती, पहुच	रिसीट, पोच, प्राप्ती	पावती, पहोंच, रसीद	पावती, पोंच

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परिशिष्ट	परिशिष्ट	परिशिष्ट	हापचिल्लकपा	परिशिष्ट	परिशिष्टमु	इणैप्पु, अनुबंदम्	परिशिष्टम्	परिशिष्ट
परिषद	परिषद्	परिषद	परिषद	परिषद	परिषत्तु	मन्रम्	समिति, कौण्सिल्	परिषत्तु
पर्यवेक्षक	पर्यबेक्षक (जं) (क्ख)	पर्यवेक्षक	सुपरभाइजर, सुपरवाइजर	पर्ज्यबेक्षक	पर्यवेक्षकुडु	कण्काणिप्पाळर्	पर्यवेक्षकन्, सुपरवैसर्	मेल्विचारक
पहिचान	परिचय, चेना	चिनाकि	शकखङ्बा	परिचय	गुर्तु, ऍरुक	अडैयाळम्	अभिज्ञानम्/ अडयाळम्	गुरुतु
पादटिप्पणी, खुरेटिपोट	पाद टीका	पाद-टीका	फुट-नोट	मुल-टिप्पणी	अधो दीपिक	अडिक्कुरिप्पु	अडिक्कुरिप्पुँ	अडि टिप्पणि
राहदानी, पासपोर्ट	छाड़पत्र, पासपोर्ट	पार-पत्र	पास्पोर्ट	पार-पत्र, पास-पोर्ट, निगम पत्र, छाड़पत्र	पास्पोर्टु	पास्पोर्ट्टु, कडवुच्चीट्टु	पास्पोर्ट्	पासपोर्टु
पारिश्रमिक, ज्याला	पारिश्रमिक	पारिश्रमिक	खुतशुमन, नोम्जमन, होत्लजमन	पारिश्रमिक	पारिश्रमिकमु, पारितोषिकमु	ऊदियम्	वेतनम्, प्रतिफलम्	पारिश्रमिक
रसीद, भर्पाई	प्राप्ति-स्वीकारपत्र, रसीद	प्राप्ति स्वीकारक रचिद	रसीद	पाउति	रसीदु	ऑप्पुरुति एर्प्पळिप्पु	पट्टुशीट्टु	रशीदि, रसीदि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पुनरीक्षण	पुनरीक्षणम्	नज़रसानी	नज़रे-सानी	बैंयिवुछुन, नज़र सॉनी	नज़र-सानी	फेरतपासणी	पुनर्अवलोकन	पुनर्तपासणी
पूछताछ	पृच्छा	पुच्छगिच्छ	मालूमात	प्रिछुँगॉर	पुछा ग़ाछा	विचारपूस, चौकशी	पूछताछ	वासपूस
पूर्णतः	पूर्णतः	पूरी तरां नाल	मुकम्मिल तौर पर, कुल्लियतन	पूरुँ पॉठ्य	पूरी तरह	पूर्णपणे	पूरेपूरुं	पूर्णपणान, पुरायपणे
पूर्ववत्	पूर्ववत्	पहिलां वांग	हस्बे-साबिक़	प्रॉन्य-पॉठ्य	अगे वांगुर	पूर्ववत्	आगळ मुजब	पूर्ववत
पूर्वानुमति	पूर्वानुमतिः	अगाऊ मंजूरी	पेशगी मंजूरी	मेश-मंजूरी	अगुवाट इजाज़त	अगाऊ परवानगी, पूर्वानुमती	पूर्वानुमति	पूर्वानुमती
पृष्ठांकन	पृष्ठाङ्कनम्	पिट्ठ-अंकण	ज़ेरीं तसदीक़	दरुँज करुन, दसखत करुन	पुठिभराई	नामांतर, एन्डॉर्समेण्ट, स्वाक्षरी	शेरो	पृष्ठांकन
प्रतिबंध	प्रतिबन्धः	बंदश	मुमानिअत	ममॉन्यथ, रुकावट	बंधनु, रोक	मनाई हुकुम, अट, प्रतिबंध	प्रतिबंध, मनाई	मनाई

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पुनरीक्षण	पुनरीक्षण (क्ख) (न)	पुनरीक्षण	अमुक हन्ना येङशिन्बा	पुनरीक्षण	पुनरीक्षणँ	मरुआय्वु/ मरुपरिशीलनै	पुनरीक्षणम्	पुनरीक्षण, पुनः परिशीलने
सोधपुछ, सोधखोज, पुछताछ	अनुसंधान	अनुसंधान तदंत	खङ्ननबा हङ्बा	अनुसंधान, तदंत	विचारणँ	विचारणै	अन्वेषणम्	विचारणे
पूर्णतः, पूरापूरी	पूर्णतः (र्न)	संपूर्ण भावे	मपुम ओइना	पूर्णत, संपूर्ण्ण भावे	पूर्तिगा	मुट्ट्रिलुम	पूर्णमायि	पूर्णतः
पहिलेजस्तै, पूर्ववत्	पूर्बबत्	पूर्बवत्	माङ्जौनना	पूर्बबत्, पूर्बपरि	पूर्वमुवलं	मुन्पोल	मुन्पोलं	संपूर्णवागि
पूर्वानुमति	पूर्वानुमति	पूर्बानुमति	माङ्जौनना लौबा अयाबा	पूर्बानुमति	पूर्वानुमति	मुन्ऑप्पळिप्पु	पूर्वानुमति	पूर्वानुमति
पृष्ठाङ्कन	पृष्ठांक	पृष्ठांकन	एन्डॉर्समेण्ट	पृष्ठांकन, स्वाक्षरता, अनुमोदन	प्रमाणीकरिंचु	कीळ् कुरिप्पु	पुरत्तंळुत्तु	हिंबरह
प्रतिबन्ध	प्रतिबंध	प्रतिबंधक	अथिङबा	प्रतिबंध	आक्षेपणँ, अड्डंकु	तडै, कट्टुप्पाडु	प्रतिबंधम् तडस्सम्	निर्बंध, निषेध

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रतिलिपि	प्रतिलिपि:	नकल	नक़ल	नकॅल	नकुलु	नक्कल	प्रतिलिपि, प्रतिलेख, नकल	प्रतिलिपी
प्रतिवेदन	प्रतिवेदनम्	रिपोट, सूचना	कैफ़ियत (नुमाएंदगी)	गुज़ॉरिश	अरीज़ी, गुज़ारशि	अहवाल रिपोर्ट	हेवाल, रिपोर्ट	प्रतिवेदन
प्रपत्र	प्रपत्रम्	फारम	फ़ार्म (महज़र)	फारम	फ़ार्म, प्रपत्र	अर्जाचा नमुना, फॉर्म	फोरम, फॉर्म	प्रपत्र
प्रबंधक	प्रबन्धक:	प्रबंधक, कारजशासक	मैनेजर (नाज़िम), मुंतज़िम	मुनतॅज़िम	मैनेजर, प्रबंधक	प्रबंधक, व्यवस्थापक	प्रबंधक (मेनेजर), व्यवस्थापक, बंदोबस्त करनार	व्यवस्थापक
प्रभाग	प्रभाग:	प्रभाग, मंडल, दरजा	हलक़ा (सीग़ा)	हिसुक, हिसुॅ	डिवीज़न, भागु, भाङो	विभाग, डिव्हीजन	प्रभाग, विभाग	प्रभाग
प्रभार	प्रभार:	प्रभार, कारज-भार	चार्ज	चारुॅज, ज़िमुॅवॉरी	चार्ज	कार्यभार, जबाबदारी	चार्ज	प्रभार
प्रमाण-पत्र	प्रमाणपत्रम्	प्रमाण-पत्तर	सनद (तसदीक़नामा)	सनद	सर्टीफ़िकेट	दाखला/ पुरावा प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्र	प्रमाण-पत्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रतिलिपि	प्रतिलिपि	प्रतिलिपि, नकल	त्रु कॉपी	नकल	कापी, नकलु	नगल्	पकर्पु	नकलु, करडुप्रति
प्रतिवेदन	प्रतिवेदन, रिपोर्ट	प्रतिबेदन	रिपोर्ट लानखाल्पा	प्रतिबेदन	रिपोर्टु	अरिक्कै	रिपोर्ट्, प्रतिवेदनम्	वरदि, रिपोर्टु
प्रपत्र, फाराम	फरम, निदर्शपत्र	प्रपत्र	फोर्म	प्रपत्र फर्म	फारमु	पडिवम्	प्रोफार्मा, प्रपत्रम्	प्रपत्र, फार्मु
प्रबन्धक	प्रबंधक	परिचालक	अशिन्-अराङ्, मेनेजर	प्रबंधक, परिचालक	मेनेजरु	मेलाळर्	मानेजर्	व्यवस्थापक
प्रभाग	बिभाग	शाखा	डिवीजन	विभाग, शाखा	डिविजनु	कोट्टम	प्रभागम्/ डिविषन्	प्रभाग, विभाग
प्रभार	भारप्राप्त	भारप्राप्त	चार्ज, थबक पुबा	कार्यभार, कार्ज्यभार	चार्जि	पोरुप्पु	कार्यच्चुमतल	जवाब्दारि
प्रमाणपत्र	प्रमाण पत्र (न)	प्रमाणपत्र	सर्टीफिकेट	प्रमाणपत्र	प्रमाण पत्रमु	चान्रिदळ्	सर्टिफिक्कट्टु	प्रमाणपत्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रवास	प्रवास:	परवास, प्रवास	ग़ैरमुल्की सकूनत, मुहाजरत, तर्के वतन	पर मुलकस मंज़ रोजुन	वासु, निवासु	प्रवास	प्रवास (मुसाफीर)	प्रवास
प्रविष्टि	प्रविष्टि:	इंदराज	इंदराज (दाख़िला)	इंदराज	दाख़िला	नोंदलेला, शिरलेला	प्रवेश, दाखल	प्रविष्टि
प्रवेश पत्र	प्रवेशपत्रम्	प्रवेश पत्तर	इजाज़तनामा (दाख़िला कार्ड)	दॉखलुँ कार्ड	दाख़िला पत्र, इजाज़तनामो	प्रवेशपत्र	प्रवेशपत्र	प्रवेश पत्र
प्रशासकीय	प्राशासकीय	प्रशासकी	इंतिज़ामी	इंतिज़ामियुँ	कारोबारी, इंतिज़ामी	व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय	वहीवटी	प्रशासकीय
प्रशासन	प्रशासनम्	प्रशासन	इंतिज़ामिया	इंतिज़ॉमिया	कारोबार, इंतिज़ाम	शासन व्यवस्था, ॲडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन	शासन, राजवहीवट	प्रशासन
प्रेषक	प्रेषक:	भेजण वाला	मुर्सिल	सोज़नवोल	मोकिलींदड़ु	पाठविणारा, प्रेषक	प्रेषक (मोकलनार)	प्रेशक
प्रसंग	प्रसङ्ग:	हवाला, प्रसंग	हवाला	कथबाथ	हवालो, प्रसंग	संदर्भ, प्रसंग	प्रसंग, अवसर, प्रकरण	प्रसंग

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रवास	प्रवास (बाश)	प्रबास	मीरमदा लैबा	प्रबास	प्रवासमु	पयणम्	प्रवासम्	प्रयाण, यात्रे, प्रवास
प्रविष्टि	प्रबिष्टि (ब)	प्रबिष्टि	चङ्बा, चङ्फम	प्रबिष्टि	प्रविष्टि	पदिवु शंटदल्, ताक्कल्	पट्टुवय्कल्	नमूदने
प्रवेशपत्र	प्रबेशपत्र (ब)	प्रबेश-पत्र	चङ्बा याबगी कार्ड	प्रबेशपत्र	प्रवेश पत्रमु	नुळैवुच्चीट्टु	प्रवेश पत्रम्	प्रवेशपत्र
प्रशासकीय	प्रशासकीय, प्रशासनिक (श)	प्रशासकीय	थबक-थना शिन्बगी ओइबा	प्रशासकीय, शाशन-संबंधीय	परिपालन संबंधि	आट्चि संबंदमान	भरण संबंधमाय	आडळितद
प्रशासन	प्रशासन (श)	प्रशासन	अडमिनिस्ट्रेशन, थबक-थना शिन्बा	प्रशासन	परिपालन	आट्चि/ निर्वाहम्	भरणम्	आडळित
प्रेषक	प्रेषक, प्रेरक	प्रेरक, पठियाओंता	चिट्ठी थारिबा मी	प्रेषक	पंपिनवाडु	अनुप्पुबवर्	प्रेषकन्	कळुहिसुवव, प्रेषक
प्रसङ्ग	प्रसंग (शं)	प्रसंग	मरि मखोङ्	प्रसंग, अबसर	संदर्भमु	तांडर्बु, संदप्पम्	संदर्भम्, प्रकरणम्	प्रसंग, संदर्भ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रसंगा-नुकूल	प्रसङ्गानुकूल	प्रसंग अनुकूल	हसबे हवाला (हसबे सियाक़)	कथबाथि-मुताँबिख	हवाले मूजिब, मौके पटांदड़ु	प्रसंगानुकूल	प्रसंगोचित	प्रसंगानुकूल
प्रसारण	प्रसारणम्	प्रसारण, परसारण	नश्र (इशाअत)	नशर करुन	फैलाउ, प्रसार	ध्वनिक्षेपण, ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण	प्रसारण (ब्रोडकास्टिंग)	प्रसारण
प्रस्ताव	प्रस्ताव:	प्रसताव	तजवीज़, क़रारदाद	तजवीज़	ठहिराउ, प्रस्ताउ	ठराव, प्रस्ताव	ठराव, दरखास्त, प्रारंभ, प्रसंग, बाबत	प्रस्ताव
प्राक्कलन	प्राक्कलनम्	अनुमान/ अंदाज़ा	तख़्मीना	तखमीनुं, एसटिमेट	अनुमानु, तख़्मीनो	अंदाज, अदमास	अंदाज	अनुमान
प्राधिकारी	प्राधिकारी	अथारिटी/ अधिकारी	ओहदेदार, हाकिम (हाकिमे-मजाज़)	ओहदुदार (हाँकिमि मजाज़)	अधिकारी, अथारिटी	अधिकारी, अथारिटी	सत्ताधिकारी	प्राधिकारी
फर्राश	परिमार्जक:	फराश	फ़र्राश (ख़ाकरोब)	फराश	फ़राश	स्वच्छता कर्मचारी	फरास	स्वच्छता कर्मचारी
फाइल	सञ्चिका	मिसल	फ़ाइल (मिसिल)	मिसल, फयिल	फ़ाइल	फाइल	फाइल	फाइल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रसङ्गानुकूल	प्रसंगानुकूल (शं)	प्रसंग अनुसरि	मरि मखोङ्गी मनूङ चन्बा	प्रसंगानुकूल	संदर्भानुसारमु	संदर्प्पत्तिर्कु एट्टपडि	संदर्भमनुसरिच्चुं	प्रसंगानुसारवागि, प्रसंगानुकूल
प्रसारण	प्रसारण (न)	प्रसारण	शंदोकपा	प्रसारण	प्रसारमु	ऑलिपरप्पु	प्रक्षेपणम्	प्रसारण
प्रस्ताव	प्रस्ताव (ब)	प्रस्ताव	हौदोक्पा	प्रस्ताब	प्रस्तावन	मसोदा	प्रस्तावन	प्रस्ताव, ठरावु
प्राक्कलन, अनुमान	निरूपण, अनुमान, आंदाज	प्राक्कलन, प्राक निरूपण	चाओराक्पा, मशिङ्	अनुमान (मूल्य-निरूपण)	अंचना	मदिप्पीडु	अनुमानम्	अंदाजु
प्राधिकारी	अधिकारी, प्राधिकारी	प्राधिकारी	ओथोरिटी	प्राधिकारी, अधिकारी	प्राधिकारि	उयर् अदिकारि	प्राधिकारी	प्राधिकारि
फरास	फरास, साफाइ कर्मचारी	सम्मार्जक, झाडूदार	वाइशित्-वाइरम तौबा मी	झाडूदार	बंट्रोतु	तुप्पुरवु तॉळिलाळि	तूप्पुकारन् फराश	से
फाइल, मिसिल	फाइल, नथि	फाइल नथिपत्र	फाइल	फाइल, तालिका, नथि	फइलु	कोप्पु	फयल्	कडत, फाइलु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बंधपत्र	बन्धपत्रम्	बांड-पत्तर/ मुचलका	तमस्सुक, रहन नामा	महादुँ काकुज़	बांड, ब॒धनपत्र	रोखा, बाँड	बंधपत्र	बंधपत्र
बकाया	अवशिष्ट	बकाइया	बक़ाया	बकायि	बकाया	बाकी, शिल्लक, अवशिष्ट	बाकी	बाकी, शिल्लक
बहुमत	बहुमतम्	बहुमत	कस्रते-राय (अकसरियत)	कसरति-राय	घणाई	बहुमत	बहुमति	बहुमत
बीजक	बीजकम्	बीजक	बिल (बीजक)	बीचक	ब॒ीजक	मालाची यादी, बीजक	भरतियुं	जंत्री
भत्ता	भृतिः	भत्ता	भत्ता, अलाउंस	अलोंस	भतो, अलाउंसु	प्रवास खर्च इत्यादिची रकम, भत्ता	भत्तुं	भत्तो
भविष्य-निधि	भविष्य-निधिः	प्रावीडैंट फंड	प्राविडेण्ट फ़न्ड	प्रावडंट फ़ंड	प्रॉव्हिडंट फ़ंड, भविष्य निधी	भविष्य निधी, प्रोविडंट फंड	भविष्य निधि	भविश्य निधी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बन्धपत्र, प्रतिज्ञापत्र, ऋणपत्र, तमसुक	बचांकपत्र, रुण पत्र, तमसुक	संलग्न पत्र, दलिल-पत्र	दलिल-चे, बोण्ड-चे, यान-चे,	रुण-पत्र, चुक्तिपत्र	बांड्डु	अडमानच् चीट्टु/ अडमानप्पत्तिरम्	बंध पत्रम्, बोण्डॅ	मुच्चळिके, बंध पत्र
बक्यौता	बकेया, बाकी	बाकी, अबशिष्ट	लेमहौबा, अरंबा	अवशिष्ट	बाकी	निलुवै	बाक्कि, कुटिश्शिक	बाकि
बहुमत	बहुमत, संख्या गरिष्ठता	संख्या गरिष्ठता	मयामगी मोत	बहुमत, संख्यागरिष्ठता	मंजारिटी	पेरुंपान्मै	भूरिपक्षम्	बहुमत
रसिद, चलानीपुर्जी, बीजक	चालान, रसिद	चालान बिल	लल्लोनपोत थारकपगी ममलगा कोननना पोत-ममिङ् इबा चे; रसीद	चालान	इन्वायस	विलैप्पट्टियल्	इन्वोयिस्	सरकु पट्टि
भत्ता	भाता	भात्ता	थबककी दमक कनागुंबदा पीबा शेल	भत्ता	भत्ता	पडि	बत्त	भत्ते
भविष्यनिधि, संचय कोष	भबिष्य निधि, प्रबिडेंट फंड	भविष्यत् निधि	प्रावीडेंट फंड	भविष्यत धन, भबिन्य निधि	प्राविडेंट फंड्डु	वरुंकालवैप्पु निदि	भविष्य निधि	भविष्य निधि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
भूतपूर्व	भूतपूर्व	साबक, भूतपूरब	साबिक़ (साबिक़ा)	सॉबिकुॅ	साबिक, अगु॒णो	माजी, भूतपूर्व	भूतपूर्व (माजी)	भूतपूर्व
मंजूरी	स्वीकृतिः	मंजूरी	मंजूरी	मंजूरी	मंजूरी	मान्यता, स्वीकृती, मंजुरी	मंजूरी, स्वीकृति, संमति	मंजुरी
मंडल	मण्डलम्	मंडल	ब़ोर्ड (मजलिस)	उनजमन, सबा, बोर्ड	मंडल	मंडळ, संस्था	मंडळ	मंडळ
मंत्रालय	मन्त्रालयः	मंतराला	विज़ारत	वज़ारथ	वज़िरात मंत्रालय	मंत्रालय	सचिवालय	मंत्रालय
मनोनीत	मनोनीतम्	नामजद	नामज़द	नामज़द	थाफियलु, नामज़द	नियोजित, निवडलेला	पसंद करेलुं, चूंटेलुं	नेमिल्लो
मसौदा	प्रारूपम्	मसौदा	मुसव्वदा	मसवदुॅ	मसौदो	मसुदा, कच्चा खर्डा, योजना	मसूदो, खरडो मुसद्दो	मसुदो, आराखडो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भूतपूर्व	भूतपूर्व	भूतपूर्ब	हान्नगी	भूतपूर्ब	माजी	माजि/ मुन्नाळ्	मुन्	माजि, भूतपूर्व
मन्जुरी	मंजुरी	मंजुरी, मंजूरन, अनुदानित	अयाबा	मंजूरि, स्वीकृति	मंजूरु	ओप्पुदल्	अनुमति	मंजूराति, ओप्पिगे
मण्डल	मंडल, एलाका, अञ्चल	समंडल, मंडल एकएलाका अञ्चल	वासक अमगी मखादा लैरिबा मीशिङ मंडल	मंडल	मंडलमु	मण्डलम्	बोर्ड, मण्डलम्	मंडलि
मन्त्रालय	मंत्रालय	मंत्रालय	मिनिष्ट्री, मंत्रालय	मंत्रालय शाख	मंत्रित्वं अमैच्चगम्	अमैच्चु/	मंत्रिकार्यालयम् सरकारद	सचिवालय, इलाख
मनोनीत, नामाङ्कित	मनोनीत	मनोनीत	अपांबा खन्बा, अपांबा हाप्पा	मनोनीत	नामिनेशनु	नियमि- क्कप्पट्ट	नामनिर्देशम् चंय्यप्पट्ट	नामनिर्देशित, नेमिसल्पट्ट
मसौदा, खेस्रा	मुसाबिदा	पूर्बलेख, आँचनि	ड्राफ	जोजना	मसोदा	मसोदा/चट्ट वरैवु	नक्कल, करट्टु, प्रारुपम्	मसूदं, करडुप्रति

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
महँगाई भत्ता	महार्घताभृतिः	महिंगाई भत्ता	महँगाई भत्ता	द्रोंजर् अलोंस	महांगाई भतो, महांगाई अलाउंस	महागाई भत्ता	मोंधवारी-भत्तुं (भथ्थुं)	म्हारगाय भत्तो
महा-निदेशक	महानिदेशकः	डाइरैकटर-जैनरल	निगराने-आला	नॉज़िमि आला	डाइरेकटर जनरल	मुख्य संचालक, डायरेक्टर	डायरेक्टर जनरल, मुख्य नियामक	महानिदेशक
मानदंड	मानदण्डः	मानदंड/ कसवट्टी	मेयार	मयार	माणु, मापो	प्रमाण, मानदंड	मानदंड, मापदंड	मानदंड
मान्यता-प्राप्त	मान्यताप्राप्त, मानितः	मानता-प्रापत	तस्लीमशुदा (मंजूरशुदा)	मोनमुत, तसलीम-कोरमुत	मान्यता हासिल कयलु	स्वीकृती-प्राप्त, मान्यता-प्राप्त	मान्यता-प्राप्त	मान्यताप्राप्त
मिसिल	सञ्चिका	मिसल	मिसिल	मिसल, फाइल	फाइल	फाइल	फाईल	मिसिल
मुख्यालय	मुख्यालयः	मुख दफतर	सद्र मक़ाम (सद्र दफ़्तर)	हेंड आफिस, सदुँर दफ़तर	हेड आफ़ीस	मुख्य ठाणे, हेड क्वार्टर	वडी कचेरी	मुख्यालय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महँगी भत्ता	माग्गिभाता, महार्घभाता	महगीया बानच, महग-संक्रांत भाता	डी. ए., डियारनेस एलावेन्स	महरग-भत्ता	करुवुबर्त्तमु	अगविलैप्पडि	क्षाम बत्त	तुट्टि भत्ते
महानिदेशक	महानिर्देशक	संचालक प्रधान, महाकार्य-निर्देशक	डिरेक्टर जेनरेल	महानिर्देशक	डयरक्टर् जनरल	तलैमै इयक्कुनर्	डयऱक्टर् जनऱल	महानिर्देशक
मानदण्ड	मानदण्ड	मानदंड	लमजै	मानदंड	कॉलबद्द	अळवुकोल्	मानदंडम्, अळवुकोल्	मानदंड, अळतगोलु
मान्यता-प्राप्त	मान्यताप्राप्त, स्वीकृतिप्राप्त	स्वीकृति-प्राप्त, अभिज्ञात	शक्खङ्लबा	मान्यताप्राप्त, स्वीकृत	गुर्तिंपु पॉदिनॅ	अंगीकरि-क्कप्पट्ट	अंगीकृतम्	मान्यते पडेद
मिसिल, फाइल	नथि, फाइल	नथिगोट, फाइल	चेन्याङ, फाइल	तालिका, नथि	फैलु	कोप्पु	फयल्	कडत, फाइलु
सदरमुकाम, मुख्यालय	मुख्यालय (क्ख), प्रधान कार्जालय (र्या)	प्रधान कार्यालय	हेड ओफिस	मुख्यालय	प्रधानॅ कार्यालयमु	तलैमै अलुवलगम्	मुख्यालयम्	मुख्य कार्यालय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मोहर	मुद्रा	मोहर	मोहर	मोहर	मुहर	शिक्का, मोहर	महोर, सिक्को	म्होर, शिक्को
यथा-प्रस्तावित	यथाप्रस्तावितम्	तजवीज़े अनुसार	हस्बे-तजवीज़	युथतजवीज़, हसबि-तजवीज़	प्रस्ताव मूजिब, ठहिराव मूजिब	जसे सुचाविलेले आहेतसे, यथा प्रस्तावित	ठराव्या प्रमाणे	यथाप्रस्तावीत
यथासंभव	यथाशक्य, यथाशक्यम्	यथासंभव	हत्तलइमकान	युथा मुमकिन आसि, हतुल इमकान	यथासंभव, हर मुम्किन	यथासंभव	यथासंभव, शक्यतामुजब	यथासंभव
यथा-संशोधित	यथासंशोधितम्	सोधे अनुसार	हस्बे-तरमीम	हसबि-तरमीम	सुधारियल मूजिब	जसे शुद्ध किंवा दुरुस्त केलेले, आहे तसे	सुधार्या प्रमाणे	यथा संशोधित
यथासमय	यथाकालम्	समे अनुसार	बरवक़्त, बरमहल	वकतुं मूजूब	वक़्त ते, वक़्त सिरि	योग्य वेळी, यथासमय	समय प्रमाणे, समय मुजब, योग्य समय	योग्य वेळी
यात्रा भत्ता	यात्राभृतिः	सफर भत्ता	सफ़री भत्ता	सफर अलोंस	मुसाफ़िरी भतो	प्रवास भत्ता	मुसाफरी भत्तुं (थ्थुं)	यात्रा भत्तो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोहर, टक, छापा	मोहर, सील	मोहर	सील, स्तांप	मोहर, सील	मुद्र, सीलु	मुद्दिरै/ सील्	मुद्र, सील्	मुद्रे
यथा प्रस्तावित	यथा- प्रस्ताबित (ज)	यथा- प्रस्तावित	मताङ् चाना होदोक्लबा	जथा- प्रस्ताबित	सूचिंचिन प्रकारं	मुन्मॊळिंद पडि	निर्देशिच्च प्रकारम्	प्रस्ताविसिदंते
यथासम्भव	यथासंभब (ज)	यथासंभव	हेक यारिबमखै, ङमलिबमखै	जथासंभब	साध्य- मइनंतवरकु	मुडिंदवरै	कळियुम् विधम्	साध्यवादष्टु
यथा संशोधित	यथा- संशोधित	यथा- संशोधित	शेमदोक्लबा, चुमथोक्लबा	जथा- संशाधित	सवरिंचिन विधंगा	मरुआय्वु शेय्द पडि	माट्टिय प्रकारम्, परिशोधिच्च प्रकारम्	संशोधितवादंते
यथासमय	यथासमय (ज)	यथासमय	मतम चाना	जथासमय ठिक समय	यथा समयमु	उरिय नेरत्तिल्	यथाकालम्	समयक्के सरियागि, निश्चित समयदंते
यात्रा- भत्ता	यात्रा भाता (ज), पाथेय, भ्रमण भाता	भ्रमण- बानच यात्रा अधिदेय, भ्रमण- भात्ता	टि. ए., ट्रेवेल आलावेन्स	जात्रा-भत्ता, पाथेय	दारिबत्तेमु	पयणप्पडि	यात्रप्पटि	प्रयाण-भत्ते

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
युक्ति-संगत	युक्त	बादलील, दलील नाल	मुदल्लल (माक़ूल)	मोकूल, मुनॉसिब	बादलील, माक़ूल	तर्क संगत, युक्तिसंगत	तर्कसंगत, वाजबी	तर्क संगत, युक्तीसंगत
योजना	योजना	योजना	मन्सूबा	मनसूबुँ	योजना, रिथा	योजना	योजना	योजना
राजपत्र	राजपत्रम्	गज़ट, राजपत्तर	गज़ट (सरकारी-वर्क़ीया)	गज़ठ	गज़ेट	राजपत्र, सरकारी पत्र	राजपत्र, सरकारी पत्र	राजपत्र
राजपत्रित	राजपत्रित	गज़टिड	गज़ेटेड	गज़िटिड	गज़ेटेड	गॅझेटेड, राजपत्रित	राजपत्रित	राजपत्रीत
राजस्व	राजस्वम्	माल/ मालीया	मालिया	मॉलिया, सरकॉर्य आमदॅनी	ढल, रेवेन्यू	महसूल, सारा	रेवेन्यू, महेसूल	राजस्व
राज्यपाल	राज्यपाल:	राजपाल	गवर्नर	गवरनर	राज्यपालु, गवर्नर	राज्यपाल, गव्हर्नर	राजपाल, राज्यपाल, गवर्नर	राज्यपाल
राज्यसभा	राज्यसभा	राज सभा	राज्य सभा	राजि सबा	राज्य सभा	राज्य सभा	राजसभा, राज्यसभा	राज्यसभा
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति:	राशटरपती	सद्रे मम्लकत (राष्ट्रपति)	राष्ट्रपती, सदरि जामहूरिया	राष्ट्रपती	राष्ट्रपती	राष्ट्रपति	राष्ट्रपती

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
युक्ति–सङ्गत, युक्तिपूर्ण	युक्तिसंगत (ज)	युक्तिसंगत	मता चान्नबा	जुक्ति संगत	युक्तियुक्ततमु	अरिवुक्कु उगंद	युक्तिक्कोत्त	योग्य
योजना	योजना (जो)	योजना	थौराङ्	जोजना	प्रणळिकें	तिट्टम्	पद्धति	योजने
राजपत्र	सरकारी घोषण पत्र, घोषपत्र	राजपत्र	लोयशङगी चे	राजपत्र	गॅजॆटु	अरसिदळ्	गसट्टड्	राजपत्र, गॅजॆट्
राजपत्रित	घोषित	राजपत्रित	गेजेटेड ता याओरबा	राजपत्रित	गेजॆटॆडु	अरसिदळ् पदिवुळ्ळ	गसट्टड	गॅजॆटॆड्
राजस्व, राजकर (स्स)	राजस्व, रेभिनिउ	राजस्व, राजह	राज्य गी चागा	राजस्व	रिविन्यू	वरुवाय् वरि	रवन्यू, निकुति	राजस्व, आदाय
राज्यपाल	राज्यपाल (ज्ज)	राज्यपाल	राज्यपाल	राज्यपाल	गवर्नरु	आळुनर्	राज्यपालन्, गवर्णर्	राज्यपाल
राज्यसभा	राज्यसभा (ज्ज)	राज्यसभा	राज्य सभा	राज्यसभा	राज्य सभ	मानिलंगळ् अवै	राज्यसभ	राज्यसभॆ
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	कुडियरसु-तलैवर्	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रिक्ति	रिक्तिः	खाली थां	ख़ाली आसामी	खॉली असॉम्य	ख़ाली जगह	रिकामी जागा, वेकन्सी	खाली जग्या	रिकामी
रोकड़ज़मा	मुद्रानिक्षेपः	रोकड़ जमा	रोकड़ जमा	आमदॅनी- तुँ खरचुक- जमा	रोकड़ जमा	रोकड़ जमा	रोकड़ जमा	रोकड जमा
रोकड़बही	मुद्रापञ्जिका	रोकड़ बही	रोकड़ वही	कैशबुक, बही	रोकड़ बही, रोकड़ खातो	रोख रकमेच्चा हिशेबाची वही	रोकड़मेळ	रोकड वही
रोजगार	वृत्तिः	रोज़गार	रोज़गार	रोज़गार	रोज़गार	पोटापाण्याचा, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार	रोज़गार	रोजगार
लिखित	लिखित	लिखित	तहरीरी	दरुॅज	लिखियलु	लेखी, लिहिलेले	लखेंलु, लिखित	लिखित
लिपिक	लिपिकरः	कलरक	मुहर्रिर, क्लर्क	कुॅलॉरुॅख	क्लार्क, लेखारी	कारकून, क्लार्क, लेखनिक	कारकुन	लिपीक
लेखन सामग्री	लेखन सामग्री	लेखण सामग्री/ सटेशनरी	सामाने- तहरीर (स्टेशनरी)	लेखन सामानुॅ	स्टेशनरी	स्टेशनरी, लेखन सामग्री	लेखन सामग्री, लेखन साहित्य	लेखन सामग्री

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रिक्ति, खाली ठाउँ	रिक्त, खालि (पद)	रिक्ति, पद-रिक्ति, काम-खाली	अहाङ्बा फम	रिक्त, खालि	खाळी	कालि इडम्	आंळिवुं, जोलियांळिवु	खालि, रिक्तते
नगद जमा, रोकड जमा	रोकड़जमा, नगदजमा	नगदजमा	केश बुक्रता हापचिन्बा, रेस्तार केश	तहबिल जमा, नगद जमा	नगदु जमा	कैइरुप्पु	मुन्निरुप्पु	नगदु जमा
रोकड-बही, नगदी-बही	रोकड़ बइ, नगद खाता	नगदखाता	केश बुक	रोकड़बहि, तहबिल-वहि	खाता पुस्तकमु	पणक्कुरिप्पेडु	काष् रजिस्टर्	नगदुपुस्तक
रोजगार	रोजगार	नियोग, कर्म-नियोग	थबक	रोजगार, उपार्जन, आय	उद्योगमु, पनि	तांळिल्	तांळिल	उद्योग, नौकरि
लिखित	लिखित	लिखित	अईबा	लिखित	लिखितँ मैनँ	एंळुत्तुमूलम्,	एंळुतिय, रेखामूलम्	लिखित, बरॅदू
लिपिक, लिपिकार, लेखनदास	लिपिकार, केरानी	काकती, केराणी	केरानी, क्लार्क	किरानि, बिराण	गुमास्ता	एंळुत्तर् (गुमास्ता)	क्लार्क, गुमस्तन्	गुमास्त, क्लर्क्
लेखन-सामग्री	लेखनसामग्री	लेखनसामग्री	ईनबा मचाक, स्टेश्नरी	लेखनसामग्री	लेखनँ सामग्रि	एंळुदुपांरुळ्	स्टेषणरि	लेखन सामग्रि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
लेखा परीक्षक	लेखा-परीक्षक:	लेखा-पड़तालकार	तन्क़ीहसाज़, मुहासिब	आडिटर	आडीटर लेखो जाचींदड़ु	हिशेब तपासनीस, ऑडिटर	हिसाब चोकसी, हिसाब तपासनार	लेखा परीक्षक
लेखा परीक्षा	लेखापरीक्षा	लेखा पड़ताल	तन्क़ीह (तन्क़ीहसाज़ी)	आडिट	आडिट, लेखो जाच	हिशेब तपासणी, ऑडिट	हिसाबनी तपास	लेखापरीक्षा
लेखापाल	लेखापाल:	लेखापाल	मुहासिब	आडिटर	अकाऊंटंट, लेखोपाल	हिशेबनीस, अकाउंटंट	हिसाबनीश	लेखापाल
वरिष्ठ	वरिष्ठ	सीनीअर, जठेरा	आला, बरतर	ज्युठ थोंद	वडो, बाला, जेठ, सीनियर	मुख्य, वरिष्ठ	सिनियर, ज्येष्ठ	वरिष्ठ
वसूली	उद्ग्रहणम्	वसूली	वुसूली	वोंसूली	वसूली	वसूली, प्राप्तव्य	वसूलात	वसूली
विचाराधीन	विचाराधीन	विचार अधीन	ज़ेरे-ग़ौर	ज़ेरि गोर	वीचार हेठि	विचाराधीन	विचाराधीन	विचाराधीन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लेखा-परीक्षक	निरीक्षक (क्ख), हिसाब परीक्षक	गणना बा हिचाब परीक्षक, हिचाप-परीक्षक, लेख निरीक्षक	ओडितर, चागा-चादिङ्गी हिसाब येङबा मी	निरीक्षक	आडिटरु	कणक्कु तणिक्कैयाळर्	आडिट्टर्	आडिटर् परिशोधक, लक्क-परीक्षक
लेखा-परीक्षा	निरीक्षा (क्खा), गणनापरीक्षा (न) (क्खा)	गणना बा हिचाब परीक्षा	ओडिट, चागा-चादिङ्गी हिसाब	लेखापरीख्या	आडिटिंगु	कणक्क तणिक्कै	आडिट्ट्	आडिट
लेखापाल	लेखपाल, (क्ख) हिसाबरक्खक	गाणनिक हिचाबरक्षक	अकाऊंटेट, ओडिटर	हिसाब रक्षक	अकौंटटु	कणक्कर्	अक्कौण्टन्ट्	आडिटर
वरिष्ठ	वरिष्ठ (ब)	उच्च, ज्येष्ठ	मथक् थोङ्बा	बरिष्ठ, उच्च	सीनियरु	उयर्निलै/ मेलदिकारि	सीनियर्	वरिष्ठ हिरिय
असुली	उसुल करा, आदाय	ओवाचिल, संग्रहण	कुपखतपा, खोमगत्पा	आढाय	वसूलु	वसूल्	वसूल्	वसूलि
विचाराधीन	बिचाराधीन	बिचाराधीन	खन्नरिबा, नैनरिबा	बिचाराधीन	विचाराधीनं-मैनं	परिशीलनैयिल् उळ्ळ	परिगणनयिल्	विचाराधीन

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विचारार्थ	विच़ारार्थम्	विचार लई	बराय ग़ौर	व्यचारुँ- ख्यॉतुँरुँ, गोर करनुँबापथ	वीचार लाइ	विचारार्थ	विचारार्थे	विचारार्थ
विज्ञप्ति	विज्ञप्ति	अधिकारत घोशणा, ·विग्यपति	ऐलानिया (ऐलान)	खबर, इतलाह	पधरनामो ज़ाहिरात	जाहिरात, निवेदन	जाहैरात, निवेदन	विज्ञप्ति, विनंती, जायरात, नोटिस, सूचना
वित्त	वित्तम्	वित्त	मालियात	मॉलियथ	मालियात नाणो	संपत्ती, पैसा, वित्त	वित्त, धन, नाणुं	वित्त-संपत्ती
विदेशी मुद्रा	वैदेशिक-मुद्रा	बिदेशी मुदरा	ज़रेमुबादला	ज़रि मुबादलुँ	परडे़ही नाणो	विदेशी मुद्रा, विदेशीनाणे	विदेशी नाणुं	विदेशी मुद्रा
विधान	विधानम्	विधान	क़ानून (क़ानून-साज़ी), आईन	कोनून	विधान, जोड़जक	विधान, कायदा	बंधारण	विधान
विधिमान्य	विधिमान्य	जाइज़	क़ानूनी (जाइज़)	कोनूनी, जॉयिज़ुँ	कानून-मूजिब, जाइज़	कायदेशीर	कायदेसर, धोरणसर	विधीमान्य
विधेयक	विधेयकः	बिल, विधेंक	बिल (मुसव्वदाए-क़ानून)	बिल	बिलु, विधेयक	कायद्याचा मसुदा, बिल	बिल, नवा कायदानो खरडो, विधेयक	विधेयक
विनिमय	विनिमयः	वंटादरा	मुबादला	अदलुँ-बदल	मटा-सटा	देवाण-घेवाण, विनिमय	विनिमय, बदलो, आप-ले	देवाण-घेवाण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विचारार्थ	बिचारार्थ	बिचारार्थ	–	बिचारार्थ	विचारार्थमु	परिसीलनैक्काग	परिगणनय्क्कु	विचारार्थ
विज्ञप्ति	विज्ञप्पि (ग्गॅ)	बिज्ञप्पि	खङ्हनजबा	बिज्ञप्ति, सुचना, नोटिस	विज्ञप्ति	सेय्ति अरिविप्पु	कम्युणिक्कं, विज्ञप्ति	प्रकटणं, विज्ञापनं
वित्ति, अर्थ, सम्पत्ति	वित्त (ब), धन, अर्थ	बित्त	शेन थुम	बित्त, धन, संपत्ति	द्रव्यमु	निदि	संपत्तुं, धनम्	वित्त, हणकासु
विदेशी-मुद्रा	विदेशीमुद्रा (ब)	बिदेशीमुद्रा	मीरैबाक्की शेन	बिदेशीमुद्रा	बिदेश द्रव्यमु	अन्निय चॅलावणि	विदेशनाणयम्	विदेशि मुद्रा
विधान	विधान, नियम (ब)	बिधान, नियम	आइन, विधान	बिधान, नियम	विधानमु	चट्टम्	व्यवस्थ	विधान
विधिमान्य, कानुनसम्मत	विधिसम्मत (ब), आइन सम्मत	बिधिगत, बिधिमान्य, बिधिसम्मत, आइन पुष्ट	आइनगी ओइबा	बिधिमान्य, विधिसम्मत	चट्टबद्धमैन	चट्टप्पडियान	साधुत/ विधिमान्यम्	कायदेशीर
विधेयक, बिल	विधेयक, बिल (ब)	बिधेयक	बिल	बिधायक	बिल्लु	चट्टमुन्वडिवु	बिल्	विधेयक, बिल्लु
विनिमय	बिनिमय (ब)	बिनिमय	ओन्थोक्पा	बिनिमय, बदल	विनिमयमु	परिमाट्टम्	विनिमयम्	विनिमय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विभाग	विभागः	विभाग	महकमा (शोबा)	मॅहकमुँ	विभागु, खातो	विभागु	विभाग	विभाग
विमानन	उड्डयनम्	हवाबाजी, विमान संचालन	हवाबाज़ी	हवा बॉज़ी, जहाज़रॉनी	हवाबाज़ी, विमान संचालन	विमानन	विमानन	विमानन-विमानविद्या
वेतन	वेतनम्	वेतन, तनखाह	तनख़ाह (मुशाहरा)	तनख़ा, तलब	पघार, तनख्वाह	पगार	वेतन (पगार)	पगार/पाग
वेतनमान	वेतनमानः	ग्रेड/सकेल तनखाह	शरहे-मुशाहरा	ग्रेड	ग्रेड, वेतनमान	पगार श्रेणी	पगार-धोरण	पगार श्रेणी
वेतन-वृद्धि	वेतनवृद्धिः	तनखाह तरक्की	इज़ाफ़ा-तनख़ाह	तनखाह हुर्यर	पघार वाधि	पगार वाढ	पगार वधारो	पगार वाड
वैध	वैध	कानूनी तौर ते जाइज	क़ानूनी, जाइज़	कोनूनी, जॉयिज़	कानूनी, जाइज़	सगदशीर, कायदेशीर	कायदेसरनुं	कायदेशीर
व्यक्तिगत	वैयक्तिक	विअकतीगत/ ज़ाती	निजी (ज़ाती)	ज़ॉती	शख़्सी	व्यक्तीगत	व्यक्तीगत	व्यक्तीगत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विभाग, प्रभाग	बिभांग (ब)	बिभाग	डिपार्टमेन्ट, लोयशङ्	बिभाग	विभागमु	पिरिवु/ तुरै	विभागम्, वकुप्पुं	विभाग
विमानन	बिमानचालन (ब) मादूना	विमानन	नोङथक्त पाइबा	बिमान चालना	विमानँ चालनमु	विमानत्तुरै/ विमान- प्पोक्कुवरत्तु	विमाननम्	विमानन
तलब, वेतन	बेतन, माइना	दरमहा, बेतन	तोलोब, पे	बेतन, दरमा	जीतमु, वेतनमु	संबळम/ ऊदियम्	शंपळम्	संबळ, पगार
वेतनमान, तलबक्रम, दरबन्दी	बेतनहार (ब)	बेतनमान, बेतनर निरिख	पे स्केल	बेतनमान	वेतनँ प्रमाणमु	संबळविहितम्, ऊदियविहितम्	शंपळ निरक्कुँ	वंतनश्रेणि
तलबवृद्धि	वेतनबृद्धि	बेतन-बृद्धि, दरमा वृद्धि	तोलोप हेन्गत्पा	बेतनबृद्धि	वेतनँ वृद्धि	संबळ उयर्वु/ ऊदिय उयर्वु	शंपळक्कयट्टम् इनुक्रिमंन्ट्	वंतनवृद्धि
वैध, कानुनी	वैध, (ब) आइत सम्मत	बैध, आइन- संगत, विधि- सम्मत	आइनगी ओइबा	वैध, आइन- संगत, न्याय- संगत	चट्ट सम्मतमैन	चट्टप्पडियान	नियमानुसृतम्	कायदंशीर
व्यक्तिगत	ब्यक्तिगत	ब्यक्तिगत	लनाइगी ओइबा	ब्यक्तिगत	व्यक्तिगतमैन	तनियार्	व्यक्तिगतम्	व्यक्तिगत

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शपथ पत्र	शपथपत्रम्	सौंह-पत्तर, हलफीया बयान	हलफ़नामा	हलफनामुॅ	क़समनामो	प्रतिज्ञापत्र	सोगंदनामुं, सोगननामुं	सोपूत पत्र
संगत	सङ्गत	संगत	मुनासिब, माक़ूल	मोकूल	सही, वास्तेदार	सोबत, संगत	संगत, संबद्ध, अनुरूप, युक्त	सोबत, संगत
संदर्भ	सन्दर्भः	संदरभ	हवाला	हवालुॅ, मोजू	हवालो	संदर्भ	संदर्भ	संदर्भ
संयुक्त सचिव	संयुक्त-सचिवः	संजुगत सकत्तर	ज्वायंट सेक्रेट्री	जॉयिंट सकतर	जाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव	संयुक्त-सचीव	संयुक्त सचिव	संयुक्त सचीव
संस्तुति	संस्तुतिः	सिफारश	सिफ़ारिश	सुफॉरिश, तॉरीफ़	सिफ़ारिश	शिफारस, प्रशंसा	भलामण	शिफारस
संस्थान	संस्थानम्	संसथान	इदारा	अदारुॅ	संस्थान, इदारो	संस्था, इन्स्टीट्यूट	संस्थान	संस्थान
संस्वीकृति	संस्वीकृतिः	मंजूरी	मंजूरी	मंजूरी	क़बूलियत, स्वीकृती, मंजूरी	स्वीकृती, मंजुरी	स्वीकार, मंजुरी	स्विकृती
सक्षम	सक्षमः	समरथ	अहल, क़ाबिल, (लायक़)	कॉबिल	वसवारो, समर्थ, समरथ	समर्थ, सक्षम	शक्तिशाळी (योग्य)	सक्षम

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शपथपत्र	शपथ-पत्र	शपत-पत्र	वाशक-चे	शपथ पत्र	शपथ पत्रमु	आणैच्चीट्टु	सत्यबाङ् मूलम्	प्रमाणपत्र, अफिडविट
सङ्गत, सही, मुनासिब	संगत	संगत	तिन्नबा	संगत, जुक्ति-जुक्त	संगतमु	उचितमान	उचितम्	सुसंगत
सन्दर्भ	संदर्भ	संदर्भ	मरि मखोङ्	संदर्भ, परिप्रेक्षी	संदर्भमु	संदर्प्पम्, ताक्कल	संदर्भम्	संदर्भ, उल्लेख
संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिब (जु)	संयुक्त/ जुटीया सचिब	जोइन्ट सेक्रेटरी	संजुक्त सचिब	संयुक्त कार्यदर्शि	इणै चेयलाळर्	जॉयिन्ट् सेक्रट्टरि	संयुक्त सचिव, जंटि कार्यदर्शि
संस्तुति, सिफारिश, अनुमोदन	सुपारिश, अनुमोदन	अनुमोदन छूपारिछ	फै हायना थागतपा, इखत्पा	अनुमोदन	रेकमंडेशनु	परिंदुरै	शुपार्श	शिफारसु
संस्थान	संस्था	संस्थान	संस्थान, इन्स्टिट्यूट	संस्थान	संस्थ	निरुवनम्	इन्स्टिट्यूट्	संस्थान
स्वीकृति, मन्जुरी	सम्यक-स्वीकृति (म्म) (सी)	संस्वीकृति, अनुमोदित, छुपारिछ	अयाबा	मंजूर, अनुमोदन	मंजूरु	ओप्पळिप्पु	संस्वीकृति	वप्पिगे
सक्षम, सुयोग्य, समर्थवान	सक्षम (क्ख), समर्थ (र्थो)	सक्षम	तौबा ङम्बा	सक्षम, समर्थ	अर्हतगल	तिरुमैयुळ्ळ	अर्हन्, समर्थन्	सक्षम

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सचिव	सचिवः	सकत्तर	मोतमद (सेक्रेट्री)	सकतर	सेक्रेटरी, सचिव	सचीव	मंत्री (अमात्य, प्रधान, वजीर)	सचीव
सचिवालय	सचिवालयः	सकत्तरेत	दफ़्तरे-मोतमदी (सेक्रेट्रीएट)	स्यक्ट्रेट	सेक्रेटरियट, सचिवालय	सचिवालय, सेक्रेटरियट	सचिव (मंत्री) नुं कार्यालय (सेक्रेटेरियट)	सचिवालय
समन्वय	समन्वयः	सुमेल	हम आहंगी (तालमेल)	हम आहंगी, तालमेल	गांढापो, मेल मेलाप	एकत्रीकरण, एकता, समन्वय	समन्वय	समन्वय
समयोपरि भत्ता	अधिभृतिः	ओवर टाइम, अधिसमां	ज़ाइदवक्ती भत्ता (ओवरटाइम अलाउंस)	ओवर टाइम मज़ीद, वखतुक अलोंस	ओवर टाईम, ज़्यादावक्त भतो	जास्त वेळेचा भत्ता, ओव्हरटाइम	ओवर टाइम भथ्थुं	ओवरटाईम भत्तो
समाज-कल्याण	समाज-कल्याणम्	समाज-कलिआण	समाजी बहबूद	समॉजी बेहबूद	समाज-कल्याण	समाज कल्याण	समाज कल्याण	समाज-कल्याण
सलाहकार	परामर्श-दाता	सलाहकार	मुशीर	सलाहकार	सलाहकारु	सल्लागार	सलाहकार	सल्लागार
साक्ष्यांकन	प्रमाणीकरण	तसदीक़	तसदीक़ (शहादत)	गवॉही	तसदीक़, गवाही	साक्षीची नोंद	साक्षीनी सही	साक्षीची नोंद, गवायेची नोंद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सचिव	सचिब, (संपादक)	सचिब	सेक्रेटरी	सचिब	कार्यदर्शि	चॅयलाळर्/ कारियदरिसि	सॅक्रट्टरि	कार्यदर्शि, सचिव
सचिवालय	सचिबालय	सचिबालय	सेक्रेटरियेट	सचिबालय	सचिवालयमु	सॅयलगम्	सेक्रट्टरियेट्टु	सचिवालय
समन्वय	समन्बय (न्न), एकत्रिकरण	समन्वय	चान्न-चिन्नना लैमिन्नबा	समन्वय, एकता	समन्वयमु	ऑरुङ्-गिणैप्पु	समन्वयम्	समन्वय
समयोपरि-भत्ता, आलाउन्स	समयोपरिभाता, अधिक समय काजेर भाता	समयोपरि बानच भात्ता	ओवरटाइम आलाउन्स	अतिरिक्त समय भत्ता	ओवर-टाइम भत्ता	मिगैनेरप्पडि, कूडुतल् नेरप्पडि	ओवरटैम अलवन्स्	ओवर टैम भत्य, हॆच्चिगॆ समयद भत्य
समाज-कल्याण	समाज-कल्याण (न)	समाज-कल्याण	समाज कल्याण, सोसियेल वेलफियर	समाज कल्याण	संघ संक्षेममु	समूह नलन्	सामूह्य-क्षेमम्	समाज कल्याण
सल्लाहकार	परामर्शदाता, एडभाइसर	उपदेष्टा, परामर्शदाता	एडभाइजर	उपदेष्टा, परामर्शदाता	सलहादारु	आलोचकर्	उपदेष्टावॅ	सलहॆगार
सत्यापन, साक्षकरण, साक्ष्याङ्कन	प्रत्यायन, (त्ता), प्रमाणीकरण (नी)(न)	प्रत्ययन, साक्ष्यांकन	साक्षी ओइबा, चुम्मे हायबा	प्रमाण करिवा	अटॅस्टेशनु	सान्रॉप्पम्	साक्ष्यप्पॅटुत्तल्	प्रमाणित रुजुवात

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सामुदायिक विकास	सामुदायिक-विकास:	समूहक विकास	इज्तिमाई तरक़्क़ी	मजमूई तरकी	पंगती वाधारो	सामूहिक विकास	सामुदायिक विकास	जमाते चो विकास
सीमा-शुल्क	सीमाशुल्कम्	सीमाकर	महसूल राहगीरी	मोहसूल-गुज़र	नाके महसूल	सीमेवरील कर, जकात	नाकावेरो	जकात
सूचना-पट्ट	सूचनापट्टः	नोटिस बोरड	नोटिस बोर्ड	नोटस बोड	नोटिस बोर्ड	सूचनाफलक	नोटिस-बोर्ड	सुचना फलक
सेवा	सेवा	सेवा	ख़िदमत (मुलाज़मत)	खॅदमथ, नौकरी, मुलॉज़िमथ	नौकरी, सेवा, सर्विस	सेवा, नौकरी	सेवा, नोकरी	सेवा, नोकरी
सेवापंजी	सेवा पुस्तिका	सेवा-पत्तरी	सर्विस-रजिस्टर	सॅरविसबुक, मुलॉज़िमतुक-रिकाड-बुक	सर्विस बुक, सेवा पुस्तक	नोंदलेली चाकरी वा सेवा रजिस्टर	सेवा रजिस्टर	सेवा रजिस्टर
सेवा-पुस्तिका	सेवापञ्जिका	सेवा-पत्तरी	सर्विस-बुक	सॅरविसबुक, मुलॉज़िमतुक रिकाड-बुक	सर्विस बुक, सेवा पुस्तक	मस्टर, सेवापुस्तिका	सेवा पोथी	सेवा पुस्तिका

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सामुदायिक-विकास	साक्षकरण, बिकास, सर्बजनीन बिकास	सामूहिक बिकास	काङलूप की चाओखत्पा	सामुदायिक बिकाश, सामुहिक बिकाश	सामुदायिक विकासमु	समुदाय वळर्च्चि	सामूह्य विकसनम्	समुदायिक विकास
सीमाशुल्क, सीमाकर	बहि:शुल्क, सीमाशुल्क	सीमा-शुल्क	ओकट्रोय, सहर दा पोत् पूशिल्लकपगी लौबा टेक्स	सीमा-शुलक (कर)	सरिहद्दु शुल्कमु	चुंगवरि/ चुंगत्तीर्वै	चुंकम्	सीमाशुल्क
सूचनापाटी	नोटिस-बोर्ड, सूचना-पट्ट	सूचनाफलक	नोटिस-बोर्ड	सूचना फलक	प्रकटन फलकमु	अरिविप्पु पलगै	नोटीस् पलक, नोट्टिस् बोर्ड	नोटीसु बोर्डु
सेवा	सेबा, चाकुरि, सर्बिस	सेवा	थबक, सेबा	सेबा	उद्योगमु	पणि	सर्वीस्, सेवनम्	सेवे
सेवापञ्जी	सेवा-तालिका, सर्बिस लिस्ट	सेवा पंजी, सेवा तालिका	सर्बिस-बुक, सर्बिस-रेजिस्टर	सेबा तालिका	सर्वीसु रिजिस्टरु	पणिप्पदिवेडु	सर्वीस्, रजिस्टर्	सेवा रजिस्टर
सेवा-पुस्तिका	कृत्यक बहि, सर्बिसबुक	सेवा-पुस्तिका, सेवा-पुस्तक	सर्बिस-बुक	सेबा-पुस्तक	सर्वीसु पुस्तकमु	पणिप्पदिवेडु	सर्वीस् बुक्कु	सेवा पुस्तक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सेवा में	प्रति	सेवा विच	बख़िदमत	बॅख़ॅदमत, ख़ॅदमतस मंज़	सेवा में	सेवेंत, सेवेशी	प्रति	सेवेक
स्थानांतरण	स्थानान्तरणम्	थां-बदली, तबदीली	तबादला	तबादुलुॅ, ट्रांसफर	बदिली	बदली	स्थानांतर, स्थळांतर	स्थानांतरण, बदली
स्थानीय प्राधिकारी	स्थानीय-प्राधिकारी	सथानिक अथारिटी	मुक़ामी हाकिम	मुकॉमी हॉकिम	मकानी अमलदारु	स्थानिक अधिकारी	स्थानिक सत्ताधिकारी	स्थानीय प्राधिकारी
स्थानीय स्वायत्त शासन	स्थानीय-स्वायत्त-शासनम्	सथानिक सवै-शासन	मुक़ामी हुकूमते, खुद इख़्तियारी	मुकॉमी होकूमथ	खुद मुख़्तियार हुकूमत	स्थानिक स्वायत्व शासन पद्धति, ऑटोनामी	स्थानिक स्वायत्त शासन पद्धति	स्थानीक स्वायत्त शासन
स्थापना	स्थापना	स्थापणा	क़याम	कॉयिम करुन	स्थापना	स्थापना	स्थापना	स्थापना
स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरणम्	सपशटी-करण, जवाब-तलबी	तौजीह वज़ाहत	वज़ाहथ, जवाब तलबी	समुझाणी	स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण, खुलासो	स्पश्टीकरण
स्वतःपूर्ण	स्वतःपूर्ण	सुतेपूरण	खुद-मुक्तफ़ी	पॉन्यपानुॅ पूरुॅ	पाण में मुकमिल, सुतेपूरन	स्व पूर्ण, संपूर्ण	स्वयं संपूर्ण	स्वयं संपूर्ण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सेवामा	सेवाय, सेवार्थे	सेवात	मफम दा	सेबारे	सेवॅ लो	अवर्गळुक्कु/ पॅरुनर्	समक्षम्	बळिर्ग, सन्निधानक्कॅ
सरुवा, स्थानान्तरण	स्थानांतरण (न), बद्ली	बदलि, स्थानांतरण	मफम होङ्बा, ट्रांसफार	स्थानांतरण	मार्पु, बदिली	इडमाट्टम्	स्थलम् माट्टम्	वर्गावर्ण
स्थानीय प्राधिकारी	स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय अधिकारी	स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी	लम-लमगी ओइबा ऑफिसर	स्थानीय अधिकारी	स्थानिका-धिकारि	उळ्ळूर् अदिकारि	स्थलत्ते अधिकारि	स्थानीय प्राधिकारि
स्थानीय स्वायत्त-शासन	स्थानीय स्वायत्त-शासन	स्थानीय स्वायत्त-शासन	मशाना मशाबु शासन तौजबा	स्थानीय स्वायत्त-शासन	स्थानिकॅ स्वपरिपालनॅ	तल सुय आट्चि	प्रादेशिक स्वयम् भरणम्	स्थानिक स्वयं शासन
स्थापना	स्थापना, प्रतिष्ठा	स्थापना	लिखत्पा	स्थापना	स्थापनॅ	निर्वाह˜प्पिरिवु	एस्टाब्ळिष्मॅन्ट्	स्थापनॅ
स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण (न), क्लारिफिकेशन	स्पष्टीकरण	शेङ्दोकपा, मयेक शेङ्ना ताक्पा	स्पष्टीकरण	समजाइषी	विळक्कम्	विशदीकरणम्	स्पष्टीकरण
स्वत:पूर्ण	स्वत: पूर्ण (स) (नॅ), स्वयं संपूर्ण, संपूर्ण	स्वयं संपूर्ण	पेन्थोकचबा	स्वत:पूर्ण	स्वत: पूर्णमइनॅ	तन्निरैवुळ्ळ	स्वयं पूर्णम्	स्वयं पूर्णवाद

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
स्वविवेक	स्वविवेक:	सवै-विवेक	ज़ाती सवाबदीद	पनुॅन्य बोंद	ख़ुद शनासी	स्वविवेक	आत्मनिर्णय	स्वविवेक
स्वायत्त	स्वायत्त	खुद मुखतार	ख़ुदमुख़्तार (ख़ुदकफ़ील), आज़ाद	खोंदमोंखतार	ख़ुदमुख़्तियार	स्वायत्त	स्वायत्त, स्वाधीन, पोतानी हकूमत	स्वायत्त
हवाला	सन्दर्भ:	हवाला	हवाला	हवालुॅ	हवालो, संदर्भ	पुरावा, आधार, दाखला, हवाला	हवालो	हवालो
हस्तांतरण	हस्तान्तरणम्	बदली, हथबदली	मुंतक़िली (इंतिक़ाल)	बेयिस-द्युन	ब़िए जे हवाले करणु, हथबदल	हस्तांतरण	सोंपणी	हस्तांतरण
हस्ताक्षर	हस्ताक्षरम्	हसताखर, दसखत	दस्तख़त	दसखथ	सही, दस्तख़त	सही, स्वाक्षरी	सही, दस्कत	हस्ताक्षर, स्वाक्षर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वविवेक	स्वबिबेक, आत्म बिश्लेशन	स्व-विवेक (स), विचार, आत्मनिर्धारण	मशाना अफ-फत खन्जबा ङम्बा	स्वयं संपुर्ण, आत्मनिर्णय	स्वतँ विवेकमु	सॉन्द अऱिवु	स्वविवेकम्, अऱिवु	स्व-विवेचनँ, स्वयंपूर्ण
स्वायत्त	स्वायत्त (सा), स्वयं-ओकालति	स्वायत्त, निजर अधीन	लनाइ पान्जबा, लनाइ शासन तौजबा	स्वायत्त	स्वायत्तमैन	तन् आट्चि उरिमैयुळ्ळ	स्वायत्तम्, स्वशासितम्	स्वायत्त
उल्लेख, दृष्टान्त	अधिकार, उल्लेख, आधार, निर्देश, दृष्टांत	साक्ष्य, साखी	शिन्नबा, लैफम नत्रगा प्रमाण गीदमक उत्पा नत्रगा पीबा	प्रमाण, दृष्टान्त, दायित्व भार	हवाला, निर्देशमु	पॉरुप्पु	परामर्शम्	संदर्भ
हस्तान्तरण, हातेसारी	हस्तांतरण (न), हात बदल	हस्तातंर	अतोप्पगी खूत्ता पीबा, अतोप्पगी खूत्ता शिन्नबा	हस्तांतरण	हस्तांतरण	कै माट्टुदल्	कैमाट्टुम्	हस्तांतरणं
सही, दस्तखत, हस्ताक्षर	हस्ताक्षर (क्ख), सहि	हस्ताक्षर, चही	सोइ, सही	हस्ताख्यर (हस्ताक्षर)	चेव्रालु, संतकमु	कैयॉप्पम्, कैयॅळुत्तु	कय्यॉप्पुं	रुजु, सही, हस्ताक्षर

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बैंक संबंधी शब्द	**धनागार-सम्बन्धि-शब्दाः**	**बैंक संबंधी शब्द**	**इस्तिलाहात बाबत बैंक**	**बंक बाबत अल्फ़ाज़**	**बैंक संबंधी शब्द, बैंक बाबत लफ़्ज़**	**बँक संबंधी शब्द**	**बेंक संबंधी शब्द**	**बैंक संबंदी शब्द**
अग्रिम	अग्रिमराशि	पेशगी	पेशगी	पेशगी	पेशगी	आगाऊ	पेशगी, पेशगीनी रकम	आगाऊ
इनामी योजना	पुरस्कार-योजना	इनामी योजना	इनामी स्कीम	यनॉमी सिकीम	इनामी योजना, इनामी रिथा	पारितोषकाची योजना	इनामी योजना	इनामी येवजण
उधार	ऋणम्	उधार	क़र्ज़ (उधार)	वोंजुम	उधार, ओधरि	कर्जाऊ, उधार	उधार	उधार
ऋण	ऋणम्	रिण	क़र्ज़	करुँज़	क़र्जु	कर्ज	देवुं	रीण
कर्ज़	ऋणम्	करजा	क़र्ज़	करुँज़	क़र्जु	ऋण	करज	उश्णे
खजांची	कोषपालः	ख़ज़ानची	ख़ज़ान्ची	खज़ाँची	ख़ज़ांची	खजीनदार, कोषाध्यक्ष	खजानची	खजीनदार
खाता	लेखा	खाता	खाता	खातॖ	खातो	खाते वही	खातुं	खातें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बैङ्क-संबंधी शब्द	**ब्यांक संबंधित शब्द**	**बैंक संबंधी शब्द**	**बैंक का मरि लैनबा वाहै**	**बैंक संबंधीय शब्द**	**ब्यांकुकु संबंधिंचिनै पदालु**	**वंकि कलैच्यांररकळ्**	**बांक संबंधिच्च पदङ्ङळ्**	**वैंकिंग शब्दावलि**
अग्रिम रकम, पेस्की	अग्रिम, आगे देओया	अग्रिम, आगेये-दिया	बोइना	अग्रिम	अड्वान्सु, बयाना	मुन्पणम्	मुन्कूर्	मुंगड
इनामी-योजना	पुरस्कार-योजना (जो) (प्रकल्प)	पुरस्कार-युक्त योजना, बंटा-योजना	मना याओबा थौराङ्	पुरस्कार योजना	बहुमति पथकमु	वेहुमति तिट्टम्	सम्मान पद्धति	पुरस्कार योजने
उधारो, ऋण	धार, ऋण	धार, ऋण	शोत्पा, वायबा, पूबा	उधार	अप्पु, ऋणमु	कडन्	वाय्प	यरवलु
रिन, ऋण	ऋण (न), धार्र नेओया	ऋण, धार	तोन्बा, शेनदोन	रुण	ऋणमु	कडन्	वाय्प	ऋण
कर्जा, ऋण	कर्ज, धार, ऋण	ऋण, धार	पूबा	करज	अप्पु	कडन्	कटम्	साल
खजान्ची, कोषाध्यक्ष	खाजाञ्चि, कोषाध्यक्ष, धनरक्षक	कोषाध्यक्ष	लल्गै पान्नबा, शेलुङ्बा	खजांची, कोषाध्यक्ष	कोशाधिकारि	पोरुळाळर्	खजांचि	कोशाध्यक्ष
खाता	हिसाबेर खाता, बई	हिचाब-बही	हिसाब, अकाउण्ट	खाता, हिसाब बहि	खाता	कणक्कु	कणक्कुँ	खाते

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
गारंटी	प्रतिभूतिः	गरंटी	ज़मानत (गारंटी)	गारंटी, जिमुॅवॉरी	गारंटी, ज़िम्मेवारी	हामी, विश्वास गॅरंटी	गेरंटी (जामीन-गीरी), बांहेधारी	खात्री
चालू लेखा	चललेखा	चालू खाता	चालू खाता	चालू हिसाब	चालू खातो	करण्ट अकाउण्ट, चालू खाते	चालु खातुं	चालू खातें
चैक	धनादेशः	चैक	चैक	चक	चेक	धनादेश, चेक	चेक	चैक
जमा खाता	सञ्चय-लेखा	जमा खाता	जमा खात	जमा खातुॅ	जमा खातो	जमा खाते	जमा खातुं	जमाखातें
दर	मानः	दर	शरह	दर, शरह	अघु, भाउ	भाव, दर	दर	दर
दिवालिया	देयाक्षमः	दिवालीआ	दिवालिया	देवोल	ॾेवालो कढंदड़ु	दिवाळखोर	देवाळियो	दिवाळ्ें, बांकरूट
देनदारी	देयत्वम्	देणदारी	वाजिब (जिम्मेदारी), देनदारी	देनदॉरी	क़र्ज़दारी	कर्ज	देणदारी	रीणकारी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जमानत, जमानतदारी	जामीन, ग्याराण्टी, प्रत्याभूति, जामीन देओया (दार)	गेरांटि, प्रत्याभूति	गेरन्टी	ग्यारेंटी, जिम्मेदारी, प्रत्याभुति, निर्भरोक्ति	गारंटी	उत्तरवादम्	जाम्यम्, उरुप्पुँ	खातरि
चलती-खाता	चालु खाता, कारेंट एकाउन्ट	चलित हिचाब	चलरिबा हिसाब, करण्ट अकाउण्ट	चालु लेखा	करेंट अकौंटु	नडप्पुक्कणक्कु	करन्ट् अक्कौंण्ट्	चाल्ति लॆक्क
चेक	चेक, धनादेश	चेक, धनादेश	चेक	चेक, धनादेश	चॆक्कु	कासोलै	चॆक्	चॆक्
बचत-खाता	अमानत खाता, जमा खाता	जमाबही	सेभिङ् अकाउण्ट	जमाखाता (बहि)	जमा खाता	वरवु कणक्कु	वरवु कणक्कुँ	जमा खातॆ
दर	दर, दाम	दर, दाम	ममल	दर, दाम	रेटु	विहिदम्	निरक्कुँ	दर
दिवालिया, टाट उल्टेको	देउलिया, पॉपार (द्)	देउलिया	शेल मुत्पा	देबालिआ	दिवाला, तीसिनवाडु	दिवाल्, इन्साल्वेंट्	पापर्	दिवाळि
देनदारी	ऋण प्रत्यार्पण	दिबलगीया-अवस्था	पीगदबा, पीनिङाइ	देणादारी	इच्चुबाध्यत	पारुप्पुगळ्	बाध्यत	दायित्व हॊणॆ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
देयता	देयता	दाइता	वाजिब (ज़िम्मेदारी)	वॉजबी	**ड्रियणो**	देण्याची ऐपत, देय, देयता	बाकी होवुं ते	दायकी
नकद	मौद्रिक	नकद	नक़द	नकुँद	नक़दु, रोक रकम	रोख रक्कम	नगद (रोकड़ा)	रोखड
निधि	निधिः	फंड	फंड (मद)	फंड, खज़ानु	खज़ानो, निधी, फंड	निधी, फंड, खजिना	भंडोळ, भंडार, खजानो	निधी
निवेश	निवेशः	पूंजी लाउण, निवेश	सरमायकारी	सरमायिकॉरी	सीड़प (धन जी)	सोय, प्रोव्हिजन, तरतूद	**थापण**	तरतूद
पासबुक	लेखापुस्तिका	पासबुक	पास बुक (बेंकनामचा)	पासबुक	पासबुक	पासबुक	**पासबुक**	पासबुक
पेशगी	अग्रिम राशिः	पेशगी	पेशगी	पेशगी	पेशगी	काही कामासाठी आगाऊ दिलेली रकम	पेशगी, बानुँ	आगाऊ रक्कम

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
देय, बक्यौता	देय, बकेया, बाकि	देय	अवात्पा	देय, बाकि	बाकी	कोडुक्क-वेण्डियदु/ सल्लु	बाध्यत	सल्लुव
नगद	नगद	नगद	शेंगङ्, शेन ओइना	नगद	नगदु, रोक्कमु	रोक्कम्	रोक्कम्	नगदु
निधि	निधि, पुँजि, फन्ड	निधि, पुँजि	फन्ड, थम्जिन्बा	निधि, पन्ठि, पुन्जि	फंडु, निधि	निदि	निधि	निधि
लगानी, पूँजी निवेश	बिनियोग (ब्यबसाए)	ब्यवस्था, उपाय, दिहा जोगार	शेन थाधबा	निवेश, अर्थप्रयोग (ब्यबसायरे धन लगाइबा)	पेट्टुबडि	मुदलीडु	मुटक्कुं	बंडवाळ
पासबुक	पासपुक (ब्यांकेर टाका जमा ओ तोलार हिसाब पुस्तिका)	पाचबुक, निक्षेप पुस्तिका	पास बुक	पासबुक हात चिठा, सेभिंस ब्यांक खाता पाश बहि, हिसाब बहि	पास्बुक्कु	पट्टु वरवु कैच्चाट्टु, पासबुक्	पास्बुकुं	पासबुक्
पेस्की, बैना	अग्रिम, अर्थ जमा	अग्रिम, आगधन	बोइना	अग्रीम धन	अड्वान्सु, बयाना	मुन्पणम्	मुन्कूरु	मुंगड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बंधक	बन्धः	रहिन	रहन	रॅहन	गिरवी	गहाण ठेवलेली वस्तु, ठेव, मार्टगेज	गीरो	घाण दवरेलेली वस्त
बचत लेखा	सञ्चयलेखा	बच्चत लेखा	बचत खाता	बचथ खातुॅ	बचत खातो	नफा-तोटा मोजणी	बचत खातुं	नफो तोटो
बट्टा	उद्धारः	वट्टा	मिनहाई	द्रालज़	लाथि, दलाली	तोटा, नुकसान, दलाली	बट्टो, कमिशन, दलाली	दलाली
बैंक	धनागारः	बैंक	बैंक	बंक	बैंक	पेढी, बँक	बेंक	बैंक
ब्याज	वृद्धिः	बिआज	सूद	सूद	व्याजु	ब्याज	व्याज	व्याह, कळंतर
भुगतान	प्रदानम्	भुगतान	अदायगी	अदायगी	अदाइगी	परतफेड, भरपाई	चुकवणी	परतफेड, भरप
महाजन	उत्तमर्णः	महाजन	साहूकार (महाजन)	महाजन, सूदुर	महाजन, ओधरि ॾींदड़ु	सावकार, पेढीचा मालक	महाजन, शराफ	महाजन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बन्धुकी, बन्धक, धितो, धरौट	बंधक देओया, बाँधा देओया	बंधक	बंधोप, बंधान	बंधक	कुदुव	अडैमानम्/ ऑट्टि	ईट्टुं	अडमान, भोज्य
बचत-खाता	संचय-हिसाब	संचय-हिचाब	सेभिङ् अकाउण्ट (अकाउन्ट)	संचय हिसाब	सेविंग्स अकाउंटु	सेमिप्पु कणक्कु	सेविंग्स् अक्कौंट्	उळिताय लॅक्क
दलाली-दस्तुर	बाटा, दालाली, कमिशन	दस्तूरी	शेल ताबा, कमीशन	न्युनता	नष्टमु	तळ्ळुपडि, कळिवु, वट्टम्	किळिवुं	नष्ट
बैङ्क, ब्याङ्क, बैंक	ब्याङ्क	बैंक	बैंक	ब्यांक	ब्यांकु	वंगि	बांक्	ब्यांकु
ब्याज, सुद	सुद, ब्याज	सूद राप	शेंदोइ	सुध	वड्डी	वड्डि	पलिश	बड्डि
भुक्तान, फछ्र्यौंट	भुकतान, परिशोध, आदाय	आदाय, शोधन	पीबा	रुण सुझिबा, परिशोध	चॅल्लिंपु	कणक्कु तीर्त्तल्	वितरणम्, पेर्मन्ट्	संदाय
महाजन, साहूकार, सेठ	महाजन, साहुकार, (टाका धार देन जिनि)	महाजन, डाँगर व्यापारी	महाजोन, शेल पुथोक्पामी	महाजन, साहुकार	वड्डी व्यापारि	सौकार/ उण्डियल् व्यापारि	उण्डियल् व्यापारि	साहुकार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
माँग	अभियाचना	मंग	तलब	मंग	घुर, मांग	मागणी	माग	मांग
मियादी जमा	सावधिसञ्चयः	मिआदी जमा	मियादी जमा	म्यॉदी जमा	मियादी जमा	मुदतीची ठेव	टाईम डिपोझिट, मुदती थापण	मुदती जमा
मुद्रा	मुद्रा	मुदरा	सिक्का (ज़र)	सिकुँ	नाणो	नाणे, चलन	चलणी नाणुं	नाणे, मुद्रा
रसीद	प्राप्तिपत्रम्	रसीद	रसीद	रॅसीद	रसीद	पावती, रसीद	रसीद (पावती), पहोंच	पावती, पोंच
राशि	राशिः	राशी, रकम	रक़म (मद्)	रक़म	रक़म, राशी	रकम	रकम	रक्कम
रेहन	बन्धकम्	रहिन	रहन, गिरवी	रॅहन, गिरव थवुन	गिरवी	गहाण	गीरो	घाण दवरप
रोकड़	मौद्रिकम्	रोकड़	रोकड़	रोकड	रोकड़ि	नगद, रोकड	रोकड	रोख

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माग	चाहिदा, दाबी, डिमान्ड	चाहिदा, दाबी	पीनबा हायबा, निबा	चाहिदा	गिराकि	तेवै/ कोरिक्कै	आवश्यम्, डिमांड्	बेडिकॅ
मुद्दती जमा	मेयादी जमा	चाहिदा, दाबी	फिक्स ओइना थमजिन्बा	मियादी जमा	गडुवु जमा	कालवरैयऱै युळ्ळ वैप्पुत्तोगै	स्थिरकाल निक्षेपम्	सावधि ठेवणि
मुद्रा,	मुद्रा, टाका	मुद्रा चलार्थ	शेल मयेक	मुद्रा, टंका	नाणेमु	चॅलावणि	नाणयम्	नाण्य
रसिद, भर्पाई	रसिद	रचिद, प्राप्ति रचिद	रसीद	रसीद	रसीदु	रसीदु	रशीतुॅ	रसीदि
राशि, रकम	राशि, रकम	राशि, समूह, थूप	शेन्फम	राशि	मॉत्तमु	तॉगै	तुक	मॉबलगु, मॉत्त
बन्धकी, धरोट, जमानत	बंधक	बंधक	पोत्-चै बंधान/ बंधोप थंबा	बंधक	कुदुवॅ	अडगु	पणयम्, ईट्टुॅ	अडमान, गिरवि
नगद रुपियाँ, रोकड, धन	नगद टाका	नगद टका, नगद	केस	तहाबिल, नगद टंकापइसा आदि, नगद	रॉक्कमु	रॉक्कम्	तुक, रॉक्कप्पणम्	नगदु, रॉकडि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रोकड़ बही	मुद्रापञ्जिका	रोकड़ वही	रोकड़ बही	कैशबुक	रोकड़ि बंदी	रोख रकमेचा हिशेब असलेली वही	रोकडमेळ	रोख-वही
लेन-देन	दानादानम्	लैण-देण	लेन-देन	लेन-देन, ह्योनह्योन	<u>ड</u>े-वठ, <u>ड</u>ेती-लेती	देवाण घेवाण	लेण-देण	देवण घेवण
साख	प्रतिष्ठा	साख	साख	होग, पछ़	साख	पत, वजन, मर्यादा	शाख, आबरू	पत, पातयेणी
साहूकार	उत्तमर्णः	शाहूकार	साहूकार	साहूकार, सूदुर	शाहूकार	सावकार	शाहुकार, शराफ	सावकार
सूद	वृद्धिः	सूद	सूद	सूद	व्याजु, सूदु	व्याज, लाभ	व्याज	कळंतर, व्याज
स्थायी लेखा	स्थायिलेखा	सथाई लेखा	क़ायम खाता	मुसतकुॅल हिसाब	पको खातो	कायम हिशेब, कायम जमा खर्च	स्थावर खातुं	स्थायी अकांउट थीर हिशोब
हुंडी	धनादेशः	हुंडी	हुंडी	होंड	हुंडी	हुंडी	हूंडी	वचन पत्र, हुंडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रोकडबही	बंधकराखा कयाश-बइ	नगद हिचाबर बही	केस-बुक, शेलगी बोय	नगद बहि	खाता बुक्कु	रोक्क एडु	काष् रजिस्टर्	नगदु पुस्तक
लेन-देन	लेन-देन, बिनिमय	लेन-देन	पिथोक-पिशिन	नेण-देण	लावादेवी	कोडुक्कल्-वांगल्	विनिमयम्, कोटुक्कल् वाङ्ङल्	लेवा-देवि
साख, प्रतिष्ठा	प्रतिष्ठा, आस्था, बिश्वास्	बिश्वास, आस्था	बैंक ता शेल थम्लिलिबा मी अमगी हिसाबता उत्तिलिबा रोल	साक्षी	पलुकुबडि	संल्वाक्कु	विश्वासम्	नंबिर्क
साहूकार	साहुकार, महाजन	महाजन, डाँगर-बेपारी	महाजोन, शेनजाओ पायबा मी	साहुकार, महाजन	शाहुकारु	सौकार्/ उण्डियल् व्यापारि	सौकार्/ उण्डियल् व्यापारि	लेवादेविगार
सुद, ब्याज	सुद, बयाज	सूद, बियाज	शेंदोय	सुध, कलंतर	वड्डी	वड्डि	पलिश	बड्डि
स्थायी लेखा	स्थायी खाता (हिसाब बहि)	स्थायी हिचाप	लेङ्दबा हिसाब	स्थायी लेखा	शाश्वत खाता	निरंतर कणक्कु	स्थिर कणक्कुँ	स्थायी खाते
हुन्डी, धनादेश	हुण्डि बिनिमय पत्र, परिशोध/ प्रतिश्रुति पत्र	हुंडि	शेल लौथोक लौशिनगी ओइबा चे, हुंदी	हुंडी	हुंडी	हुंडी	उण्डियल, हुंडि	विनिमय पत्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
भौगोलिक	**भौगोलिक-शव्दाः**	**भुगोलक**	**जुग्राफ़ीयाई**	**जॅग्राफियॉयी**	**भूगोल बाबत**	**भौगोलिक**	**भौगोलिक**	**भुगोलीक**
अमावस्या	अमावस्या	मस्सिआ	अमावस	मावस	उमास	उमास, अमावास्या	अमावस्या, अमावास्या, (अमास)	उमास
आँधी	महावातः	हनेरी	आँधी	अंदिहीर्य	तूफ़ानु	तूफ़ान, बावंटळ, झंझावात, वादळ	आंधी, वावाझोंडुं	तुफान, मोड
आकाश	आकाशः	असमान, अकाश	आस्मान	नब, असमान	आकासु	आभाळ, आकाश	आकाश, गगन, आसमान	मळब, आकाश
ओला	हिमपातः	गड़ा, औला, अहिण	ओला	डोठ	ग॒ड़ा, ओला	गार	करा	करो
ओस	तुषारः	त्रेल	शबनम	शबनम	माक	दंव	ओस, झाकळ (तुषार)	दव
इंद्रधनुष	इन्द्रधनुः	पींघ	क़ौसे-कुज़ह	राम राम बदरॅन्य दून्य, सोंज़ल	इंडलठि, इंद्रधनुष	इंद्रधनुश्य	इंद्रधनु, इंद्रचाप, इंद्रधनुष, मेघधनुष	इंद्रधणू, सायबीण मायचो आर्क

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भौगोलिक	**भौगोलिक**	**भौगोलिक**	**भुगोलगी ओइबा**	**भौगोलिक**	**भौगोलिकं पदमुलु**	**बूगोळ कलैच्चार्कळ्**	**भूमिशास्त्र-परम्**	**भौगोलिक**
औँसी, अमावस्या	अमावस्या (स्सा)	आँउसी, अमाबास्या	थाशि	अमाबास्या	अमावास्य	अमावासै	अमावसि, करुत्त-वावुॅ	अमावास्यॆ
आँधी, आँधी-बेहरी, हुरी	झड़, तुफान, धूलोर झड़	धुमुहा	नोङ्लै-नुङ्शित्	अंधार	दुमारमु	पुयल्	कॉटुंकाट्टुॅ	बिरुगाळि
अकास, आकाश	आकाश, अंतरीक्खो	आकाश	अतिया, आकाश, नोङ्दोल	आकाश	आकाशमु	आगायम्	आकाशम्	आकाश
असिना	शिला बृष्टि	बरषुणर शिला	लेन	आलुअ	वडंगंड्लु	आलंट्टि	आलिक्कट्टि, आलिप्पळम्	आर्णकल्लु
शीत	शिशिर, हिम	नियरर टोपाल, हिमकणा	लिक्ला	काकर	मंचु	पनि	मूटल्मञ्ञु	मंजु
इन्द्रेनी, इन्द्रधनु	इंद्रधनु, रामधनु	रामधेणु	चुमथाङ्	इंद्रधनु	इंद्र-धनुस्सु	वान विल्	इंद्र धनुषॅ, मळविल्लुॅ	कामनबिल्लु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उपग्रह	उपग्रहः	उपग्रह	सय्यारचा	सयारचि	उपग्रहु	उपग्रह, सॅटेलाईट	उपग्रह	उपग्रह
उल्का	उल्का	टुटदा तारा	शिहाब	मशॉल्य-तारुक	टुटलु तारो, किरंदड़ु तारो	उल्का	खरतो तारो	उल्का
कुहरा	कूहा	कक्कर	कुहर	वुनल	कीहीरो, धुंध	धुके	धुम्मस	धुकें
खाड़ी	खातः	खाड़ी	ख़लीज	सादरॅ ख्वोंन	उपसमुंडु, खाड़ी	आखात, उपसागर, खाड़ी	खाड़ी	खाडी
खान	खनिः	खान	कान	कान	खाणि	खाण	खाण	खाण
गरमी	ग्रीष्मकालः, निदाघ, तापः	गरमी	गरमी	ताव, गरॅम	गर्मी	ऊष्णता, उन्हाळा	गरमी	कालोर, गर्मी
गुफा	गुहा	गुफा	गुफा	गौंफ	गुफ़ा	गुहा	गुफा	घोल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह	खुतशेमगी उपग्रह	उपग्रह	उपग्रहमु	उपग्रहम्/ तुणैक्कोळ्	उपग्रहम्	उपग्रह
उल्का, धूमकेतु	उल्का, अलकापत, तारा-खसा	उल्का, जोंर पपीया तरा	थवान्मिचाक मथी, शंगाइशेल	उल्का	उल्कँ	ऍरिनट्चत्तिरम्	उल्क, कॊळ्ळिमीन्	उल्कॆ
कुहिरो, हुस्सु	कुयाशा, धाँयाशा	कुँवली, हिम	लैचिन थावा	कुहुड़ी	पॉग मंचु	मूडुपनि	मूटल्मञ्ञु	मंजु
खाडी, उपसागर	उपसागर	उपसागर	उपसागर, मायकै अहुमदा कङ्फान्ना कोइशिन्बा समुद्र	तिनि आडु स्थल-घेरा समुद्रभाग, उपसागर	अखातमु	विरिकुडा	अळ्क्कटल्	कॊल्लि, उपसागर
खानी, खानि	खनि	खनि	खोङ्	खणि	गनि	सुरंगम्	खनि	गणि
गर्मी	गरम	ग्रीष्मकाल	अशाबा	गरम	वेडि	वॆप्पम्	चूटॖ	सॆकॆ
गुफा, ओडार	गुहा, गुफा	गुहा	शुरुङ्	गुंफा	गुहॅ	गुहै	गुह	गुहॆ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ग्रह	ग्रह:	ग्रहि	सय्यारा	ग्रुहुद	ग्रहु	ग्रह	ग्रह	ग्रह
ग्रहण	ग्रहणम्	ग्रहिण	ग्रहन	ग्रुहुन, ग्रोन	ग्रहणु	ग्रहण	ग्रहण	ग्रहण, गिराण
घाटी	उपत्यका	घाटी	वादी (घाटी)	वॉदी	घाटी, माथिरी	दरी, घाटी	खीण	घाटी
चंदा	चन्द्र:, चन्द्रमस्	चंदा	चाँद	चॅदरम, जून	चंडु	चंद्र	चांदो, चंद्र, चंद्रमा	चंद्रीम, चंद्र
चट्टान	शिलाखण्ड:	चटान	चट्टान	पल	जबलु	खडक	खडक	खडप
जंगल	अरण्यम्	जंगल	जंगल	वन, जंगुल	झंगलु	अरण्य, वन जंगल	जंगल	जंगल, रान
जलडमरू-मध्य	जलशिरा समुद्रधुनी, समुद्रधूनी	जलडमरूमध	आबनाए	आबनाय	गि्ची धरती, समुंड धूनी	सामुद्रधुनी	समुद्रधूनी	समुद्र कानाल, समुद्रपाट, समुद्र व्हाळी
जलप्रपात	जलप्रपात	आबशार	आबशार	पाँचादर	आबशार	धबधबा	जल (ळ)-प्रपात, धोध, पाणीनो धोध	धबधबो, धसधसो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रहमु	गिरहम्, कोळ्	ग्रहम्	ग्रह
ग्रहण	ग्रहण (न)	ग्रहण	ग्रोहोन	ग्रहण	ग्रहणमु	गिरहणम्	ग्रहणम्	ग्रहण
घाटी, उपत्यका	उपत्यका (त्त)	उपत्यका	तम्पाक्	घाटी	लोयि	कणवाय्, पळ्ळताक्कु	ताळ्वर	कणिवॆ, घट्ट
चंद्रमा, चंद्र, जून	चाँद, चंद्रिमा	चंद्र, जोन	शेन्खाय	जन्ह, चंद्रमा	चंदमामॆ	चंद्रन्	चंद्रन्	चंद्र
चट्टान	शिलाखण्ड	शिल	नुङ्जाओ, नुङ्पाक	चटाण	शिलॆ	पारै	शिल, पार्	बंडॆ
जङ्गल	जङ्गल, बन	जंघल, हाबि	उमङ्, जंगल	जंगल, बण	अडवि	काडु	काट्टॅ	काडु
जल-डमरुमध्य	प्रणाली (ना)	योजक प्रणाली	इथत अनिगी मरक्ता लैबा अखुबा समुद्रगी शरुक	प्रणाली	जलसंधि	जलसंदि	कटलिटुक्कॅ	कडलुकालुवॆ
जलप्रपात, झरना	जलप्रपात, झरणा (न)	जलप्रपात	ईशिं चाईबी, इफूल	जलप्रपात	जलपातमु	नीर्वीळ्च्चि	वॆळ्ळच्चाट्टम्	जलपात

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ज्वार	वेलावृद्धिः	जुआर	मद्	मलख	वीर (चढ़ंदड़)	भरती	भरती	भरती
ज्वालामुखी	ज्वालामुखी	जुआलामुखी	आतिशफ़िशां	आतशफिशान, नारॅबाल	बरंदड़ु, जबलु, ज्वालामुखी	ज्वालामुखी पर्वत	ज्वाळामुखी	ज्वाळामुखी
झील	सरोवरः	झींल	झील	सर डल	ढंढ	सरोवर	सरोवर	सरोवर
तारा	तारकः, नक्षत्रम्	तारा	तारा	तारुख	तारो	तारा	तारो	तारो
तूफान	प्रभञ्जनम्	तुफ़ान	तूफ़ान	तूफान	तूफ़ानु	वादळ, तुफान	तोफान	मोड, तुफान
दलदल	कर्दमः, पङ्क	दलदल	दलदल	नंबल, डेंब	धुबिणि, दलदल	दलदल	कळणभूमि (कादव)	दलदल, रेबो
द्वीप	द्वीपः	टापू, दीप, जज़ीरा	जज़ीरा	जज़ीरूँ	बेटु, द्वीप	बेट, द्वीप	द्वीप (बेट, टापु)	बेट, जुंवो
धारा	धारा	धारा	धारा (रो), सैल	दार	धारा, वहकरो	प्रवाह	धारा	धारा
धूमकेतु	धूमकेतुः	बोदी वाला तारा	दुमदार तारा	लॅट्य-तारुख	धूमकेतू, पुछड़ तारो	धूमकेतू	धूमकेतु, पूंछडियो तारो	धूमकेतू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ज्वार	जोयार	जोवार	ज्वार काबा	जुआर	पोटु	कडल् पौंगुदल्	वेलियेट्टम्	उब्बर
ज्वालामुखी	आग्नेयगिरि, ज्वालामुखी	ज्वालामुखी, आग्नेय पहाड़	मैगी-चीङ्	आग्नेयगिरि	अग्निपर्वतमु	एरिमलै	अग्निपर्वतम्	ज्वालामुखि
ताल, झील	हृद, लेक (इं), दीघि	बिल	पात्	बड़ प्राकृतिक जलाशय, ह्रद	वागु	एरि	तटाकम्	सरोवर
तारा	तारा	तरा	थवान् मिचाक्	तारा	नक्षत्रमु	नक्षत्तिरम/ विण्मीन्	नक्षत्रम्	नक्षत्र
तुफान, हुरी	झञ्झा, प्रबल झड़, तुफान	धुमुहा	नोङ्लै-नुङ्शित्	तोफान	तुफानु	पुयल्काट्टु	काट्टुंकाट्टु	बिरुगाळि, चंड मारुत
धाप, दलदल	कादा, कर्दम चोरा-कादा	बोका, पंकिल	लैखोम-लैनाङ्, पात्थी-कोमथी ओइबा मफम	दलदल, कादुअ	बुरद	चेरु	चेळि	जवुगुभूमि
टापु, द्वीप	द्वीप (दी)	द्वीप	ईथत्	द्वीप	द्वीपमु	तीवु	द्वीपुं	द्वीप
धारा, प्रवाह	धारा, प्रबाह, स्रोत	धार, सोंत	ईचेल	धारा, स्रोत	धार	नीरोट्टम्	धार, प्रवाहम्	प्रवाह, धारे
पुच्छ्रेतारो, धूमकेतु	धूमकेतु	धूमकेतु	धुमकेतु, थवानमिचाक ममैपानबी	धूमकेतु	धूमकेतुवु, तोकचुक्क	वाल् नक्षत्तिरम्	धूमकेतु, वाल्नक्षत्रम्	धूमकेतु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नदी	नदी	नदी, दरिआ	नदी	कॉल, दॅरियाव	नदी, नद, दरियाउ	नदी	नदी	न्हंय
नहर	प्रणाली	नहिर	नहर	नॅहर	नहर	कालवा	नहेर	कानाल, पाट
पवन	पवन:	पौण	हवा	हवा	हवा, पवन	वारा	पवन, हवा	वारे
पहाड़	पर्वत:	पहाड़, कोह	पहाड़ (कोह)	कोह	पहाड़ु	डोंगर, पर्वत	पहाड़, पर्वत, डुंगर	दोंगर
पहाड़ी	पर्वतक:	पहाड़ी	पहाड़ी	बाल	पहाड़ी	टेकडी	पहाड़ी, टेकरी, डुंगरी	दोगराळ
पानी	जलम्	पाणी	पानी (आब)	पोन्य, आब	पाणी	पाणी, जळ	पाणी, जल	उदक
पूर्णिमा	पूर्णिमा	पुन्निआ	पूनम	पुनिम	पूर्णमासी	पौर्णिमा	पूर्णिमा (पूनम)	पुनव
पृथ्वी	पृथिवी	प्रिथवी, धरती, जमीन	ज़मीन	ज़मीन, बुतराथ	पृथ्वी, धरती	पृथ्वी	पृथ्वी,पृथिवी, जमीन, धरती, धरित्री	पृथ्वी/धर्तरी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नदी, खोला	नदी, नद, दरिया	नदी	तुरेल	नदी, नई	नदि	आरु	नदि	नदि
नहर	खाल, नहर, क्यानाल	नला, खाल, कूल्या	ईशिङ्-खोङ्	केनाल, कुत्रिम नाल, प्रणाली	पंट कालुवे	ओडै, काल्वाय्	तोटुँ	कालुवे
पवन, हावा, बतास	हायोआ, बायु, बातास पबन (आ)	पबन, बायु	नुङ्सित	पबन	गालि, पवनमु	काट्टु	वायु, काट्टु	गाळि
पहाड, डाँडो	पाहाड़	गिरि, पर्वत पाहार	चीङ्	पाहाड	कोंडे	मलै	पर्वतम्, मल	बेट्ट
पहाडी, पहाडे	क्षुद्र पाहाड़, टिला (खु), पाहाड़ संपफीय	सरु पाहार, क्षुद्र पाहार	चीङ्गीलम	पाहाडीआ	चिन्न कोंडे	कुन्रु	कुन्नुँ	गुड्ड
पानी	जल, पानी	पानी	ईशिङ्	पाणि, जल	नीरु	नीर्/ तण्णीर्	जलम्, वेळ्ळम्	नीरु
पूर्णिमा, पुर्ने	पूर्णिमा (र्नि)	पूर्णिमा	पूरनिमा	पूर्णिमा	पूर्णिमि	पौर्णमी	पौर्णमि, वेळुत्त वावुँ	पूर्णिमा, हुण्णिमे
पृथ्वी, धर्ती	पृथिबी, धरित्री	पृथिबी, भू, माटी	पृथिबी, मालेम	पृथिबी	पृथ्वि, भूमि	बूमि	पृथ्वि, भूमि	पृथ्वी

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पोखर	पल्वलम्	छप्पड़	तालाब	पोखुर	तलाउ	तळे	तळाव	तळे
प्रलय	प्रलय:	परलो	क़ियामत	प्रलय, कयामथ	प्रलय/ प्रलइ	प्रलय	प्रलय	प्रलय
प्रवाह	प्रवाह:	प्रवाह	रवानी (बहाव)	बहाव, गुंथ	वहकरो	प्रवाह	प्रवाह, वहेण	प्रवाह
प्रायद्वीप	द्वीपकल्प:	प्राइदीप	जज़ीरानुमा	जज़ीरु नुमा	उपबेटु	द्वीप कल्प	द्वीपकल्प	द्वीपकल्प
बर्फ	हिम:	बरफ	बर्फ़	शीन	बर्फ़	हिम, बर्फ	बरफ	जेल, बर्फ
बाढ़	जलप्लाव:	हड़	सैलाब	सॅहलाब	बोड़ि बाढ़	भरती पूर	पूर (रेल)	हुंवार
बादल	मेघ:	बद्दल	बादल	ओंबुर	बादलु, ककरु	मेघ, ढग	बादळ, वादळुं	वादळ, मॉड
बारिश	वर्षा, वृष्टि:	मींह, बारश	बारिश	रूद	बारिश, बरसात, बर्खा	पाऊस, वृष्टि	वरसाद (वर्षा)	पावस

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पोखरी	पुकुर, (-खु) डोबा	पुखुरी, पुष्करिनी	पुखि	पोखरी	कॉलनु चॅरुवु	कुट्टै	कुळम्	कॉळ, होंड
प्रलय	प्रलय, ब्धंस	प्रलय	प्रलोय	प्रलय	प्रळयमु	पिरळयम्/ अळिवु	प्रळयम्	प्रळय
प्रवाह, धारा	प्रबाह, धारा, स्रोत	प्रबाह, धार	ईशिङ्- ईचेल	प्रबाह, स्रोत	प्रवाहमु	नीर्प्पेरुक्कु	प्रवाहम्	प्रवाह
प्राय:द्वीप, प्रायोद्वीप	उपद्वीप (दी), द्वीपेर मतन	उपद्वीप, सरु द्वीप	प्रायदीप, उपदीप	अंतरीप (तिनि दिगरे पाणि-घेरा स्थल भाग)	द्वीप- कल्पमु	दीपगर्प्पम्	उपद्वीपुं	द्वीपकल्प
बरफ, हिउँ	बरफ, जमानोजल	बरफ	बरफ, उन	बरफ	मंचु	पनिक्कट्टि	हिमम्, मञ्ञु	मंजिन गड्डॆ
बाढी, भेल	बन्या, बान (न्ना)	बन्या, बान, बाढ़नी पानी	ईशिङ्- ईचाओ	बढ़ि, वन्या	वरद	वॆळ्ळम्	वॆळ्ळप्पाक्कम्	प्रवाह, नेरे
बादल, मेघ	मेघ, बादल	डावर, बादल, मेघ	लैचीन, नोङ्	बादल, मेघ	मेघमु, मब्बु	मेहम्	मेघम्	मोड
वर्षा, वृष्टि, बर्सात, बर्साद्	वृष्टि, बरषन, बारिधारा	बरषुण, बारिख	नोङ्	बरषा, बर्षा	वर्षुमु, वन	मळै	मळ	मळॆ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बिजली	विद्युत्	बिजली	बिजली	वुज़ॅमलुॅ	बिजली	वीज, विद्युत	वीजळी	वीज
भँवर	आवर्त:	घुम्मणघेर	भँवर	आवलुन	कुनु	पाण्यातील भोवरा, ख़ळगा	भमरो	भोंवरो
भाटा	वेलाक्षय:	भाटा	जज़र	मलुख	वीर (लहंदड़)	ओहोटी	ओट	सुक्ती
भाप	वाष्प:	भाफ़	भाप	बाह	ॿाफ	बाफ	वराळ (बाष्प)	बाफ
भूकंप	भूकम्प:	भुंचाल	ज़लज़ला	बुन्युल	ज़ल्ज़लो, भूकंप	भूकंप	धरतीकंप	भुंयकांप, धरणीकांप
मरुस्थल	मरुस्थलम्	मरूथल	रेगिस्तान	सॅहराव, सेकिमॉदान	रेगिस्तान, रिणु	बाळवंट	मरुस्थल, रण	रण भूंय
महासागर	महासागर:	महासागर	बहरे आज़म	सोंदुर	वॾो समुंडु, महासागरु	महासागर	महासागर	महासागर
मैदान	समप्रदेश:	मदान, मैदान	मैदान	मॉदान	मैदानु	मैदान	मेदान	मळ, मैदान
मौसम	ऋतु:	मौसम	मौसम	मूसिम, आबुॅहवा	मौसम	मोसम, ऋतु	मोसम, ऋतु, हवापाणी	हवामान

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिजुली, विद्युत शक्ति	विद्युत (ब), तड़ित, बिजली	बिजुली, तड़ित	नोङ्थाङ्	बिजुलि	मेरुपु	मिन्नल्	मिन्नल्	मिंचु
भुँवरी, भुमरी	आवर्त (ब)	चाकनैया, आवर्त्त	ईरै	भउँरि	सुडिगुंडमु	सुळल्	चुळि	सुळि
भाटा (ज्वारसित संबद्ध)	भाँटा, जोयार-भाँटा	भाटा	जुवार	भट्टा	आटु	कडल् नीर् वडिदल्	वेलियिरिक्कम्	समुद्रद इळित
भाफ, बाफ	भाप, बाष्प (ब)	भाप	मनिल	बांफ, वाष्प	आविरि	नीरावि	आवि, नीरावि	आवि, उगि
भुँइचालो, भैँचालो, भूकम्प	भूमिकंप	भूँइकँप, भूकंपन	युहार-हाबा	भूमिकंप	भूकंपमु	बूकंबम्/ निल अदिर्चि	भूकंपम्	भूकंप
मरुभूमि, मरुस्थल	मरुभूमि	मरुभूमि, मरुभू	लैकङला	मरुभूमि	एडारि, मरुभूमि	पालैवनम्	मरुभूमि	मरुभूमि
महासागर	महासागर	महासागर	अचौबा ईपाक	महासागर	महासमुद्रमु	महासमुत्तिरम्	महासमुद्रम्	महासागर
मैदान	माठ, मयदान	समभूमि भैयाम	लैतेम मान्नबा लम, लमपाक्	पडिया, मइदान	बयलु, मैदानमु	तिरुंदवेळि	मैतानम्	बयलु
मौसम	ऋतु, मौसुम	बतर	अइङ्-अशा	ऋतु	ऋतुवु	परुवनिलै	कालावस्थ	ऋतु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
लहर	तरङ्ग	लहिर	लहर	लॅहर	लहर	लाट, तरंग	लहेर	ल्हार
विश्व	विश्वम्	ब्रहमंड, विशव, जगत	कायनात, आलम, दुनिया	आलम	विश्व	ब्रह्माण्ड, विश्व	विश्व, ब्रह्मांड	विश्व, ब्रह्मांड
शनि	शनिः	सनिच्चर, छनिच्छर, शनी	जुहल	शनशचर	शनी ग्रहु	शनि	शनि, शनैश्वर	शनि
समुद्र	समुद्रः	समुंदर	समुंदर	समंदर	समुंडु	समुद्र	समुद्र, दरियो, सागर	समुद्र
सरदी	शीतकालः	ठंड, सरदी	सरदी (सर्मा)	तूँर	सर्दी	सर्दी, थंडी	शरदी (ठंडी)	हिवाळ, थंडी
सूर्य	सूर्यः	सूरज	सूरज, शम्स, आफ़ताब	सिरियि, आफताब	सिजु, सूरजु, सूर्य	सूर्य	सूर्य, सूरज	सूर्यो
सूर्यास्त	सूर्यास्तम्	आथण	गुरूबे- आफ़ताब	दोंहलोसुन	सिजु लहणु, सूर्यास्त	सूर्यास्त	सूर्यास्त	सूर्यास्त
सूर्योदय	सूर्योदयः	उग्गण	तुलूए- आफ़ताब	सिरियि खसुन	सिजु उभिरणु, सूर्योदय	सूर्योदय	सूर्योदय	सूर्योदय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लहर, छाल	ढेउ, लहर, तरंग	ढौ, ऊर्मि	मालेम, संसार	लहडि, ढेउ	अल	अलै	तरंगम्, तिर	अले
विश्व, संसार	विश्व (श्श), ब्रह्मांड, भुबन	विश्व, भुवन, जगत	मालेम, संसार	विश्व	प्रपंचमु	पिरपंचम्, उलहम्	विश्वम्	विश्व, प्रपंच
शनि, शनिश्चर, शनैश्चर	शनि, शनि देवता, शनिबार, शनिग्रह	शनि	शनि ग्रह	शनि	शनि	शनि	शनि	शनि
समुद्र, समुन्द्र, सागर	समुद्र, सागर	सागर, समुद्र, जलधि	समुद्र, ईपाक	समुद्र	समुद्रमु	समुत्तिरम्/ कडल्	समुद्रम्, कटल्	समुद्र, कडलु
सर्दी, जाडो	शीत, ठण्डा, जाड़	ठांडा, जार चेंचा	निङथम्बा, अइङ्बा	शीत, थंडा	चलि	कुळिर्	शीतम्, तणुप्पॅ, कुळिर्	चळि
सूर्य, सुर्जे	सूर्य, सूर्यास्त	बोलि, सूर्य	नुमित्	सूर्य (सूर्ज्य)	सूर्युडु	सूरियन्/ कदिरवन्	सूर्यन्	सूर्य
सूर्यास्त	सूर्यास्त (र्जा)	बोलिमारजोवा	नुमित ताबा	सूर्यास्त (सूर्ज्यासत)	सूर्यास्तमयमु	सूरिय अस्तमनम् कदिरवन् मरैदल्	सूर्योस्तमनम्	सूर्यास्त
सूर्योदय	सूर्योदय (र्जो)	सूर्योदय बेलि-ओलोवा	नुमित् थोकपा	सुयोदय, सूर्ज्योदय	सूर्योदयमु	सूरिय उदयम्/ कदिरवन् उदित्तल्	सूर्योदयम्	सूर्यास्त

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
स्थल डमरूमध्य	भूशिरा	थलडमरूमध	ख़ाकनाय	खाकनाय	भूशिर, थलडमरूमध	स्थल जलडमरु मध्य, भूसंधि	भूशिर	भूशीर
मंत्रालय, विभाग, आयोग और मंडल	**मन्त्रालया:, विभागा: आयोगा: मण्डलानि च**	**मंतराला, विभाग आदि**	**विज़ारत, महकमाजात और मजालिस**	**वज़ारथ, महकमुं बेत्रि**	**मंत्रालय, विभागु वग़ैरहु**	**सचिवालय, विभाग वगैरे**	**सचिवालय, विभाग वगेरे**	**मंत्रालय, विभाग**
इस्पात और खान	लोहसार-खनि-मन्त्रालय:	असपात अते खाण	फ़ौलाद-व-मादिनियात	फौलाद तु कान	फौलाद ऐं खाणि	पोलाद व खाण	पोलाद अने खाण	मिना खाणी
उद्योग	उद्योगमन्त्रालय:	उदिओग	सनअत	सनथ	उद्योग, हुनर	उद्योग	उद्योग	उद्योग
ऊर्जा	ऊर्जामन्त्रालय:	ऊरजा	तवानाई	तवानॉई, ताकत	ऊर्जा, शक्ती	एनर्जी, ऊर्जा	बीजळी (शक्ति)	उर्जा
कृषि और सिंचाई	कृषि-सेचनमन्त्रालय:	खेती अते सिंचाई	ज़िराअत व आबपाशी	ज़ॅमींदॉरी तुं अबपॉशी	खेती सींचाई	शेती व पाणी, पुखठा, इरिगेशन	खेती अने सिंचाई	शेती आनी शिंपणावळ
गृह	गृहमन्त्रालय:	ग्रिह	दाख़िला (उमूरे दाख़िला)	गरुॅ, सरेलू	घरू, गृह	गृह	गृह	गृह

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्थल-डमरुमध्य	संयोजक, योजक	स्थल-डमरुमध्य	कङ्फाल अनी शम्नफम कङ्फालगी शरुक	स्थल-संजोजक	स्थलसंधि, भूसंधि	बूसंदि	करयिटुक्कुं	भूशिर
मन्त्रालय, विभाग आयोग र मण्डल	**सचिवालय, विभाग, इत्यादि**	**मंत्रिसभा, मंत्रालय, बिभाग, आयोग आरु मंडल**	**मंत्रालय, लोइशङ् कमिशन अमसुङ् डिभिजन**	**मंत्रणालय, बिभाग, आयोग, मंडल**	**मंत्रालयमु, विभागमु, कमिशनु, मंडलमु**	**अमैच्चगम्, इलाका, आणैयम्, मंडलम्, वारियम्**	**मंत्रिकार्यालयम्, वकुप्पुं, कम्मीषन्, बोर्ड्**	**सचिवालय, विभाग, आयोग मत्तु मंडलि**
इस्पात एवम् खानी	इस्पात ओ खनि (मंत्रालय)	लौह, तीखा आरु खनि	इस्पात अमदि खोङ्	इस्पात ओ खणि	उक्कु मरियु गुनुलु	ऍह्कुम् कनिप्पोरुळुम्	उरुक्कुम् खनियुम्	उक्कु मत्तु गणि
उद्योग	शिल्प (ये कानो)	उद्योग	उद्योग, इंदस्त्री	उद्योग, शिल्प	परिश्रमलु	तॉळिल्	व्यवसायम्	कैगरिकें
ऊर्जा	शक्ति, एनार्जि	शक्ति, क्षमता	शक्ति	शक्ति, तेज, क्षमता	शक्ति	आट्टल्	ऊर्जम्	शक्ति
कृषि एवम् सिँचाइ	कृषि ओ सेच, जल सिंचन	कृषि एवम जलसिंचन	लौउ-शिङउबा अमसुङ ईशिङ् चाइबा	कुषि एवं जल-सेचन	व्यवसायमु, सागुबडि	वेळाण्मै मट्टुम् नीटिपारुदल	कृषियुम् जलसेचनवुम्	व्यवसाय मत्तु नीरावरि
गृह	गृह	गृह, स्वराष्ट्र	युम	गृह	देशीयांग	उळ्तुरै	आभ्यंतरम्	गृह

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
निर्माण और आवास	निर्माणावास-मन्त्रालय:	निरमाण अते आवास	तामीरात व आबादकारी	तॉमीर तु रोज़ुन	निर्माण ऐं आवास	निर्माण व आवास	बांधकाम अने रहेठाण	निर्माण आनी निवास (राबितो)
नौवहन	नौवहन-मन्त्रालय:	जहाज़रानी	जहाज़रानी	जहाज़रॉनी	जहाज़रानी	नौकानयन	वाहाणवटा खातुं	नौका परिवहन, नौपरिवहन
परिवहन	परिवहन-मन्त्रालय:	आवाजाई वाहण	नक़ल-व-हमल	रसलुॅ-रसॉयिल	परिवहन, आमदरफ़्त	दळणवळण	वाहन व्यवहार खातुं	परिवहन, वाहतूक
पर्यटन	पर्यटन-मन्त्रालय:	यात्रा	सियाहत	सयाहत	यात्रा, सैल-सफ़र	पर्यटन	पर्यटन	पर्यटन
पुनर्वास	पुनर्वास-मन्त्रालय:	पुनरवास	बहालियात	बहालियाथ, दुबॉरुॅ-बसुन	वरी वसाइणु, पुनर्वास	पुनर्वास	पुनर्वसवाट	पुनर्वास
मंत्रिमंडल सचिवालय	मन्त्रिमण्डल-सचिवालय:	मंतरीमंडल सकत्तरेत	केबिनेट सेक्रेट्रीएट	कैबनिट सक्ट्रेट	मंत्रीमंडल सेक्रेटरिएट/ सचिवालय	मंत्रिमंडळ-सचिवालय	प्रधानमंडळ सचिवालय	सेक्रेतरीयेत
योजना	योजनामन्त्रालय:	योजना	मंसूबाबंदी	मनसूबुॅ	योजना, रिथा	योजना	योजना	योजना
रक्षा	रक्षामन्त्रालय:	रक्खिया	दिफ़ाअ	ह्यफाज़थ	रक्षा, रख्या	संरक्षण	रक्षण	रक्षा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्माण एवम् आवास	वास्तु, पूर्त	निर्माण आरु निबास	शैमशाबा अमसुङ् खुंदाबा	निर्माण ओ आवास	भवनं निर्माणं, निवासं	पादुप्पणि मट्टम् वीट्टु वशदि	पातुमरामत्तम् भवन निर्माणवुम्	निर्माण मत्तु वसति
जहाजरानी	नौपरिवहन	नौवहन, जाहाज पोत संबंधी	ईशिङ् लंबीदा पुथोक-पुसिन तौबा	नौबहन	नौकायनं	नीर्वळि पोक्कुवरत्तु	जलगतागतम्	नौकोद्यम्, हडगु सागर्ण
परिवहन	परिवहन	परिबहन	मी नत्रगा माल पुबगीथबक्	परिबहन	प्रयाणं साधनं	पोक्कुवरत्तु	गतागतम्, ट्रान्सपोर्ट	सारिगं
पर्यटन	पर्यटन (र्ज), भ्रमन	पर्यटन	लम्कोइबा	पर्ज्यटन	पर्यटकं	चुट्टला	विनोदसंचारम्	प्रवासोद्यम
पुनर्वास	पुनर्वास	पुनर-संस्थापन	अमुक हन्ना खुन्दाहन्बा	पुनर्बास	पुनर्वासं	मरुवाळ्वु	पुनरधिवासम्	पुनर्वसति
मन्त्रिमण्डल	मंत्रिमंडल	मंत्रीमंडली	मंत्रीमंदल	मंत्रिमंडल	मंत्रिमंडलि	अमैच्चरवै	मंत्रिसभा	मंत्रिमंडल
सचिवालय	सचिबालय	सचिबालय	सेक्रेटरियेट	सचिवालय	सचिवालयमु	सॅयलगम्	सेक्रेटेरियट	सचिवालय
योजना	योजना (जो)	योजना, परिकल्पना	थौराङ्	जोजना परिकल्पना	प्रणाळिकं	तिट्टम्	आसूत्रणम्	योजनं
रक्षा	प्रतिरक्षा	रख्या, प्रतिरक्षा	ङाकशेलबा	रक्षा, प्रतिरक्षा	रक्षणं	पादुकाप्पु	राज्य रक्ष	रक्षणं

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रसायन और उर्वरक	रसायनोर्वरक-मन्त्रालयः	रसाइण अते खाद	कीमिया व खाद	कीमिया तु खाद	रसायन ए भाणु	रसायन व खते	रसायन अने-खातर	रसायण आनी खत
राजस्व और बैंक कार्य	राजस्व-धनागार-मन्त्रालयः	माल अते बैंक कारज	मालियात व बेंककारी	मॉली तुं बंकुं कॉम	राजुढल ऐं बैंक कार्य	महसूल व बँक कार्य	महेसूल अने बेंक	राजस्व आनी बैंक कार्य
लोक सेवा आयोग	लोकसेवायोगः	लोकसेवा (ख़िदमते आम्मा) कमिशन	पब्लिक सर्विस कमीशन	पब्लिक-सॅरविस-कमिशन	लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन	पब्लिक सर्विस कमिशन, लोक सेवा आयोग	लोक (जाहेर) सेवापंच, पब्लिक सर्विस कमीशन	लोकसेवा आयोग
वाणिज्य	वाणिज्य-मन्त्रालयः	वणज	विज़ारत	बापार	वापार	व्यापार	वेपार-वाणिज्य (खातुं)	वाणिज्य
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान-प्रौद्योगिकी-मन्त्रालयः	विगिआन अते तकनालोजी	साईंस व तकनीकी उमूर	सयनस तुं तकनीक	विज्ञान ऐं तकनीक	विज्ञान व तांत्रिक शिक्षण	विज्ञान अने प्रौद्योगिक	विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी
वित्त	वित्तमन्त्रालयः	वित्त	ख़ज़ाना (मालियात)	मॉलियाथ	धनखातो मालियात	वित्त	नाणाखातुं	वित्त

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रसायन एवम् उर्वरक (मल)	रसायन ओ कृषिसार	रसायन आरु सार	रसायन अमसुङ् लैहाओ चेलहन्नबा पोत/हार	रसायन एबं सार	रसायनमुलु एरुवुलु	रसायनपोरुळ् गळ् मट्टुम् उरम्	रासवळड्ङळ्	रसायन मत्तु कृतक गोब्बर
राजस्व एवम् बैङ्क	राजस्व (स्स) ओ ब्याङ्क कार्य (र्ज)	राजह बेंकर काम	चहीगी चागा अमसुङ बैंक की थबक्	राजस्व एबं ब्यांक कार्ज्य	रेविन्यू, ब्यांकु	वरुवाय्तुरै मट्टुम्, वंगित्तुरै	भूनिकुतियुम् बैंक कार्यङ्ङळुम्	राजस्व मत्तु बैंकु व्यवहार
लोक सेवा आयोग	लोकसेवा आयोग	लोकसेवा आयोग	पब्लिक सारभिस कमीशन	लोकसेवा आयोग	पब्लिक सर्विस कमीषन्	अरशुप्पणि तेर्वाणैक्कुळु	पब्लिक् सर्वीस् कमीषन्	लोकसेवा आयोग, पब्लिक सर्वीस् कमीषन्
वाणिज्य	बाणिज्य (नि) (ज्ज), ब्यबसाय	ब्यवसाय-बाणिज्य, बेहा-बेपार	लल्लोन-इतिक	बाणिज्य	वाणिज्यमु	वणिगम्	वाणिज्यम	वाणिज्य
विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी	विज्ञान ओ प्रयुक्ति बिद्या (जू)	बिज्ञान आरु प्रयुक्ति बिद्या	विज्ञान अमसुङ् खुत्शा हैबा	बिज्ञान ओ कारिगरि	शास्त्रे सांकेतिक	अरिवियल मट्टुम् तोळिल् नुट्पम्	शास्त्रवुम् सांकेतिक विज्ञानवुम्/ सयन्सुम् टेक्नाळजियुम्	विज्ञान मत्तु तांत्रिक
वित्त	अर्थ, वित्त	बित्त, अर्थ	शेल्-युम्पी ओइबा	बित्त, अर्थ	आर्थिक	निदि	धनकार्यम्	हणकासु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य	विधि-न्याय समवाय-कार्यमन्त्रालयः	कानून, निआं अते कंपनी कारज	कानून, इन्साफ़ व कंपनी उमूर	कोनून, इंसाफ तु कंपनी कॉम	क़ानून, इन्साफ ऐं कंपनी कार्य	कायदा, न्याय आणि कंपनी कार्य	कायदो, न्याय अने कंपनी कार्य	कायदो, न्याय आनी कंपनी कार्य
शिक्षा	शिक्षामन्त्रालयः	सिक्खिआ	तालीम	तॉलीम	शिक्षा, तालीम	शिक्षण	शिक्षण, केळवणी	शिक्षण
श्रम	श्रममन्त्रालयः	किरत	मेहनत	मेहनत	श्रम	श्रम	मजूर खातुं	श्रम
संचार	सञ्चारमन्त्रालयः	संचार	मुवासलात	मवासिलाथ	संचार	दळणवळण, कम्युनिकेशन	संदेशा व्यवहार, खातुं	संचार
समाज कल्याण	समाज-कल्याण मन्त्रालयः	समाज कलिआण	समाजी बहबूद	समॉजी बेंहबूदी	समाज कल्याण	समाज कल्याण	समाज कल्याण	समाजकल्याण
सिविल-पूर्त्ति	नागरापूर्ति-मन्त्रालयः	सिविल सपलाई	रसदरसानी (सिविल सप्लाई)	सिवल सपलय	सिविल सप्लाइ, रसद-रसानी	नागरी पुरवठा	नागरिक पुरवठा खातुं	नागरी पुरवठो
सूचना और प्रसारण	सूचना-प्रसारण-मन्त्रालयः	सूचना अते प्रसारण	इत्तिलाआत व नश्रीयात	इतलात तु नशरियात	सूचना ऐं प्रसारण	सूचना आणि प्रसारण	सूचना अने प्रसारण	सुचना आनी प्रसारण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विधि, न्याय एवम् कम्पनी कार्य	विधि, नियम न्याय ओ कोंपानीर काज	बिधि, न्याय आरु कोंपनी कार्य	नियम, अचुंबा अमसुङ् कंपनीगी ओइबा थबक्	बिधि, न्याय ओ कंपानी कार्ज्य	चट्टमु, न्यायमु, कंपनी ब्यवहारमुलु	चट्टम्, नीदि, कूट्टमैप्पु अलुवलगळ्	नियमवुम् नीतिनिर्वहणवुम् कंपनि कार्यङ्ङळुम्	कानूनु, न्याय मत्तु कंपनि व्यवहारगळु
शिक्षा	शिक्षा (क्खा)	शिक्षा	महै-मशिङ् नोंबा	शिक्षा	विद्य	कल्वि	विद्याभ्यासम्	शिक्षण
श्रम	श्रम, मेहनत	श्रम	शु-नोंबा	श्रम	श्रमे	ताळिलाळर् तुरै	ताळिल्	कार्मिक
सञ्चार	योगायोग, सञ्चार (जो) (जो)	ताँर योगायोग	ई-पाओ चत्लबा	संचार, योगायोग	संचार	तगवल् तांडर्बु	वार्त्ताविनिमयम्	संपर्क
समाज कल्याण	समाज कल्याण (न)	समाज-कल्याण	समाजगी चाइफनबा	समाज कल्याण	संघ संक्षेममु	समूग नलन्	सामूहयक्षेमम्	समाज कल्याण
नागरिक आपूर्ति	असामरिक सरबराह	नागरिक योगान	सिविल सपलाई	तोगाण बिभाग	सिविल सप्लाइ	पांदु विनियोगम्	सिविल् सप्लै	नागरिक सरबराजु
सूचना एवम् प्रसारण	तथ्य ओ प्रचार (त्थ)	तथ्य आरु अनाँतार प्रचार	पाओ अमसुङ् शंदोकपा	सूचना ओ प्रसारण	वार्ता प्रसारण	सेय्दिमट्टुम् ओलिपरप्पु	वार्त्तावितरणवुं प्रक्षेपणवुं	वार्ता मत्तु प्रसार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	स्वास्थ्य-परिवार-कल्याण-मन्त्रालय:	सिहत अते परिवार कलिआण	सेहत व ख़ानदानी बहबूद	सेहत तुं खानदॉनी बेंहबूदी	स्वास्थ्य ऐं परिवार कल्याण, सेहत ऐं कुटुंब बहबूदी	आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण	आरोग्य अने कुटुंब कल्याण	आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण
मनोरंजन	**मनोरञ्जनम्**	**मनोरंजन**	**तफ़्रीहात**	**तफरीह**	**मनोरंजन वग़ैरह**	**मनोरंजन**	**मनोरंजन**	**मनोरंजन**
कलाएँ	**कला**	**कलावां**	**फ़ुनून**	**कसुॅब, हॉनर, फन**	**कलाऊं**	**कला**	**कळा (कला)**	**कला**
चित्र कला	चित्रकला	चितर कला	फ़न्ने-मुसव्विरी	तसवीर-कॉरी, मुसाविरी	चित्रकारी, चित्र कला	चित्रकला	चित्रकळा (ला)	चित्रकला
नृत्य कला	नृत्यकला	नाचकला, निरत कला	फ़न्ने-रक़्क़ासी	नचुन, रकॉसी	नृत्य कला, नाच विद्या	नृत्यकला	नृत्यकळा (ला)	नृत्यकला
मूर्ति कला	मूर्तिकला	मूरती कला	फ़न्ने-बुततराशी (फ़न्ने मुजस्समासाजी)	मूरचुॅगॅरी	मूर्ती कला	मूर्ति कला	मूर्तिकळा (ला)	मूर्तिकला
ललित कला	ललितकला	ललित कला	फ़ुनूने-लतीफ़ा	फनि लतीफी, फाइन आर्ट	ललित कला, लतीफ़ फ़न	ललित कला	ललितकळा (ला)	ललीत कला

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण	स्वास्थ्य (सा) (स्थ) ओ परिवार कल्याण (न)	स्वास्थ्य आरु परियाल कल्याण परिकल्पना	हक्शेल अमसुङ् याइफ युंबान	स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण	आरोग्यमु, कुटुंब संक्षेममु	सुगादार मट्टुम् कुडुंबनलम्	आरोग्यवुम् कुटुंब क्षेमवुम्	आरोग्य मत्तु कुटुंब कल्याण
मनोरञ्जन	मनोरंजन, बिनोदन	मनोरंजन	हराओ तयांबा	मनोरंजन	मनोरंजनमु	पाळुदुपोक्कु	मनोविनोदम्	ललितकलगळु
कला	कला	शिल्पकला, सुकुमार शिल्प	कलाशिङ्	कला	कळलु	कलैगळ्	कलकळ्	कलगळु
चित्रकला	चित्रकला	चित्रकला	लाइयेक्पा	चित्रकळा	चित्रकळ	ओवियक्कलै	चित्रकल	चित्रकल
नृत्यकला	नृत्यकला (त्त)	नृत्यकला	जगोइ	नृत्यकला	नृत्यकळ	नाट्टियक्कलै	नृत्यकल	नृत्यकल
मूर्तिकला	मूर्तिकला	मूर्तिकला	मूर्तिकला	मूर्तिकला	शिल्पकळ	सिर्पक्कलै	कात्तुपणि	मूर्तिकल
ललित-कला	ललितकला	ललितकला	ललित कला	ललितकला	ललितकळ	नुण्-कलै	लळितकल	ललितकल

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
संगीत	सङ्गीतम्	संगीत	मूसीक़ी	मूसीकी, संगीत	संगीत	संगीत कला	संगीतकळा (ला)	संगीत
साहित्य	साहित्यम्	साहित	अदब	अदब	साहित्य, अदब	वाङ्मय, साहित्य	साहित्य, वाङ्मय	साहित्य
स्थापत्य	स्थापत्यम्	उसारी	फ़न्ने-तामीर	तॉमीरी-फन	निर्माण कला, तामीर फ़न	स्थापत्य, वास्तु	स्थापत्य (वास्तुविद्या)	स्थापत्य
रंगमंच	रङ्गपीठम्	रंगमंच	स्टेज	स्टेज	रंगमंच	रंगमंच, स्टेज	रंगमंच	रंगमाची
कठपुतली नाच	काष्ठपुत्तलिका नृत्यम्	कठपुतली नाच	कठ्पुतली नाच	दारिदजि नच्चुन	पुतली नाच	कळसूत्री बाहुलीची नाच	कठपूतळीनो नाच	कळसुत्री बावली-नाच
तमाशा	हेला	तमाशा	तमाशा	तमाशि	तमाशो	तमाशा	तमाशो (सो)	तमाशा
नट (अभिनेता)	नटः	नट, अदाकार	अदाकार	बचि, रासुँ कोंट	नटु	नट, अभिनेता	नट (अभिनेता)	नट, अभिनेता
नटी (अभिनेत्री)	नटी	नटी	अदाकारा	गतुँरेंन्य, रासुँ कॅट	नटी	नटी, अभिनेत्री	नटी (अभिनेत्री)	नटी, अभिनेत्री

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सङ्गीत	संगीत	संगीत	ईशै	संगीत	संगीतमु	संगीतम्, इशै	संगीतम्	संगीत
साहित्य	साहित्य (त्त)	साहित्य	साहित्य	साहित्य	साहित्यमु	इलक्कियम्	साहित्यम्	साहित्य
स्थापत्य	स्थापत्यकला (त्त)	स्थापत्य, स्थपति-विद्या	युम कै शाबगी महै	स्थापत्य	वास्तु शास्त्रमु	सिलै वडिक्कुम् कलै	स्थापत्यम्	वास्तुविद्ये
रङ्गमञ्च, रंगशाला	**रंगमञ**	**रंगमञ्च, रंघर रंगशाला**	**फंपाक, स्टेज**	**रंगमंच**	**नाटककळ**	**नाडग अरंगु**	**स्टेज्**	**रंगभूमि**
कठपुतली नाच	पुतुल नाच	पुतला नाच	लाइधी जगोइ	कंढेइ नाच, पितुला नाच	तोलु बॉम्मलाट	बॉम्मलाट्टम्	पावक्कूत्तु	सूत्रद बॉंबॆ/ गोंबॆ
तमासा	तमाशा, कौतुक	धेमालि	कुम्है	ताम्सा, जात्रा	विनोदमु	वेडिक्कै	तमाश	तमाशे (तमाशे)
नटुवा, अभिनेता	नट (अभिनेता)	भावरीया, अभिनेता	शक्तम् लाङ्बा, अभिनेता	अभिनेता	नटुडु, अभिनेत	नडिगर्	नटन्	नट
अभिनेत्री	नटी (अभिनेत्री)	अभिनेत्री	शक्तम लाङ्बी, अभिनेत्री	अभिनेत्री	नटि (अभिनेत्रि)	नडिगै	नटि	नटि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नाटक	नाटकम्	नाटक	ड्रामा	नाटुख	नाटकु	नाटक	नाटक	नाटक
नाट्य-शाला	नाट्यशाला	नाटशाला	थियेटर, तमाशगाह	नाटुख गिंदनुँच जाय	नाटकघरु	नाटयशाळा	नाटकशाळा (ला)	नाट्यशाळा
नृत्य गीतिका (नृत्य नाटिका)	नृत्यगीतिका, नृत्यनाटकम्	निरतगीतका (निरत नाटका)	डांस ड्रामा	डांस ड्रामा	नृत्यगीतु, नृत्य नाटकु	नृत्य गीतिका, नृत्य नाटिका	नृत्यनाटिका	नृत्य गीतिका
परदा	तिरस्करिणी यवनिका	परदा	परदा	परदुँ	पर्दो	पडदा	परदो (पडदो)	पड्डो
लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत	लुकुँ बॉथ	लोक गीतु	लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत
लोक नृत्य	लोकनृत्य	लोकनाच	लोकनाच	लुकुँ नचुन	लोक नृत्यु	लोकनृत्य	लोकनृत्य	लोक नृत्य, लोकनाच
वाद्य	**वाद्यम्**	**साज**	**साज़**	**साज़**	**साज़ु**	**वाद्य**	**वाद्य**	**वाद्य**
एकतारा	एकतारम्	इकतारा	एकतारा	यकतारु	यकतारो	तुणतुणे, एकतारी	एकतारो	एकतारी, टुणटुणे

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नाटक	नाटक	नाटक	ड्रामा, नाटक	नाटक	नाटकमु	नाडगम्	नाटकम्	नाटक
नाट्यशाला	नाट्यशाला (ट्ट), नाट्यालय	नाट्यशाला, नाटघर, रंगशाला	होल, थियेटर	नटीशाला	नाट्यशाल	नाडग अरंगु	नाटकशाले, नाट्यगृहम्	नाट्यशाले
नृत्यनाटिका	नृत्य गीतिका (नृत्य नाटिका) (त्त), डांसड्रामा	नृत्य नाटिका	डांस ड्रामा	नृत्य नाटिका	नृत्य नाटिकॅ, नृत्यगीतिकॅ	नाट्टिय-नाडगम्	नृत्तनाटकम्	नृत्य नाटिका
पर्दा	परदा, यबनिका	पर्दा, आँर	फिजङ, परदा	परदा, पर्दा	तॅरॅ	पडुदा/ तिरै	पर्द/ कर्टन्	तॆरॆ, परदे
लोकगीत	लोकसङ्गीत	लोकगीत	खुल्लक ईशै	लोकगीत	जानपदॅ गेयमु	नाट्टुप्पाडल्	नाटन्पाट्टुं	जानपद गीते
लोकनृत्य	लोकनृत्य (त्त), फोकडांस	लोकनृत्य	फोक डान्स, लोक नृत्य	लोकनृत्य	जानपद नृत्यमु	नाडोडिक्कूत्तु	नाटोटिनृत्तम्	जानपद नृत्य
वाद्य	**बाद्य, बाज्ना**	**बाद्या**	**ईशैगी जंत्र**	**वाद्य**	**वाद्यमुलु**	**वाद्दियङ्गळ्**	**वाद्यङ्ङळ्**	**वाद्य**
एकतारे	एकतारा, एक तारेर बाद्यजंत्र	एकतारा	एक तारा	एकतारा	एकनादमु	ऑट्टै कंबि वाद्दियम्	ऑट्टकक्कंपि वीण	एकतान, ओंदे तंतिय तंबूरि, एकतारी

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
घंटा	घण्टा	घंटा	घंटा	गंटा, गंटुं	घिंडु	घंटा	घंट	घंटो
झाँज	झल्लक:, झल्लरी	झांज	झाँझ, मजीरा	जांजि	झांझ	झांज	झांझ	कांसाळें
डमरू	डमरु:	डमरू	डमरू	डमरु, डाबुॅर	डमरू	डमरु	डमरु	डमरु
डुगडुगी	लघुडिण्डिम:	डुगडुगी	डुगडुगी	डाबुॅर	दुहिलिड़ी	डुगडुगी	डुगडुगी	डुगडुगी
ढोल	पटह:, ढक्का	ढोॅल	ढोल	डोल	दुहिलु	ढोल	ढोल	ढोल
ढोलक	पटह:, ढक्का	ढोॅलकी	ढोलक	डोलक	ढोलक	ढोलकें	ढोलक	ढोलक
तबला	तबलावाद्यम्	तबला	तबला	तबलुॅ	तबिलो, धुकड़ु	तबला	तबलु	तबले
तानपूरा	तानपूरक	तानपूरा	तँबूरा	तानपूरु	तंबूरो	तंबोरा	तंबूरो	तानपूरो
तूती	तूर्यम्	तूती	तूती	तुरय	तूतारी	पिपाणी, तुतारी	तूती (ततूडी)	तुतारी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घण्टा	घण्टा	घंटा, टिलिङ्गा	काङ्सी, पुङ	घंटा	गंटॅ	मणि	मणि	गंटॅ
झाँज, झ्याली	झाँज	झाँज	झाल	झाञ्ज (सांज)	कंजरि	जालरा	इलत्ताळम्	कैताळ
डमुरु	डमरू	डंबरु	डमरु	डंबरु	डमरु	उडुक्कै	उमरु, उटुक्कुँ	डमरु
डुगडुगी	डुगडुगि	डुगी	पुङ्मचा	डुगडुगी, डुबि, तबला	डप्पु	उडुक्कै	उटुक्कुँ	बुडबुडिकॅ
ढोल	ढोल	ढोल	धोल	ढोल	डोलु	तविल्	पर्, चॅट	डोलु, भेरि
ढोलक	ढोलक	ढोलोक	धुलोक	ढोलक	डोलु, मद्दॅल	डोलक्	ढोलक्कुँ	डोलक्
तबला	तबला	तब्ला, तबला	तबला, तपिला	तबला	तबला	तबला	तबल	तबला
तानपूरा	तानपुरा	तानपूरा	तानपूरा	तानपूरा	तंबुरॅ	तंबूरा	तंपुरु, तंबूरा	तंबूरि
तूती (बासुँरी-सरहको एक बाजा)	बाँशि-सानाइयेर मतो सरू-लंबा बाद्य	बाँही, पेँपा	वासीगुंबा अपिकपा जंत्र अमा	पेँकालि	तूती	कोंबु, वाद्दियम्	कॉपुँ	तुत्तूरि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नगाड़ा	पटहः	नगारा	नक़्क़ारा, नोबत	नगारु	नग़ारो	नगारा	नगारुं	नगारो
पखावज	मुरजः	पखावज	पखावज	पखावज	पखावज	पखवाज	पखाज, पखवाज	पखवाज
बाँसुरी (वंशी)	वेणुः	बंसी, बंसरी	बाँसरी (बंसी)	मोंरली, नय, बंसरी	बंसरी, बंसी	बांसरी, मुरली	बंसरी, बंसी (वांसळी), वेणु	बांसरी, पिर्लू
बीन	तन्त्री; वल्लकी	बीन	बीन	बीन	बीन	बीन	बीन	बीन
मँजीरा	मञ्जीरा	मंजीरा	मजीरा	मंजीरॅ	तालिड़ा, मंजीरा	चिपळया	मंजीरा	ताळ
मृदंग	मृदङ्गः	मिरदंग	मृदंग	मृदंग	मृदंग, धुकड़ु	मृदंग	मृदंग	मृदंग
वीणा	वीणा	वीणा	वीना	वीना	वीणा	वीणा	वीणा	वीणा
शहनाई	सनायिका	शहिनाई	शहनाई	सोंरनय	शहनाई	सनई	शरणाई	शेनाय
सारंगी	सारङ्गम्	सरंगी	सारंगी	सारंग	सारंगी	सारंगी	सारंगी	सारंगी
सितार	सप्ततारकम्	सितार	सितार	सेतारॅ	सितार	सतार	सितार	सितार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नगरा	नाकारा, नागारा	नागारा, नागेरा	अचौबा ड्रम	नागरा, (एक प्रकार बहुत बड़ बाजा)	नगाडा, ढंका	नगारा/ परै	नगरावुं, पॅरुंपर्	नगारि
पखाबाज, पखबाज	पाखोयाज	मृदंग, मृदं	पखावज	पखाउज, पखन	मद्दलॅ	मद्दळम्	मद्दळम्	मृदंग
बाँसुरी, मुरली	बाँशि, बंशी, मुरली	बाँही	बासी	बंशी, बइंशी	वेणुवु	पुल्लांकुऴल्	मुरळि, ओटक्कुऴल्	कोळलु
बीन	बीण, ब्रीणा (न)	पेंपा	बीन	उतुंबाना	सोर्रे बुर्र	मगुडि	मकुटि	पुंगि
मञ्जीर, नूपुर	मंदिरा, छोटो खत्ताल	मंजीरा, नूपुर	मदिला, कोर्ताल	नुपुर	मंजीरमु	जालरा	कैमणि	ताळ
मृदङ्ग	मृदङ्ग	मृदंग, मृदं	पुङ्	मृदंग	मृदंगमु	मिरुदंगम्	मृदंगम्	मृदंग
वीणा	वीणा (न)	बीणा, बीण	बीना	बीणा	वीणॆ	वीणै	वीण	वीणॆ
शहनाइ, सनाई	सानाइ	चानाइ	शहनाई, सहनाई	शहनाई	सन्नाइ	षॅनाय्/चिन्न नादस्वरम्	शहनायि/ नादस्वरम्	शहनाई
सारङ्गी	सारेङ्गी	सारंगी	सारंगी	सारंगि	सारंगि	सारंगि	सारंगि	सारंगि
सितार	सेतार	सेतार	सितार	सितार	सितारु	सितार्	सित्तार्	सितारु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हारमो-नियम	हारमोनियम वाद्यम्	हारमोनिअम	हारमोनियम	हारमोनियम	हारमोनियम	बाजीची पेटी, हारमोनियम	हार्मोनियम, पेटी बाजुं	हारमोनियम-पेटी
रंग	**रङ्गः**	**रंग**	**रंग**	**रंग**	**रंगु**	**रंग**	**रंग**	**रंग**
काला	कृष्ण	काला	काला (सियाह)	क्रुहुन	कारो	काळा	काळो	काळो
गुलाबी	पाटलः	गुलाबी	गुलाबी	गुलॉब्य	गुलाबी	गुलाबी	गुलाबी	गुलाबी
नारंगी	नारङ्गः, कपिश	संतरा	नारंगी	संगतरुँ	नारंगी	नारिंगी	नारंगी	नारंगी
नीला	नीलः	नीला	नीला	न्यूल	नीरो	निळा	वादळी	निळें
पीला	पीतः	पीला	पीला	ल्योंदुर	फिको, पीलो	पिवळा	पीळो	पिवळें
बैंगनी	जम्बुवर्णः	बैंगनी	बैंगनी	वांगुॅन्य, लाजवॅर्य	वाङणाई	बैंगणी	भूरो	वायंगी रंग
लाल	रक्तः	लाल	लाल, सुर्ख़	वोंजुल	ॻाढ़ो	लाल	लाल (रातो)	लाल
सफेद	श्वेतः	चिट्टा, सफ़ैद	सफ़ेद	छ्यंत, सफेद	अछो, सफ़ेद	पांढरा	सफेद (धोळो)	धवो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हार्मोनियम, हार्बिन	हारमोनियम	हारमनियम	हारमोनियम	हारमोनियम	हार्मोनियमु	हार्मोनियम्	हार्मोणियम्	हार्मोनियम्
रङ	**रंग**	**रं**	**मचु**	**रंग्**	**रंगुलु**	**निरंगळ्**	**निरंङ्डळ्**	**बण्ण**
कालो	कालो	कॅला	अमुबा	कला	नलुपु	करुप्पु	करुप्पुॅ	कप्पु
गुलाफी	गोलापी	गोलापी	गुलाबी, लै मचु	गोलापी	गुलाबी	रोजानिरम्	रोस्निरम्	गुलाबी
सुन्तला	कमला	क़मलार-रं, सुमथिरा रं	कोमला मचु	नारंगी	नारिंज	आरंजु निरम्	ओरंज्	कित्तळबण्ण
नीलो	नील	नीला	हिगोक़	नील	नीलि	नीलम्	नील	नीलि
पहेँलो	हल्दे, हलुद	हालधीया	नापु मचु	हलदिया	पसुपु	मंजळ्	मञ्ञ	हळदि
बैजनी, बैगनी	बेगनि, बेगुनी	बेगुनीया	मंग्रामचु	बाइगणी	वंकायॅ	ऊदा, कत्तरिप्पू निरम	ऊत	नेरळ बण्ण
रातो	लाल	रङा, लाल	अङाङबा	नाली, लाल	एॅरुपु	सिवप्पु	चुवप्पुॅ	कंपु
सेतो	सादा, सफेद	बगा	अङौबा	धला	तॅलुपु	वॅळ्ळै	वॅळुप्पुॅ	बिळुपु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सलेटी	भस्मवर्ण:	सलेटी	सलेटी	सिलेटी	सिलेटी	स्लेटी, करडा	राखोडी	शिलेटी
हरा	हरित:	हरा	हरा (सब्ज)	सबुॅज़	साओ	हिरवा	लीलो	पांचवो
विधि शब्दावली	**विधिशब्दा:**	**कानूनी शब्द**	**क़ानूनी अल्फ़ाज़**	**कोनूनॅक्य लफ़ॅज़**	**क़ानूनी लफ़्ज़**	**कायदे-विषयक शब्द**	**कानून विषयक शब्द**	**कायद्याची शब्दावली**
अग्राह्य	अग्राहय	अग्रहण योग	नाक़ाबिले इदख़ाल	नाकोबूल	न ग्रहण करण जोगो, ना क़ाबिले क़बूल	अग्राह्य	अग्राह्य	अग्राहय
अटर्नी	प्रतिनिधि:	अटरनी	अटार्नी	मोखितार	अटार्नी, मुखतार	मुखत्यार, ॲटर्नी	ॲटर्नी (एटर्नी)	ॲटर्नी
अतिक्रमण	अतिक्रमणम्	खिलाफ़-वरज़ी	खिलाफ़वर्ज़ी	हदुॅनेरुन, खलाफ-वरज़ी	बेकाइदे दाख़िला या क़ब्ज़ो	बेकायदेशीर प्रवेश अगर कब्जा अतिक्रमण	भंग	अतिक्रमण
अतिचार	अतिचार:	जियादती, अण-अधिकार प्रवेश	ज़ियादती	ज़बरदॅसती	दस्तअंदाजी, बेक़ाइदे दाख़िला	अतिक्रमण	अतिचार	अतिचार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिलेटी, खैरो	छाइ; धूसर, शेलेट	धूसर, चिलवर निचिना रं	अवाओबा	स्लेट, माटिआ रंग	सिमेंटु रंगु	करुम् पळुप्पु	स्लेट्टु निऱम्	ऊदा
हरियो	सबुज, हरित्	सेउजीया, कलापतीया	अशङ्बा	हरित, सबुज	आकुपच्चे	पच्चै	पच्च	हसिरु
कानुनी शब्दावली	**विधि, नियम, आइनी शब्दावली**	**विधि शब्दावली, आइन**	**वायेन गी वाहै**	**आइन शब्दावली**	**न्यायशास्त्र पदमुलु**	**सट्टच्चोर्कळ्**	**नियम पदङ्ङळ्**	**कानूनिगं सबंधि-सिद शब्दगळु**
अग्राह्य, त्याज्य	अग्रहण जोग्य, अग्राह्य, उपेक्खा	अग्राहय	यादबा	अग्राह्य	अग्राह्यमु	ओत्तुक्कोळ्ळ-मुडियाद	अस्वीकार्यमाय	ओप्पलागद, अग्राह्य
एटर्नी, न्याया-धिवक्ता	एटर्नी, न्यायवादी	एटर्नी, महान्यायवादी	एतोर्नी	आटर्नी	अटर्नी	अट्टार्नि	अट्टोऱ्णी	अटर्नी, न्यायवादी
अतिक्रमण	उल्लंघन, अतिक्रमण, अमाणय	उलंघन	थुगाइबा, इंदबा	अतिक्रमण	अतिक्रमणमु	मीऱल्	अतिक्रमणम्, उल्लंघनम्	उल्लंघने, अतिक्रम प्रवेश
अतिचार, ज्यादती	अतिचार, जबरदस्ती प्रबेश	लंघन	अहेन्बा लीचत्	अतियार	अतिचरिंचुट	अत्तुमीऱुदल	कटन्नु कयट्टम्, कटन्नेट्टम्	उल्लंघने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अतिलंघन	अतिलङ्घन, उल्लङ्घन	उलंघणा	खिलाफ़वर्ज़ी	खलाफ वरज़ी	उलंघन	उल्लंघन	अतिलंघन, उल्लंघन	अतिलघंन, कायदोमोडपी
अधमता	अधमत्व, अधमता	गिरावट	कमीनगी (बदमाशी)	लचरगी, कमीनुँगी	नीचता, कमीनगी	नीचता	अधमता	अधमता, निकृष्ठ
अधर्मज	अधर्मज	नाजाइज़	नाजाइज़	हरामुक	नाजाइज़	अधर्मज	अनौरस	कायाद्याचो विरोध
अधिकरण	अधिकरणम्	ट्रिबिऊनल	ट्रिब्यूनल	ट्रिब्यूनल	खास अदालत, ट्रिब्यूनल	न्यायाधिकरण	ट्रिब्युनल	ट्रायब्युनल
अधिनियम	अधिनियम:	ऐकट, अधिनियम	एक्ट	कोनून, जॉबितु	क़ानूनु, ऐक्ट	अधिनियम	अधिनियम	अधिनियम, कायदो
अधिनिर्णय	अधिनिर्णय:	सालसी फैसला	फ़ैसला सालिसी	अदालती फॉसलुं	अदालती फ़ैसलो	अधिनिर्णय, निवाडा देणे	चुकादो	अधिनिर्णय
अधिभोगी	अधिभोगी	दखीलदार	दख़ील	कॉबिज़	दख़ीलदार, क़ाबिज़	अधिवासी	भोगवटो करनार	अधिभोगी
अनुच्छेद	अनुच्छेद:	अनुछेद	दफ़ा	मद, दफा	दफ़ो, पैरा	अनुच्छेद	कलम	अनुच्छेद, कलम

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अतिलङ्घन	अतिलंघन, अमान्य	अतिलंघन	थुगाइबा	उल्लंघन	अतिलंघनमु	मीरुगै	लंघनम्, उल्लंघनम्	अतिलंघनं
अधमता, नीचता	अधमता, नीचता	अधमता, अधमल	हंथना खन्बा	अधमता, बोकामि	अधमत्वमु	इळिवान तन्मै	अधमत्वम्	निकृष्टतं
अधर्मज, गैरकानुनी	अवैध, बेआइनी जारज	अधर्मज, जारज्, बेआइनी, विधि-बिरुद्ध	धर्मतैलवा, चुमदबा	जारज	अधर्मजातमु	मुरैयिला मणप्पिरप्पु	जारपुत्रन्	जारज, विधिविरोध
अधिकरण, न्यायालय	अधिकरण (न), बिशेष आदालत, ट्राइबुनल	अधिकरण, न्यायाधिकरण	ट्रिबिऊनल, वाथोक अमगी विचार तौनबा हाप्पा जजशिङ	अधिकरण, ट्रिबूनाल	अधिकरणमु	तीर्पायम्	ट्रिबूणल्	न्यायाधिकरण
अधिनियम	आइन (बिशेष)	अधिनियम, अध्यादेश	एकट	अधिनियम	अधिनियममु	चट्टम्	आक्ट्	अधिनियम, ऍक्टु
अधिनिर्णय	विनिर्णय, राय	राय, बिनिर्णय	अचुम अराल लेप्पा	निर्णय, राय	अधिनिर्णयमु	नीदिमन्‌ मुडिवु	विधि	ऐतीर्पु, न्याय निर्णय
अधिभोगी	दाखलिकार, दाखिल	दखलकारी	हेनजिन्ना चाबा	दखलकारि	आक्रमणदारु	कुडियिरुप्पवर्	कैवशक्कारन्	अधिभोगी
अनुच्छेद	अनुच्छेद	अनुच्छेद	ताङकक्, मताङ्	अनुच्छेद, दफा	अनुच्छेदमु	उरुप्पु/ षरत्तु	अनुच्छेदम्/ वकुप्पुँ	अनुच्छेद

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अनुश्रुत	अनुश्रुतः, प्रवादः	सुणी-सुनाई	समाई	पतुँवथ आमुत, र्‌यवॉयती	बुधल-बुधायलु, रिवायती	अनुश्रुत, ऐकीव	सांभळेली	अनुश्रुत
अपकृत्य	अपकृत्यः	टौरट, अजोग करम	टार्ट, बदी (ख़ता)	बदी	अजोगो, बुरो कमु	अपकृत्य	अपकृत्य, दुरुचर	अपकृत्य
अपमान-लेख	अपलेखः	अपमान-लेख	तौहीने तहरीरी	हतकी-तहरीर	अपमान-लेख	लेखी बदनामी मजकूर	बदनामीवाळुं लखाण	अपमान-लेख
अपमान-वचन	अपवचनम्	अपमान-बचन	तौहीने ज़बानी	हतकी-लफ़ुँज़	अपमान वचनु	तोंडी बदनामी	मौखिक बदनामी	अपमान-वचन
अपराध	अपराधः	अपराध, जुरम	जुर्म	कोसूर, तखसीर	डोहु, अपराधु	अपराध/ गुन्हा	गुनो	अपराध
अपराधी	अपराधी	अपराधी	मुजरिम	कोंसूर वार, तखसीर वार	डोही, अपराधी	अपराधी/ गुनेहगार	गुनेगार	अपराधी
अपहरण	अपहरणम्	उधाला, अगवा	अग़वा	अग़वा	भजाए वञणु	अपहरण	अपहरण	अपहरण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अनुश्रुत, जनश्रुति	जनश्रुति, प्रवाद, शोनाकथा	प्रबाद जनश्रुति	अरिबा वारिगी ओइबा	प्रबाद	अनुश्रुतमु विनिन	केळ्विनिलै	केट्टकेळ्वि	केळिबंद, वदंति
अपकृत्य	अपकृत्य (त्त), कु-काज	अपकृत्य	फत्तबा थौओङ्	अपकृत्य, खराप कार्य	अपकृत्यमु	तींगु	अपकृत्यम्	अपकार, अपकृत्य
अपमानी-लेख, निंदापत्र	अपमान पत्र, मानहानि	अपमान-लेख	मिङचत् थीहन्बा खुत्ई	अपमान-लेखा/ मानहानि लेखा	अपमान लेख, निंदालेख	अवतूरु कट्टुरै	अपमानलेखनम्	निंदात्मक लेखन
अपमान-कारक वचन	अपमानजनक वचन/ मानहानिकर बचन	अपमान बचन, अमर्यादित बचन	मिङचत् थीहन्बा वाङाङ् ईकाइबां पीबा वाङाङ्	अपमान-वचन, मानहानि वचन	अपनिंद	वायृच्चॊल् अवतूरु	अपमानवचनम्	निंदा वचन
अपराध	अपराध	अपराध	मराल	अपराध	अपराधमु नेरमु	कुट्ट्रम्	कुट्ट कृत्यम्	अपराध
अपराधी	अपराधी	अपराधी	मराल लैबा मी	अपराधी	अपराधि नेरस्थुडु	कुट्ट्रवाळि	अपराधि, कुट्टक्कारन्	अपराधि
अपहरण	अपहरण (न), हरण	अपहरण	फाबा	अपहरण	अपहरणमु	आट्कडत्तल्	अपहरणम्	अपहरण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अपीलार्थी	पुनरावेदकः	अपीलकार	मुराफ़े (अपील कुनिंदा)	अपील करन वोल	अपील कंदड़ु	अपीलकार	अपील करनार, अरजदार	अपीलकार
अभिकथन	दूषणम्, आक्षेपः	दूशण, इलज़ाम, आरोप	बयान	यिलज़ाम	इल्ज़ामु	आरोप, अभिकथन	आक्षेप	अभिविधान
अभियुक्त	अभियुक्तः	मुलज़म	मुल्ज़िम	मुदालुँ	ड॒ोही, मुल्ज़िम	आरोपी	आरोपी	आरोपी
अभियोक्त्री	अभियोक्ता	मुलज़म	मुल्ज़िम	मुदालुँ	मुदालिअ, डोही, मुल्ज़िम	आरोपी	आरोपी	वादी
अभियोजक	अभियोजकः	प्रासीकिऊटर/ पैरोकार	मुस्तग़ीस	सरकॉर्य वकील	प्रासीक्यूटर	अभियोक्ता	फोजदारी काम चलावनार	अभियोक्ता
अभियोजन	अभियोजनम्	पैरवी	इस्तेग़ासा	यिसतिगासुँ	अभियोग	अभियोग	फोजदारी काम	अभियोजन
अभिरक्षा	अभिरक्षा	संभाल	तहवील, हवालात	ह्यफाज़थ	संभाल, रक्षा	अभिरक्षा	कस्टडी, हवालो	अभिरक्षा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अपिलवाला, झगडिया, वादी	आपीलकारी (आपिल)	आपीलकारी	आपिल तौबा मी	आवेदनकारी	अपीलु दारु	मेन्मुरैयीट्टु मनुदार्	अपीलवादि	अपीलुदार
आरोप, अभियोग	दोषारोप, अभिकथन, अभियोग	दोषारोप, अभियोग	वाङाङ्	अभिजोग, दोषारोप	नेरारोपण	चाट्टुरै	आक्षेपम्	आपादने
अभियुक्त	अभियुक्त (जु), आसामी	अभियुक्त	मराल लैरबा मी नुपी	अभिजुक्त	निंदितुडु	एंदिरि/ कुट्टम् चाट्टप्पट्टवर्	प्रति	आपादित, आरोपि
वादी, झगडिया	अभियोक्त्री (जो)	अभियोक्त्री, आपिलकारी	मराल लैरबी नुपी	अभिजोगकारी	वादि	कुट्टम् चाट्टप्पट्टवळ्	अपराधिनि	आपादने माडुववळु
अभियोक्ता, वादी, अभियोजक	अभियोक्ता (जो), अभिशंसक	अभियोजक	मराल लैरबा मी	अभिजोजक, अभिजोगकारी	अभियोजकुडु	कुट्ट- वळक्कुरैञर्	प्रोसिक्यूटर्	प्रासिक्यूटर
अभियोजन	अभियोजन (जो), बादी अभिशंसन, प्रोजिकुशन	अभियोजन	प्रोसिक्यूसन, आइनगी थोङ्दा वाकत्लिबा मी	अभिजोजन, अभिजोग करण	अभियोजनमु	कुट्ट विचारणै	प्रोसिक्यूषन्	प्रासिक्यूषन्
अभिरक्षा, हिरासत, थुना	अभिरक्षा, हेफाजत	अभिरक्षा	ङाक्थोक्पा	अभिरक्षा, हेपाजत, हाजत, रक्षण	अभिरक्ष	पादुकाप्पु	सूक्षिप्पु, कस्टडी	अभिरक्षे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अवमान	अवमानः	तौहीन/ हतक	तौहीन	बेयज़ती	बेइज़्ज़ती	अवमान	अपमान, तिरस्कार	अवमान
अवैध	अवैध	गैरकानूनी	नाजाइज़ (ख़िलाफ़े क़ानून)	गॉर कोनूनी	क़काइदे ग़ैरक़ानूनी	अवैध	गेरकायदेसर	अनौरस
आज्ञापक	आज्ञापक	ताकीदी	ताकीदी	हॉकिम	हुकुम ड्डींदड़ु	आज्ञापक, हुकमदेणारा	आज्ञापक, आदेशात्मक, हूकम करनार	आज्ञापक
आपराधिक मानव वध	दण्ड्यनृवधः	अपराधिक मुनक्ख-हत्तिआ	क़तले-अमद, क़तले इन्सान मुस्तल्ज़िमे सज़ा	इन्सान मारनुक अपराद जुरुम	ड्डोहभर्यो इन्सान जो क़तल	सदोष मानव वध	सापराधिक मानववध, दंडनीय मनुष्यवध	सदोश मानववध
आरोप	आक्षेप	आरोप, दोश	इल्ज़ाम	हाँछ़, यिलज़ाम	इलज़ामु, तुहमत	दोषारोप	आरोप, आक्षेप	आरोप
उच्च न्यायालय	उच्च-न्यायालयः	उच्च अदालत	अदालते-आलिया (हाई कोर्ट)	हय कूटी	उच्च न्यायालय, हाइ कोर्ट	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	हायकोर्ट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवमान, अपमान	अबमानना	अवमानना	इज्जत् शोक्पा, इज्जत् हन्थबा	अवमानना	अवमानमु, धिक्कारमु	अवमदिप्पु	अलक्ष्यम्, निंद	अवहेळनं, अवमान
अवैध, नियमविरुद्ध	अवैध, बे-आइती	अबैध	नियमना यादबा	अबैध, बेआइन, बिधि बिरुद्ध	शासनविरुद्धमु अक्रममु	चट्टमुरणान	नियमविरुद्धमाय	विधिविरुद्ध, गैरकानूनी
आदेशात्मक	आज्ञापक, आज्ञाधीन	आज्ञापक, आज्ञासूचक	थौदाबा मीओइ, याथङ् थादबा मीओइ	आज्ञाधीन, आदेश, अधिन	आज्ञापकुडु	कट्टळै इडुबवर्	आज्ञापकन्	आज्ञं, कर्त्तव्य
आपराधिक नरहत्या	आपराधिक नर-हत्या (त्ता)	आपराधिक नर हत्या	मराल लैबा मी हात्पा	अपराध (मनुष्य) मानब बध, नरहत्या	अपराधात्मक वध	कोलै कुट्टम्	कुट्ट करमाय नरहत्य	अपराधात्मक नरहत्यं
आरोप, अभियोग	अभियोग, दोषारोप	आरोप, अभियोग	मराल शीबा	आरोप, अभिजुक्त	नेरारोपण	कुट्टच्चाट्टु	चार्ज, आरोपिक्कुक	आरोपणं
उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट	उच्च न्यायालय	हायकोर्ट, अवाङ्बा वायेन लोयशङ्	उच्च न्यायालय	उन्नत न्यायालयमु	उयर् नीदिमन्रम्	हैक्कोटति	उच्च न्यायालय, हैकोर्टु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उच्चतम न्यायालय	सर्वोच्च-न्यायालय:	सरव उच्च अदालत	सुप्रीम कोर्ट	सुपरीम कोर्ट, थॅज़ मुनसिफ़ी	उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट	सर्वोच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय (भारतनी सौथीबडी-सर्वोपरि अदालत)	सुप्रीम कोर्ट
उत्तरजीवी	उत्तरजीवी	उत्तरजीवी	पसमांदा (पसमांदगान)	पसमांदुॅ	उत्तरजीवी, पसमांदगान	उत्तरजीवी	हयात	उत्तर जीवी
उत्तरा-धिकारी	उत्तराधिकारी	उत्तर अधिकारी	वारिस, जानशीन	वॉरिस	वारिस, उत्तराधिकारी	उत्तराधिकारी	उत्तराधिकारी	उत्तराधिकारी
उत्प्रेरणा	उत्प्रेरणम्	प्रेरणा	तरग़ीब	होसलुॅ-अफज़ॉयी	प्रेरणा, तरग़ीब	प्रलोभन	प्रलोभन	उत्प्रेरणा, उत्स्फूर्त
उन्मुक्ति	उन्मुक्तिः	उनमुकती	छुटकारा	मोंकलुन, मोंकजार लबुन	आज़ादी, उन्मुक्ती	मुक्तता, उन्मुक्ती	मुक्ति	मुक्ती
उपखंड	उपखण्डः	उपखंड/ सब डवीज़न	ज़ैली हिस्सा	हिसुक/ हिसुॅ	उपखंडु	उपविभाग	पेटा-विभाग	उपखंड
उपधारा	उपधारा	उपधारा	ज़िमनी	ज़िमनी दफा	उपधारा	पोट कलम	पेटा-कलम	पॉट कलम

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सर्वोच्च्-न्यायालय, सर्वोच्च्-अदालत	उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट	उच्चतम न्यायालय	ख्वाइदगी वाङ्वा वायेन लोयशङ्, सुप्रीम कोर्ट	उच्चतम (सर्बोच्च) न्यायालय	सर्वोन्नत न्यायालयमु	उच्च नीतिमन्र्म्	सुप्रीम् कोटति	उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्टु
उत्तरजीवि	उत्तरजीवी	उत्तरजीवी	हिङ्हौबा मी	उत्तरजीवी	उत्तरजीवि	वारिसुदार्	अतिजीविक्कुन्न	उत्तरजीवी
उत्तराधि-कारी	उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती	उत्तराधिकारी	महुत् शीन्ना	उत्तराधिकारी, दायाद	वारसुड्डु	पिन्वरुबवर्	पिन्गामि	उत्तराधिकारी
उत्प्रेरणा	उत्प्रेरणा (ना), प्ररोचना	प्रलोभन, उत्तेजना, उत्क्षोभन	इन्सिन्बा	प्रलोभन, प्ररोचना	उत्प्रेरण	तूण्डुदल्	प्रचोदनम्	प्रेरणं
उन्मुक्ति, छुटकारा	अनाक्रम्यता, बिमुक्ति, मुक्तिलाभ	उन्मुक्ति, बिमुक्ति	निङतंबा	मुक्ति	उन्मुक्ति	चट्ट विलक्कळिप्पु	उन्मुक्ति	उन्मुक्ति
उपखण्ड, उपविभाग	महकुमा, उप विभाग	महकूमा	अपिकपा मशा, सब डिविजन	महकुमा	उपखंडमु, सब् डिविजनु	उट् कोट्टम्	उपविभागम्, सब् डिविषन्	उपविभाग
उपधारा	उपधारा, साबसेक्रसन	उपधारा	सब सेकसन	उपधारा	उपपरिच्छेदमु	उट् पिरिवु	उपवकुप्पुं	उपप्रकरण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
उपनियम	उपनियमः	उपनियम	ज़ैली क़ायदा	जॉली कोनून	उपनियम, उपनेम	उपनियम	पेटा-नियम	पॉट नेम
उपपट्टा	उपपट्टः	उपपट्टा/ शिकमी	ज़ैली पट्टा	जॉली- पट्टुॅ	उप-पट्टो	पोट पट्टा	पेटा-पटो	पॉट-पट्टो
उपेक्षा	उपेक्षा	उपेखिया/ अणगहिली	ग़फ़लत	लापरवॉही	नज़र- अंदाज़ी	उपेक्षा, दुर्लक्ष करणे	गफलत/बेदरकार	उपेक्षा
कठिन	कठिन	औखा, कठन	सख़्त	सख	औखो, मुश्किल, कठिन	कठीण	कठिन, कठण	कठीण
कठोरता	कठोरता	कठोरता	सख़्ती	सखती, बेरहमी	सख़्ती, कठोरता	कठोरता	कठोरता	कठोरता
कदाचार	कदाचारः	दुराचार	बदचलनी, बद किर्दारी	बदचलनी	बदचलनी, दुराचार	दुराचरण	गेरवर्तणूक	दुराचारण
कपट	कपटम्	कपट	फ़रेब	छ़ल	कपटु, छलु	कपट	कपट	कपट
कब्ज़ा	भोगः	कबज़ा	कब्ज़ा	कबज़ुॅ	कब्ज़ो	कब्जा	कबजो, भोगवटो	कब्जो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपनियम	उपनियम	उपनियम	पथाप मचा-मचा, लम-लमगी ओइना शेंबा नियम	उपनियम	उपनियममु	तुणै विधि	उपचट्टम्	उपनियम
उपपट्टा	उपपट्टा	उपपट्टा	शानदोकपगी यानचे-मचा	उपपट्टा	उपपट्टा	कीळ्क्कुत्तगै	कीळ्पाट्टम्	ओळगणि, ओळ गुत्तिगे
उपेक्षा, बेवास्ता	उपेक्षा (क्खा), अवहेला	उपेक्षा	थओइदबा	उपेख्या/ अवहेला	उपेक्ष, निर्लक्ष्यमु	गवनमिन्मै, करुदाप्पिळै	उपेक्ष वरुत्तुक, उपेक्ष	उपेक्षे
कठिन, गाह्रो, कडा	कठिन, कठोर, शकती	कठिन	अरुबा	कठिन, कष्ट	कठिनमु	कडिनमान	कठिनम्	कठिण
कठोरता	कठोरता	कठोरता, निमरमिया	अकनबा, कन्था हैथानबा	कठोरता, निर्ममता, निष्ठुरता	काठिन्यमु	कडूरम्, कडुमै	कर्शनम्	कठोरते
कदाचार, दुराचार	कदाचार, दुराचार	कदाचार	वाचत् वानोंबा	अबैधता	दुर्व्यवहारमु	ओळुक्कमिन्मै/ ऊळल्/ तीयनडत्तै	अपचारम्, दुर्नटत्त	कंदाचार
कपट, छल	प्रतारणा, प्रवंचना, कपट, छल	प्रवंचना	नम्थाक् लौनम	कपट, प्रतारणा, प्रबंचना	कपटमु	मोसडि	वंचन	कपट
कब्जा	अधिकार, भुक्ति, दखल	दखल	लौशिन्बा, फाजिन्बा	दखल, अधिकार	स्वाधीनमु, कब्जा	कैप्पट्टल्	कैवशम्	स्वाधीन, कब्जा

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कलंका-त्मक	निन्द्य	कलंकातमक	हतक आमेज़	बदनॉमी-वोल	कलंक जोगो	कलंकात्मक	निंदायुक्त	कलंकात्मक
कानून	विधि:	कानून	क़ानून	कोनून	कानूनु	संविधी	कानून	कायदो
कारावास	कारावास:	जेलखाना, कैदखाना, बंदीखाना	क़ैद, क़ैदख़ाना	कॉद खानुँ, जेल	जेल, क़ैदख़ानो	कारावास	कैद	बंदखण, जैल
किशोर-अपराधी	बालापराधी	बाल अपराधी	नौउम्र मुलज़िम	नाबालेग़ मुजरिम	नाबालिग़ ड़ोही	किशोर अपराधी, बाल गुन्हेगार	तरुण गुनेगार	बाळ गुनेगार
कूटकृत	कूटकृत्यम्	जाहली	जाली	जालसॉज़ी	ज़ालसाज़ी, फ़रेब	कारस्थान, बनावट करणे	बनावटी	कारस्थान
क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति:	निसतारा देणा, हानपूरती करना	हर्जाना (तावान)	गाटुँ पूरुन	हरजानो भरे ड्रियणु	नुकसान भरपाई	नुकसान भरपाई	लुकसान भरपाय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कलङ्कजनक, कलङ्कात्मक	कुत्साजनक, अपबादमूलक, कलंकजनक	कुत्साजनक, कलंकजनक, कलंकात्मक	दोष चेनबगी मशक	कुत्साजनक, अपबादमूलक, कलंकमय	कलंकात्मकमु	अवदूरान	अपवाद परमाय, अपवादपरम्	कलंकात्मक
नियम, कानुन, ऐन	संबिधि, आइन-कानुन	बिधि, आइन	पथाप, नियम	नियम, कानून, विधि, आइन	चट्टमु	चट्टम्	स्टाट्यूट/ नियमम्	कानूनु, शासन, कायदे
झ्यालखान, झ्यालखाना, कारावास	काराबास, कायेदखाना, बंदीनिबास, जेलखाना	काराबास	कैशुमशङ्, जेल	काराबास, कारादण्ड	कारावासमु	चिरैवासम्	तटवुं	कारावास, सेरे, जैलुवास
किशोर-अपराधी	किशोर अपराधी	किशोर अपराधी, बालक अपराधी	नहा ओइना मराल लैबा	बाल अपराधी	बालापराधि	इळम् कुट्टवालि	बालकुट्टवाळि	बाल अपराधि
जाल, षडयंत्र	जाल, षडजंत्र	षड्यंत्र, कपटीया, जाल फाँकि चक्रांति	आइनबु नियम नाइना इदुना थंबा	षडजंत्त, चक्रांत, फांद	नकिली	कळ्ळ/पोलि	कपटानुकरणम्	खोटा
क्षतिपूर्ति, हर्जाना, भरताल	क्षतिपूरण (ख) (न)	क्षतिपूरण, क्षतिपुरावल	क्षेतिपुरोन	ख्यतिपूरण	नष्ट परिहारमु	नष्ट ईडु	नष्ट परिहारम्	नष्ट परिहार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
खंडन	खण्डनम्	खंडन	तरदीद	खलल, नमानुन	खंडनु	खेडून, काढणे, प्रतिवाद	खंडन	खंडन
खंड-पीठ	खण्डपीठम्	खंड-बैंच	डिवीज़न बेंच	डिवीजन-बेंच	खंड-पीठ, डिवीज़न-बैंच	प्रदेश न्यायासन	खंडपीठ	खंडपीठ
गारंटी	प्रतिभूति:	गरंटी	ज़मानत	ज़मानथ	गारंटी	हमी	गेरंटी (बांहेधारी)	खात्री
गिरफ्तारी	ग्रहणम्	ग्रिफतारी	गिरफ़तारी	गिरिफतॉरी	गिरफ़्तारी	अटक, धरपकड़	धरपकड़, अटकायत	धरपकड
गिरवी	निक्षेप:	गिरवी, रहिण	गिरवी	गिरव	गिरवी	गहाण	गिरवी, गिरे मूकवुं	खंडाक दिवप
जनकता	जनकत्वम्, पितृत्वम्	जनकता	वलदीयत	वलदियत	जनकता, पितापणो	जनकता	जनकता	जनकता
जमानत	प्रतिभूति:	ज़मानत	ज़मानत	ज़मानत, मुचिलकुँ	ज़मानत	जामीन	जामीनगिरी	जामीन

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खण्डन, प्रतिवाद	खंडन	खंडन, छेदन, मोचान	कक्थत्पा, थुगाइबा, येत्पा	खंडन	खंडनमु	कंडनम्	खंडनम्	खण्डने
खण्डपीठ, इजलास	खंड-बिचार पीठ, डिबिसन बेन्चू, खंड पीठ	खंड न्यायालय	डिवीजन बेंच	खंड-पीठ	डिविजन बेंचि	डिविज़न बेंच	डिविषन् बंच्	विभाग न्यायपीठ
ग्यारेण्टी	ग्यारान्टी, प्रत्याभुति	गेरांटी, प्रत्याभूति	गेरेन्टी	जामिन, जमानत	ग्यारंटी	उत्तरवादम्	गारंटि, उरप्पुॅ	खातरि
गिरफ्तारी, पक्राउ	ग्रेप्तारी, बंदीकरा	ग्रेप्तार, रोधकर, धर	फाबा	ग्रेप्तार	अरॅस्टु	कैदु संय्दल्	अरस्टॅ	दस्तगिरि
बंधक, धितो	बंधक	बंधक	बंधोप थंबा	बंधक	कुदुवॅ	अडगु	पणयम्	अडमान, गिरवि, ओत्तेइडु
पितृत्व, जनकता	जनकता, पितृत्बं	जनकता, पितृत्व	मपा-ममा ओइबा मतौ, अहल-लमन ओइबा मतौ	पितृत्व (वंशपरंपरा)	जनकत्वमु	तंदै निलै	पितृत्वम्	हुट्टु, वंश
जमानत	जामानत, जामिन	आमानत, जामिन	जमिन पीबा, थादोकपा, बेल	जमानत, जामिन	बॅयिलु, जामीनु	जामीन्	जाम्यम्, जामीन्	जामीनु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
जाँच-न्यायालय	अन्वेषण-न्यायालय:	जांच अदालत	तहकीक़ाती अदालत	तहकीकॉती अदालथ	जांच कोर्ट	चौकशी-न्यायलय	तपास अदालत	तपास-न्यायालय
जूरी	न्यायमण्डलम्, अभिनिर्णायक:	जियूरी, अदालती पंचायत	ज्यूरी	जूरी	जूरी	न्यायातील पंच, ज्यूरी	(न्याय) पंच	ज्युरी
तलाशी	अन्वेषण	तलाशी	तलाशी	तलॉशी	तलाशी	झडती	तलाश, तलाशी, तपास	तरजप
तामील	निर्वहणम्, अनुपालनम्	तामील	तामील	तॉमील	तामील	अमंलबजावणी	अमलबजवणी	अमल बजावणी
दंड	दण्ड:	दंड, सज़ा	सज़ा (जुर्माना)	सज़ा	<u>डं</u>डु	दंड, शिक्षा	दंड	दंड, तलांव
दंडनीय	दण्ड्य	सज़ायोग	क़ाबिले-सज़ा, वाजिबुलताज़ीर	सज़हस-लायख	<u>डं</u>डजो<u>गो</u>	शिक्षेस पात्र	दंडनीय, दंडकरवा योग्य, सज़ापात्र	दंडणावणी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जाँच-न्यायालय	उत्तर विचारकारी न्यायालय	तदंत न्यायालय, तदंत विचारालय	थिजिनबगी वायेन लोयशङ्	तदंत न्यायालय, तदंत अदालत	विचारणं न्यायालयमु	विशारणै नीदिमन्रम्	अन्वेषण-क्कोटति	विचारणे न्यायालय
अभि-निर्णायक मण्डली, जुरी	जुरि	जुरि, सप्तजनी	राय पिनबा मी काङ्लुप, जुरी	जूरी, न्याय बा निर्णायक सभा (मंडल)	ज्यूरी	जूरि	जूरि	जूरि
खोजबीन, तलासी	तल्लासी (तालासी)	खाना-तालाच, तालाच	थि-हुंबा, थिजिन्बा	तलाशी, तलाश	सोदा	सोदनै	परिशोधन	परिशोधने
आज्ञापालन, तामेल	तामिल, संपादन	आज्ञापालन	हायबा इन्बा	आज्ञापालन, आदेशपालन	आज्ञापालनं	अमल् संय्दल्	नियम पालनं	निर्वहणे, अमल-बजावणी
दण्ड, सजाय	दंड, सजा	दंड, शास्ति, जरिमना	चैराक, दंदी	दण्ड	शिक्ष	दंडनै	शिक्ष	दण्ड, जुल्माने
दण्डनीय	दंडणीय	दण्डनीय, दण्डपात्र	चैराक पीबा याबा, दंदी पीबा याबा	दण्डनीय	शिक्षार्ह-मैनं	दंडिक्कत्तक्क	शिक्षार्हन्	दंडनीय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दंड संहिता	दण्डसंहिता	दंड संघता	ताज़ीरात (फ़ौजदारी क़ानून)	तॉज़ीराथ	ड॒ंड-संहिता, सज़ा बाबत क़ानूनु	शिक्षा-शास्त्र, शिक्षेचे नियम	दंडशास्त्र, फोजदारी कायदो	दंडशास्त्र, दंडनीत
दंडादेश	दण्डादेश:	दंड हुकम	हुकमे-सज़ा	सज़हुक़ हॉकुम	सज़ा जो हुकुमु	शिक्षा, सेन्टेन्स, शिक्षेचा हुकूम	सजानुं फरमान	दंडादेश
दस्तावेज़	लेख्य	दसतावेज़	दस्तावेज़	दसतावेज़	दस्तावेजु	दस्तावेज	दस्तावेज	दुकुमेंत, दस्ताऐवज
दांडिक	दाण्डिक	अपराधिक/ फौजदारी	फ़ौजदारी	तॉज़ीरी	सज़ा वाबस्ता	गुन्हेगार	फोजदारी	गुन्यांवकारी
दावेदार	स्वत्वार्थी	दावेदार, दावाकार	दावेदार	दावादार	दावेदारु	हक्कदार, दावा सांगणारा	दावेदार	दावेदार
दिवालिया	देयाक्षम	दिवालीआ	दिवालिया	देवोल	ड॒ेवालियो, ड॒ेवालो कढंदड़ु	दिवाळखोर	नादार	नादार
दुर्भाव	दुर्भाव:	बदनीती	बदनियती, अदावत	वेह, अदावथ	अदावत, कीनो, द्वेष	दुष्टभाव, दुर्भाव, कपट	अशुद्ध बुद्धि, द्वेष	दुर्भाव

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दण्ड-संहिता, दण्ड-विधान, दण्ड-विधि	दंड संहिता, दंड-आइन पुस्तक	दंड बिधि, दण्ड संबंधीय नियम संहिता	पेनाल कोट, दंदी पीनबगी दमक मरी लैनबा आइन परेङ्	दण्ड बिधि, पिंगल कोड्	शिक्षा स्मृति	कुट्ट/ इयलु बिदि	शिक्षानियमम्	दंडसंहिते
दण्डादेश, दण्डाज्ञा	दंडादेश	दंडादेश	चैराक याथङ्	दण्डादेश	शिक्ष उत्तरुवु	दंडनैक्कट्टळै	शिक्ष उत्तरवु	दंडादेश, शिक्षे
लेख, कागतपत्र	लेख, दस्ताबेज़	दस्तावेज, दलिल	दलिल्, अइबा प्रमाणगी ओइबा चे	दस्ताबिज, दलिल	दस्तावेजु	आवणम्	रेख	दस्तावेजु
फौजदारी, आपराधिक	फौजदारी मामलार अपराधी	आपराधिक फौजदारी	चैराक् का मरि लैनबा, दंदी पीबगा मरि लैनबा	अपराधी, दोषी	क्रिमिनलु	दण्डनैक्कुरिय	क्रिमिनल्	क्रिमिनल्, फौजदारी
दाबेदार, दाबीवाला	दाबिदार, स्वत्वार्थी	दाबीदार	दावी तौबा मी	दाबीदार	दावेदारु	उरिमै कोरुपवर	अवकाश वादि	दावा हाकुववनु
दिवालिया	देउलिया, शोधाक्षम, परिशोधे अपारग	देउलीया, निरसंबल	शेल पाइदबा, खूत् तत्पा	देबालिआ	दिवालादारु	दिवालान	पाप्पर्	दिवाळि
दुर्भाव	असद्भाव, अहितेच्छा	बिद्वेष, दुर्भाव	फत्तबा वाखल	दुर्भाबना, अहित इच्छा	दुर्भावमु	कॅट्ट ऍण्णम्	दुरुद्देशम्	द्वेष, दुर्भावने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दुष्प्रेरक	दुष्प्रेरक	शहि देण वाला	मोईने जुर्म	वुलटुँ वथहावन-वोल	बुरी प्रेरणा ड्रींदड़ु	अपप्रेरक	मददगार	पाडवृत्ती
दुस्संधि	दुरभिसन्धिः	गठजोड़	साज़िश	साज़-बाज़	बुरे कम लाइ मेलु मिलापु, साज़-बाज़ी	दुस्संधी	छूपी संतलस	कारस्थान
दोष	दोषः	नुकस, दोश, कुकरम, सट्ट	नुक़्स, ज़रर, ख़ता	कोंसूर	डोहु, गुनाह	सदोष, अपकृती	दोष, खामी, हानि, इजा	दोश
दोषसिद्ध	विप्रदुष्ट	दोशसिद्ध	मुर्जिम क़रार देना	कोंसूरवॉरी	डोहीपणो	अपराधसिद्धि, गुन्हेगारी	दोष	दोशसिद्ध
दोषिता	दोषित्वम्	कसूर, दोश	इर्तिकाबे जुर्म	कोंसूरवार	डोहीपणो, गुनाह, जुर्मना	दोषी	दोषित	दोशीण
दोषी	दोषि	कसूरवार, दोशी	मुरतकिबे जुर्म	कोंसूरवार	डोही, गुनाहगार	दोषी	दोषित	दोशी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुष्प्रेरक	दुष्प्रबर्तक	दुष्प्रेरक	अरान्बदा थौजन्बा नत्रगा इन्शिन्बा	दुष्प्रेरक, दुष्प्रबर्तक	दुष्प्रेरक- मैनॅ	कुट्ट्म् चॅटय तूण्डुपवन्	प्रेरकन्	दुष्प्रेरक
षडयंत्र, मिलिमुतो	षडयंत्र, दुरभिसंधि, योगसाजश	षड़यंत्र, चक्रांत	फत्तबदा चुङ्शिन्नबा	चक्रांत, दुराभिसंधि	दुस्संधि, कुट्र	कूट्टु चदियालोचनै	गूढ़ालोचन	वळसंचु
दोष, कसूर, अपराध	दोष	दोष, जगर, खूँत	मराल, दोष	दोष, अपराध	दोषमु, तप्पु	तीमै	कुट्टम्	तप्पु, दोष
दोषसिद्ध, कसूरबंद्	दोष सिद्धि	दोषी, साब्यस्त, दोषारोपित	मराल लैरे हायना उत्पा	दोष सिद्ध	दोषॅ निरूपणमु, नेरॅ स्थापनॅ	कुटटत्तीर्प्पु, दण्डनै	कुट्टस्थापनं	अपराध सिद्धवागु
दोषी, अपराधी	दोषिता, दोषी	दोष, बिकरित	मराल लैबगी मओङ्	दोष	दोषमु, अपराधमु	कुट्टम्	अपराधम्	दोष
दोषी	दोषी	दोषी जगरीया	मराल लैबा	दोषी, अपराधि	दोषि	कुट्ट्वाळि	अपराधि कुट्ट्वाळि	तप्पितस्थ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
धारा	धारा	धारा	दफ़ा	क़ोनूनुँच लँड	धारा, दफ़ो	नियम, कलम	कलम	धारा, कलम
निरसन	निरसनम्	मनसूख़ी, रद्दण, निरसन	तनसीख़	रद करुन	खंडनु, रद करणु	निरसन	रद करवुं	रद्द करप
निराकरण	निराकरणम्	निराकरण	ज़ाइल होना	नही करुन	निराकरणु	निराकरण	रद् करवुं, नकारवुं/ नाकबूल करवुं	निराकरण
निरोध	निरोधः	नज़रबंदी	नज़रबंदी	रोक, रुकावट	नज़रबंदी	निरोध	अटकायत	स्थानबद्धता, आडावणी
निर्दोषिता	निर्दोषित्वम्	निरदोशता	बेगुनाही	बेकोसूरी	बेड़ोहीपणो	निर्दोषिता	निर्दोषपणुं, निर्दोषिता	निर्दोशीण
निर्वाहिका	भरणम्	निरबाह-खरच	नान नफ़्क़ा/ख़र्च	रूज़ी	जीविका-निर्वाहु	पोटगी	खोराकी-पोषाकी	निर्वाह-खर्च
निवारक	निवारक	निवारक	इन्सिदादी, तदारुकी	तदोरुख, रूकावन वोल	निवारण कंदड़ु	निवारक, प्रतिबंधक	निवारक	निवारक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दफ़ा, धारा	धारा	धारा, रीति, नियम	आरर्टिकन, सेक्शन	धारा, नियम, नियम कानुन	परिच्छेदमु	पिरिवु	वकुप्पुॅ	प्रकरण
निरस्त, रद्द	निरसन	निरसन, मोचन, खण्डन	लौथोकपा, ककथत्पा	प्रत्याख्यान	निरसनमु	नीक्कम्	रद्दु चेंय्युक	रद्दुमाडुविके
निराकरण, समाधान	निराकरण, समाधान	निराकरण, खंडन	लैखाय ताबा, फल ताबा	निराकरण, बंद करिबा, प्रतिकार, खण्डन	निराकरणमु, तालगिंपु	चट्टनीक्कम्	निराकरणम्	निराकरणे
निरोध, निरुद्ध	निरोध, आटक	निरोध, प्रतिरोध	अथिङ्बा	निरोध, प्रतिरोध, निबारण	निरोधमु	तडै	निवारणम्, निरोधम्	निषेध, तड़े
निरपराध, निर्दोष	निर्दोषिता	निर्दोषिता, जगर-नाथका, निरपराध	मराल लैतबा	निर्दोष, दोषहीन	निर्दोषित्वमु	कुट्टमट्ट	निर्दोषत्वम्	निरपराधि
भरण-पोषण, निर्वाहखर्च	खोरपोष, दारपोष, निर्बाह-खरच	निर्बाह-ब्यय, निर्वाहिका	पाङ्थोकपा	निर्बाहक	भरणमु	जीवनाम्शम्	जीवनांशम्	निर्वहणा-वेच्च, जीवनांश
निवारक	निबारक	निबारक, गुचोवा	अथिङ्बगी ओइबा	निबारक	निवारकमु	तडुप्पु	निनिवादकम् वंय्कुक	निषेधक, निवारक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
न्याय-पालिका	न्यायपालिका	निआंपालक	अदुलिया	जुड्शिरी, अदालिया	न्यायपालिका	न्यायपालिका	न्यायतंत्र	न्यायपालिका
न्यायपीठ	न्यायपीठम्	बैंच, पीठ	जलसा	मुनसिफी	न्याय पीठ	न्याय पीठ, बेंच	बेन्च	न्यायपीठ
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्तिः	जसटिस	जस्टिस	जसटिस, मुनसिफ जज	न्यायमूर्ती	न्यायमूर्ती	न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ती
न्यायाधीश	न्यायाधीशः	जज्ज	जज	मुनसिफ/ जज	जजु	न्यायाधीश	न्यायाधीश	न्यायाधीश
न्यायालय	न्यायालयः	अदालत	अदालते इन्साफ़	अदालथ	कोर्ट, अदालत, न्यायालय	न्यायालय	न्यायालय, अदालत	न्यायालय
न्यासी	न्यासी	टरसटी	अमीन	मुतवली (कॉँसि हुँदिस जादादस रॉछ करनवोल)	ट्रस्टी, न्यासी	विश्वस्त, ट्रस्टी	ट्रस्टी	ट्रस्टी, विश्वस्त मंडळी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
न्यायपालिका	न्यायपालिका, बिचारकबर्ग	न्यायपालिका, बिचारालय, काछारी	जुडिशरी	न्यायपालिका	न्यायव्यवस्थ	नीदित्तुरै	नीतिन्याय मण्डलम्	न्यायपालिके, न्यायांग
न्यायपीठ, इजलास	न्यायपीठ, बैंच, विचारपीठ, एजलास	न्यायपीठ, न्यायाधिकरण, बिचारालय	बैंच	न्यायासन, न्यायपीठ	न्यायपीठमु, धर्मासनमु	नीदिपतिक़ळ् कुक्कु	न्यायपीठम्	न्यायपीठ
न्यायमूर्ति	विचारपति	न्यायाधिपति, विचारपति, उच्च-न्यायालयर बिचारक	जस्टिस, अचुंबगी मशक	न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति, जड्जि	नीदिपति	जस्टिस्	न्यायमूर्ति
न्यायाधीश	न्यायाधीश, जज्	न्यायाधीश, बिचारपति, उच्च-नयायालयर बिचारक	जज, वायेन मपू	न्यायाधीश, बिचारपति	न्यायाधीशुडु	नीदिपति	जड्जि	न्यायाधीश
न्यायालय, अदालत	न्यायालय, कोर्ट, आदालत	न्यायालय, बिचारालय, आदालत	वायेनशङ्, कोर्ट	न्यायालय	न्यायालयमु	नीदिमन्रम्	कोटति	कोर्टु, न्यायालय
न्यासि, गुठियार	न्यासी, ट्रास्टि	न्यासी, न्यासरक्षी, निधि-रक्षी, तत्वाबधानकारी	ट्रस्टि	अमिन (तत्वाबधारक)	ट्रस्टी	पारुप्पाट्चियर्, अरङ्कावलर्	ट्रस्टी	धर्मदर्शि, न्यासधारी

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पंचाट	निर्णयः	सालसी फैसला	सालिसी फ़ैसला	पंचाठ	अवार्ड, फ़ैसलो ड्डियणु	पंचाट	चुकादो	निर्णय, निकाल
पट्टा	स्वत्वपत्रम्	पट्टा/ भौंदारी	पट्टा	पट्टॅ	पटो	पट्टा	पट्टो	करार, कंत्राट
परमादेश	परमादेशः	फ़रमान, मैंडेट, सरकारी आदेश	ताकीदी	थदि थोंद-होंकुम	अदालती हुकुम, परमादेशु	परमादेश	परमादेश	परमादेश
परोक्षी	प्रतिनिधिः	प्राकसी	एवज़ीनामा, नुमाइंदा	नुमायंदॅ	परोक्षी, प्राक्सी	परोक्षी, बदली व्यक्ति	परोक्षी, प्रोक्सी, रीतनी इंडिरेक्ट प्रूफ	परोक्षी, प्रतिनिधी
पहचान	प्रत्यभिज्ञानम्	शनाखत, पछाण	शनाख़्त	प्रज़नावुन	सुञाणाप, पछाण	ओळख, परिचय	ओळख	वळख
पैरोल	शपथे मोचनम्, शपथे/मुच्	पैरोल	पैरोल	पेंरोल	पैरोल	पॅरोल	पेरोल	पेरोल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पञ्च-कचहरी	बिनिर्णय (न), राय, फैसला	पंचायती-मीमांसा	बिचारगी राय	निर्णय, राय	तीर्पु	नड्डुवर् तीर्पु	तीर्पु	तीर्पु, न्याय निर्णय
पट्टा	पाट्टा, इजारा	पट्टा, निर्धारित-बंदबस्त, चूक्ति-पत्र	शांदोकपगी इनबा-चे	पट्टा	पट्टा	कुत्तगै	पाट्टम्, नटप्पवकाशम्	पट्टा
परमादेश, न्यायालयको आदेश	परमादेश, चूड़ांत राय	परमादेश, बाध्यता-मूलक-आदेश	मथक्की वायेन शङ्ना मखादा पीबा याथङ्	मान्डामस, परमादेश	परमादेशमु	नीदिमन्र् कट्टळै	मान्डेमस्	परमादेश
परोक्षी	परोक्षी (क्खी)	प्रतिपत्र, प्रोक्सी, अप्रत्यक्षी	माइरोङ् यारिबा मी	परोक्ष, अप्रत्यक्ष	प्राक्सी	बदिलाळ्	प्रोक्सि	प्रतिनिधि
पहिचान, सनाखत	सनाक्तकरण, प्रत्यभिज्ञान	चिनाक्त-करण (सिनाक्त-करण)	शक खङ्बगी मतौ	चिहुट, चिरकुट	गुर्तिंपु	आळ् अडैयाळम्	तिरिच्चरियल्	गुरुतु
प्यारोल	प्यारोल	पेरोल, शर्त्ताधीन-मुक्ति	पेरोल, बंदीगी वाशक	प्यारोल्	पॅरोलु	नाणय वाक्कुरुदियिन्-मेल् विडुतलै पॅट्ट	परोळ्	नंबिकेय वाग्दान, वाक्दानद मेले, पेरोल्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रकोपन	प्रकोपनम्	भंड़काहट	इश्तिआल	शरारथ	शह, इश्तिआलु	प्रक्षोभ	प्रकोपन	खुबळप, उद्रेक
प्रतिदावा	प्रत्यर्थः	प्रतिदावा	दावा मुतक़ाबिल	जवॉबी दावा	जवाबी दावा	प्रतिदावा	सामोदावो	प्रतिडाव
प्रतिभू	प्रतिभूः	ज़ामन	ज़ामिन (ज़मानतदार)	ज़ॉमीन	ज़ामिनु	जामीनदार, प्रतिकृती	जामीन, जामीनगीरी	जामीन
प्रतिभूति	प्रतिभूतिः	जमानत	ज़मानत	ज़रि ज़मानत	ज़मानत	जामीन, प्रतिभूती	जामीनगीरी, प्रतिभूति	जामिनकी
प्रतिवादी	प्रतिवादी	गुदाला	मुद्दआ़अलैह	मुदालुॅ	प्रतिवादी, मुदालैह	विरोधी, प्रतिवादी	प्रतिवादी	प्रतिवादी
प्रत्यर्थी	प्रत्यर्थी	उत्तरदार	मुद्दई	मुदालेह	मुद्दई, प्रतिअर्थी	उत्तरवादी	प्रतिविवादी	विरोधक
प्रत्यारोप	प्रत्याक्षेपः	जवाबी आरोप	इलज़ामे मुख़ालिफ़	जवॉबी इलज़ाम	जवाबी इल्ज़ामु	प्रत्यारोप	प्रत्यारोप	प्रत्यारोप

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भड्काइनु	प्रकोप	प्रकोपन, उग्रभाव-करण	शाओहन्बा, कायहौबा	प्रकोप, राग, क्रोध	प्रकोपनमु	चिनमूट्टुदल्	प्रकोपनम्	उद्रेक, उत्तेजन
प्रतिदावी	प्रतिदाबि, जबाबी	प्रतिदाबी, विपरीत-उक्तिकारी, पदकीया	मायोकनना दाबी तौबा	प्रतिदावि	प्रतिदावा	ऍदिर् बाद्यम् कॉण्डाडुदल्	प्रत्यवकाशवादम्	प्रतिदावे
जमानी	प्रतिभू, जामिन, जामानतदार	प्रतिभू, प्रतिनिधि	जामिन पीबा मी	जामिन	जामीनु	पिणैयाळ्	जाम्यक्कारन्	जामीनु/ जामीनुदार
जमानत, प्रतिभूति	प्रति्भूति	जामिन प्रतिभूति जामिनर-धन	खुदोङ्थिबा लैहंदबा, लैताहंबा	जामिनर दिन, प्रतिभूति	जमानतु	पिणैयम्	जाम्यम्	जामीनु
प्रतिवादी	प्रतिबादी, प्रत्यर्थी	प्रतिबादी, पदकीया	पाओखूम पिनरिबा मशेल	प्रतिबादी, प्रत्यार्थी	प्रतिवादि	पिरतिवादि/ ऍदिर्वादि	प्रति	प्रतिवादि
जबाफदेही	उत्तरबादी प्रतिबादी	प्रतिबादी, पदकीया	लंबा	प्रत्यार्थी	प्रत्यर्थि, विरोधि	ऍदिर् मनुदारर्	अप्पील्प्रति	यदुराळु प्रतिकक्षि
प्रत्यारोप	प्रत्यारोप (त्ता), प्रत्यभियोग	प्रत्यभियोग	ओन्शिंदुना मराल शीबा	प्रत्यारोप, प्रत्याभिजोग, आक्षेप	प्रत्यारोपण	ऍदिर् कुट्ट्-च्चाट्टु	प्रत्यारोपणम्	प्रत्यारोप, प्रति अपादने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रत्युत्तर	प्रत्युत्तरम्	जवाब दर जवाब	जवाबुल-जवाब	जवाबुक-जवाब	जवाब जो जवाबु	प्रत्युत्तर	प्रत्युत्तर	प्रत्युत्तर
प्रथम-दृष्ट्या	प्रथमदृष्ट्या	पहिली नज़रे	बादीउन्नज़र	गोंडनिच नज़र	पहिरीं नज़र में	प्रथमदृष्ट्या	प्रथम दर्शनीय	प्रथमदेखाव, मेकळेपणान, पुरायेन
फाँसी	वधदण्ड:, मृत्युदण्ड:	फांसी	फाँसी	फॉस्य	फासी	फाशी	फांसी	फाशी
बंदी	बन्दी	कैदी	क़ैदी	कूॅद्य	बंदी, क़ैदी	कैदी	कैदी	बंदी
बंदी-प्रत्यक्षी-करण	बन्दिप्रत्यक्षी-करणम्	हाज़री, दोशी दी जिसमानी, हेबीअस कोरपस	हाजिरीए मुल्ज़िम	कूॅद्य नॉन कडुन	मुल्ज़िम जी रूबरू हाज़िरी	बंदी प्रत्यक्षीकरण	बंदी प्रत्यक्षीकरण	बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंधक	आधि:	रहिन	गुलाम, रहन	रॅहन	गिरवी	ठेव, गहाण	गीरो	घाण
बंधक कर्ता	आधिकर्ता	रहिनकार	रहन करने वाला	रॅहन रटन-वोल	गिरवी रखंदडु	गहाणकार	गीरो मूकनार/ आपनार	घाणकार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रत्युत्तर	प्रत्युत्तर (त्तू), जबाब	प्रत्युत्तर, उत्तरर–उत्तर	पाओखुम	प्रत्युत्तर	प्रत्युत्तरमु	एँदिरुरै	प्रत्युत्तरम्	प्रत्युत्तर
प्रथमदृष्टया	प्रथम दृष्टिते, दृष्टत:	प्रथम दृष्टित	अहान्बा मीत्येंगदा	प्रथमदृष्टिरे	प्रथमदृष्ट्या	मुदल् नोक्किल्	प्रथम दृष्ट्या	मोदल नोटदाल्लि, मेलु नोटदल्लि
फाँसी, प्राणदण्ड	फांसी, प्राणदण्ड	फाँसी, चिपजरी	फार्सी	फाशि, फासी	उरि	तूक्कु दण्डनै	वध शिक्ष	गल्लु
बंदी, कैदी	बंदी, कयेदी	बंदी, कयदी आटकथका लोक	फादोक् तारबा मी	बंदी	कैदी	कैदि	तटवुकारन्	कैदी
बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बंदी प्रत्यक्षीकरण (प्रत्तक्खीकरन), हबियस करपास	बंदी–प्रत्यक्षीकरण	हेबियस कार्पस, अफाबा मी कोर्टता पुथोकपा	हेवियस कपस, प्रत्यक्षीकरण	हेबियस कार्पस	कैदियै हाजराक्कुदल्	तटवुकारनं हाजराक्कल्	कैदी–हाजरु–पडिसुविके
कैदी, बंधक; धीतो	बंधक, कयेदी	बंधक	बंधान थमलिबा पोत	बंधक	ताकट्टु	अडमानम्	पणयम्	अडमान, अडुवु, भोग्य
बंधककर्ता, जमानी	बंधककर्ता (करता)	बंधकदाता	पोत बंधान थंबा मी	बंधककर्त्ता, बंधकदाता	ताकट्टुकर्त	अडमानदार्	पणयदातावुं	अडमानार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बंधककार	आधिधारक:	रहिनदार	मुर्तहिन	रॅहनदार	गिरवीदार	गहाणदार	गीरोदार/ गीरो राखनार	घाण दवरपी
बंधक पत्र	आधिपत्रम्	रहिन पत्तर	रहननामा	रॅहन कागज़	गिरवी नामो	गहाण, संलेख	गीरोखत	बंधक पत्र
बाध्यकर	अनिवार्य	अवेषक	ज़िम्मेदाराना, लाज़िमी	लॉज़िमी	लाज़िमी, अनिवार्य	बाध्यकर, आवश्यक	फरजियात	बाध्य करपी
बेदखली	निष्कासनम्	बेदखली	बेदख़ली	बेदख़ली	बेदख़ली	निष्कासन	खाली कराववुं ते	बडतर्फी करप
मंसूख करना	निरसनम्	मंसूख करना	मंसूख़ करना	मंसोख़ करुन	मंसूख करणु	रद्दकरणे	रदबातल करवुं	रद्द करप
मजिस्ट्रेट	दण्डाधिकारी	मजिस्ट्रेट	मजिस्ट्रेट	मुनसिफ	मैजिस्ट्रेट	दंडाधिकारी	मेजिस्ट्रेट	मेजिस्ट्रेट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बंधक राख्नेवाला	बंधकग्राही, बंधक राखते/ बंधकी जिनिस	बंधकग्राही	बंधान लौबा मी	बंधकदार, बंधकग्रहीता	ताकट्टुदारु	अडमानम् पॅरुपवर्	पणय गृहीतावुॅ	अडमानदार, अधात्रु
बन्धक पत्र, धीतो-पत्र	बंधक-पत्र	बंधक पत्र	बंधान थंबगी चे इनबा	बंधक पत्र, वंधक	ताकट्टुपत्रमु	अडमान पत्तिरम्	पणयाधारम्	अडमानद पत्र, अडुवु पत्र
बाध्यता-मूलक	बाध्युता जनक (द्ध), वाध्यकरणे	बाध्यता मूलक	खुलङ्-लमन्, तङाइफदबा ओइहन्बा	बाध्यता जनक, बाध्यता मूलक	बाध्यमैन	चट्टप्पिणैप्पुडैय	बाध्यतयुळ्ळ	कड्डाय, बंधकवाद, निर्बंधकवाद, कानूनिनमरेगे
बेदखली	उच्छेद, बेदखलकरा	बेदखल, आनर-संपत्तिर दखल	खुत-थिङ् जिंदबा	बे-दखल, उच्छेद	बेदखलु, तोलगिंपु	वॅळियेट्टम	ऑळिप्पिक्कल्	होरहाकुवुदु
खारेज गर्नु, रद्द गर्नु	खारिज करा, रदकरा	रद करा	कक्थत्पा	विलोपन, रदद् करिबा, संवरण, प्रत्याहार	रद्दुचेयु	रद्दुसॅय्य	पिरिच्चु विटुक	रद्दुमाडुवुदु
म्याजिस्ट्रेट	म्याजिस्ट्रेट, समाहर्ता	मेजिस्ट्रेट, दण्डाधीश, दण्डाधिकारी	मेजिस्ट्रेट	माजिष्ट्रेट	मेजिस्ट्रेटु	कुट्टत्तुरै नीदिपति	मजिस्ट्रेट्टुॅ	म्याजिस्ट्रेट्

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मानव वध	मानववधः	मनुक्ख-हत्तिआ	क़त्ले इन्सान	इन्सान मारुन	इन्सानी क़त्लु	मानव-वध	मानव-वध	मानव वध
मानहानि	मानहानिः	मानहानी	इज़ाला हैसियते उर्फ़ी	हतकि यज़थ	बेइज़्ज़ती, बदनामूसी	अब्रुनुकसानी, मानहानी	बदनामी	मानहानी
मुकदमे-बाजी	व्यवहारः	मुकदमेबाजी	मुक़द्दमेबाज़ी	मुकदिमबॉज़ी	मुक़दमेबाज़ी	वाद	दावाकाम	दावेदारी
मुख्य न्यायमूर्ति	मुख्यन्यायाधीशः	चीफ जसटिस	आला जज	ज़्युठ जज, चीफ जस्टिस	मुख्य जजु	मुख्य न्यायमूर्ती	मुख्य न्यायमूर्ति	मुख्य न्यायमूर्ती
मृत्यु दंड	मृत्युदण्ड	मौत दंड, मौत दी सज़ा	सज़ाए मौत	सज़ायि मोथ	मौत जी सज़ा	मृत्यु दंड	मृत्युदंड, फांसीनी सजा	मरणाची ख्यास्त
याचिका	याचिका, प्रतिवेदनम्	अरजी, जाचना	अरज़ी (अर्ज़ी-ए-दावा)	दरख़ास	अर्ज़ी, प्रतिवेदन	याचिका	अरजी	याचिका, अर्जी बरोवन केल्लें मागणे
राजद्रोह	राजद्रोहः	राजद्रोह, बगावत	बग़ावत	बगावथ	राजडोह, राजडोहु	राजद्रोह	राजद्रोह	राजद्रोह

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मानव-वध, नरहत्या	मानब बुध, नरहत्या	नर-हत्या, मानुह-बध	मी-हात्पा	नरहत्या, मणिष हत्या	नरँ बधँ	कॉलै चॅय्दल्	नरहत्य	मानवहत्ये
मानहानि	मानहानि, सम्मान हानि	मानहानि	इज्जत माङ्बा	मानहानि	परुवु नष्टमु	अवदूरु	मानहानि/ अपकीर्ति	मानहानि
मुक़दमा-बाजी	मोकद्दमा, मामलाबाजी	मोकर्दमा-बाजी	कोर्ट ता वाकत्पा	मकदमा, मामला	व्याज्यमु	वऴक्कु, व्यवहारम्	व्यवहारम्	व्याज्य
मुख्य-न्यायमूर्ति	मुख्य न्यायकर्ता, प्रधान विचारपति, चीफ जास्टीस्	मुख्य न्यायाधिपति	विचारपति मकोक	मुख्य/ प्रधान न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायधिश	मुख्यँ न्यायमूर्ति	तलैमै नीदिपति	चीफ् जस्टिस्	मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश
मृत्युदण्ड, फाँसीको सजाय	मृत्यु दंड, फाँसिर साजा	मृत्युदंड	शिबगी दंदी	मृत्युदण्ड	मरणँ दंडनमु	मरण दंडनै	मरण शिक्ष	मरण दंडने
याचिका, निवेदन	याचिका (जा), दरखास्त, आरजी	आबेदन, याचिका, दर्खास्त	पिटिशन, दरखास्त	दरखास्त	पिटिशनु, अर्जी	मनु	हर्जि	अर्जि, बेडिके, मनवि
राजद्रोह	राजद्रोह, बिद्रोह	राजद्रोह, राजद्रोहता	लैबाक् की येक्नबा	राजद्रोह	राजद्रोहमु	राज दुरोहम्	राज्यद्रोहम्	राजद्रोह

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
राजनिष्ठा	राजभक्तिः, राजनिष्ठा	निशठा	वफ़ादारी	वफ़ादॉरी	राज़ सां वफ़ादारी	राजनिष्ठा	राजनिष्ठा	राजनिशठा
रिट	याचिका	रिट, लिखत	रिट	रिट	रिट, प्रतिवेदन	रिट	रिट	रिट
रिसीवर	न्यासी	रिसीवर	रिसीवर	रटन वोल	रिसीवर	प्राप्तक, रिसीव्हर	रिसीवर	रिसीवर
लिखत	लेख्यम्	लिखत	नविश्ता	लीखिथ, तॅहरीर	लिखियलु, लिखत	संलेखा	लेख/लखाण	लिखीत
लोप	लोपः	लोप/अलोप	तर्कै फ़ेल	खतुॅम	लोपु	वगळणे, लोप	वर्जन	लोप
वकील	अधिवक्ता	वकील	वकील, कानून दान	वॅकील	वकीलु	वकील	वकील	आदोगाद
वचन	प्रतिश्रुतिः	परिबचन	क़ौल, वादा, लफ़्ज़	वॉदुॅ, लफ़ुॅज़, वॉनी	वचनु, वादो	वचन	वचन	उतर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राजनिष्ठा, राजभक्ति	राजनिष्ठा, आनुगत्य (सरकारी आनुगत्य)	राजनिष्ठा, आनुगत्य	लैबाक् निङ्बा	राजभक्ति, राजनिष्ठा	राजभक्ति	विश्वासम्, पट्टरुदि	कूरुँ, कटम	राजनिष्ठे
रिट, लिखित आज्ञापत्र	आज्ञालेख (ग्गाँ), लिखित आज्ञापत्र	आज्ञलेख, षरमालेख	अइबा	रिट्, लिखित विषय	रिट्टु	रिट्	रिट्टुँ	रिट्, आज्ञापत्र
प्रापक	रिसिबर, प्रापक, ग्रहणकर्ता	रिचिभार	रिसीवर	रिसीभर	रिसीवरु	रिसीवर्	रिसीवर्	रिसीवर्
लिखित	संलेख, लिखित, लेखा	लिखित	अइबा	लिखित	लिखितमु	आवणम्, पत्तिरम्	प्रमाणम्	लिखित
लोप, क्षय	बाद, बर्जन, लोप	लोप, नाश	माङबा	लोप, शेष, बिलोप	लोपमु	विडुदल्	लोपम्	लोप
ओकिल, अधिवक्ता	उकिल, ब्यबहारजीबि, एडभोकैट	उकील, अधिवक्ता	उकिल	ओकिल	वकीलु	वळक्करिञर	वक्कील्	वकील
वाचा, वचन	बचन (ब), अंगीकार, प्रतिज्ञा	अधिवक्ता, प्रतिज्ञा, बचन	वाङाङ्	वचन, अंगिकार, प्रतिज्ञा	वाग्दानमु, माट	वाक्कु	वाग्दानम्, प्रतिज्ञ	शपथ, वाग्दान

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
वसीयत-दार	दायाधिकृत	वसीअतदार	वसीयतदार, मूसी लहु	वसीयतदार	वसीयतदार	वारसपत्र-हक्कदार	वसियतदार, वसियती	हक्कदार
वस्तुतः	वस्तुतः	डी फैकटो, यथारथ विच	फ़िल वाक़िआ (फ़िल हक़ीक़त)	दरअसुॅल	हक़ीक़त में	वस्तुतः	खरेखर	वस्तुतः, वस्तुस्थिती
वाद	वादः	दावा	नालिश	मुकदिमुॅ	मुक़दमो, दलीलु	वाद	दावो	वाद
वादपत्र	वादपत्रम्	अरज़ी, दावा	अर्ज़ी दावा	मुकदिमुॅ काकज, दावहुॅच अरज़ी	अरज़ी, प्रतिवेदन	दावा	फ़रियाद अरजी, दावा अरजी	दावो-पत्र
वादी	वादी	मुद्दई	मुद्दई (दावेदार)	मुदयी	मुद्दई	वादी	वादी	दावेदार, दावोकरपी
वारिस	दायादः	वारस	वारिस	वॉरिस	वारिसु	वारस	वारस	वारस, उत्तराधिकारी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वसियत-धारक	उइल कर्ता	वसीयतदार, पैट्टृकसंपत्ति-ग्रहणकर्त्ता, इच्छापत्र-प्राप्तकर्ता	उइलदा याओबा कान्नबा फङ्गदबा मी	उत्तराधिकार संबंधीय विधिगत व्यवस्था	वीलुनामा दारुडु	उयिल् वळि उरिमैयाळर्	अनंतरावकाशि	उयिलुमाडुवव
वस्तुतः	बस्तुत (ब), यथायथ	बस्तुतः, कार्यतः	तशेङ्ना हायरबदा	बस्तुतः, बास्तबता, जथार्थता, सत	वास्तवंगा	उण्मैयागवे	वास्तवत्तिल्	वास्तववागि, निजवागि
दवि, बहस	बादपत्र (ब), आर्जि, नालिश	बाद, मोकर्दमा	कैस तौबा, मुकदमा तौबा	अभिजोग/ बाद, मोकदमा	वादमु, दावा	उरिमै वळक्कु	अन्यायम्	दावे, मुकद्दमे
अभियोग-पत्र, नालिस-पत्र	अभियोग पत्र (जो), नालिशपत्र	बाद -पत्र	मुकदमागी चेरोल	अभिजोग पत्र, बाद पत्र	वादपत्रमु	वळक्कुरै	वादपत्रम्	दावापत्र
वादी	बादी (ब)	बादी, गुचरीया, फरियादी	कैस तौबा	मुदेई, बादी	वादि	वादि	वादि	वादि
उत्तराधि-कारी	ओयारिस्, वारिस, उत्तराधिकारी	बारिस/ उत्तराधिकारी	लन्-थुम्गी हक लैबा मी	उत्तराधिकारी	वारसुडु	वारिसु	अनंतरावकाशि	वारसुदार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विचारण	विचारणम्	विचारण	तहक़ीक़ात/ समाअत	व्यच़ार	वीचारणु, तहक़ीक़ात	संपरिक्षा	इन्साफी कार्यवाही	तपास, अन्वेशण
विद्वेष	विद्वेष:	दवैख, साड़ा	अदावत (कीना)	अदावथ	अदावत, कीनो, द्वेष	विद्वेष	द्वेष	विद्वेश
विधि	विधि:	कानून	क़ानून	तॅरीकुॅ, कोनून	क़ाइदो	कायदा	कायदो	कायदो
विधिक	वैधानिक:	कानूनीं	क़ानूनी	कोनूनी	क़ानूनी	विधीक	कायदेसर	कायदेशीर
विधित:	विधित:	कानूनता	क़ानूनन	कोनूनुॅ मुतॉबिक	क़ानूनन्	कायद्या प्रमाणे	कायदेसर (धोरणसर)	कायद्या प्रमाण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जाँच	बिचार (न) (बिश्लेषण)	बिचार, बिचारण	बिचार तौबा	बिचार	विचारण̄	वऴक्कु विचारणै	विचारण	विचारणे
विद्वेष	बिद्वेष (ब) (द्द), अहितेच्छा, द्वेष	बिद्वेष, अपकार इच्छा	येक्नबा	बिद्वेष	द्वेषमु	तीय नोक्कु, वन्मम्	दुरुद्देशम्	विद्वेष
विधि, कानुन, ऐन	विधि, (ब) नियम-कानुन	बिधि, आइन	नियम, पाथाप, आइन	बिधि, नियम	विधि, चट्टमु	चट्टम्	नियमम्	बिधि, कानूनु
कानुनी, विधिगत	वैध (ब), बिधिगत, कानुनी	बैध, निर्दिष्ट नियम-सम्मत	नियमगी ओइबा, पाथायकी ओइबा	बैध, बिधिसम्मत	चट्टबद्धमैन̄	चट्टमुरैयान	नियमानुसृतमाय, नीतिन्याय संबंधमाय	विधिसम्मत, कानूनु-सम्मत
विधि अनुरूप, विधिसम्मत	विधिसम्मत (ब), बैध	बिधिमान्य, बिधिमते	नियम गी मतुङ इन्ना, पाथाप की मतुङ इन्ना	बिधि-सम्मत	चट्ट प्रकारमैन̄	चट्टप्पडियान	नियमानुसृतम्	कायदे-प्रकार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विधि-मान्य	विधिमान्य, विधिसंम्मत	जाइज़	क़ानूनन जाइज़	क़ोनूनन जॉयिज़	क़ानूनन् जाइज़	वैध	कायदेसर	कायदेशीर
विधि-शासन	विधिशासनम्	कानूनी शासन	क़ानून की हुकूमत	क़ोनूनी हॉकूमत	क़ाइदे जो राजु, क़ानूनी हकूमत	कायद्याचें शासन	कायदानुं राज्य	कायद्याचे शासन
विनिषिद्ध	प्रतिषिद्ध	विवरजित	ममनूआ	ममनुह	क़ानूनी मनअ	निषिद्ध	निषिद्ध	मनाय, बंदी
विलेख	विलेखः, लेख्यम्	विलेख	क़बाला, तहरीरे दस्तावेज़ी	दस्तावेज़	दस्तावेज़ु	विलेख, अधिलेख	दस्तावेज	लखो, विलेखो, विशेश लेख
विवाह-विच्छेद	विवाह-विच्छेदः	तलाक	तलाक़	तलाक	तलाक़, पा या पत्नी खां अलगु थियणु	घटस्फोट	छूटाछेडा, पति-पत्नीनुं अलग थवुं	घटस्फोट
विशेषा-धिकार	विशेषाधिकारः	विशेश अधिकार	मुराआत	खास-यख़्तियार	ख़ास हकु, विशेष अधिकारु	विशेषाधिकार	विशेषाधिकार	विशेश अधिकार
विसम्मति	असम्मतिः	बेसहमती/ असम्मती	इख़्तिलाफ़	ना रज़ामँदी	इख्तिलाफ़	भिन्नमत असणे	भिन्नमत	मतभेद
व्यतिक्रमी	व्यतिक्रमी	कोताहीकार	क़ानून शिकन	खलल करन-वोल	रुकावट कंदडु, क़सूरवार	कसूरदार	कसूर करनार	बिरमत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विधिमान्य, वैध	बिधिसंगत (ब), बैध, बिधिमान्य	विधिसन्मत, बिधिमते	नियमना याबा	बिधिमान्य, बिधिसंगत	चट्ट सम्मतमैन	चट्टप्पडियान	नियम साधुतयुळ्ळ	विधिसम्मत
विधिशासन	विधिशासन (ब), अनुशासन	बिधिशासन	आइनगी लैङाक	न्यायशासन	न्याय शासनमु	चट्टप्पडियान आट्चि	नियमवाळ्च	न्याय शासन
निषिद्ध, वर्जित	बिशेष भाबे निषिद्ध, बिधिनिषिद्ध, बर्जित	बिधि-निषिद्ध	आइनना यादबा	निषेध	निषिद्धमइन	तटुक्कप्पट्ट	नियमनिषिद्धमाय	निषिद्ध
कागतपत्र, दस्तावेज	दलिल, दस्तावेज, बिलेख	बिलेख, दलिल	शोए तौदुना यानरबा चे	दलिल	दस्तावेजु	मुरैयावणम्	करणम्	विलेख
पारपाचुके	विवाह-विच्छेद (ब) (ब), डिभोर्स	बिबाह-बिच्छेद	खाइनबा	बिबाह-बिच्छेद	विडाकुलु	विवाह रत्तु	विवाह-मोचनम्	विवाह विच्छेदने
विशेषा-धिकार	बिशेषाधिकार	बिशेषाधिकार	अखन्नबा अधिकार	बिशेषाधिकार	विशेषाधिकारमु	चिरप्पुरिमै	विशेषाधिकारम्	विशेषाधिकार
असहमति, मतभेद	असम्मति, मतभेद	असन्मति, मतभेद	यानदबा	असम्मति, मतभेद	असम्मति	मारुपट्ट करुत्तु	वियोजिप्पु	विमत, असम्मति
व्यवधान उत्पन्न गर्नेवाला	व्यतिक्रमी, खेलापकारी	ब्यतिक्रमी	मथौ तौदबा मराल लैबा मी	व्यतिक्रम	व्यतिक्रममैन	तवरुबवर्	वीळ्चवरुत्तुन्न आळ्	तप्पितस्थ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
व्यादेश	आसेधः, निषेधः	मनाही हुकम	हुक्मे इम्तिनाई	हॉकिमि खास	मनअ जो हुकुम	व्यादेश	मनाई हुकम	मनाय हुकूम
शनाख्त	प्रत्यभिज्ञानम्	शनाखत	शनाख़्त	प्रज़ुॅनावुन, शनाखत	शनाख़्त	ओळख	ओळख	पारख
शपथ	शपथः	सौंह/ हलफ़	हलफ़	कसम, हलफ़	कसमु	शपथ	सोगंद	सोपूत
षड्यंत्र	षड्यन्त्रम्, उपजापः	साज़श	साज़िश	च्रॉय, सॉज़िश	मन्सूबो, साज़िश	कारस्थान, कट	कावतरुं	कारस्थान
संक्षिप्त-विचारण	लघुवादः	सरसरी विचारण	सरसरी तहक़ीक़ात/ समाअत	सरसरी-बॅहस	सरसरी तहकीक़ात	संक्षिप्त न्याय चौकशी	संक्षित इन्साफ	संक्षिप्त तपास
संदेहजनक	सन्देहास्पद	मशकूक/ संदेहजनक	मुश्तबह	शकावर	मश्कूक, संदेह जोगो	शंकास्पद	शक पडतुं	दुबावी
संविदा	संविदा	मुआहिदा, अहिदनामा, इकरारनामा	मुआहिदा	करार, ठेकुॅ	संविदा, मुआहिदो इकरारनामो	कै माट, संविदा	करार	करार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निषेधाज्ञा	निषेधाज्ञा	निषेधाज्ञा, बाधाकारक, हाक-आदेश	इंजंकसन, कोर्ट तौनु हायना पीबा याथङ्	निषेधाज्ञा	निषेधादेशमु	तडैयुत्तरवु	इंजंक्षन्	निर्बंधादेश
पहिचान, सनाख़त	सनाक्तकरण, परिचय, प्रत्यभिज्ञान	चिनाक्तकरण	शकखङ्बा	परिचय	गुर्तिंपु	आळ् अडैयाळम्	तिरिच्चरि़युक	गुरुतिसुवुदु
शपथ, कसम	शपथ, हलफ	शपत	वाशक	शपथ	शपथमु, प्रमाणमु	आणैयुरुदि, प्रमाणम्	शपथम्	प्रमाण, शपथ
षडयंत्र, जाल	षडयंत्र (जं), साजिस	षड़यंत्र	शरौ, लौतुनबा	षडजंत्र, चक्रांत	कुट्र	चदि	गूढालोचन	वळसंचु
संक्षिप्त विचार	संक्षिप्त (क्ख), बिचार	संक्षिप्त बिचार	अशंबा विचार	संक्षिप्त विचार	संक्षिप्त विचारणै	चुरुक्क विचारणै	संक्षिप्त विचारण	संक्षिप्त विचारणे
संदेहजनक, संदिग्ध	संदेहजनक, संदिग्ध	संदेहजनक, संदेह-जन्मोवा	चिङ्ननिङाइ ओइबा	संदेहजनक, संदिग्ध	संदेहास्पदमु	अय्यप्पाडान	संदिग्धम्	संशयात्मक
संविदा, करार	संबिदा	संबिदा	यानबा, करार	प्रतिबाद, संबिदा	करारु, ऑप्पंदमु	ऑप्पंदम्	करारु, कोण्ट्राक्ट्	करारु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
संहिता	संहिता	संघता	मज्मूआ	कोड	ताज़िरात, क़ानून जो किताबु, संहिता	संहिता, वन्ठेरी	अधिनियम	संहिता, वळेरी
सदोष	सदोषः	दोशपूरन	बेजा	कोसूरवार	ड्रोह-पूरन, क़सूरवार	सदोष	गेरकायदे/ गेरवाजबी	सदोष
सद्भाव	सद्भावः	सदभाव/ नेकनीति	नेकनीयती	नेकनियथ	ख़ैरख़्वाही, नेक-नीयती	सद्भावना	सद्भाव	सदभाव
सबूत	प्रमाणम्	सबूत	सबूत	सोंबूथ	सबूतु	प्रमाण	साबिती, पुरावो	पुरावो-प्रमाण
समन	आह्वानम्	समन	सम्मन (तलबनामा)	समन	सम्मनु	समन	समन	समन
साक्षी	साक्षीन्	गवाह	गवाह	शॉहिद, गवाह	शाहिदु, गवाहु	साक्षी	साक्षी	गवाय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संहिता, नियम	संहिता, बिधिं, नियम	संहिता, बिधि	कोड, समाजना यानरबा नियम, पाथाप	संहिता, नियम, धारा	स्मृति	चट्टत्तांगुप्पु	नियम, संहित	संहिते, नियम
दोषी, कसूरवार	दोषयुक्त, दोषाबह	दोषपूर्ण, जगरभरा, खँतभरा	दोष चेनबा	दोषी, दोषजुक्त, दोषाबह	दोषयुक्तमैन	कुट्टमुळ्ळ	अन्यायमाय	सदोष
सद्भाव	सद्भाब, सरल बिश्वास	सद्भाव, मिलाप्रीति, बंधुत्व	अचंबा वाखल, अफबा वाखल	सद्भाबना, सदिच्छा	सद्भावमु	नल्लॅण्णम्	उत्तमविश्वासम्	सद्भावने
सबुत, सबुद, दसी-प्रमाण	प्रमाण् (न), साक्ष्य	प्रमाण, साक्ष्य	प्रमाण	प्रमाण (जाहांक द्वारा कौणसि कथा प्रमाणित कराजाए)	रुजुवु	चान्रु, आदारम्	तॆळिवुॅ	रुजुवातु, प्रमाण
समन	समन	छमन, आहवान-पत्र	समन तौबा, कौबा (कोर्टना कौबा)	समन, तलब करिबा, ड़काइबा	समनु	सम्मन्	समन्स्	समन
साक्षी, गवाह	साक्षी (क्खी)	साक्षी, साखी	साक्षी, साखी	साक्षी	साक्षि	चान्रुरैञर, साट्चि	साक्षि	साक्षि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
साक्ष्य	साक्ष्यम्	शहादत	शहादत	शाहदत, गवॉही	शाहिदी, गवाही	पुरावा	पुरावो	साक्ष्य
सिद्धदोष	सिद्धदोषः	सिद्धदोश	मुल्ज़िम	सॉबित कोसूर	साबित-ड॒ोहु	सिद्धदोषी	साबित थयेल गुनो	सिद्धदोशी
सुधारालय	संस्कारालयः	सुधार घर, सुधार आशरम	तादीब ख़ाना	इसलॉही जेल	सुधार-घरु	रिफॉर्मेटरी, सुधारगृह	सुधारगृह	सुधारणालय
सुनवाई	श्रवणम्	सुणवाई	समाअ़त	सुनवॉई, पीशी	शुनवाई, सुनवाई	सुनावणी	सुनावणी	सुनावाणी
सेना न्यायालय	सैन्यन्यायालयः	फौजी अदालत, कोरट मारशल	फ़ौजी अदालत	फ़ूजी-अदालथ	फ़ौजी अदालत	सेना-न्यायालय	लश्करी अदालत	सेनान्यायालय
हक	अधिकारः	हक	हक़	हख	हकु	हक्क	हक (हक्क)	हक्क

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साक्ष्य साक्षी	साक्ष्य (क्ख)	साक्ष्य	साक्षी, साखी	साक्षी	साक्ष्यमु	सान्रु	तॆळिवुॅ	साक्ष्य
दोषी, कसूरवार, अपराधी	सिद्धदोष, दोषी साब्यस्त ब्यक्ति	दोषी, सिद्धदोष, दोषी-साव्यस्त, जगरीया	प्रमाण पीदुना मराल लैरे ताक्पा	दोषसिद्ध, दोषि	अपराधि, सिद्धदोषि	निरूपिक्कप्पट कुट्टवाळि	कुट्टम् स्थापिक्कप्पेट्ट अपराधि	दोषी, अपराधि
सुधारालय, सुधारगृह	संशोधनागार	सुधारालय, परि-शोधनालय	शम्दोक्नबा शङ	संशोधनागार	संस्करणालयमु	तिरुत्तप्पळ्ळि	दुर्गुण परिहार पाठशाल	सुधारणागृह
सुनुवाइ, सुनवाइ	शुनानी	शुनानी, गुचदीया	हियरिंग, ताहनबा	शुणाणि	विचारणॆ	कैळ्वि, वळक्र्कडुप्पु	हियरिंग, विचारण	सुनावणे
सेना न्यायालय, फौजी अदालत	सेना न्यायालय, सामरिक आदालत, सेना-बिचारालय	सेना-न्यायालय, सामरिक-बिचारालय	लान्मीगी वायेन लोयशङ्	सैन्य-न्यायालय, सेना न्यायालय	सैन्य न्यायालयमु	पडै नीदिमन्रम्	पट्टाळक्कोटति	सेना न्यायालय
हक, अधिकार	हक, स्वत्व	हक, न्यायता-स्वत्व	हक्, फङफम थोकपा	अधिकार	हक्कु	उरिमै, बाद्दियदै	अवकाशम्	हक्कु, अधिकार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हेतु	हेतुः	लई, मनशा	सबब, इल्लत	खॉतुरुँ, वर्जेह, किन्य	मन्शा मुराद	बाबत, उद्देश	हेतु, पेटे	हेतू, उद्देश्य
वाहन	वाहनम्	वाहन	सवारी	सवॉर्य	वाहण	वाहने	वाहनो	वाहन
खच्चर	अश्वतरः	खच्चर	ख़च्चर	कातुर, खचुर	ख़चरु	खेचर	खच्चर	खेंचर
घोड़ा	अश्वः	घोड़ा	घोड़ा	गुर	घोड़ो	घोडा	घोडो	घोडॉ
जहाज	पोतः	जहाज	जहाज़	जहाज़	जहाजु	जहाज	जहाज़ (मोटुं वहाण)	जहाज, बोट
टमटम	अश्वयानम्	टमटम	टमटम	टमटम	टमटम, विक्टोरिया	व्हिक्टोरिया	टमटम	घोड्या गाडी
डोंगी	शिक्या	डोंगी	डोंगी	खोंच, डूँगुँ	नंढी बेड़ी, डोंगी	लहानहोडी	होडी	तारू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हेतु, निमित्त	हेतु, जन्य, उद्देश्ये	हेतु, युक्ति, युक्ति-निमित्त	मरम, कान्नबा	हेतु, कारण	हेतुवु, कारणमु	कारणम्, नोक्कम्	कारणम्, प्रेरकम्	कारण, हेतु
वाहन, सवारी	**यान-बाहन, (जा)**	**बाहन, यान-वाहन**	**तोङ्नबा गारी, शादोङ (शगोल, ऊँट कुंबा)**	**जान-बाहन**	**वाहनमुलु**	**पोक्कु वरवु सादनङ्गळ्**	**वाहनङ्ङळ्**	**वाहनगळु**
खच्चड, खच्चर	खच्चर (पशु)	खच्चर	शगोल अनेंबा	खचर	कंचर गाडिद	कोवेरु कळुदै	कोवरुकळुत	हेसरगत्ते
घोडा	घोड़ा, घोटक	घोंरा, अश्व	शगोल	घोड़ा	गुर्रमु	कुदिरै	कुतिर	कुदुरे
जहाज	जाहाज (जल ओ आकाशेर)	जाहाज	जहाज	जाहाज (जल ओ आकाश)	पडवँ, ओडँ	कप्पल्/ मरक्कलम्	कप्पल्	हडगु
टमटम, एक्का	टमटम, घोड़ार गाड़ी	टम्टम्	शगोलगारी, शगोलगाड़ी, मथक्कुपत्बा	टमटम, हात टणा रिक्सा	गुर्रपु बंडि	कुदिरै वंडि	कुतिरवंडि	कुदुरेगाडि
डुंगा, नौका	डिङ्गा, नौका	डिंगा, पानचै नाओ	हिनाओ	डंगा	चिन्न पडवँ	शिरु पडगु	ओटि वळ्ळम्	चिक्क दोणि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ताँगा	अश्वयानम्	टांगा	ताँगा	टाँगुँ	टांगो	टांगा	टांगो (घोडागाड़ी)	टांगो
नाव	नौ/नौका	बेड़ी	किश्ती, नाव	नाव	बेड़ी, किश्ती	होडी, नाव	नाव, होडी	व्हडी
नौका	नौका	बेड़ी, किशती	किश्ती	नाव, शिकॉर्य	बेड़ी	नौका	नौका, होडी	नौका
पालकी	शिविका	डोली, पालकी	पालकी	ज़ाँपानु, पॉलुँक्य	पालकी	पालखी	पालखी	पालखी
बग्घी	अश्वशकटम्	बग्घी	बग्घी	बॅग्य	बघी, घोड़ेगाडी	घोडागाडी, बग्गी	बगी	बग्गी
बस	बस	बस	बस	बस	बस	बस	बस	बस
बैलगाड़ी	गोयानम्	गड्डा	बैलगाड़ी	दांदुँगॉड्य	बैलगाडी, डांदगाडी	बैलगाडी	बेलगाडी	बैलागाडो
रथ	रथः	रथ	रथ	रथ	रथु	रथ	रथ	रथ
रेलगाड़ी	रेलयानम्	रेलगड्डी	रेलगाड़ी	रेलगॉड्य	रेलगाडी	आगगाड़ी	रेलगाड़ी	रेलगाडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टमटम, एक्का, घोडागाड़ी, बग्गी	टाङ्गा, एक्कां, घोड़ागाड़ी, बग्गी	ताङ, तङा	शगोलगारी, शगोलगाड़ी	घोडा-गाड़ि	गुर्रपु बंडि	कुदिरै वंडि	टोंग, जड्क	टांगा
नाउ, नौका, डुङ्गा	नाओ, नौका	नाओ	हि	नौका, नाआ	पडवॅ, नावॅ	ओडम्	तोणि	दोणि
नौका, नाउ, डुङ्गा	नौका, नाउ	नौका, नाओ	हिनाओ	नौका, ड़ुगा	नौकॅ, पडवॅ	पडगु	तोणि	हडगु
पाल्की, डोली	पालकि, डोली	पाल्की	डोली, दोलाई	पालिंकी	पल्लकि	पल्लक्कु, सिविगै	पल्लक्कुॅ	पल्लक्कि
बग्गी, घोडागाडी	घोड़ा-गाड़ि, बगी	बागी, घोड़ा-गाड़ी	चाका मरी पानबा, शगोल गाड़ी	घोड़ागड़ि, बगी	गुर्रपु बंडि, बग्गी	सारट्टु वंडि	सार्ट्टु, फीट्ट्न्	कुदुरे सारोटु, बंडि
बस	बास	बाछ	बस	बस	बस्सु	पेरुंदु बस्	बस्	बस्सु
गोरूगाडी, बयलगाडा	गोरूरगाड़ी	गरूगाड़ी	शनगाड़ी	बलदगड़ि	एंद्दुबंडि	माट्टु वंडि	काळ वंडि	ऐत्तिनगाडि
रथ	रथ	रथ	रथ	रथ	रथमु	तेर्	रथम्	रथ
रेलगाडी, रेल	रेलगाड़ि, ट्रेन, रेल	रेल, रेलगाड़ी	रेलगाड़ी	रेलगाड़ी	रइलुबंडि	पुगै वंडि/ रयिल्	ट्रयिन्, रयिल्	रैलुबंडि, रैलुगाडि, रैलु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विमान	विमानम्	हवाई जहाज़	हवाई जहाज़	हवॉयी जहाज़	विमानु, हवाई जहाजु	विमान	विमान	विमान
व्यंजनादि	व्यञ्जनादि	विअंजन आदि	अशयाए-ख़ूर्दोनोश	ज़ियाफॅच़, सिन्य	खाधे-पीते जूं शयूं	खाण्याचें पदार्थ	खाद्य पदार्थ	खाण्याचें पदार्थ
अंडा	अण्ड:	आंडा, अंडा	अंडा	ठूल	अंडो, आनो, बेदो	अंडे	ईंडुं	तांती
अचार	उपसेचनम्	अचार	अचार	आँचार	आचारु, खटाणि	लोणचे	अथाणुं	लोणचे, मिस्कूट
इडली	इडलिः, इडली	इडली	इडली	इडली	इडली	इडली	इडली	ईडली
इमरती	अमृति:	अमरती	इमरती	इमरती	इमरती	इमरती	एक प्रकारनी जलेबी जेवी वानगी	इमरती
कचौरी	कर्चूरिका	कचौरी	कचौरी	कचूर्य	कचोरी	कचोरी	कचोरी	कचोरी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विमान, हवाई-जहाज	बिमान, उड़ो जाहाज, हाओआइ जाहाज	बिमान, उड़ा-जाहाज	एरोप्लेन	बिमान, उडाजाहाज	विमानमु	विमानम्	विमानम्	विमान
व्यंजनादि	**व्यंजनादि**	**ब्यंजनादि, खोवावस्तु, आहार**	**येनशाङन-चिङबा**	**ब्यंजन**	**तिनुबंडारमुलु**	**वियंजनंगळ**	**करि-पलहारङ्ङळ्**	**अडिगे पदार्थगळु**
अन्डा, फुल	डिम, आंडा	कणी, अण्ड	येरूम, मरुम	अंडा	गुड्डु	मुट्टै	मुट्ट	मोट्टे, तत्ति
अचार	आचार	आचार	अचार	आचार, खटा	ऊरगाये	ऊरुकाय्	अच्चारु, उप्पिलिट्टतु	उप्पिनकायि
इडली	इडली	इद्ली	इडली	इडली	इड्ली	इड्डिलि	इड्डलि	इड्लि
इमरती, जिलेबी जस्तो एक मिठाई	अमृति, जिलिपी	जिलापीर-दरे एबिध मिठाइ, इमरति	अथुंबा मीठाइ मखल अमा	अमृत	जांगरी	जांगरी	जिलेबि	जहांगीर
कचौरी	कचुरि	कचुरि	कचौरी	कचोडी, कचुडी	कचोडी	कचौरी	कचौरि	मसालापूरि, कचौरी

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कढ़ी	क्वथिता	कढ़ी	कढ़ी	कॅर	कढ़ी	कढ़ी	कढ़ी	रोस
कबाब	पक्वमाँसम्	कबाब	कबाब	कबाबुॅ	कबाबु	कबाब	कबाब, मांसनुं मूठियुं-भजियुं	कबाब
खिचड़ी	कृशरः	खिचड़ी	खिचड़ी	ख्यचुॅर	खिचिणी	खिचडी	खीचड़ी	खिचडी
खीर	पायसम्	खीर	खीर	खिर	खीरिणी	खीर	खीर	खीर
गुझिया	करञ्जिका	गुॅझीआ	गुझिया	गुजिया	गुझिया	करंजी	घूघरो	करंजी, नेवऱ्यो
चटनी	अवलेहः	चटणी	चटनी	चॅटिन्य	चटिणी	चटणी	चटणी	चटणी
चपाती	रोटी, रोटिका	फुलका, चपाती	चपाती	फुलकुॅ, चोॅट	फुल्को	चपाती, पोळी	चपाती (टी), चार पडवाळी रोटली, जाडी रोटली	चपाती
जलेबी	कुण्डलिका	जलेबी	जलेबी	जलेबी	जलेबी	जिलबी	जलेबी	जिलवी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कढी	कढ़ी	आंजा	शङगोम अफमबना थोङबा येनजाङ,येनशाङ मखल अमा	कढ़ी	मज्जिगं पुलुसु	मोर् कुळंबु	पुळिश्शेरि	मज्जिगेहुळि
कबाफ	काबाब	काबाब	कबाब	कबाब	कबाबु	वरुत्त इऱैच्चि	कबाब, इऱच्चिक्करि	हुरिद मांस, कबाबु
खिचडी, खिच्रो	खिचुड़ि	खिचिरि	खेचरी, खेच्री	खेचेड़ि, खेचुड़ि	पुलगमु	पोंगल्	परिप्पुचोरुँ	हुग्गि
खीर	पायेस	खीर, क्षीर	खेर	खीर, खिरि	पायसमु	पायसम्	खीरु, पाल्पायसम्	खीरु
गुजिया	गुँजिया	एबिध मिठाइ, खोवा	गुझिया	एक मिठाइ, खोआ, खुआ	कर्जिकायि	सोमास्	समोस	कर्चिकायि, कर्जिकायि
चटनी, छोप	चाटनि	चाट्नि	चटनी, अमेट्पा	चटणी	पच्चडि, चटनी	चट्टि	चट्टिणि, चम्मंति	चट्नि
रोटी, चपाती	चापाटि, रुटि	रूटी	तल, चपाती	रूटि	चपाती	चप्पात्ति	चप्पात्ति	चपाति
जिलेबी	जिलिपि	जिलेपि	जिलिबी	जिलाबि,झिलि	जिलेबी	जिलेबी	जिलेबि	जिलेबि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दलिया	दलितः, कञ्जिः	दलीआ	दलिया	अरदाबुँ, दॅलियि	ड॒र्यो, दलियो, ड॒ारो	भरड ख्याची खीर	थूलि	लुरांव, लरांव
दही	दधि	दही	दही	ज़ामुत दोंद, ज़ोम दोंद	ड॒ही	दही	दहीं	धंय
दाल	द्विदलम्, सूपः	दाल	दाल	दाल	दा़ल	दाळ	दाळ	डाळ
दूध	दुग्धम्	दुद्ध	दूध	दोंद	खीरु	दूध	दूध	दूद
पकौड़ा	पक्ववटम्	पकौड़ा	पकोड़ी (पकौड़ी)	पकोरूँ	पकोड़ो	भजे	भजियुं	भजें
पनीर	अपनीरः, किलाटः	पनीर	पऩीर	चामन	पनीरु	पनीर	पनीर	पनीर
पराँठा	पराण्टकम्	परौंठा	पराठा	परोंठ/पराठ	उफराटो, परांठो	चपाती	परोठुं	परोठा
पापड़	पर्पटम्	पापड़	पापड़	पापड़	पापड़ु	पापड	पापड	पापड
पूड़ी **(पूरी)**	पूरी, पूरिका	पूरी	पूरी (पूड़ी)	पूर	पूरी	पुरी	पूरी	पुरी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दलिया	दलिया (आ), गोधुम	खुदकणेरे रँधा- खाद्य	पौना तकखाइबा गेहु	दलिआ	गोधुमँ नूकँ	गोदुमै कंजि	गोदंबु, कञ्ञि	गोदि रवेय गंजि
दही	दइ, दहि	दै, दधि	दही, शङ्गोम अफंबा	दहि	पेरुगु	तयिर्	तयिरँ	मोसरु
दाल	डाल, दाल	दाइल, दाल, फला-माह	हवाई	डालि	पप्पु	परुप्पु	परिप्पुँ	तोव्वे
दूध	दुध	गाखीर	शङ्गोम	दुध	पालु	पाल्	पाल्	हालु
पकौडी, फुरौलाको एक प्रकार	तेले भाजा, येमन, (जे) बेगुनि पेंयाजि	पकोरा	पकौड़ा	पकुड़ि	पकोडी	पक्कोडा	पक्कावट	पकोड
पनिर, छेना	छाना, पनिर	पनीर	छना	छेना	जुन्नु	पालाडैक्कट्टि	पाल्क्कट्टि	पनीरु
परौंठा/ परौठा	परोटा, परटा	परठा	परोठा	परटा	पराठा	परोट्टा	परोट्ट	पराठे
पापड	पॉपर	पापर	पाफोर	पांपड़	अप्पडमु	अप्पळम्	पप्पटम्	हप्पळ
पुरी	पुरि, लुचि	पुरि, लुचि	पूरी	पुरि	पूरी	पूरि	पूरि	पूरि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पेड़ा	पेटम्, पेडम्	पेड़ा	पेड़ा	पेडुँ	पेड़ो	पेढा	पेंडो	पॅडो
बर्फी	हैमी	बरफ़ी	बर्फ़ी	बरुँफ्य, बरफी	बर्फ़ी	बर्फी	बरफी	बर्फी
बूँदी	बिन्दुः	बूँदी	बूंदी, नुकतीदाना	बूंदी	बूंदी	बुंदी	बूंदी	बुंदी
भात (चावल)	ओदनम्	चौल	चावल, खुश्का	बतुँ	चांवर (रधल)	भात	भात	शीत
मक्खन	नवनीतम्	मक्खण	मक्खन	थॅन्य	मखणु	लोणी	माखण, नवनीत	लोणी
मछली	मत्स्यः	मच्छी	मछली	गाड़	मछी	मासळी मासा	माछली	नुस्तें
मट्ठा	मथ, तक्रम्	मट्ठा	छाछ	गुरुस, छोंकुँदोंद	मठो	मट्ठा	मठ्ठो	मट्ठो
मलाई	कूर्चिका	मलाई	बालाई, मलाई	मलॉय	मलाई	मलई	मलई	साय
मांस	माँसम्	मास	गोश्त	नैंनि, स्युन, माज़	मासु, गोश्तु	मांस	मांस	मांस
मुरब्बा	फलोपस्करः	मुरब्बा	मुरब्बा	मोंरबुँ	मुर्बो	मोरांबा	मुरब्बो	मुरांबो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पेडा	पेड़ा, प्याँड़ा	पेड़ा	बेरा	पेड़ा	पालँ कोवा	पाल् कोवा	पेड	पेढे
बर्फी	बरफि	बरफि	बर्फी	बरफी	बर्फी	बर्बि	बर्फि	बर्फि
बुँदिया	बोंदे, बुँदिया	बुंदिआ	लदू मकुप	बुंदिआ	बूंदी	बूंदि	बूँदि	बूंदि
भात	भात	भात	चाक्	भात, अन्न	अन्नमु	चोरु/ सादम्	चोरुँ	अन्न
नौनी, मखन	माखन, ननी	माखन	माखोन	लहुणी, मक्खन	वेन्नँ	वेण्णय्	वेण्ण	बेण्णे
माछा	माछ, मत्सो	माछ	ङा	माछ	चेपँ	मीन्	मत्स्यम्, मीन्	मीनू
मही	माठा	घोल	छना मही	घोलदहि, लहुणी दहि	मज्जिगँ	मोर्	मोरुँ	मज्जिगे
तर्	मालाइ, दूधेर सर	गाखीरर सर	शङगोम मपाल	मलाइ	मीगडँ	पालेडु	पाल्पाट	केने
मासु	मांसो	मांस, मङह	शा, शदोङ्	मांस	मांसमु	मामिसम्/ पुलाल्	मांसम्	मांस
मुरब्बा	मोरब्बा	मुरब्बा	मुरबा	मुरब्बा (फलरु तिआरि हुए)	मुरब्बा	मुरब्बा	मुरब्ब, जाम्	मोरब्बा

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
रबड़ी	वासन्दी	रबड़ी	रबड़ी	रबड़ी	रबिड़ी	बासुंदी	रबड़ी, बासुंदी	रबडी
रस	रस:	रस	रस	रस	रसु	रस	रस	रस
रसगुल्ला	रसगोलकम्	रसगुल्ला	रसगुल्ला	रसगोलुँ	रसगुलो	एक बंगाली मिठाई, रसगुल्ला	रसगुल्लुं, रसगुल्लो	रसगुल्ला
रायता	दाधेयम्	रैता	रायता	रायितुँ	राइतो	रायते, भरीत	राइतुं, रायतुं	रायते
रोटी	रोटी, रोटिका	रोटी	रोटी	च़ोंट	रोटी	पोळी	रोटली	रोटी
लड्डू	लड्डुकम्, मोदकम्	लड्डू	लड्डू	लोंड	लड़ूं	लाडू	लाड़वो	लाडू
लस्सी	लसी	लस्सी	लस्सी	लॅस्य	लसी	ताक	लस्सी	लस्सी
शरबत	पानकम्	शरबत	शरबत	शरबत	शर्बतु/शरबतु	सरबत	शरबत	शरबत
शराब	मद्यम्	शराब	शराब	शराब	शराबु, दारूं	दारु	दारू	सोरो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राबडी, दूध को खावा	राबड़ि	राबिड़ि	रबरी	राबिड़ि	बासंदी	बासुंदि	रबडि	बासुंदि
रस	रस	रस	रोस	रस	रसमु	रसम्	चारुँ, जूस्	सारु, रस
रसभरी, रसगोला	रसगोल्ला	रसगोला	रसगुला	रसगोला	रसगुल्ला	रसगुल्ला	रसगुल्ल	रसगुल्ला
राइता, राइतो	रायता	दै दिया- घोल राइता	राइता	राइता	पेरुगु पच्चडि	रायत्ता, पच्चचडि	किच्चटि	मोसरुबज्जि
रोटी, चपाती	रुटि	रुटि	तल	रुटि	रॉट्ट	रॉट्टि, चप्पात्ति	चपाती, रॉट्टि	रोट्टि
लड्डु, लड्डू	लाडु, लाडु, लाड्डु	लाडु, लारु	लद्दू, लड्डू	लड्डू, लडु	लड्डु	लड्डु	लड्डु	लाडू, उण्डि
लस्सी	घोल, लस्सि (ी)	लाच्ची	लस्सी	लसि	चल्लॆ	लस्सि	लस्सि	लस्सि
सर्बत	शरबत, सरबत्	चरबत्	है मही	सरबत	शरबत्तु	शर्बत्तु	सर्वत्तुँ	पानक, शरबत्तु
रक्सी	मद, सुरा	मद, मदिरा, लाउपानी	यू	शराब, मद	सारायि	मदु	मद्यम्, चारायम्	सारायि, हेंड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
समोसा	शृङ्गाटकम्	समोसा	समोसा	समोसुँ	संबोसो	सामोसा	समोसा	सामोसा
सांबर	सूपः	सांबर	सांबर	सांबर	सांबर	सांबार	सांभार, सभारो	सांबार
साबूदाना	सागुः	साबूदाणा	साबूदाना, सागूदाना	सोबूदानुँ	साबूदाणा, सेंगू चांवर	साबूदाणा	साबुदाना (पा)	साबूदाणो
हलवा	संयावः, काटाहः	हलवा, कड़ाह	हल्वा	हॅलवुँ	सीरो, हल्वो	सांजा, शिरा	शीरो	हालवो
व्यवसाय	**वृत्तयः**	**विवसाय**	**पेशे**	**कॉम-कार, पेशि**	**पेशो, धंधो, रोज़गार**	**व्यवसाय**	**व्यवसाय, धंधो**	**व्यवसाय, धंदो**
अध्यापक	अध्यापकः	अधियापक	मुदर्रिस, उसताद	वोंस्ताद्, ओखुन, माशटर	मास्तरु	अध्यापक	अध्यापक (शिक्षक)	अध्यापक
अनुवादक	अनुवादकः	अनुवादक, तर्जुमाकार	मुतर्जिम	तरजमुँकार	तर्जुमानु	अनुवादक	अनुवादक (भाषांतरकार)	अणकारपी
इंजीनियर	अभियन्ता	इंजनियर	इंजीनियर	इंजीनर	इंजीनियर, इंजनेर	एंजीनियर	एन्जिनियर (इजनेर)	इंजिनीयर
कलाकार	कलाकारः	कलाकार	फ़नकार	फनकार, कॉसिब, कलाकार	कलाकारु	कलाकार	कलाकार	कलाकार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिंगडा, समोसा	सिङ्गाड़ा, सामोसा	चिङारा	समोसा	सिंगड़ा	समोसा	समोसा	समोस	समोसा
साँभर	फोरन, संबर	सांबर	सांबर	संबर	सांबारु	सांबार्	सांबार्	सांबारु
साबुदाना	साबुदाना	चाबूदाना	साबूदाना	सागुदाना	सग्गु बिय्यमु	जव्वरिशि	चौव्वरि	सब्बक्कि
मनभोग, हलुवा	हालुआ	हालोवा	हलवा	हालुआ, मोहन भोग	हल्वा	हल्वा/ अल्वा	हलुवा	हल्वा
व्यवसाय	**व्यवसाय**	**ब्यवसाय, वत्ति, जीविका**	**शिन्फम**	**ब्यबसाय**	**वृत्तुलु**	**तॉ़ळिल्गळ्**	**तॉ़ळिलुकळ्**	**वृत्ति, धंधे**
अध्यापक	अध्यापक (द्धा)	अध्यापक, शिक्षक	ओजा	अध्यापक	उपाध्यायुडु	आसिरियर्	अध्यापकन्	उपाध्याय, अध्यापक
अनुवादक	अनुबादक	अनुबादक	अनुवाद तौबा मी, हंदोक्पा मी	अनुबादक	अनुवादकुडु	मॉ़ळि पेयर्प्पाळर्	परिभाषकन्	अनुवादक, भाषांतरकार
अभियंता, इन्जिनियर	इञ्जीनियर प्रोजुक्ति/शिल्पी	इंजिनीयार, अभियंता	इंजीनियर	इंजिनीअर, जंत्रि	इंजिनीरु	पॉरियाळर्	इंजिनीयर्	इंजिनीयर, अभियंत
कलाकार	शिल्पी, कलाकार	कलाकार	कलाकार	कलाकार	कलाकारुडु	कलैञर्	कलाकारन्	कलाकार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कवयित्री	कवयित्री	कवित्री, कवितरी	शाइरा	ज़नि-शॉयिर	कवयित्री, शाइरा	कवयित्री	कवयित्री	कवयित्री
कवि	कविः	कवी	शाइर	शॉयिर, गोंनमाथ	कवी, शाइर	कवी	कवि	कवी
कसाई	वधिकः	कसाई	क़स्साब	पुज	कासाई	खाटिक, कसाई	कसाई, खाटकी	खाटकी
किराना	पण्यसारी	करिआना	किराना	किरयानुॅ	सींधो, किर्यानो	किराणा माल, मीठ, मिरची वगैरे	करियाणुं, गांधियाटु	किराणा
कुम्हार	कुम्भकारः	कुमिआर	कुम्हार	क्राल	कुंभरु,कुंभारु	कुंभार	कुंभार	कुंभार
कुली	भारवाहकः	कुली	क़ुली, हम्माल	कुली, मोंज़ूर	कूली	हमाल, कुली	कुली (मजूर)	कुली, हमाल
गायक	गायकः	गवईया	गुलूकार	ग्यवनवोल	गाईंदड़ु, गवैयो, गाइकु	गवई	गायक, गवैयो	गायक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कवयित्री	महिला कबि	महिला कवि	शैरेङ् इबी नुपी	कवी, नारीकवि	कवयित्रि	पंण् कविञर्	कवयित्रि	कवयित्रि
कवि	कबि (ब)	कवि	अशैबा, शैरेङ् इबा नुपा, कबि	कबि	कवि	कविञर्	कवि	कवि
कसाई	कसाई	कचाइ	कसाई, शा हात्लगा योन्बा मी	कंसेइ	कसाइवाडु	कशाप्पुक्कारन्	कशाप्पुकारन्, अऱुप्पुकारन्	कटुक
किराना	मुदिर दोकानेर जिनिस पत्रादि, चाल, डाल तेल इत्यादि	गेलामालर दोकान	याइङ, थुम, मसाला असिनचिंबा नुङ्तिगी शिजिन्नबा हिदाक अमदि पौत्-चै योन्बा मी	लुण-मसला-हलदी आदि (दोकान बिक्रेता)	किराना	पलशरक्कु/ मळिगै वियापारि	पलव्यंजनक्कट-क्कारन्	किराणि
कुमाले, कुम्हाल	कुमोर, कुमार	कुमार, कुंभकार	चफू शाबा	कुम्हार, कुंभार, कुंभकार	कुम्मरि	कुयवन्	कुशवन्	कुंबार
कुल्ली, भरिया	कुलि	मजदूर, कुली	कुलि	कुली, मुलिआ	कुली	कूलियाळ्	कूलिक्कारन्	कूलि
गायक	गायक	गायक	ईशैशक्पा	गायक	गायकुडु	पाडगर्	पाट्टुकारन्, गायकन्	संगीतज्ञ, गायक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ग्वाला	गोपालः	गुआला	गवाला	गूर	गुवालो, खीरवारो	गवळी	गोवाळ, गोवाळियो	दूदकार
घड़ीसाज	घटीयान्त्रिकः	घंड़ीसाज	घड़ीसाज़	गड़ीसाज़, गरिशेरनवोल	घड़ीसाजु	घडयाळजी	घडियाळी	घडयाळी, घडयाळ दुरुस्त करपी
चरवाहा	चारकः	वागी	चरवाहा	पोंहल	धनारु	गुराखी	ढोर चारनार	राखणो
चालक	चालकः	ड्राइवर, चालक	ड्राइवर	ड्रयवर	हलाईंदड़ु, चालकु	ड्राइवर, चालक	ड्राईवर	ड्राईवर
चित्रकार	चित्रकारः	चित्तरकार	मुसव्विर	तस्वीर-बनावनवोल, मूरच़गर	चित्रकारु	चित्रकार	चित्रकार	चित्रकार
चौकीदार	द्वारपालः	चौकीदार	चौकीदार	चूक्यदर	चौकीदारु	पहारेकारी, चौकीदार	चोकीदार, रखेवाळ	वॉचमन
जादूगर	यातुकारः ऐन्द्रजालिकः	जादूगर	जादूगर	जोदूगर	जादूगरु	जादूगार	जादुगर (जादूगर)	जादुगर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ग्वाला, गोठालो	गोआला, घोष, गोपालक	गुवाल, गरखीया	शङ्गोम शुंबा, शङ्गोम योंबा	गउड़	गॉल्लवाडु	माट्टिडैयन्	पशु मेय्क्कुन्नवन्, माट्टियन्	गोल्लरवनु, गौळी
घडीसाज	ये (जे) मेरामत बा साराइ करे	घड़ी साजोंता	घड़ी शेंबा मी	घड़ी-मरामत-कारी	गडियारालु बागु चेसेवाडु	गॅडिकारम पळ्तु पार्प्पवन्	वाच्चु-नन्नाक्कुन्नवन्	गडियार-रिपेरि-माडुवव
गोठालो	राखाल, ये (जे) पशु इत्यादि चराय	गरखीया, गरु-चराओंता मानुह	शनजेन्नहा	गो-महिषादिर-चराइबा-बाला, गाइआल	पशुवुलु मेपे वाडु	इडैयन्	इटयन्	दनगाइ, दन मेयिसुवव
चालक, ड्राइभर	चालक, ड्राइभार	चालक, ड्राइभार	ड्राइवर	चालक	ड्रइवरु	ओट्टुनर्	ड्रैवर्	चालक, ड्रायवर
चित्रकार	चित्रकार, जिनि छबि आँकेन	चित्रकार, छबि-आँकोता	लाइयेकपा	चित्रकार, चित्रकर	चित्रकारुडु	ओवियर्	चित्रकारन्	चित्रकार
चौकीदार, पाले	चौकिदार	चौकीदार चकीदार पर दिओंता	चौकिदार	चौकीदार	कावलिवाडु	कावल्कारन्, कावलाळि	कावल्क्कारन्	चौकीदार, कावलुगार
जादुगर	यादुकर, (जा) बाजिकर	यादुकार, बाजिकर	जादु तौबा, मित्रं हैबा मी	जादुकर (ऐंद्रजालिक)	इंद्रजालिकुडु	जाल विद्दैक्कारन्	जालविद्यक्कारन्	जादुगार, गारडियव

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
जिल्दसाज	ग्रन्थिकः	जिलदसाज़	जिल्दसाज़	जुलुॅदसाज़	जिल्दसाज़ु, बुक बाइंडरु	बुक बाईण्डर	बुक बाईन्डर	बुक बाइंडर
जुलाहा (बुनकर)	तन्तुवायः	जुलाहा	बुनकर	वोवुर	कोरी, जुलाहो	विणकर, कोष्टी	वणकर	विणकर
जौहरी	रत्नपरीक्षकः	जौहरी	जौहरी	जौहरी	जवाहरी, जौहरी	ज्वाहिया	झवेरी	शेट
ज्योतिषी	ज्योतिर्विद्	जोतशी	नजूमी (जोतशी)	जोतुॅश	ज्योतिषी, नजूमी	ज्योतिषी	ज्योतिषी (जोशी)(षी)	ज्योतिषी, ज्योतीशी
तेली	तैलिकः	तेली	तेली	तिलुॅवोन्य	तेली	तेली	तेली, घांची	तेली
दरजी (दर्जी)	सौचिकः	दरज़ी	दर्ज़ी	सुॅच़	दर्ज़ी	शिंपी	दरजी	शिंपी
दलाल	मध्यस्थः	दलाल	दल्लाल	द्राल	दलालु	दलाल	दलाल	दलाल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जिल्दसाज, पुस्तकमा गाता हाल्ने व्यक्ति	दफतरि (दप्तरि), बइ बाँधाइ करेन जिनि	दप्तरी	लाइरिक मखुम शेम्-शाबा मी	बंधाइ-बाला	बुक् बैंडरु	बैंडु संय्बवर्/ पुत्तगम् कट्टुपवर	बैंडर्	बैंडर्
जुलाहा, बुनकर, तंतुकार	ताँती, तंतुवाय	ताँती, बोवनी	फी शाबा	तंती, बुणाकार	सालेवाडु	नेसवाळि	नेय्त्तुकारन्	नेकार
जौहरी	जहुरी, जहरी, अलंकार ब्यबसायी	मणि-मुक्तार व्यवसाय	सना-लुपा चाङ् येङ्बा, नत्रगा योनबा मी	जहुरि	नगल व्यापारि	रत्तिनवियापारी	रत्नव्यापारि	रत्नदव्यापारि
ज्योतिषी	जयोतिषी	ज्योतिषी, ज्योतिष-शास्त्रज्ञ	पांजी	ज्योतिषी	ज्योतिष्युडु	जोदिडर्	ज्योत्स्यन्	जोयिस, ज्योतिषि
तेली, साल्मी	तेली, तिली, कलु	तेली, तेलीया	थाओ योन्बा, तेली	तेली	नूनेल व्यापारि	वाणियर्	एॅण्णक्कारन्, वाणियन्	गाणिग
सुजीकार, सूचिकार	दरजी (दर्जी)	दर्जी	दरजी, फी तुबा	दरजी	दर्जी	तैयल्कारर्	तय्यल्क्कारन्	दर्जि, सिंपिग
दलाल, मध्यस्थ	दालाल, मध्यस्थ	दालाल	पोत् लैथोक लैशिंदा मरकता लैबा तेङ्बाङ्बा मी	दलाल	ब्रोकरु	तरगर्	दल्लाळ्, तरकन्	दल्लाळि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
दुकानदार	आपणिकः	हटवाणिया, दुकानदार	दुकानदार	वानुँवोल	दुकानदारु	दुकानदार	दुकानदार	दुकानदार
धाय (दाई)	धात्रीः	दाई	दाई	दाय	दाई	दाई, धात्री	आया	धाय, नर्स, वैजीण
धोबी	रजकः	धोँबी	धोबी	दोँब	धोबॖी	परीट, धोबी	धोबी	मडवळ
नट	नटः	नट	मसख़रा	रासुँकोँट, मस्खरुँ, नाटुककरन-वोल	नटु	नट	नट	नट
नाई	नापितः	नाई	नाई, हज्जाम	नॉविद	हजमु, नाई	हजाम, न्हावी	नाई, हजाम (वाळंद)	म्हालो
पत्रकार	पत्रकारः	पत्तरकार	सहाफ़ी	अख़बार-नॅवीस	अख़बारनवीस, पत्रकार	पत्रकार	पत्रकार	पत्रकार
पुरोहित	पुरोहितः	पुरोहित	पुरोहित	गोर, पोँरुहत	पुरोहितु	भटजी, भिक्षुक, पुरोहित	पुरोहित	भट
प्रकाशक	प्रकाशकः	प्रकाशक, पबलिशर	नाशिर	पबलिशर, छापनवोल	प्रकाशकु, पब्लिशर	प्रकाशक	प्रकाशक	प्रकाशक, उजवाडपी
फेरीवाला	चलापणिकः	फेरीवाला	फेरीवाला	फेरिवोल	फेरी वारो	फेरीवाला	फेरियो	फेरीवालो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पसुले, दोकानदार	दोकानदार (दोकानी)	दोकानी	दुकान फंबा	दोकानी	अंगडिवाडु	कडैक्कारन्	कटक्कारन्	अंगडियव
धाई	धाइ, दाइ, धात्री, नार्स	धाइ	योकचबी	धाई	दादि, आया	मरुत्तुवच्चि	वयट्टाट्टि, नर्स	दादि, सूलगित्ति
धोबी	धोपा, धोबा	धोबा	फी शुबा मी, धोबी	धोबा	चाकलि	वण्णान्	डोबि, वेळुत्तेटन्	अगस
नट, नटुवा	नट	नट	जगोइ शाबा मी	नट	नटुडु	नडिगर्	नटन्, नर्तकन्	नट
नाउ, हजाम	नापित, नरसुंदर	नापित	हजाम, खुजिन-शम कक्पा मी	भंडारी (नापित)	मंगलि	नाविदर्	क्षुरकन्	क्षौरिक, नापित
पत्रकार	सांबादिक	सांबादिक बातरि दिओता	पाओमी, खबरगी मी	पत्रंकार, सांबादिक	पात्रिकेयुडु	पत्तिरिकैयाळर्, इदळाळर्	पत्र-प्रवर्तकन्	पत्रकर्त, पत्रकार
पुरोहित, पुरेत	पुरोहित, पुरुत	पुरोहित	पोरोहित	पुरोहित	पुरोहितुडु	पुरोहितर्	पुरोहितन्	पुरोहित
प्रकाशक	प्रकाशक (पुस्तक)	प्रकाशक	अफोङ्बा मी	प्रकाशक	प्रचुरणकर्त	प्रचुरकर्ता, नूल् वॅळियिडुपवर्	प्रसाधकन्	प्रकाशक
फेरीवाल	फेरिवला (फेरि ओयाला)	फेरिवाला	कोयना चत्तुना पोत योन्बा मी	फेरिबाला	त्रिप्पुडु बंडि वाडु	नाडमाडुम् वियाबारि	पंट्टिक्कच्चवट-क्कारन्	तिरुगु व्यापारि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बढ़ई	तक्षकः	तरखाण	बढ़ई	छान	वाढो	सुतार	सुथार	मेस्त, थवय
मछुआ	मात्स्यिकः	माछी	मछेरा, माहीगीर	गार्डुँहाँज़	मुहाणो, मछेरो	कोळी, मासे धरणारा	माछीमार, माछी	नुस्तेकार
मजदूर	श्रमिकः	मजूर, मज़दूर	मज़दूर	मोंजूर	मजूरु	मजूर	मजूर	मजूर
मल्लाह	नाविकः	मलाह	मल्लाह	नावि हाँज़	मलाहु	नाविक	होडीवाळो, नाविक, खलासी, मल्लाह	तांडेल
महावत (महाउत)	हस्तिपकः	महावत	महावत	हॅस्यवोल, महावथ	महावतु	महावत	महावत	महावत
माली	उद्यानपालः	माली	माली, बाग़बान	बागवान, आरुँम	माल्ही	माळी	माळी	माळी
मुद्रक	मुद्रकः	छापक	ताबे, छापने वाला	छापनवोल	छपीदंडु, मुद्रक, प्रिंटर	मुद्रक	मुद्रक (छापनार)	मुद्रक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिकर्मी	छुतोर, सूत्रधर	बाढ़ै, काठ मिस्त्री, सुतार	उ शुबा मी	बढ़ेइ	वड्रंगि	तच्चर्	कल्लाशारि	बडिग
मछुवा, मलाहारी	जेले, कैबर्त	माछवै, माछतियार, माछमरीया	ङा फाबा मी, ङामी	कैउट, मछुआरा	जालरि	चेंबडवन्	मुक्कुवन्	बेस्त
मजदुर, ज्यामी	मजुर, श्रामिक	मजदुर, बनुआ	शिन्मी, थबक शुबा मी	मुलिआ, मजदुर	पनिवाडु, कूली	कूलियाळ्	तॉळिलाळि, कूळिक्कारन्	कूलिकार
मल्लाह, माझी	माझि, माझी-माल्ला	नावबैचा	ही होनदुना, नत्रगा ङा फादुना हिङ्बा जाति अमा	माझी, नाउरिआ	बंस्तवाडु	पडगोट्टि	वळ्ळक्कारन्	अंबिग
माहुते, माउते, हात्तीवान, फिलवान	माहुत	माउत	मउत्, शामु थोबा मी	माहुंत	मावटीवाडु	यानैप्पागन्/ मावुत्तन्	पाप्पान्, आनक्कारन्	मावटिग
बगैंचे, बागवान्	माली, मालाकर	माली, मालाकर, मालाकार	माली, लैकोल शेन्नबा मी	माली	तोटमालि	तोट्टक्कारन्	तोट्टक्कारन्	मालि
मुद्रक	मुद्रक	मुद्रक	अनंबा	मुद्रक	मुद्रणकर्त	अच्चिडुपवर्	अच्चटिक्कारन्, प्रस्सुकारन्	मुद्रक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मोची	चर्मकार:	मोची	मोची	वातुल, मूच	मोची	चामार	मोची	चामार
रसोइया	सूद:, पाचक:,	रसोईया, लांगरी	बावरची	वाज़ुॅ	रसोइयो, राधाऊ	आचारी, स्वयंपाकी	रसोइयो	रांदपी
राज	गेहकार:	राज	राज	दॅसिल	राज़ो	गवंडी	कडियो	गंवंडी
लुहार (लोहार)	लोहकार:	लुहार	लोहार	खार	लोहारु	लोहार	लुहार, लवार	धवड़ कामार
लेखक	लेखक:	लेखक, लिखारी	मुसन्निफ़	लिखॉर्य, मुसनिफ	लेखकु	लेखक	लेखक	लेखक
वकील	अधिवक्ता	वकील	वकील	वॅकील	वकीलु	वकील	वकील	आंदोगाद
विक्रेता	विक्रेता	विकरेता	बेचनेवाला	कुॅननवोल	विकिणंदड़ु	विक्रेता	विक्रेता (वेचनार)	विकतलो
वेश्या	वेश्या	वेसवा, वेशया, वेसुआ	तवाइफ़, कसबी	गॉन्य, कंजरेन्य	वेश्या, रंडी, तवाइफ़	वारांगना, वेश्या	वेश्या	वेश्या

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चर्मकार, सार्की, मोची	मुचि, मुची	मुची	खोङूप शेंबा, मोची	मोची	चॅप्पुलु कुट्टेवाडु	चक्किलियन्	चॅरुप्पुकुत्ति	मचगार, समगार
भान्छे, भान्से	राँधुनि, ठाकुर, पाचक	रांधनी, पाक-करोता	पुजारी, बुजारी	पूजारी, रोषेइआ	वॅट मनिषि	समयल्कारर्	अरिवॅय्प्पकारन्	अडिगेयव, बाणसिग
डकर्मी	राजमिस्त्रि	राज मिस्त्री	युम शाबा मी राज्य, शासन	राजमिस्त्री	तापी पनिवाडु	कॉत्तनार्	कल्लाशारि	मेस्त्रि
कामी, लोहार	कामार, कर्मकार	कमार	योत् शुबा मी	कमार	कम्मरि	करुमान्	कॉल्लन्	कम्मार
लेखक	लेखक	लिखक, लेखक, लिखोता	अइबा, लाइरिक इबा मी	लेखक	रचयितॅ	ऍऴुत्ताळर्	लेखकन्, ऍऴुत्तुकारन्	लेखक
अधिवक्ता	उकिल, एडभोकैट	उकील, अधिवक्ता	उकिल	ओकील	वकीलु	वक्कील, वळक्कुरैञर्	वंक्कील्	वकील
ब्रिक्रेता	बिक्रेता	बिकाँता, बेचाँता	अयोन्बा मी	बिक्रेता	विक्रयदारुडु	विर्पनैयाळर्	विक्रेतावुँ, विल्पनक्कारन्	मारुवव
वेश्या	बेश्या (श्शा), बारबणिता, पतिता	बेश्या, गनिका, देहोवजीवनी	बेशा, ओकतबी	बेश्या	वेश्यॅ	विलैमादु, वेशि	वेश्य	सूळे, वेश्ये

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
वैद्य	वैद्यः	वैद	हकीम, तबीब	हॅकीम, वैद	वैद्यु, वेज़ु	वैद्य	वैद्य, वैद	वैज
व्यापारी (सौदागर)	वणिक्	वपारी	ताजिर, सौदागर	सोदागर, बापॉर्य	वापारी	व्यापारी	व्यापारी, वेपारी	व्यापारी
सर्राफ	सुवर्णाजीवी	सराफ़	सर्राफ़	सराफ, सोंनुर	सर्राफ़ु	सोन्या चांदीचा व्यापारी, सराफ	शराफ (नाणावटी, सोना चांदी नो वेपारी)	शेट, रिणाक दुडू दिवपी सावकार
साईस (सईस)	अश्वपालः	सईस	साईस	सॉयीस	सईसु	साईस, मोतद्दार	रावत, साइस	घोड्या पालक
साहूकार	वार्धुषिकः	शाहूकार	साहूकार	सूदुर	शाहूकारु	सावकार	शाहुकार	सावकार
सुनार	स्वर्णकारः	सुनिआरा	सुनार, ज़रगर	स्वनुर	सोनारो	स्वर्णकार, सोनार	सोनी	सोनार, शेट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वैद्य, कविराज	कबिराज, वैद्‌य	बैद्‌य, बेज, चिकित्सक	माइबा	बैद्‌य, चिकिस्सक, कबिराज	वैद्‌युडु	मरुत्तुवर्	वैद्‌यन्	वैद्‌य
व्यापारी, बेपारी	ब्यबसादार, ब्यबसायी	सदागर, बेपारी, व्यवसायी	ललोनबा मी	बेपारी, ब्यबसायी	व्यापारि, वर्तकुडु	वणिगर्	व्यापारि	व्यापारि
सुनार, सराफ	स्वर्णकार, स्वर्ण (स) (र्न) ब्यबसायी	गहना-व्यवसायी सोनारी	सना लुपा ललोनबा मी	सुना-रूपा-बेपारी (ब्यबसायी)	नगलॅ व्यापारि	नगैवियापारी	स्वर्ण-व्यापारि	चिन्नद व्यापारि
सइस	सइस, सहिस	घोंरा चहिच	शगोल शेन्नबा मी	सईस, घोड़ा-रखुआल	रउतु, गुर्रमुवाडु	कुदिरैक्कारन्	कुतिरक्कारन्	कुदुरेय आळु
साहुकार	साहुकार, महाजन, साउकार	महाजन दोकानी	महाजोन अचौबा	साहुकार, महाजन	षाहुकारु	सौकार्	उण्डियल् व्यापारि	साहुकार
सुनार, स्वर्णकार	सेँकरा, स्वर्णकार (स) (र्न)	सोणारी, स्वर्ण-वेपारी	सना शाबा	सुनारी, स्वर्णकार, बणिआ	कंसलि	पा॑र्का॑ल्लर्/ तट्टान्	स्वर्णप्पणिक्कारन्, तट्टान्	अक्कसालिग, पत्तार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हलवाई	कान्दविक:	हलवाई	हल्वाई	हलवोय	हलवाई	हलवाई	कंदोई, हलवाईं	मिठायवालो
शरीरांग	**शरीराङ्गानि**	**शरीर अंग**	**आज़ा**	**बदनुॅक्य अंग**	**बदन जा उज़्वा (शरीर जा अंग)**	**अवयव**	**शरीरनां अंगो**	**कुड-अवयव, शरीर अवयव**
मनुष्य के	**मानवीयानि**	**मनुखी**	**इन्सानी**	**इन्सानुॅ सुॅन्द्य**	**इन्सानी**	**मानवी**	**मानवी**	**मनशाचे (अवयव)**
अँगूठा	अङ्गुष्ठ:	अंगूठा	अंगूठा	न्यॅठ	आङूठो	अंगठा	अंगूठो	आंगठो
अंजलि	अञ्जलि:	बुक्क	अंजली	द्वछ़	बुकु, अंजली	ओंजळ	खोबो अंजलि	ओंजळ, आर्गा
अँतड़ी (आँत)	अन्त्रम्	आंदर	आंत	अँदरम	ऑडो, आंत	आंतडे	आंतरडुं	आतकडें

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हलुवाई	हालुइकर, मयरा	हालै, मिठै-बनाउँता	अथूम अहाओ शाबा अमदि योनबा मी	गुड़िआ, मिठाई निर्माताओ विक्रेता	मिठाइवाडु	मिट्टाय् कडैक्कारन्	पलहार-मुण्डाक्कुन्नवन्	मिठायि अंगडियव
शरीर का अंगहरू	**शरीरेर अङ्ग, अङ्ग-प्रत्यङ्ग**	**देहर वा शरीरर अंग-प्रत्यंग**	**हकचाङगी कायात्**	**शरीरांग, देहांग**	**शरीरावयवमुलु**	**उडलुरुप्पुगळ्**	**शरीरावय-वङ्ङळ्**	**शरीरद अंगांगगळु**
मनुष्यका	**मानुषेर**	**मानविक, मानुहर**	**मीगी, मीओइबगी**	**मणिषर, मानविक**	**मनिषिवि**	**मनिदरिन्**	**मनुष्यरुटे**	**मनुष्यन**
अँगुठो, बूढी औंलो	बुड़ो आङ्गुल, बुड़ा आङ्गुल	बुढ़ा आङुलि	खूबी	आंगुठि, आंगुलि	बॉटनॅ व्रेलु	कट्टै विरल्	तळ्ळविरल्	हेब्बेरळु
अँजुली	अञ्जलि	अंजलि	खुजोक	अंजलि	अंजलि, दोसिलि	कुवित्त कै	अंजलि/ कैक्कुंपिळ्	बोगसे
आँत, आंद्रो	नाड़ीमुँड़ि, आँतड़ि, आँत	आँत, पेटर-नाड़ी	थिबोङ-थिरिन	अंत (नाड़ी)	प्रेगु	कुडल्	कुटल्	करुळु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अस्थि-पंजर	अस्थिपञ्जरम्	करंग	ढांचा	क्रंज़	हड्डाओं पिञिरो	हाडकुला अस्थिरपंजर	हाडपिंजर	हाडकुळो, अस्थिरपंजर
आँख	अक्षि, चक्षु:	अक्ख	आंख	ॲछ	अखि	नेत्र, डोळा	आंख	दोळो
आमाशय	आमाशय:	मिह्दा	मेदा	म्यादुॅ	गुजी	जठर	जठर	आमाशय, जठर
उँगली (अंगुलि)	अङ्गुलि:	उंगल, उंगली	उंगली	ओंगुॅज	आङ्गुरि	बोट	आंगळी	बॉट
एड़ी	पार्ष्णि	अड्डी	एड़ी	खूर	खुड़ी	टांच	एडी	खोंट, पायाचो खूर
ओंठ (होंठ, ओष्ठ)	ओष्ठ:	बुल्ह	होंठ, लब	वुठ	चपु, लबु	ओठ	होठ, ओष्ठ	ओठ
कंठ	कण्ठ:	गला	गला	होॅट	गलो,कंठु	गळा	कंठ, गळुं	कंठ ताळो
कंधा	स्कन्ध:	मोढा,मोह्डा	कंधा, शाना	फ्योॅक	कुल्हो, कंधु	खांदा	खंभो	खांद, खबो
कमर	कटि:	लक्क, कमर	कमर	कम्बर	चेल्हि, कमर	कंबर	कमर (केड)	कमर
कलाई	मणिबन्ध:	गुट, वीणी, बांह	कलाई	होॅच़	कराई	मनगट	हाथनुं कांडुं	मनगट

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अस्थिपञ्जर, कङ्काल	अस्थि-पञ्जर, पाँजर, कंकाल	जँका, कंकाल, हाड़-छाल	शरू पोलाङ	अस्थिपंजर, पंजराहाड़	अस्थिपंजरमु	एंलुंबुक्कूडु	अस्थि-पंजरम्	अस्थिपंजर
आँखा	चोख, आँखि, नयन	चकु	मित्	आखि, चक्षु	कन्नु	कण्	कण्णुँ	कण्णु
आमाशय	अमाशय	पित्ताशय	चाकखाओ	अमाशय	जीर्णाशयमु	इरैप्पै	आमाशयम्	जठर
औँली	आङ्गुल	आङ्लि	खूदोंबी	आंगुली, आंगुठि	व्रेलु	विरल्	विरल्	बेरळु
कुर्कुच्चा	गोड़ालि	गोरोहा	खूनिङ्	गोइठी	मडिमॅ	कुदिकाल्	उप्पूट्टि	हिम्मडि
ओँठ	ठोँट, ओष्ठ	ओँठ	चिंबाल	ओठ	पॅदवि	उदडु	चुंडुँ	तुटि
घाँटी, गला	कंठ, गला	डिडि.	खौरी	कंठ, गला	कंठमु, गांतु	कळुत्तु	कंठम्, कळुत्तुँ	कत्तु, कण्ठ, कुत्तिगे
काँधा	काँध, स्कंध	कांध	लेङबान, लेङ्जूम	कांध	भुजमु	तोळ्	तोळ्	हेगलु
कम्मर	कोमर	कँकाल	ख्वाङ्	अण्टा (अंटा), कमर, कटि	नडुमु	इडुप्पु	अर	सोण्ट
नारी, हल्केलाको फेद	कबजि, कबजी, मणिबंध	हातर ठारि बा गाँठि	खुदाङ्	मणिबंध, कचटि	मणिकट्टु	मणिक्कट्टु	कैत्तण्डुँ	मणिकट्टु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कान	कर्णः	कन्न	कान	कन	कनु	कान	कान	कान
कोहनी	कफोणिः	अरक, कूहणी	कोहनी	खोंनुवठ	ठूंठि	कोपर	कोणी	कोपर
खोपड़ी	शिरः	खोपड़ी	खोपड़ी	कलुँ खोपुँर	खोपिरी	कवटी, डोक	खोपरी	खोपडी
गर्दन	ग्रीवा	धौंण, गिच्ची	गर्दन	गरदन	कंधु, गर्दनु	मान	गरदन, डोकी, गळची, बोची	मान
गर्भाशय	गर्भाशयः	कुक्ख	रहम (बच्चेदानी)	शुर्यबानुं, बचिदॉन्य	बचेदानी, कुखि	गर्भाशय	गर्भाशय	गर्भाशय
गला	कण्ठः, गलः	गला	गला	हॉट	गलो, गिची	गळा, कंठ	गळुं	गळे
गाल	कपोलः	गॅल्ल्ह	गाल	गॅल्य	गिलु, गिटो	गाल	गाल	गाल
गुर्दा	वृक्कः, वृक्का	गुरदा	गुर्दा	बॅकुॅवॅट	गुर्दो, बुकी	किडनी, मूत्रपिण्ड	गुरदो, मूत्रपिंड, किडनी	मूत्रपिंड
ग्रंथि	ग्रन्थिः	जोड़	मफ़सिल	गंड, टुज	गंढि	ग्रंथि	ग्रंथि (गांठ)	ग्रंथि
घुटना	जानुः	गोडा	घुटना	कोंठ	गोडो, घुटनो	गुडघा	घूंटण (ढींचण)	धॉपर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कान	कान, कर्ण	काण, कर्ण	ना, नाकोङ्	कान	चॅवि	कादु	चॅवि, कातुॅ	किवि
कुइनु, कुहिनु	कनुइ (कुॅ)	किलाकुटि	खुनिङ्	कहुणी	मोचेयि	मुळ्ंकै	कैमुट्टुॅ	मोळकै
खप्पर	खुलि, खुली	मूरर खोला	कोक्	खपुरी	पुर्र	मंडै ओडु	तलओटुॅ	तलेबुरुडे
घाँटी, गर्दन	घाड़, गर्दान	डिङि, गलधन	ङक	बेक	मॅडँ	कळुत्तु	कळूत्तुॅ	कत्तु, कुत्तिगे
गर्भाशय, बच्चादानी	गर्भाशय, कोक	गर्भाशय	अङाङ्खाओ	गर्भाशय	गर्भाशयमु	करुप्पै	गर्भपात्रम्	गर्भाशय
गला, घाँटी	गला, गण्ड	गला, डिङि	खौनाओ, खनाओ	गला	गांतु	तॉण्डै	कंठम्	गंटलु
गाला	गाल	गाल	खजाय, खजाइ	गाल, गण्ड	चॅक्किलि	कन्नम्	कविळ्	केन्ने
मिर्गौलो	बृक्क, किड्नि	मूत्राशय बृक्क	किदनी	किडनी, मूत्राशय, बृक्क	मूत्रपिंडमु	सिरुनीरगम्	वृक्क	मूत्रपिण्ड
ग्रंथि, गाँठो	ग्रंथि, गाँट, जोड़	गाँठि, जोरा	किशि	ग्रंथि	ग्रंथि	सुरप्पि	ग्रंथि	गण्टु, ग्रंथि
घुँडा	हाँटु	आँठु	खुकउ, खुउ	आंठु, जानु-गंठी	मोकालु	मुळ्ंकाल्	काल् मुट्टुॅ	मोळकालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चमड़ा	चर्म	चमड़ा	चमड़ा (खाल)	मुॅसलुॅ	चमड़ी	चामडे, कातडे	चामड़ी	कात
चेहरा	मुखम्	चिह्रा	चेहरा	बुथ	चेहरो, मुंहुं	चेहरा	चहेरो	चेहरो
चोटी	शिखा, वेणी	बोदी	चोटी	छ़ोग, लठुर	चोटी	शेंडी, वेणी	चोटली (चोटलो)	वेणी
छाती	उर:	छाती	छाती (सीना)	वछ, सीनुॅ	छाती	छाती, वक्षस्थल	छाती	छाती
जटा	जटा	जटा	जटा	जटुॅ	जटा	जटा	जटा	जटा
जबड़ा	जम्भः	जबाड़ा	जबड़ा	ज़स्मु, दंदुॅ वोॅट	ॼाड़ी, जबड़ो	जबडा	जडबुं	जबडो
जाँघ (जंघा)	जङ्घा	पट्ट	ज़ानू	लंग, रान	ॼंघ, रान	मांडी, जांघ	साथळ जंघ, जांघ, जंघा	मांडी
जीभ	जिह्वा	जीभ, ज़बान	जुबान (ज़बान)	ज़्यव	ॼिभ, ज़बान	जीभ	जीभ	जीब
टाँग	टङ्गा	टंग, लत्त	टांग	ज़ंग	टंग	पाय, टांग	टांग, पग, टांटियो	पांय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छाला	चामड़ा	छाल	उन्सा, मऊन	चमडा, चर्म	चर्ममु	तोल	तॉलि	चर्म
अनुहार, मुखमण्डल	चेहारा, मुखमण्डल	मुखमंडल, गढ़ चेहेरा, मुखाकृति	माय, माइथोङ्	चेहेरा, मुखमंडल	मुखमु	मुहम्	मुखम्	मुख
टुप्पी; वेणी	बिनुनि, वेणी, (नि), टिकि	टिकनि वेणी	बेनी शिखा	बेणी	पिलकॅ	सिकै/ कुडुमि	तलमुटि, कुटुम	जडे
छाती, वक्ष	छाति, बुक, बक्ष	बुकु	थबाक्	छाति, बक्ष	रॉम्मु	मार्बु	नॅञ्चुॅ	एदे
जटा	जटा	जॅटा	जोता	जटा	जटॅ	जडै	जट	जटा, जडे
बङ्गारो	चोयाल (आ)	दाँतर हनु	चाइरुङ्	चिबुकर हाड, हनु हाड़	दवडॅ	ताडै	ताटि, ताटियॅल्लुॅ	दवडे
जङ्घा, उरु	ऊरु, उरुत, जां, जंघा	करङ्न, उरु	फैबोम, फैगल	जंघ, उरु	तॉडॅ	तॉडै	तुट	तोडे
जिब्रो	जिभ, जिब	जिभा	लै	जिभ	नालुकॅ	नाक्कु	नाक्कुॅ	नालिगे
गोडा, खुट्टा	पा, पद, चरण	भरि, ठेङ्	खोङ्	गोड़	कालु	काल्	काल्	कालु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ठोडी (ठुड्डी)	हनुः, हनू	ठोडी	ठोड़ी (ठुड्डी)	होंगन्य	खाड़ी	हनुवटी	हडपची (दाठी)	खाडकी
तर्जनी	तर्जनी	अंगूठे लागली उंगल/उंगली	अंगुश्ते-शहादत	न्यौंठस सूँत्य-ओंगुँज	डुसिणी	तर्जनी	तर्जनी	तर्जनी
तलवा	पादतलम्	तली, तला	तलवा	तलपोंद	तिरी (पेर जी)	पायाचा तळवा	तळियुं	तळवो
तालु	तालुः	तालू	तालू	ताल	तारूं	टाळू	ताळवुं	ताळें
दाँत	दन्तः	दंद	दांत	दंद	डुंदु	दांत	दांत	दांत
दाढ़	द्रंष्ट्रा	दाढ़	दाढ़	अरम	डाठ	दाढ	दाढ	दाडी
दाढ़ी	श्मश्रुः	दाढ़ी	दाढ़ी	दॉर	डाढ़ी	दाढी	दाढ़ी	खाड
दिमाग	मस्तिष्कम्	दिमाग	दिमाग़	द्यमाग	दिमाग़ु, मगजु, मस्तिष्कु	मेंदु, मस्तिष्क	मगज	गेंदू अक्कल
धड़	धरः	धड़	धड़	त्रख	धड़ु	धड	धड़	धड

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
च्यापु	चिबुक, दाड़ि	थुतरि	खदाङ्	चिवुक, दाढि	गड्डमु	मुगवाय् कट्टै	चिबुकम्, ताटि	गल्ल
तर्जनी, चोर औँलो	तर्जनी	तर्जनी	खुदयाइ	प्रसाधन	चूपुडुव्रेलु	आळ्काट्टि विरल्	चूण्टु विरल्	तोरु बेरळु
पैतालो	तेलो	तलुवा	खोङ्या	तलपाद, तलिपा, पादतल	अरिकालु	उळ्ळंकाल्	उळ्ळंकाल्	अंगालु
तालु	टाकरा, तालु	तालु	ङौ	तालु	तालुवु	मेल् वाय्	तालु	अंगुळु, तालु
दाँत	दांत, दंत	दाँत	यापङ्	दांत	पन्नु	पल्	दंतम्, पल्लुॅ	हल्लु
बङ्गारा	कष, कस	गुरि दाँत	दाढ़ी	माढ़ि	दवड पन्नु	कडैवाय्पल्	अणप्पल्लुॅ	दवडे हल्लु
दाह्री	दाड़ि	दाढ़ि	खदाङ्. कोइ	दाढि	गड्डमु	दाडि	ताटि	गड्ड
गिदी, कोक मगज	देमाक, दिमाग, माथा, बुद्धि	मगज, मस्तिष्क, मगजू	माथा, थोप, कोक	मस्तिष्क, दिमाक, मथा, मुंड	मेंदडु	मूळै	तलच्चोरॅ	मेदुळु
टाउको, शरीर, धड़	धड़, शरीर	शरीर, गा	खोङ्, खूत, कोक नत्तबा हकचाङ्गी	छाति-पेट-पिठि थिवा शरीरर स्थूल भाग (गंडी)	मॉंडॅमु	मुंडम्	शरीरमु, उटल्	मुंड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नस	नाडी	नस	नस, रग	रग	नस	नाडी, शीर	नस, रग	शीर
नाक	नासिका	नक्क	नाक	नस	नकु	नाक	नाक	नाक
नाखून	नख:	नहुँ, नंहुदर	नाख़ुन	नम	नंहुं	नख	नख	नाखूट, नाकूट
नाड़ी	नाडी	नाड़	नब्ज़, रग	नबुंज़	नाड़ी	नाड़ी, धमनी	नाडी	नाडी
नाभि	नाभि:	घुंन्नी	नाफ़	तून, नाफ	दुनु	बोंबी	नाभि (दूंटी), डूंटी	बोंबली
नेत्र (आँख)	नेत्रम्	नेतर (अक्ख)	आंख	अँछ, न्यॅथुॅर	अखि, नेत्रु	डोळे	नेत्र (आंख)	दोळो
पलक	नेत्रच्छद:	पलक	पलक	टॉर्य	पलक	पापणी	पोंपचुं	पातकड्यो
पसली	पर्शुली	पसली	पसली	वछिकॉन्य	पासिरी	बरगडी	पांसळी	पासळी
पाँव	पाद:	पैर	पांव	खोॅर, पाद	पेरु	पाय	पग	पांय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नसा, धमनी	शिरा, धमनी	सिर	शिङ्ली	शिरा, रक्तवाहिनी नाली	नरमु	नरंबु	ञरंपुँ	नर
नाक	नाक	नाक	नातोन	नाक, नासा, नासिका	मुक्कु	मूक्कु	नासिक, मूक्कुँ	मूगु
नङ	नख	नख	खुजिन	नख	गोरु	नगम्	नखम्	उगुरु
नाडी, नसा	नाड़ि	धमनी, नाड़ी	शिङ्ली- नाओरी	नाड़ी	नाडि	नाडि	नाडि	नाडि
नाइटो	नाइ-कुण्ड, नाभि	नाइ, नाभि	खोइदौ	नाभि	बॉड्डु, नाभि	तॉप्पुळ्	नाभि, पॉक्किळ्	होक्कळु
नेत्र, आँखा	चोख, नेत्र, नयन	नेत्र चकु	मित्	आखि, चख्यु, नेत्र	कन्नु	कण	नेत्रम्, कण्णुँ	कण्णु
पलक	चोखेर पाता, पलक	चुकुरपता	मिथुप	पलक	कंटिरॅप्प	कण्इमै	कण्णिम	रेप्पे
करङ	पाँजर, पंजर	बुकुर-हाड़ पाँजर	थबाक्की शरुक, शरु हुमदाङ्	पंजरा	पक्क ऍमुक	विला ऍलुंबु	वारियॅल्लुँ	पक्के मूळे
खुट्टा	चरण (न), पॉ, पद	भरि, ठेङ	खोङ्	पाद	कालु, पादमु	पादम्	पादम्, काल्	पाद

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पीठ	पृष्ठः	पिट्ठ	पीठ	थर	पुठी	पाठ	पीठ, पूंठ	फाट
पेट	उदरम्	ढिड्ड, पेट	पेट, शिकम	यड़	पेटु	पोट	पेट	पोट
पैर	पादः	पैर	पैर	खोॅर, पाद	पेरु	पाय	पग	पांय
फेफड़ा	पुफ्फुस	फेफड़ा	फेफड़ा	शूश, शुशिनोर	फिफिड़ु	फुफ्फुस	फेफसुं	फुफफुस
बरौनी	पक्ष्म	झिम्मणी	पलक	अॅछिरवाल	पिंबिणी	डोळयाच्या पांपण्याचे कैस	पांपण	भोंक्यो
बाँह	भुजः, भुजा	बांह	बाँह	नॅर	ब॒ांहं	हात, बाहु	बांय (हाथ)	हात
बाल	केशः	वाल	बाल	मस वाल	वारु	केस	वाळ, बाल	केंस
भौंह	भ्रूः	भॅरबट्टा	भौंह, अबरू	बुम, बुंब	भिरूं	भुंवई	भ्रमर	भोंवयो
मसूड़ा	दन्तमूलम्	बुट्ट,फद्द, मसूड़ा	मसूढ़ा	माज़बेर	महार, मसूड़ो	हिरडी	पेढुं,	दांता भोंवतणचे मांस, पांक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पिठिउँ, ढाड	पिठ, पृष्ठ	पिठि	नङ्गल	पीठि, पृष्ठ	वीपु	मुदुगु	पृष्ठमु, मुतुकुँ	बेन्नु
पेट, भुँडी	पेट, उदर	पेट	पुक	पेट	पॉट्ट, कडुपु	वयिरु	उदरम्, वयरुँ	होट्टे
खुट्टा, गोडा	पा, पद	भरि	खोङ्	पाद	कालु	कालु	काल्	काल्, कालु
फोक्सो	फुसफुस	हाँओ-फाँओ	थबोंबी	फुसफुस	ऊपिरि तित्ति	नुरै ईरल्	श्वास कोशम्	श्वास-कोश, फुफ्फुस
आँखीभौँ	अक्षि (क्षि),भुरु	भ्रू, भुरू	पा	आखिपता प्रांतरे थिबा बाल, भुरू	कनुर्रप्प अंचु पैन डंडे वंट्रुकलु	कण् इमै	कण्पीलि	कण्णेवेय कूद्लु
हात	हात, बाहु	बाहु	पाँबोम	बाहु, हात	बाहुवु	बुजम्	भुजम्	तोळु
कपाल, केश, बाल	चुल, कैश	चुलि	शम	बाल, केश	वंटुकॅ	मयिर्/रोमम्/ मुड़ि	केशम्, तलमुटि	कूदलु
आँखीभौँ	भुरु	चेलाउरि	पिशुम	भ्रूलता	भृकुटि, कनुबॉम	पुरुवम्	भ्रुकुटि, पुरिकम्	हुब्बु
गिजा	माड़ी, माड़ि (दाँतेर)	दाँतर आलु, दाँतर हाँड़	यारी	दांत-माढ़ी	चिगुरु	ईरु	मोण, तॉण्णुँ	वसडु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मस्तिष्क	मस्तिष्कम्	मत्था, मसतक	दिमाग (मग़ज़)	द्यमाग़	मस्तिष्कु, दिमागु	मेंदु	माथुं, मस्तक	मेंदू
मांस	माँसम्	मास	गोश्त	माज़	मासु	मांस	मांस	मांस
माथा	भाल:, मस्तकम्	मत्था	माथा (पेशानी)	ड्यकुॅ	मथो	कपाळ	माथुं	माथो
मुँह	मुखम्	मूँह	मुँह	ऑस, मोंख	मुंहुं	तोंड, मुख	मों, मोढुं, मुख	तोंड
मुट्ठी	मुष्टि:	मुट्ठी	मुट्ठी	मोंठ	मुठि	मूठ	मूठ, मूठी, मुठ्ठी	मूट
मूँछ	श्मश्रु:	मुच्छ	मूँछ	गोंछ़	मुछ	मिशी	मूछ	मिशी
यकृत	यकृतम्	जिगर	जिगर	जिगर	जेरो, जिगर	यकृत, जिगर	यकृत (लीवर काळजुं)	फिग्द
योनि	योनि:	योनी	फ़ुर्ज	गूद, यूनी	चुड़ु, योनी	जननेंद्रिय, योनी	योनि, योनी	योनी
रीढ़	मेरुदण्ड:	रीढ़	रीढ़	र्‍यकुॅ ऑडिज	पुठीअ जो कंडो, रीढ़	पाठीचा कणा	करोड, मेरुदंड	कणो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मस्तिष्क्, गिदी	मस्तिष्क, माथा	मस्तिष्क, मगजू, मेधा	माथा, कोक	मस्तिष्क	मेंदडु	मूळै, मंडै	मस्तिष्कं, तळच्चोरूॅ	मेदुळु
मासु	मांस	मङह, मांस	शदोङ्	मांस	मांसमु	मामिसम्, पुलाल	मांसम्	मांस
निधार	माथा, मस्तक, शिर	मूर, शिर	थीप, माथा	मथा	नुदुरु	नेट्टि	मस्तकम्, नेंट्टि	हणे
मुख	मुख	मुख	चीन	मुंह	मुखमु, नोरु	वाय्	मुखम्, वाय्	मुख
मुठी	मुठा, मुठि, मुठो	मुठि	खुतुम	मुष्ठि, मुठि, मुठा	पिडिकिलि	मुष्टि (मूडिय कै)	मुष्टि	मुष्टि, मुष्ठि
जुँगा	गौँफ	गोंफ	नातोन शुमाङ् कोय	मूछ, निश	मीसमु	मीशै	मीश	मीसे
कलेजो	यकृत (ज), पित्तथलि	यकृत	चाक्खाओ	जकृत	लिवरु	कल्लीरल्	यकृत्तुॅ, लिवर्	यकृत्तु पित्तकोश
योनि	योनि (जो), स्त्री-जननेंद्रिय	योनि	अथिभम	जोनि	योनि	योनि/ पेण्कुरि	योनि	योनि
मेरुदण्ड	शिरदाड़ा, मेरुदण्ड	राज-हाँड़	याङ्लेन	मेरुदंड	वेंन्नमुकॅ	मुदुगॅलुंबु	नट्टॅल्लुॅ	बेन्नुमूळे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शरीर	शरीरम्	सरीर	जिस्म	पान, बदन, दिह	सरीरु	अंग, शरीर	शरीर, तन, देह	कुड, आंग
सिर	शिरस्	सिर	सर (सिर)	कलुँ	सिरु	डोके, शिर	सिर, शिर (माथुं)	तकली
हँसली	जत्रुः ग्रीवास्थि	हस्स, हसली	हँसली	ॲह्य रॅड़	हंसली, हासली	हांसळीचे हाड	हांसडी	हांसळीचे हाड
हड्डी	अस्थिम्	हड्डी	हड्डी	ॲडिज	हड्डी	हाड	हाड, हाडकुं	हाड
हथेली	हस्ततलम्	तली, हथेली	हथेली	मंज़ अथुँ	तिरी (हथ जी)	तळहात	हथेली, हथेळी	तळटी
हाथ	हस्तः	हत्थ	हाथ (दस्त)	अथुँ	हथु	हात	हाथ	हात
हृदय	हृदयः	दिल, हिरदा	दिल (क़ल्ब)	वॉलिंज, दिल	हिर्दो, दिल	हृदय	हृदय	हृदय, काळीज
जानवरों के	पशूनाम्	जानवरां दे	हैवानी	जानवरन हुंद्य	हैवानी	जनावरांचे	पशुओनां	जनावरांची

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शरीर	शरीर, देह	शरीर, देह	हक्चाङ्	शरीर	शरीरमु	उडल्	शरीरं	शरीर
टाउको, सिर	माथा, मस्तक	शिर, मूर	कोक	शिर, मथा, मुंड	तल	तलै/ सिरसु	शिरस्सुॅ, तल	तले
घाँटीमुनिर छाती माथिको हँसुली जस्तो हाड	कण्ठा	कण्ठर हाड़	ङक की मखा थबाक्की मथकता लैबा अकोनब शरु	बेक तल हाड, छाति उपरर धनु आकारर हाड	मेंड दग्गरि ऐमुके	कारै एलुंबु	अक्षकास्थि	कुत्तिगेय मूळे
हाड, अस्थि	हाड़, हाड्डि	हाँड़	शरू	हाड	एमुके	एलुंबु	अस्थि, एॅल्लुॅ	ऐलुबु, मूळे
हत्केला	चेटो (हातैर)	हातर-तलुवा	खुबाक	करतल, पापुलि	अरिचेयि	उळ्ळंकै	एळ्ळंकै	अंगै
हात	हात	हात	खुत्	हात	चॅय्यि, चेयि	कै	कै	कै
मुटु, हृदय	हृदय (री)	हिया, हृदय	थमोय थमोय	हृदय	हृदयमु	इरुंदयम्, इदयम्	हृदयम्	हृदय
जनावर-हरूका	**जंतुर**	**पहुर, जंतुर**	**शाशिङ्गी**	**पशुंकर, जंतुमानकंर**	**पशुवुलुवि**	**मिरुगंगळिन्**	**मृगङ्ङळुटॆ**	**पशुगळु**

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
खाल	चर्मम्	खल्ल	खाल	बस्तुँ, मुँसलुँ	खल	कातडें	चामडुं	कात
खुर	क्षुरः, शफः	खुर	खुर (सुम)	पड़ुर	खुरु	खुर	खरी	खुर, खोंट
चमड़ा	चर्मम्	चमड़ा	चमड़ा	दालुँ, चमरुँ	चमड़ो	चामडे	चामडुं	चामडे
चोंच	चञ्चुः	चुंझ	चोंच	तोंथ	चुहिंब	चोंच	चांच	चोंच
थन	स्तनम्	थण	थन	थन	थणु	थान, आचूळ, कास	थान	थान
पंख (पाँख)	पक्षः	खंभ	पँख, पर	पख	खंभु	पंख	पांख	पाख
पंजर	पञ्जरः	पिंजर	पंजर	पंजर	पिञिरो	पंजर	पिंजर (पांजरुं)	सापळो, पांजरो
पंजा	पञ्चकः	पंजा	पंजा	पंजि	चंबो	पंजा	पंजो	पंजो
पर	पक्षः	पर	पर, पँख	तीर	परु	पंख	पांख	पाख
पूँछ (दुम)	पुच्छम्	दुम, पुच्छ	दुम	लॅट, लोंट	पुछु	शेपूट	पूंछडी (पूंछडुं)	शेपडी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छाला	छाल, त्वक	छाल	मउन, शउन	चमडा, त्वचा	तोलु	तोल्	तॉलि	तोगलु
खुर	खुर	खुरा	शागी खोङ्जिन	खुरा	गिट्ट	कुळंबु	कुळंपुॅ	गॉरसु
छाला	चामड़ा	छाल	मउन, उनशा	चमडा	चर्ममु	तोल्	तोल् (तुकल्)	चर्म
ठुँडो, ठुड	चञ्चु, ठोंठ	ठोंट	उचेककी मचीन	थण्ट, चंचु	मुक्कु, नोरु	अलगु	कोक्कुॅ	कोक्कु
थुन, फाँचो	बाँट, स्तन	ओहार, माइकी, पहुर, स्तन	खोम खोम	स्तन	पॉदुगु	मडि	मुल	मोले
प्वाँख	पाखा	पाखि, डेउका	मशा	डेणा	ईकॅ, रॅक्कॅ	शिरगु	तूवल्	गरि
पञ्जर, कङ्काल	पञ्जर, खाँचा (बुकैर)	जँका	पोल, बोल शारङ्	पंजर	पंजरमु	ऍलुंबुक्कूटुॅ	पक्षिक्कूटुॅ	पंजर
पञ्जा	थाबा	पाँजा, हाँतोरा	खुबाम	पंजा, पंझा	पंजा	वळैंद नगम्	कैप्पिटि, कैप्पत्ति	बेरळु हिडित
पखेटा	डाना, पाखा	पाखि, डेउका	उचेक मतु, मशा	पर	रॅक्कॅ	इऱगु	चिऱकुॅ	रेक्के
पुच्छर	लेज, पुच्छी	नेज, नेगुर	ममै	लांगुल, पुछ	तोकॅ	वाल्	वाल्	बाल

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
फन	फणा	फण	फन	सरफुँ कलुँ, फन	फणु	फणा	फेण	फण
रोआँ	रोमन्, लोमन्	लूँ, रोआ	रोआँ	रुमॅ, वाल, जथ	वारु	रोम	रूंवाडुं (रूवांटुं, रुंवुं),	ल्हंव
सींग	शृङ्गम्	सिंग	सींग	ह्यंग	सिङु	शिंग	शींग (शींगडी, शींगडुं, शिंगडी, शिंगडुं)	शींग
सूँड	शुण्डः, हस्तः	सुंड	सूंड	कर	सूंढि	सोंड	सूंढ	सोंड
हाथी दाँत	हस्तिदन्तः	हाथी दंद	हाथी दाँत	हॅस्य दंद	आजु, हाथी डंदु	हस्तीदंत	हाथीदांत	हस्तीदंत
शिक्षा	**विद्या**	**सिक्खिआ, शिकशा**	**तालीम**	**शॅख्या, तॉलीम**	**तालीम, शिक्षा, सिख्या**	**शिक्षण**	**शिक्षण**	**शिक्षण**
अंक	अङ्कः	अंक	हिंदसा	ग्रंद, अदद	अंकु, मार्क	आंकडा, अंक	अंक, आंकडो (गुण), मार्क	आंकडे, अंक
अकादमी	अकादमी	अकादमी	अकैड्मी	अकडॅमी	अकादमी	अकादमी	अकादमी	अकादमी
अध्यापक	अध्यापकः	अधिआपक	उस्ताद (मुदर्रिस)	वोॅस्ताद, ओखुन, माशटर	अध्यापकु, मास्तरु	शिक्षक, अध्यापक	अध्यापक (शिक्षक)	मास्तर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फण, फणा	फणा, फण (ना) (न)	फणा	मतोक	फणा	पडगॅ	पडम्	पत्ति (फणम्)	हड (हेडे)
भुवा, भुत्ला	लोम, रोम	नोम	तू	रूम, लोम	वंठ्रुक	उरोमम्	रोमम्	रोम
सिङ, सींग	शिंग	शिङ् शुङ	मची	शिंग	कॉम्मु	कॉबु	कॉंपुॅ	कोंबु, कोडु
सुँड	शुँड़	शुङ	शामुगी नातोल	शुंढ	तॉण्डमु	तुंबिक्कै/ तुदिक्कै	तुंपिक्कै	सॉंडिलु
हात्तीको दांत	हातीर दाँत	हाती- दाँत	शामु मया	हाती दांत	एनुगु दंतमु	दंदम्	आनक्कॉंपुॅ, दंतम्	हस्तिदंत
शिक्षा	**शिक्षा (क्खा)**	**शिक्षा**	**महै- मशिङ्**	**शिख्या, शिक्षा**	**विद्यॅ**	**कल्वि, पडिप्पु**	**विद्याभ्यासम्**	**विद्याभ्यास, शिक्षण**
अङ्क	अङ्क, अंक, संख्या	अंक	अङ्क, मशिङ्	अंक	मार्कु	मदिप्पॅण्	मार्क्	संख्यॅ, नंबरु, अंक, अंकि
एकेडेमी, प्रज्ञा- प्रतिष्ठान	अकादेमी, परिषद	विद्या- परिषद, एकाडेमि	अकादमी	एकाडेमी, परिषद	अकादमि	अकाडमि	अकादमि	अकार्डमि
अध्यापक	अध्यापक (द्धा)	शिक्षक, अध्यापक, पढ़ाओता	ओजा	अध्यापक	उपाध्यायुडु	आसिरियर्	अध्यापकन्	अध्यापक, गुरु, उपाध्याय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
आचार्य	आचार्यः	प्रोफ़ैसर	प्रोफ़ैसर	ग्वर, आचॉर्य, प्रोफेसर	आचार्यु	गुरु, आचार्य	आचार्य	आचार्य
आवासीय विश्व-विद्यालय	आवासीय-विश्व-विद्यालयः	आवासी विश्व-विदिआला	इक़ामती युनिवर्सिटी	रहॉयशी यूनिवरसिटी	रिहायशी यूनीवर्सिटी	वसतिगृहीय विश्वविद्यालय	निवासी विश्वविद्यालय	रावतिका विद्यापीठ
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर-माध्यमिक-विद्यालयः	उच्चतर माधमिक सकूल, विदिआला	सानवी स्कूल	हयर-सेकंडरी-सोंकूल	हायर सेकंडरी स्कूल	हायर सेकंडरी स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक शाळा (विद्यालय) (हायर सैंकडरी स्कूल)	ऊंचतर माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक स्कूल
उच्च विद्यालय	उच्च-विद्यालयः	उच्च विदिआला	हाई स्कूल	हय सोंकूल	हाइ स्कूल	उच्च-विद्यालय	उच्च विद्यालय (विनय मंदिर, हाईस्कूल)	उच्च विदयालय
उपाचार्य	उपाचार्यः	उप प्रोफ़ैसर	मददगार प्रोफैसर, रीडर	लोंकुट-ग्वर (उपाचॉर्य)	उप-आचार्यु, उपाचार्यु	सहायक आचार्य, उप-आचार्य	उपाचार्य	उपाचार्य
उपाधिपत्र	उपाधिपत्रम्	उपाधी-पत्तर	सनद (डिग्री)	सनद (सर्टिफिकेट)	डिग्री, उपाधी-पत्रु	पदवी पत्र, डिग्री	पदवीपत्र (प्रमाणपत्र, सर्टिफिकैट)	पदवीपत्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आचार्य	आचार्य (र्ज)	आचार्य	प्रोफेसर,	आचार्य, शिक्षक (आचार्ज्य)	आचार्युडु	पेरासिरियर्	आचार्यन्, प्रोफ़ेसर्	प्राध्यापक, प्रोफेसर्
आवासीय-विश्व-विद्यालय	आबासिक विश्व-विद्यालय (श्श) (द्दा)	आबासी-विश्व-बिद्यालय	रेसिडेनिसयल युनिवर्सिटी	अंतेबासीय विश्वविद्यालय	निवास विश्वविद्यालयमु	तंगि पयिलुम पलकलै कळ्गम्	रेसिडेनिषयल् सर्वकलाशाल	निवास विश्वविद्यालय
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	उच्चतर माध्यमिक इस्कुल, (द्या) (स्कुल) विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक बिद्यालय	हायर सेकंडरी	उच्च माध्यमिक स्कुल (विद्यालय)	उन्नत माध्यम्कि पाठशाले	मेल्निलैप् पळ्ळि	हयर सेकंडरि् स्कूळ्	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
उच्च विद्यालय	उच्च विद्यालय (द्दा)	उच्च-विद्यालय	हाई स्कूल	उच्च विद्यालय	उन्नत विद्यालयमु	उयर् निलैप् पळ्ळि	है स्कूळ्	उच्च विद्यालय
उपाचार्य	उपाचार्य (र्ज)	उपाचार्य	रीडर	सहकारी शिक्षक	उपाचार्युडु	उदवि पेरासिरियर्	असिस्टेंट प्रोफेसर	उप-प्राध्यापक, रीडर्
उपाधिपत्र	उपाधिपत्र, डिग्री	उपाधि-पत्र	उपाधिगी चे	उपाधिपत्र, प्रमाणपत्र	डिग्री	पट्टम्	डिग्रि	पदविपत्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कक्षा	कक्षा	जमात	जमाअत	जमाथ	क्लास, दर्जो	इयत्ता, श्रेणी, वर्ग	वर्ग, कक्षा, श्रेणी	वर्ग
कुलपति	कुलपतिः	कुलपती	वाईस-चांसलर (शैख़ुल जामिआ)	वयिस-चाँसलर	कुलपती, वाइस चान्सलर	कुलपती, व्हाइस चान्सलर	कुलपति	कुलगुरु
कुल-सचिव	कुलसचिवः	कुल-सकत्तर	रजिस्ट्रार (मुसज्जिल)	रजस्ट्रार	रजिस्ट्रार, कुलसचिव	रजिस्ट्रार, कुलसचिव	कुल-सचिव	कूलसचीव, विद्यापिठाचो कार्यदर्शी
कुलाधिपति	कुलाधिपतिः	कुल-अधिपती	चांसलर (अमीरुल जामिआ)	चाँसलर	चान्सलर, कुल-अधिपती	कुलगुरु, चान्सलर	कुलाधिपति	कुलाधिपति
कुलाध्यक्ष	कुलाध्यक्षः	कुल-मुखी	विज़ीटर	विज़िटर	कुल-अध्यक्ष	कुलाध्यक्ष	कुलाध्यक्ष	कुलाध्यक्ष
गुरु	गुरुः	गुरू, उसताद	मुर्शिद (उसताद)	ग्वर	गुरु	शिक्षक, गुरु	गुरु	गुरु

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कक्षा	कक्ष, (क्ख)	श्रेणी, बर्ग	क्लास	श्रेणी	क्लासु, तरगति	वगुप्पु	क्लास्	तरगति
कुलपति	कुलपति, उपाचार्जो (र्य)	कुलपति, विश्व- विद्यालयर उपाचार्य	वाईस- चान्सेलर, भाइस चान्सलर	कुलपति	कुलपति, वाइस चान्सलरु	तुणै वेंदर्	वाइस चान्सलर्	कुलपति
कुलसचिव	कुल-सचिव, प्रबंधक, रेजिष्ट्रार	कुल- सचिब, पंजीयक, कुल- निबंधक	रजिस्ट्रार, टाउन काउन्- सिल गी नत्रगा युनिवर्सिटीगी रेकोर्ट थंबा आफिसर	कुल-सचिव, रेजिष्ट्रार	रिजिस्ट्रारु	पदिवाळर्, रजिस्ट्रार्	रजिस्ट्रार्	कुलसचिव
कुलाधिपति	आचार्य (र्ज)	कुलाधिपति	चान्सेलर	कुलाधिपति	चान्सलरु	वेंदर	चान्सलर्	कुलाधिपति
कुलाध्यक्ष	परिदर्शक	कुलाध्यक्ष	विजीटर, मफम अमबु चतुना येङ्बा मी	कुलाध्यक्ष	विजिटरु	पलकलै कळग वेंदर्	विसिट्टर्	कुलाध्यक्ष
गुरु	गुरु	गुरू, शिक्षक	गुरू, ओजा	गुरु	गुरुवु	गुरु	गुरु	गुरु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
घंटा	कालः	घंटा	घंटा	गंटुँ, गंटा	पीरड	घंटा	कलाक	घंटा
छात्र	छात्रः	विदिआरथी, सिखिआरथी	तालिबे-इल्म	च़ाठ, शश तॉलबि-ॲलिम	शागिर्दु, विद्यार्थी	विद्यार्थी, छात्र	छात्र (विद्यार्थी)	विद्यार्थी
छात्रवृत्ति	छात्रवृत्तिः	वज़ीफ़ा	तालीमी वज़ीफ़ा	वॅज़ीफ़ु	स्कालरशिप, बज़ीफ़ो	शिष्यवृत्ती, स्कॉलरशिप	छात्रवृत्ति (शिष्यवृत्ति)	शिष्यवृत्ती
छात्रावास	छात्रालयः, छात्रावासः	होसटल	दारुल-इक़ामा, होस्टल	होस्टल	हास्टल, छात्रावास	वसतिगृह	छात्रालय, बोर्डिंग, होस्टेल	विद्यार्थी वसती घर
जुर्माना	अर्थदण्डः	जुरमाना	जुर्माना	जुरमानुँ	डंडु, जुर्मानो	दंड	दंड	दंड
दृश्य-श्रव्य साधन	दृश्य-श्रव्य-साधनम्	वेखण-सुणन साधन	समई-बसरी सामान	वुछन-बोजुन-सामानुँ	डिसण-बुधण जा साधन	दृश्य-श्रव्य-साधन	दृश्य-श्रव्य साधन	दृश्य-श्रव्य-साधन
निबंध	निबन्धः	निबंध	मज़मून	मज़मून	मज़्मूनु, निबंधु	निबंध	निबंध	निबंध
निरीक्षक	निरीक्षकः	निरीखिक	इन्सपेक्टर (नाज़िर)	इनसपेॅक्टर	इन्स्पेक्टर, निरीख्यकु	निरीक्षक	निरीक्षक, शाळानो, इन्स्पेक्टर	निरीक्षक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घण्टा	घण्टा (घंटा)	घंटा, घटी	पुङ्	घंटा	गंटॅ	मणि (नेरम्)	मणिक्कूर्	गंटे
छात्र	छात्र, विद्यार्थी	छात्र, बिद्यार्थी	महैरोय, छात्र	छात्र, बिद्यार्थी	विद्यार्थि	माणवन्	विद्यार्थि	शिष्य
छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति	छात्रबृत्ति	महैरोय दा पीबा पैसा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप	छात्रबृत्ति	विद्यार्थि वेतनमु	उपकार संबळम्	स्कोलर षिप्	विद्यार्थि वेतन
छात्रावास	छात्रावास, होसटेल	छात्राबास	महैरोय लैनबा युम, होस्टेल	छात्रावास	हास्टलु	माणवर् विडुदि	होस्टल्	हास्टेल्, विद्यार्थि निलय
जरिमाना	जरिमाना	जरिमाना, अथर्दण्ड	जोरि	जोरिमाना, अर्थदण्ड	जरिमाना	अपरादम्	पिऴ	जुल्माने, दण्ड
दृश्य-श्रव्य साधन	दृश्य-श्रव्य, उपकरण (श्श)	दृश्य-श्रव्य-सँजुलि	येङ्नबा-तानबा पांबै	दृश्य-श्रवण, दृश्य-श्राब्य	दृश्यॅ श्रव्यॅ साधनमु	ऑलि ऑळि सादनंगळ्	दृश्य-श्रव्य-उपकरणम्	दृश्य-श्रव्य साधन
निबंध	निबंध, प्रबंध (रचना)	निबंध-रचना	निबंध, वारेङ्	प्रबंध, रचना	व्यासमु	कट्टुरै	उपन्यासम्	लेख, प्रबंध
निरीक्षक	निरीक्षक (क्ख)	निरीक्षक	इन्स्पेक्टर, येङशिन्नबा मी	निरीख्यक, निराक्षक	पर्यवेक्षकुडु	मेर्पार्वैयाळर्	निरीक्षकन्	निरीक्षक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पत्राचार पाठ्यक्रम	पत्राचार-पाठ्यक्रमः	पत्तराचार पाठक्रम	मुरासिलाती निसाब	खतँकिताबतुक निसाब	ख़तो किताबत कोर्स	पत्रव्यवहाराने कैलेला पाठ्यक्रम वा शिक्षणक्रम	पत्रव्यवहार द्वारा थतो अभ्यास क्रम, कोरस्पोन्डन्स कोर्स	पत्राचार पाठ्यक्रम
पदक (मैडल)	पदकम्	तमगा	तमग़ा (मैडल)	तगमुँ (मेंडल)	ब॒लो, पदक, तमग़ो, मैडल	पदक, मेडल	पदक (मेडल, चंद्रक)	पदक
परीक्षक	परीक्षकः	परीखिअक	मुम्तहिन	इमतिहान ह्यनुँवोल	मुम्तहिन परीख्यकु	परीक्षक	परीक्षक	परिक्षक
परीक्षा	परीक्षा	परीखिआ	इम्तिहान	इमतिहान	इम्तिहानु, परीक्षा, परीख्या	परीक्षा	परीक्षा	परिक्षा
परीक्षाफल	परीक्षाफलम्	नतीजा	नतीजाए-इमतिहान	नॅतीजि	नतीजो	परीक्षेचा निकाल, रिझल्ट	परिणाम	परिक्षा परिणाम, परिक्षा फळ
परीक्षार्थी	परीक्षार्थी	परीखिआरथी	उम्मीदवारे-इमतिहान	इमतिहान दिर्नु-वोल, वोंमेदवार	शागिर्दु, इम्तिहानु डींद॒ड़ु	परीक्षार्थी	परीक्षार्थी	परिक्षार्थी
पाठ	पाठः	पाठ	सबक़ (दर्स)	सबक, पाठ	पाठु, सबकु	धाडा, पाठ	पाठ	पाठ
पाठशाला	पाठशाला	पाठशाला	मद्रसा	च़ाटुँहाल, मदरसुँ	पाठशाला, स्कूल	पाठशाळा	पाठशाळा (ला), निशाळ	इश्कोल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पत्राचार पाठ्यक्रम	पत्राचार शिक्षाक्रम (क्खा)	पत्राचार-पाठ्यक्रम	कोरस्पोन्डन्स कोर्स	पत्र-माध्यम पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम	उत्तरप्रत्युत्तर पाठ्यक्रममु	अञ्जल् वऴि पाडमुरै	करस्पोंडन्स् पाठ्य पद्यति	पत्राचार पाठ्यक्रम
पदक, मेडल	पदक, मेडेल	पदक	तकमान, मेडल	पदक (मेडाल)	पदकमु	पदक्कम्, मॆडल्	मॆडल्	पदक
परीक्षक, जाँचकर्ता	परीक्षक (क्ख)	परीक्षक	परीक्षा लौबा मी, इगज्यमिनर	परीख्यक	परीक्षकुडु	परीट्चगर्	परीक्षकन्	परीक्षक
जाँच, परीक्षा	परीक्षा (क्ख)	परीक्षा	परीक्षा, परिखा	परीक्ष्या	परीक्ष	परीट्चै, तेर्वु	परीक्ष	परीक्षे
परीक्षाफल	परीक्षारफल (क्खा)	परीक्षाफल	परीक्षा फोल, परिखा फोल	परीक्षा फल	परीक्षाफलितमु	तेर्वु मुडिवुगळ्	परीक्षाफलम्	परिणाम
परीक्षार्थी	परीक्षार्थी (क्खा)	परीक्षार्थी	परीक्षा थारिबा मी	परीख्यार्थी, परीक्षार्थी	परीक्षार्थि	तेर्वु एऴुदुम् माणवर्	परीक्षार्थि	परीक्षार्थि
पाठ	पाठ	पाठ	पारा	पाठ	पाठमु	पाडम्	पाठम्	पाठ
पाठशाला	पाठशाला	पाठशाला	महै तंफम शङ्, स्कूल	पाठशाला	पाठशाल	पाडशालै	पाठशाल	शाले

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमः	पाठक्रम	निसाबे-तालीम	सेलिबस	कोर्सु, पाठ्यक्रम	अभ्यासक्रम	अभ्यासक्रम	पाठ्यक्रम
पाठ्यचर्या	पाठ्यचर्या	कोरस	निसाबे-तालीम	निसाबि तॉलीम	सिलबस, पाठ्यक्रम	नेमलेला अभ्यास	समय पत्रक	पाठ्यचर्या
पाठ्य पुस्तक	पाठ्यपुस्तकम्	पाठ-पुस्तक	दर्सी किताब	दरसी किताब, परनुँचि किताब	पाठ्य पुस्तकु, दर्सी किताबु	पाठ्यपुस्तक	पाठ्यपुस्तक	पाठ्यपुस्तक
पुरस्कार	पुरस्कारः, पारितोषिकम्	इनाम	इनाम्	यनामुँ	इनामु	इनाम, पुरस्कार	पुरस्कार (इनाम)	इनाम
पुस्तकालय	पुस्तकालयः	पुसतकागार, पुसतकालय	कुतुबख़ाना, लायब्रेरी	लयब्रेरी	पुस्तकालय, लैब्रेरी	ग्रंथालय	पुस्तकालय	ग्रंथालय
प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्यः	प्रिंसीपल	प्रिंसिपल	प्रिनसपुल	हैडमास्टर, प्रधान-आचार्यु	प्राचार्य, प्रिन्सिपाल	प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य, प्रिंसीपाल
प्रधाना-ध्यापक	प्रधानाध्यापकः	हैडमास्टर	हैडमास्टर	हेड माशटर	हैडमास्टर, प्रधान अध्यापकु	मुख्याध्यापक	प्रधानाध्यापक	प्रधान अध्यापक, हेडमास्तर
प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्रम्	प्रमाण-पत्तर	सनद	सनद सर्टीफिकैट	सर्टीफिकेट, प्रमाण-पत्रु	दाखला, प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्र	प्रमाण पत्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम (ट्ट)	पाठ्यक्रम	तम्नबा मचाक मपोत्, सेलेबस	पाठक्रम, पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रममु	पाडत्तिट्टम्	पाठ्यपद्धति	पाठ्यक्रम
पाठ्यवस्तु	पाठ्यचर्या, (ट्ट) कोर्स	पाठ्यचर्या	तम्नबा मचल परेङ्, कोर्स	पाठचर्या	पाठ्य- प्रणाळिक	पाडअट्टवणै	पाठ्यचर्या, पाठ-स्कीम	पाठ्यचर्या
पाठ्य- पुस्तक	पाठ्य पुस्तक (ट्ठ)	पाठ्य- पुथि	तम्नबा लाइरिक, टेक्स-बुक	पाठपुस्तक, पाठ्यपुस्तक	पाठ्य- पुस्तकमु	पाडपुत्तगम्	पाठ्यपुस्तकम्	पठ्यपुस्तक
पुरस्कार	पुरस्कार	पुरस्कार	मना	पुरस्कार	बहुमति	परिशु	सम्मानम्	पुरस्कार, बहुमान
पुस्तकालय	पुस्तकालय, ग्रंथालय	ग्रंथालय, पुथिभराँल	लाइरिक शङ्, लाइब्रेरी	पुस्तकालय	ग्रंथालयमु	नूल्- निलयम्/ नूलगम्	ग्रंथशाल	पुस्तकालय
प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य, (र्ज) प्रिंसिपाल	अध्यक्ष, प्रधान- शिक्षक	प्रिंसिपाल	प्रधानाचार्य, अध्यक्ष	प्रधानाचार्युडु, प्रिंसिपालु	कल्लूरि मुदल्वर्	प्रिंसिपल्	प्राचार्य, प्रिंसिपाल्
प्रधाना- ध्यापक	प्रधानाध्यापक (द्या)	प्रधान शिक्षक मुख्य-शिक्षक	हेडमास्टर	प्रधानाध्यापक	प्रधानाध्यापकुडु, हॆड्मास्टरु	तलैमै आशिरियर्	प्रधान अध्यापकन्	मुख्योपाध्याय, हेड्मास्टरु
प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्र (न), सार्टिफिकैट	प्रमाण-पत्र	सार्टिफिकैट	प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्रमु	चान्रिदळ्	सर्टिफिकट्टु	सर्टिफिकेट्, प्रमाणपत्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	तजुरबेगाह	लॅबाटरी, तजरुबुँगाह	प्रयोगशाला, लैबार्टरी	प्रयोगशाळा	प्रयोगशाळा (ला)	प्रयोगशाळा
प्रवेश	प्रवेशः	प्रवेश	दाख़िला	दॉखुलु	दाख़िला	प्रवेश	प्रवेश	दाखलो
प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षुः	सिखिआरथी	तरबियतयाब, तरबियत पाने वाला	तरबियत रटनवोल	सिख्या वठंदड़ु, सिखंदड़ु	प्रशिक्षण घेणारा, ट्रेनी	तालीमार्थी	प्रशिक्षणार्थी
प्राध्यापक	प्राध्यापकः	प्राधिआपक	लेक्चरार	प्राफिसर	लेक्चरर, प्राध्यापकु	प्राध्यापक	प्राध्यापक	प्राध्यापक, व्याख्याता
प्रोक्टर	प्राक्तरः	प्राकटर	प्राक्टर	प्रोक्टर	प्रोक्टर	प्रोक्टर	प्रोक्टर	प्रोक्टर
बाल विहार	बालविहारः	बाल विहार	बच्चों का पार्क	शुर्य-गरुँ	ब॒ाल विहारु	बाल विहार	बालवाडी, शिशुविहार (बाळ मंदिर)	बाळ-विहार
महा-विद्यालय (कॉलेज)	महाविद्यालयः	महा-विदिआला	कालेज	कालेज	कालेज	महाविद्यालय, कॉलेज	महाविद्यालय (कॉलेज)	कॉलेज

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	गबेषणागार, प्रयोगशाला	चाङ्येङ्शङ्, लाबोरेटरी	प्रयोगशाला लाबोरेटरी	प्रयोगशालॆ	आय्वुक्कूडम्	परीक्षणशाल	प्रयोगशाले
प्रवेश	प्रबेश	प्रबेश	चङ्ना	प्रबेश	प्रवेशमु	नुळैवु	प्रवेशनम्	प्रवेश
प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु	प्रशिक्षणार्थी (क्खा)	प्रशिक्षणार्थी	ट्रेनी	प्रशिख्यणार्थी, प्रशिक्षणार्थी	शिक्षणार्थि	आसिरियर् पयिर्चि पॆरुबवर्/ आसिरिय-माणवर्	ट्रॅयिनि	तरबेतिदार
प्राध्यापक	प्राध्यापक (द्‌धा)	प्राध्यापक	लेक्चरर्	प्राध्यापक	लॆक्चरर्	विरिवुरैयाळर्	लेक्चरर्	लेक्चरर, उपन्यासक
प्रोक्टर	प्रक्टर (प्रोक्टर)	प्रोक्तार, विश्व-विद्यालयर अभिरक्षक	प्रोक्टर	प्रोक्टर, बिद्यालयर नियम शृंखला रक्षार भारप्राप्त अधिकारी	प्रोक्टरु	प्रोक्टर्	प्रोक्टर्	प्रोक्ट्र
बालविहार	शिशु-उद्यान (द्‌द्या)	बाल-बिहार	अङाङ्शिङ्गी पार्क, किंडरगार्टन	शिशु उद्यान, बालाश्रम, किंडरगार्टन	बालॆ-भवनमु	कुळंदैगळ् विळैयाडुमिडम्	बालवाटि	शिशु विहार
कलेज	कॉलेज, महाबिद्यालय	महा-बिद्यालय	कॉलेज	महाबिद्यालय (कलेज)	कालेजि	कल्लूरि	काळेज्	कालेजु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मान्यता	मान्यता	मानता	मंज़ूरी	मंज़ूरी	मञिता, मंज़ूरी	मान्यता	मान्यता, मंज़ूरी	मान्यता
मान्यता-प्राप्त	मान्य, मानित	मानता-प्राप्त	तस्लीमशुदा	मनज़ूरशुदॖ	तस्लीम थियलु, मञियलु	मान्यताप्राप्त	मान्यताप्राप्त, मंज़ूर	मान्यता प्राप्त
लिखाई	लेखनम्	लिखाई	लिखाई	लिखॉय, लेखुन	लिखाई	लेखन कार्य	लखाई, लखाण	लेखन कार्य
लिखावट	हस्तलेख:	लिखावट	तहरीर	लेखुन, तहरीर	लिखावट, लिखिणी	लेखन शैली	लखावट	लिखाण
वार्डन	अधीक्षक:	वारडन	वार्डन (निग्रान)	वाडन	वार्डन	वॉर्डन	वॉर्डन	वॉर्डेन
विद्या	विद्या	विदिआ	इल्म	ॲलिम, तॉलीम, वेंद्या	विद्या	ज्ञान, विद्या	विद्या	विद्या
विद्यार्थी	विद्यार्थी, छात्र:	विदिआरथी, सिखिआरथी	तालिबे-इल्म	शॉगिरॅद, च़ाठ	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मान्यता	मान्यता (न्न), स्वीकृति	स्वीकृति	शकखङ्बा	मान्यता, स्वीकृति	गुर्तिंपु	ऑप्पुदल्/ अंगीकारम्	अंगीकारम्	मान्यते
मान्यताप्राप्त	मान्यताप्राप्त (न्न), स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृति-प्राप्त, अभिज्ञात	शकखङ्लबा	मान्यताप्राप्त, स्वीकृति प्राप्त	गुर्तिंपु पाँदिन	ओप्पुदल पेट्ट/ अंगीकरिक्क-प्पट्ट	अंगीकृतम्, अंगीकरिचु	मान्यतेपडेद
लेखन	लेखन, लेखा	लिखा, लेखा	इबा	लेखा, लिखन	व्रात	एंळुदुदल	एंळुत्तुँ	लेखन
लेखोट	हातेरलेखा	प्रतिपालक	खुतइ	लेखा, हातलेखा	दस्तूरि	कैयेळुत्तु	कैप्पट	बरवणिगे
वार्डन	ओयार्डेन (वार्डेन), प्रतिपालक	प्रतिपालक	वार्डन, वार्देन	वाडेन, भारप्राप्त अधिकारी	वार्डनु	वार्डन्	वार्डन्	वार्डन्
विद्या	बिद्या	बिद्या	महै	बिद्या	विद्यँ	कल्वि	विद्य, ज्ञानम्	विद्ये
विद्यार्थी	छात्र-छात्री	बिद्यार्थी, छात्र-छात्री	छात्र, महैरोइ	बिद्यार्थी, छात्र-छात्री	विद्यार्थि	माणवन्	विद्यार्थि	विद्यार्थि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विद्यालय (स्कूल)	विद्यालयः	विदिआला	इसकूल (मकतब)	मदरसुँ, सोंकूल, चा़टुँहाल	विद्यालय, विद्यालो	विद्यालय	विद्यालय (शाला, निशाळ, स्कूल)	विद्यालय, स्कूल
विद्या-सभा	विद्वत्सभाः	विदिआ-सभा	मज्लिसे-इलमी	अॅलमी मजलिस	विद्या सभा	विद्या-परिषद्, शिक्षण समिती	विद्यासभा	विद्यासभा
विश्व-विद्यालय	विश्व-विद्यालयः	विशव-विदिआला	जामिया (युनिवर्सिटी)	यूनिवरसिटी	विश्वविद्यालय, यूनीवर्सिटी	विश्वविद्यालय	युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय)	विद्यापीठ
विषय	विषयः	विशा	मौज़ू	मज़मून	विषय	विषय	विषय	विशय
व्याख्यान	व्याख्यानम्	विआखिआन, तकरीर	लेक्चर (तक़रीर)	तकरीर, बाशन	व्याख्यानु, भाषणु	भाषण, व्याख्यान	व्याख्यान	व्याख्यान, भाशण
शब्दकोश	शब्दकोशः	शबदकोश	लुग़त	डिकशनरी, लोंगथ, शब्दुँराश	शब्दकोश, डिक्शनरी	शब्दकोश	शब्दको<u>श</u> (ष)	शब्दकोश
शिक्षक	शिक्षकः	उसताद	मुदर्रिस (मुअल्लिम)	हेंछिनावनवोल वोंस्ताद	शिक्षकु, मास्तरु	शिक्षक	शिक्षक	शिक्षक
शिक्षा निदेशक	शिक्षा-निदेशकः	सिखिआ निरदेशक	नाज़िमे-तालीम	नॉज़िमि-तॉलीम, डायरेक्टर-तॉलीम	शिक्षा निदेशकु, एज्युकेशन डइरेक्टर	शिक्षण संचालक	विद्याधिकारी, विद्दाद्दिकारी	शिक्षण निदेशक
शिक्षा-परिषद्	शिक्षापरिषद्	सिखिआ परीशद	मज्लिसे-तालीमी	तॉलीमी-कमीटी	शिक्षा परिषद	शिक्षण-परिषद	शिक्षण-परिषद	शिक्षण परिषद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विद्यालय, स्कूल	बिद्यालय, इस्कुल, स्कूल	बिद्यालय	स्कूल, महै तंफम शङ्	बिद्यालय (स्कुल)	विद्यालयमु, स्कूलु	पळ्ळिक्कूडम्	विद्यालयम्	शाले, विद्यालय
विद्यासभा	शिक्षा समिति (क्खा)	बिद्यासभा	महैशिङ्गी सभा	बिद्या-सभा, शिक्षा समिति	विद्यासभँ	कल्विक्कुळु	पाठ्य समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीस्	विद्या-परिषत्तु
विश्व-विद्यालय	विश्वबिद्यालय (श्श)	बिश्व-विद्यालय	युनिवर्सिटी	बिश्व-बिद्यालय	विश्व-विद्यालयमु	पल्कलैक्कळगम्	सर्वकलाशाल	विश्वविद्यालय
विषय	बिषय	बिषय	हिरम, विषय	बिषय	विषयमु	विषयम्	विषयम्	विषय
व्याख्यान	ब्याख्यान (ख्खा), भाषण	भाषण, ब्याख्यान	वाङाङ् लेक्चर	ब्याख्यान, भाषण	उपन्यासमु	चॉर्पॉळिवु	प्रभाषणम्	व्याख्यान, भाषण, उपन्यास
शब्दकोश	शब्दकोष	अभिधान, शब्दकोष	वाहै, लोनगी डिक्शनरी	शब्दकोश, अभिधान	निघण्टुवु	अकरादि	निघण्टु, शब्दकोशम्	शब्दकोश, निघंटु
शिक्षक	शिक्षक (क्ख)	शिक्षक	ओजा	शिख्यक, शिक्षक	उपाध्यायुडु	आसिरियर्	अध्यापकन्	शिक्षक
शिक्षा निर्देशक	शिक्षा (क्खा) निदेशक	शिक्षा-संचालक	एज्युकैशन डायरेक्टर	शिख्या निर्देशक, शिक्षा-संचालक	विद्या-संचालकुडु,	कल्वि इयक्कुनर्	विद्याभ्यास डयरंक्टर्	शिक्षण निर्देशक
शिक्षा-परिषद	शिक्षा परिषद (क्खा)	शिक्षा-परिषद	महेमशिङ्गी कमिटी	शिख्या (शिक्षा) परिषद	विद्या परिषत्तु	कल्वि आलोचनैक्-कुळु	विद्याभ्यास परिषदु	शिक्षण-परिषत्तु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
शिक्षा मंडल	शिक्षा-मण्डलम्	सिखिआ मंडल	तालीमी बोर्ड	तॉलीमी बोड	शिक्षा मंडलु	शिक्षण मंडळ	केळवणी-मंडळ	शिक्षण मंडळ
शिक्षा-शुल्क	शिक्षा-शुल्कम्	सिखिआ फीस	तालीमी फ़ीस	परनुक-फीस	फ़ी	शिक्षणाची फी	भणवानी फी शिक्षण फी	शिक्षण फी
शोध-निबंध	शोध-निबन्धः	खोज-निबंध	तहक़ीक़ी मज़ूमून	तॅहकीकी मज़मून	खोज, मज़्मूनु, तहक़ीक़ी मज़्मूनु	संशोधन वर निबंध	शोधनिबंध	सोद-निबंद, शोध-निबंध
शोध-प्रबंध	शोध-प्रबन्धः	खोज-प्रबंध	तहक़ीकी मक़ाला	थीसिस	खोज मक़ालो, तहक़ीक़ी मकालो	संशोधन वर प्रबंध	महानिबंध	शोध-प्रबंध, सोद-प्रबंद
श्यामपट्ट	श्यामपट्टः	बलैक-बोरड	तख़्ता-ए-सियाह	ब्लैक बोड, तखति-सियाह	ब्लैक बोर्ड	फळा	काळुं पाटियुं, ब्लेक बोर्ड	बोर्ड
श्रुतलेख	श्रुतलेखः	इमला	इम्ला (डिकटेशन)	डिक्टेशन	सूरतख़ती	श्रुतलेख	श्रुतलेखन, डिक्टेशन	श्रुतलेख
संकाय	सङ्कायः	फैकलटी	कुल्लिया (फ़ैकल्टी)	फैकलटी	विद्याशाख़ा, संकाय, फैकल्टी	फैकल्टी, शाखा	विद्याशाखा (युनिवर्सिटीनी)	संकाय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शिक्षा-मंडल	शिक्षा मंडल (क्खा), बोर्ड	शिक्षा-मंडल	महैमशिङगी लूप	शिख्या (शिक्षा) मंडल	विद्या मंडलि	कल्विक्कळगम्	विद्याभ्यास मण्डलम्	शिक्षण-मंडल
शिक्षा शुल्क, फीस	शिक्षा-शुल्क, शिक्षा (क्खा) फीस	माचुल, शिक्षा-शुल्क	फी, लाइरिक तंबगी पीबा ममल	शिख्या (शिक्षा) शुल्क, फीस	स्कूलु जीतमु	पडिप्पु-क्कट्टणम्	फीस्	शिक्षण-शुल्क, फीसु
शोध-निबंध	गबेषणा निबंध (न)	गबेषणा-पत्र	थिजिन-वारेङ्	गबेषणा पत्र	परिशोधना-व्यासमु	आय्वुक्-कट्टुरै	गवेषणोपन्यासम्	संशोधन लेख
शोध-ग्रंथ	गबेषणा ग्रंथ (ना)	गबेषणा-ग्रंथ	थीसिस	गबेषणा ग्रंथ	परिशोधना-ग्रंथमु	आय्वु नूल	गवेषण-प्रबंधम्	संशोधन प्रबंध
ब्ल्याकबोर्ड	ब्लैक बोर्ड.	ब्लैक-बोर्ड	ब्लेक-बोर्ड	कलापटा	ब्लाकु बोर्डु	करुंपलगै	ब्लेक-बोर्ड	ब्ल्याक् बोर्डु, कप्पु हलगे
श्रुतिलेखन	श्रुतिलिखन	श्रुतिलिपि	डिक्टेशन	श्रुत-लिखन	डिक्टेशनु	कैट्टॅळुतल्	केट्टॅळुत्तुँ	उक्त लेखन
विभाग, निकाय	अनुषद्, बिभाग, फैकाल्टी	फेकालटि, बिभाग	फेकल्टी	बिभाग	फैकल्टी, शाखँ	कलैप्पिरिवु	फाकल्टि	फैकल्टि, निकाय

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
संकाय-अध्यक्ष	सङ्कायाध्यक्षः	डीन	सद्रे-कुल्लिया (डीन)	डीन	संकाय-अध्यक्ष, डीन	डीन, शाखा प्रमुख	विद्याशाखानो अध्यक्ष, डीन	डीन
संचालन मंडल	सञ्चालक-मण्डलम्	संचालन मंडल	मज्लिसे मुंतज़िमा (इंतिज़ामी बोर्ड)	इंतिज़ॉमी मॅजलिस	संचालन मंडलु	संचालन मंडळ, नियंत्रण मंडळ	संचालक मंडळ, व्यवस्थापन	संचालन मंडळ
संस्थान	संस्थानम्	संसथान	इदारा	अदारॅ	संस्थानु, इदारो	संस्था	संस्थान	संस्थान
सत्र	सत्रम्	इजलास	सेशन	सॅशन	सत्रु	सत्र, टर्म	सत्र, टर्म	सत्र
सनद	प्रमाणपत्रम्	सनद	सनद	सनद	सनद	सनद	सनद	सनद
समय-सारिणी	समयसारिणी	समा-सारनी	नज़्मुल औक़ात (टाइम टेबिल)	टाइम टेबॅल	टाईम टेबल	वेळा पत्रक	समय पत्रक (टाइम टेबल)	समय सारिणी, वेळा-पत्रक
सहायता अनुदान	सहायतानु-दानम्	सहाइता अनुदान	इमदादी अत्तीया (माली इमदाद)	मॉली इमदाद	सहायता ग्रांट	सहायता अनुदान	ग्रान्ट-इन-एड, ग्रान्टेबल मदद तरीके अपाती रकम	हातभार-अनुदान

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विभागाध्यक्ष	अनुषद्-अध्यक्ष, डीन	गुरु, डीन, अधिष्ठाता	डीन, दीन	अध्यख्य, अध्यक्ष, डिन	फेकल्टी हॅड, शाखाध्यक्षुडु	कलैप्पिरिविन् तलैवर्	फाकल्टियुटे डीन	फेकल्टिय अध्यक्ष, निकाय-अध्यक्ष
सञ्चालन मण्डल	संचालक मण्डली	कार्यकरी/ परिचालना समिति	अशिन-अराङ काङबु	संचालन मंडल	संचालक मंडलि	निर्वाहक्कुळु	संचालन मण्डलम्, निर्वाहक मण्डलम्	संचालन मंण्डल
संस्थान	संस्था, प्रतिष्ठान	संस्था, संथा	इंस्टिट्यूट	संस्था, प्रतिष्ठान	संस्थ	निरुवनम्	इंस्टिट्यूट्ट	संस्थे
सत्र	सत्र, एजलास	छेचन, सत्र, दण्ड-सत्र	सेशन	पाठ्यक्रमर समय	संशनु, टर्मु	कालवरै, टर्म्	संषन्	व्यासंग काल
प्रमाणपत्र	सनद	चनद, प्रमाण पत्र	प्रमाण-पत्र, सर्टिफिकैट	सनद, प्रमाण पत्र	सनदु, पट्टा	पट्टम्/ सान्दिळ्	बिरुदम्	सर्टिफिकेटु, सनदु
समय-सारिणी	समय-सारणी (नी), टाइमटेबल	समय-सूची	टाइम टेबल, रुटिन	समय-सूचि	काल पट्टिक, टाइम टेबुलु	काल-अट्टवणै	समय पट्टिक, टैम टेबिळ्	वेळा पट्टि, वेळा-पत्रिके
सहायता अनुदान	अनुदान, सहायता	सहायक मंजुरि, सहायक अनुदान	ग्रांट-इन-एड, मेतेङ्गी शेंथङ्	सहायता अनुदान	धन सहायमु	मानियम्, निदि उदवि	सहाय धनम्	सहाय धन

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सहायता-प्राप्त विद्यालय	प्राप्तसाहाय्य-विद्यालयः	सहाइता-प्रापत विदिआला	इमदादयाफ़्ता इसकूल (मदरसा)	ग्रांट प्रावन-वोल स्नाटहाल	सहायता प्राप्त विद्यालय, इमदाद-याफ़्ता मदरसो	सहायत्ता प्राप्त विद्यालय	सहायताप्राप्त विद्यालय, ग्रान्ट इन-एड स्कूल	मजत मेळिल्ले विद्यापीठ
अध्यापन विषय	अध्याप्य-विषयाः	**अधियापन विषय**	**मज़ामीने दर्सी**	**दरसी-मज़मून**	**दरसी मज़मूनु**	**अध्यापन विषय**	**अध्यापन विषय**	**शिकवपाचो विशय**
अंकगणित	अङ्कगणितम्	अंक गणित	हिसाब	हिसाब	हिसाब, अंग विद्या	अंक गणित	अंक गणित	अंकगणीत
अंतरिक्ष विज्ञान	अन्तरिक्षविज्ञानम्	पुलाड़-विगिआन	ख़लाई साईंस	खलॉयी-सयनस	अंतरिक्ष विज्ञानु	खगोल शास्त्र	खगोल-शास्त्र	अंतरिक्ष विज्ञान
आयुर्विज्ञान	आयुर्विज्ञानम्	आयुर-विगिआन, तिब्ब	तिब	जिसमॉनी-सयनस	आयुर्विज्ञानु	आयुर्विज्ञान	आयुर्विज्ञान	आयुर्विज्ञान
अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्रम्	अरथ शासतर	मआशियात	इकतिसॉदियात	अर्थशास्त्रु	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र
इंजीनियरी	यान्त्रिकी	इंजनीअरी	इंजीनियरी (इंजीनियरिंग)	इंजीनॅरी	इंजीनियरी	इंजीनियरी	इजनेरी विद्या	इंजीनियरी

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सहायता-प्राप्त विद्यालय	साहाय्य/ सहाबता प्राप्त विद्यालय (ज्ज) (द्दृ)	साहाय्य प्राप्त बिद्यालय	ग्रान्ट-इन-एड-स्कूल, मतेङ् फङ्लबा स्कूल	सहायता प्राप्त बिद्यालय	सहायं पा॑दिन॑ विद्यालयमु	उदवि पे॑रु॒म् पळ्ळि	ग्रान्ट्॒ स्कूल, सहाय धनम् उळ्ळ विद्यालयम्	सहाय पडेद विद्यालय, अनुदान पडेद विद्यालय
अध्यापन विषय	**अध्यापन-बिषय**	**शिक्षण विषय**	**तम्नबा हिरम**	**अध्यापना विषय**	**बोधना विषयमुलु**	**पाडप्पिरिवु**	**अध्यापन विषयङ्ङळ्**	**पाठ-प्रवचन विषयगळु**
अङ्कगणित	पाटिगणि॒त (नि)	पाटी गणित, गणित	अङ्क, अंक	पाटि-गणित	अंकॅ गणितमु	ए॑ण् गणितम्	अंक गणितम्	अंकगणित
अंतरिक्ष विज्ञान	अंतरिक्ष॒ (महाकाश) बिज्ञान (क्ख)	महाकाश विज्ञान	नोङदोनगी विज्ञान	महाकाश बिज्ञान	अंतरिक्षि शास्त्रमु	विण् वॆळि अरि॒वियल्	बहिराकाश-शास्त्रम्	अंतरिक्षविज्ञान
आयुर्वेद	चिकित्सा विज्ञान (आयुर्वेद शास्त्र)	आयुर्विज्ञान, पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र	आयुर्विज्ञान	आर्युबिज्ञान	वैद्यशास्त्रमु	मरुत्तुवम्	आयुर्विज्ञानम्, वैद्यविज्ञानम्	आयुर्शास्त्र, आयुर्विज्ञान
अर्थशास्त्र॒	अर्थशास्त्र, अर्थनीति शास्त्र	अर्थनीति, अर्थशास्त्र	शेनमीतलोन	अर्थशास्त्र, अर्थनीति विज्ञान	अर्थशास्त्रमु	पा॑रुळादारम्	धनतत्व शास्त्रम्	अर्थशास्त्र
अभि-यांत्रिकी, इञ्जिनियरी	यंत्र विज्ञान. (न)	यंत्र बिज्ञान, इंजिनियारिं, अभियांत्रिकी	इंजीनियरिंग	इंजीनियरीं, जंत्र बिज्ञान, उद्योग शास्त्र	इंजनीरिंगु	पा॑रि॒इयल्	इंजिनियरि॒ंगॅ	इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
इतिहास	इतिहास:	इतिहास, तारीख	तारीख़	तवॉरीख	इतिहासु, तवारीख़	इतिहास	इतिहास	इतिहास
कृषि विज्ञान	कृषिविज्ञानम्	क्रिशी-विगिआन	ज़िराअत	ज़मींदॉरी सयनस	कृषि विज्ञानु	कृषि विज्ञान	कृषिविद्या, कृषिशास्त्र	शेती विज्ञान
गणित	गणितम्	गणित	रियाज़ी	हिसाब	गणित	गणित	गणित	गणीत
गृह विज्ञान	गृहविज्ञानम्	ग्रिह-विगिआन	उमूरे-ख़ानादारी	गरेलू सयनस	गृह विज्ञानु	गृहविज्ञान	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
चित्रकला	चित्रकला	चित्तरकला	मुसव्विरी	फोटूग्राफी, तस्वीर सॉज़ी	चित्रकला	चित्रकला	चित्रकळा (ला)	चित्रकला
ज़्यामिति	ज्यामिति:	जुमैटरी, जिआमिती, रेखागणित	इल्मे मिसाहत (ज्योमीट्री)	ज्याम्ट्री	जामेट्री, रेखा गणित	भूमिती	भूमिति (रेखागणित)	भुमिती
त्रिकोण-मिति	त्रिकोणमिति:	त्रिकोणमिति	इल्मे-मुसल्लस	ट्रिगनामिट्री	त्रिकोणमिती, ट्रिग्नामेट्री	रेखागणित, त्रिकोणमिती	त्रिकोणमिति, रेखागणित	ट्रिग्नोमेट्री
दर्शन	दर्शनम्	दरशन	फ़लसफ़ा	फलसफुँ	दर्शनु, फ़लसफ़ो	तत्वज्ञान	दर्शन (तत्वज्ञान), फिलसूफी	दर्शन, तत्वज्ञान
नागरिक शास्त्र	नागरिक-शास्त्रम्	नागरिक शासतर	इल्मे शहरीयत	शहरियतुक अॅलिम	नागरिक शास्त्रु	नागरिक शास्त्र	नागरिक शास्त्र	नागरीक शास्त्र

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
इतिहास	इतिहास	बुरंजी, इतिहास	इतिहास, पुवारी	इतिहास	चरित्र	चरित्तिरम्, वरलारु	चरित्रम्	चरित्रे, इतिहास
कृषिविज्ञान	कृषि विज्ञान	कृषि- बिज्ञान	लौउ- शीङउ- विज्ञान	कृषि बिज्ञान	कृषि शास्त्रमु	वेळाण्मै	कृषिशास्त्रम्	कृषि विज्ञान
गणित	गणित (नि), अंक शास्त्र	गणित, अंकविद्या	अङ्क	गणित, अंक	गणित शास्त्रमु	कणक्कु, गणिदम्	गणितम्	गणित
गृहविज्ञान	गृह (गार्हस्थ) विज्ञान	गार्हस्थ्य बिज्ञान	होम- साइन्स	गृह बिज्ञान	गृह शास्त्रमु	मनै इयल्	गृह विज्ञानम्	गृहशास्त्र
चित्रकला	चित्रकला	चित्रकला	लाइयेकपगी कला	चित्रकला	चित्रकळ	ओवियक्कलै	चित्र कल	चित्रकले
ज्यामिति	ज्यामिति (जा)	ज्यामिति	ज्योमिट्री, ज्योमिती	ज्यामिति	क्षेत्र गणितमु	जियोमिट्रि, वरैगणितम्	ज्यामिति, ज्योमिट्रि	रेखागणित
त्रिकोण- मिति	त्रिकोणमिति (न)	त्रिकोणमिति	त्रिकोनोमिति	त्रिकोणमिति	त्रिकोणमिति	मुक्कोण गणितम्	त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रि	त्रिकोणमिति
दर्शन	दर्शन (शास्त्र)	दर्शन	दर्शन, येङ्बा, उबा	दर्शन	तत्वशास्त्रमु	तत्तुवम्	दर्शनम्, तत्वशास्त्रम्	तत्वशास्त्र
नागरिक- शास्त्र	पौर विज्ञान	नागरिक शास्त्र, नागरिक बिज्ञान	सिविक्स	नागरिक विज्ञान	पौर शास्त्रमु	कुडिमै इयल्	नागरिक शास्त्रम्, सिविक्स्	नागरिक- शास्त्र

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नृविज्ञान	नृविज्ञानम्	मानव-विगिआन	बशरियात	एंथ्रोपालजी	मानव-विज्ञानु	मानववंश शास्त्र	नृवंश विद्या, नृविद्या	मानव विज्ञान
पुरातत्व	पुरातत्त्व-शास्त्रम्	पुराततव	आसारे क़दीमा	आसारि कदीमुॅ	प्राचीन विद्या, पुरातत्व विज्ञानु	पुराणवस्तु शास्त्र	पुरातत्व, पुरातत्त्वनी विद्या	पुरातत्व
पुस्तकालय विज्ञान	पुस्तकालय-विज्ञानम्	पुसतकागार-विगिआन, पुसतकालय विगिआन	लाइब्रेरी साईंस	लयब्रेरी सयनस	पुस्तकालय विज्ञानु	ग्रंथालय शास्त्र	पुस्तकालय विज्ञान	ग्रंथालय विज्ञान
प्राणि विज्ञान	जीवविज्ञानम्	जीव-विगिआन	हैवानीयात, इल्मुलहयवान	ज़ालुॅजी	प्राणी विज्ञानु, जीव विज्ञानु	प्राणिशास्त्र	प्राणी विद्या	प्राणी विज्ञान
बीज गणित	बीजगणितम्	बीजगणित	अलजेबरा	हरफ़ी हिसाब	आलजब्रा, बीज-गणित	बीजगणित	बीजगणित	बीजगणीत
भाषा विज्ञान	भाषाविज्ञानम्	भाशा विगिआन	लिसानियात	ज़बानदॉनी, लिसानियाथ	भाषा-विज्ञानु	भाषाशास्त्र	भाषाशास्त्र	भासविज्ञान
भूगोल	भूगोलः	भुंगोल	जुग्राफ़िया	जग्राफी	भूगोलु, जाग्राफ़ी	भूगोल	भूगोळ	भूगोळ

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मानव-विज्ञान	नृतत्व-विद्या (ब) (द्या)	नृतत्व विद्या	एंथ्रोपालोजी, मी नैनबा विज्ञान	नुत्य-बिज्ञान	नृतत्व शास्त्रमु	मानुड इयल्	नरवंश शास्त्रम्	मानवशास्त्र
पुरातत्व	पुरातत्व-विज्ञान (त्त) (ब)	पुरातत्व	अरिबा पोत् नैनबा, अर्किउलजि	पुरातन तत्व, पुरातत्व	पुरातत्व शास्त्रमु	तॉल् पोरुल् इयल्	पुरावस्तु विज्ञानम्	पुरातन शास्त्र
पुस्तकालय विज्ञान	ग्रंथागार विज्ञान (ब)	पुस्तकालय बिज्ञान, ग्रंथागार विज्ञान	लाइब्रेरी साइन्स	पुस्तकालय-बिज्ञान	ग्रंथालय शास्त्रमु	नूलग-इयल्	ग्रंथालय शास्त्रम्	पुस्तकालय-विज्ञान, ग्रंथालय विज्ञान
प्राणि विज्ञान	प्राणि (जीब) विज्ञान (नि) (ब)	प्राणित्व, विज्ञान प्राणि-बिज्ञान	जीव नैनबा विज्ञान, जूलॉजी	प्राणि-विज्ञान	जंतु शास्त्रमु	विलंगियल्	जंतु शास्त्रम्	प्राणिशास्त्र
बीजगणित	बीजगणित (नि)	बीज गणित	अजलेब्रा	बीज-गणित	बीज गणितमु	अल्जिब्रा, एण् गणितम्	बीज गणितम्	बीजगणित
भाषा विज्ञान	भाषा बिज्ञान	भाषा-बिज्ञान, भाषातत्व-शास्त्र	लोन गी विज्ञान, लिन्गुस्टिक	भाषाबिज्ञान	भाषा-शास्त्रमु	मॉऴि इयल्	भाषा शास्त्रम्	भाषाशास्त्र
भूगोल	भूगोल, जियोग्राफी	भूगोल	भूगोल, जुग्राफी	भूगोल	भूगोलमु	पुविइयल्	भूमि शास्त्रम्	भूगोळ

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
भूविज्ञान	भूविज्ञानम्	भुविगिआन	अरज़ियात	जियालुॅजी	भूंइ-विज्ञानु	भूगर्भशास्त्र	भूविद्या, भूशास्त्र	भूगर्भशास्त्र
भौतिकी	भौतिकी	भौतिकी, भौतिक विगिआन	तबीआत (तबअीयात)	फिज़िक्स	इल्म तबई, पदार्थ विज्ञानु	पदार्थविज्ञान शास्त्र	भौतिक शास्त्र	भौतिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान
मनोविज्ञान	मनोविज्ञानम्	मनोविगिआन	नफसियात	नफ़सियाथ	मनोविज्ञानु	मानसशास्त्र	मनोविज्ञान (मनोधर्मविद्या, मानसशास्त्र)	मनोविज्ञान
मौसम विज्ञान	ऋतुविज्ञानम्	मौसम-विगिआन	मौसिमयात	मौसमी सयनस	मौसम विज्ञानु	हवामान शास्त्र	वायुचक्र शास्त्र	हवामान शास्त्र
रसायन	रसायनशास्त्रम्	रसाइण	कीमिया (कैमिस्ट्री)	ॲलिमि कीमिया	रसायन, इल्म-कीमिया	रसायन	रसायणशास्त्र	रसायण
राजनीति शास्त्र	राजनीतिशास्त्रम्	राजनीती शासतर	सियासियात	ॲलमि सियासथ	राज़नीती-शास्त्रु	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र	राजनितीशास्त्र
ललित कला	ललितकला	ललित कला	फ़ुनूने-लतीफ़ा	कसब तुॅ फन, फ़ॅनूनि-लतीफा	ललित कला	ललित कला	ललित कळा	ललितकळा (ला)

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भूविज्ञान	भू-विज्ञान (ब)	भूतत्व, भू-बिज्ञान	जियालॉजी	भूबिज्ञान, भूतत्त्व	भूगर्भ शास्त्रमु	निल अडि इयल्	भूगर्भ शास्त्रम्	भूशास्त्र
भौतिकी	पदार्थ विद्या (द्दा)	पदार्थ बिज्ञान	फिजिक्स	पदार्थ बिज्ञान, भौतिकी	पदार्थ- विज्ञान शास्त्रमु	बौदिकम्, इयर्पियल्	ऊर्जतंत्रम्	भौत- शास्त्र
मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	मनोबिज्ञान	साइकॉलोजी	मनोबिज्ञान	मनस्तत्त्व शास्त्रमु	उळवियल्	मनश्शास्त्रम्	मनश्शास्त्र
मौसिम- विज्ञान	आवहाओया (आ) (ब) विज्ञान	बतर- बिज्ञान	नुङ्शित्- नुङ्शा अइङ्-अशा खङ्नबा विज्ञान	पाणिपाग बिज्ञान	वातावरण शास्त्रमु	वानियल्	व्योमनिरीक्षण शास्त्रम्	ऋतुशास्त्र, हवामान- शास्त्र
रसायन	रसायनबिज्ञान	रसायन	रसायन, कैमिस्ट्री	रसायन	रसायन शास्त्रमु	वेदि इयल्	रसतंत्रम्	रसायनशास्त्र
राजनीति- शास्त्र	राजनीति शास्त्र	राजनीति- बिज्ञान	लैङाक्लोन काङ्लोन, पॉलिटिकल साइन्स	राजनीति बिज्ञान	राजनीति शास्त्रमु	अरसियल्	राष्ट्रमीमांस	राजनीति- शास्त्र
ललितकला	ललितकला, सुकुमार कला, चारु शिल्प	ललित कला, सुकुमार कला	ललित कला	ललित कला	ललित कळ	नुण् कलै	लळित कल	ललित कले

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
वनस्पति विज्ञान	वनस्पतिशास्त्रम्	बनसपती विगिआन	नबातियात	नबातियाथ	वनस्पती विज्ञानु	वनस्पति शास्त्र	वनस्पति शास्त्र	वनस्पतिविज्ञान
वाणिज्य	वाणिज्यशास्त्रम्	वणज	तिजारत (कामर्स)	बापार, तिजारथ	वाणिज्य, कॉमर्स	व्यापार, कॉमर्स	वाणिज्य	वाणीज्य
शिक्षा	शिक्षा	सिखिआ	तालीम	तॉलीम	शिक्षा, तालीम	शिक्षण	शिक्षण, शिक्षण शास्त्र	शिक्षण
संगीत	सङ्गीतम्	संगीत	मूसीक़ी	मूसीकी	संगीतु, मूसीक़ी	संगीत	संगीत	संगीत
समाजशास्त्र	समाजशास्त्रम्	समाजशासतर	इमानियात (समाजियात)	समाँजी ऑलिम	समाजशास्त्रु	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
सांख्यिकी	सांख्यिकी	अंकड़ा-विगिआन	शुमारियात	अददियाथ	अंग-शास्त्रु	आंकडेशास्त्र	आंकडाशास्त्र	आंकडेवारी शास्त्र
साहित्य	साहित्यम्	साहित्त, अदब	अदब	अदब	साहित्य, अदब	वाङ्मय, साहित्य	साहित्य	साइत्य/साहित्य

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वनस्पति विज्ञान	उद्भिद बिज्ञान	उद्भिद्- बिज्ञान	पांबी नैनबा विज्ञान, बॉतनी	उद्भिद बिज्ञान, बनस्पति बिज्ञान	वृक्ष शास्त्रमु	तावर इयल्	सस्य शास्त्रम्	वनस्पति- शास्त्र, सस्य- शास्त्र
वाणिज्य	बाणिज्यबिद्या (नि) (ज्ज)	बाणिज्य	ललोन- इतिक, कामर्स	बाणिज्य	वाणिज्यमु	वणिग इयल्	वाणिज्य शास्त्रम्	वाणिज्य- शास्त्र
शिक्षा	शिक्षा (क्खा)	शिक्षा	महै, महैमशिङ्	शिक्षा	विद्य	कलवि	विद्याभ्यासम्	शिक्षण- शास्त्र
सङ्गीत	संगीत	संगीत	ईशै	संगीत	संगीतमु	इसै	संगीतम्	संगीत
समाज- शास्त्र	समाज- (विद्या) बिज्ञान (द्दा)	समाज- बिज्ञान, समाज- शास्त्र	समाजगी मरमदा नैनबा, सोसिउलोजी	समाज शास्त्र, सामाजिक बिज्ञान	समाज शास्त्रमु	समूह इयल्	सामूह्य शास्त्रम्	समाज शास्त्र
सांख्यिकी	परिसंख्यान (क्खा)	परिसंख्या बिज्ञान	लेङ्दबा पोत्शिङ्बु नैनबा, स्टेटिस्टिक्स	प्राति गणित, परिसंख्यान, संख्या बिज्ञान	संख्या शास्त्रमु	पुळ्ळि इयल्	सांख्यिकम्	संख्याशास्त्र
साहित्य	साहित्य (कला) (त्त)	साहित्य	साहित्य	साहित्य	साहित्यमु	इलक्कियम्	साहित्यम्	साहित्य

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सैन्य विज्ञान	सैन्यविज्ञानम्	सैना विगिआन	मिलिट्री साईंस	फोजी सयनस	फौजी विद्या, सेना विज्ञानु	सैनिक-शास्त्र	सैन्य शास्त्र	सैनीकशास्त्र
स्वास्थ्य विज्ञान	स्वास्थ्य-विज्ञानम्	सिहत विगिआन	उसूले-सेहत	सेहतस मुतलिक सयनस	इल्म सेहत, स्वास्थ्य विज्ञानु	आरोग्य शास्त्र	आरोग्य विज्ञान, आरोग्य विद्या, आरोग्य शास्त्र	आरोग्य शास्त्र
संसदीय शब्द	**संसदीयशब्दाः**	**संसदी शबद**	**पारलीमानी अल्फ़ाज़**	**पारलिमॉनी लफ़ुज़**	**संसदबाबत लफ़्ज़**	**संसदीय शब्द**	**संसदीय शब्द**	**संसदीय शब्द**
अधिवेशन	अधिवेशनम् सत्रम्	अर्धिवेशन	इज्लास	इजलास, जलसुॅ	इज्लासु, अधिवेशनु	बैठक, अधिवेशन	अधिवेशन, बेठक	अधिवेशन
अध्यक्ष	अध्यक्षः	अर्धिअक्ख	सद्र (स्पीकर)	ज़्युठ, सदुॅर, सिपीकर	अध्यक्ष, सभापती, सदर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
अभि-भाषण	अभिभाषणः	अर्भिर्भाशण	ख़िताब	खताब	अभिभाषण, तक़रीर	भाषण	प्रवचन	अभिभाशण
अल्पमत	अल्पमतम्	अलपमत	अक़ल्लियत राय	अकलियथ, कम राय, कम वोट	थोराई, अल्पमत	अल्पमत	लघुमती	अल्पमत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सैन्य विज्ञान	सैन्य विद्या (न्न) (द्या) समर-बिज्ञान	सैन्य-बिज्ञान, सामरिक-बिज्ञान	लाल्मी गी विज्ञान, मिलिटरी साइन्स	जुध (युध) बिज्ञान, सामरिक बिज्ञान	सैन्य शास्त्रमु	राणुव इयल्	सैन्य शास्त्रम्	युद्ध शास्त्र
स्वास्थ्य विज्ञान	स्वास्थ्य बिज्ञान (सा) (स्थ)	स्वास्थ्य-बिज्ञान	हकशेल काङलोन	स्वास्थ्य बिज्ञान	आरोग्य शास्त्रमु	सुगादारम्	आरोग्य शास्त्रम्	आरोग्य-शास्त्र
संसदीय शब्दावली	**संसदीय शब्दाबली**	**संसदीय शब्दावली**	**संसद की वाहै**	**संसदीय शब्दावली (पार्लियामेंट शब्दावली)**	**पार्लमेंटुकु संबंधिंचिन पदमुलु**	**पाराळुमन्र-च्चार्कळ्**	**पार्लिमंण्टॅ पदङ्ङळ्**	**संसत्तिगॅ संबंधिसिद शब्दगळु**
अधिवेशन	अधिबेशन	अधिबेशन	अधिवेशन, मीफम	अधिबेशन	समावेशमु, सदस्सु	कूट्टत्तांडर्	सम्मेळनम्	अधिवेशन
अध्यक्ष, सभामुख, सभापति	अध्यक्ष (द्ध) (क्ख)	अध्यक्ष, सभापति	अध्यक्ष, स्पीकर	अध्यक्ष	अध्यक्षुडु	तलैवर्	अध्यक्षन्	अध्यक्ष
अभिभाषण	अभिभाषण (न)	अभिभाषण	भासन, वाङाङ्	अभिभाषण	अभिभाषणमु	उरै, चार्पॊळिवु	प्रसंगम्	भाषण, अभिभाषण
अल्पमत	संख्या लघुजनमत (खा)	संख्यालघुत्व	मत मशिङ् यांदबा	अल्पमत, संक्षालघु	अल्पाभिप्रायमु	चिरुपान्मै	न्यूनपक्षम्	अल्पमत

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
अल्पसंख्या	अल्पसंख्या	अलप गिणती	क़िल्लते-तादाद	कम तेदाद	थोराई, अल्प संख्या	अल्प संख्या	लघुमती जाति	अल्पसंख्या
आयव्ययक	आयव्यय-पत्रकम्	बजट	मीज़निया (बजट)	बचठ, आमदॅनी-तुॅ खरचुक-पेशनामु	उपति-खपति पत्रक, बजट	अंदाजपत्रक	अंदाजपत्र	अंदाज पत्रक, बजेट
उपचुनाव	उपनिर्वाचनम्	उपचुनाव	ज़िम्नी इंतिख़ाबात	ज़िमनी चुनाव	छोटी चूंड, उपचुनाव	पोट निवडणुक	पेटा चूंटणी	पोट वेंचणूक
उप-सभापति	उपसभापतिः	उपसभापती	नाइब सद्र (डिप्टी चेयरमेन)	नायिबिसदुॅर	उपसभापती	उपसभापती	उपसभापति	उपसभापती
उपाध्यक्ष	उपाध्यक्षः	उप-अधिअक्ख	नाइब सद्र (डिप्टी स्पीकर)	नॉयिबि सिपीकर	उपाध्यक्ष, उपसभापती	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
गणपूर्ति	गणपूर्तिः	कोरम	निसाब (कोरम)	कोरम	कोरम	कोरम, आवश्यक उपस्थिती	कोरम, जरूरी हाजरी	कोरम, गणपूर्ती
चुनाव	निर्वाचनम्	चोण	इंतिख़ाबात	चुनाव, ईंतिखाब	चूंड, चुनाव	निवडणूक	चूंटणी	वेंचणूक, इलेसांव
चुनाव अभिमान	निर्वाचना-भियानम्	चोण-मुहिम्म	इंतिख़ाबी मुहिम	चुनावुॅच-मुहिम	चूंड प्रचारु, चुनाव प्रचारु	निवडणूक मोहीम	चूंटणीजंग	वेंचणूक प्रचार

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अल्पसंख्या	अल्प संख्या (खा)	अल्प-संख्या	मशिङ् यामदबा	अल्प संख्या	अल्पँ संख्यँ	चिरुपान्मैयोर्	न्यूनपक्षम्	अल्पसंख्ये
आय-व्ययको विवरण, बजेट	आयव्यय, बाजेट संपर्कित,	बाजेट, आय-व्ययक, प्राक्कलित आय-व्ययक	चागा-चादिङ्, बजट	आयब्यय अटकल, बजेट	आदायँ-व्ययालु	वड्जॅट्, वरवु सॅलवु तिट्टम्	बड्जट्टॅ, वरवुचिलवु-कणक्कुॅ	बजेट्
उपचुनाव	उपनिर्बाचन	उप-निर्बाचन	मरक्की मीखल	उपनिर्बाचन	उपँ ऍन्निकलु	इडैत्ततेर्दल	उपतिरञ्ञॅटुप्पुॅ	उपचुनावणे
उपसभापति, उपसभामुख	उप-सभापति	उपसभापति	उपसभापति, डिपुटी चेयरमेन	उपसभापति	उपसभापति	तुणैत्तलैवर्	उपाध्यक्षन्	उपसभापति
उपाध्यक्ष, उपसभामुख	उपाध्यक्ष (द्य) (क्ख)	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष, डिपुटी स्पीकर	उपाध्यख्य	उपाध्यक्षुडु	तुणैत्तलैवर्	उपाध्यक्षन्	उपाध्यक्ष
गणपूर्ति, कोरम	गणपूर्ति, कोराम (ई.) (न)	कोराम, यथा-संख्या	कोरम	कोरम, कामचला सभ्य संख्या	कोरम्	कोरम्	कोरुम्	गणपूर्ति, कोटम्
चुनाव	निर्बाचन, भोट	निर्बाचन	मीखल	निर्बाचन, भोट	ऍन्निकँ	तेर्दल्	तिरञ्ञॅटुप्पुॅ	चुनावणे
चुनाव-अभियान	निर्बाचन अभियान (जा)	निर्बाचन-अभियान	मीखल गी भोत् खोंबा	निर्बाचन अभिजान	ऍन्निकलँ प्रचारमु	तेर्दल् पिरचारम्	तिरञ्ञॅटुप्पु प्रचरणम्	चुनावणा प्रचार

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
चुनाव आयुक्त	निर्वाचनायुक्तः	चोण-कमिशनर	इलेक्शन कमिशनर	चुनाव कॅमिशनर	चुनाव कमिश्नर	निवडणूक अधिकारी	चूंटणी अधिकारी	वेंचूणक अधिकारी
जनमत संग्रह	जनमतसङ्ग्रहः	लोकराइ-शुमारी	राय शुमारी (रेफ़रेंडम)	राय शुमॉरी	जनमत संग्रह	जनमत संग्रह	जनमत संग्रह	जनमत संग्रह
तारांकित प्रश्न	ताराङ्कितप्रश्नः	निशानिआ प्रश्न	जवाबतलब सवाल (स्टार्ड क्वेस्चन)	जवाबतलब सवाल	तारोलगु्लु सवालु	तारांकित प्रश्न	तारांकित प्रश्न	तारांकित प्रश्न
निर्वाचक मंडल	निर्वाचकमण्डलम्	चोणकार मंडल	हल्क़ाए-इंतिख़ाब	चुनावुक हलकुॅं	निर्वाचक मंडलु	निवडणूक मंडळ	मतदार मंडल	वेंचणूक मंडळ
निर्वाचक वर्ग	निर्वाचकवर्गः	चोणकार वरग	तबक़ए इंतिख़ाब	वोटर दोंर	निर्वाचक वर्ग	मतदार संघ	मतदार वर्ग	मतदार संघ
निर्वाचक सूची	निर्वाचकसूची	चोणकार सूची	फ़ेह्‌रिस्ते रायदहिंदगान	वोटर लिस्ट	निर्वाचक सूची	मतदारांची यादी	मतदार सूचि (यादी)	मतदारांची सुची
निर्वाचन	निर्वाचनम्	चोण	इंतिख़ाब	वोटिंग, चुनाव	चूंड, इंतिख़ाब	निवडणुक, मतदान	चूंटणी	वेंचणूक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चुनाव-आयुक्त	निर्बाचन-महाध्यक्ष (कमिशनार) (द्ध) (क्ख)	निर्बाचन-आयुक्त	इलेक्शन कमिश्नर	निर्बाचन आयुक्त	ऐन्निकलॆ कमीषनरु	तेर्दल् आणैयर्	तिरञ्ञॆटुप्पु कमिषनर्	चुनावणा आयुक्त, कमीशनर
जनमत सङ्ग्रह	जनमत संग्रह	जनमत-संग्रह	मीयामगी मत खोमजिन्बा	जनमत संग्रह	प्रजाभिप्रायॆ सेकरणॆ	करुत्तु कणिप्पु	रॆफरेंडम्, पोतुजनाभिप्रायम् शेखरिक्कल्	जनमत संग्रहणे
ताराङ्कित प्रश्न	तारका चिह्नित प्रश्न	तारका चिह्नित प्रश्न, तरांकित	मरु ओइबा वाहङ्, स्टार्ड क्वेस्चन	तारा चिन्हित प्रश्न	तारांकितॆ प्रश्नॆ	पिरदान केळ्वि	प्रधान चोद्यम्	नक्षत्रांकित प्रश्ने
निर्वाचक मण्डल	निर्बाचक-मण्डली	निर्बाचक-मंडली	इलेक्सन कमिति	निर्बाचन मंडल	वोटर्लॆ मंडलि	तेर्दल् मन्म्	निर्वाचक मण्डलम्	निर्वाचक मंडलि
निर्वाचक वर्ग	निर्बाचक बर्ग	निर्बाचक-वर्ग	इलेक्टोरेल रोलदा याओरिबा, वोटर, भोटर	निर्वाचक वर्ग	वोटरु वर्गमु	वाक्काळर् कुळु	निर्वाचक वर्गम्	निर्वाचक वर्ग
निर्वाचक सूची	निर्बाचक सूचि	भोटार-तालिका	इलेक्टोरेल रोल, वोटर लिस्ट	निर्बाचन-सूची	वोटर्लॆ जाबिता	वाक्काळर् पटटियल्	निर्वाचक पट्टिक वोट्टर् पट्टिक	निर्वाचक सूचि
निर्वाचन	निर्बाचन, भोट	निर्बाचनी	मीखल, मी खन्बा, इलेक्शन	निर्बाचन	ऍन्निकॆ	तेर्दल्	तिरञ्ञॆटुप्पुॅ	निर्वाचने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
निर्वाचन आयोग	निर्वाचनायोग:	चोण कमिशन	इलेक्शन कमीशन	चुनाव कॅमिशन	चुनाव कमीशन, चुनाव आयोग	निर्वाचन आयोग	चूंटणी पंच	वेंचणूक आयोग
निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचनक्षेत्रम्	चोण-खेतर	हलक़ा-ए-इंतिख़ाब	इंतिखाबुक हलकुँ	चुनाव क्षेत्र	मतदान क्षेत्र	चूंटणी क्षेत्र	वेंचणूक क्षेत्र
प्रतिनिधित्व	प्रातिनिध्यम्, प्रतिनिधित्वम्	प्रतिनिधता	नुमाइंदगी	नुमायंदुँगी	एवज़ीपणो, नुमाइंदगी, प्रतिनिधिता	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधीत्व
प्रश्न-अवधि	प्रश्नकाल:	प्रशनकाल	वक़्फ़ा-ए सवालात	सवालुँक वखुँत	सवाल लाइ वक्तु, प्रश्न-काल	प्रश्नोत्तराची वेळ	प्रश्न समय	प्रस्नावळ-वेळ
बजट	आय-व्यय-पत्रकम्	बजट	बजट	बजट	बजेट	अंदाज पत्रक, बजेट	बजेट, अंदाज पत्र, अंदाज पत्रक	बजेट, अंदाज पत्रक
बहुमत	बहुमतम्	बहुमत्त	कस्रते राय	कसरति राय	घणाई, <u>ब</u>हुमत	बहुमत	बहुमति	भौमत

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्वाचन आयोग	निर्बाचन आयोग, इलेक्सन कमिशन	निर्बाचनी-आयोग	इलेक्शन कमीशन, मीखनगी कमीशन	निर्बाचन आयोग	ए॑न्निकल॑ संघमु	तेर्दल् आणैक्कुळु	तिरञ्ञॆटुप्पु कमिषन्	निर्वाचन आयोग
निर्वाचन क्षेत्र	निर्बाचन क्षेत्र (खे)	निर्बाचन-क्षेत्र	मीखनगी मफम, कन्स्टिचुअन्सी	निर्बाचन क्षेत्र (खेत्र)	नियोजक॑ वर्गमु	तेर्दल् तॊगुदि	तिरञ्ञॆटुप्पु मण्डलम्, निर्वाचन मंडलम्	निर्वाचन क्षेत्र
प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व	मीहुत ओइबा नत्रगा हाप्पा	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्वमु	पिरदिनिदित्तवम्	प्रातिनिध्यम्	प्रतिनिधित्व
प्रश्नकाल	प्रश्न-अबधि, प्रश्नोत्तर काल	प्रश्नोत्तर-काल	वाहङ्गी मतम	प्रश्न-काल	प्रश्नल-समयमु	केळ्वि नेरम्	चोद्यसमयम्	प्रश्नेय अवधि
बजेट	बाजेट, आय-बय्येर आनुमानिक हिसाब	बाजेट, आय-ब्ययक, आनुमानिक-आय-ब्ययक	बजट	बजेट, बार्षिक आय-ब्ययर हिसाब, आयव्यय लेखा	बड्जॆट्टु	बड्जॆट्, वरवु चेलवु तिट्टम्	बड्जट्ट्	बजेट्, अंदाजु पत्र
बहुमत	संख्या गरिष्ठता (खा)	बहुमत	मत मशीङ् यांबा	बहुमत, संक्षा गरिष्ठता	बहुजनाभिप्रायमु	पॆरुंपान्मै	भूरिपक्षम्	बहुमत

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बहुसंख्यक	बहुसंख्यक	बहुगिणती	अक्सरियत	अकसॅरियथ, स्यठ तैदाद	घणाईअ वारी (धुरि वग़ैरह)	बहुसंख्य	बहुमति	भौसंख्यक
मत	मतम्	मत्त	राय (वोट)	राय	वोट, मतु	मत	मत	मत
मतदाता	मतदाता	मत्तदाता	राय दहिंदा (वोटर)	वोटर	वोटर, मतदाता	मतदार, मतदाता	मतदार (मतदाता)	मतदाता
मतदान	मतदानम्	मत्तदान	रायदही (वोटिंग)	वोट द्युन	वोटिंग, मतदानु	मतदान	मतदान	मतदान
मतपत्र	मत्तपत्रम्	मत्तपत्तर	बेलेट-पेपर (रायनामा)	वोट	वोट जो काग़ज़ु, मतपत्रु	मतपत्रिका	मतपत्र	मतपत्र
मतपेटी	मतपेटी	मत्तपेटी	बेलेट-बाक्स	वोटॖ सॊंदूख	वोटनि जी पेती, मतपेती	मतपेटी	मतपेटी	मतपेटी
मताधिकार	मताधिकारः	मत्त-अधिकार	हक़्क़े-रायदही	वोटुक़ हख	वोट जो हकु, मत-अधिकारु	मताधिकार	मताधिकार	मताधिकार
राज्य सभा	राज्यसभा	राजसभा	राज्य सभा	राज्य सबा	राज्य सभा	राज्यसभा	राजसभा, राज्यसभा	राज्यसभा

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बहुसंख्यक	बहुसंख्यक (ख)	बहुसंख्यक	मशिङ् हेन्बा	बहुसंख्यक	अधिक संख्याकुलु	पॅरुंपान्मैयान	भूरिपक्षक्कार्	बहु संख्येय
मत	मत, राय, भोट	मत, भोट	मत	मत, भोट	अभिप्रायमु, वोटु	वाक्कु	सम्मति, वोट्टुँ	मत, ओटु
मतदाता	भोटदाता	मतदाता	मत पीबा मी, भोटर	मतदाता, भोटर	वोटरु	वाक्काळर्	सम्मतिदायकन्, वोट्टर्	मतदार
मतदान	भोटदान	मतदान, भोटदान	भोटिंग, वोटिंग, भोट पीबा	मतदान, भोट	वोटिंगु	वाक्कळिप्पु	मतदानम्, वोट्टॅटुप्पुँ	मतदान
मतपत्र	भोटपत्र	भोट-पत्र, बेलट-पेपार	भोत की चे, बेलेट पेपर	मतदान पत्र, भोट कागज	ब्यालटु पेपरु	वाक्कुच्चीट्टु	बालट्टु पेप्पर्	मतपत्र
मतपेटिका/ मतपेटी	भोट बाक्स	भोटर-बाकच, गुप्तभोटर-बाकस	भोत की उपु, बेलेत बोकस	भोट बाकस, मतदान बाकस	ब्यालटु पॅट्टॅ	ओट्टुप्पॅट्टि	वोट्टु पॅट्टि	मतद पेट्टिगे
मताधिकार	मताधिकार, भोटाधिकार	मताधिकार, भोटाधिकार	भोत यादबगी अधिकार	मतदान अधिकार, भोट अधिकार	वोटिंगु हक्कु	वाक्कुरिमै	वोट्टवकाशम्	मताधिकार
राज्यसभा	राज्य सभा (ज्ज)	राज्य-सभा	राज्य सभा	राज्यसभा	राज्यॅ सभॅ	मानिलङ्गळ् अवै	राज्य सभ	राज्यसभे

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
लोक सभा	लोकसभा	लोक सभा	लोक सभा	लोक सबा	लोक सभा	लोकसभा	लोकसभा	लोकसभा
वयस्क मताधिकार	वयस्क-मताधिकारः	बालग मत्त-अधिकार	बालिग़ हक़्क़े-रायदही	बालेंग-हकि-रायदिही	बालिग़ वोट जो हक़ु, बालिग़ मत अधिकारु	प्रौढमताधिकार	प्रौढ़मताधिकार	वयस्क मताधिकार
वाचन	वाचनम्	पढ़त, वाचन	ख़ांदगी	बिल परूॅन्य	पढ़िणी, वाचनु	वाचन	वांचन	वाचन
विधान	विधानम्	विर्धान	आईन, क़ानून, दस्तूर	कोनून, ऑयीन	विधानु, कानूनु	राज्य घटना, विधान	बंधारण	विधान
विधान परिषद्	विधानपरिषद्	विधान-परिशद	क़ानून साज़ कौंसिल	कोनून बनावन वाजेन्य सबा	विधान परिषद	विधान-परिषद	बंधारण सभा	विधान परिषद्
विधान-मंडल	विधानमण्डलम्	विर्धान-मंडल	मुक़न्निना	लेजिस्लेचर	विधान मंडलु	विधान मंडळ	विधान परिषद	विधान मंडळ
विधान-सभा	विधानसभा	विर्धान-सभा	क़ानून साज़ एसंबली	लेजिस्लेटिव असंबॅली	विधान सभा	विधान सभा	धारासभा	विधान-सभा
विधि-निर्माण	विधिनिर्माणम्	कानून साज़ी	क़ानून साज़ी	कोनून सॉज़ी	कानूनी रचना	विधि निर्मिती	विधान, धारो	विधी-निर्माण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लोकसभा	लोकसभा	लोक-सभा	लोक सभा	लोकसभा	लोक॑ सभ॑	नाडाळुमन्ऱम्	लोक सभ	लोकसभे
वयस्क्- मताधिकार	बयस्क- भोटाधिकार	बयसस्थ- भोटाधिकार	भोत थादबा याबगी चही माताङ्, बोयोस	साबालक- मताधिकार	वयस्कुल॑ वोटिंगु हक्कु	वयदुवंदोर् वाक्कुरिमै	प्रायपूर्त्ति वोट्टवकाशम्	वयस्क मताधिकार
बाचन	वाचन(ब) पठन	पाठ, पाठन	पाबा, हायबा	बिवृत्ति पाठ	वाचनमु	पडित्तल्, वासिप्पु	वायन	पठन
विधान	विधान (ब), नियम, आइन	बिधान, नियम अधिनियम	नियम, आइन	बिधान, नियम	विधानमु	चट्टम्	नियमनिर्माणम्	विधान
विधान- परिषद	विधान- परिषद् (ब)	बिधान- परिषद	विधान सभा	बिधान- परिषद	विधान॑ परिषत्तु	चट्ट मेलवै	नियम- सभ	विधान परिषत्तु
विधान- मण्डल	विधान- मंडली (ब)	बिधान- मंडल	विधान मंडल, आइन शेमबा काङ्बु	बिधान- मंडल	विधान॑- मंडलि	चट्ट अवै	नियमसभा मंडलम्	विधान मंडलि
विधानसभा	विधान- सभा (ब)	बिधान- सभा	विधान सभा	बिधान- सभा	विधान॑ सभ॑	चट्ट मन्ऱम्	नियम सभ	विधान सभे
विधिनिर्माण	बिधि- निर्माण	बिधान- निर्माण बिधि-निर्माण	नियम शेंबा, आइन शेंबा	नियम निर्माण, नियम-प्रणयन	चट्ट॑ निर्माणमु	चट्टम् इयट्रुदल	नियम सभ	विधि- निर्माण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
विधेयक	विधेयकम्	विधेयक	बिल	बिल, कोनूनुक मसवदुॅ	बिलु	विधेयक	बिल, नवा कायदानो खरडो विधेयक	विधेयक
विपक्ष	प्रतिघः	विपक्ख	हिज़्बे-मुख़लिफ़	मुखॉलिफ दोर्	मुख़ालिफ़ धुरि	विपक्ष	विपक्ष, विरोधपक्ष	विपक्ष
विरोधी दल	विरोधिदलम्	विरोधी धड़ा	मुख़लिफ़ पार्टी	मुखॉलिफ जमाथ	मुख़ालिफ़ पार्टी, विरोधी पार्टी	विरोधी दळ	विरोधी पक्ष	विरोधी दळ, पंगड
संविधि	संविधिः	संविधी, विधान सभा दा लिखती कानून	दस्तूर	इंतिज़ॉमी	संविधी, इंतिज़ाम, दस्तूर	संविधी	बंधारणीय पद्धति, धाराकीय पद्धति	बंधारणीय पद्धती, संविधी
संसद	संसद्	संसद, पारलीमेंट	पार्लिमान (पार्लियामेन्ट)	पारिलिमेंन्ट	संसद, पार्लियामेंट	संसद	पार्लामेन्ट	संसद
संसद सदस्य	संसत्सदस्यः	संसद मैंबर	मेंबरे पार्लियामेन्ट (एम.पी.)	मेंबर पारलिमेंन्ट	संसद सदस्य, पार्लियामेंट मेंबर	संसद-सदस्य	संसदसभ्य, पार्लमेन्टनो सभ्य	संसद सदस्य
सत्तारूढ़ दल	सत्तारूढदलम्	सत्ताधारी पक्ख	हुकमराँ जमाअत	हुकमरान जमाथ	सताधारी पार्टी, हुकुमरान पार्टी	सत्तारूढ़ दल	सत्ताधारी पक्ष	सत्ताधारी पक्ष

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विधेयक	विधेयक (ब), बिल	बिल, बिधेयक	बिल	बिधायक	विधेयकमु, बिल्लु	मशोदा	बिल्	विधेयक
विपक्ष, प्रतिपक्ष	विपक्ष (ब) (क्ख), प्रतिपक्ष	बिपक्ष	अतोप्पा मायकै	बिपक्ष, बिरोधि गोष्ठी	प्रतिपक्षमु	एंदिर् कट्चि	प्रतिपक्षम्	प्रतिपक्ष
विरोधी दल	विरोधी दल (ब), बिपक्ष दल	बिरोधी-दल	बिरोधी दोल	बिरोधी दल	विरोध वर्गमु	एंदिर् कट्चि	प्रतिपक्ष कक्षि	विरोधी पक्ष
ऐन	संविधि (ब), सांविधानिक विधि नियम	संबिधि कार्य-बिधि	सभाना शेंबा आइन	कार्यबिधि, कार्यरीति	स्टेट्यूटु	चट्टमुरै	स्टाट्यूट्	लिखित शासन, कानूनु
संसद	संसद पार्लामेंट	संसद	संसद, पार्लियामेन्ट	संसद	पार्लमेंटु	पार्लिमेंटु/ नाडाळुमन्रम्	पार्लिमेण्ट्	पार्लिमेंटु, संसत्तु
संसद-सदस्य, सांसद	संसद-सदस्य (स्स), सांसद	संसदी-सदस्य, संसद-सभ्य	एम. पी., संसद की मेंबर	संसद सदस्य	पार्लमेंटु सभ्युडु	नाडाळुमन्र उरुप्पिनर्	पार्लिमेण्ट् अंगम्	पार्लिमेंट्-सदस्य, संसत्त सदस्य
सत्तारूढ-दल	क्षमतासीन (ख) दल	शासनाधिष्ठ-दल	शासन पायरिबा दोल	शाशक दल, क्षमतासीन दल	अधिकार वर्गमु	आळुम् कट्चि	भरण कक्षि	आडळित-पक्ष

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
सत्रावसान	सत्रावसानम्	इजलास उठाई	इल्तिवा	जलसुँ मुलतॅवी करुन	सत्र जी समाप्ती	अधिवेशन, समाप्ती, सत्रावसान	सत्रावसान, सत्र समाप्ती	अधिवेशन समाप्ती
सभापति	सभापतिः	सभापती	सदरे-जलसा (चेयरमैन)	सदरि मॅजलिस	सभापती	सभापती	सभापति, चेरमेन	सभापती
सर्वजनीन मताधिकार	सार्वजनीन-मताधिकारः	सरबमत्त-अर्धिकार	आम-हक़्क़े-रायदही	आम राय दिहंदगी हुंद हख	सर्वजन मत-अधिकारु, आम राय हक़ु	सर्वाजनिक मताधिकार	सर्वजनीन मताधिकार	सार्वजनीक मताधिकार
स्थगन	स्थगनम्	मुलतवी	इल्तिवा	मुलतवी	मुहिमली, मुल्तवी	तहकूबी	मोकूफी	विलंबन
संस्कृति	संस्कृतिः	संस्कृति, सभ्याचर	सक़ाफ़त	सक़ाफ़त	संस्कृती	संस्कृती	संस्कृति	संस्कृती
दर्शन	दर्शनम्	दरशन	फ़ल्सफ़ा	फलसफुॅ	दर्शनु	तत्व ज्ञान	तत्व ज्ञान	तत्वज्ञान
आत्मा	आत्मा	आतमा	रूह	आत्मा, रूह	आत्मा, रूह	आत्मा	आत्मा	आत्मा
आस्तिक	आस्तिकः	आसतक	खुदाप्रस्त	बगवान मानन वोल	आस्तिकु, मञींदड़ु	आस्तिक	आस्तिक	आस्तीक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सत्रावसान	अधिबेशन-समाप्ति	अधिबेशनर परिसमाप्ति	मीफम लोइशिनन्खिबा	अधिबेसन समाप्ति	संषनु समाप्ति	कूट्टत्तॉडर् निऱैवु	सम्मेळनावसानम्	अधिवेशनद मुक्ताय
सभापति, सभामुख	सभापति, चेयारम्यान	सभापति	सभापति, चेयरमेन	सभापति	सभापति	अवैत्तलैवर्	सभापति, स्पीक्करु	सभापति
सर्वजनीन मताधिकार	सर्वजनीन भोटाधिकार	सार्बजनीन-मताधिकार	मीयामगी ओइना भोत थादबगी अधिकार	सार्बजनीन मताधिकार	सार्वजनिक वोटिंगु हक्कु	मक्कळ् वाक्कुरिमै	पॉतु वोट्टवकाशम्	सार्वत्रिक मताधिकार
स्थगन	मुलतबि	स्थगन, स्थगित	यैथोक्पा	मुलतबि	आपुदल, वायिदा	ऑत्तिवैप्पु	माट्टि वय्क्कल	मुंदूडुविके, स्थगित-गोळिसुविकैके
संस्कृति	**संस्कृति**	**संस्कृति**	**संस्कृति, नात्**	**संस्कृति**	**संस्कृति**	**पण्पाडु**	**संस्कारम्**	**संस्कृति**
दर्शन	**दर्शन**	**दर्शन**	**दर्शन, येङ्बा, मीतयेङ्**	**दर्शन**	**वेदांतमु**	**तत्तुवम्**	**दर्शनम्**	**तत्वशास्त्र**
आत्मा	आत्मा (आँत्ता)	आत्मा	आत्मा, थवाइ	आत्मा	आत्म	आत्तुमा	आत्मावुँ	आत्म
आस्तिक, ईश्वरवादी	आस्तिक, ईश्वर बिश्वासी	आस्तिक	लाइ थाजबा	आस्तिक	आस्तिकुडु	आस्तिकन्, आत्तिकन्	आस्तिकन्	आस्तिक

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ईश्वर	ईश्वरः	ईशवर	ख़ुदा	दय, बगवान	ईश्वरु	ईश्वर	ईश्वर	ईश्वर
उपवास	उपवासः	वरत, उपवास	रोज़ा	फार्कुं	उपवासु	उपवास	उपवास	उपास
गिरजाघर	ख्रिस्तीय पूजालयः, चर्चम्	गिरजाघर	गिरजा	गिरजि	गिरजाघरु, देवलि	चर्च	गिरजाघर (ख्रिस्ती देवळ, चर्च)	इगर्ज, चर्च
जनेऊ	उपवीतम्	जंजू, जनेऊ	जुन्नार (जनेऊ)	योनि, यग्योपवीत	जणियो	जानवे	जनोई	जानवे
तंत्र	तन्त्रम्	तंतर	तंतर	तंतुॅर	तंत्रु	तंत्र	तंत्र	तंत्र
तीर्थ	तीर्थम्	तीरथ	ज़ियारत (ज़ियारत गाह)	तीरथ	तीर्थु	तीर्थ	तीर्थ	तीर्थ
नास्तिक	नास्तिकः	नासतक	दहरिया (मुल्हिद्)	दयस न मानन वोल,. नासत्यख, कॉफिर	नास्तिकु	नास्तिक	नास्तिक	नास्तीक
पाप	पापम्	पाप	गुनाह	पाफ, गोंनाह	पापु	पाप	पाप	पाप
पुण्य	पुण्यम्	पुन्न	कारे सवाब, कारे-ख़ैर (सवाब)	पोॅन्य, सवाब	पुण्यु, पुञु	पुण्य	पुण्य	पुण्य
भूत-प्रेत	भूतः, प्रेतः	भूॅत-प्रेत	भूत-प्रेत	बूत-प्रॅथ, जिन	भूतु-प्रेतु	भूत-प्रेत, भूत-खेत	भूत-प्रेत	भूता-प्रेता

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ईश्वर	ईश्वर (श्श.)	ईश्वर	लाइ, इश्वर	ईश्वर	भगवंतुडु	कडवुळ्	ईश्वरन्	ईश्वर
उपवास	उपोस, उपवास, ब्रत	उपबास, लघोन	चरा हेन्बा	उपबास	उपवासमु	उपवासम्	उपवासम्	उपवास
गिर्जाघर	गिर्जा, चॉर्च	गीर्जाघर, चर्च, गीर्जा	चर्च	गिर्जाघर	चर्चि	माता कोयिल्	क्रिस्तीय पळ्ळि	चर्चु
जनै, ब्रह्मसूत्र	पइता, उपबीत	लगुण, यज्ञ-सूत्र	लूगुन	उपबीत, पइता	जंदेमु	पूणूल्	यज्ञेपवीतम्, पूणूल्	जनिवार
तंत्र	तंत्र (मंत्र)	तंत्र	मंत्र	तंत्र	तंत्रमु	तंत्रम्	तंत्रम्	तंत्र
तीर्थ	तीर्थ	तीर्थ	तीर्थ, लाइफम	तीर्थ	तीर्थ स्थानमु	पुण्णियत्तलम्	पुण्यतीर्थम्, पुण्यस्थलम्	तीर्थ
नास्तिक, अनिश्वर-वादी	नास्तिक, अनिश्वरबादी	नास्तिक	लाइ थाजदबा	नास्तिक	नास्तिकुडु	नास्तिकन्, नात्तिकन्	नास्तिकन्	नास्तिक
पाप	पाप	पाप	पाप	पाप	पापमु	पावम्	पापम्	पाप
पुण्य	पुण्य (न्न)	पुण्य	पुन्य	पुण्य	पुण्यमु	पुण्णियम्	पुण्यम्	पुण्य
भूत-प्रेत	भूत-प्रेत	भूत-प्रेत	भुत-प्रेत, लाइ फत्तबा	भूतप्रेत	भूतालु-प्रेतालु	पेय् पिशासु	भूतवुम्, प्रेतवुम्, पेयुम् पिशाचुम्	भूत-प्रेत

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मंत्र	मन्त्रः	मंतर	अमल	मंथुॅर	मंत्रु	मंत्र	मंत्र	मंत्र
शैतान	दुष्टः	शतान, शैतान	शैतान	शेतान	शैतानु	सैतान	सेतान (शेतान)	म्हारु
पूजा-अर्चना	**पूजा-अर्चना**	**पूजा-अरचना**	**इबादत व रियाज़त**	**पूजा त अर्चना**	**पूजा-पाठु**	**पूजाअर्चा**	**पूजाअर्चना, पूजापाठ**	**पुजा-अर्चा**
अखंड पाठ	अखण्ड-पाठः	अखंड पाठ	अखंड पाठ, लगातार वाज़	अखंड पाठ	अखंड पाठु	अखंड पाठ	अखंड पाठ	अखंड पाठ
आरती	आर्तिक्यम्	आरती	आरती	आरथी	आरती	आरती	आरती	आरती
उपासना	उपासना	उपासना	इबादत	वोंपासना, अबादथ	उपासना	उपासना	उपासना	उपासना
जपमाला	जपमाला	जपमाला	तस्बीह	ज़पुॅमाल	जापमाला	जपमाळ	जपमाळा (ला)	जपमाळ
धूप	धूपः	धुप्प	धूप	दूॅपुॅ	धूपु	धूप	धूप	धूप
नमाज़	नमाजम्	नमाज़	नमाज़	न्यमाज़	नमाज़	नमाज	नमाज (झ), बंदगी	नमाज़
पादरी	धर्मोपदेशकः	पादरी	पादरी	पादुॅर्य	पादरी	पाद्री	पादरी, ख्रिस्ती, धर्मोपदेशक	पाद्री

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मंत्र	मंत्र	मंत्र	मंत्र, लाइशोन तीनशोन	मंत्र	मंत्रमु	मंतिरम्	मंत्रम्	मंत्र
सैतान, पिचास	शयतान	चयतान	शैतान, सरोइ, लाइ फतत्बा	सइतान	दय्यमु	सैत्तान्	शयत्तान्, चैकित्तान	सैतान
पूजा-अर्चना	**पूजा-अर्चना**	**पूजा-अर्चना**	**पुजा, ईरात-थौनि**	**पूजा अर्चना**	**पूजँ-अर्चन**	**पूजै-अरुच्चनै**	**पूजयुम् आराधनयुम्**	**पूजे, अर्चने**
अखण्ड पाठ	अखंड पाठ, अबिराम पाठ	अखंड-पाठ, अबिराम-पाठ	लेत्तना पाबा	अखंड पाठ	एकाहमु, अखंड संकीर्तन	अकंड परायणम्	अखंड पारायणम्	अखंड पाठ
आरती	आरति	आरति	आरती	आरती	आरति	आरति, दीपारादनै	दीपाराधन	आरति
उपासना	उपासना	उपासना	लात्पा	उपासना	उपासन	उपासनै	उपासन	उपासने
जपमाला	जपमाला	जपमाला	माला चत्पा	जपमाला	जपमालि	जपमालै	जपमाल	जपमाले
धूप	धूप, धुनो	धूप	धुप	धूप	धूपमु	दूपम्	धूपम्	धूप
नमाज	नामाज (नमाज)	नामाज़	नमाज	नमाज	नमाजु	तॉऴगै, नमाज्	नमास्, निस्कारम्	नमाजु
पादरी, फादर	पादरि, फादार	पादुरी, पाद्री	पादरी	पाद्री	फादरी	पादिरियार्	पातिरि	पादरी

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पूजा	पूजा	पूजा	पूजा, इबादत	पूज़ाह, अबादथ	पूॼा	पूजा	पूजा, पूजन	पूजा
प्राणायाम	प्राणायाम:	प्राणायाम	हब्सेदम्	प्रानायाम	प्राणायामु	प्राणायाम	प्राणायाम	प्रणायाम
प्रार्थना	प्रार्थना	प्रारथना	दुआ, गुज़ारिश	ज़ॉरी, विलुॅज़ार, प्रारथना	प्रार्थना	प्रार्थना	प्रार्थना	प्रार्थना
मस्जिद	मुस्लिमपूजा-गृहम्	मसीत, मसजिद	मस्जिद	मॅशीद	मस्जिद	मशीद	मस्जिद	मशीद
मूर्ति	मूर्तिः	मूरती	मूर्ती	मूरथ	मूर्ती	मूर्ती	मूर्ति (र्त्ति), मूरत, प्रतिमा	मुर्ती
रोजा	उपवासः	रोजा	रोज़ा	रोज़ुॅ	रोज़ो	रोजा	रोजा	रोज़ा
वेदी	वेदी	वेदी	व़ेदी	प्यॅंड	वेदी	वेदी	वेदी (वेदि)	वेदी
श्राद्ध	श्राद्धः	सराध	शराध	श्राद	श्राधु	श्राद्ध	श्राद्ध	श्राद्ध
संध्या	सन्ध्या	संधिया	संध्या, शाम	संद्या	संध्या, संझा	संध्या	संध्या	संध्ये, संध्यी
रिश्ते-नाते	सम्बन्धी	रिशते-नाते	रिश्ते-नाते	ऑशनाव, रुॅशनाव	रिश्तो-नातो	नातीगोही	सगावहालां	नातेवाइक

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूजा	पूजा	पूजा	पुजा	पूजा	पूजॅ	पूजै/ वळिपाडु	पूज	पूजे
प्राणायाम	प्राणायाम (ना)	प्राणायाम	स्वर सान्नबा	प्राणायाम	प्राणायाममु	प्राणायामम्	प्राणायामम्	प्राणायाम
प्रार्थना	प्रार्थना	प्रार्थना	हायजबा	प्रार्थना	प्रार्थनॅ	प्रार्तनै/ वेण्डुदल्	प्रार्थन	प्रार्थने
मस्जिद	मसजिद	मचिद, मचजिद	मस्जिद	मस्जिद	मसीदु	मसूदि	मुस्लिम पळ्ळि	मसीदि
मूर्ति	मूर्ति	मूर्ति	मुर्त्ति, शक्तम	मूर्त्ति	विग्रहमु	विग्गिरहम्/ शिलै	विग्रहम्	मूर्ति, विग्रह
रोजा, उपवास	रोजा, रमजानेर समय उपवास	रोजा	रोजा	उपबास समय	ऑक्कॅ पॉद्दु	नोन्पु, रोजा	नॉय्म्पुॅ	रोजा
वेदी	बेदि (दी)	बेदी	फंबाक, काङ्थक्	बेदी	वेदिकॅ	बलि पीडम्	वेदि	वेदिके
श्राद्ध	श्राद्ध	श्राद्ध, शराध	षाद्ध, सोरात	श्राद्ध	श्राद्धमु	बलि पीडम्	श्राद्धम्	श्राद्ध
संध्या, साँझ	संध्या (द्धा)	संध्या	याचङ्बा	संध्या	संध्यॅ	संदियावंदनम्	संध्यावंदनम्	संध्या
नातागोता, नाताकुटुंब	**संपर्क**	**संबंध, संपर्क**	**मरि- मता**	**बंधु-बांधव, रक्त-संपर्क**	**बांधव्यमुलु**	**उरविनम्**	**बंधङ् ङळ्**	**बळग- संबंध**

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
काका	पितृव्य:	चाचा	चचा	ज़्युठ प्यॅतुॅर	काको	काका	काका	काका
चचेरा भाई	पैतृव्य:	चचेरा भ्रा	चचेरा भाई	पितुर बोय	सौटु	चुलत भाऊ	पित्राईभाई	चुलत भाव
चचेरी बहन	पैतृव्या	चचेरी भैंण	चचेरी बहन	पितुॅर बेनि	सौटि	चुलत बहीण	पित्राईबहेन	चुलत भयण
चाचा	पितृव्य:	चाचा	चचा	प्यतुॅर	चाचो	काका, चुलता	काका	काका
चाची	पितृव्या	चाची	चची	पेंचन्य	चाची	काकी, चुलती	काकी	काकी
जमाई	जामाता	जवाई	दामाद	ज़ामतुर	नाठी, दामाद	जांवई, जमात	जमाई	जांवय
जेठ	ज्येष्ठ:	जेठ	जेठ	ज़्युठ द्रुय	वड़ो ड़ेरु	वडील दीर	जेठ	व्हडलो दीर

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काका, कान्छाबाबा	काका, खुड़ो, चाचा	खुरा, वर देउता सरू देउता	खुरा, काका	कका, ककैइ	पॅदनान्न	पॅरियप्पा	वलियच्छन्	चिक्कप्प, काका
कान्छा-बाबाको छोरा, भाइ	खुड़तुतो भाइ	खुरार-पुतेक	खुरागी मचा खुराना पोक्पा मयांब-मनाओ	कका-पुअ भाइ	पिनतंड्रि कॉडुकु	चिट्ट्प्पा मकन्	चिट्ट्प्पन्ट् मकन्	चिक्कप्पन-मग
कान्छा-बाबाकी, छोरी, बैनी	खुड़तुतो बोन	खुरार-जीयेक	खुराना पोक्पा मचे-मचन	कका-झिअ भउणि	पिनतंड्रि कूतुरु	चिट्ट्प्पा मगळ्	चिट्ट्प्पन्ट् मकळ्	चिक्कप्पन-मग
कान्छाबाबा	काका, चाचा	खुरा खुरा	खुरा	कका (पितृव्य), ककैइ	पिनतंड्रि	चित्तप्पा, चिट्ट्प्पन्	चिट्ट्प्पन्	चिक्कप्प
कान्छीआमा	काकी, काकीमा, चाची	खुरी	इंदोन	खुड़ी	पिन्नतल्लि, पिन्नि	चित्ति	चॅरियम्म, पितृसहोदरपत्नि	चिक्कम्म
जुवाइँ, ज्वाइँ	जामाइ, जामाता	जोंवाइे, जामाता	ममाक	जुआंइ (जामाता), जोंइं	अल्लुडु	माप्पिळ्ळै, मरुमगन्	मरुमकन्, मकलट् भर्तावुॅ, जामातावुॅ	अळिय
पतिका दाई	भासुर, पतिर वड़ भाइ	जेठाल	मतै	पतिर बड़ भाई, देढ़शूर	भर्तॅ अन्न	मैत्तुनर, कणवनिन् अण्णन्	भर्ताविन्ट् ज्येष्ठन्	भाव

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
जेठानी	ज्येष्ठानी	जठाणी	जेठानी	ज़िठ दॅरकाकन्य	व<u>ड्</u>डी <u>ड</u>ेराणी	थोरली जाऊ	जेठाणी	व्हडली जाव
दादा	पितामह:	दादा	दादा	बुड्यबब (मॉल्य)	<u>डा</u><u>डो</u>	आजोबा, वडिलाचे वडिल	दादा (पितामह)	दादा
दादी	पितामही	दादी	दादी	नान्य (मॉल्य)	<u>डा</u><u>डी</u>	आजी (वडिलाची आई)	दादी (पितामही), वडियाई	दादी
दामाद (जमाई)	जामाता	जवाई, परौह्णा	दामाद	ज़ामतुर	नाठी	जामात, जांवई	दामाद, जमाई	जांवय
देवर	देवर:	दिओर	देवर	द्रुय	<u>ड</u>ेरु	दीर	दियर, दियेर, देर, देवर, देवरियो	दीर
देवरानी	देवराणी, यातृ:	दराणी	देवरानी	दुॅरकाकन्य	<u>ड</u>ेराणी	जाऊ	देराणी	धाकली/धाकटी जाव
ननद	ननान्दृ:	ननाण	ननद	ज़ाम	निणान	नणंद	नणंद, नणदी	नणंद

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जेठानी	बड़ जा	जा, जेठा	मचे	पतिर बड़ भाइर पत्नी, बड़ जा	पॅद्द तोडिकोडलु	कणवनिन् ओरगत्ति, अण्णन् मनैवि	चेट्टत्ति, ज्येष्ठपत्नि	नेगेण्णि
बाजे, हजुरबा	ठाकुर दादा, दादामशाइ	कका, कका देउता	मपुबोक	पितामह, बडभाइ	तातॅ, अब्बॅ	(तंदैवळि) तात्ता	मुत्तश्शन्, पितामहन्, अप्पूप्पन्	तात
बाज्यै, हजुरआमा	ठाकुरमा, दिदिमा	आइता	मबेनबोक	आई	अव्वॅ, नायनम्मॅ	(तंदैवळि) पाट्टि	पितामहि, मुत्तश्शि अम्मूम्म	अज्जि
जुवाइँ, ज्वाइँ	जामाइ	जोंवाइ	ममाक नुपा	ज्वांइ, पुत्रीर पति	अल्लुडु	माप्पिळ्ळै, मरुमगन्	मरुमकन्, मकळुटॆ भर्तावुँ, जामातावुँ	अळिय
देवर	देवर (ब), देओर, पतिर छोट भाइ	देवर, देओर	मनाओ नुपा	दिअर	मरिदि	कणवनिन् तंबि	भर्ताविन्टे अनुजन्	मैदुन
देवरानी	छोट जा	जा जेठी	मनाओ नुपी	दिअर पत्नी, सान जा	चिन्न तोडिकोडलु	कणवनिन् तंबियिन् मनैवि, ओरगत्ति	भर्ताविन्टे अनुजन्टॆ पत्नि, मच्चुनि	ओरगित्ति
नंदु	ननद	ननद, ननंदी	मनम्मा, मचननुपी	नणंद	आडॅ पडुचु	नात्ति	नात्तुन्	नादिनि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
ननदोई	ननान्दृपतिः	ननाणवईआ	नंदोई	ज़ामियि	निणान जो घोटु	नणदिचा नवरा	नणदोई	नणंदो
नातिन	दौहित्री	दोह्ती	नवासी	कोरि हुंज़ कूर, ज़ॅर	डोहिटी	नात	दोहित्री	नाती, नात
नाती	दौहित्रः	दोह्ता	नवासा	ज़ुर, कोरिहुंद नेंचुव	ड॒ोहिटो	नातू	दौहित्र	नातू
नाना	मातामहः	नाना	नाना	बुड्यबब (माजि)	नानो	आजोबा	नाना, आजो	आजोबा
नानी	मातामही	नानी	नानी	नान्य (माजि)	नानी	आजी	नानी, आजी	आजी
पति	पतिः	पती, खावंद	शौहर (ख़ाविंद)	रून, खानुॅदार, बरथा	घोटु, मुड़िसु, पती	पति, नवरा	स्वामी, पति (घणी), कंथ	पती, घोव, घरकार
पत्नी	पत्नी	वहुटी, पत्नी, तीवीं	ज़ौजा, बीवी	कोॅलय	ज़ाल, जोइ, पत्नी	बायको, पत्नी	पत्नी, वहु	पतीण, बायल, घरकान्न

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नंदुका पति	ननदाइ	ननद-पति, ननद-स्वामी	मचन नत्रगा मनम्मा लौबा नुपा तादा, मबाइ, मशेल	नणंदेई	आडॅ पडुचु भर्त	नात्तियिन् कणवन्	नात्तून्टॅ भर्तावुँ	नादिनिय-गंड
नातिनी	नातनी	नातिनी	मशुनुपी, मचानुपीगी मचानुपी	नातुणी	मनमरालु	पॅण्वयिट्टु पेत्ति	मकळुटॅ मकळ्, चॅरु मकळ्	मोम्मगळु
नाति	नाति	नाति	मशुनुपा	नाति	मनमडु	पॅण्वयिट्टु पेरन्	(चॅरु मकन्) मकळुटॅ मकन्	मोम्मग
बाजे, हजुरबा	दादु, दादामशइ	आइर-पितृ आता	ममापोकपा मपुबोक	अजा	तातॅ (तल्लि तंड्रि)	तात्ता (तायिन् तंदै)	मुत्तश्शन् (अम्मयुटॅ अच्छन्)	तात
बज्यै, हजुरआमा	दिदिमा	(आइर फालर) आइता माता मही	ममापोक्पा मबेन्बोक	आई	अम्मम्मॅ	पाट्टि (तायिन् ताय्)	मुत्तश्शि (अम्मयुटॅ अम्म)	अज्जि
पति, लोग्ने	स्वामी, वर	पति, गिरियेक, स्वामी	मवा, मपुरोइबा	पति, स्वामी	भर्त	कणवन्	पति, भर्तावुँ	गंड, पति
पत्नी, स्वास्नी	स्त्री, बधू पत्नी	पत्नी, घैणी भार्या, गृहिणी	मतु, नुपी	पत्नी, स्त्री	भार्य	मनैवि	पत्नि, भार्य	हेण्डति, मडदि, भार्ये, पत्नि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
परदादा	प्रपितामहः	पड़दादा	परदादा	बड्डुँ- बुड्यबब	परड़ाड़ो	पणजोबा	परदादा	पणजोबा
परदादी	प्रपितामही	पड़दादी	परदादी	बड्डुँ नान्य	परड़ाड़ी	पणजी	परदादी	पणजी
परपोता	प्रपौत्रः	पड़पोतरा, पड़पोता	पड़पोता	नैंचिव्य सुँदिस- नैंचिव्य सुंद नैंचुव	परपोटो	पणतू	प्रपौत्र	पणटू
परपोती	प्रपौत्री	पड़पोतरी, पड़पोती	पड़पोती	नेंचिव सुंज़ि कोरि हुन्ज़ कूर	परपोटी	प्रपौत्री, पणती	प्रपौत्री	पणटूर, पणटूल
पिता	पिता	पिओ, पिता	वालिद	मोल	पीउ, पिता	वडिल, पिता	पिता, बाप	बापूय
पुत्र	पुत्रः	पुत्तर, पुत्त	बेटा	नेंचुव	पुटु, पुत्रु	मुलगा	पुत्र (दीकरो)	पुत, चेडो
पुत्री	पुत्री	धी	बेटी, दुख़्तर	कूर	धीउ, पुत्री	मुलगी	पुत्री (दीकरी)	धूव, च़ली
पोता	पौत्रः	पोतरा, पोता	पोता	नैंचिव्य सुंद नैंचुव, ज़ुर	पोटो	नातू	पौत्र	नातू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जीबा	प्रपितामह	आजो– कका	मबूधौपुरेन	पणजेजे	मुत्तातँ	कॉळ्ळु– त्तात्ता	प्रपितामहन्	मुत्तज्ज
ज्यामा	प्रपितामही	आजो– आइता	मबेनवोक	पणजेजी	मुत्तव्वँ	कॉळ्ळुप्पाट्टि	प्रपितामहि	मुत्तज्जि
पनाति	प्रपौत्र	आजो– नाति	मचागी मशुनुपा, शुथाङनुपा	पणनाति	मुनिमनमडु	कॉळ्ळुप्पेरन्	प्रपौत्रन्	मरिमग
पनातिनी	प्रपौत्री	आजो नातिनी	मचागी मशुनुपी शुथाङनुपी	पणनातुणी	मुनिमनमरालु	कॉळ्ळुप्पेत्ति	प्रपौत्रि	मरिमगळु
पिता, बाबा	पिता, बाबा	देउता, पिता	मपा	पिता, बापा	तंड्रि	तंदै, अप्पा	पितावुं, अच्छन्	तंदे, अप्प
पुत्र, छोरा	पुत्र, छेले	पुत्र, लरा, पो मता संतान	मचानुपा	पुत्र, पुअ	पुत्रुडु, कुमारुडु	मगन्	पुत्रन्, मकळ्	मग, पुत्र
पुत्री, छोरी	कन्या, मेये (न्ना)	जीयरी, जी, छोवाली पुत्री, कन्या	मचानुपी	झिअ, पुत्री, कन्या	कुमार्त, कूतुरु	मगळ्	पुत्रि, मकळ्	मगळु
नाति	पौत्र	नाति पौत्र	मशुनुपा	नाति, पौत्र	मनमडु	पेरन् (मगनिन् मगळ्)	पौत्रन्, मकन्टे मकन्	मोम्मग

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
पोती	पौत्री	पोतरी, पोती	पोती	नेचिव्य सुॅन्ज़ कूर, ज़ुॅर	पोटी	नात	पौत्री	नात
फूफा	पितृष्वसृपतिः	फुफ्फड़	फूफा	पोॅफुव	पुफड़ु, फूफो	आत्याचा नवरा, आतोबा	फुआ	आतो
फूफी (बुआ)	पितृष्वसृः	भूआ	फूफी	पोॅफ	पुफी, फूफी	आत्या	फोई (फुई)	आत्या
फूफेरा भाई	पैतृष्वसेयः	फुफेर भॅरा	फूफेरा भाई	पोॅफतुर बोय	पुफाटु	आते भाऊ	फोईनो दीकरो भाई (फोइयात भाई)	आतेभाव
फूफेरी बहन	पैतृष्वसेयी	फुफेर भैंण	फुफेरी बहन	पोॅफतुर बेॅनि	पुफाटि	आतेबहीण	फोईनी दीकरी बहेन (फोइयात बहन)	आतेभयण
बहंन	भगिनी, स्वसृः	भैंण	बहन, हमशीरा	बेॅनि	भेण	बहीण	बहेन	भयण
बहनोई	भगिनीपतिः	भॅणवैया, भॅाइया, जीजा	बहनोई	बेमुॅ	भेणीवियो	मेहुणा (बहिणीचा नवरा)	बनेवी, जीजाजी	मेवणो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नातिनी	पौत्री, नात्नी	नातिनी, पौत्री	मशुनुपी	नातुणी, प्रौत्री	मनमरालु	पेत्ति (मगनिन् मगळ्)	पौत्रि (मकन्टे मकळ्)	मोम्मगळु
फुपा	पिसे, पिसा, पिसे मशाइ	पेहा	मामा	पिउसा	मेनत्त भर्त	अत्तै पुरुषन् अत्तिम्पेर्	पितृसहोदरियुडे भर्तावुँ	सोदरत्तेय गंड, माव
फुपू	पिसि, पिसिमा	पेही	मने	पिइसी	मेनत्त	अत्तै	पितृसहोदरि	सोदरत्ते, अत्ते
फुपूका छोरा	पिसतुतो भाइ	पेहीर पुतेक	मनेगी मचानुपा, मबाई	पिइसी पुअ भाइ	मेनत्त कॉडुकु	अत्तान्, अत्तैमगन्	पितृसहोदरियुडे मकन्	सोदरत्तेय मग
फुपूकी छोरी	पिसतुतो बोन	पेहीर जीयेक	मनेगी मचानुपी, मनाओनुपी	पिइसोझिअ भउणी	मेनत्तँ कूतुरु	अत्तंगाळ् अत्तैमगळ्	पितृसहोदरियुटे मकळ्	सोदरत्तेय मगळु
बैनी (दीदी वा बैनी)	बोन, भगिनी	भनी (छोटी बहन), बाइ (बड़ी बहन), बाइदेउ	मचन, मनाओ	भउणी	अक्कँ (बड़ी), चॅल्लॅलु (छोटी)	तंगै/ अक्का	सहोदरि, पॅङ्ङळ्	सोदरि, अक्क, तंगि
भिना, भिनाजु	भगिनीपति, बोनाइ	भनी-स्वामी, भनीर गिरियेक, बाइदेअर-स्वामी	मचननुपी लौबा नुपा, मबाइ	भिणोइ, भगिनी-पति	बावॅ	अक्का पुरुषन्	सहोदरी भर्तावुँ, अळियन्	सोदरिय गंड

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बहू	पुत्रवधूः	नूँह	बहू	नोंश	नुंहुं, कुंआरि	सून	वहु	सून
बाप	पिता	पिओ	बाप, वालिद	मोल	पीउ	पिता, वडील	बाप, पिता	बापूय
बुआ	पितृष्वसृः	भूआ	फूफी	पोंफ	पुफी, फुफी	आत्या	फोईबा	आत्या
बेटा	पुत्रः	पुत्तर, पुत्त	बेटा	नेचुव, गोबुर, कोंट	पुटु	मुलगा	बेटो, दीकरो	चलॉ, चेड़ो
बेटी	पुत्री	धी	बेटी	कूर, कॅट	धीउ	मुलगी	बेटी, दीकरी	चली, चेडू
भतीजा	भ्रातृव्यः	भतीजा	भतीजा	बापुँथुँर	भाइटियो	पुतण्या	भत्रीजो	भाचो
भतीजी	भ्रातृव्या	भतीजी	भतीजी	बावर्जुं	भाइटी	पुतणी	भत्रीजी	भाची

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बुहारी	बउमा, बधूमाता	बोवारी	मौ	बोहू	कोडलु	नाट्टुप्पेण्, मरुमगळ्	मरुमकळ्, वधु	सोसे
बाउ, पिता	बाप, बाबा, पिता	देउता	मपा	बाप	तंड्रि	तंदै, अप्पा	अच्छन्	तंदे
छेमा	पिसिमा	(पितार फालर) जेठाइ	मने	पिइसीमा	मेनत्त	अत्तै	अच्छन्टे सहोदरि, अप्पच्चि, अम्मावि	सोदरत्ते तंदेय, सोदार
छोरा, पुत्र	छेले, बेटा, पुत्रो	पुत्र, लरा पुरुष-संतान	मचानुपा	पुअ, पुत्र	कुमारुडु, कोडुकु	मगन्/ पिळ्ळै	पुत्रन्, मकन्	मग
छोरी, पुत्री	मेये, बेटि, कण्णा (कण्या)	जी, जीयरी	मचानुपी	झिअ	कुमार्ते, कूतुरु	मगळ्, पेण्	पुत्रि, मकळ्	मगळु
भतिज, भतिजा	भाइपो	भतिजा	मयांबा नत्रगा मनाओगी मचा नुपा	पुतुरा	सोदरुनि कुमारुडु	सहोदरनिन् मगन	सहोदरन्टे मकन्	सोदरळिय (अण्ण अथवा तम्मन मग)
भतिजी	भाइझि	भतिजि	मयांबा नत्रगा मनाओगी मचानुपी	झिआरी	सोदरुनि कुमार्ते	सहोदरनिन्, मगळ्	सहोदरन्टे मकळ्	सोदर सोसे (अण्ण अथवा तम्मन मग)

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
भाई	भ्रातृ	भ੍ਰਾ, भाई	भाई	बोय	भाउ	भाऊ	भाई	भाव, इरमांव
भानजा (भांजा)	भागिनेयः	भਣੇਵਾਂ, भਾਣਜਾ	भानजा	ब्यनथुर	भाणेजो	भाचा	भाणेज (भाणो), भाणियो	भाचो
भानजी (भांजी)	भगिनेयी	भਣੇਵੀਂ, भਾਣਜੀ	भानजी	बेंनजुं	भाणेजी	भाची	भाणी, भाणकी	भाची
भाभी	भ्रातृजाया	भਾਬੀ, भਰਜਾਈ	भाभी	बॅयकाकन्य	भाभी, भाजाई	वहिनी	भाभी, भोजाई	भाभी, वैनी
माँ (माता)	माता	माँ (माता), अम्मा	मा	मॉज	माउ	आई	बा, मा, माता	आवय, माऊली
मामा	मातुलः	मामा	मामूँ	माम	मामो	मामा	मामा	मामा, मावळो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भाइ (ठूलो वा स्यानो)	भाइ	भाइ ककाइ दादा	मयांबा नत्रगा मनाओ मौपा	भाइ	अन्नॅ (बड़ा), तम्मुडु (छोटा)	सहोदरन्	सहोदरन्	सोदर, अण्ण, तम्म
भान्जा	बोनपो, भाग्नी	भागिन	मचे नत्रगा मनाओ नुपी नत्रगा मचननुपीगी मचा नुपा	भणजा	मेनल्लुडु	मरुमगन् (सहोदरियन् मगन्)	अनंतिरवन्, भागिनेयन्	अक्क अथवा तंगिय मग
भान्जी	बोनझि	भागिनी	मचे नत्रगा मनाओ नुपी नत्रगा मचननुपीगी मचानुपी	भाणिजि	मेनकोडलु	मरुमगळ् (सहोदरिसिन् मगळ्)	अनँन्तिरवळ् भागिनेयि	अक्क अथवा तंगिय मगळु
भाउजु, भाउज्यू	बउदि, बौदि, बोउदि	बौ नउदि	मतैमा नत्रगा मनम्मा	भाउज	वदिनॅ	अण्णि, मन्नि	सहोदरन्टॆ भार्य	अत्तिगे (अण्णन हेण्डति)
आमा	मा (माता)	मा, आइ, माइ, जननी, मात	ईमा (उत्तम पुरुष) ममा (मध्यम पुरुष) नमा (अन्य पुरुष)	मा (माता), बोउ	अम्मॅ	अम्मा, ताय्	अम्म	अम्म, ताइ
मामा	मामा	मामा	मामा	मामु	मामय्यॅ	मामा	अम्मावन्, मामन्	मामा (माव)

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
मामी	मातुलानी	मामी	मुमानी	मामन्य	मामी	मामी	मामी	मामी, मावळण
मौसा	मातृष्वसृपतिः	मासड़	ख़ालू	मासुव	मासड़ु	मावशीचा नवरा	मासा	मावसो
मौसी	मातृष्वसा	मासी	ख़ाला	मास	मासी	मावशी	मासी (शी)	मावशी
समधिन	सम्बन्धिनी	कुड़मणी	सम्धन	सोंन्यन्य	सेणि	विहीण	वेवाण	वेण
समधी	सम्बन्धिन्	कुड़म	सम्धी	सोंन्य	सेणु	व्याही	वेवाई	वेय
ससुर	श्वशुर	सौह्‌रा	सुसर, खुसर	ह्युहुर	सहुरो	सासरा	ससरो	माव, ससरो
साढ़ू	श्यालीपति	सांढू	हमज़ुल्फ़, साढ़ू	सॉजुव, सॉजवुँ	संढू, हमज़ुल्फ़	साडू	साढु	साडू

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माइजु, माइज्यू	मामी, मामीमा	मामी	इने (उत्तम पुरुष) मने (मध्यम पुरुष) नने (अन्य पुरुष)	माईं	अत्तय्यॅ	मामि	अम्मावि, मामि	मामि
काका	मेसोमशाइ	महा	खुरा, काका	मउसा	पॅत्तल्लि भर्त, पिनतल्लि भर्त	चिट्टप्पा (ताव्वळि)	चिट्टप्पन्	चिक्कप्प (तायिय तंगिय गंड)
काकी, छेमा	मासी, मासिमा	माही	इंदोमचा, इमाबोक	माउसी	पॅत्तल्लि, पिनतल्लि	चित्ति (ताव्वळि)	चिट्टम्म, चिट्ट	चिक्कम्म (तायियतंगि)
सम्धिनी	बेयान, बेहान (आ)	बियनी	ङाइशेल	समंधुणी, समुदुणी	विय्यपुरालु	संबंदि अम्माळ्	वरन्टॆ/ वधुविन्टॆ अम्म	बीग
सम्धी	बेयाइ, बेहाइ (आ)	बियै	इचानुपा/ नुपीगी मकुबोक, मबाइ	समंधी, समुदि	विय्यंकुडु	संबंदि	वरन्टॆ/ वधुविन्टॆ अच्छन्	बीगिति
ससुरा	श्वशुर (शो)	शहुर	मकू	शशूर	मामॅ	मामनार्	श्वशुरन्, अम्मायि अच्छन्	माव
साढु	भायरा भाइ	शालपति	मतुगी मनाओनुपीगी नुपा	सढू	षड्कुडु	सकलै, षड्डकर्	भार्या सहोदरियुटे भर्तावुॅ	षड्क

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
साला	श्यालः	साला	साला, बिरादरे निस्बती	हॅहर	सालो	मेहुणा	साळो	मेवणो
साली	श्याली	साली	साली	साल	साली	मेहुणी	साळी	मेवणी
सास	श्वश्रूः	सस्स	खुशदामन, सास	हश	ससु	सासू	सासु	मांय, सासुं
सौत	सपत्नी	सौकण	सौत, सौतन	सॉन	पहाज़, सौतन	सवत	शोक, उपपत्नी	सवत
सौतेला भाई	सापत्नः, वैमात्रेयः	मतरेआ भरा	सौतेला भाई	वोरुॅ बोय	माटेजो भाउ/ माटेलो भाउ	सावत्र भाऊ	सावको भाई	सवतो भाव
सौतेली बहन	वैमात्रेयी	मतरेई भैंण	सौतली बहन	वोरुॅ बेंनि	माटेजी भेण/ माटेली भेण	सावत्र बहीण	ओरमान बहेन (सावकी बहेन)	सवती भयण
सौतेली माँ (विमाता)	विमाता	मतरेई, मतेई माँ	सौतेली माँ	वोरुॅ मॉज	माटेली माउ	सावत्र आई	सावकी मा, ओरमान मा	सवती आवय

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साला	शाला	जेठेरी खुलशालि	मशेन नुपा	शला	बाव मरिदि	मैत्तुनन् (मनैवियिन् सोदरन्)	अळियन्, भार्या सहोदरन्, स्यालन्	हेण्डतिय तम्म
साली	शाली, रयालिका	खुलशाली	मनाओनुपी	शाली	मरदलु	मैत्तुनि (मनैवियिन् सोदरि)	भार्या सहोदरि	हेण्डतिय तंगि अथवा अक्क
सासु	शाशुड़ि	शाहु	मनेम	शाशू	अत्त	मामियार्	श्वश्रु, अम्मायि अम्म	अत्ते
सौता	सतीन, सपत्नी	सतिनी, सपत्नी	लोन्नबी	साबत, सउतुणि	सवति	चक्कळत्ति	सपत्नि	सवति
सौतेनी दाई/ सौतेनी भाई	सत् भाइ, वैमात्र भाइ	सँतिया-भाइ (सतिनीर पौ भाइ)	पोक्मिननदबा मचिन मनाओ	साबत भाई	सवति सोदरुडु	माट्टा ताय् मगन्	चॅरियम्मयुटॆ मकन्	मलतम्म अथवा मलअण्ण
सौतेनी बैनी/ सौतेनी दीदी	सत्बोन, वैमात्र बोन	सँतीया-वाइ, सँतिया भनी (सतिनीर जीयरी)	पोकमिन्नदबा मचे-मचल	साबत भउणी	सवति सोदरि	माट्टांताय् मगळ्	चॅरियम्मयुटॆ मकळ्	मलतंगि अथवा मलअक्क
सौतेनी आमा	सत्मा, विमाता	माही आइ	पोक्तबी ममा	सावत मा	सवति तल्लि	माट्टांताय्, चिंति	इळयम्म, चॅरियम्म	मलतायि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
संस्कार	**संस्कारा:**	**संसकार**	**मज़हबी मरासिम**	**संस्कार**	**संस्कारु**	**संस्कार**	**संस्कार**	**संस्कार**
अंत्येष्टि	अन्त्येष्टि:	किरिआ करम	ऑख़िरी रुसूम	मरनुक संस्कार (अनच़ेठ)	आखिरी क्रियाकर्मु	अंत्येष्टी	अंत्येष्टि	निमाणो संस्कार, अंत्यसंस्कार, इंतेर
नामकरण	नामकरणम्	नामकरन	नामरखाई	नाव करुन, सोंन्दर	नामकरणु, नालोरखाई	नामकरण	नामकरण	नांव दवरप, नामकरण
मुंडन	चूडाकरणम्	झंड, मुंडन	अक़ीक़ा (मुंडन)	ज़रुँ कासय	मुनणु	मुंडण	चौल संस्कार, वाळमोवाळा, उतरावावानो संस्कार	मुंडन
यज्ञोपवीत	उपनयनम्	जंजू, जनेऊ	जुन्नारबंदी (जुन्नार पोशी)	मेखल, योनि	जणियो	जानवे, यज्ञोपवीत	यज्ञोपवीत	जानवे
विवाह	विवाह:	विआह	शादी (निकाह, ब्याह)	खाँदर, नेथुँर	शादी, विहांउ	लग्न, विवाह	विवाह (लग्न)	लगीन, काजार
सैन्य	**सैन्यशब्दा:**	**फौजी**	**फौजी**	**फूजी**	**सेना-संबंधी**	**सैन्य**	**सैन्य**	**सैन्य**
आयुध	आयुधम्	हथिआर, शसतर	अस्लिहा (हथयार)	जंगी हथियार	हथियारु	शस्त्र, हत्यार	आयुध, हथियार	शस्त्रा, आयुध

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संस्कार	**संस्कार**	**संस्कार**	**संस्कार**	**संस्कार**	**संस्कारमुलु-कर्मलु**	**चडंगुगळ्**	**अटियंतिर-ङ्ङ्ळ्**	**संस्कार**
अंत्येष्टी, दाह-संस्कार	अंत्येष्टि (ते), दाहसंस्कार	अंत्येष्टिक्रिया कर्म	क्रियाकर्म	अंत्येष्टि	अंत्येष्टि, अंत्यक्रियलु	ईमक्कडन्	अंत्यकर्मम्, शवदाहम्	उत्तरक्रिये, अंतिम संस्कार
न्वारान, नामकरण	नामकरण (न)	नामकरण	ममिङ् थोंबा	नामकरण	नामकरणमु	पेयर् शूट्टल्	नामकरणम्	नामकरण
मुण्डन	मुंडन, मस्तक मुणुन	मुण्डन	लू कोक्पा	मुंडन	पुट्टु वेंट्रुकलु, मुंडनमु	मुडि ऍड्डुतुल्	मुंडनम्	मुंडन
जनै, ब्रह्म सूत्र, यज्ञोपवीत	यज्ञोपवीत, पैते (ज) (ब)	यज्ञोपवीत, लगुण	लूगुन थाङ्बा	जज्ञोपवीत (पइता)	जंध्यमु, वडुगु	पूणूल	यज्ञोपवीतम्	जनिवार
विवाह, बिहे	बिबाह, बिये	बिया, विवाह, परिणय	लूहोङ्बा	बिबाह	विवाहमु, पॅळ्ळि	तिरुमणम्	विवाहम्	मदुवे, विवाह, लग्न
सैन्य	**सैन्य (न), फौज, सैनिक**	**सैन्य**	**लान्मीगी**	**सेना**	**सैन्यमु**	**सेनै/ पडै**	**सैन्यम्**	**सैन्य**
आयुध	आयुध, अस्त्रशस्त्र	अस्त्र-शस्त्र	खुत्लाइ	आयुध, अस्त्र-शस्त्र	आयुधमु	आयुदंगळ्	आयुधम्	आयुध

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
कमान	धनुः	कमान	कमान	कमान	कमानु	कमान	कमान, कामठुं (धनुष)	कमान
कवच	कवचम्, सन्नाह	कवच	ज़िरह (ज़िरह बकतर)	ज़रुँ बख्तर	कवचु	कवच, चिलखत्त	कवच (बखतर)	कवच
कवायद	व्यायामः	कवाइद	क़वाइद	कवॉयिद	क़वाइद	कवाईत	कवायत, ड्रिल, लश्करी तालीम, परेड	कवायत
किला	दुर्गः	किला	क़िला	किलुँ	किलो	दुर्ग, किल्ला	किल्लो, कोट, दुर्ग,	किल्लो
किलाबंदी	व्यूहरचना	किलेबंदी	क़िलाबंदी	किलुँ बंदी	क़िलेबंदी	किल्ल्याला दिलेला वेढा, तटबंदी	किल्लेबंधी (दी)	किल्लाबंदी
खड्ग	खड्गः	खड्ग	तेग़, तलवार, शमशीर	तलवार	तलवार	तलवार, खड्ग	खडग (तलवार)	खड्ग
गढ़	दुर्गम्, कोटः	गढ़	गढ़, क़िला	किलुँ	गढु	गड, दुर्ग, किल्ला	गढ, किल्लो, पर्वत, परनो कोट	गढ, दुर्ग
गारद	रक्षकगुल्म	गारद	गारद (पहरा)	गारद	गार्ड, पहरेदारु	पहारेकरी, गार्ड, रक्षक	गारद	गार्ड
गोला	विस्फोटकः	गोला	गोला	गोलुँ	गोलो, बमगोलो	गोळा (तोफेचा)	गोळो	गोळो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कमान	कामान	कामान, टोप	तेंदोङ	कमाण, तोप	विल्लु	विल्	विल्लुॅ	बिल्लु
कवच	कबच, कबज	कवच, बर्म	हक्कन	कबच	कवचमु	कवचम्	कवचम्, चट्ट	कवच
कवाज, फौजी रफ़्त	कुचकाओयाज, प्यारेड (पै)	पेरेड, कुचकावाज	सिपाइगी क्वाज	काइदा, नियम, सेनार जुद्धकरिबा नियम	व्यायाममु, ड्रिल्लु	उडर्पयिर्चि	कवात्तुॅ, ड्रिल्	कवायतु
किल्ला	केल्ला	दुर्ग	लान्बन्	किल्ला (दुर्ग)	कोट	कोट्टै	कोट्ट	कोटे, किला
किल्ला-बँदी, घेराउ	केल्लाबंदी, केल्ला घेराड	अवरोध	लानबन् शेम-शाबा	किल्लाबंदी (दुर्ग-अबरोध)	व्यूहरचन	मुट्टुगै यिडल्	व्यूहरचन	कोटेयन्नु भद्र पडिसुवुदु
तरवार	खड्ग, तरोबारि	खड्ग, तरोवाल	थाङ्शाङ्	खड्ग, खंडा	खड्गमु	वाळ्	वाळ्, खड्गम्	खड्ग
गढी, किल्ला, दूर्ग	गड़, दुर्ग	गड़, दुर्ग	लान्बन	गड़, दुर्ग	दुर्गमु	कोट्टै	दुर्गम्, कोट्ट	कोटे
गारद	गारद,	रखीया, प्रहरी	गार्ड	प्रहरी	सैनिक कावलि	पाराक्कारन्	पारावुकारन् कावल्कारन्	कावलु
गोला	गोला	गुली	बम	गुली	गुंडु	पीरंगि गुण्डु	पीरंकियुण्ट, वेंटियुण्ट	गुंडु

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
गोली	गोलिका	गोली	गोली	गूल्य	गोली	गोळी (बंदूकीची)	गोळी	गोळी
घेरा	उपरोधः	घेंरा	घेरा	गेरुँ	घेरो	वेढा	घेरो	घेरो
छावनी	स्कन्धावारः	छावणी	छावनी	छावनी	छावणी	डेरा, छावणी	छावणी, लश्करी पडाव के मथक	छावणी
जहाज	पोतः	जहाज	जहाज़	जहाज़	जहाजु	नौका, पोत	जहाज़ (मोटुं वहाण)	बोट
जिरहबख्तर	कवचम्	ज़राबख़्तर	ज़िरहबकतर	ज़िरु बखतर	ज़िरह-बख़्तरु	कवच, चिलखत	बखतर, कवच	बखतर
टैंक	विभेदकः	टैंक	टैंक	टैंक	टैंक	चिलखती गाडी, टैंक, रणगाडा	टेन्क, टेंक, रणगाडी	टैंक
ढाल	चर्मन	ढॅाल	ढाल (सिपर)	डाल	ढाल	ढाल	ढाल	ढाल
तलवार	असिः	तलवार	तलवार (तेग़)	तलवार	तलवार	तलवार	तलवार,	तलवार
तोप	शतहनी	तोप	तोप	तोफ	तोब	तोफ	तोप	तोफ, तोप

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गोली	गुलि	गुलि	नोङमै मरु	गुली	तुपाकि गुंडु	रवै	चॅरिय वॅटियुण्ट	गुंडु
घेरा	घेरा, बेष्टनी	अवरोध बेष्टन	कोयशिन्बा	अबरोध	आवरणमु	मुट्टुगै	वृत्तम्, व्यूहम्	मुत्तिगे
छाउनी	छाउनी	छाउनी, सेना-निवास	लानशङ्	छाउणी	शिबिरमु, कंटोन्मॅंटु	पाशरै	पाळयम्	लष्कर, दंडु
जहाज	जाहाज	रनुआथ्रक बाहन, जाहाज	जहाज	जाहाज	ओड	कप्पल्	कप्पल्	हडगु
कवच	कबच, बर्म	बर्म, कवच	लान्फी, फुरित	कबच	कवचमु	तर्काप्पुकवचम्/ इरुंबु कवचम्	उरुक्कु ताप्पियुम् चट्टयुम्	कवच, चिलकत्तु
टयाङ्क	टैंक	टेंक	तेंक	ट्यांक्	टैंकु	टांकि	टांकु	टैंक्
ढाल	ढाल	ढाल	चुंगोइ	ढाल	डालु	केडयम्	परिच	गुराणि, ढालु
तरवार	तलोयार	तरोवाल	थाङ्शाङ्	तरबारी (खंडा)	कत्ति	वाळ्	वाळ्	कत्ति
तोप	तोप	तोप कमान	तोप	तोप	फिरंगि	बीरंगि	पीरंकि	तोपु, फिरंगि

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
तोपखाना	शतहनीगुल्म्	तोपखाना	तोपख़ाना	तोपखानुँ	तोबख़ानो	तोफखाना	तोपखानुं	तोपखानो
तोपची	शतहन:	तोपची	तोपची	तोप चलावन वोल/तोपची	तोबची	गोलंदाज	तोपची (गोलंदाज)	तोपची
थल सेना	स्थलसेना	थल सैना	बर्रिया (बर्री फौज)	जमीनी फोज	बरी फौज, थल सेना	स्थळ सेना	स्थळसेना, थळसेना	स्थळ सेना
दुर्ग	दुर्ग:	किला	क़िला	किलुँ	किलो	किल्ला, दुर्ग	दुर्ग (किल्लो, कोट)	दुर्ग
धनुर्विद्या	धनुर्विद्या	धनुश विदिआ	फ़न्ने-तीर अंदाज़ी	तीर अंदॉज़ी, हुंद ॲलिम	धनुष विद्या	धनुर्विद्या	धनुर्विद्या	धणुविद्या
धावा	आक्रमणम्	धावा	हमला	हमलुँ	हमलो	चढाई, हल्ला	आक्रमण, हल्लो, हुमलो, चडाई	आक्रमण, हल्लो
ध्वजारोहण	ध्वजारोहणम्	झंडा लहिराउणा	परचमकुशाई, झंडा फैराना	जंडुँ खारुन	झंडा सलामी, झंडो चाढ़णु	ध्वजारोहण	ध्वजारोहण	ध्वजारोहण
ध्वजाव-रोहण	ध्वजावरोहणम्	झंडा लाहुणा	झंडा उतारना	जंडुँ वालुन	झंडो लाहिणु	ध्वजावरोहण	ध्वजावरोहण	ध्वजावरोहण

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तोपखाना	तोपखाना	तोपखाना	तोपथंफम	तोपखाना	फिरंगिशाल	बीरंगि शालै	पीरंकिशाल	तोपुखाने
तोप हान्ने व्यक्ति	तोपचालक, तोपमारेजे, गोलंदाज	तोपचालक	तोप काप्पा मी	तोपचालक, गोलंदाज	फिरंगि काल्चु वाडु	बीरंगि चुडुबवन्	पीरंकिक्कारन्	तोपु हारिसुवव
थलसेना	स्थल बाहिनी	पदातिक बाहिनी	कङ्फाल लान्मी	स्थल बाहिनी, पदातिक बाहिनी	स्थल सैन्यमु	तरैप्पडै	कर सेन	भूसेने
दुर्ग, किल्ला	दुर्ग, केल्ला	दुर्ग	लान्बन	दुर्ग, गड़	दुर्गमु, कोट	कोट्टै	कोट्ट, दुर्गम्	कोटे
धनुर्विद्या	धनुर्बिद्या (द्दा)	धनुर्बिद्या	तेन्काप्पगी महै	धनुर्बिद्या	धनुर्विद्य	विल् विद्दै	धनुर्विद्य	धनुर्विद्ये
धावा, आक्रमण	धाओया करा (आ), आक्रमण	आक्रमण	लांदाबा	आक्रमण	मुट्टडि, आक्रमण	पडैयंडुत्तल्	आक्रमणम्	दाळि
ध्वजारोहण	पताका उत्तोलन	पताका-उत्तोलन	फिराल चिङखत्पा	पताका उत्तोलन, ध्वजारोहण	ध्वजारोहणमु	कॉडि एट्टम्	ध्वजारोहणम्, कॉटियेट्टम्	ध्वजारोहण
ध्वजाव-रोहण	पताका-अबनयन	ध्वजा-रोहण, पताका-अवनयन	फिराल चिङथबा	पताका अबनमन, ध्वजाबरोहण	ध्वजावरोहणमु	कॉडि इरक्कुदल्	ध्वजावरोहणम्, कॉटियिरक्कम्	ध्वजावरोहण

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
नेज़ा	कुन्तः	नेज़ा	नेज़ा	नेज़ुॅ	नेज़ो	बरछी, भाला	निशान (भालो)	भालो
नौसेना	नौसेना	जल सैना	बहरिया (बह्री फ़ौज)	समंदॅरी फोज	बहरी फ़ौज, जल सेना	नौसेना	नौका सैन्य	नौसेना
परेड	प्रयाणम्	परेड	परेड	परेड	परेड	कवायद, परेड	परेड (कवायत)	परेड
पिस्तौल	पुरुषघ्नी	पिसतौल	पिस्तौल	पिस्तोल	पिस्तोल	पिस्तूल	पिस्तोल, तमंचो	पिस्तूळ
पूर्वाभ्यास	पूर्वाभ्यासः	रिहरसल	मश्क़	रिहरसल/ मशिख	मश्क, अभ्यासु	पूर्वाभ्यास	रिहर्सल	येसाय, रिहर्सल
पोत	पोतः	जहाज़	बह्री जहाज़	पान्युक जहाज़	बहरी जहाजु	जहाज	जहाज़	नौका
बंदूक	भुशुण्डी	बंदूक	बंदूक़	बोंदूख	बंदूक	बंदूक	बंदूक, बंधूक	बंदूक
बम	स्फोटास्त्रम्	बम	बम	बम	बमु	बॉंब गोळा	बोंब, बोम	बॉमगुळो
बमवारी	स्फोटवर्षा	बमबारी	बमबारी	बमबॉरी	बमबाज़ी	बॉब वर्षा	बोंबमारो	बॉम़ मारो, गारनाळो
बिगुल	दुन्दुभिः	बिगल	बिगुल	बिगुल	बिगुलु	बिगुल	ब्यूगल	बिगुल

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भाला, बर्छा	भल्ल, बर्शा	दुधारा- तरोवाल याठी	ता	बर्छा	बल्लॅमु	ईट्टि	कुंतम्	भर्चि, भाल
नौसेना	नौसेना	नौसेना, नौवाहिनी	ईशिङ लान्मी	नौसेना	नौका दळमु	कप्पल् पडै	नाविकसेन	नौका सैन्य, जलसेना
परेड	प्यारेड	पेरेड	पेरेड	परेड	परेड्डु, विन्यासमु	परेड्डु	परेड्	परेड्डु
पेस्तोल	पिस्तल	पिस्तल	पिस्तौल	पिस्तल	पिस्तोलु	पिस्टल/ कैत्तुप्पाक्कि	कैत्तोक्कुँ, पिस्टळ्	पिस्तूलु
पूर्वाभ्यास	पूर्वाभ्यास (ब्या)	पूर्वाभ्यास्	रिहार्सन	पूर्वाभ्यास	रिहार्सलु	ऑत्तिगै	परिशीलनम्, रिहर्सल्	पूर्वाभ्यास
जलपोत, जहाज	पोत, जल-जाहाज	जाहाज	जहाज	पोत, जलजाहाज	नौकँ	पडगु	बोट्टॅ	हडगु
बंदुक	बंदुक	बंदुक	नोडमै	बंदूक, बंधुक	तुपाकि	तुप्पाक्कि	तोक्कुँ	बंदूकु
बंब	बोमा	बोमा	बोम	बोमा, बम	बांबु	वॅडिगुण्डु	बोंबुँ	बांबु
बंबबर्षा	बोमा बर्षण	बोमारु, बोमा- वर्षण	बोम थदबा	बोमा माड़	बांबुल वर्षमु	वॅडिगुण्डरिदल	बोंबाक्रमणम्	बोंबु- हाकुवुदु
बिगुल	बिउगल	बिगुल	बेंगुल	बेगुल, बिगुल	बिगुलु	बिगिल्	काहळम्	कहळे, ब्युगुल

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
बेड़ा	पोतगुल्मः	बेड़ा	बेड़ा	जहाजुँ जमाथ	ब॒ड़ो	आरमार	बेडो	नौका समूह
भरती दफ्तर	नियोजन-कार्यालयः	भरती दफ़्तर	भरती दफ़्तर	बॅरथी दफतर	भर्ती आफ़ीस	भरती कार्यालय	भरती कचेरी	भर्ती कार्यालय
भाला	कुन्तः	भाला	नेज़ा	बलम, नेजुँ	भालो	भाला	भालुं, भालो	भालो
मुख्यालय	मुख्यालयः	सदर मुकाम	सद्र मुक़ाम	सदर दफतर	हेड आफ़ीस	मुख्यालय	सदर, मुकाम	मुख्यालय
युद्धपोत	युद्धपोतः	जंगी जहाज़	जंगी जहाज़	जंगी जहाज़	जंगी जहाजु	युद्ध नौका	युद्धपोत (युद्धनौका)	युद्ध नौका
युद्धविराम	युद्धविरामः	जंगबंदी	जंगबंदी, युद्धविराम	जंगबँदी	जंगबंदी	युद्धविराम	युद्धविराम	युद्ध विराम
योद्धा	योद्धा	योधा	जंगजू	जेंगी	जोधो	योद्धा	योद्धो, लडवैयो	योद्धा
लड़ाई	युद्धम्	लड़ाई	लड़ाई	लडॉय, जंग	लड़ाई	युद्ध, लढाई	लड़ाई, युद्ध, जंग	झूज

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बेडा	सामरिक पोतबहर, नौबाहिनी	नौबाहिनी	हि/जहाज मयाम थाङ्दुना लैबा	भेला, नौबाहिनी	ओडँ	कप्पल् कूट्टम्	कप्पल् सैन्यम्	नौका समूह
भर्तिकेंद्र	भरति दप्तर, प्रवेश-दप्तर	भर्ति दफ्तर	मिङ्जन लोयशङ्	भर्ती दप्तर	भर्ती कार्यालयमु	आळ् सेक्कुम अलुवलमम्	रिक्रूटिंग आफीस्	भर्ती कार्यालय/कचेरि
भाला, बर्छा	भल्ल, बर्शा	याठि शेल	ता	भाला, बर्छा	बल्लेमु	ईट्टि	कुंतम्	ईटि, भाले
सदरमुकाम, मुख्यालय	प्रधान कार्यालय (जा)	मुख्य कार्यालय	मरुओइबा लोइशङ्, मरुओइबा ऑफिस	मुख्य-कार्यालय	मुख्य कार्यालयमु	तलैमै अगम्, तलैमै चंयलगम्	केंद्र कार्यालयम्	मुख्य-कार्यालय, कचेरि
युद्धपोत, जङ्गीजहाज	रणपोत (न), युद्ध जाहाज, रणतोरी (जु)	युद्ध-जाहाज	लान्गी हि/ जहाज	जुद्ध-जाहाज, जुद्धपोत	युद्ध नौक	पोर्क्कप्पल	पटक्कप्पल्	युद्ध हडगु
युद्धविराम	युद्धबिराम (जु)	युद्ध-बिरति	लान लेप्पा	जुद्धबिराम	युद्धविराममु	पोर् निरुत्तम	युद्ध विरामम्	युद्ध विराम
योद्धा	योद्धा (जो)	योद्धा	लान्मी, लालोय	जोधा, जोद्धा बीर	योधुडु	पोर्वीरन्	योद्धावुँ	सैनिक, योध
लडाइ	लड़ाइ	युद्ध	लाल, लान	लढ़ाइ, जुद्ध	युद्धमु, पोराटमु	चण्डै/ पोर्	युद्धम्	युद्ध, लड़ाई

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
वायुयान	वायुयानम्	हवाई जहाज़	तय्यारा, हवाई जहाज़	हवॉयी-जहाज़	हवाई जहाज़ु	विमान	विमान, हवाई जहाज़, एरोप्लेन	विमान
वायुसेना	वायुसेना	हवाई फौज	फ़िज़ाईया, हवाई फ़ौज	हवॉयी फोज	हवाई फ़ौज, वायु सेना	वायु सेना, हवाई दल	हवाई सेना (दळ)	वायुसेना
विमान	विमानम्	हवाई जहाज़	तय्यारा (हवाई जहाज़)	हवॉयी जहाज़	विमानु	विमान	विमान	विमान
शिरस्त्राण	शिरस्त्राणम्	सिरटोप	हेल्मेट, ख़ौद	कलुँपोश	मथे जी ज़िरह, टोपु	शिरस्राण	शिरटोप	शिरस्राण
शिविर	कटकम्	छाउणी	कैंप, छावनी	कैंप	कैंप, शिविर	शिबिर, कॅम्प	शिबिर, तंबू, छावणी, केंप	शिबिर
संगीन	छुरिका	संगीन	संगीन	संगीन	संगीन	संगीन	संगीन	तुपाकी, तोफे
संधि	सन्धि	संधी, सुलह	सुलह	सलाह	ठाहु, सुलह	तह	संधि, सुलेह	झूज बंदी ची कबलात
सेना	सेना	सैना	फ़ौज	फोज	सेना, फ़ौज	सैन्य, फौज	सेना (सैन्य), लश्कर, फौज	सेना

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विमान, वायुयान	बिमान, उड़ो जाहाज	वायुयान, उड़ा जाहाज	एरोप्लेन	उडा-जाहाज, बायु-जान	विमानमु	विमानम्	विमानम्	वायुयान
वायुसेना	बिमान बाहिनी	बायुसेना, विमान बाहिनी	नोङथक लान्मी	बायु-सेना	वायुसेन॑	विमानप्पडै	व्योम सेन	वायुसैन्य
विमान, वायुयान	बिमान	बिमान	एरोप्लेन	बिमान	विमानमु	विमानम्	विमानम्	विमान
सिर ढाक्ने कवच, टोपी	शिरस्त्राण (न)	शिरस्त्राण, मूरत पिंधा वर्म	खाङ्तुपी, योतकी तुपी	शिरस्त्राण	शिरस्त्राणमु	इरुंबुत्तोप्पि	उरुक्कु तॉप्पि	शिरस्त्राण
शिविर, छाउनी	शिबिर	शिबिर	लानशङ्	शिबिर	शिबिरमु	मुकाम्, पाशरै, पाळयम्	शिविरम्, पाळयम्	शिबिर
सङ्गीन	संगीन	संगीन	संगीन	संगीन्, बंधुक	तुपाकि मॉन	बयनट्	बयणट्	तुपाकि
संधि	संधि	संधि	संधि, शङ्दाइनबा	संधि	संधि	समादानम्	संधि	संधि, वोप्पंद
सेना	सेना	सेना	लान्मी	सेना	सैन्यमु	पडै	सैन्यम्, पट	सैन्य, सेने

हिंदी	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी	गुजराती	कोंकणी
हमला	आक्रमणम्	हमला	हमला	हमलुॅ	हमलो	हल्ला, आक्रमण	हुमलो, आक्रमण, छापो	हल्लो
हवाई छतरी	वायुछत्रम्	हवाई छतरी	हवाई छतरी, पेराशूट	हवायी छॅतुॅर्य	हवाई छटी, विमानी छटी	हवाई छतरी, पॅराशूट	हवाई छत्री, पॅरेशूट	हवाई सत्री
हवाई हमला	विमानाक्रमणम्	हवाई हमला	हवाई हमला	हवॉयी हमलुॅ	हवाई हमलो	हवाई हल्ला	हवाई हुमलो	हवाई हल्लो

नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हमला	हामला	आक्रमण	लांदाबा	आक्रमण	आक्रमणॅ, दाडि	ताक्कुदल्	आक्रमणम्	दाळि
प्याराशूट	अबतरण-छत्र, प्याराशूट (न)	पेराछुट	पेरासुत	आकाश छता	प्याराचूटु	पारशूट्	पारच्चूट्टु	प्याराशूट
हवाई-आक्रमण	बिमान-आक्रमण (न)	बिमान आक्रमण	नोङथक्ता लांदाबा	विमान आक्रमण	विमानॅ दाडि	विमानत्-ताक्कुदल्	व्योमाक्रमणम्, विमानाक्रमणम्	विमान दाळि

भारतीय भाषा कोश
खंड-2

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अंक	पुं.	1. क्रोड, गोद	अङ्कः	कुच्छड़	आग़ोश, गोद	कौंछ	गोदि	मांडी
		2. संख्या के सूचक चिह्न	अङ्कः	अंक	अदद, हिंदसा	अंक, हिंदसु	अंगु	अंक
		3. परीक्षा आदि में सफलता की सूचक इकाइयाँ (नंबर)	अङ्कः	अंक	नंबर	नंबर	मार्क	अंक, मार्क, नंबर
		4. बहुखंडीय नाटक का एक खंड	अङ्कः	अंक	बाब	पॉथुर	अंकु	अंक (नाटकाचा)
		5. पत्र-पत्रिकाओं का किसी निश्चित समय पर होने वाला प्रकाशन	अङ्कः	अंक	शुमारा	नंबर, शुमारॅ	अंकु, पर्चो	अंक (पत्र-पत्रिकांचा)
अंकुर	पुं.	अँखुआ	प्ररोहः	अंगूरी	कोंपल	ब्योल, तर	सलो	कोंब, अँकुर
अंकुश	पुं.	1. लोहे का काँटा, जिससे हाथी को चलाया और वश में किया जाता है	अङ्कुशः	अंकश, अंकुश	आंकस	टोंग	अंकुश, कुंढो	अंकुश
		2. नियंत्रण, दबाव या रोक	अङ्कुशः	अंकश, अंकुश	इख़्तियार, रोक	च़ेठ	रोक, पाबंदी	नियंत्रण, अडथळा, आडकाठी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंक, गोद, खोळो	मांडी	काख़	क्रोड़, कोल, अंक	कोला	तंपाक्	कोड़, कोल	अंकमु, आंडि	मडि	मटि	तोडे
आंकडो	आंकडो	अङ्क	आँक	चिह्न संख्या	मशिङ्	संख्या	अंकं, संख्यॅ,	एंण्णिक्के	अक्कम्	अंकि
गुण, नंबर	गूण, मार्क	अङ्क, नंबर	नम्बर	रेखा, इकाई, राशि, योग-वियोग	मार्क, नंबर	नंबर	मार्कुलु	मदिप्पॅण् (मार्क्कु), एंण्	मार्क्कु	नंबर, गुणांक
नाटक नो विभाग	अंक	अङ्क	अङ्क (अंक)	नाटकर अंक, कलंक	ताङकक्	नाटकर एक अंश	अंकमु	नाडगत्तिन् कळम्/ अंगम्	अङ्कम्	अंक
अंक	आंक	अङ्क	संख़्या (खा)	संख्या, क्रमांक	चेफोङ मशिङ	संक्षा	संचिकॅ	पत्तिरिगैकळिन् इदळ्	लक्कम्	संचिके
अंकुर, फणगो	आंकरी	टुसो, आँकुरो	आँकुड़, अङ्कूर (अंकुर)	अंकुर, गाजि	मयोल	अंकुर	अंकुरमु	विदैयिन् मुळै	मुळ, अंकुरम्	मॊळके
अंकुश	अंकूश	काँटा, अङ्कुसे	डाङ्गश, अंकूश	अंकुश, आँकुहि, गँज़ाकोह, लांसि	शामू काति	अंकुश	अंकुशमु	अंकुशम्	अंकुशम्, तोट्टि	अंकुश
दाब, काबू	नियंत्रण	बंधन, नियत्रंण, दबाउ	नियंत्रण (न), बाधा	निषेध, बाधा, नियंत्रण	खुदुमदा थंबा, नम्थबा, अथिङ्बा	नियंत्रण, वाधा, निषेध	अदुपु	कट्टुप्पाडु	अंकुशम्, तटस्सम्	तडे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अंग	पुं.	1. शरीर के विभिन्न अवयव	अङ्गम्	अंग	अज़ू, अज़्व	अंग	अंगु, उज़्वो	अवयव
		2. शरीर, देह	अङ्गम्	अंग	जिस्म	अंग	सरीरु, देह	शरीर, देह, अंग
		3. भाग	अङ्गम्	अंग	हिस्सा	बोग, हिसुॅ	अंगु, हिसो	भाग, प्रभाग
अंचल	पुं.	1. सीमा के आस-पास का प्रदेश	अञ्चलः	अंचल	अंचल	हद, बनुॅ	आस-पास जो प्रदेशु	अंचल
		2. आँचल या पल्ला (जैसे साड़ी का)	अञ्चलम्	पल्ला, लड़	आँचल, दामन	पौंछ़	पलउ, आंचलु	पदर
अंडा	पुं.	कुछ विशिष्ट मादा जीवों के गर्भाशय से निकलने वाला एक पिंड	अण्डः	आंडा, अंडा	अंडा	ठूल	अंडो, आनो, बेदो	अंडे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवयव अंग	आंग	अङ्ग	अबयब	अंग	हुक्चाङ् कयात्	अबयव, अंग	अंगमु	अवयवम् , उडलिन् उरुप्पुगळ्	अवयवम्, अंगं	अंग
शरीर, देह	कूड, शरीर	जीउ, आङ	देह, अङ्ग, शरीर	देह, शरीरर स्वतंत्र-यंत्र	हकचाङ्	शरीर, देह	शरीरमु	उडल्	शरीरम्	मै, देह
भाग	भाग	अंश, भाग	विभाग, भाग	भाग, बिभाग, बिषय वस्तुर	शरुक	भाग, बिभाग	भागमु	बागम्, पगुदि	भागम्, अंगम्	भाग
सीमानी आसपासनो प्रदेश	वाठार, प्रदेश	अञ्चल	एलाका, अञ्चल	अञ्चल, देश, प्रदेशर-खण्ड	ङम्खैगी नाकयेत्की लम	अंचल, इलाका	अंचलमु	एल्लै ओरप्पगुदि	अतितिर्त्तिप्रदेशम्, अंचलम्	गडि प्रदेश
आंचल, पालव	पदर	सप्को, आँचल	अञ्चल, आँचल, खुँट	अञ्चल, कापोरर आग	फिजी, फिगी मतोन	अंचल	कांगु	मुंदानै	अंचलम्, कर	अंचु
ईंडुं	तांतीं	फुल, अण्डा, डिंबा	डिम, आण्डा	डिम, आण्डा कणी	मरुम	अंडा	गुड्डु	मुट्टै	मुट्ट, अंडम्	मोट्टे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अंत	पुं.	समाप्ति, अवसान	अन्तः	अंत	ख़ातिमा	अंद	अंतु, पछाड़ी	शेवट, आखेर, अंत
अंतरंग	वि.	1. घनिष्ठ, आत्मीय	अन्तरङ्ग	आपणा, घणा	दिली, जिगरी	पनुन, दिलुक, जिगरुक	घाटो, गहरो	घनिष्ठ, आत्मीय अंतरंग
		2. भीतरी	अभ्यन्तर	अंदरला, अंदरूनी	बातिनी	अँदर्युम, दिली	अंदर्यों, अंदरियों	आँतील
अंतर	पुं.	1. दो वस्तुओं के बीच की दूरी, फासला	अन्तर्	विथ, अंतर	फ़ासला	फरुँख	अंतरु, तफ़ावतु	अंतर
		2. भेद, भिन्नता	अन्तर	भेँद, फरक	फ़र्क़	फरुँख	फ़र्कु	फरक, भिन्नता
अंतरराष्ट्रीय	वि.	एक से अधिक राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंध रखने वाला	अन्ताराष्ट्रिय	अंतरराशटरी	बैनुलअक़्वामी	द्रुस्त समसॉर्य; कुल आलमी	अंतर्राष्ट्रीय, परडे़ही	आंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष	पुं.	पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों या लोकों के बीच का रिक्त स्थान	अन्तरिक्षम्	पुलाड़, अंतरिकश	ख़ला	शिन्या; ख़ला	अंतरिक्ष, आकाश, पोलार	अंतरिक्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंत, छेवट पूर्णाहुति	समाप्त, शेवट, अखेर	अंत्, समाप्ति, अवसान	शेष, समाप्ति, अबसान, अंत	अंत, शेष, अवसान	अरोइबा, लोइशिनबा	समाप्ति, शेष, अबसान, अंत	अंतमु	मुडिवु	अवसानम्, अंतम्	कोने, अंत मुक्ताय
अंतरंग, आत्मीय	लागींचो, घनिश्ट	अंतरङ्ग, आत्मीय, घनिष्ठ	अंतरङ्ग, घनिष्ठ, आत्मीय	अंतरंग, अंतरर संपर्क-युक्त, बंधुत्वपूर्ण	नुङगी ओइबा	घनिष्ठ, आत्मीय	आंतरंगिकमु	नेरुंगिय, आप्तमान	उट्ट, आत्म	आत्मीय
अंदरनुं	भितरलें	भित्रिया	अभ्यतंरगत, भितरेर	भितरुबा, घरुआ, हृदयता	नक्सिन्नबा मशेलगी ओइबा	भितरर	लोपलि	अंतरंगमान	अकत्त	ओळगिन
अंतर	पयसाय, अंतर	दूरी, अंतर, अंतराल	हृदय	माज-भाग, ब्यवधान, आँर	पोत अनिगी मरक्ता लैबा लाजबा	भितर	दूरमु	अंतरंगमान	अकत्त	ओळगिन
भेद, तफावत	भेद, फरक	भिन्नता, भेद, फरक	ब्यबधानी, अंतर	भिन्नता, पार्थक्य	खेन्नबा	दूरता, अंतर, फांक	तेडा, भेदमु	इडैवेंळि	दूरम्	अंतर
आंतररास्ट्रीय	आंतरराष्ट्री	अंतर्राष्ट्रिय	आंत-राष्ट्रीय	आंतर्जातिक, आंतः राष्ट्रीय	लैबाकपुंबगी ओइबा	आंतर्देशिय, आंतर्जातिक	अंतर्जातीयमु	सर्वदेशीय	अंताराष्ट्रीयम्	अंतरराष्ट्रीय
अंतरिक्ष	अंतराळ	अंतरिक्ष, व्योम	अंतरिक्ष (क्ख)	अंतरिक्ष, महाकाश	नोङ्दोल, शुंदरङ्	अंतरिक्ष, महाकाश	अंतरिक्षमु	विण् वेंळि	अंतरीक्षम्	अंतरिक्ष

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अंतिम	वि.	1. सबसे बाद का, आखिरी	अन्तिम	अंतम, आखरी, अखीरला	आख़िरी	अंद्यम; सारिवुँय-पोंतुस	अंतिम, आख़िरी	अंतिम
		2. चरम, परम	अन्तिम	अंतम; अंतला	इंतिहाई, आख़िरी	अंद्युम, सारिवुँय-पोंतुस	–	अंतिम, चरम, परम
अंदर	क्रि.वि.	भीतर	अन्तस्	अंदर	अंदर	अंदर	अंदर	आंत
अंधकार	पुं.	अँधेरा	अन्धकारः	हनेरा	अंधेरा, तारीक़ी	अनिगोंट	अंधकारु, ऊंदहि	अंधकार, अंधार
अंधा	पुं./वि.	देखने की शक्ति से रहित	अन्धः	अन्न्हा	अंधा	ओंन	अंधो	आंधळा
अंश	पुं.	भाग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा	अंशः	अंश	हिस्सा, जुज़्व	अमुश; हिसुँ	अंशु, हिसो, भागु	भाग, हिस्सा, खण्ड, तुकडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंतिम, छेल्लुं, छेवटनुं	निमाणें, अंतीम, चरम	अन्तिम, चरम, परम	आखेर, अंतिम, शेष	अंतिम, शेष	अरोइबा, मनिङ् थङबा	चरम, परम, अंतिम, शेष	अंतिममु, आखरु	मुडिवान	अवसानत्तं	कोनेय
चरम, परम	चरम	चरम, परम	अंतिम शेष, चरम	चरम,परम	मनिङ् थङबा	चरम, परम, अंतिम, शेष	चरमं	–	चरममाय, परममाय	चरम कोनेय
अंदर	भीतर	भित्र	अंदर, भितर	भितरते, माज, अभ्यंतर	मनुङ्	भितर	लोपलं	कडैशियान	चरममाय, परममाय	ओळगे
अंधकार, अंधारुं	काळोख	अँध्यारो, अँधेरो	अंधकार, आँधार	एंधार, अंधकार, आंधार	अमंबा	अंधार	अंधकारमु	उळ्ळे	अकत्तुं	कत्तले
अंध, आंधळो	आंधळो	अंधो	अंध, दृष्टिहीन	अंध, दृष्टिहीन, अज्ञान, विवेचनहीन	ममित् ताङ्बा	अंध	गुड्डि वाडु, गुड्डि	कुरुडान	कुरुटन्, अंधन्	कुरुड
अंश, हिस्सो	वांटो, अंश, कुडको	अंश, भाग, टुक्रा, खण्ड	अंश, खण्ड, टुकड़ा	अंश, खण्ड, भाग, डोखर संपत्ति	शरुक, मचेत	भाग, खण्ड	अंशमु	बागम्, पगुदि, तुंडु	भागम्, अंशम्	तुंडु, चूरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अकड़ना	अ.क्रि.	1. पूरे शरीर का या उसके किसी अंग-विशेष का कड़ा होना, ऐंठना	आ+कड्	आकड़ना	अकड़ना	अकड-करुन, त्रकुरुन	आकड़िजणु, सख़्त थियणु	आक्रसणे, पावणें
		2. घमंड दिखाना या दुराग्रह करना	गर्व, गर्वं प्रदर्शय	आकड़ना	घमंड दिखाना	म्यंग हावुॅन्य	आकड़िजणु	ऐट दाखविणे, घमेंड करणें
अकाल	पुं.	1. दुर्भिक्ष	दुर्भिक्षम्	काल, अकाल	क़हत	द्राग, कॅहत	अकालु, ड्डुकरु	दुष्काळ
		2. कमी, अभाव	अभाव:	काल, अकाल	क़िल्लत	द्राग	अकालु, खोटि	न्यूनता, उणीव
		3. असमय	अकालम्	-	-	-	किल्लत	–
अकेला	वि.	बिना साथी का	एकाकी	कल्ला, इकल्ला	अकेला	कुनुय	अकेलो	एकाकी, एकटा
अक्ल	स्त्री.	बुद्धि, समझ	बुद्धिः	अकल	अक़्ल, समझ	अकॅुल; बोद	अकुलु	अक्कल, समज, बुद्धी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अकडावुं	कडकसाण, घमेंडी, घमेंडखोर	अकडिनु, बिँगुठिनु	कड़ा हओया, टान हओया	कोँच रवा, सिरामूरि-धर	मङक कन्बा, ङक हइगत्बा, लैखत्पा	अकड़िबा, जिद धरिबा	नील्गुट्ट	विरैत्तुप्पोग	तण्डु काणिक्कुक	दिमाकु
अकडावुं	कोरेसांवांचो	तुजुक देखाउनु	देमाक देखानो, अहंकार	दंभालिकार, फिताहि-मार	पोङ्बा	अहंकार	मिडिसि पडुट	गर्वम् कॉळ्ळ	गर्वु काणिक्कुक, वाशि पिटिक्कुक	जंभ माड्डुवुदु, सोक्कुतो-रिसुवुदु
दुकाळ	दुकळ	अनिकाल	दुर्भिक्ष, आकाल, दु:समय	आकाल, दुर्भिक्ष, अनाटन, दु:समय	ईकङ् थोकपा	दुर्भिख्य, अकाल	क्षाममु, करुवु	पंजम्	क्षामम्	अकाल
अछत, अभाव –	उणें, उणाव –	कमी, अभाव अकाल, असमय	कमति, घाटति अभाब	अभाव, नाटनि नोहोबा	अवात्पा –	कम, अभाव –	कॉरत, अकालमु –	कुरैवु –	कुरवुॅ, अभाव –	कोरते –
एकलुं	एकटो	एक्लो, एकल	एकला, नि:सङ्ग, एकाकी	अकलशरीया, लग न थका, एकमात्र	इतोमता/ नतोमता/ मतोमता	एकाकी, एकुटिया, एकला	ओंटरि	तनियान	एकनाय, तनिच्चुळ्ळ	ओंटिग, ओब्बंटिग
अक्कल, बुद्धि	बुद्दी, अक्कल	अक्कल, बुद्धि	बुद्धि, समझदारी, आक्केल	बुधि, ज्ञान, चेतना	लौशिङ्	बुद्धि, ज्ञान	तॅलिवि	बुद्धि, अरिवु	बुद्दि, अरिवुॅ	बुद्धि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अक्षर	पुं.	वर्ण; स्वर और स्वररहित व्यंजन, जो इकाई के रूप में प्रयुक्त हो	अक्षरम्	अक्खर	हर्फ़	अछुर, हरुॅफ	अखरु	स्वर, वर्ण
	वि.	अविनाशी, नित्य	अक्षर	अवनाशी	लाफ़ानी	–	अबिनासी	अविनाशी, अक्षय, नित्य
अक्सर	अव्य.	बहुधा, प्रायः	प्रायः, बहुधा	अकसर	अक्सर	अकसर	अक्सर	नेहमी, प्रायः, बहुधा
अखंड	वि.	जिसके खंड न हुए हों, पूरा, समूचा	अखण्ड	अखंड	ग़ैरमुनक़सिम	सोबूत, सॉलिम	अखंडु	पूर्ण, संपूर्ण
अखबार	पुं.	समाचारपत्र	समाचारपत्रम्	अखबार	अख़बार	अखबार	अख़बार, समाचार पत्र	वर्तमान पत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अक्षर, वर्ण	अक्षर	अक्षर	बर्ण, आखर, अक्षर	बर्ण, आखर, अक्षर	मयेक्	बर्ण, अक्षर	अक्षरमु	एॅळुत्तु	अक्षरम्	अक्षर
अविनाशी	अविनाशी, नित्य	अविनाशी, नित्य, अक्षर	अक्षर, नित्य	अबिनाशी, नित्य	अमाङ् अता लैतबा	अबिनाशी, नित्य, चिरंतन	अनश्वरमु, शाश्वतमु	अळिवट्ट	नशिक्कात्त, नित्यमाय	अविनाशि
प्राय:, घणुं-खरुं, घणुं करीने	परतपरत, जायतेदां	अक्सर, प्राय:	प्राय, आकछार	प्रायेइ, प्राय	अयांबा, तोयना	प्राय, प्रायत:	तरचु	अडिक्कडि, पॅरुंबालुम्	मिक्कवारुम्, साधारण	प्रायश:, साधारणवागि
अखंड, आखुं	अखंड, पूराय सगळो	अखण्ड, सिँगो	अखण्ड, पूरा, संपूर्ण	अखण्ड, पूर्ण, न भगा-न छिगा, अक्षुण्ण	मचेत् तादबा, मपुम	पूरा, संपूर्ण	अखंडमु	तुण्डिक्क-पड़ाद, मुळु	अखंडमाय, पूर्णमाय	अखंड, संपूर्ण
छापुं, समाचार पत्र,	खबरां पत्र	अखबार, खबर कागज, खबर कागत	खबरेर कागज, संबाद पत्र	बातरि काकत, खबर कागत, संवाद-पत्र	खबर, पाओजेन चे	समाचार पत्र, खबर कागज	वार्ता पत्रिकँ	सॅय्दित्ताळ्	वर्तमानपत्रम्	वृत्तपत्रिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अखरना	अ.क्रि.	बुरा या अप्रिय लगना, खलना, खटकना	न/रुच्	अक्खरना	अखरना, खलना	खोश करुन	खटकणु	मनांस लागणे, सलणें, खटकणे
अखाड़ा	पुं.	1. व्यायामशाला, कुश्ती लड़ने का स्थान	व्यायामशाला	खाड़ा, अखाड़ा	अखाड़ा	अखाड़ुँ	आखाड़ो	आखाडा, व्यायामशाळा
		2. साधुओं की सांप्रदायिक मंडली या उनके रहने का स्थान	मठः	–	अखाड़ा	अखाड़ुँ, मठ, आशरम	मठु	मठ
अगर	अव्य.	1. यदि, जो	यदि	जे, अगर	अगर	अगर, हरगाह	अगर, जेकड़िहिं	जर, जरी
	पुं.	2. एक पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है	अगरु	अगर	गर	अगॅर	अगरु	अगर वृक्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खटकवुं	वायट दिसप, अप्रिय दिसप, खटकप	अखनु, अखिनु	अप्रिय लागा	बेया लाग	नुङाइतबा, नुङ्शिदबा, येक्पा	अप्रिय लागिबा	कटुवुगा तोयुट	मनदै उरुत्त	अनिष्टमायि तोन्नुक	चुच्चुवुदु
अखाडो, व्यायाम-शाळा	आखाडो, व्यायामशाळा	अखडा	आखड़ा, ब्यायामशाला	ब्यायामगार, ब्यायामशाला	हकचाङ् शाजेल तौफम	आखड़ा, ब्यायामशाला	व्यायाम-शाल	गुस्ति मैडै, गोदा	गोद, कळरि	गरडिमने
मठ	मठ	अखडा, मठ	बैरागीर आखड़ा, मठ	देवतार स्थान, मंदिर	मयामगीतिन्फम	मठ	मठमु	सादुक्कळिन् मडम्	संन्यासिमठम्	शिबिर
जो, अगर	जर	यदि, जो	यदि (ज)	यदि, एनेहेले, बिकल्पे	वदि	जदि, जद्यपि	अयिते	आल्	एंङ्किल्	ओंदुवेळे
अगरु	चंदनाचो रुख	अगर, अगरु	अगुरु	एबिध सुगंधी काठ; साँचि गछ, साँचि गछरर भितरर कला सुगंधी सार	अगोर पांबी	चंदन	अगरु	अगरु, अगिल् मरत्तिन् कट्टै	अकिल् मरम्	गंधदमर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अगरबत्ती	स्त्री.	वह बत्ती जो सुगंध के निमित्त जलाई जाती है	गन्धवर्तिका, धूपदण्ड :	अगरबत्ती	अगरबत्ती	मुशुकॅतुज	अगरबत्ती	उदबत्ती, अगरबत्ती
अगला	वि.	1. सबसे आगे का, सबसे पहले या सामने वाला	अग्रिम	अगला	अगला	ब्रुह्‌युम, सारिवुॅय ब्रोहं	अगि॒यों	पुढचा
		2. भविष्य में आने वाला	आगामिन्	अगला	मुस्तक़बिल में	ब्रूंठ्‌युम	ईंदड़	आगामी
अगाध	वि.	अथाह, बहुत अधिक गहरा	अगाध	अगाध, अथाह	अथाह	हदुॅ खोंतुॅ-ज़्यादुॅ	अथाह	अगाध
अग्नि	स्त्री.	आग	अग्निः	अग्ग, अगनी	आग	ओंगुन, नार	बाहि, आग, अग्नी	अग्नी, आग
अग्रज	पुं.	बड़ा भाई	अग्रजः	वड्डा भँरा	बिरादरे-कलाँ	ज़्युठ बोय	वडो॒ भाउ	थोरला भाऊ, अग्रज

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अगरबत्ती	उजबत्ती; अगरबत्ती	अगरबत्ती, सिन्के धूप	धूपकाठि, आगरबाति	धूप, धूप-काठि, धूप-शला	अगरबत्ती, बोकुलधूप	अगरबति, धूपकाठि	ऊदुकड्डी	अगर्बत्ति (ऊदुवत्ति)	सांप्राणित्तिरि	ऊदुबत्ति
सौथी आगलो, पहेलो	फुडलो	अगिल्लो, यसछिको	अग्रवर्ती	आगलति, प्रथम, प्रथमांश, अग्रणी, अग्रवत्ती	अहान्बा	प्रथम	मुंदुन्न	मुंदिय, ऍतिरिलुळ्ळ	मुन्पिलुळ्ळ	ऐदुरिन, मुंदिन
हवे पछीनो,	येवचे दीस	आगामी	आगामी, आगत्तुक	आगामी	मथङ्दा	आगामी	रानुन्न	वरुगिऱ्, अड्डुत्त	वरुन्न, अटुत्त	मुंबरुव
अगाध, गंभीर, अतिऊंडुं	खोलाय	अगाध, अथाह, अत्यधिक	अगाध, अथइ, अतलस्पर्शी	आथाउनि, अगाध, बर द	शाथिना लुबा	बहुत गभीर (अगाध)	अगाधमु	मिक्क आऴ्मान	अगाधम्	अगाध
अग्नि, आग	उजो	आगो	अग्नि, आगुन	जुइ, अग्नि	मै, मई	निआँ	अग्नि, निप्पु	ती, नॅरुप्पु	ती, अग्नि	बेंकि
मोटो भाई	व्हड़लो भाव	दाजु, दाज्यू, दाइ	अग्रज, बड़माई	अग्रज, काकइ, ककाइदेउ	इयामबा (उ.पु.) नयामबा (म.पु.) मयामबा (अ.पु.)	बड़ भाइ (अग्रज)	अन्न	अण्णन्	ज्येष्ठन्, अग्रजन्	अण्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अचल	वि.	जो अपने स्थान पर बना रहे, गतिहीन, स्थिर	अचल	अचल्ल	ग़ैरमुतहर्रिक, साकिन	अकिसुॅय जायि	अचल, अडोल	गतिहीन, स्थिर, अचळ
अचानक	क्रि.वि.	बिना पूर्व सूचना के, एकाएक, सहसा	अकस्मात्, सहसा	चाणचक, चानक, अचानक	अचानक	अचानक	अचानक	अचानक, एकाएकी, अकस्मात्
अच्छा	वि.	1. ठीक, उपयुक्त	सम्यक्	चंगा, अच्छा	अच्छा, बेहतर	रुत, जान, ज़बर	सुठो, ठीक	चांगला, ठीक, उपयुक्त
		2. जो बुरा न हो, दोष रहित	सुष्ठु	चंगा, अच्छा	–	रुत	बेनुक़्स	दोषरहित, उत्तम
	अव्य.	1. आश्चर्य, विस्मयादि 2. स्वीकृतिसूचक उक्ति	अपि सत्यम्	चंगा, अच्छा	अच्छा	अच्छा	सुठो, वाह, ठीक	खरं (आश्चर्य, स्वीकृतिसूचक अव्यय)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अचल, स्थिर, दृढ़, अविकारी	थीर	अचल, स्थिर	अचल, गतिहीन, स्थिर	अचल, गतिहीन, स्थिर, अप्रचलित, अव्यवहार्य	मफम होङ्दबा, लेङदबा	अचल, स्थिर, गतिहीन	अचलमु, कदलनि	नगराद, स्तिरमान, स्तावर	उऱ्च्च, स्थिरमाय	कदलद, निश्चल
अचानक, एकाएक, ओचिंत	पयले कळैयनास्तना, एकदम	एक्कासी, अपर्झट, अचानक	आचमका, हठात्, सहसा, अकस्मात्	अकस्मात, हठात्, घपहकरे, आचंबिते	इखङ् खङ्हौदना	एकाएक, अकस्मात, सहसा, हठात, शीघ्र	हठात्तुगा	दिडिरॅन	पॅट्टॅन्नु, विचारिच्चिरि-क्कातॅ	इद्दक्किद्दंते ओम्मगे
सारुं ठिक	बरोबर	ठीक, सही	अच्छा, ठिक, उपयुक्त (जु)	ठिक, उपयुक्त, उचित	अफबा, चान्नबा	आछा, ठिक, उपजुक्त	सरि अयिनॅ	सरियान	नल्ल, उपयुक्तमाय	सरियाद
उत्तम, सरस	जॉ वायट ना तो, दोश नाशिल्लो	बेस, राम्रो	बेश भालो	भाल, निर्दोष, सुंन्दर	दोस लैतबा, फत्दबा नत्तबा	निर्दोष, उत्तम, भल	मंचि	नल्ल, कुट्टमिल्लाद	दोषमिल्लात, चीत्तयल्लात्त	ओळ्ळेय
सारुं	बरें	ए हो, अच्छा, अँ, अहो	आश्चर्य (र्ज), स्वीकृति (सी)	भाल! आच्छा, मरम	फरे	आच्छा	अलागा, सरे	वियप्पूट्टुम् शॉल् सरि (नल्लुदु)	कॉळ्ळांम रारि	हौदा, सरि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अजगर	पुं.	एक विशाल सर्प	अजगरः	अजगर, सराल	अज़्दहा, अज़गर	ॲज़दा	अजगरु	अजगर
अजायबघर	पुं.	वह भवन, जहाँ पर पुराकालीन कलाकृतियाँ स्थायी रूप से प्रदर्शित की जाती हैं, संग्रहालय	संग्रहालयः	अजायबघर	अजाइबघर, अजाइबख़ाना	अजॉइबगर	अजायबघरु, भूतख़ानो	वस्तु संग्रहालय
अटकना	अ.क्रि.	चलते-चलते या कोई काम करते-करते रुक जाना, रुकना	वि+/रम्	अटकणा, रुकणा	अटकना	रोटुँ गछुन	अटकणु, रुकजणु	अडणें, अडकून पडणें
अड़ना	अ. क्रि.	1. बीच में रुकना या फँसना	उप+/रुध्	अड़ना	अड़ना	अडुन, हठस लायनुॅयुन	अड़िजणु, रुकजणु	अडून बसणें
		2. हठ करना	हठं/कृ	–	ज़िद करना	–	होड़ करणु, अड़ी करणु	हट्ट करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अजगर	हार, एक मोटें जिवाणें	अजिङ्गर	अजगर, मयाल-साँप	अजगर, टेंकी साँप	लाइरेल	अजगर	कॉंडचिलुवॅ	मलैप्पांबु	मलंपांपुॅ	हेब्बावु
अजायबघर, संग्रहालय	वस्तुसंग्रहालय	अजायबघर	जादुघर	यादुघर, संग्रहालय, प्रत्नतात्त्विक संरक्षणशाला	म्यूजियम	जादुघर, संग्रहालय	वस्तु-प्रदर्शनशालॅ	पॉरुट्काटचि-शालै, अरुंकाट्चियगम्	काळ्चबंगळावुॅ	वस्तु संग्रहालय
अटकवुं, थोभवुं रोकावुं	अडप थांबप	अडकिनु, थामिनु, रोलिनु	आटकानो	रै जा, बंधह, आटक	चत्लमबदगी लेप्पा, थबक तौरंबदगी लेप्पा	अटकिबा, वंदहेबा	आगुटॅ, चिक्कुपडुटॅ	तडैपड	तटस्सप्पॅटुक	निल्लुवुदु
अडवुं, अडकवुं, स्पर्श करवो	मदींत अड्कून बसप, घुसपप	अड्नु, रोकिनु	आड़िधरा, जेड़्धरा	खुंदा खा, ठेका खा, संघर्ष ह, हठकरिता	पन्बा, थुबा	अड़िबा, अटकिबा	मचिक्कुकॉनटॅ	इडक्कु शंय्य	उटक्कुक	सिक्किकोळ्ळु-वुदु
हठ-करवी	हट्ट करप	अड्डी लिनु, हठ गर्नु	–	बिबाद कर, काजिया कर	निङाई तौबा	झगड़ा करिबा	हठमु चेयुटॅ	अडम् पिडिक्क	शाठ्यम् पिटिक्कुक	हटमाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अड्डा	पुं.	टिकने, ठहरने या बैठने का स्थान	स्थानम्	अड्डा	अड्डा	अडुँ	अड्डो	अड्डो
अणु	पुं.	1. किसी तत्व या धातु का वह बहुत छोटा अंश, जिसमें उसके सभी संयोजक अंश विद्यमान हों	अणुः	अणू	ज़र्रा, एटम	ज़रुँ	अणू	अणू
		2. अत्यंत सूक्ष्म मात्रा या वस्तु	अणु	–	ज़र्रा	प्यूंत	ज़रो, सूक्ष्म वस्तू	अणू
अतिथि	पुं.	मेहमान	अतिथिः	प्राहुणा	मेहमान	पोंछ़	मेहमानु, मिज़्मानु	अतिथी, पाहुणा, अभ्यागत
अदालत	स्त्री.	न्यायालय	न्यायालयः	कर्चहरी, अदालत	अदालत	अदालथ	अदालत	कचेरी, न्यायालय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अड्डो, बेठक, अखाड़ा	ठिकाणो, अड्डो	अड्डा, अखुडा	आड्डा, आखड़ा	आड्डा, आखड़ा घाँटी	थुङफम, पन्फम फमफम	आखडा	निलयमु	तंगुमिडम्, निलैयम्	तावळम्	निल्दाण, बीडु
अणु	अणू	अणु, परमाणु	अणु, कणा	अणु, कण, कणिका	अपिकपा मकुप (एटम)	अणु, कणिका	अणुवु	अणु	अणु	अणु
अणु	–	अति सूक्ष्म कण	सूक्ष्माति सूक्ष्म, अणु	खुदकण कणिका	मकुप (एटम)	अणु, क्षुद्रतम कणिका	अणुमात्रमु	मिगच्चिरिय वस्तु	सूक्ष्म वस्तु	अत्यंत सूक्ष्म वस्तु
अतिथि, महेमान	सोयरो	पाहुना	अतिथि, अभ्यागत	अतिथ्थि, आलही	अतिथि, मीनौ थुङ्लबा	अभ्यागत (कुणिआ), अतिथि	अतिथि	विरुंदाळि	अतिथि	अतिथि
अदालत, कोर्ट	कोर्ट	अदालत, न्यायालय	आदालत, न्यायालय, काचारी (-छा)	आदालत, न्यायालय, बिचारलय, काछारी	कोर्ट	न्यायालय, कचेरी, अदालत	न्यायस्थानमु, कोर्टु	न्यायालयम्	नीतिपीठम्, कच्चेरि	न्यायालय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अधिक	वि.	1. बहुत	अधिक	बहुता, बोह्त	ज़ियादा	हुरेमानुँ	वधीक, घणो, घणा	अधिक, जास्त, पुष्कळ
		2. अतिरिक्त	अधिक	बहुता, बोह्त	ज़ाइद	अलावुँ	वधीक, ज़्यादा	अतिरिक्त
अधिवेशन	पुं.	किसी बड़ी सभा की लगातार होने वाली बैठकों का सामूहिक नाम	अधिवेशनम्	अजलास, अधिवेशन	इज्लास	जलसुँ	इज्लासु, अधिवेशनु	अधिवेशन, बैठक
अधिसूचना	स्त्री.	किसी बात की ओर विशिष्ट रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए दी जाने वाली सार्वजनिक सूचना	अधिसूचना	अधिसूचना	इत्तिला	ॲलान, येलान	पधरनामो, सूचना	अधिकृत सूचना
अधूरा	वि.	जो पूरा न हो या जो समाप्त न हुआ हो	अर्ध	अधूरा, अपूरण	अधूरा	ओंडुय	अधूरो	अर्धवट
अध्यक्ष	पुं.	1. किसी संघ, संस्था, समिति आदि का प्रधान	अध्यक्षः	मुखी, प्रधान	सद्र	ज़्युठ, सदुॅर	सभापती	अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी
		2. स्पीकर, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी	अध्यक्षः	मुखी, प्रधान	इस्पीकर, चेयरमैन	स्पीकर	स्पीकर	स्पीकर, चेयरमैन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अधिक, घणुं, बहु	खूब, चड	धेरै, निकै	अधिक, बेशि	अधिक	अयांबा अहेन्बा	बहुत, बेशी, अधिक, बहुल	चाला, एक्कुव	अदिग	वळर अधिकम्	बहळ
वधारानुं	अतिरिक्त	अतिरिक्त	अतिरिक्त	अतिरिक्त, बेसी	अपुनबा मीफम	अतिरिक्त; बलका	एक्कुव, अधिकमु	अदिगप्पडियानकविञ्ज		इन्नु
अधिवेशन, संमेलन	अधिवेशन	अधिवेशन	अधिबेशन	अधिबेशन, अनुष्ठान, बैठक	अपुनबा मोफम	अधिवेशन	समावेशमु	सबै, कूट्टम्	सम्मेळनम्	अधिवेशन
जाहेरनामुं	अधिसूचोवणी	अधिसूचना	अधिसूचना, नोटिश	बिज्ञापन, जाननी, अधिसूचना	नोतीफिकेशन	अधिसूचना, विज्ञापन	प्रकटन	विशेष अरिविप्पु	विज्ञापनम्	अधिसूचने
अधूरुं, अयूर्ज	अर्दकुटो	अधुरो, अधकल्चो	अपूर्ण (र्न)	आधुरवा, आधांकरा, असंपूर्ण	मपुङ फाद्रिबा, लोइशिनद्रिबा	असंपुर्ण	असंपूर्णमु	अरै कुरैयान	अपूर्णम्, पणि तीरात्त	मुगिदिल्लद, अपूर्ण
अध्यक्ष, प्रमुख	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष (क्ख)	सभापति, गुरियाल, भारप्राप्त-विषया	सभापति, थौबुरेल	सभापति, प्रधान	अध्यक्षुडु	तलैवर्	अध्यक्षन्	प्रधान
स्पीकर, चेरमेन	वक्तो	सभामुख, सभापति	स्पीकर, चेयरम्यान	अध्यक्ष, सभापति	स्पीकर, चेयरमैन	स्पीकर, बक्ता, चेयारमान (सभापति)	सभापति, स्पीकरु	अवैत्तलैवर	स्पीक्करु, अध्यक्षन्	अध्यक्ष, सभापति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अध्यादेश	पुं.	वह आधिकारिक आदेश, जो किसी कार्य, व्यवस्था आदि के संबंध में राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा निकाला गया हो	अध्यादेशः	अधिआदेश	सदारती फ़र्मान (आर्डिनेंस)	सरकॉरी-फरमान, आडिनंस	आर्डीनन्स, अध्यादेश	वटहुकुम (आर्डिनन्स)
अध्यापक	पुं.	पढ़ाने वाला, शिक्षक	अध्यापकः	अधिआपक, सिखिअक	मुअल्लिम, उस्ताद	माश्टर	मास्तरु, अध्यापकु	अध्यापक, शिक्षक
अध्याय	पुं.	1. ग्रंथ या पुस्तक का खंड या विभाग	अध्यायः	अधिआ, अधिआइ	बाब	अद्याय, बाब	अध्याउ, बाबु	प्रकरण
		2. प्रकरण	अध्यायः	–	बाब, हिस्सा	बाब	अध्याउ, बाबु	प्रकरण
अनगिनत	वि.	जिसकी गिनती संभव न हो सके, संख्यातीत	अगणित, अगण्य, असंख्य	अनगिणत	बेशुमार, अनगिनत	आँथ्युरॉस, बेशुमार	बेशुमार, अणगुणिया	अगणित, अनंत
अनशन	पुं.	1. भूख-हड़ताल	अनशनम्	भुंक्ख हड़ताल	भूक हड़ताल	बूख हरताल	बुख-हड़ताल	भूक हरताळ, अन्न सत्याग्रह
		2. आहार त्याग, उपवास	अनशनम्	उपवास	फ़ाक़ा	फाकुँ	उपवासु, व्रतु	अनशन, आहार त्याग, उपवास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वटहुकम	अध्यादेश	अध्यादेश	अध्यादेश, अर्डिन्यांस	अध्यादेश	आर्दिनंस, रुलजारिबा	अध्यादेश (अड़िनांस)	अध्यादेशमु	अवसरच्-चट्टम्	ओर्डिनंस्	अध्यादेश
अध्यापक, शिक्षक	अध्यापक	अध्यापक, गुरु, शिक्षक, मास्टर	अध्यापक (शिक्षक) (क्ख)	अध्यापक, शिक्षक, पढ़ाओंता	ओजा	अध्यापक, गुरु	उपाध्यायुडु, अध्यापकुडु	उबाद्दियायर्, आशिरियर्	अध्यापकन्	शिक्षक, मेष्टु
अध्याय	अध्याय	अध्याय, परिच्छेद	अध्याय, खण्ड, विभाग	अध्याय, आध्या, परिच्छेद, विभाग	ताङकक, अध्याय	अध्याय, खण्ड, बिभाग	अध्यायमु	अद्दियायम्	अध्यायम्	अध्याय
प्रकरण	प्रकरण	प्रकरण	प्रकरण (न)	प्रकरण	प्रकरण	प्रकरण	प्रकरणमु	विषयम्	प्रकरणम्	प्रकरण
अगण्य, अगण, असंख्य, अगणित	अगणित	अनगन्ती, बेगंती	अगुंति	अगणन	मशिङ् थिङ्मदबा	अगणित, असंख्य	लेक्कलेनि, अगणित	एण्णट्ट	वळरयधिकम्, एण्णमट्ट	असंख्य
भूख हडताल	भूक हरताळ	भोकहडताल	अनशन	धर्मघट विक्षोभ, प्रदर्शन	हङ्गर स्ट्राइक	भोक-हरताल	निराहार दीक्ष	उण्णाविरदम्	पट्टिणि-सत्याग्रहम्, निराहार सत्याग्रहम्	उपवास, मुष्कर
अनशन	उपास	अनशन उपवास	उपोस, उपबास	उपवास	चरा हेन्बा	उपबास (अनशन)	उपवासमु	उपवासम्	उपवासम्	लंघन, उपवास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अनाथ	वि.	जिसका पालन-पोषण करने वाला कोई न हो	अनाथः	यतीम, अनाथ	यतीम	यतीम, अनाथ	अनाथु	अनाथ
	पुं.	बिना माँ-बाप का	अनाथः	–	बेसहारा	यतीम; अनाथ	यतीमु, अनाथु	असहाय, दीन, दु:खी
अनाथालय	पुं.	वह स्थान, जहाँ अनाथों का पालन-पोषण होता है	अनाथालयः	यतीमखाना	यतीमख़ाना	यतीमखानुँ	अनाथालय	अनाथालय
अनावरण	पुं.	किसी महापुरुष के चित्र, मूर्ति आदि से समारोहपूर्वक परदा हटा कर उसे सर्व-साधारण के लिए दर्शनीय बनाया जाना, उद्घाटन	अनावरणम्, उद्घाटनम्	नकाब कुशाई	नक़ाबकुशाई	वुरुन तुलुन; नकाब कुशाई	उद्घाटनु	अनावरण, उद्घाटन
अनिवार्य	वि.	जिसकी इतनी अधिक जरूरत हो कि उससे बचा न जा सके, अवश्यंभावी	अनिवार्य	लाज़मी, अनिवारी	नागुज़ीर	ज़रूरी, लॉज़िमी	लाज़िमी, ज़रूरी, अनिवारी, अनिवार्य	अनिवार्य, अवश्यंभाव, आवश्यक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अनाथ, निराधार	अनाथ	बेसहाय, दुखी	अनाथ	अनाथ, निराश्रय	मपी-मपा लैतबा	अनाथ	अनाथुडु	अनादै	अनाथन्	तब्बलि, अनाथ
दीन	असहाय, दुख्खी	अनाथ, टुहुरो	असहाय, आश्रयहीन, दीन, दु:खी	असहाय, निराश्रय	कना लैजद्रबा, तोल्लबा, चङ्जफम लैजदबा	असहाय, निराश्रय, दीन, दुखी	दीनुडु	दिक्कट्टवन्	अनाथनाय	असहाय, दीन
अनाथालय, अनाथाश्रम	अनाथालय	अनाथाश्रम, अनाथालय	अनाथाश्रम	अनाथालय	कनालैजद्रबा अङाशिङगी लैफम	अनाथाश्रम	अनाथ-शरणालयमु	अनादै, विडुदि	अनाथालयम्	अनाथालय
अनावरण, उद्घाटन	उद्घाटन	अनावरण	उद्घाटन	उन्मोचन, मुकुलि-कराकार्य	अफाओबा मीओइगी अयेकपा ल़ाई अमदि मूर्तिगी फिसङ् हाइदोक्पा	उद्घाटन (अनाबरण), उन्मोचन	आविष्करणमु	तिरंदुवैत्तल्	अनाच्छादनम्	अनावरण
अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य, अवश्यंभावी	अनिबार्य (र्ज), अबश्यंभावी	अनिवार्य, अवश्यंभावी	ताङाइ फदना तौद्रबा यादबा	अवश्यंभावी, अनिवार्य, निश्चित	अनिवार्यमु, तप्पनिसरि	तविर्क्क मुडियाद, कट्टायमान	अनिवार्यम्	अनिवार्य, अगत्यवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अनुकरण	पुं.	नकल, अनुसरण	अनुकरणम्	नकल, अनुकरन	पैरवी, नक़्ल	नकुॅल	पोइलगी, पैरवी, नकुलु	अनुकरण, अनुसरण
अनुक्रम-णिका	स्त्री.	किसी विशेष क्रम के आधार पर बनाई गई सूची	अनुक्रमणिका	अनुक्रमणिका, सूचीपत्तर	इशारिया	फिहरिस्त	फ़ेहरिस्त, सूची	अनुक्रमणिका
अनुज	पुं.	छोटा भाई	अनुजः	छोटा भँरा	बिरादरे-खुर्द	लोॅकुट बोय	नंढो भाउ	अनुज, लहान भाऊ, धाकटा भाऊ
अनुराग	पुं.	प्रेम, आसक्ति	अनुरागः	अनुराग	मुहब्बत, इश्क़	श्रेह, माय	प्रेमु, प्यारु	प्रेम, आसक्ती
अनुवाद	पुं.	एक भाषा में लिखी या कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया, भाषांतर	अनुवाद	उलथा, अनुवाद	तर्जमा	तरजमुॅ	तर्जुमो, अनुवादु	अनुवाद, भाषांतर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अनुकरण, नकल	अनुकरण	अनुकरण, देखासिकी	अनुकरण, अनुसरण (न), नकल	अनुकरण, नकल, नकल-कराकार्य	मतौतंबा, मतुङ् इन्बा	नकल, अनुसरण	अनुकरणॅ	अनुसरित्तल्, पिन् पट्टुदळ्	अनुकरणम्	अनुकरण, अनुसरण
अनु-क्रमणिका	अनुक्रमणिका	अनुक्रमणिका	अनुक्रमणिका	अनुक्रमणिका	परिङ्नाइबा	अनुक्रमणिका, क्रमान्वय	अनुक्रमणिकॅ	अट्टवणै	अनुक्रमणिक	अनुक्रमणिकॅ
अनुज, नानो भाई, लघुबंधु	धाकटो भाव	भाइ	छोट भाइ, अनुज	भाइ, भातृ	इनओ नुपा (उ. पु.) ननाओ नुपा (म. पु.) मनाओ नुपा (अ. पु.)	छोट भाइ (अनुज), सान भाइ	तम्मुडु	तंबि	अनुजन्	तम्म
प्रेम, आसक्ति	अनुराग	अनुराग, प्रीति, मींया	प्रेम, अनुराग, प्रीति	प्रीति, प्रेम, आसक्ति, भालेपोवा-भाव	नुङ्शिबा	अनुराग, प्रेम, प्रीती	आपेक्षॅ	पिरियम्	अनुरागम्, स्नेहम्	प्रेम, प्रीति अनुराग
अनुवाद, तरजूमो, भाषांतर,	अणकार, अनुवाद	अनुवाद	अनुबाद, तरजमा (तर्जमा), भाषांतर	अनुवाद, भाषाँतरकरण, भाङनि	लोल अमदगी अमदा अर्थ हंदोकपा, अनुवाद	भाषांतर (अनुबाद)	अनुवादमु, तर्जुमा	मॉळि पॅयर्प्पु	परिभाष, तर्जम	अनुवाद, भाषांतर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अनुसंधान	पुं.	खोज, अन्वेषण	अनुसंधानम्	खोज, अनुसंधान	तहक़ीक़, दरयाफ़्त	खोज, छांडव	खोज	अनुसंधान, शोध, अन्वेषण
अनुसार	वि.	किसी के ढंग या रूप से मिलता हुआ, अनुरूप	अनुसारम्	अनुसार	बमूज़िब	मुतॉब्यक, मूजूब	अनूसार, मूजिब	अनुसार, अनुरूप
अनुसूचित	वि.	जिसे अनुसूची में स्थान मिला हो	अनुसूचित	अनुसूचित	मुंदरिजा-ए-फ़ेहरिस्त	पथखोरि	अनुसूचित, सूची में दाख़िल	वर्गीकृत, अनुसूचित
अनुसूची	स्त्री.	किसी लेख या ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई सूची	अनुसूची	अनुसूची	जद्वल, फ़ेहरिस्त्	पॉंत-फिहरिस्त	सूची, लिस्ट	यादी, शेडयूल
अनेक	वि.	एक से अधिक, कई, बहुत	अनेक	अनेक	मुतअद्दिद	वारयाह	अनेक, घणा	कित्येक, अनेक
अन्न	पुं.	अनाज	अन्नम्	अन्न, अनाज	अनाज	अन, बतुं	अनु, अनाजु	धान्य
अन्य	वि.	दूसरा	अन्य	होर	दीगर	दौंयुम	ब़ियो	दुसरा, अन्य.

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चोकसाई, बारीक तपास,	अनुसंधान, सोद	अनुसंधान, शोध	अनुसंधान, खोँज, अन्वेषण	अनुसंधान, बिचारिचोवा- कार्य	थिजिन्बा	खोजिबा, अन्वेषण (अनुसंधान)	परिशोधन	आराय्च्चि	गवेषणम्	शोधने
अनुसार, मुजब	अनुरुप	अनुसार, अन्सार, बमोजिम	अनुसार, अनुरूप	अनुरूप, मते अनुसरणकरि	शक, मओङ् अमदि मोत मान्नना	अनुरूप, अनुसार	प्रकारमु	अनुसरित्तु	अनुसरिच्चुँ	अनुरूप
अनुसूचित	अनुसुचीत	अनुसूचित	अनुसूचित	अनुसूचित, अनुसूची भुक्त	परिङ्दा याओबा	अनुसूचित, संरक्षित	जाबितालो चेर्नि	अट्टवणैयिल् चेर्क्कप्पट्ट	पट्टिकयिल् पेट्ट	अनुसूचित
यादी, अनुसूचि	अनुसुची	अनुसूची	अनुसूचि, तफसील, तालिका	अनुसूची, तालिका, विशद- तालिका	शैड्यूल, मशिडमीपरिङ्	अनुसूची (शिड्युल), तालिका	जाबिता	अट्टवणै	पट्टिक	पट्टि, अनुसूचि
अनेक, घणा	अनेक, जायते फावट	कैयौँ, अनेक	अनेक, बेशी, बहु	अनेक, सरह, बेसी	मयाम, अमदगी हेन्बा कयामरुम	बहुत, अनेक, बेशि	अनेकमु, चाला	अनेक, पल	अनेकम्, पल	अनेक, बहळ
अन्न, अनाज, खोराक	अन्न	अन्न	शस्य, भात, खाद्य	अन्न, आहार, खोवा वस्तु	महै मरोङ् .	खाद्य, शस्य	धान्यमु	दानियम्	धान्यम्	धान्य
अन्य, बीजुं, परायुं	अन्य	अन्य, अर्को	अन्य, अपर (न्न)	अन्य, बेलेग, अइन, पर	अतोप्पा	अलगा (अपर), अन्य	इतरमु, वेरे	मट्टु, वेरु, अयल्	मट्टारु, अन्य	बेरे, मिक्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अन्याय	पुं.	1. न्याय-विरुद्ध कार्य	अन्यायः	अनिआं, बेइन्साफ़ी	नाइंसाफ़ी	अन्याय, ब्यबूज, बेइनसॉफी	अन्याउ, बेइंसाफ़ी	अन्याय
		2. अति अनुचित व्यवहार	अन्यायः	–	इंतिहाई बदसुलूकी	–	इंतिहाई बदसुलूकी	अति अनुचित व्यवहार
अपना	वि.	आत्मसंबंधी, निज का	स्व	आपणा	अपना	पनुन	पंहिंजो	आपला, स्वतःचं
	पुं.	आत्मीय, स्वजन	स्व	आपणा	अपना	पनुन	मिटु-माइटु	स्वजन, आत्मीय
अपनाना	स.क्रि.	1. अपना बनाना	ग्रह, स्वी+कृ	अपनाउणा	अपनाना	पानुं नावुन	पंहिंजो बणाइणु	आपलेसे करणें
		2. ग्रहण करना, स्वीकार करना	ग्रह, स्वी+कृ	अपनाउणा	इख़्तियार करना	पानुं नावुन	अपनाइणु, क़बूलणु	ग्रहण करणें, स्वीकार करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अन्याय, गेरइन्साफ	अन्याय	अन्याय, बेइन्साफ	अन्याय (बेइन्साफ)	अन्याय, आन-आन, इटो-सीटो	चुमदबा वायेल	अन्याय	अन्यायमु	अनियायम्	अन्यायं	अन्याय
अत्यंत अयोग्य व्यवहार	अनुचीत	अनुचित काम, अन्याय	अनुचित ब्यबहार	अनुचित, न्यायविरुद्ध, काम अर्बिचार	चुमदबा लिचत्-शाजत्	अनुचित व्यबहार	दौर्जन्यमु	अक्किरमम्	अन्यायम्	अनौचित्य
जातनुं पोतानुं	आपलो, स्वता	आफ्नू, आफ्नो, निजी	निजस्व, निजेर, आपन (स्स)	निजर, निजा	इशागी (उ. पु.), नशागी (म. पु.), मशागी (अ. पु.)	आपणार, आत्मसंबंधीय, निजर	तनदि	तन्नुडैय	स्वंतम्	तन्न
स्वजन, आत्मीय	आत्मीय, स्वजन	आत्मीय, स्वजन	आत्मीय, स्वजन (आत्तीय), (स)	आपोन, आत्मीय, स्वजन, कुटुंब	इशागी मी	आत्मीय, स्वजन	तनवाळ्ळु	सांतमानवर्	बंधु, स्वंतक्कार्	नम्मवरु, आत्मीय
अपनाववुं	आपणावप	आफ्नो बनाउनु, अपनाउनु	ग्रहण करा, निजेर करे नेओया	निजर करि ल, आत्मीकरण	इशागी ओइशिन्बा	ग्रहण करिबा, स्वीकार करिबा	तनदिगा चेसुकोन्टे अंगीकरिंचुटे,	तनदाक्किक्-कोळ्ळ	स्वंतमाक्कुक	तन्नवरन्नागि माडिकोळ्ळुवुदु
स्वीकारवुं, ग्रहण करवुं	स्वीकृती	ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नु	स्वीकार करा	ग्रहण-कर ल, ग्रहण	लौबा, याबा	ग्रहण करिबा, स्बीकार करिबा	स्वीकरिंचुटे	एट्टुक्कोळ्ळ	स्वीकरिक्कुक	स्वीकारिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अपने-आप	क्रि.वि.	स्वतः, खुद-ब-खुद	स्वतः, स्वयमेव	आपणे-आप —	अपने-आप, खुद-ब-खुद	पॉन्य पानय	पंहिंजो पाण, खुद-बखुद	आपोआप, स्वतः, स्वयम्
अपमान	पुं.	अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती	अपमानः	अपमान, बेइज्जती	तौहीन, हतक, ज़िल्लत	हतख, बेज़ती	अपमानु, बेइज़ती	अपमान, मानहानी, अनादर, तिरस्कार
अपराध	पुं.	1. अनुचित या दंडनीय कार्य	अपराधः	अपराध, दोश, जुरम	जुर्म	अपराद, जुरुम	अपराधु	अपराध
		2. दोष, गलती	अपराधः	जुरम, दोश, अपराध	ग़लती, क़ुसूर	–	डोहु, गुनाहु	दोष, चूक, गुन्हा
अपराधी	पुं./वि.	अपराध करने वाला	अपराधी	अपराधी, दोषी, मुजरम	मुर्जिम	मुजरिम, कोंसूरवार	अपराधी, डोही, गुनहगार	अपराधी, दोषी, गुन्हेगार
अपराह्न	पुं.	दोपहर के बाद का काल, तीसरा पहर	अपराह्ण	बाद दुपहिर, लौढा वेला, लौंह्डा वेला	सहपहर	दुपहरॅ पतुॅ	बिपहरीअ खाँ पोइ जो वक़्तु टियों पहरु	अपराह्न, तिसरा प्रहर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खुद, पोते	आपो-आप, आपशी, आपूण	आफसेआफ, स्वत:, स्वयमेव	स्वत: स्फूर्त, आपना-आपनि	स्वयं, निजे-निजे, स्वाभाविकत	इशामक्, इशाना	स्वत:, निजे	तनंतटताने	ताने	स्वयम्, तन्नंत्तान्	स्वत:
अपमान, अनादर, तिरस्कार	अपमान, तिरस्कार	अपमान, बेइज्जती, तिरस्कार	अपमान, मानहानि, अनादर, तिरस्कार	अपमान, गौखरहानि, निंदा, तिरस्कार	इकाइबा पीबा, इकाइ खूमनदबा, थओइदबा	मानहानि, अनादर, अपमान, तिरस्कार, निंदा	अवमानमु	अवमरियादै, अवमदिप्पु	अपमानम्, अवगणन	अवमान, अपमान, तिरस्कार
अपराध, गुनो	अपराध, गुन्यांव	अपराध, कसूर	अपराध	अपराध, दाय,जगर	मराल लैबा	अपराध, दोष	अपराधमु, नेरमु	कुट्ट्म्	अपराधम्, कुट्टं	अपराध
भूल, दोष,	दोशी	दोष, भूलचूक	दोष, गलति	दोष, त्रुटि, खूँत, बिकार	मराल अरान्बा	दोष, भुल, त्रुटि, पाप	तप्पु	पिळै, तप्पु	तंटटुॅ	तप्पु
अपराधी, गुह्नेगार	अपराधी, गुन्यांवगार	अपराधी, दोषी, कसूरवार	अपराधी, दोषी	अपराधी, जगरीया	मराल लैबा मी	अपराधी, दोषी	नेरस्तुडु, अपराधि	कुट्ट्वाळि	अपराधि, कुट्टवाळि	अपराधि
अपराह्न, त्रीजो प्रहर	दनपार	अपराह्न	अपराह्न, तिनपर (प्रहर), बिकाल	आबेलि, भाटिबेला, पाच्बेला	नूमित युङबा मतम, युथक् अहुमशुबा	अपराह्न, उपरबेला, दिपहर	अपराह्नमु	पिर्पगल्	अपराह्नम्, मध्याह्नम्, उच्चनेरम्	मध्याह्न

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अपाहिज	पुं./वि.	लूला-लंगड़ा, विकलांग	विकलाङ्गः	अपाहज	अपाहज	मोज़ूर	अपाहिजु, जड़ो	अपंग, लुळा लंगडा, विकलांग
अफसर	पुं.	अधिकारी	अधिकारी	अफसर	अफ़सर	अफ़सर	आफ़ीसर	ऑफिसर, अधिकारी
अफीम	स्त्री.	पोस्त के डंठलों से निकाला जाने वाला मादक पदार्थ	अहिफेनः	अफीम	अफ़ीम	ऑफीन	आफ़ीम	अफू
अभयदान	पुं.	सुरक्षा के लिए वचन	अभयदानम्	अभैदान	अमान, तहफ़्फ़ुज़	तहफुज़	माफ़ी	अभयदान
अभिनंदन	पुं.	किसी की उपलब्धि पर उसके प्रति शुभकामना और श्रद्धा प्रकट करना	अभिनंदनम्	अभिनंदन	सिपासगुज़ारी, इस्तिक़बाल	यज़थ द्युन, यज़थ-अंफज़ॉई	अभिनंदनु, इस्तिक़बाल	अभिनंदन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लाचार, अपंग, पांगळुं	अपंग	अपङ्गी, विकलाङ्ग	बिकलाङ्ग, प्रतिबंधी	विकलांग, अपारग	मखूत् तेक्पा, मखोङ् शेक्पा, नामा शोइबा	लंगड़ा, बिकलांग	विकलांगुडु, अविटिवाडु	मुडमान	अंगहीनन्, विकलांगन्	अंगहीन, विकलांग
अफसर, अमलदार, अधिकारी	ऑफिसर, अधिकारी	हाकिम, अड्डा प्रमुख, अफिसर	अधिकारी, अफिसर	अफसर बिषया	अफसर	अधिकारी, अफिसर, प्राधिकारी	अधिकारि, अफीसरु	अदिकारि, अलुवलर्	आफीसर्	अधिकारि
अफीण	अफू	अफिम, अहिफेन	आफिम, आफिङ	आफिं, कानि	अफीम	आफिम	नल्लमंदु	अबिन्, करुप्पुॅ	अवीन्	अफीमु
अभयदान, अभयवचन	अभयदान	अभयदान, अभयवचन	अभयदान	अभयदान, आश्वास-देओंता	अकि अखङ् लैहँदबा	अभयदान	अभयदानमु	अबयमळित्तल्	अभयम्	अभयप्रदान
अभिनंदन, धन्यवाद	परबीं, अभिनंदन	अभिनंदन	अभिनंदन	अभिनंदन	नोल्लुक्चबा	अभिनंदन	सन्मानमु	पाराट्टु, मरियादै	अभिनंदनम्	प्रणाम, अभिवंदने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अभिनय	पुं.	हाव-भाव के द्वारा किसी पात्र के चरित्र का अनुकरण (दृश्य कला में)	अभिनयः	सांग, अदाकारी, अभिनै	अदाकारी	पॉथुॅर करुन	अदाकारी	अभिनय
अभिनेता	पुं.	रंगमंच पर अभिनय या नाटक करने वाला	अभिनेता	सांगी, अदाकार, ऐक्टर	अदाकार	पॉथुॅर करन वोल	अदाकारु	अभिनेता, नट
अभिप्राय	पुं.	1. उद्देश्य, प्रयोजन	अभिप्रायः	भाव	मंशा, रज़ा	मकसद	मक्सदु, उदेशु	अभिप्राय, उद्देश्य, प्रयोजन
		2. आशय	अभिप्रायः	आशे, मतलब	मतलब	मकसद	मुराद, मतलब	आशय, अर्थ, मत
अभिभावक	पुं.	संरक्षक	अभिभावकः	वारस, वाली, सरपरसत	सरपरस्त	पालन वोल	संभालीदड़ु	अभिभावक, पालक, गार्जियन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अभिनय	अभिनय	अभिनय, हाउभाउ	अभिनय	अभिनय, भाओ दियाकार्य	हक्चाङ् कयात्ला नुङ्गी ओइबा इथिल फोङ्दोकपा	अभिनय (आक्टिंग), हाब-भाब	अभिनयमु, नटन॑	अबिनयम्, नडिप्पु	अभिनयम्	अभिनय
अभिनेता	नट, अभिनेतो	अभिनेता, नटुवा	अभिनेता, नट	अभिनेता, भावरीया, अभिनय-करोंता	स्टेज (फंपाक) दा अभिनय तौरिबा मीओइ	अभिनेता	नटुडु, अभिनेत॑	नडिगर्	अभिनेतावुँ, नटन्	नट
अभिप्राय	उद्देश	उद्देश्य, अभिप्राय	अभिप्राय, उद्देश्य, प्रयोजन	अभिप्राय	हाइनिङ्लिबा पांदम, फोङ्दोक-निङ्लिबा वाफम	उद्देश्य, प्रयोजन, अभिप्राय, इछा	उद्देश्यमु	अबिप्पिरायम्	उद्देशम्, आशयम्	अभिप्राय
मत	अभिप्राय	आशय, अर्थ	आशय, मतलब	अभिप्राय, अभिष्ट, उद्देश्य	अर्थ	आशा, मतलब, अभिप्राय, अभिलाश	आशयमु	करुत्तु	अर्थम्	तात्पर्य
वाली	पालक	अभिभावक, संरक्षक, गार्जियन	अभिभाबक	अभिभावक, तत्त्वावधायक	अहल-लमन, गार्जियन	अभिभावक, गार्जियन	पोषकुडु, संरक्षकुडु	काप्पाळर्, पोरुप्पाळर्	रक्षकर्तावुँ	पालक, संरक्षक

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अभिमान	पुं.	अहंकार, घमंड	अभिमानः	अभिमान	ग़ुरूर, तकब्बुर	अबिमान, ग़मंड	अभिमानु, हठु, घमंडु	अभिमान, गर्व, अहंकार, घमेंड
अभियान	पुं.	1. किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए चतुर्दिक प्रयास	अभियानम्	मुहिम्म	मुहिम	मुहिम	चढ़ाई, मुहिम	प्रस्थान
		2. सैनिक आक्रमण, चढ़ाई	अभियानम्	आकरमण, धावा	फ़ौजी हमला	मुहिम	काह हमलो	सैनिक-आक्रमण, मोहीम
अभियुक्त	पुं.	वह, जिस पर न्यायालय में कोई अभियोग चल रहा हो, मुलजिम, अपराधी	अभियुक्त	मुल्ज़म	मुल्ज़िम	मुजरिम	मुल्ज़िम, ड॒ोही	अभियुक्त, अपराधी, आरोपी
अभियोग	पुं.	1. अपराध का आरोप	अभियोगः	इलज़ाम	इल्ज़ाम	इलज़ाम	इल्ज़ामु	अभियोग, आरोप
		2. दंड दिलाने के लिए न्यायालय से की जाने वाली फरियाद, मुकदमा	अभियोगः	मुकद्दमा	मुक़द्दमा (नालिश)	–	मुक़दमो	खटला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अभिमान, घमण्ड, गर्व	अभिमान, घमेंड	अभिमान, घमण्ड, तुजुक	अहंकार, गुमोर, देमाक, अभिमान	अभिमान, अहंकार, ठेह, रोह	नाप्रल	अहंकार, गर्ब, अभिमान	अहंकारमु, गर्वमु	स्नेहम् अन्बु	अभिमानम्	गर्व, अहंकार
आंदोलन	अभियान, मोहीम	अभियान, आन्दोलन	अभियान (ज), आंदोलन	अभियान	करिगुम्बा पांदम अमा फङ्ननबगीदम खोङ्शानबा	अभिजान, जात्रा	उद्यममु	इयक्कम्	प्रयाणम्	प्रयाण
आक्रमण	आक्रमण	आक्रमण, धावा	आक्रमण, चड़ाओ (न)	आक्रम, आक्रमण	लांदाबा	आक्रमण, चढउ	दंडयात्रे	पडैयॅडुप्पु	आक्रमणम्	दाळि
अभियुक्त, आरोपी	आरोपी	अभियुक्त, अपराधी	अभियुक्त, अपराधी (जो)	अभियुक्त, अपराधी	मराल लैरबा मी	अभिजुक्त, अपराधी, दोषि	निंदितुडु	कुट्टम् चाट्टप्प-ट्टवर्	अपराधि, कुंट्टवाळि, अभियुक्तन्	आरोपि, आपादित
आरोप	आरोप	अभियोग, आरोप	अभियोग, दोषारोप (जो)	अभियोग, आपत्ति	मराल थङजनिबा, मराल ताइशिनबा	अभिजोग, दोषारोप	नेरारोपणे	कुट्टच्चाट्टु	कुट्टारोपणं	आपादने
मुकदमो	खट्टलो, फिर्याद	नालिस, फिराद	मुकद्यमा, नालिश, फरियाद	गोचर, मोकद्दमा, दायतपेलाइ-गोचरदियाकार्य	केस	मकदमा, मामला	अभियोगमु	नीतिमन्र् वळक्कु	अन्यायम्, व्यवहारम्	मोकद्दमे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अभिलाषा	स्त्री.	इच्छा, आकांक्षा	अभिलाषः	अभिलाखा	तमन्ना, आर्ज़ू	अबिलाश, चाहत	अभिलाषा, इछा, अबिलाखा	अभिलाषा, इच्छा कामना
अभिलेख	पुं.	किसी घटना, विषय, व्यक्ति आदि से संबंधित लिखित प्रामाणिक सामग्री	अभिलेखः	अभिलेख, रिकारड	रिकार्ड, काग़ज़ात, दस्तावेज़	ल्यखुत, दस्तावेज़	दस्तावेजु	अभिलेख, नोंद
अभिवादन	पुं.	श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार, प्रणाम	अभिवादनम्	प्रनाम, परनाम	कोरनिश, फ़रशी सलाम	नमस्कार	इज़तभरियो नमस्कारु, प्रणाम	अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, वंदन
अभिशाप	पुं.	श्राप, अहित कामनासूचक शब्द	अभिशापः	सराप	बद्दुआ	शाप	सिरापु, पिट	अभिशाप, शाप
अभी	क्रि.वि.	1. इसी समय, इसी क्षण, तुरंत	इदानीम्, अधुना, अचिरम्, साम्प्रतम्	हुणे	अभी	वुन्य	हिन वक्ति	आतांच
		2. आजकल, इन दिनों	अद्यत्वे	अज्जकल, हुणे	आजकल	अज़कल	हाणे	सध्या

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना	अभिलाशा	अभिलाषा, कामना, इच्छा	अभिलाष, इच्छा, कामना, आकांक्षा (क्ख)	अभिलाष, आकांक्षा	अपांबा, अनिङ्बा	इछा, कामना, आकांक्षा (अभिलाषा)	अभिलाषॅ, कोरिकॅ	अबिलाषै, तीविर इच्चै	आग्रहम्, अभिलाषम्	हारैके, अभिलाषे
दस्तावेज	अभिलेख, म्हात्वाचे -बरपावळीची फौल	अभिलेख, रेकर्ड, दस्तावेज	अभिलेख	अभिलेख	अइबा चे, रिकार्ड	अभिलेख, प्रमाण-पत्र	रिकार्डु, अभिलेखॅ	आवणम्	रिक्कार्ड, रेख	प्रामाणिक लेख, अभिलेख
अभिवादन, नमस्कार	अभिवादन	अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते	अभिबादन, प्रणाम (ना), नमस्कार	अभिबादन, ओलग, प्रणाम, नमस्कार	खुरुमजबा, नोलुकचबा	अभिबादन, नमस्कार, प्रणाम	वंदनमु	वणक्कम्	अभिवादनम्	नमस्कार
अभिशाप, आळ	स्राप, शिराप	सराप, अभिशाप	अभिशाप, शाप	अभिशाप शाओ	शाप	अभिशाप, शाप	शापमु	शाबम्	शापम्, अभिशापम्	शाप
हमणांज, तरत	आतां	अहिले, यति खेर, यही बखतमा	एखनइ, एखनि (-सु)	एतियाइ	हौजिक्क्, युनमक्	एबे, एहिख्यणि, तुरंत, संगेसंगे	इप्पुडे	इप्पोळुदे, उडने	इप्पोळ् तन्नॅ	ईगले
आजकाल	आतांच, तुर्तांक	अचेल, आजभोलि, हिँजोआज	आजकाल, इदानीङ	आजि-कालि, आजि सांप्रतिक	हौजिक्क् की	आजिकालि	ईमध्यने	इन्नाट्कळिल्	ईयिटॅ	इत्तीचगे, ईगिन कालदल्लि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अभीष्ट	पुं./वि.	1. जिसकी इच्छा या कामना की जाए,	अभीष्ट	मनचिंदिया	मक़्सूद	तमना	चाहियलु, मत्लूब, इष्ट	अभीष्ट
		2. मनोरथ	अभीष्ट	मनोरथ	तमन्ना	कल	मनोरथ	मनोरथ
अभ्यास	पुं.	दक्षता प्राप्त करने के लिए दत्तचित्त होकर किसी काम को बार-बार करने की क्रिया	अभ्यासः	अभिआस	मश्क़	मशुँक, अब्यास	अभ्यासु	अभ्यासु
अमर	वि.	1. कभी न मरने वाला	अमर	अमर	अमर, ग़ैरफ़ानी	अमर	अमर, अविनाशी	अमर, अविनाशी, अक्षय
		2. जिसका कभी अंत, क्षय या नाश न हो	अमर	अमर	ग़ैरफ़ानी	अमर	ग़ैर फ़ानी	अविनाशी, अक्षय
अमल	पुं.	प्रयोग, व्यवहार	प्रयोगः, व्यवहारः	अमल	अमल	अमल	अमलु	अमल, प्रयोग, व्यवहार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अभीष्ट, मनगमतुं, इच्छेलुं	अभिष्ट	अभीष्ट	अभीष्ट, इप्सित	अभीष्ट, ईप्सित, बांछित	निङजबा, पामजबा	अभीष्ट, इप्सित	अभीष्ट मैन	विरुंबिय	इष्टप्पेट्ट, अभीष्टम्	बयसिद, इष्टवाद
मनोरथ	मनोरथ	मनोरथ, मनकान्छे	मनोरथ, मन:कामना	मनोरथ	–	मनोरथ, अभिलाष, मनोकामना	कोरिक	विरुप्पम्	मनोरथम्	बयके, आसे
अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास, रफ़त	अभ्यास	अभ्यास	हन्ना-हन्ना होत्लबा	अभ्यास	अभ्यासमु	अब्बियासम् पयिर्चि	अभ्यासम्	अभ्यास
अमर	अमर	अमर	अमर	अमर	शिबा नाइदबा, अमर	अमर	चावु लेनि	शावु इल्लाद	मरणमिल्लात्त	अमर
अविनाशी, अक्षय	सासण	अक्षय, अविनाशी, अक्षर	अबिनाशी, अक्षय (क्ख)	अनंत, अक्षय, अबिनाशी	माङ्दबा	अबिनाशी, अक्षय, अनंत, चिरंजिवि	अविनाशि	अऴिवट्ट	ऑटुङ्ङात्त नशिक्कात्त	अविनाशि
अमल, प्रयोग	अंमल	प्रयोग, व्यवहार	प्रयोग, ब्यबहार	प्रयोग, निर्मल, व्यवहार, निका	शिजिन्नबा	प्रयोग, ब्यबहार	अमलु	अमुलाक्कुदल्	प्रयोगम्, नटप्पुॅ	व्यवहार, अमलिनल्लि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अमानत	स्त्री.	धरोहर, थाती	न्यास:	अमानत	अमानत	अमानथ	अमानत	अनामत, ठेव
अमावस्या	स्त्री.	चांद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन	अमावस्या	मस्सिआ	अमावस	मावस	उमास, अमावस	अमावास्या
अमिट	वि.	1. न मिटने वाला या नष्ट न होने वाला, स्थायी	अक्षय	अमिट, अमिरवाँ	अमिट ग़ैरफ़ानी	अमिट	अमिट	अमिट, स्थायी
		2. अटल, अवश्यंभावी	अवश्यम्भाविन	अमिट	नागुज़ीर	अटल	अटल, अणटर	अटल, अवश्यंभावी
अमीर	पुं./वि.	1. धनवान व्यक्ति, रईस	धनिक:	अमीर	अमीर, रईस	अमीर	अमीरु	श्रीमंत, धनाढ्य
		2. सरदार	प्रमुख:	सरदार	सरदार	–	सरदारु	सरदार, प्रमुख

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अमानत, थापण	अमानत	अमानत, थाती	आमानत, गच्छित, धन, अन्येर वस्तुजमा	अमानत, बंधक, गच्छित	लन, लंथुम	जमा, गच्छित	ताकट्टु	वैप्पुत्तंगै	सूक्षिप्पुं, सूक्षिच्चधनम्	ओत्ते, न्यास
अमावस्या, अमास	उमास	औंसी, अमा	अमाबस्या, अमानिशा	आँउसीर निशा, अमाबास्या, अमानिशा	थासि	अमाबास्या	अमावास्यँ	अमावासै	अमावसि, करुत्त वावुँ	अमावास्ये
स्थायी, स्थिर	स्थायी	अमिट, स्थायी,	स्थायी, अबिनखर	मचिब-नोवरा, स्थायी	मुत्लाइदबा	स्थायी, अचल, स्थिर	नशिंचनि, स्थायि	अऴिवट्टट	नशिक्कात्त, स्थायियाय	अनश्वर
अडग, अटल	थीर	अटल, स्थिर	अचल, स्थिर	अचल, अलर-अचर	लेङ्दबा	अटल	तप्पनि	निलैयान	दृढमाय, अवश्यं-भावियाय	तप्पद
अमीर, पैसादार, धनवान	श्रीमंत	अमिर, धनी, धनाढ्य	आमीर, धनी, संभ्रांत लोक/ ब्यक्तिलोक	धनी, धनवंत चहकी	इनाकखुनबा, शेन्जाओ पाइबा	अमीर, धनी	धनंवतुडु	दनवान्, पणक्कारर्	धनिकन्	श्रीमंत
उमराव	अमीर	सरदार, प्रमुख	सर्दार, प्रमुख नेता	नेता, मुखियाल	–	सरदार, प्रमुख	प्रमुखुडु	तलैवर्, मुक्कियस्तर्	प्रधानि प्रमुखव्	मुखंड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अमुक	वि.	कोई अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, फलां	अमुकः	फलाणा, फलां	फ़ुलाँ, फ़लाँ	फलॉन्य	फलाणो	अमुक, अमका
अमृत	पुं.	एक प्रसिद्ध कल्पित पेय, जिसके संबंध में यह मान्यता है कि उसके पीने से प्राणी अमर हो जाता है, सुधा, पीयूष	अमृतम्, सुधा, पीयूषम्	अम्रित, अमरत	आबेह्यात (अमरित)	अमर्यथ	अमृत, अंब्रत	अमृत, सुधा, पीयूष
अम्ल	पुं.	1. खट्टापन, खटाई	अम्लता	खट्टा, खटिआई	तुरशी	च़्रोंक	खटाणि	आंबट, आंबटपणा
		2. तेजाब (एसिड)	अम्लः	तिज़ाब	तेज़ाब	तेज़ाब	तेज़ाबु	तेजाब (ॲसिड)
अरथी (अर्थी)	स्त्री.	वह तख्ता, सीढ़ी आदि जिस पर मृत शरीर को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है; जनाज़ा	काष्ठमल्लः	अरथी	जनाज़ा	पॅट, आरथी	काई, अर्थी	तिरडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अमुक, पेलुं, फलाणुं	अमको	अमुक, फलानो	अमुक, जार नाम उल्लेख करा हयनि	अमुक, अमुका	कनागुंबा, करिगुंबा	अचिन्हा, नूआ	फलाना	पलाना, इन्न	इन्न (व्यक्ति, वस्तु)	इंतह
अमृत	अमृत	अमृत	अमृत, सुधा, पीयूष (जू)	अमृत	अमृत	अमृत, सुधा, पीयूष	अमृतमु	अमुदम्	अमृतम्	अमृत
अम्ल, खाटुं	आंबट	अम्ल, अमिलो	अम्ल, टक	टेङा, टेङागुण	असिन्बा	खटेइ, खटा	पुलुपु	पुळिप्पु	पुळिप्पॅु	हुळि
तेजाब	तेजाब	तेजाब	अ्यासिड, रासायनिक, अम्ल	अम्ल	एसिड, तेजाब	एसिड्, अम्ल	आम्लमु	अमिलम्	अम्लम्	आम्ल
ठाठड़ी अर्थी	मडसरी, सरण	अरथी, अर्थी, टाँड	खाटुलि, मृतदेहो बहनेर खाट	मरा-श निया, चाङि	कू	कोकेइ	पाडॅ	पाडै	शवमंचम्	चट्ट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अराजकता	स्त्री.	1. शासनतंत्र का अभाव	अराजकता	राजरौला, शासनहीणता, राजगरदी	तवाइफ़ुलमुलूकी	लूठ तुँ हूठ	बेबंदोबस्तिगी	बेबंदशाही
		2. अव्यवस्था	अराजकता	राजरौला, अराजकता	लाक़ानूनियत	बदनज़मी	बदनिज़ामी	अराजकता, अव्यवस्था
अरुण	वि.	लाल रंग का, रक्त वर्ण का, सुर्ख	अरुणः	सूहा, लाल, सुरख	सुर्ख़	वोंजुल	ग॒ाढ़ो	अरुण, रक्त-वर्णाचा
	पुं.	1. गहरा लाल रंग	अरुणः	सूहा	सुर्ख़ रंग	वोंजुल	ग॒ाढ़ो रंगु	गडद लाल भडक रंग
		2. सूर्य	अरुणः	सूरज	सूरज	–	सिजु	सूर्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अराजकता, अव्यवस्था	बेबंदशाय, अंदाधुंधी	अराजकता	अराजकता, अब्यबस्था	शासनहीन, अराजकता	वायेल थौराङ् लैतबा	अराजकता, अब्यबस्था	अराजकत॑	अराजकम्	अराजकत्वम्	अराजकते, अव्यवस्थे
अंधाधूंधी	अव्यवस्था	अराजकता, अव्यवस्था	अराजकता, विशृंखला	अराजकता	थौशिल चौराङ् लैतबा, मपु पांदबा	अब्यबस्था	अराजकत॑, अव्यवस्थ॑	कुऴप्प निलै	अशांति	अव्यवस्थे
अरुण	अरूण	अरुण, रक्तवर्ण	अरुण, रक्तबर्ण (र्न)	रङा, अरुण	अङाङ्बा, ईगी मचु	अरुण, रक्तबर्ण	एंर्रनि	सिवंद	अरुणम्, चुवन्न	केंपु
लाल चट्टक रंग	तांबसार रंग	गाढा रातो रङ	रक्तिम, लाल रंग	रङा रङ, राङाली आभा	ङङ्गानबा मचु	गाढ़ लाल रंग	एरुपु	आऴ्ंद सिवप्पु निऱम्	कटुं चुवप्पुॅ	केंपु बण्ण
सूर्य	सूर्य	सूर्य, सुर्जे	सूर्य (र्ज)	पोहरर-बेलि, नवोदित-सूर्य	नुमित	सूर्ज्य, रबि	सूर्युडु	सूरियन्	अरुणन्	सूर्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अर्चना	स्त्री.	पूजा, वंदना	अर्चना	पूजा-अरचा	परस्तिश, इबादत	पूज़ा	पूज़ा	अर्चना, पूजा, वंदना
अर्थ	पुं.	1. अभिप्राय, माने	अर्थ	अरथ	माने, मतलब	अर्थ, माने	अर्थु, माना	अर्थ, अभिप्राय
		2. धन-संपत्ति, पैसा	अर्थ	अरथ	दौलत, ज़र	–	धनु, नाणो	पैसा, धन-संपत्ती
अर्थशास्त्र	पुं.	वह शास्त्र, जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का विवेचन होता है	अर्थशास्त्रम्	अरथशासतर	मआशियात (इक्तिसादियात)	इकनामिक्स, इकतिसाँदियात	अर्थशास्त्रु	अर्थशास्त्र
अर्ध	वि.	आधा	अर्धम्	अद्धा, अध	आधा, निस्फ़	ओंड	अधु, अद्धो	अर्ध, अर्धा, निम्मा
अर्धमासिक	वि.	पाक्षिक, मास के आधे भाग का	आर्धमासिक	अधमाहां, अधमासक	पंद्रह-रोज़ा	पछवार, पछि-पछि	अधमाही, पक्ष जो/जी	अर्ध-मासिक, पाक्षिक
अर्धांगिनी	स्त्री.	धर्मपत्नी	अर्धाङ्गिनी	अरधंगणी	ज़ौजा, बीवी	ज़नानुं, कोंलय	अर्धांगिनी, अधुसरीरु, धर्मपत्नी	धर्मपत्नी, बायको, अर्धांगिनी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अर्चना, पूजा	पुजा	अर्चना, पूजा	पूजा, अर्चना	अर्चना, पूजा, वंदन	पूजा	पूजा	पूजँ	पूजै, अरुच्चनै	अर्चन, पूज	पूजे अर्चने
अर्थ, हेतु, आशय	तात्पर्य, हेतू	अर्थ, मतलब	अर्थ, माने, अभिप्राय	अर्थ, माने, तात्पर्य	अर्थ, हायनिङ्बा वाफम	अभिप्राय, माने, अर्थ	अर्थमु	पोरुळ्, अर्त्तम्	अर्थम्	अभिप्राय, अर्थ
धन, संपति, रुपिया	आस्पत, धनदौलत	धन- संपत्त, रुपियाँ- पैसा	धन- संपत्ति	धन संपत्ति, टका- पइचा	लनथुम, पैसा	धन संपत्ति, पइसा	धनमु	अर्त्तम्, सॅल्वम्	पणम्, धबम्	हणकासु
अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्यवहारशास्त्र	शेलमित्लोन् नैनबा हिरम	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्रमु	पॊरुळादारम्	धनतत्व- शास्त्रम, अर्थशास्त्रम्	अर्थशास्त्र
अडघुं, अर्ध	अर्द	अर्ध, आधा	अर्ध, अद्र्धेक, आधा	अद्र्ध (अर्ध), आधा	तङ्खाइ	अधा, अद्धेक	अर्धं, सगमु	अरै, पादि	पकुति, अर्धम्	अर्ध
याक्षिक, अर्धमासिक	अर्दमासिक	अर्धमासिक, पाक्षिक	पाक्षिक, अद्र्धमासिक (क्खि)	पषेकीया, अद्र्धमहिया	थखाइ	पख्यिक, अर्धमासिक	पाक्षिकमु	पक्षम्, अरैमादम्	पाक्षिकम्, अर्धमासिकम्	पाक्षिक
अर्धांगिनी, धर्मपत्नी	घरकान्न	धर्मपत्नी, पत्नी, अर्धाङ्गिनी	अर्धांगिनी, स्त्री, पत्नी	अर्धांगिनी, सहधार्मिणी	लोइनबी नुपी	धर्मपत्नी, अद्र्धांगिनि, स्त्री	भार्ये	पत्तिनि, मनैवि	अर्धांगिनि, भार्य	हेण्डति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अर्पण	पुं.	किसी को श्रद्धापूर्वक कुछ देना, सौंपना या भेंट करना	अर्पणम्	अरपण	नज़र	अरपन	अर्पणु	अर्पण
अलंकरण	पुं.	पदक या पदवी द्वारा विभूषित करने की क्रिया	अलङ्करणम्,	सनमानणा, तमगा देना	तज़ईन, ज़ेबाइश	पदवी दिन्य	तमग़ो ड्रियणु, सम्मान करणु	पदक
अलंकार	पुं.	1. सौंदर्यवर्धक वस्तु या सामग्री, सजावट	अलङ्कारः	अलंकार	आराइश	गहनॅु	ज़ेवरु, सींगार जो साधनु	अलंकार
		2. आभूषण, गहना	अलङ्कारः	गहिणा	ज़ेवर	लाँकरन	ग॒हिणो	दागिना, आभूषण, अळंकार
		3. रचनागत विशिष्ट शब्द-योजना या अर्थ चमत्कार	अलङ्कारः	अलंकार	सन्अत	अलंकार	अलंकारु	अलंकार
अलग	वि.	1. दूर हटा हुआ, पृथक	पृथक्	अलग, अड्ड, वक्ख	अलग	अलग	अलग॒	अलग, पृथक
		2. औरों से भिन्न	भिन्न	–	मुख़्तलिफ़	–	मुख़्तलिफ़, ब॒ियो	वेगळा, निराळा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अर्पण	अर्पण	अर्पण, दान	अर्पण, दान प्रदान, देओया	अर्पण, शोधरोवा- कार्य	कत्यबा	अर्पण, दान, हस्तांतर	अर्पण	अर्पित्तल्, काणिक्कै	अर्पणम्	अर्पणे
अलंकरण	पदक	अलङ्करण	अलंकरण (न)	अलंकरण	इकाइ- खुम्नबा उतपा	अलंकृत	अलंकरण	अलंकरित्तल्	अलंकरिक्कल्	अलंकार
अलंकार, सजावट, शणगार	अळंकार	अलङ्कार, सजावट	अलंकार, साज- सज्जा	अलंकार, गहणा	लैरेड.	अलंकार, गहणा	अलंकारमु	अलंकारम्, अळगुप्पोरुळ्गळ्	अलंकारं	शृंगार
घरेणुं	दागीनें, आभूषण	आभूषण, गहना	अलंकार, भूषण, गहना (न)	अलंकार, गहना, भूषण,	लिक-कोन, फिजेत लैतेङ्	आभूषण, गहणा	नग, आभूषणमु	नगैगळ्	अलंकारम्	आंडवे
अलंकार	अलंकार	अलङ्कार	अलंकार (काव्य शास्त्रोर रीति)	साहित्य- शोभावर्धक	बाहै अमदि अर्थगी लैतेङ्	अलंकार	अलंकारमु	सॊल्लणि	अलंकार, आभरणङ्ङळ्	अलंकार
अलग, दूर	वेगळें	अलग, अलग्ग्, बेग्लै	आलादा, पृथक	आलग, पृथक, न लगा	तोङानबा	अलगा (पृथक)	वेरु	तनियान	मारिय, वेर्	प्रत्येकवाद
जुदुं, भिन्न	–	छुट्टें, भिन्नें	भिन्नोतर	भिन्न, सम्पर्क न थका	मयामदगी खेन्नबा, मान्नदबा	भिन्न	प्रत्येकमु	वेरुपट्ट	वेर्पट्ट	बेरेयाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अलता	पुं.	लाख से बना हुआ वह लाल रंग जो स्त्रियाँ शोभा के लिए पैरों में लगाती हैं, महावर	आलक्तकम्	अलता	महावर	महावर	महावर (लाख मां ठहियलु ॻाढ़ो रंगु)	अळता
अलबम	पुं.	तस्वीरें रखने की किताब या कापी	चित्रपुस्तकम्	अलबम	अलबम	अलबम	आल्बमु	आल्बम
अलमारी	स्त्री.	काठ, लोहे आदि का या दीवार में बना एक प्रकार का ऊँचा या लंबा आधान जिसमें चीजें रखने के लिए खाने या घर बने होते हैं।	कपाटिका, कपाठवती	अलमारी	अलमारी	अलमॉर्य	अल्मारी, अल्माड़ी	अलमारी, कपाट
अलापना	अ.क्रि.	स्वर विस्तार करना	गै (गाय्)	अलापणा	अलापना	अलाप द्युन	अलापणु, आलाप कढणु	अलापणे
अलावा	अव्य.	अतिरिक्त, सिवाय	विहाय, ऋते, विना	छुट्ट, अलावा	इलावा	अलाबु	खां सिवाइ	शिवाय, व्यतिरिक्त, खेरीज

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अळतो	अळतो	आलता	आलता	आल्ता	–	अलता	पाराणि	अल्ता, चंकु ळंबु	अलक्ताकं, चॅम्मञ्ञि	आलतिगगे
आलबम	आलबम	अलबम	एलबाम	एलबाम	अलबम	आलबम	आल्बम्	आल्बम्	आल्बम्	चित्रसंपुट, आलबम्
कबाट	आरमार	आलमारी	आलमारी	आलमारि, काठवा तीखार-पेर	अंबारी	आलमारी	अल्मैरा	अलमारि	अलमारि	कपाटु, बीरु
आलापवुं	आलाप करप	अलाप्नु	आलाप, सुरभाँजा	तान धर, सुर मिला, आलाप	अलाप तौबा	आलाप, स्वर-मिलाइबा	आलपिंचुट	आलापनै सॅय्दल्	आलापनम् चॅय्युक, आलपिक्कुक	आलापने, माडुवुदु
वगरु सिवाय, विना	शिवाय	बाहेक, अतिरिक्त	अतिरिक्त, ब्यतीत, छाड़ा	बाहिरे बाजे, व्यतिरेंके	असिदा नत्तना अहेन्बा	अतिरिक्त, व्यतीत, छडा, अधिक	काक	तविर	कूटार्त	अल्लये बिट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अलौकिक	वि.	1. जो इस लोक में न मिलता हो, लोकोत्तर	अलौकिक	अलौकिक	मावराई	ॲजीब	अलौकिक, हिन लोक खां परे	अलौकिक, लोकोत्तर
		2. असाधारण, अद्‌भुत	अलौकिक	अलौकिक, अलोकक	नादिर, ग़ैरमामूली	–	अलौकिकु, असाधारण	असाधारण, अद्‌भूत
अल्प	वि.	1. कम, थोड़ा, विरल	अल्प	अलप	क़लील, कम	कम	थोरो, घटि	अल्प, थोडे
		2. तुच्छ	अल्प	अलप	अदना	कम	ख़सीस, तुछ	तुच्छ
अल्पविराम	पुं.	एक विराम चिह्न (,) जो वाक्य के पदों में पार्थक्य दिखाने या बोलने में कुछ ठहराव सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है	अल्पविरामः	कामा, अरधविराम	कामा (सक्ता)	कामा	थोरो दमु, कामा	स्वल्प विराम (कॉमा)
अल्प-संख्यक	वि.	वह दल, पक्ष या समाज, जिसके अनुयायियों की संख्या अन्य दलों, पक्षों या समाजों से अपेक्षाकृत कम हो	अल्पसंख्यकः	घॅटगिणती, अल्पसंखिअक	अक़ल्लियत	अकलियत	थोराईअ वारो अक़ल्लियत	अल्पसंख्यक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अलौकिक	अलौकिकं	अलौकिक, लोकोत्तर	अलौकिक, लोकोत्तर	अलौकिक अपार्थिव	ताइबङसिदा लैतबा, ताइबङसिगी वाङमदा	अलौकिक, लोकोत्तर, अद्भुत	अलौकिक-मैन॑	दॅय्वीगमान	अलौकिकम्	अलौकिक, असामान्य
असाधारण, अद्भुत	अद्भुत	असाधारण, अनौठो	असाधारण, अद्भुत (न)	असाधारण, आचरित	अङक्पा, इचम-चमदबा	असाधारण, अनन्य	अद्भुतमैन॑	अर्पुदमान	असाधारणम्, अद्भुतम्	अद्भुत
अल्प, थोडुं	इल्लें	अल्पृ, थौरै	अल्प, कम, एकटु	अलप, अल्प	खरा, खजिकतङ्	अल्प, कम, स्वल्प	स्वल्पमु, कॉंचमु	कुऱैवान कॅाञ्जम्	कुऱच्चुॅ, कुऱवायि	कम्मि, विरल
तुच्छ	तुच्छ	अलिकति, तुच्छ	तुच्छ, सामान्य	तुच्छ	अपिकपा	तुच्छ, साधारण	तुच्छमु	अर्पमान	तुच्छमाय	अल्प
अल्प-विराम	अल्पविराम, कॉमा	अल्पविराम, पादविराम	अल्पबिराम	अल्पविराम, लघु आहार	कॉमा	कमा, बिरामचिन्ह	कॉमा	काल्पुळ्ळि	अल्पविरामम्, कोम	अल्पविराम
लघुमती	अल्पसंख्यक	अल्प-सङ्ख्यक	अल्पसंख्यक	संख्यालघु	मशिङ् यामदबा, हनथबा	अल्पसंख्यक, संख्यालघु	अल्प-संख्याकुलु	सिऱु पान्मैयोर्	न्यूनपक्षम्	अल्पसंख्यात

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अल्पाहार	पुं.	थोड़ा भोजन, जलपान, नाश्ता	अल्पाहारः	अलप अहार	क़लील गिज़ा	कम ख्यन	थोरो खाधो, घटि खाधो	अल्पाहार
अवकाश	पुं.	1. छुट्टी या फुरसत का समय	अवकाशः	वेह्ल	फ़ुरसत, मोहलत	छुटी	वांदिकाई	अवकाश, रजा, फुरसत
		2. रिक्त स्थान या शून्य स्थान	अवकाशः	वेह्ल	ख़ला	शुन्य	ख़ाली जगह	रिकामे स्थान
अवज्ञा	स्त्री.	1. किसी आज्ञा या कानून को न मानना, उल्लंघन	अवज्ञा	अवगिआ	नाफ़र्मानी, हुक्म-उदूली	न मानुन	उलंघनु	आज्ञा भंग, अवज्ञा
		2. अनादर, अपमान	अवज्ञा	अवगिआ, अपमान, बेइज्जती	तौहीन, बेइज़्ज़ती	बेज़ती	तौहीन, बेइज़ती, अनादरु	अनादर, उपेक्षा, अपमान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नास्तो	अल्पाहार	अल्पाहार, खाजा	अल्पाहार	अल्पाहार, लघु आहार	खजिकतङ् चाबा, खितङ् चाबा	अल्पाहार, लघु आहार	फलाहारमु, अल्पाहारमु	चिट्टुण्डि	लघु भक्षणम्	अल्पाहार
फुरसद, नवराश	सुट्टी, रजा	बिदा, छुट्टी	छुटी, अबकाश	छुट्टी, अवकाश, आजरि, अवसर	छुट्टी	अबकाश, छुटी	शेलवु, तीरिक समयमु	ओय्वु नेरम्	अवधि, ओऴिवु समयं	रजे, पुरसत्तु
खाली ज़ग्या	शून्य-स्थान	खाली ठाउँ	शून्य स्थान, खालि जायगा	खाली-ठाइ, फाँक-अवसर	अहाङ्बा मफम	खालि-जागा, शुन्य-स्थान	खाली स्थलमु	कालि इडम्	इटं	खालि स्थान
अवज्ञा, अवगणना, आज्ञा-भंग	उल्लंघन	अवज्ञा	अपेक्खा	उलंघन, उलंघा, लंघन, अवज्ञा	हायबा इंदबा थओइदबा	अवज्ञा, उल्लंघन	धिक्कारमु	कट्टळै मीरुदल्, सट्टत्ते मीरुदल्	अवज्ञ	अवज्ञे, अविधेयते
अनादर अपमान	आज्ञाभंग	अनादर, तिरस्कार	अबज्ञां, अनादर, अपमान	अवज्ञा, अवमानना, सरुबुलि-भवा	इकाइखुमन-दबा इकाइबा पीबा	अपमान, अनादर, अबज्ञा	अनादरमु	अवमदिप्पु	वॅरुॅप्पुॅ, अनादरवुॅ	अगौरव, अवमान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अवतरण	पुं.	1. ऊपर से नीचे आना, उतरना	अवतरणम्	उत्तरना	नुज़ूल	वसुन	हेठि लहणु	उतरण
		2. लेख, वचन आदि का उद्धृत अंश, उद्धरण	अवतरणम्	टूक, हवाला	इक़्तिबास	हवालुँ, मिसाल	हवालो	अवतरण, उद्धरण
अवतार	पुं.	1. पौराणिक मान्यता के अनुसार ईश्वर का भौतिक या मानव रूप धारण करके इस संसार में आना	अवतार:	अवतार	अवतार	अवतार	अवतारु	अवतार
		2. जिसके संबंध में यह माना जाता है कि वह ईश्वर का अंश और प्रतिनिधि है	अवतार	–	–	अवतारु	अवतार	अवतार
अवयव	पुं.	1. शरीर का कोई अंग	अवयवम्	अंग	उज़्व (उज़्व)	अंग, हिसुँ	अंगु, उज़्वो	अवयव
		2. किसी वस्तु का कोई अंश, भाग, हिस्सा	अवयवम्	अंग	जुज़्व	–	हिसो, भाङो	भाग, हिस्सा, अंश

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उतरवुं	उतरण, देंवती	अवतरण, ओर्ल्नु	अबतरण, नामा (न)	अवतरण तललै नमाकार्य	कुमथरक्पा	अबतरण, ओल्हाइबा	अवतरिंचु	इरंगुदल्	अवतरणम्	इळियुविके, अवतरण
अवतरण, उतारो	अवतरण, उद्धरण	अवतरण, उद्धरण	उद्धृति	उद्धृत-अंश	लौथोरकपा शरुक	उधृत	अवतारिँ	एंडुपगुदि	उद्धरणम्	उद्धरणे
अवतार	अवतार	अबतार	अबतार	भगवानर-अवतार	शायोन	अबतार	अवतारमु	कडवुळिन् अवतारम्	अवतरिक्कल्	अवतार
अवतार	अवतार		ईश्वरेर प्रतिनिधि	अवतार, आविर्भाव, अंशावतार	शायोन	अवतारी-पुरुष	अवतारमु	कडवुळिन् अंशम्	अवतारम्	अवतार
अवयव, अंग	आंग	अवयव, अङ्ग	अबयब, अंग-प्रत्यंग	शरीर कोनो अंग	हक्चाङगी कयात्	अबयब, अंग	अवयवमु	अवयवम्	अवयवम्	अंग
भाग, हिस्सो, अंश	भाग, अंश	भाग, अंश, हिस्सा	अंश, भाग	कोनो वस्तुर अंश, भाग	पोत अमगी शरुक	अंश, भाग	अंशमु, भागमु	वस्तुविन् पगुदि	भागम्, अंशम्	अंश, पालु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अवरोह	पुं.	1. ऊँचाई से नीचे आना, उतरना	अवरोह	उतराई, अवरोहण	ज़वाल (नुज़ूल)	वसुन	लहणु	उतरणे
		2. संगीत में स्वरों के ऊपर से नीचे आने का क्रम	अवरोहः	अवरोह	ज़ीर	–	अवरोहु (संगीत)	अवरोह
अवलंब	पुं.	आश्रय, सहारा, भरोसा	अवलम्बः	आसरा	सहारा	डख, सहारु	आधारु	अवलंब, आश्रय, भरोसा, आधार
अवशेष	पुं.	जो बचा रह गया हो	अवशेषः	रहँद खूँद, अवशेश	बाक़ीमांदा, बक़िया	आसार, बचोमुत	बाक़ी, वचियलु	अवशेष
अवश्य	क्रि.वि.	निश्चित रूप से, जरूर	अवश्यम्	जरूर, अवश्श	ज़रूर	ज़ोरूर	ज़रूर, अवसि	अवश्य, जरूर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उतरवुं	देंवप, उतरप	अवरोह, ओर्लनु	अबतरण (न)	अवरोहण, तललैनमा कार्य, प्रतिबंधक	हायथरकपा, कुमथरकपा	अवरोहण	अवरोहणं, दिगुट	इरंगुदल, मेलिरिंदु कीळे वरुदल	मुकळिल् निन्नुं इरङ्ङुक	इळियुविकं
अवरोह	अवरोह	अवरोह	अबरोह	अवरोह	संगीत ता अवाङ्बा स्वरदगी अनेमबा स्वर दा लाकपा	संगीतरे- स्वर- गुड़िकर- अबनमन	अवरोहमु	संगीदत्तिल अवरोहणम्	(संगीतम्) अवरोहणम् (स्वरत्तिन्)	अवरोह
अवलंब, आधार, टेको	आसरो	अवलंब, सहारा, आश्रय	अबलंबन, आश्रय, भरसा	अवलंबन, आश्रय, सहाय	मतेङ्, चङ्जफम लौबा	अबलंबन, आश्रय, भरसा, सहाय	आश्रयमु, आधारमु	आदरवु, उदवि	आश्रयम्, अवलंबम्	आश्रय, आसरे
अवशेष	अवशेश	अवशेष, शेष, रहलपहल	अबशेष	अवशेष, बाकी, उच्छिष्ट	अरेंबा	अवशेष, अवशिष्ट वस्तु	अवशेषमु, मिगुलु	मिच्चमुळ्ळ	शेषिप्पुं	अळिददु, अवशेष
अवश्य, जरूर	जरूर	अवश्य	अबश्य, निश्चितरूपे, जरुर (श्श)	अवश्ये, निश्चय	शोयदना	अबश्य, निश्चित रूपरे	तप्पकं	अवशियम्, कट्टायम्	निश्चयमायुम्	अवश्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अवसर	पुं.	सुयोग, मौका	अवसरः	मौका, औसर	मौक़ा	मोकुँ	मौको, अवसरु, वझु	अवसर, संधी
अवसाद	पुं.	1. आशा, उत्साह, शक्ति आदि का अभाव, शिथिलता, उदासी	अवसादः	उदासी	अफ़्सुर्दगी	वोँदॉसी	उदासी	शिथिलता, थकवा
		2. विषाद, रंज	अवसादः	–	रंज	–	दुखु	विषाद, खिन्नता
अवसान	पुं.	1. अंत, समाप्ति	अवसानम्	समापती	ख़ातिमा	अंद, ऑखरी वख	अंतु, समापती पछाड़ी	अवसार, अंत, समाप्ति
		2. मरण, मृत्यु	अवसानम्	मरन	मौत	–	मौतु	मरण, मृत्यू
अवहेलना	स्त्री.	अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा	अवहेलनम्	बेरुखी	नाफ़र्मानी, तौहीन, इहानत	अनादर	नज़रअंदाजी, अनादर, बेइज़्ज़ती	अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवसर, तक, लाग, समय, प्रसंग	संद	अवसर, मौका, समय	अबसर, सुयोग, मओका (जो)	अवसर, सुयोग	तान्जा	अबसर, सुजोग	अवकाशमु	वाय्प्पु	अवसरम्	सुयोग, समय
अवसाद	शिथील	अवसाद, खेद	अबसाद, उत्साहहीनता	अवसाद, भाम, श्रांति	अवाबा, हैनिङदबा नुङनाङ्बा	विषाद, उत्साहहीनता	औदासीन्यमु	अर्चाहमिन्मै	विषण्णम्, अवसादम्	कोने, समाप्ति
खेद, रंज	खंती	विषाद, बिस्मात	बिषाद	विषाद, उत्साहहीनता	अवाबा	विषाद, शोक, अवसन्न	दिगुलु	तुयरम्	विषादम्	खिन्नतॆ, उदासीनते
अवसान, अंत, समाप्ति	अंत	अवसान, समाप्ति	अबसान, समाप्ति	अवसान, शेष, ओर, समाप्ति	अरोइबा, लोइशिनबा	अवसान, अंत, समाप्ति	तुदि, अवसानमु	मुडिवु	अवसानम्	कोने, समाप्ति
मोत, मृत्यु	मरण	मरण, मृत्यु	अंत, मृत्यु (त्तु)	अंत, मृत्यु	शिबा	मृत्यु, अंत, शेष	मरणमु	मरणम्	मरणम्	सावु
अवहेलना, अनादर	तिरस्कार, उपेक्षा	अवहेलना, तिरस्कार, हेला, उपेक्षा	अबहेलना, अबज्ञा, उपेक्षा (क्खा), अनादर	अवज्ञा, अनादर, अवहेला, तुच्छ-ज्ञानकरा	थओइदबा, हङ्गोइबा —	अबहेला, उपेख्या, अनादर, उपेक्षा	तिरस्कारमु, उपेक्ष, अवमानमु	मदियामै, अवमदिप्पु	अवहेळनम्, उपेक्षाभावम्, अनादरम्	अलक्ष्यते, अवहेळने, उपेक्षॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अवांछित	वि.	जो चाहा न गया हो	अवाञ्छित	अणचाहिआ	ग़ैरमत्लूबा	न यौंछ़मुत	अण-चाहियलु	अवांछित
अवाक्	क्रि.वि.	स्तब्ध, चुप	अवाक्	चुप, अवाक	ख़ामोश, हक्का-बक्का	कॉल	चुप, अवाक्	अवाक्, मौन, स्तब्ध
अविकल	वि.	1. ज्यों का त्यों	अविकल	जिउँ दा तिउँ	बिऐनिही	हिहुय	जीअं जो तीअं	अविकल
		2. पूरा, संपूर्ण	अविकल	पूरा	बजिनसिही, मुसल्लम	त्युथुय	पूरो, सजो	पूर्ण, संपूर्ण
अविरल	वि.	1. घना, सघन	अविरल	संघना	घना	अछ़्यन	लागीतो, जुड़ियलु	अविरल, सघन
		2. सतत, निरंतर	अविरल	लगातार	मुसलसल, मुतावातिर	लगातार	अंतरहीण, लगातार	अंतरहीन, निरंतर
अविलंब	क्रि.वि.	बिना देर किए, तुरंत, तत्काल	अविलम्बम्	तुरत	फ़ौरन, फ़ौरी	जल्द, तमी विज्ज़ि	बिना देर, तुर्तु	लगेच, तत्काल, अविलंब

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवांछित	नाका असो	अवाञ्छित	अबांछित	अबांछित यिटो-बांछाकर न हय	पामदबा	अबांछित, अजथा	अवांछितमु	विरुंबप्पड़ाद	अनभिलषणीयं	बयसद्दु
अवाक्, स्तब्ध	अवाक्, स्तब्ध	अवाक, स्तब्ध	अबाक, स्तब्ध	अबाक्, आचरित, निमात	तुम्मीन्ना लैबा, ङक्पा	मौन, स्तब्ध	स्तब्धुडु, स्तब्धत चंदिन	वायडैत्तुप्पान	मौनमाय, स्तब्धमाय	स्तंबीभूत
अविकल (ळ)	आसा तशें	अविकल, जस्ताको तस्तो	अबिकल, हूबहु	अबिकल, अविकृत	हामु-हामु	अबिकल	मार्पु लेनि	अप्पडिये	अङ्ङने तन्ने	इद्दद्दिदंते
पूरुं संपूर्ण	पूराय, संपूर्ण	पूर्ण, सग्लो	पूरा, संपूर्ण	संपूर्ण, सलनिनोहोवा	मपुङ् फाना	पूरा, संपूर्ण	संपूर्णमगु	पूरा, मुळु	पूर्णमाय	पूर्ण
अविरल, सामान्य	अविरळ	अविरल, घना	घन, सघन, अबिराम	घन, अबिरत	लन्बा नतबा, कुङबा	निरंतर, अबिराम	दट्टमु, अविरळमु	अडर्त्तियान	इटतूर्न्न, अविरळम्	ऐडेबिडद
अंतरहीन, निरंतर	–	लगातार, निरंतर	अबिरल, निरंतर	अबिराम, अनबरत	लेप्पा लैतबा	निरंतर, सर्बदा, अनबरत, अहर्निशी	निरंतरमु	इडैवॆळिइल्लाद	निरंतरमाय	निरंतर
तरत, तत्काल, तत्क्षण	तूर्त, सद्या	अविलम्ब, तुरुंत, तत्काल	अबिलंब, तत्क्षणात्	अबिलंबे, सोनकाले	थिंथदना खुदक्ता	तुरंत, शीघ्र, तत्क्षणात	वेंटने	तामदमिन्रि, उड़ने	विलंबमिल्लात, तामसियात	कूडले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अवैतनिक	वि.	बिना वेतन का	अवैतनिक	आनरेरी, अवेतनी	एजाज़ी	तनखा वरॉय	बिना उजूरे, आनरेरी	अवैतनिक (ऑनरेरी)
अवैध	वि.	जो विधि या विधान के विरुद्ध हो	अवैध	नाजाइज, गैरकानूनी	ग़ैरक़ानूनी, नाजाइज़	नार्जॉयिज़	बेक़ाइदे, नाजाइज़	अवैध (बेकायदेशीर)
अव्यवस्था	स्त्री.	1. व्यवस्था (क्रम, नियम, मर्यादा आदि) का अभाव	अव्यवस्था	बेतरतीबी, उलटपुलट, गड़बड़ी	लाक़ानूनियत	बदनज़मी	अव्यवस्था	अव्यवस्था, बेकायदेशीरपणा
		2. प्रबंध आदि में होने वाली गड़बड़ी, कुव्यवस्था	अव्यवस्था	गड़बड़ी	बदनज़्मी	बदनज़मी	बेबंदोबस्तगी; बदइंतज़ामी	कुव्यवस्था, गड़बड, गोंधळ
अशुद्ध	वि.	1. जो शुद्ध न हो, अपवित्र	अशुद्ध	अशुद्ध, गलत	नापाक	अशोंद, गलत	अशुध, ग़लत	अशुद्धि, अपवित्र
		2. जिसका शोधन या संस्कार न हुआ हो, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण	अशुद्ध	अशुद्ध	गंदा, नासाफ़	मॉलुँ	अशुध, ग़लत	दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवैतनिक, यगार यना	जंयपगार मेळना अशें	अवैतनिक	अबैतनिक, बिनाबेतने	अबैतनिक	आनरेरी	अबैतनिक	गौरवार्थं मैनँ	संबळमिल्लाद	प्रतिफलम् पट्टात्त	संबळविल्लद
बंधारण विरुध, गेर-कायदेसर	बेकायदेशीर, कायद्याआड	अवैध, गैरकानुनी	अबैध	अबैध, बेआइनी	नियमगी मायोक्ता लैबा	अबैध, विरुद्ध	चट्टविरुद्ध-मैनँ	सट्टात्तिर्कु पुरंबान	नियम-विरुद्धम्	न्यायवल्लदु, विधिविरुद्ध
अव्यवस्था	अव्यवस्था	अव्यवस्था, कुव्यवस्था	अव्यबस्था विशृङ्खला,	बिशृंखल, उलट-पालट	थौशिल-थौराङ् याओदबा	अब्यबस्था, विशृंखला	अव्यवस्थँ	सीर्केडु	व्यवस्थ-यिल्लाय्म	अव्यवस्थे
गरबड़	गडबडी	कुप्रबंध, भद्रगोल	अब्यबस्था	अब्यवस्था, खेलिमेली	हाबी जाबी	कुब्यबस्था, अब्यबस्था, अनाबस्था	तारुमारु	ऑळुंगिन्मै	कुळप्पम्, दुर्व्यवस्थ	गलिबिलि, कुव्यवस्थे
अशुद्ध, मलिन, मेलुं, गंदु, अपवित्र	अशुद्ध	अशुद्ध, बिटुलो	अशुद्ध, अपबित्र, भूल, मलिन	अपबित्र	चुमदबा, ओइदबा	अपबित्र, अशुद्ध	अशुद्धमु	अशुद्दमान	अपवित्रम, अशुद्धं	अशुद्ध, कोळेयाद
दोषपूर्ण	दोशपूर्ण	अशुचि, दोषपूर्ण	दोषपूर्ण (न), त्रुटिपूर्ण, अमार्जित	अशुद्धि, अशुचि, चूवा	दोसना थन्बा	त्रुटिपूर्ण, भुल, अमार्जित, दोषपूर्ण	दोषपूर्णमैनँ	माशु नीड्गाद	अशोधितम्	अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अशुद्धि	स्त्री.	1. शुद्ध न होने की अवस्था या भाव, अशुद्धता	अशुद्धिः	अशुद्धी, गलती, ख़ता	गंदगी, कसाफ़त	छ्येंचर, गल्ती	अशुधी, ग़लती	अशुद्धता
		2. त्रुटि, गलती	अशुद्धिः	–	नक़्स, ग़लती	–	ग़लती, भुल, चुक	त्रुटी, चूक
अशुभ	वि.	जो शुभ (भला या हितकर) न हो, अमांगलिक या बुरा	अशुभ	अशुभ	नामुबारक, बद	अशोंब	अशुभ	अशुभ, अमांगलिक, वाईट
	पुं.	1. अमंगल, अहित	अशुभ	–	बदी, बुरा	अशोंब	बुराई, हानी	अमंगळ, अहित
		2. दोष या पाप	अशुभ	–	नक़्स, गुनाह	अशोंब	दोष, पाप	दोष, पाप
अश्लील	वि.	नैतिक या सामाजिक आदर्शों से च्युत, फूहड़	अश्लील	अशलील	फ़ोहश	फाश	फ़ाहिश, अश्लील	अश्लील, अजागळ
अष्टमी	स्त्री.	शुक्ल या कृष्ण पक्ष की आठवीं तिथि	अष्टमी	अशटमी	अष्टमी	ऑठम	अष्टमी	अष्टमी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अशुद्धि	अशुद्धी	अशुद्धि, अशुद्धता	अशुद्धि	अशुद्धि	अरानबा	अशुद्धता, अंशुद्धि	अशुद्धि	अशुद्दम्, अळुक्कु	अशुद्धत, अशुद्धि	अशुद्धि अशुचि
खामी,भूल, ऊणप, त्रुटि(–टी)	चूक	गलती, भूल	त्रुटि, गलति	भुल, त्रुटि	थङाइसेड.वा नत्तबा	त्रुटि, भुल	तप्पु	तवरु	तॅटटुॅ	तप्पु
अशुभ	अशुभ, अमंगळ	अशुभ, आमङ्गलिक	अमंगल	अमंगल, अशुभ, अहित	मंगल लैतबा	अमांगलिक, अशुभ	अशुभमु	अमंगलमान, अशुभम्	अशुभम्, अमंगळकरम्	अशुभ, अमंगळकर
अमंगल, अशुभ	अमंगळ	अमङ्गल, बिच्छुक	अमंगल	अशुभ, अमांगलिक	मंगल लैत्बा	अशुभ, अमंगल, अहित	अशुभमु	तीमै	अमंगळम्	अमंगळ, अनिष्ट
दोष, पाप	दोश	दोष पाप	दोष, पाप, खूँत, दाय	दोष, पाप, खूँत, दाय	दोस, पाप	दोष, पाप	दोषमु	कुरै, पावम्	पापम्	पाप
अश्लील, अभद्र	अश्लील	अश्लील, लज्जाजनक, फोहोर	अश्लील, असभ्य, नोङगरा	अश्लील, असभ्य, असत, अभद्र	अकामपेत	अनैतिक, अभद्र	अश्लीलमु	आबासमान, कॅट्ट	अश्लीलम्, असभ्यम्	अश्लील
अष्टमी, आठम	अश्टम	अष्टमी	अष्टमी, अष्टम-तिथि	अष्टमी-तिथि	निपालनि पान्बा	अष्टमी, अष्टमी तिथि	अष्टमि	अष्टमि	अष्टमि	अष्टमि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
असंख्य	वि.	1. जो गिनती में बहुत अधिक हो	असंख्य	असंख, अनगिणत	लातादाद	वारियाह	बेशुमार	असंख्य, अगणित
		2. जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत	असंख्य	–	अनगिनत	बेशुमार	अगणति	अगणित
असंगत	वि.	जो संगत न हो, बेमेल, असंबद्ध, प्रसंग-विरुद्ध	असंगत	असंगत, बेतुका	ग़ैरमुतअल्लिक़	नामुनासिब	बेमेल	विसंगत, असंबद्ध
असंतोष	पुं.	संतोष का अभाव	असंतोषः	असंतोख	बेइत्मिनानी	असंतूश	असंतोषु, नाराज़िपो	असंतोष
असंभव	वि.	जो कभी घटित न हो सके	असंभव	असंभव, अणहोणा	नामुम्किन	नामुमकिन	असंभव, नामुम्किन	असंभव
असत्य	वि.	जो सत्य या उसके अनुरूप न हो, झूठा या मिथ्या	असत्यम्	झूठ, कूड़, असत्त	बातिल	अपुजु	असतु, कूड़ु	असत्य, मिथ्या
असभ्य	वि.	जो सभ्य न हो, अशिष्ट, गँवार	असभ्य	असभिअ	ग़ैरमुहज़्ज़ब, वहशी	गॉर तहज़ीब-याफतुॅ	असभ्य, अणसुधिर्यलु	असभ्य, अशिष्ट, खेडवळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
असंख्य	असंख्य	असङ्ख्य्, धेरै	असंख्य, प्रचुर	अगणन	मशिङ् थिङम्दबा	असंख्य, अगणित, अनेक	लॅक्कलेनि	मिग अदिगमान	असंख्यम्	अत्यधिक, बहु संख्यात
अगणित	अगणित	अनगंती	अगुनति, अनेक	अगणन	मशिङ् थिङम्दबा	अगणित, अनेक	असंख्या- कमयिन्न	ऍण्णट्ट	ऍण्णमट्ट	लेक्कविल्लद, असंख्यात
असंगत	मेळ लागनाशिल्लो	असङ्गत नसुहाउँदो	अबांतर	असंगत, संगतिहीन, अमिल	चुशिनदबा, चान्नदबा	प्रसंग- विरुद्ध (असंगत), अश्लील	असंबद्धमु	पोरुंदाद, चेराद	असंगतमाय	अप्रासंगिक
असंतोष	असंतोश	असंतोष, असंतोक	असंतोष, अप्रसन्न, दु:ख, बेजार	असंतोष, अप्रसन्न	पेंदबा	असंतोष, अप्रसन्न	असंतृप्ति	मननिरैविन्मै अतिरुप्ति	असंतृप्ति	अतृप्ति
असंभव, अशक्य	असंभव	असंभव	असंभब	असंभव	ओइथोक्तबा	असंभब	असंभवमु	निगळमुडियाद	असंभाव्यम्	असंभव, साध्यविल्लद
असत्य, मिथ्या, खोटुं	असत्य, फट	असत्, झुटो	असत्य (त्त), मिथ्या (त्था)	असत्य, मिछा	चुमदबा, ओइदबा	मिथ्या, असत्य	असत्यमु, अबद्धमु	पोय्यान	असत्यम्	असत्य, सुळ्ळु
असभ्य	गांव गिरें	असभ्य्, पाखे	असभ्य, अशिष्ट, गोंयार	असभ्य, बर्बर, अशिष्ट, अभद्र	चाओखत्तबा	अशिष्ट, असभ्य, बर्बर	असभ्यमैन्न, अनागरिक- मैन्न	नागरीगमट्ट, पण्बट्ट	असभ्यम्, असभ्यन्	असभ्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
असमंजस	पुं.	दुविधा, अनिर्णय की स्थिति	असमंजस	दुचित्ती, शशोपंज	तअ़ज्जुब (पसोपेश), शशोपंज	शशपंज	ब़िचिताई, हब़क शशोपंज	असमंजस, भ्रम, घोटाळा
असमर्थ	वि.	जो किसी काम को कर सकने में समर्थ न हो, अशक्त	असमर्थ	असमरथ, शक्तीहीण	नाअहल	–	असमर्थ	असमर्थ
असर	पुं.	प्रभाव	प्रभावः	असर	असर	असर	असरु	प्रभाव
असल	वि.	वास्तविक	वास्तविक	असल	अस्ल (असल)	असुॅल	असुली	अस्सल, खरो, वास्तविक
	पुं.	मूलधन	मूलधनम्	मूलर्धन, असल	अस्ल ज़र	असुॅल	असुलु, मूरु मूड़ु	मुद्दल, मूलधन
असली	वि.	बिना मिलावट का, शुद्ध, खरा	वास्तविक	असली	अस्ली	असली	असुली, सच्ची	सच्चा, खरे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
असमंजस, डामा-डोलपणुं	अनमनें	असमञ्जस, दोधारेपन, दुबिधा	इतस्तत:, द्‌बिधाग्रस्त, दोमना	द्‌विधा, दोधोर-मोर(थरो-गैंरो), दोधोर-मोधोर	हायफम तौफम खङ्‌दबा	किंकर्त्तब्य-बिमूढ़	असमंजसमु, चिक्कु	तडुमाट्टम्, तयक्कम्	धर्मसकटम्, आश्यक्कुळ्प्पं	अनिश्चय, पेचाट
अयोग्य	अशकत	अशक्त, अक्षम	अक्षम, अपटु, अयोग्य	अक्खम, अपारग, अलायक	तौङम्दबा	असमर्थ, अक्षम, अपारग, असमर्थ	असमर्थुडैनॆ	सामर्त्तिय-मट्ट	कोळ्ळात्तवन्	असमर्थ
असर, प्रभाव	प्रभाव	असर, प्रभाव	प्रभाब	प्रभाव	ममि ताबा	प्रभाब	प्रभावमु	पिरबावम्, ताक्कम्	प्रभावम्, फलम्	प्रभाव
असल, वास्तविक, खरुं	अस्सल, खरो	असल, वास्तविक	आसल, यथार्थ (ज), बास्तबिक	आचल, प्रकृत, संचा, यथार्थ	तशेङ्‌बा	बास्तबिक, जथार्थ, प्रकृतरे	वास्तवमैनॆ	उण्मैयान	असल्, तनि	निजवाद, खरे
मूळ	मूलधन	मूलधन	मूलधन	मूलधन, मूल	शैन	मूलधन, पुंजि	मूलधनमु, असलु	मूलदनम्	मूलधनम्	असलु
असल, मूळ, पुराणुं	खरें, असली	वास्तविक, विशुद्ध	बिशुद्ध, आसल, प्रकृत	आचल, प्रकृत	अशेङ्‌बा	असल, प्रकृत	असलैनॆ	असल्, शुद्धमान, कलप्पडमट्ट	यथार्थमाय, असल्	निजवाद, खरे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
असहयोग	पुं.	औरों के साथ मिलकर काम न करने की क्रिया या भाव	असहयोग:	नामिलवरतण	अदम-तआवुन (तर्केमुवालात)	सूॅत्य न पकुन अदमि-तोवुन	असहयोग	असहयोग, असहकारिता, असहकार्य
असह्य	वि.	जो सहा न जा सके, उग्र, तीव्र	असह्य	असहि	नाक़ाबिले बरदाश्त	नाकॉबिलि-बरदाशत	असहु, न सहण जोगो	असह्य
असाधारण	वि.	जो सामान्य न हो	असाधारण	असाधारण	ग़ैरमामूली	गॉरमोमूली	ग़ैररिवाजी, असाधारण	असाधारण, असामान्य
असीम	वि.	1. जिसकी कोई सीमा न हो	असीम	बेहद, असीम	लामहदूद	बेहद	बेहद	असीम
		2. बहुत अधिक, अपार		–	बेहद, बेहिसाब	–	बेहद, तमामु, घणो	फार अधिक, अपार
असुर	पुं.	दैत्य, दानव, राक्षस	असुर:	असुर, दैत, दानो	देव (राक्शस)	राख्युस	दैतु, राकासु	असुर, दैत्य, दानव, राक्षस
असुविधा	स्त्री.	सुविधा का अभाव, कठिनाई	असौविध्यम्	औख, औखिआई	दिक़्क़त, तक्लीफ़, मुश्किल	तकलीफ़	अहंजु, तकलीफ़ डुखियाई	गैरसोय, अडचण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
असहकार, असहयोग	असहकार	असहयोग	असहयोग (जो)	असहयोग, सहयोग न कर	तेङ्बाङ्दबा, थाओदबा	असहजोग (असहयोग)	सहाय- निराकरणमु	पारुक्क- मुडियाद	निस्सहकरणं	असहयोग, असहकार
असह्य	असह्य	असह्य	असह्य (य)	असह्य, असहनीय	खांङम्दबा	असहनीय	असह्यमैन	पारुक्क- मुडियाद	असह्यमाय	असह्य
असाधारण	असाधारण	असाधारण	असाधारण, असामान्य (न)	असाधारण, विशेष- त्वपूर्ण	इचमचमदबा, चमदबा	असामान्य, असाधारण	विलक्षणमैन	तनिप्पट्ट	असाधारण- माय, पतिविल्लात्त	असाधारण
असीम, बेहद	अनंत	असीम, अनंत	असीम, सीमाहीन	असीम, अनंत	ङमखै नाइदबा	असीम, सीमाहीन	अंतुलेनि, अपरिमितमैन	एल्लैयट्ट, अबारमान	अतिरिल्लात्त	अनंत, असीम
घणुं	अपार	प्रशस्त, अपार	प्रचुर, अशेष	अपार, अशेष	मपाल नाइदबा	बहुत, अधिक, बेशि	–	–	–	ऐल्लेमीरिद, अपार
असुर, दैत्य, दानव, राक्षस	दैत्य, राक्षस	दैत्य, असुर	असुर, दैत्य (त्त), दानब	असुर, दैत्य	हिङ्चाबा	दैत्य, दानब, राक्षस, असुर	राक्षसुडु, असुरुडु	अरक्कन्	असुरन्	राक्षस, असुर
अघरुं, मुश्केल, मुश्केली, अगवड	त्रास अडचणी	कठिनाइ, असुविधा, असुविस्ता	मुश्किल, असुबिधा	कठिनता, टान, कटकटिया, कोवाल, असुबिधा, असुचल	अवाबा, खुदोङ् चादबा	कठिन, कष्टकर, असुबिधा, सुविधार अभाब	कष्टमु, इब्बंदि	तांदरवु	विषमम्	इक्कट्टु, तांदरे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अस्तबल	पुं.	वह स्थान जहाँ घोड़े बाँधे जाते हैं, घुड़साल	अश्वशाला	तबेला, असतबल	अस्तबल	गुर्यगान, तबेलुँ	तबेलो	अश्वशाळा, तबेला
अस्तव्यस्त	वि.	जिसका क्रम या व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी हो, इधर-उधर बिखरा हुआ, तितर-बितर	अस्तव्यस्त	उग्घड़-दुग्घड़	मुंतशिर	यिरवुँन्य	डांवाडोल, टिड़ियलु-पखिड़यलु	अस्ताव्यस्त, विस्कटलेला
अस्तित्व	पुं.	होने का भाव, विद्‌यमानता, सत्ता	अस्तित्वम्	होंद	वुजूद, हस्ती	वॅजूद	हस्ती, वुजूदु	अस्तित्व, सत्ता, विद्‌यमानता
अस्त्र	पुं.	फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार	अस्त्रम्	असतर	हथयार	हथियार	हथियारु, अस्त्रु	अस्त्र
अस्थि	स्त्री.	हड्‌डी	अस्थि	हड्‌डी, असथी	हड्‌डी	ॲडिज	हड॒ी, हड॒ो	अस्थि, हाड
अस्थिर	वि.	जिसमें स्थिरता न हो, गतिमान, चंचल	अस्थिर	असथिर	ग़ैरसाकिन, मुतहर्रिक	च़ंच़ल	अस्थिर, चंचल	अस्थिर, गतिमान, चंचल
अस्पताल	पुं.	वह स्थान जहाँ रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था होती है, चिकित्सालय	चिकित्सालयः	हसपताल	अस्पताल	हस्पताल	अस्पताल	इस्पितळ, चिकित्सालय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तबेलो	तबेलो, अश्वशाळा	अस्तुबल	आस्ताबल	घोँराशाल	शगोलशङ्	घोड़ाशाल, अश्वशाला	अश्वशाल	कुदिरैलायम्	कुतिरलायम्	कुदुरेय लाय
अस्त-व्यस्त, छिन्नभिन्न	अस्त-व्यस्त	अस्तु-व्यस्तु, लथालिङ्ग	एलोमेलो, विशृंखल, अबयब-स्हितो	उलट-पालट, बिशृंखल	इचाइ चाइबा	अब्यबस्था, अस्तब्यस्त, बिशृंखला	तारुमारयिनँ, छिन्ना-भिन्नमयिनँ	तारुमाुरान	अविडाविडॅ, तारुमारायि	अस्तव्यस्त
अस्तित्व, हस्ती, हयाती	अस्तित्व	अस्तित्व	अस्तित्व, सत्ता विद्यमानता	अस्तित्व, सत्ता	लैबगी मओङ्	सत्ता, अस्तित्व	अस्तित्वमु	उण्डु एन्र तन्मै, इरुक्कै	अस्तित्वम्, सत्त	इरवु, अस्तित्व
अस्त्र, फेंकवानुं हथियार	अस्त्र	अस्त्र, हतियार	अस्त्र, हाथियार	अस्त्र	लङ्नबा खुत्लाइ	अस्त्र, आयुध, हतिआर	अस्त्रमु, आयुधमु	अस्तिरम्, अंबु	अस्त्रम्	अस्त्र
अस्थि, हाडकुं	अस्थी	अस्थि, हाड	अस्थि, हाड़	अस्थि, हाड़ (हार)	शरु	हाड़, अस्थि	ऍमुक	ऍलुंबु	अस्थि	मूळे
अस्थिर, फरतुं, चंचल	अस्थीर	अस्थिर, चञ्चल, छुकछुके	अस्थिर, चंचल	अस्थिर, चंचल	अरेङ्बा, अचत्पा	चंचल, अस्थिर, शिघ्र	चंचलमु, अस्थिरमु	निलैयट्ट अशैगिर	अस्थिरम्, चंचलम्	चंचल, अस्थिर
होस्पिटल, इस्पिताल, दवाखानुं	आस्पत्री, ओश्पिताल	अस्पताल, चिकित्सालय	हासपाताल	चिकित्सालय, हास्पटाल	अना लायेङ्शङ्, हस्पताल	हासपाताल, चिकित्सालय, डाक्तरखाना	आसुपत्रि, चिकित्सालयमु	मरुत्तवमनै आस्पत्तिरि	आशुपत्रि	आस्पत्रे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अस्वस्थ	वि.	1. जो स्वस्थ न हो, बीमार या रोगी	अस्वस्थ	मांदा, बिमार	बीमार, अलील	ब्यमार	बीमार	रोगी, आजारी
		2. दूषित	अस्वस्थ	–	बुरा	ब्यमार	ग़ैर-सिहतमंद	दूषित, वाईट
अहं	पुं.	'मैं हूँ' का भाव, अहंकार, अभिमान	अहम्भावः, अहंस्त्व	हउमै, आपा	अना, घमंड	अहंकार	अहम्, ख़ुदी	अहं
अहंकार	पुं.	अभिमान, गर्व	अहङ्कारः	हंकार	अनानीयत	अबिमान, नशॅं	अहंकारु, अभिमानु	अहंकार, गर्व, अभिमान
अहाता	पुं.	1. चारों ओर बाड़ आदि से घिरा हुआ मैदान या स्थान	आवारः, प्राङ्गणम्	हाता, अहाता	इहाता (अहाता)	हातुॅं, चारदीवॉरी	अहातो	आवार
		2. चहारदीवारी	प्रावरः	हाता, अहाता	इहाता	हातुॅं, चारदीवॉरी	चारदीवारी	तट, कुंपण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अस्वस्थ, बेचेन	अस्वस्थ	अस्वस्थ, बिरामी	असुस्थ	बेमारी, रुग्न, रुगीया, असुस्थ	हक्चाङ् ङम्दबा, अनाबा	रोगी, सुस्थ, बेमार थिबा लोक	रोगग्रस्त-मयिनॅ, जब्बुपडिनॅ	नोयुट्ट	रोगि, आरोग्य-मिल्लात्त	काइले, रोगि
दूषित, खराब	अशुद्ध, वायट	दुषित, खराब	दुषित, अस्वास्थ्य-कर	दूषित, बेया, मंद	शेङ्दबा	दुषित, खराप	अनारोग्य-करमयिनॅ	नलमट्ट	दूषितम्	अपरिशुद्ध, केट्ट
अहं, अहंकार	अहम, अहंकार	अहं, घमण्ड, दर्प	अहं, अहंकार, दर्प	अहंकार, दर्प	नापल, पोङ्बा	अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्ब	अहं, हामु	गर्वम्, अहंकारम्	अहंकारम्	सोक्कु, अहं
अहंकार, अभिमान, गर्व	गर्व	घमन्ड, अहंकार, दर्प	अहंकार, दर्प, गर्व	अहंकार, मदरर भाव	नापल, पोङ्बा	अभिमान, गर्ब, अहंकार, दर्प	अहंकारमु	चॅरुक्कु	अहंकारम्	अहंभाव, अहंकार
वाडो, कोट, वंडो, कंपाउन्ड, घेरो	वाठार	चौगिर्दा, चोगिर्द	हाता, घेरा, एलाका	बेरि-थोवा ठाँइ	माइकै मरिमक्ता खाजिन्बा लंपाक	घेरा, हता	आवरणमु	सुट्टडैप्पु	वळप्पुॅ	कांपौण्डु, आवरण
फळियुं आंगणुं	दुरगाचें आंगण	चौहोरा, हाता	सीमांत-प्राचीर	चारिओफाले, थोवा, बेरि थोबा ठाँइ	—	चारि पार्श्वर पाचेरी	आवरणमु	सुट्टुच्चुवर्	मत्तिल् कोट्ट	अंगळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
अहिंसा	स्त्री.	हिंसा का निषेध	अहिंसा	अहिंसा	अदम तशद्दुद	अहिंसा	अहिंसा	अहिंसा
अहित	पुं.	भलाई का अभाव, अपकार, हानि	अहितम्	अहित	ज़रर (नुक़सान)	न्वकसान	हाञो, नुक्सानु	अहित, अपकार, हानी
आँकड़े	पुं.	तथ्यों को सूचित करने वाले अंक-समूह	अङ्क:	अंकड़े	आदादो-शुमारी (शुमारियात)	ऑदाद-शुमार	अंग अखर	आंकडे
आँकना	क्रि.	अंकित करना	अङ्क	अंकणा	खोदना (कंदा करना)	अंदाज़ुॅ-लगावुन	चिटणु, उकेरणु	रेखाटणे
	स.क्रि.	अनुमान लगाना	अनु+/मा	अंगणा, अंकणा (कूतना)	आँकना, अंदाज़ा लगाना	आँकवन	आँकणु	अनुमान करणे
आँख-मिचौनी	स्त्री.	लुका-छिपी, बच्चों का एक खेल	निगूहनम्	लुकण-मीटी	आँख-मिचौली	गोरमाजि-गोरस, अऺन्य कतरि	अखि-बूट	लपंडाव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अहिंसा	अहिंसा	अहिंसा	अहिंसा	अहिंसा	हिङ्सा तौदबा, अहिंसा, जीव हात्बा	अहिंसा	अहिंसै	तीङ्गु चेय्यामै, अहिंसै	अहिंस	अहिंसे
अहित, भूंडुं, अकल्याण, नुकसान, हानि	अहीत	अहित, कुभलो, अपकार	अहित, अपकार, हानि, अमंगल	अहित, अपकार, अनिष्ट, अमंगल	माङ्नबा, फतनबा	अपकार, हानि, अहित, अमंगल	अहितमु, कीडु	तीमै, केडुदल्	अहितम्, तिन्म	अहित, नष्ट
आंकडा	आँकड़े	तथ्याङ्क, आँकडा	परिसंख्यान	परिसंख्यान	स्टैटिस्टिक्स डाटा खोँबा	परिसंख्यान	लंक्खलु	पुळ्ळि विवरंगळ्	स्थितिविवर-क्कणक्कुं	अंकि-अंशगळु
पाडवुं, दोरवुं	आंखणी	अंकित गर्नु	आँका	आँक, चिन, आँच	चाओराक्ना हाइरप येक्पा	चित्रादि अंकित करिबा	चित्रिंचुट	वरैय	चित्रत्तिल् अटयाळ-प्पॅटुत्तुक	बरेयुवुदु
आंकवुं	अंदाज करप	आँक्नु, अडकल काट्नु	अनुमान करा	अनुमान करा	भावना शाजिन्बा	अनुमान लगाइबा	अंचना वेयुट	मदिप्पिड़	ऊहिक्कुक, मतिक्कुक	अंदाजुमाडुवुदु ऊहिसुवुदु
आंख मिचोली, संता कूकडी	आपा लिपा	लुकामारी, लुकालुक	लुकोचुरि	लुकाभाकु, भाकूलुका	केकू-लोतपी सन्नबा	लुचुकालि	दागुडुमूतलु	कण्णामूच्चि	कण्णु पॉत्तिक्कळि	कण्णु-मुच्चालेयाट

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आँगन	पुं.	घर के अंदर का खुला चौकोर स्थान	अङ्गनम्, अङ्गण	वेड़ा, विह्ड़ा	आँगन	आंगुन	अङणु	अंगण
आँचल	पुं.	साड़ी का पल्ला, छोर, सिरा	अञ्चलम्	लड़, पल्ला, सिरा	आँचल	पोँछ, पलुँ	पलउ, आंचलु	पदर
आंतरिक	वि.	1. अंदर का, भीतरी	आन्तर	अंदरला	अंदरूनी	अँदुर्युम	अंदरियों, अंदियों	आंतरिक, आंतील
		2. अंतःकरण से प्रेरित, सच्चा, वास्तविक	आन्तर, हार्दिक	आंतरिक, अंदरूनी	बातिनी	–	अंदर जो, अंदरियों	खरे, वास्तविक
आंदोलन	पुं.	सोद्देश्य किया जाने वाला व्यापक सामूहिक प्रयास	आन्दोलनम्	अंदोलन	तहरीक	जलसुँ, तॅहरीक	आंदोलनु	आंदोलन
आँधी	स्त्री.	धूल भरी तेज हवा, अंधड़	प्रकम्पनः, महावातः	हनेरी	आँधी	वावुँ–तुफान	तूफ़ान, वाचूड़ो	झंझावात, तुफान, बादळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आंगण, आंगणुं, फळिचुं	आंगण	आँगन	अंगन, उठोन, आंगिना	आंगन, उठोन, आंगिता	शुमाङ्	अगणा, दुआर	मुंगिलि	मुट्टम्	मुट्टम्	अंगळ
छेडो, आंचल (ळ), पालव	पदर	आँचल, सप्को	आंचल, अंचल, प्रांत (शाड़ी)	आँचल, कापोरर आग	फिजि, मतोल, फिदोल	आँचल, पणत	कोंगु, अंचु	मुंदानै, तलैप्पु	अट्टम्, वस्त्रांचलम्	सेरगु, तुदि, अंचु
आंतरिक, अंदरनुं	भितरले	आंतरिक, भित्री	भितरेर, गभीर	अंतरर, आंतरिक	मनूङ्गी, नूङ्गी	भितर	लोपलि	उट्पुरत्तु	अकत्त, आंतरिकमाय	ओळगिन
अंतरनुं, हृदयनुं	खरे, मनांतलें	साँचो, वास्तविक	आंतरिक, अंतरेर, प्रकृतो	आंतरिक, प्रकृत, अकृत्रिम	थमोइगी अशेङ्बा अचुंबा	बास्तबिक, आंतरिक, प्रकृत	आंतरिकमु, वास्तविकमु	उण्मै निलैयान	उळ्ळिल् तट्टिय	अंतरंगद
आंदोलन, हिलचाल, चळवळ	आंदोलन	आंदोलन, अभियान	आंदोलन	आंदोलन, विक्षोभ	आंदोलन, मीयामगी इहौ	आंदोलन, विद्रोह	उद्यममु	किळर्च्चि, पोराट्टम्	प्रस्थानम्	चळुवळि, आंदोलन
आंधी	बादळ, मनांतलें	आँधी, हुरी, आँधी बेहरी	झड़, झंझा, झटिका	धुमुहा, धुलिर-धुमुहा	नोङ्लै-नुङ्शित्	धुलि झड़, झंजा	गालिदुमारमु	पुयल् काट्टु	कांटुकाट्टुं	धूळु तुंबिद् गाळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आंशिक	वि.	1. अंश या भाग से संबंध रखने वाला	आंशिक	आंशक	जुज़्वी	अॅकिस हिसस-ताम महदूद, जुज़्वी	अंश या हिसे सां वास्तेदार	अंशत:
		2. कुछ या थोड़ा, अपूर्ण	अपूर्ण	आंशक, अंशुक	जुज़्वी	–	थोरो, अपूरन हिसो	काही, थोडा, अपूर्ण
आँसू	पुं.	अश्रुग्रंथि से स्रवित जल कण, अश्रु	अश्रु	हंझू, अथरू	आँसू	ऑंश	गो॒ढ़ा, लुड़िक	आंसू, अश्रु
आकर्षक	वि.	1. अपनी ओर खींचने वाला	आकर्षक	खिच्च-पाऊ, आकरशक	पुरकशिश (जाज़िब)	दिलस मंज़ जाय करवुन	छिकींदड़ु	आकर्षक
		2. प्रभावित या मोहित करके अपनी ओर ध्यान खींचने वाला	आकर्षक	धूँह-पाऊ, कशश	पुरकशिश	जॉज़िब	कशिश कंदड़ु, मोहींदड़ु	आकर्षक
आकर्षण	वि.	1. अपनी ओर खींचने का भाव	आकर्षण	खिच्च, धूँह	कशिश, जाज़िबीयत	कॅशिश	कशिश, छिक	आकर्षक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आंशिक, जरासरखुं, अंश पूरतुं	आंशीक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	शरुत	आंशिक, सम्यक	आंशिकमु	पगुदियान	भागिकम्	आंशिक
अधूरुं, अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण, खानिक, अल्प (न)	अपूर्ण	मपुङ् फादबा, मचेत्	किछि, अपूर्ण, स्वतंत्र	अपूर्णमु	अपूर्णमान	भागिकम, अपूर्णमाय	अपूर्ण
आंसु, अश्रु	दुक्कां	आँसु, अश्रु	अश्रु, चोखेर जल	चकुलो, चकुर, पानी	पि, पिराङ्	अश्रु, लुह, लोतक	कन्नीरु	कण्णीर्	कण्णुनीर्, अश्रु	कण्णीरु
आकर्षक	आकर्शक	आकर्षक	आकर्षक	आकर्षण- कारी, आनौंता	चिङ्शिनबा	आकर्षक	आकर्षकमु	ईर्किर्	आकर्षकम्	आकर्षक
मोहक	–	मोहक	आकर्षणी शक्ति (नी)	आकर्षक	शुमहत्पा	आकर्षणीय	आकर्ष- णीयमु	कवरुगिर्	आकर्षणीयम्	सेळेयुव, मोहक
आकर्षण, खेंचाण	आकर्शण	आकर्षण	आकर्षणी शक्ति (नी)	आकर्षण टान	चिङ्शिनबा मतौ	आकर्षण	आकर्षण	ईर्कुम् शक्ति, कवर्च्चि	आकर्षणम्	सेळेत, आकर्षणे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आकस्मिक	वि.	अकस्मात्, अप्रत्याशित या एकाएक घटित होने या प्रकट होने वाला, अचानक	आकस्मिक	अचानक, चाण-चक्क	ग़ैर मुतवक़्क़ा	यखदम	ओचितो, अचानक	अचानक, आकस्मिक
आकार	पुं.	1.आकृति, शक्ल	आकृतिः	अकार, आकार	वज़ा, शक्ल	आकार, अनहार	शिकिल, बनावट, आकारु	आकार, आकृती, रूप
		2. किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई-चौड़ाई, फैलाव, ऊँचाई आदि	आकारः	अकार, आकार	वज़ा	आकार, अनहार	बीहक, आकारु	आकार
आकाश	पुं.	नभ, गगन, आसमान	आकाशः	अकाश, आकाश	आसमान	आकाश	आकाशु, उभु	आकाश, नभ, गगन, आभाळ
आकाश-वाणी	स्त्री.	1. आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी	आकाशवाणी	अकाशबाणी	इल्हाम	आकाशिवॉनी	आकाशवाणी/ आकासवाणी	आकाशवाणी
		2. ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम	आकाशवाणी	अकाशबाणी	आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)	आकाशिवॉनी	आकाशवाणी	आकाशवाणी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आकस्मिक, ओचिंतुं, अणधार्युं, अचानक	अकस्मात	आकस्मिक, अचानक	आकस्मिक, आचमका, हठात्	आकस्मिक, हठात्-घटा	इखङ् खङ्हौदना	अचानक, आकस्मिक, हठात	आकस्मिकमु	तर्चयलान	आकस्मिकम्, अविचारितम्	अनिरीक्षित
आकार, आकृति	आकृती	आकार, आकृति, कद, स्वरूप	आकार, आकृति	आकार, आकृति, गढ़, ठह	मओङ्	आकृति, आकार	आकारमु	उरुवम्, तोट्टम्	आकारम्, आकृति	रूप, आकार
कद	आकार	बान्की, बनावट, बनौट	आकार, साइज	आकार, आयतन, आकृति, ठह	साइज़	आकार, आयतन, दैर्घ-प्रस्थ, उच्चता	आकारमु, सइजु	अमैप्पु	वलिप्पम्	अळर्त, गात्र
आकाश	मळब	अकास, आकाश	आकाश, गगन, नभ	आंकाश, गगन	अतिया, नोङमादोल नोङ्दोल, आकाश	गगन, आकाश, नभ	आकाशमु	आगायम्	आकाशम्	आकाश, मुगिलु
आकाश-वाणी, देववाणी	आकाशवाणी	आकाशवाणी, देववाणी	देबबाणी (नी)	आकाश-बाणी, दैव-बाणी	रेडियो, आकाश वाणी	आकाशबाणी, शून्यबाणी	आकाश-वाणि	अशरीरि वाक्कु, वानॊलि	अशरीरि, आकाशवाणि	आकाशवाणि
रेडियोनी वाणी	आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)	अल इन्डिया रेडियो	आकाशबाणी (नी)	आकाशबाणी, अनाताँर रेडिअ	आकाश वाणी, रेडियो	आकाशबाणी	आकाशवाणि	आकाश-वाणी, वानॊलि निलैयम्	आळ् इंडिया रेडियो, आकाशवाणि	आकाशवाणि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आकृति	स्त्री.	1. वस्तु या व्यक्ति का चित्र, भावभंगिमा प्रकट करने वाली मुद्रा	आकृतिः	शकल	वज़ा, शक्ल	आकार, अनहार	शिकिल, आकृती, रूपु	आकृती
		2. रूप, गठन, चेहरा	आकृतिः	चेहरा मोहरा, मुहांदरा	चेहरा	–	बनावट, बीहक	रूप, चेहरा
आक्रमण	पुं.	प्रहार, हमला	आक्रमणम्	हल्ला, धावा, हमला	हम्ला	हमलुँ	हमलो	आक्रमण, प्रहार, हल्ला
आक्षेप	पुं.	लांछन, दोषारोपण	आक्षेपः	तोहमत	तोहमत, बोहतान	लॉट खसुन	इल्ज़ामु, तुहमत	आक्षेप, लांछन, दोषारोपण
आखिर	पुं.	1. अंत, समाप्ति	अंत	आख़र, अख़ीर	आख़िर	ऑखुॅर	आख़िर, पछाड़ी	शेवट, अखेर, समाप्ती
		2. परिणाम	समाप्तिः, अन्तिम	–	नतीजा	ऑखुॅर	नतीजो	परिणाम
	वि.	3. अंत में, बाद में या पीछे होने वाला	अंत	–	आख़िरी	–	पोइ जो, पछाड़ीअ जो, नतीजो	अनंतरचा, मागील
आखेट	पुं.	शिकार	आखेटः	शिकार	शिकार	शिकार	शिकारु	मृगया, शिकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आकृति, आकार	आकृती	आकृति, स्वरूप	आकृति, आकार	आकृति, रूप गढ	शक्ओङ् शक्तम	आकार, आकृति	आकृति, आकारमु	उरुवम्, तोट्टम्	आकृति	आकृति, मुखमुद्रे
रूप, चाहे	चेहरो	अनुहार, मुख	रूप, गठन, चेहारा	रूप, गठण, चेहेरा, गढ	मशक, माइथोङ्	रूप, गठन, चेहेरा	रूपमु	रूपम्, मुखम्	रूपम्, मुखम्	रूप, मुख
आक्रमण, हुमलो	आक्रमण, हल्लो	आक्रमण, धावा	आक्रमण, हमला	आक्रमण	लालदाबा	प्रहार, आक्रमण	आक्रमणॎ, दाडि	पडैयॆडुप्पु	आक्रमणम्	दाळि
आक्षेप, आरोप	आक्षेप	आक्षेप, दोषारोपण	आक्षेप, लांछन, दोषारोपण (क्ख) (न)	दोषारोप, जगरधरा-कार्य	थङ्जन्बा, हायजिन्बा	आख्येप, दोषारोपण, दोषारोप	आक्षेपणॎ, आरोपणॎ	आट्चेबणै, कुट्टच्चाट्टु	कळंकम्, कळंकारोपणम्	आक्षेपणे, मूदलिर्के
छेल्लुं, अंत	अखेर, शेवट	आखिर, समाप्ति	आखेर, अंत, समाप्ति	अंत ओर, अवसान	अरोइबा	अंत, समाप्ति, शेष	चिवॎर, तुदि	मुडिवु	अवसानम्	कोने
परिणाम	परिणाम	आखिरी, अन्तिमको	परिणाम (न)	परिणाम, फल, शेषफल	महै	परिणाम	फलितमु	पयन्	फलम्	परिणाम
अंते	मागीर	परिणाम	आखेरी	पिचर, परवर्ती	तुङ्दा ओइगदबा	अंतिम, शेष	चिवरि	पिन्नाल् वरुगिर	पिन्नीटॅु संभविक्कुन्न	कोनेय
आखेट, मृगया, शिकार	कासार	सिकार, आखेट	मृगया, शिकार	चिकार, शिकार	शादांबा	मृगया, शिकार	वेटॎ	वेट्टै	नायाट्टॅु	बेटे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आगंतुक	पुं.	आने वाला (व्यक्ति), अभ्यागत, अतिथि, पाहुना	आगन्तुकः	प्राहुणा	मेहमान (वारिद)	पोंछ्	आयलु, मेहमानु	आगंतुक, अभ्यागत, अतिथी, पाहुणा
आग	स्त्री.	1. अग्नि	अग्निः	अग्ग	आग	ओंगुन, नार	आग, बाहि	आग, अग्नी
		2. जलन, डाह, संताप	संतापः	साड़ा	हसद	नार	हसदु, ईर्खा	दाह, ताप, संताप, मत्सर
आगमन	पुं.	आने, पहुँचने या नए सिरे से प्रकट होने की क्रिया या भाव	आगमनम्	आगमन, आउणा, पहुंच	वुरूद	युन	अचणु, आमद	आगमन
आगामी	वि.	भविष्य में आने या होने वाला, भावी	आगामी	आगामी, आउणवाला	आइंदा	यिनुँ वोल	ईंदड़ु	आगामी, भावी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आगंतुक, अभ्यागत, अतिथि, परोणो, महेमान	सोयरो	पाहुना, अतिथि	आगंतुक, अभ्यागत, अतिथि	अतिथि, आलही कोनो- घटना- घटिबर-लक्खन	अतिथि, मीथूङ्लबा	अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक	आगंतुकुडु, अतिथि	विरुंदाळि	आगतन्, अतिथि	अतिथि, अभ्यागत
आग, देवता, अग्नि	उजो	आगो	आगुन, अग्नि	अग्नि, जुइ	मै	अग्नि, निआँ	अग्नि	ती, नेरुप्पु	ती	बेंकि
बळतरा, संताप	जाळ	डाहा, दाहा	ज्वाला, दहन (जा)	ज्वलन, दाह पोरा कार्य ताप, शोक-संताप	मै	संताप, दहन, ज्वाला, ज्वलन	मंट	एरिच्चल्	एरिच्चिल्	उरि
आगमन, आववुं ते	आगमन, येवप	आगमन	आगमन, आसा	आगमन, अहा, अहाकार्य	लाक्पा, यौरक्पा, थुङ्लबा	आगमन, आसिबा	आगामनमु, राकँ	वरुगै	आगमनम्, वरवुँ	आगमन
आगामी, आवनारुं	भावी	आउँदो, आगामी, भावी	आगामी, भाबी	आगामी, भावी काल	तुङ्दा लाक्कदबा, तुङ्दा ओइरक्कदबा	भाबी, आगामी, भविष्यतरे	आगामि, राबोवु	अडुत्त, वरुगिर	वरान् पोकुन्न	मुंबरुव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आगे	क्रि.वि.	1. पहले या सामने, किसी की उपस्थिति में	अग्रे	अग्गे, अगांह	आगे	ब्रुह्युम	पाहिरीं, अगि़यां	पुढे
		2. भविष्य में	अग्रे	–	मुस्तक़बिल में	ब्रुह्युम	अगि़ते	भविष्यांत
		3. कुछ दूर और बढ़ने पर	–	–	–	ब्रोंहुकुन	अगि़यां; अगि़ते	पुढे
आग्रह	पुं.	1. नम्रतापूर्वक बल, अनुरोध	आग्रह:	तरला, मिन्नत	दरख़्वास्त (दरख़ास्त)	हठ, ज़ोर	ज़ोरु, हुजत	आग्रह, अनुरोध
		2. किसी बात पर अड़ते हुए जोर देना, हठ	आग्रह:	–	इस्रार, ज़िद	–	ज़िदु, होड	हट्ट
आघात	पुं.	1. प्रहार या चोट	आघात:	सट्ट, चोट	चोट, ज़ख़्म	चोट	धकु, चोट	आघात, प्रहार, घाव
		2. किसी दुखद घटना के कारण होने वाली मानसिक व्यथा	आघात:	सट्ट, चोट	सद्मा	सदमुं	सदमो	दु:ख

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आगळ, पूर्वे, सामे, सन्मुख	फुडें	अगाडि, सामु, समक्ष	प्रथमे, सामने, आगे	प्रत्यक्षे, आगलति, आगते- आगलि	माङ्दा, तुङ्दा मथङ्दा	आगे, सम्मुखरे	मुंदु, एंदुट	मुन्नाल्, एंदिरे, मुन्निलैयिल्	मुन्निल्, मुन्पिल्	मुंदे
भविष्यमां	फुडार	भविष्यमा, यसपछि	भविष्यते	अगलै, भविष्यतलै	–	भबिष्यतरे	मुन्मुंदु	इनि, एंदिर्	भावियिल्	मुंदे, भविष्दयदल्लि
आगळ	–	अगाडि, केही पर्	एकटु आगे	अलप आगत	माङ्दा	आगरु	मुंदु	वलियुरुत्तल्	निर्बंधिक्कल्, वाशि	मुंदे
आग्रह, अनुरोध	आग्रो	आग्रह, अनुरोध	अनुरोध	अनुरोध, हें पाह	कन्ना हाइजबा	आग्रह	मनवि	वलियुरुत्तल्	अपेक्ष	ओत्ताय
हठ, जीद	हट्ट	हठ, अड्डी	जेद, आग्रह	जेद, आँकोर, आँकोर गोज	नोल्लुकना कन्ना हाइजबा	जिद	पट्टुदलॆ	वर्पुरुत्तल्	निर्बंधिक्कल्, वाशि	हट
आघात, प्रहार, फटको	आघात	चोट, प्रहार, आघात	आघात, प्रहार, चोट	आघात, मार, कोब	अशोक्पा, चैना	प्रहार, आघात	गायमु	अडि, कायम्	प्रहरम्	एटु
दुःख, वेदना	शॉक, धसको	धक्का, मानसिक व्यथा	मानसिक बेदना	मानसिक आघात, वेदना, मनत-कोब	नुङ्दा पिबा चैथेङ्	मानसिक आघात, कष्ट	संतापमु	ताक्कम् मनवरुत्तम्	आघातम्	व्यथे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आचरण	पुं.	चाल-चलन, चरित्र	आचरणम्	आचरन	किर्दार, अख़लाक़	चालुँ-चलन	हलति, वहिंवारु, आचरणु	आचरण, चारित्र्य, शील
आचार्य	पुं.	1. गुरु, शिक्षक	आचार्यः	आचारीआ	उस्ताद	गोंरू, परनावन-वोल, वों स्ताद	आचार्यु	आचार्य, गुरु, शिक्षक
		2. विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्षः	प्रोफैसर	प्रोफ़ैसर	प्रोफेसर	आचार्यु	विभाग प्रमुख
		3. किसी विषय का असाधारण पंडित	आचार्यः	आचारीआ	अल्लामा	व्यदवान	विद्वानु	विद्वान
आज	क्रि.वि.	1. वर्तमान में	अद्य	अज्ज	आज	अज़	अजु	आज
		2. इन दिनों में, इस काल में	अद्य	अज्ज	आजकल	अज़कल	अजु काल्ह	या दिवसांत, या काळी
	पुं.	प्रस्तुत या वर्तमान	अद्य	अज्ज	आज का दिन (इम्रोज़)	अज़	–	आजचा दिवस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आचरण, वर्तणूक	आचरण, वर्तन	चाल-चलन, चरित्र, बानीबेहोर	आचरण, चाल-चलन, चरित्र (न)	आचरण, चाल-चलन	लमचत्, शाजत्	चालि-चलन, चरित्र, आचरण, प्रकृति	आचरणं, नडवडिकं	नडत्तै	पॆरुमाट्टम्	नडते, आचरणे
आचार्य	आचार्य, गुरु, शिक्षक	अध्यापक, गुरु, आचार्य	गुरु, शिक्षक (क्ख)	गुरु, शिक्षक, आचार्य, धर्मगुरु, शिक्षागुरु	ओजा, गुरु	गुरु, शिख्यक (शिक्षक)	आचार्युडु	आसिरियर् गुरु	गुरु, आचार्यन्	गुरु
मुख्य शिक्षक, प्रिन्सिपल	विभाग प्रमुख, मुखेली	विभागाध्यक्ष	प्रधान अध्यापक	प्राध्यापक, अध्यापक	–	अध्यापक, प्रफेसर	प्रोफेसरु	पेरासिरियर्	प्रॉफ़सर्	प्राध्यापक
विद्वान	विद्व्रान	विशिष्ट विद्वान	पण्डिताचार्य (र्ज)	आचार्य पण्डित, पंडित-लोक, ज्ञानी	पंडित, माइचौ	बिद्वान, पंड़ित	महापंडितुडु	अरिञर्	आचार्यन्	आचार्य
आजे	आयज	आज, वर्तमान दिन	बर्तमान समय	आजि	ङसि	आजि	ई वेळ, नेडु	इन्ऱु	इन्नॅ	इंदु
आ दिवसो मां	हालीं	हिजोआज, आजभोलि	एइ समय	एतिया	हौजिक की मतम	एहि	इप्पुडु	इक्कालत्तिल्	इक्कालत्तॅ	ईकालदाल्लि
आज नो दिवस	आयचो दीस	वर्तमान समय, बितीरहेको दिन	बर्तमान काल	आजिर-दिनटो	ङसि	आजिर दिन	ई रोजु	इन्ऱैयदिनम्	इन्नॅ	ईदिन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आजकल	क्रि. वि.	1. इन दिनों, वर्तमान काल में	अद्यत्वे	अज्जकल	हाल में	अज़कल	अजु काल्ह	आजकाल
		2. वर्तमान या प्रस्तुत दिनों में, एक-दो दिन में	अद्यत्वे	अज्जकल	आजकल	अज़कल	अजु काल्ह	सध्या, हल्ली
आजाद	वि.	स्वाधीन, मुक्त, स्वतंत्र	स्वतन्त्रः, मुक्त	अज़ाद, आज़ाद	आज़ाद	आज़ाद	आज़ाद	आझाद, स्वाधीन, मुक्त, स्वतंत्र
आजीवन	क्रि. वि.	जीवन भर	आजीवनम्	उमर भर	ताहयात (ताउम्र)	सॉर्यसुँय ज़िंदगी	जीवन भरि, ता उमिरि	आजीवन, जन्मभर, आजन्म
आजीविका	स्त्री.	रोजी, रोजगार, धंधा	आजीविका	जीवका, रोज़ी	रोज़ी	रूज़ी, ज़िय	आजीविका, रोटी रोज़ी	धंदा, वृत्ती,
आज्ञा	स्त्री.	1. आदेश, हुक्म	आज्ञा	आगिआं	हुक्म	ऑग्यन्या, हॉकुम	आज्ञा हुकुमु	आज्ञा, आदेश, हुकुम
		2. अनुमति	आज्ञा	–	हुक्म, इजाज़त	इजाज़त	इजाज़त	अनुमती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आजकाल, हमणा, हाल	–	हिजोआज, आजकाल, अचेल	आजकाल, बर्तमाने	आजिर-दिनत	हौजिक ओइरिबा मतम	आजिकालि, बर्तमान-कालरे	ई रोजुल्लो	इन्नाट्कळिल्	ईयिर्ट	ईगिन-कालदल्लि
हमणांज	सद्या	आजभोलिया	दु-एक-दिनेर मध्ये	आजि-कालि	ङसि-ङराङ्, नोङ्मा निनिदा	एक दुइ दिनरे	इटीवलॆ, ई मध्य	ओरिरु नाट्कळिल्	अटुत्तु तन्नॆ	सद्यदल्लि
आझाद, स्वतंत्र	स्वाधीन, मुक्त, स्वतंत्र, आझाद	स्वतंत्र, आजाद, मुक्त	स्वाधीन, मुक्त, आजाद (सा)	स्वाधीन, मुक्त	मनिङ् मखा तंबा, नीङ्तंबा	स्वाधीन, मुक्त, स्वछंद	स्वाधीनमयिनॆ, स्वतंत्रमयिनॆ	सुतंदिरमान	स्वतंत्रमाय	स्वतंत्र
आजीवन आजन्म	आजीवन	बाँचुन्जेल, जीवनपर्यन्त, आजीवन	आजीबन, जीबनभर	आजीवन, जीवन-जुरि	पुन्सि चुप्पा	जीबनजाक, आजीबन, सारा जीवन	जीवितांतमु	वाळ्नाळ् मुळुदुम्	जीवितमार्गं, तोळिल्	जीवन पर्यन्त
आजीविका, गुजरान	रोजगारी	आजीविका, रोजी, पेसा	उपजीबिका, रोजगार, धांधा	जीविका, बृत्ति, वृत्ति, व्यवसाय	शिनफम, हिङ्नबगी पांबै	जीबिका, वृत्ति, व्यवसाय	ब्रतुकु तेरुवु, जीवनोपाधि	पिळैप्पु, तॊळिल्, उद्दियोगम्	जीवितमार्गं, तौळिल्	जीवनोपाय, कसबु
आज्ञा, हुकम	आज्ञा	आदेश, अऱ्हाेट	आज्ञा, आदेश, हुकुम	आज्ञा, आदेश, हुकुम	याथङ्, थौदाबा	आदेश, हुकुम, आज्ञा	आज्ञॆ	कट्टळै	आज्ञ	अप्पणॆ
रज़ा परवानगी	परवानगी	अनुमति	अनुमति	अनुमति, अनुज्ञा	अयांबा लौबा	अनुमति	अनुमति	अनुमदि	अनुमति, अनुवादम्	ऑप्पिगॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आडंबर	पुं.	दिखावा, दिखावटी ठाट-बाट	आडम्बर:	अडंबर	ज़ाहिरदारी, नुमाइश	दिखावटी	आडंबरु, ड॒ेखाउ	ढोंग, देखावा, अवडंबर
आढ़तिया	पुं.	आढ़त का काम करने वाला	आढकी	आड़तीआ	आढ़तिया	आडुॅत्य, द्राल	भलाविणो, दलालु	दलाल, अडत्या
आतिशबाजी	स्त्री.	बारूद से बनी चीजों के जलाने का तमाशा	अग्निक्रीडा	आतसबाज़ी, आतिशबाज़ी	आतिशबाज़ी	आतशबॉज़्य	आतिशवाज़ी	आतिषबाजी
आतुर	वि.	1. अधीर, उतावला	आतुर:	उतावला, आतर	मुज़्तरिब, बेसब्र	वुतावली	अधीर, बेचैन	आतुर, अधीर, उतावला
		2. विकल, बेचैन	आतुर	उतावला, आतर	बेताब, बेचैन	–	व्याकुल	बैचैन, व्याकुळ
आत्मकथा	स्त्री.	अपना लिखा जीवन-चरित	आत्म-कथा	आतम-कथा	खुदनविश्त	पनुॅन्य कथ	आत्म-कथा	आत्मकथा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आडंबर	देखाव, प्रदर्शन	बोक्रे धाक, आडम्बर	आड़ंबर, लोकदेखानो-ठाठ	आडंबर, जाक-जमक, बिपुल आयोजन	थोक्-मोक् शो	आडंबर, जाक-जमक	आडंबरमु	आडंबरम्	आडंबरं	आडंबर
आडतियो	आंगडियो	दलाल	आढ़तदार	आढ्य सम्भारी	दलाली	आड़तिया, कोटँणा, दलाल	दलारि	तरगर्	कम्मीषन् एजन्टँ, दल्लाळ्	दळ्ळाळि
आतश-बाजी	फोग	आतस-बाजी	आतशबाजि	आतचबाजी	मैकाप्पी	बाण	बाणसंचा	वाण वेडिक्कै	वॅटिक्कॅट्टु, कंपक्कॅट्टु	पटाकि-हारिसुवुदु
आतुर, अधीरुं, आकळुं	आतुर	अधीर, आतुर	आतुर, अधीर, उतला	आतुर, अधीर, कातर	लाङ्तक्नबा	अधीर, उत्फुल्लित, आतुर	आदुर्दापडु	परपरप्पान	आतुरन्	आतुरपडुव, तवकगोळ्ळुव
पीडातुं, दु:खीं	व्याकुळ	विकल, बेचैन, व्याकुल	बिकल, अशांत	बियाकुल	मीपाइबा	बिकल, ब्याकुल	व्याकुलपडु	अमैदियट्ट	अस्वस्थन्	व्याकुल
आत्मकथा	आपजीण	आत्मकथा, आत्मचरित्र	आत्म-कथा, जीवनी	आत्मजीवनी	इनुन्सि वारी (उ. पु.) नपुन्सि-वारी (म. पु.) मपुन्सी-वारी (अ. पु.)	आत्मचरित, आत्मकथा, जीवनी, आत्मजीवनी	आत्मकथ, स्वीय चरित्र	सुयचरितै	आत्मकथ	आत्मकथे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आत्म-रक्षा	स्त्री.	अपना बचाव	आत्म-रक्षा	आतम-रखिआ	हिफ़ाज़ते-खुद	पनुन बचाव	आत्म-रक्षा, खुद जो बचाउ	आत्मरक्षा
आत्म-विश्वास	पुं.	अपने पर विश्वास या भरोसा	आत्म-विश्वासः	आतम-विशवास	खुदएतिमादी	पानस प्यठ बरोसुँ आसुन	आत्म-विश्वासु	आत्मविश्वास
आत्म-समर्पण	पुं.	1. अपने आपको किसी के हाथ में सौंपना	आत्म-समर्पणम्	आतम-समरपण	खुदसुपुर्दगी	हथियार त्रावुँन्य	आत्म-समर्पणु	आत्मसमर्पण
		2. हथियार डाल देना	आत्म-समर्पणम्	आतम-समरपण	इताअत	–	पेश पवणु, आत्म समर्पणु	हत्यार खाली टाकणे
आत्महत्या	स्त्री.	अपने हाथों अपना वध, आत्मघात	आत्म-हत्या	आतम-हतिआ, खुदकुशी	खुदकुशी	खौंदकशी, पनुन पान-पानुँ मारुन	आत्म-हत्या	आत्महत्या

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आत्म- रक्षण	आत्म रक्षा	आत्मरक्षा	निजेके बाँचानो, बिपद थेके निजेकें बाँचानो, आत्मरक्षा	आत्मरक्षा	इशाबु कन्जबा (उ. पु.) नशाबु कन्जबा (म.पु.) मशाबु कन्जबा (अ. पु.)	आत्मरक्षा	आत्मरक्षणँ	तर्काप्पु	आत्मरक्ष	आत्मरक्षणे
आत्म- विश्वास	आत्म विश्वास	आत्म- विश्वास	आत्म- बिश्वास	आत्म बिश्वास, आत्म- प्रत्यय	मशाना मशाबु थाजबा	आत्मबिश्वास	आत्म- विश्वासमु	तन्नंबिक्कै	आत्मविश्वास	आत्म- विश्वास
आत्म- समर्पण	आत्म- समर्पण	आत्म- समर्पण	आत्म- समर्पण	आत्म- समर्पण	मशाबु कत्थोक्चबा	आत्म- समर्पण	आत्म- समर्पणमु	तन्नैयै अर्पणि- त्तुक्कॊळ्ळल्	आत्मसमर्पणम्	आत्मार्पणे
हथियार- नीचे- मुकवां	दिमी मोडप	अस्त्र- समर्पण	अस्त्र- समर्पण (न)	अस्त्र- समर्पण	खुत्लाइ थादोक्पा	अस्त्र- समर्पण	ओटमि स्वीकरिंचु	एंदिरिडियम् शरणैडदल्	कीऴटङ्ङल्	सोलु ओप्पि- कोळ्ळुवुदु, समर्पणे
आत्महत्या, आपघात	आत्महत्या	आत्महत्या, आत्मघात	आत्म- हत्या (आँतों) (त्ता)	आत्महत्या, निजर, मरन, घटोवा	मथनता शिजबा मथनता हात्तोक्चबा	आत्महत्या, आत्मघाती	आत्महत्य	तर् कॊलै	आत्महत्य	आत्महत्ये

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आत्मा	स्त्री.	1. शरीर में रहकर उसे जीवित रखने वाली अविनाशी, अभौतिक शक्ति, प्राण	आत्मन्	आतमा	रूह	आत्मा, रुह	आत्मा, रूह	आत्मा
		2. किसी वस्तु आदि का गूढ़, मूल तथा सार भाग	सार:	–	रूह	जुव	आत्मा, रूह	तात्पर्य, सार
आदत	स्त्री.	1. प्रकृति, स्वभाव	प्रकृति:	आदत	आदत	आदथ	आदत	संवय, प्रकृती, स्वभाव
		2. बान, टेव	स्वभाव:	–	आदत	–	आदत	संवय, अभ्यास
आदमी	पुं.	1. मनुष्य	मनुष्य:	आदमी	आदमी, इन्सान	मोहन्युव, आदमी	आदमी	माणूस, मनुष्य, मानव
		2. वयस्क और प्रौढ़ व्यक्ति	प्रौढ:	–	बालिग़	–	बालिग़	वयस्क व प्रौढ व्यक्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आत्मा, जीव	आत्मा	आत्मा, जीवात्मा	आत्मा (त्ता)	आत्मा, जीवात्मा, प्राण	थवाइ	जीबात्मा, आत्मा	आत्म	आत्मा, जीवन्	आत्मावु, जीवन्	जीव
सारभूत, तत्व	सार	मूल तत्व, सारभूत	सार भाग	मूल, सार, सारभाग	सार	मूल, सार	सारमु	उळ् तत्तुवम्	तत्वम्	सार, रहस्य
प्रकृति, स्वभाव	सभाव	आदत, स्वभाव, प्रकृति	प्रकृति, स्वभाव	प्रकृति, स्वभाव	हैनबी, स्वभाव	प्रकृति, स्वभाव	प्रकृति, स्वभावमु	पळक्कम्	पतिवु, स्वभावम्	स्वभाव
आदत, टेव, महावरो	संवंय	बानी, बेहोर	अभ्यास	अभ्यास	हैनबी	अभ्यास	अलवाटु	सुबावम्	रीति, प्रकृति	अभ्यास, वाडिकॆ, रूढि
आदमी, माणस, मानवी	मनीस	मानिस, मानव, मान्छे	मानुष, लोक, आदमी, मानव	मानुह	मी, ताइबङ्मी	मनुष्य, मणिष	मनिषि	मनिदन्	मनुष्यन्	मनुष्य
वयस्क, प्रौढ व्यक्ति	वयस्क आनी प्रौढ व्यक्ती	बालिग	मानब बयस्क, प्रौढ़	बयसीया, मानुह	नूपा	प्रौढ़- ब्यक्ति	वयस्कुडु	वयदुवंदवन्	प्रायपूर्त्ति- यायवन्	वयस्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आदर	पुं.	सम्मान, सत्कार, पूज्य भाव	आदरः	आदर	एहतराम	यज़थ	आदरु	आदर, सत्कार, पूज्य भाव
आदरणीय	वि.	आदर-योग्य	आदरणीय	आदरयोग	क़ाबिले-एहतिराम, मुह्तरम	यज़तस लायक	आदर जोगो, मानवारो	आदरणीय
आदर्श	पुं., वि.	1. अनुकरणीय, श्रेष्ठ	आदर्शः	आदरश	मिसाल	आदर्श	आदर्शु	आदर्श, श्रेष्ठ, अनुकरणीय
		2. नमूना, बानगी	प्रतिमानम्	–	नमूना	नौंमूनु	नमूनो	नमुना
आदान-प्रदान	पुं.	लेन-देन	आदान-प्रदानम्	लैण-देण	लेन-देन	लेन-देन	ड॒े-वठु	आदान-प्रदान, देवाण-घेवाण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आदर भाव, पूज्य	भौमान भाव, पूज्य	आदर, सम्मान, सत्कार, मानभाउ, कदर	सम्मान, आदर, आप्यायन सश्रद्धर भाव	मान, सम्मान सत्कार भक्ति, सन्मान	इकाइ-खुम्नबा	सम्मान, सत्कार, आदर, आप्यायन पूजा भाब, भक्तिभाब	आदरमु, मन्ननँ, गौरवभावमु	मरियादै, मदिप्पु	आदरवुॅ, पूज्यत	आदर, सत्कार, मर्यादॆ, गौरव
आदरणीय	आदरणीय	आदरणीय, सम्माननीय	आदरणीय, सम्मानीय (नी)	आदरणीय	इकाइ-खुमनजरिबा	आदरणीय, सम्मानीय	आदरणीयमु	मदिप्पि-कुॅरिय	सम्मान्यन्	आदरणीय, गौरवार्ह
आदर्श, श्रेष्ठ	आदर्श	आदर्श, श्रेष्ठ	आदर्श, अनुकरणीय (नी), श्रेष्ठ	आदर्श, आर्हीं, अनुकरणीय, चेनेकी	फिदम	अनुकरणीय, आदर्शस्यानीय, श्रेष्ठ	आदर्शमु	मुन्-मादिरि	अनुकरणीयन्	श्रेष्ठ, आदर्श
नमूनो	नमूनो	नमुना, बान्की	नमुना, निदर्शन	आर्हीं, नमुना	फिदमनिङ्ङाइ ओइबा	नमुना, उदाहरण	नमूना	उयर्गुणम्	आदर्शम्	मादरि, नमूने
आदान-प्रदान	देवघेव	आदान प्रदान, लेनदेन	आदान-प्रदान, लेन-देन	आदान-प्रदान, बिनिमय	पिथोक-पिशिन, लौथोक-लौशिन	निदर्शन, आदान-प्रदान, देबानेबा	इच्चि पुच्चुकॉनुटॅ	कॉडुक्कल्-वांगल्	आदान-प्रदानम्, कॉटुक्कल्-वाङ्ङल्	आदान-प्रदान, विनिमय कोड, कॉळ्ळविके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आदि	पुं.	मूल	आदि	आद, आदि	अस्ल	मूलुक	आदि, मूल	आदी, मूळ
	वि.	पहला	आदि	आद, आदि	अव्वल, अज़ली	मूल, गोंडन्युक	आदि, पहियों	प्रथम, पहिला
	अव्य.	इसी प्रकार और या बाकी सब भी, इत्यादि, वगैरह	आदि	आद, आदि	वग़ैरह	मूल	वग़ैरह	इत्यादी, वगैरें
आदिवासी	पुं.	1. किसी देश का मूल निवासी	आदिवासी	आदवासी, आदिवासी	अस्ल बाशिंदा	आदिवॉसी	आदीवासी	आदिवासी
		2. जनजाति का सदस्य	जनजातिः	–	आदीवासी (क़बाइली)	–	–	आदिवासी
आदेश	पुं.	आज्ञा, हुक्म	आदेशः	आदेस, आदेश	हुक्म, फ़र्मान	हुकुम, इज़ाज़थ	हुकुमु, आज्ञा	आदेश, आज्ञा, हुकुम
आद्याक्षर	पुं.	(कई पदों वाले) नाम के प्रत्येक पद का आरंभिक अक्षर, जो प्रायः हस्ताक्षर आदि के लिए प्रयुक्त होता है	आद्यक्षरम्	आदि-अक्खर, सही, घुग्घी	इब्तिदाई हर्फ़	गोंडुॅ अछुर	आदि-अखरु, नाले जो पहियों अखरु	आद्याक्षर (इनीशियल्स)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आदि प्रथम, पहेलो	मूळ पयलो	मूल पहिलो, प्रथम	आदि, मूल प्रथम	आदि आरंभ, उत्पत्ति स्थान	हौरक्फम अहौबा	मूल, आदि प्रथम, प्रारंभ	आदि मॉदटि	आदि, मूल मुदलावदु	आदि आद्यत्तं	मूल, आदि मॉदलनेय
इत्यादि	आनी हेर	आदि, इत्यादि, अरूपनि	आदि, इत्यादि, प्रभृति	इत्यादि	असिनचिङ्बा	इत्यादि, प्रभृति	मॉदलगु	मुदलिय, वगैयरा	आदि, तुटङ्ङिय, मुतलाय	मॉदलाद, इत्यादि
आदि-वासी, मूळरहेवासी	आदिवासी	आदिवासी, मूलवासी	आदिबासी	जनजाति	चीङ्मी, हाओ	आदिबासी	आदिम-निवासि	आदिवासी पळंकुडि-मक्कळ्	आदिवासि	आदिवासि, मूलनिवासि
आदिवासी	–	जनजाति	उपजातीय व्यक्ति, जनजाति	जनजातीय लोक, अरुणाचल प्रदेशर की एक विशेष जाति	चीङ्मी	उपजातिर सदस्य	आदि-वासि	पळंकुडि-मक्कळ्	आदिवासि	आदिवासि बुडकट्टुजन, गुडडगाडु जन
आदेश	आदेश, हुकूम	आदेश, हुकुम, आज्ञा, उर्दी	आदेश, आज्ञा, हुकुम	आदेश, आज्ञा, हुकुम	याथङ्, थौदाबा	आज्ञा, आदेश	आदेशमु	कट्टळै	आज्ञ, उत्तरवुं	अप्पणॅ, आज्ञॅ
पोतानुं नाम, पितानुं नाम	ल्हान निशाणी, आद्यक्षर (इनीशियल)	नामाक्षर, पहिलो अक्षर, इनीशियल	आद्याक्षर (क्ख)	आद्यक्षर, नामर पहिला आखर, प्रथम संक्षिप्त सही	अशंबा सोई, इनीशियल	आद्याक्षर	पॉडिअक्षरालु	मुदर्लळुत्तु	आद्यक्षरम्, इनिष्यल्	आद्यक्षर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आधा	वि.	वस्तु के दो समान भागों में से प्रत्येक	अर्धम्	अद्धा	आधा	ऑड, न्युसुँफ	अधु, अद्धो	अर्धा
आधार	पुं.	1. नीचे की वह वस्तु, जिसके ऊपर कोई दूसरी वस्तु टिकी या रखी हो	आधारः	अधार, आधार	बिना, बुन्याद	बूनी, बुनियाद	आधारु, बुनियादु	आधार
		2. कारण	आधारः	–	सबब, वजह	–	आधारु, बुनियादु	कारण
आधारभूत	वि.	आधार रूप में स्थित, मूलभूत	आधारभूत	बुनिआदी	बुन्यादी	मूलुँ तलुँ	बुनियादी	आधारभूत
आधिकारिक	वि.	अधिकारपूर्वक कहा या किया हुआ	आधिकारिक	अधिकारक	सरकारी (हाकिमाना)	अदिकॉरी, हॉकिमानुँ, सरकारी	सनदी, अधिकार सां चयलु	अधिकारपूर्वक
आधुनिक	वि.	आजकल का, वर्तमान काल का	आधुनिक	आधुनिक	मौजूदा (जदीद)	अज़कालुक	हाणोको, आधुनिक, जदीदु	आधुनिक
आध्यात्मिक	वि.	आत्मा और ब्रह्म से संबंध रखने वाला	आध्यात्मिक	अधिआतमिक	रूहानी	दैवी, रूहॉनी	आत्मिक, रूहानी	आध्यात्मिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अर्ध, अडधुं	अर्द	आधा, अर्ध	आधा, अद्र्धेक	आधा, दूभागर ए भाग	तङ्खाय	अधा, अर्धेक	सगमु, अर्ध	पादि, अरै	पकुति	अर्ध
आधार, टेको, अवलंबन	आदार	आधार, आलंब, टेको	आधार	आधार, आश्रय, पात्र	युंफम	आधार	आधारमु	आदारम्	आधारम्, आश्रयम्	आधार
कारण	कारण	कारण	कारण (न)	कारण	मरम	कारण, हेतु	कारणमु	कारणम्	कारणम्	कारण
आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत, मूलभूत	आधारीभूत, मूलिभूत	आधारी, मूल	मरुओइबा युंफम	आधार	आधारभूतमैन	अडिप्पडैयान	अटिस्थानपरम्	आधारवाद
साधिकार	अधिकार-पूर्वक	आधिकारिक, साधिकार	आधिकारिक	कर्त्तव्यपूर्ण, आधिकारिक	शुपचिल्ल-क्पा, अधिकार पाइशिल्लकपा	आधिकार	अधिकार-पूर्वकमैन	आदिकार पूर्वमान	आधिकारिक, प्रामाणिकम्	अधिकार-युक्त
आधुनिक	आधुनिक	आधुनिक, नयाँ, हालसालको	आधुनिक, आजकालेर, वर्तमानजुगेर (यु)	आधुनिक	हौजिक्की मतम	आधुनिक, आजिकालि, वर्तमान	आधुनिकमु	इक्कालत्तिय	आधुनिकम्	ईगिन-कालद, आधुनिक
आध्यात्मिक	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक, ईश्वर गा आत्मागगी मरि ताकपा	आध्यात्मिक	आध्यात्मिकमु	आन्मीकम्	आध्यात्मिकम्	आध्यात्मिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आनंद	पुं.	1. हर्ष, खुशी	आनन्दः	अनंद, आनंद	खुशी	आनंद	आनंद, ख़ुशी	आनंद
		2. मौज	आनन्दः	अनंद, आनंद	लुत्फ़	लुतुफ	आनंद, लुत्फ़ु	मौज-मजा
आना	अ. क्रि.	1. आगमन, दूर से पास पहुँचना	आ+गम्	आउणा	आना	युन	अचणु, आमद	येणे
		2. कौशल की जानकारी होना	अधि+गम्	–	इल्म या जानकारी होना	–	अचणु	ज्ञान होणे
आप	सर्व.	1. स्वयं, स्वतः, खुद	स्वयम्/स्वतः	तुसी, खुद, तुसाँ, आप	आप, खुद	पानुँ	ख़ुद, पाण	स्वतः, खुद्य, स्वयं
		2. 'तुम' या 'वे' के स्थान पर प्रयुक्त आदरसूचक शब्द	भवान, भवती	तुसां, तुसी	आप	तोंह्य, तिम	तव्हीं/अव्हीं	तुम्ही, आपण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आनंद	आनंद	आनंद्, खुसी, हर्ष	आनंद (आनन्द), खुशि, हर्ष	आनंद, हर्ष रं, संतोष	नुङ्ङाइबा, हराओबा	आनंद, हर्ष, सुखी	आनंदमु	आनंदम्, मगिळ्च्चि	आनंदम	संतोष, आनंद
मोज मजा	मौज	मोज	मौज, मजाकरा	सुख, मजा रंङ्	हराऔबा	मउज, मजा	आनंदमु	उर्चाहम्, कुषि	उल्लासं	नलिवु, चैनी
आववुं	येवप	आउनु, आइनु	आसा, आगमन	रङ् आह, रंगियाल धेमेलिया	लाकपा	आगमन, आसिबा	वच्चुट	वर, वंदुसेर	वरुक	बरुवुदु
आवडवुं	जाणीव	ज्ञान हुनु, अवगत हुनु, जानकारी हुनु	जाना, अबगत हओया	अहा-कार्य, जना-जना-बुझा	खङ्लक्पा	ज्ञान, अवगत-हेबा, जाणिबा	तलियुट	अरिंदुकोळ्ळ	अरियुक	तिळियुवुदु
पोते, खुद, जाते	आपूण	स्वयम्, स्वत:	निजे, आपना-आपनि, स्वयम् (सै)	निजे, स्वयं	मशाना	स्वयं, निजे	तनंतताने, स्वयंगा	ताने, तामागवे	स्वयम्	स्वत:
तमे	तुमी	तपाईं, हजुर	आपनि, उनि	आपुनि	अदोम	आपण	तमरु, मीरु	तांगळ्	ताङ्कळ्	तावु, अवरु, इवरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आपसी	वि.	आपस का, पारस्परिक	पारस्परिक	आपसी	आपसी, बाहमी	पानुॅवुॅन्य	पंहिंजो, हिक-बि॒ए जो, बाहमी	आपसांतले, पारस्परिक
आभार	पुं.	किसी के उपकार के लिए प्रकट की जाने वाली कृतज्ञता, एहसान	आभारः	इह्सान	एहसान	शुकुरगुज़ार, एहसानमंद	अहसानु, शुकुरगुज़ारी	आभार
आभास	पुं.	1. झलक, छाया	आभासः	झाउला	झलक	च़ेनुॅवन्य	झलक, पाछो	आभास, छाया
		2. मिथ्याप्रतीति, भ्रम	आभासः	झॅाउला	शुबह, वहम	ब्रोंथ	आभासु	भ्रम, मिथ्याप्रतीति
आभूषण	पुं.	अलंकार, गहने, जेवर	आभूषणम्	गहणें	जेवर	जेवर	जेवरु, ग॒हिणे	आभूषण, अलंकार, दागिना
आमुख	पुं.	प्रस्तावना, भूमिका	आमुखम्	मुखबंद	तमहीद	गोंडुॅ कथ	मुहागु॒, भूमिका	प्रस्तावना, उपोद्‌घात, भूमिका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परस्परना	आपापलें, पारस्परिक	आपसी, पारस्परिक	आपसेर, निजेदेर, मध्येर, पारस्परिक	पारस्परिक	मशेल	पारस्परिक, निज-मध्यरे	परस्परमयिन	तमक्कुळ्ळान	परस्परम् उळ्ळ	पारस्परिक
आभार	आभार	आभार, कृतज्ञता	उपकार, कृतज्ञता	कृतज्ञता	लमन तोनवा तौबिमन खङ्बा फोङ्दोकपा	ऋण, कृतज्ञता	कृतज्ञत	नन्रि	कृतज्ञत	कृतज्ञते
आभास, झलक	आभास	आभास, छनक	आभास, छाया	आभास, छाँ, इंगित	ममि	झलक, छाया, आभाष	प्रतीति	तोन्रल्	तोन्नल्	छाये, आभास
भ्रम, खोटोदेखाव	भ्रम	झझल्को, भ्रम	मिथ्या अबास्त-वज्ञान, भ्रम (त्था)	भ्रम, भांति	अशोइबा, अकाओबा	मिथ्या, भ्रम	भ्रम, आभासमु	कुळप्पम्	तोन्नल्, प्रतीति	भ्रमे
आभूषण, दागीनो	दागिनें	आभूषण, गहनागुरिया, गरगहना	आभूषण, गहना, अलंकार	गहना, भूषण, अलंकार	फिजेत लैतेङ्	आभूषण, अलंकार, गहणा	आभूषणमु	नगै, अलंकारम्	आभरणम्	ओडवे
आमुख, प्रस्तावना	प्रस्तावना, भूमिका	आमुख, भूमिका	भूमिका, मुखबंध, प्रस्ताबना	प्रस्तावना, भूमिका	वाहौदोक, भूमिका	प्रस्तावना, भूमिका	प्रस्तावन	मुगवुरै	आमुखं, प्रस्तावन	मुन्नुडि, प्रस्तावने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आमोद-प्रमोद	पुं.	जो काम केवल चित्त प्रसन्न करने और मन बहलाने के लिए किए जाते हैं	आमोद-प्रमोदः	मौजमेला	तफ़्रीह	असुना-गिंदुना	मौज-मज़ो	आमोद-प्रमोद
आय	स्त्री.	पारिश्रमिक, लाभ आदि के रूप में प्राप्त धन, आमदनी	आयः	आमदन, आमदनी	आमदनी	आमुँदनी	उपति, कमाई, आमदनी	प्राप्ती, मिळकत, उत्पन्न
आयकर	पुं.	राज्य की ओर से लोगों की आय पर लगने वाला कर	आयकरः	आमदनी-कर, इनकम-टैक्स	इन्कमटेक्स	इन्कम ट्यकुँस	इन्कम-टैक्स, आमदनीकर	प्राप्तिकर
आयत	पुं.	चार भुजाओं वाला वह क्षेत्र, जिसकी आमने-सामने की भुजाएँ समांतर हों और चारों कोण समकोण हों	आयतः	आइत, चुकोण	मुस्ततील	लँबुँ-ज़्यूठ	मुस्ततील	आयत, चतुष्कोण
आया	स्त्री.	1. दाई, बच्चों की देखभाल करने वाली सेविका	धात्री	आया, खिडावी, दाई	दाई	दाय	आया, दाई	दाई, आया
		2. 'आना' क्रिया का पूर्णकालिक/भूतकालिक रूप	आगत	आइआ	आया	आव	आयो	आला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आमोद-प्रमोद	मौजमस्ती	मनमोज, आमोद-प्रमोद	आमोद-प्रमोद, आनंदकरा	आमोद-प्रमोद, रंधेमाली	हराओ-तयामनबगी थबक	आमोद-प्रमोद	विनोद विहारमु	उल्लास वाळूक्कै	आमोदम्, उल्लासम्	विनोद, मनोरंजने
आवक, पेदाश, आमदनी	येणावळ, अर्थीक उत्पन्न	आम्दानी, आयस्ता	आय, उपार्जन	आय, उपार्जन, धनागम	खुशुमन, आय, अराकपा शेल	आय, आमदानी	आदायमु	वरुमानम्	वरुमानम्, आदायम्	वरमान
आवकवेरो	इनकमटेक्स	आयकर	आयकर, उपार्जन शुल्क	आयकर	इन्कमटेकस	आयकर	आदायपुपन्नु	वरुमानवरि	आदायनिकुति	वरमानतेरिगे
चतुष्कोण	चौकोन	आयत, चतुष्कोण	आयत क्षेत्र (ख), दैर्घ-प्रस्त	आयत क्षेत्र	–	आयत खेत्र	दीर्घचतुरस्रमु	नीळ् चदुरमान	दीर्घचतुरं	आयत
आया, धाय	आया	धाई, धाईआमा	आया, धायी, धाइमा, धात्री	धाइ रोगीर-परिचारिका	पोक्चबी	आया, धाई,	दादि	आया	आय, धात्रि	दादि, आया
आव्यो	आयलो आयलें/ आयलीं	आयो	एलो	आह, क्रियार, भूत कालर, रूप	लाकए	आगामी, आसंता समय, दिन, काल	वच्चंनु	वंदान्, वँददु	वन्नु	बंद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आयात	पुं.	1. व्यापार के लिए विदेश से माल मँगाने की क्रिया	आयातः	दरामद, आयात	दरामद	दरामद	आयात, दरामद	आयात
		2. विदेश से मँगाया हुआ माल	आयातित	दरामद, आयात	दरामदशुदा	दरामद	बाहिरां आयलु मालु	आयात
आयाम	पुं.	लंबाई, विस्तार	आयामः	पसार	कुशादगी, वुसअत, तूल	खज्यर-ज़ेछर	विस्तार, फैलाउ	आयाम, लांबी, विस्तार
आयुष्मान्	वि.	दीर्घजीवी, चिरंजीवी	आयुष्मान्	जिउणजोगा	तवीलुलउम्र, उम्रदाज़	ज़्यूठ-आय, ज़ीठ-वाँस	चिरंजीव, सदाजुड़ियो	आयुष्मान
आयोजक	वि.	समारोह या कार्यक्रम का प्रबंध करने वाला	आयोजक	आयोजक, समागमकरता	मुंतज़िम (नाज़िम)	इंतिज़ॉमी	प्रबंधक, बंदोबस्त कंदडु	आयोजक
आरंभ	पुं.	शुरू, श्रीगणेश	आरम्भः	अरंभ, आरंभ	इब्तिदा, आग़ाज़, शुरुआत	आरंब, दसलाबुँ शोंरू	आरंभु, शुरुआत	आरंभ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आयात	आयाती, म्हाल- आयात करप	पैठारी	आयात	आचर- चाप, आमदानि	मीरमदगी पोत चेन्बा	आमदानि	दिगुमति	इऱक्कुमदि	इऱक्कुमति	आमदु
आयात	आयात परदेसांत- ल्यान आयात केल्लो म्हाल	आयातित	आगत, आमदानि	आयाम	मीरमगी अचेन्बा पोत्	–	दिगुमति अयिन सरुकु	इऱक्कु- मदिप्पॊरुळ्	इऱक्कुमति- च्चरक्कॅ	आमदुसामानु/ सरकु
आयाम	आयस पयस	आयाम, विस्तार	दैर्घ्य (र्घ), दीर्घ समय, बिस्तार	दैर्घ्य, बिस्तृति, आयाम	अशाङ्बा, शंदोकपा	आयतन, विस्तार, परिसर, विस्तृति	आयाममु, विस्तारमु	नीळम्, विस्तारम्	नीळम्, विस्तृति	विस्तार, आयाम
चिरंजीवी, आयुष्यमान	आयुश्मान्	आयुस्मान, चिरञ्जीवी	आयुष्मान, दीर्घजीबि	आयुस्मंत्, आयुस्मान	पुन्सी नुङ्शाङ्बा	आयुष्मान, दीर्घजीवी, चिरंजीबी	आयुष्मंतुडु	चिरंजीवियान, नीण्डकालम् वाऴ्गिर	दीर्घायुष्मान्	चिरंजीवि, आयुष्मान
आयोजक, प्रबंधक	आयोजक	आयोजक, प्रबंधक	आयोजक, उद्योक्ता (जो)	आयोजक, आयोजन- कारीलोक, उद्योक्ता	शिल्लि लाङ्लिबा	आयोजनकारी, आयोजक, उद्योक्ता, प्रबंधक	निर्वाहकुडु	अॕ गिणै- प्पाळर्	संयोजकन्, कार्यवाहकन्	प्रबंधक, आयोजक
आरंभ, श्रीगणेश	सुरुवात	थालनी, सुरु, आरंभ	आरंभ, शुरू, शुभारंभ	आरंभ, सूत्रपात, उत्पत्ति	अहौबा, हौदोकपा	आरंभ, सूत्रपात, मूल, आद्य, प्रथमत:	आरंभमु	आरंबम्, तॊडक्कम्	आरंभ	प्रारंभ, शुरू

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आरती	स्त्री.	1. किसी मूर्ति के सामने दीपक घुमाना	नीराजनम्	आरती	आरती	आरती	आरती	आरती
		2. स्तोत्र वाचन	आतिक्यम्, स्तोत्रम्	–	–	आरती	आरती	आरती-स्तोत्र, प्रार्थना
आराम	पुं.	1. सुख, चैन, विश्राम	विश्रान्तिः	अराम	आराम, चैन	आराम	आरामु	आराम, सुख, विश्रांती
		2. रोग कम होने या दूर होने की अवस्था	सुखम्	–	सेहतयाबी	आराम	आरामु	आराम
आरोप	पुं.	1. ऊपर या कहीं से लाकर बैठाना या लगाना	आरोपः	आरोप, ठोसणा	तंसीब	हाँछ्-लागॅुन्य, तोँहमथ-खारुॅन्य	आरोपु, रोंबो बिए किथां लगाइणु	आरोपण
		2. अनुचित या नियम-विरुद्ध कार्य, इल्जाम	लाञ्छनम्, आक्षेपः	इलज़ाम	इल्ज़ाम	हाँछ्-लागॅुन्य	इल्ज़ामु, तुहिमत, आरोपु	आरोप

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आरती	आरती	आरति	आरति, नीराजना, दीपादिर द्वारा देबतार उपासना	आरति, संध्या-सेवा	आरती	आरती, देब उपासना	हारति	आरत्ति, दीपारादनै	दीपाराधन, नीराजनं	आरति
आरती	स्तोत्र	देव-स्तुति, आरति-स्तोत्र	आरति (देबारति)	स्तोत्र, स्तुति	आरती	प्रार्थना-स्तोत्र	हारति गीतमु	तोत्तिरम्	देव-स्तुति	आरति हाडु स्तोत्र
विश्रांति, आराम	अनिमान, सुशेग	आराम, सुख, निकानंद	आराम, बिश्राम, सुख, आयेश	आराम, जिरणि	पोत्थाबा, नुङाईबा	आराम, विश्राम, सुख, शांति	विश्रांति	सुगम्, ओय्वु	सुखम्, विश्रभम्	विराम
आराम	आराम	सन्चो, सन्चोसुबिस्ता	आराम, आरोग्य, नीरोग (ग्ग)	सुस्थ, सुस्थता	पोत्थाबा	आराम, आरोग्य, सुस्थ	मेलु, नयमु	नोय् कुरैदल्, गुणमादल्	रोगशांति	गुणवागु, वासियागु
आरोपण	आरोपण	आरोपण, प्रतिस्थापन	आरोप, स्थापन	आरोप लगाइ दे, अर्पण कर, स्थापन कर	थमजिनबा	आरोपित-करिबा, स्थापना-करिबा, प्रतिष्ठा-करिबा	आरोपणं	चुमत्त, चाट्टल्	आरोपिक्कल्	दोषारोपमाडु
आरोप	आरोप	अभियोग, आरोप, दोषारोप	आरोप, दोषारोप	दोषारोप जगरधरा-कार्य	थङ्जिन्बा	आरोप, दोषारोप	आरोपणं	कुट्टच्चाट्टु	आरोपणम्, कुट्टारोपणम्	दोषारोप

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आरोह	पुं.	1. ऊपर चढ़ना, सवार होना	आरोहः	चढ़ाइ	चढ़ना	खसुन	सवार थियणु	वर चढणे
		2. नीचे से ऊपर की ओर जाना या बढ़ना	आरोहः, आरोहणम्	–	सुऊद	ह्यॉर खसुन	चढ़णु	आरोहण
		3. संगीत में स्वरों का चढ़ाव	आरोहः	आरोह	चढ़ाव	–	आरोहु (संगीत)	आरोह
आर्थिक	वि.	रुपए-पैसे, आय-व्यय आदि से संबंधित	आर्थिक	आरथिक	इक़्तिसादी, मआशी	इकतिसॉदी	आर्थिक, माली	आर्थिक
आर्द्र	वि.	गीला, तर, नम	आर्द्र	गिल्ला	मरतूब, नम, तर	ऑदुर	आलो, तर, नम	आद्र, ओलसर, दमट, ओले

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आरोह	वयर चडप	आरोहण	आरोह, चड़ा, आरोहण	आरोहण, उठा- कार्य	हायगत्पा, काखत्पा	आरोहण- करिबा, उपरकु- चढिबा	आरोहणँ, एंक्कुटॅ	एर	आरोहम्, कयट्टम्	सवारि
आरोहण	आरोहण	आरोहण, उक्लने काम वा क्रिया	आरोह, उपरे ओठा	उपर लै उठाकार्य	काबा	उठिबा, चढ़िबा	पंरुगुटॅ	मेले एरुदल्	कयट्टम्	ऐरिके
आरोह	आरोह	आरोह	आरोह	ओपर लै उठा कार्य, कारण- अनुमान (संगीतर) आरोही सुर क्रमान्वये	स्वर हायगतपा	टाणिबा, त्वरान्वित करिबा	आरोहणँ	इसैयिल् आरोहणम्	संगीतत्तिले आरोहणम्	आरोह
आर्थिक	आर्थिक	आर्थिक, वित्तीय	आर्थिक	आर्थिक, धन विषयक, अर्थसंबंधी	शेल- थुमगी ओइबा	आर्थिक, अर्थ- संबंधिय	आर्थिकमु	पॉरुळादार संबंदमान	धनसंबंधमाय	आर्थिक, हणकासिन
आर्द्र	ओलसाण	गिलो, चिसो	आर्द्र, भिजा, सिक्त	तिता, पानीत- तिता सेमेका	चोत्पा	आर्द्र, ओदा, भिजा, सिक्त	आर्द्रमु, तडिसिनँ	ननैंद, ईरमान	ननञ्ञ, ईर्प्पमाय, आर्द्रमाच	तेऊ, वोद्देयाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आलंब	पुं.	सहारा, आधार	अवलम्ब:	सहारा	सहारा	सहारुँ	आधारु, सहारो	आधार, अवलंब
आलंबन	पुं.	1. आधार, सहारा, आश्रय	आलम्बनम्	सहारा	सहारा	सहारुँ	आधारु	अवलंबन, आधार, आश्रय
		2. रसनिष्पत्ति में सहायक एक विभाव	आलम्बनम्, विभाव:	आलंबन	–	–	आलंबनु	–
आलसी	वि.	सुस्त, काहिल	अलस	आलसी	काहिल, सुस्त	आलुॅछ्य, सुस्त	आलसी, सुस्त	आळशी
आलस्य	पुं.	काम करने की अनिच्छा; सुस्ती, शिथिलता	आलस्यम्	आलस	सुस्ती, काहिली	आलुछ़	आलसु, सुस्ती	आळस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आलंब, टेको	आधार, अवलंबन	आलम्ब, सहारा	अबलंबन, आश्रय, आलंबन, आधार	अवलंबन, आश्रय	मतेङ्	अबलंबन, आधार, आश्रय	आधारमु	आदरवु	आलंबम्	आधार
आलंबन, आधार	अवलंबन	आलम्बन, आश्रय, आधार	आश्रय, आलंबन, आधार	अवलंबन, आश्रय	चङ्जफम, मतेङ्	आधार, अबलंबन, सहायता, साहाज्य	आलंबनमु, आधारमु	आदारम्	आलंबनम्	आसरे, आश्रय
–	–	आलंबन, विभाव	–	–	–	–	–	–	–	–
आळसु, सुस्त, मंद	आळशी	अल्सी, अल्से, अल्छे	कुड़े, आलसे	एलेहुवा सोरोपलिहा	अतन्बा	अलसुआ, सुस्त	सोमरि	चोंबेरि	अलसन्	सोमारि
आळस	आळस	आलस्य, अल्सीपन, अल्छी	आलस्य, आलसेमि, कुड़ेमि, जड़ता	आलस्य, सोरोपाली, कामर प्रति अलीहा	हैनिङ्दबा, तौनिङ्दबा	आलस्य, शिथिलता, अलसुआ, कर्मकुण्ठ, निष्कर्मा, निकमा, बेकार	सोमरितनमु	चोंबल्	अलसत	आलस्य, सोमारितन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आला	पुं.	1. दीवार में थोड़ा-सा खाली छोड़ा हुआ स्थान जिसमें छोटी-मोटी चीजें रखी जाती हैं, ताक	भित्तिविवरम्	आल	ताक़	ताखुच	जारो	कोनाडा
		2. कारीगरों के काम करने का उपकरण, औजार	उपकरणम्	आला	आला	–	औज़ारु	अवजार
		3. डाक्टर का स्टेथोस्कोप	नाडीयन्त्रम्	आला	–	–	–	–
		4. उच्च कोटि का, श्रेष्ठ, बड़ा	श्रेष्ठ	आहला	आला, उम्दा, बढ़िया	थॊंद	आला, वड्डो	श्रेष्ठ, मोठा
आलोक	पुं.	प्रकाश, रोशनी	आलोकः, प्रकाशः	चानण	रोशनी, नूर	गाश	प्रकाशु, रोशनी	आलोक, प्रकाश
आलोचक	पुं.	गुण-दोष आदि का विवेचन करने वाला, समीक्षक	आलोचकः	पड़चोलीया, अलोचक	नक़्क़ाद, नाक़ि	कुँठ-कड़न-वोल	आलोचकु, नक़ादु	समीक्षक, टीकाकार, आलोचक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गोखलो, ताको, आळियो	कुरकूट	खोपा	ताक (घरेर)	बेरर खोल	फक्लाङदा शेमबा पोत थम्फम, रागाई	काँथकुरा, ठणा, थाक	गूडु	माडप्पुरै	तट्टुॅ, माटम्	गूडु
ओजार, हथियार	आवत	ज्याबल, औजार	यंत्रपाति (ज)	कारिकरर एबिध- सरंजाम	खुत्तनई	सरंजाम, जंत्रपानि	पनिमुट्टु	ताॅळिर् करुविगळ्	पणियायुधम्	उपकरण
-	-	स्टेथोस्कोप	-	-	-	-	स्टेथेस्कोपु	-	-	-
ऊँचुं, उत्तम, श्रेष्ठ	वरिश्ठ, श्रेश्ठ	श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोच्च	समुन्नत, श्रेष्ठ, उच्च श्रेणी (नी)	उच्च- बर्गीय, श्रेष्ठ	अफाबा	बढ़िआ, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उच्च श्रेणी	श्रेष्ठमयिनॅ	चिरन्द	उयर्न्न, मेत्तरम्, श्रेष्ठमाय	अत्युत्तम, श्रेष्ठ, उच्च
आलोक, तेज	उजवाड, प्रकाश	उज्यालो, प्रकाश, आलोक	आलोक, आलो, ज्योति	आलोक, पोहर, दीप्ति	मङाल	आलोक, आलुअ, ज्योति	वॅलुगु, प्रकाशमु	ओॅळि	प्रकाशम्, वॅळिच्चम्	बॅळकु, आलोक
आलोचक, विवेचक	आलोचक	आलोचक, समीक्षक, विवेचक	आलोचक, समीक्षक (क्ख)	समालोचक, समीक्षक, समीक्षणकारी बिचारक	आलोचक, साहित्यगी अफ-फत्त नैनबा मीओइ	आलोचक, समीक्षयक	विमर्शकुडु	विमरिसकर् तिरुनाय्वाळर्	निरूपकन्, समीक्षकन्	समीक्षक, विमर्शक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आलोचना	स्त्री.	गुण-दोषों का निरूपण या विवेचन, समीक्षा	आलोचना, समीक्षा	पड़चोल, अलोचना, आलोचना	तनक़ीद	कुँठ-कॅडुन्य	आलोचना, तन्क़ीद	आलोचना, समीक्षा, टीका
आवभगत	स्त्री.	आदर-सत्कार, खातिरदारी, आतिथ्य	आतिथ्यम्, सत्कारः	आउ-भगत	आवभगत, ख़ातिर-मुदारात	आवबगत	आदरु-सत्कारु	आदर-सत्कार, आतिथ्य
आवरण	पुं.	1. परदा	आवरणम्	परदा	परदा, नक़ाब	वुरुन, परदुॅ	पर्दो, पोश	आवरण, पड़दा
		2. ढक्कन	छादनम्, पिधानम्	ढॅक्कण	सरपोश, ढकना	डकनुॅ	ढकु	झाकण
		3. किसी वस्तु के चारों ओर लिपटा कागज या कपड़ा	आवरणम्	कज्जण	पोशिश, लिफ़ाफ़ा	डकनुॅ	ढकु, पोशु	आवरण
आवश्यक	वि.	जिसके बिना काम न चल सकता हो, जरूरी	अपरिहार्य, आवश्यक	जरूरी	ज़रूरी	ज़ॊरूरी	ज़रूरी	आवंश्यक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विवेचन, अवलोकन, समीक्षा	आलोचना	आलोचना, टिका टिप्पणी, समीक्षा	आलोचना, समीक्षा (क्ख)	समालोचना, समीक्षा, आलच, आलोचना, बिचार	साहित्यगी अफ-फत्त नैनबा	आलोचना, समीख्क्षा, वादानुबाद, तर्कवितर्क	विमर्शे	विमरिसनम्, तिरुनाय्वु	निरूपणम्, समीक्ष	समीक्षे, विमर्शे
आदर-सत्कार	सरबराय	आदरभाउ, मानमनितो, आतिथ्य	आदर-आप्यायन, आदर-यत्न, आतिथ्य, खातिर	आतिथ्य, अतिथि सत्कार, सेवा-सुश्रूषा	इकाइ-खुम्नवा उत्पा, पेन्बा सेवा तौबा	आतिथ्य, आप्यायन, आदर, खातिर	आदर-सत्कारमु	उपचरिप्पु	सत्कारम्	उपचार, आतिथ्य
आवरण, पडदो, अंतराल	पड्डो	पर्दा	आबरण, पर्दा (न)	आवरण ढाक्नी	परदा	परदा, पद्‌र्धा, आवरण	परदा	पड्डुदा	मूडुपटम्	परदॅ, पडदॅ
ढांकणुं	धांकणें	बिर्को	ढाकनि	ढाकनी, ढाकोन	मखुम	ढाँकुणी	मूतॅ	मूडि	अटप्पुँ	मुच्चळ
आच्छादन	आवरण	जिल्द, जिल्ला, आवरण	आबरण,	गारर कापोर मेरिओवा कागत	फिजङ्	आबरण, आच्छादन, घोड़णि, ढ़ाँकणा	आवरणमु	सुट्ट वैक्कुम् उरै कागिदम, मूडु तुणि	आवरणम्	आवरण
आवश्यक, जरूरी	गरज	जरूरी	दरकारी, आबश्यक, प्रयोजनीय (श्श)	आवश्यक, प्रयोजनीय, दरकारी	तङाइफदबा	जरूरी, आबश्यक, प्रयोजन, दरकार	अवसरमैनॅ	अवसियमान, तेवैयान	आवश्यमाय	अगत्यवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आवश्यकता	स्त्री.	1. ऐसी स्थिति जिसमें किसी चीज या बात के बिना काम ही न चल सकता हो, जरूरत	आवश्यकता	जरूरत	ज़रूरत	ज़ोरूरत	ज़रूरत	आवश्यकता
		2. आवश्यक होने की क्रिया या भाव	आवश्यकता	–	–	–	ज़रूरत	आवश्यकता
आवागमन	पुं.	1. आना-जाना	गतागतम्	आवाजाई	आमदोरफ़्त	आवागमन	अचणु-वञणु	आवागमन
		2. जन्म-मरण का चक्र	संसरणम्, संसृतिः	आवागौन	तनासुख़	–	आवागमनु	पुनर्जन्म
आवारा	पुं., वि.	1. बेकार घूमने-फिरनेवाला	वृथाटक	अवारा	आवारा	आवारूॅ	आवारा	उनाड, भटकया
		2. अवांछनीय आचरण वाला, लफंगा	दुर्वृत्त	–	लफ़ंगा	आवारूॅ	आवारा	उडाणटप्पु, लफंगा, मवाली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आवश्यकता, जरूरत, जरुरियात	गरजेचो	खाँचो, दरकार	प्रयोजनीयता, आबश्यकता (श्श)	आवश्यकता, प्रयोजनीयता, दरकार	तङाइफदबा मतौ	आबश्यकता, प्रयोजनीयता, दरकार	अवसरमु	तेवै	आवश्यम्	आवश्यकते, अगत्य
अनिवार्यता	–	आवश्यकता, जरूरत	प्रयोजनीय, दरकारी	आवश्यकता, लागतियाल, प्रयोजनीय	दरकार	आवश्यकता, दरकारी, प्रयोजनीय	अवसरमु	तेवै	आवश्यकत	आवश्यकते, अगत्यनं
आवागमन	येवप-वचप	आवतजावत, ओहोरदोहोर	आसा-याओया (जा)	अहा-योवा, आगमन-निर्गमन	चत्थोक चत्शिल	जातायात, आबागमन, आसिबा-जिबा	राकपोकलु	पोक्कु-वरत्तु	पोक्कुवरवुँ	बरुवुदु-होगुवुदु
पुनर्जन्म	जन्म-मरण चक्र	जन्म-मरण-चक्र	पुनर्जन्म	अकौ लाभ करा जन्म पुररुद्भव	पोकपा-शिवा	जन्म-मृत्यु चक्र	जननँ मरणमुलु	पिरप्पु-इरप्पु	जननवुम् मरणवुम्	जनन-मरण
रखडुं	हेडप	आवारा	भबघुरे	निष्कर्मा, गा घेलाइ फुरा	ङाओचत्लबा	बाबुला, आबारा	देशदिम्मरि	वीणाग, चुट्टुबवन्	नाटोटि	अलेमारि
वंठेल, लफंगो	लफंगो	बेकम्मा, लफङ्गो	बखाटे, बकाटे	दुष्ट, असत, अबाञ्छित	मीरेम	लफंगा, दुष्ट, असत, अबांछित	रौडी	शोदा	दुर्न्नट-पटिक्कारन्	पोलि, लफंगा, उडाळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आवास	पुं.	रहने का स्थान	आवासः	रिहाइश, निवास	रिहाइशगाह	गरुॅ, रोज़न-जाय	निवासु, रहण जी जाइ	आवास, निवास
आवाहन	पुं.	1. अपने पास बुलाने की क्रिया या भाव	आवाहनम्	बुलावा	दावत, बुलावा	नाद, आलव	सुडु, पुकार	निमंत्रण
		2. पूजन के समय किसी देवता को मंत्र द्वारा बुलाने की क्रिया	आवाहनम्	आवाहन	दावते-अस्मा (दुआ़)	नाद	देवता जाग़ाइणु, आवाहन	आवाह्न
आविष्कार	पुं.	किसी अज्ञात वस्तु को खोज निकालना या बनाना, ईजाद	आविष्कारः, आविष्करण	काढ, ईजाद	ईजाद	ईजाद	ईजाद	शोध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आवास, घर, निवास-स्थान	रावतिका, ठिकाण	घर, आवास	बाड़ी, बास-स्थान, आवास	आबास, थकाठाइ घर	लैफम, युम	आबास, बासस्थान, निबास-स्थान	निवासमु, इल्लु	इरुप्पिडम्	वासस्थलम्	वर वासस्थान, वास
आमंत्रण	आपोवप	बोलाहट, निमंत्रण	आवाहन, आमंत्रण (न)	निमंत्रण, मंत्रेरे-आह्वान	कौबा, बातान	आमंत्रण, आबाहन, निमंत्रण	आह्वानमु, पिलुपु	अऴैप्पु	विळिक्कल्, क्षणम्	आवाहने, करेयुविके
आह्वान	आवहन	आवाहन, आह्वान	आबाह्न, आहबान	आवाहन, आबाहनी	लाइ कौबा	आबाहन-करिबा, श्रद्धा-भक्तिरे डाकिबा	आवाहनमु	पूजैयिल मंदिरताल् देवर्गळै अऴैत्तल्	आवाहनं	आवाहने
आविष्कार	आविश्कार	आबिष्कार, खोज	आबिष्कार	आबिष्कार, अज्ञातर वा अप्रकटर प्राकट्य	अनौबा पोत् पुथोक्पा	बैज्ञानिक-पद्धतिरे-किछि नुआ बाहार करिबा, सृष्टि करिबा, आबिष्कार	आविष्करण, सृष्टि	कंडुपिडिप्पु	कण्डुपि-टिक्कल्, कण्डुपिटित्तम्	संशोधने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आवृत्ति	स्त्री	1. बार-बार होने की क्रिया या भाव	आवृत्तिः	दुराहउ	इआदह	फ्यूर द्यन	दुहराई, दुहराउ	पुनरावृती
		2. पुस्तक आदि का उसी रूप में फिर छपना	आवृत्तिः	छाप	–	–	छापो (किताब वग़ैरह जो)	आवृति
आवेग	पुं.	1. प्रबल मनोवेग	आवेगः	आवेग	जोश	जोश	जोशु, उधिमो	आवेग
		2. बिना सोचे-विचारे कुछ कर बैठने की क्रिया	आवेगः	आवेग, वलवला	जोश, हैजान	–	जज़्बो	मनोवेग
आवेदन	पुं.	निवेदन, प्रार्थना	आवेदनम्	अरजी, परारथना	अरज़ी (दरख़ास्त)	अरज़ी	अरज़ी, दरख़्वास्त	आवेदन, निवेदन, प्रार्थना
आशय	पुं.	अभिप्राय, तात्पर्य, इरादा	आशयः	आशे	मंशा	इर्ऱदुँ	मुराद, इरादो	आशय, अभिप्राय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पुनरावृत्ति	पुनरावृत्ती	आवृत्ति	आवृत्ति	मुखस्थ पाठ आबृत्ति, पुनः पुनः होवा भाव व्यंजक पाठ	हन्ना हन्ना तौब, हंन्जिनबगी मओङ्	पुन:पुन:	आवृत्ति	मरुपडि सॅय्दल्	आवर्त्तिक्कल्	पुनरावृत्ति
आवृत्ति	आवृत्ती	पुनरावृत्ती, पुनर्मुद्रण	पुनराबृत्ति	पुनरमुद्रण, पुन:घुरिअहा कार्य	रिप्रिंट	पुनराबृत्ति, पुनः प्रकाशित-करिबा, पुणिथरे छापिबा	पुनर्मुद्रणं, कूर्पु	मरुपदिप्पु	पतिप्पॅ	पुनर्मुद्रण
आवेग	मनोवेग	आवेग, मनोद्वेग	बेग, आबेग, आबेश	आवेग, व्यग्रता, व्याकुलता	अकन्बा इथिल	आबेग	आवेगमु	मनएंळुच्चि	आवेगम्	आवेग
आवेग	आवेग	झोक, झोक्का	भाबाबिष्ट, भाबाबेश	भावावेग, अनुभूतिर आलोड़न	–	भाबाबेग, भाबाबिष्ट, भाबाबेश	आवेशमु	उर्चाहम्, आवेशम्	आवेशम्, उणहम्	आवेश
आवेदन, निवेदन	आवेदन	दर्खास्त, निवेदन, बिंतीपत्र	आबेदन, प्रार्थना	प्रार्थना, दरखास्त, निबेदन, मिनती	हायजबा	निबेदन, प्रार्थना, आबेदन	निवेदनमु	विण्णप्पम्	अपेक्ष	प्रार्थने
आशय, इरादो	इरादो	भाव, मतलब, आशय	आशय, अभिप्राय	आशय, मन प्रवृत्ति, अभिप्राय बासना	हायनिङ्बा, अपांबा	अभिप्राय, अभिलाष, तात्पर्ज्य, इच्छा, उद्देश्य, धारणा	अभिप्रायमु, उद्देश्यमु	अबिप्पिरायम् करुत्तु	उद्देश्यम्, आशयम्	अभिप्राय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आशा	स्त्री.	उम्मीद	आशा	आस	उम्मीद	आश	आशा, उमेद, उमीद	आशा
आशीर्वाद	पुं.	मंगल कामना के लिए बड़ों द्वारा कहे गए शुभवचन, आशिष	आशीर्वादः, आशीर्वचस्	असीस, अशीरवाद	दुआ	ऑही, ऑशिरवाद	आशीर्वाद, आसीस	आशीर्वाद
आश्रय	पुं.	1. शरण, ठिकाना	आश्रयः	आसरा	आसरा, पनाह	ठिकानुँ	शरणि	आश्रय
		2. सहारा, अवलंब	आलम्बः	–	सहारा	–	सहारो	अवलंब, आधार
आश्वासन	पुं.	कोई काम पूरा करने के लिए दिया जाने वाला वचन	आश्वासनम्, सान्त्वनम्	भरोसा, दिलासा	यक़ीनदिहानी, दिलासा, तसल्ली	यकीन, तसली	आथतु, दिलासो, दिलजाइ	दिलासा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आशा, उमेद, धारणा, विश्वास, आस्था	आस, आशा	आशा	आशा, भरसा	आशा, आकांक्षा, झसा	आशा	आशा, धारणा, बिश्वास, आस्था, भरसा	आशॆ	नंबिक्कै	आश, प्रतीक्ष	आसॆ
आशीर्वाद, आशीर्वचन, दुवा (आ)	अशीर्वाद, बेसांव	आशीर्वाद, आशीर्वचन, आशिष्	आशीर्बाद, आशिस	आशीर्बाद, शुभकामना	बोर, आशीर्वाद	आशिर्बाद, आशिष	आशीर्वादमु	आशीर्वादम्, नल् वाळ्त्तु	अनुग्रहम्, अशिस्सॅु	आशीर्वाद
आशरो	–	सहारा, आधार, टेको	आश्रय, अबलंबन, सहाय	राखोंता, रक्षाकर्त्ता, निरापद ठाईं	मतेङ्	अबलंबन, सहाय, आश्रय	सहायमु	आदरवु	सहायम्	आनिके आसरे
आश्रय, शरणुं	आश्रय	आश्रय, बिसौनी	आश्रय, शरण	आश्रय गइना सहाय राखेता	चङजफम	आश्रय, शरण, ठिकणा	आश्रयमु, शरणु	तंजम्, पुगलिडम्	शरणं, आश्रयं	शरण
आश्वासन, दिलासो, सांत्वना	आश्वासन, दिलासो, बुजवण	आश्वासन, भरोसा, ढाढस	आश्वासदान (आश्वासन) (श्शा) (श्शा) अभयदान, भरसा, प्रबोध, आश्वास	आश्वास, सांत्वना, प्रबोध, अभय-दान, रक्षाकर्त्ता, निरुपदठाई	पुकनिङ्, थौगत्पा, फाथबिबा	आश्वासना, आश्वास, प्रबोध, सांत्वना	भरोसा, विश्वासमु, ओदार्पु	आरुदल् अळित्तल्, दैरियमूट्टल्	सांत्वनवचनम्, आश्वसि-प्पिक्कल्	भरवसे, आश्वासने, समाधान, सांत्वन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आसन	पुं.	1. बैठने का कोई विशिष्ट ढंग, प्रकार या मुद्रा	आसनम्	आसण	आसन, निशस्त	आसन	आसणु	आसन
		2. बैठने के लिए कुश आदि का बना हुआ चौकोर टुकड़ा	आसनम्	आसण	सफ़	आसन	आसणु	आसन
आसान	वि.	सरल, सुगम	सरल	सौखा, असान, आसान	आसान	आसान, सॅहॅल	आसान	सरळ, सोपे
आस्तिक	वि.	1. ईश्वर की सत्ता को मानने वाला	आस्तिक	आसतक	खुदापरस्त	आस्त्यख	आस्तिक	आस्तिक
		2. धर्मनिष्ठ	आस्तिक	आसतक	मज़्हबी	आस्त्यख	–	धर्मनिष्ठ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आसन	आसनमांडी	आसन	आसन	आसन, बहार बिभिन्न कौशल	आसन, फमबगी मओङ्	आसन	आसनमु	उट्कारुम् विदम्, आसनम्	आसनम्	भंगि
आसनियुं	आसन	कुशासन, चकटी, बस्नौटो	आसन	आसन, ब्रिग्रह वा पुथि राखिबर यतन, योग चर्चात विविध आसन	फमफम	आसन	आसनमु	इरुक्कै	इरिप्पुपलक, इरिप्पिटम्	आसन
सहेलुं	सोपें, सरळ	सजिलो, सरल, सुगम	आसान, सहज, लाघव	सहज, सुगम, उजू	अराइबा	सरल, सुगम सहज, साधासिधा	सुलभमु	सुलबमान, एंळिदान, इलगुवान	सुगममाय, एॅळुप्पमुळ्ळ	सुलभ
आस्तिक	आस्तीक	आस्तिक, ईश्वरवादी	आस्तिक, ईश्वर विश्वासी (श्श) (श्शा)	आस्तिक, वेद-विश्वासी यार ईश्वर, परलोक, पुनरजन्म आदित विश्वास	लाइ थाजबा	इश्वर-बिश्वासी, आस्तिक	आस्तिकुडु	आस्तिकन्	आस्तिकन्	आस्तिक
श्रद्धाळु	–	धर्मनिष्ठ	धर्मनिष्ठ	धार्मिक श्रद्धाशील	मथौदा लुप्पा	धर्मनिष्ठ, धार्मिक	धार्मिकुडु	मद नंबिक्कैयुळ्ळ	धार्मिकन्	धर्मनिष्ठ, धार्मिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आस्था	स्त्री.	भक्तिपूर्ण विश्वास	आस्था	भरोसा, यकीन	ऐतिक़ाद, अक़ीदत	व्यॅशवास	आस्था, विश्वासु	आस्था
आस्वादन	पुं.	1. स्वाद लेना, चखना	आस्वादन	सुआद लैणा	चखना	साद, मजुॅ	सवादु	आस्वाद, स्वाद घेणे, चाखणे
		2. रसास्वादन (कविता आदि का)	आस्वादनम्	असवादन	लज़्ज़तअंदोज़ी	–	रसु वठणु (कविता वग़ैरह जो)	रसग्रहण (कविता वगैरेचें)
आहट	स्त्री.	हल्की आवाज	मन्दध्वनि:, आहतम्	बिड़क, होली 'बाज आहट	आहट	सदाह, आवाज़	आहट	चाहूल
आहार	पुं.	खाद्य पदार्थ, भोजन	आहार:	अहार	खाना, ग़िज़ा	ख्यन	आहारु, खाधो	आहार, भोजन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आस्था, श्रद्धा	आस्था	आस्था, अखण्ड विश्वास, श्रद्धा	आस्था, विश्वास, भरसा (श्श)	आस्था, निष्ठा, भरसा, सम्मान, सं भम	थाजबा	आस्था, बिश्वास, भरसा	श्रद्धं, नम्मकमु	शिरद्दै, ईडुपाडु	विश्वासम्, आस्थ	नंबिर्क
आस्वादन	आस्वादन	आस्वाद, चखाइ	आस्वादन, स्वादग्रहण, चाखा (सा, न)	आस्वादन, सोवाद लोवा कार्य	महाओ तङ्बा, तङ्बा	आस्वादन, चाखिबा, स्वाद-परिक्षा करिबा	आस्वादनमु, चवि चूचुट	शुवैत्तल्	आस्वदिक्कल्	रुचि नोडुवुदु
रसग्रहण (कविता वगेरेनुं)	रसास्वादन	रसास्वादन, आत्मिक तृप्ति	रसास्वादन	रसरसोवार लोवा कार्य (कविता आदिर)	रस लौबा	रसास्वादन	आस्वादनं	रसित्तल	आस्वादनम्	आस्वादने
अणसारो संकेत	सुलूस	मसिनु आवाज	मृदु शब्द	अहिबर संकेत-ध्वनि, पगध्वनि	शहुम	आहार, भोजन	चप्पुडु, अलिकडि	संदडि	कालॉच्च, नेरियऑच्च	सद्दु
आहार, खोराक, खानपान, भोजन	आहार	खानेकुरो, आहार	आहार, भोजन, खाद्य	आहार, खोवावस्तु, असमीया बछरर तृतीय महीना	चिन्जाक, अचापोत	आहार, भोजन	आहारमु	आहारम्, उणवुप्पॉरुळ्	आहारम्	आहार

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
आहुति	स्त्री.	1. यज्ञ या हवन करते समय सामग्री को अग्नि में डालने की क्रिया	आहुतिः	अहूती, आहूती, कुरबानी	आहूती	आहुती, ॲहवथ	आहूती	आहुती
		2. हवन में डाली जाने वाली सामग्री	आहुतिः, हव्यम्	अहूती, आहूती	कुरबानी	–	आहूती	आहुतीचे सामान
इंतज़ाम	पुं.	प्रबंध, व्यवस्था	व्यवस्था, प्रबन्धः	इंतज़ाम	इंतिज़ाम	इंतिज़ाम	इंतिज़ामु	सोय, व्यवस्था
इंदराज	पुं.	दर्ज करना, प्रविष्टि	प्रविष्टिः, निबन्धनम्	इंदराज	इंदिराज	दरॅज करुन	दर्ज करणु, दाख़िला	नोंदणी, प्रविष्टी
इकहरा	वि.	1. एक ही परत वाला	एकस्तरम्	इकहिरा	इकहरा	ऑकान्यल	हिक तहो	एकेरी
		2. पतला	कृशः	–	इकहरा	–	सन्हो, पतलो	सडपातळ, कृश

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आहुति	आहूती	आहुति	आहुति	आहुति, होमर जुइत उसगर्त कर द्रव्य	आहुति, मैता कत्पा	जज्ञ बा- होमरे घृत- पुष्पादि अर्पण करिबा, आहुति	आहुति	वेळ्वियिल् पांरि मुदलियन अर्प्पित्तल्, आहुति	आहुति	आहुति, बलि
आहुतिनो सामान	–	आहुति- सामग्री, चरु, हव्य्, हवि	आहुतिर द्रब्य, हबि	आहुतिर द्रव्य, हवि	आहुति मैता कत्पा पोल	आहुति, सामग्री, अर्पण	आहुति	वेळ्वियिल् अर्पर्णिक्कुम् पांरुळ्	आहुति	आहुति
व्यवस्था, बंदोबस्त	सोय, व्यवस्था	इंतिजाम, इंतजाम, प्रबंध	ब्यबस्था, बंदोबस्त	ब्यवस्था, योगार	थौराङ्	बंदोबस्त, ब्यबस्था	एर्पाटु	एर्पाडु	एर्प्पाटुँ, व्यवस्थ	एर्पाडु, व्यवस्थे
दाखल करवुं ते	नोंदणी	दर्ता, दराइ, प्रविष्टि	ढोकानो, भर्तिकरा	भर्तिकरण, प्रविष्टि	चङलकपा	प्रबिष्टि, प्रतिष्ठा, प्रबेश	चेर्पु	चार्त्तल्	पतिक्कल्	नोंदणी
एकवडियुं	एकोडो	एकसुरो, एक तहको	एकहारा	एखनीया, एतरपीया एकक गोट	मरोल अमता ओइब	एकतरफा	ऑटिपांर	आंट्टैनाडियान	आंट्टत्ताट्टाय	वंदपदरिन
पातळुं	एकशिवड, बारीक	पातलो	पातला, छिपछिपे	सेरेङा डाठ न- होवा	अपाबा	पतला, क्षीण, दुर्बल, सरु, कृश	पल्चनि	मेलिंद	मेलिञ्ञ	तेळ्ळगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
इकाई	स्त्री.	1. किसी पूरे वर्ग या समूह का ऐसा भाग, जो विश्लेषण के लिए स्वतंत्र या पृथक माना जाता हो	एकांशः	इकाई	इकाई	इकाई	इकाई	युनिट
		2. किसी संख्या में दाईं ओर का पहला अंक या उसका स्थान	एकस्थानिक	इकाई	इकाई	–	इकाई	एकम
इक्का	पुं.	1. दो पहियों वाली एक छोटी गाड़ी जिसमें केवल एक घोड़ा जोता जाता है	एकाश्वयानम्, इक्कायानम्, ऐकक	यक्का	इक्का	यकुँ	टांगो	एक्का-गाडी, टांगा
		2. ताश का एक बूटीवाला पत्ता	एकाङ्क (पत्र)	यक्का	यक्का	–	यको (ताश जो)	(पत्यातील) एक्का
इक्का-दुक्का	वि.	अकेला-दुकेला, कोई-कोई	एकाङ्गम्, विरल	कल्ला-दुकल्ला, इक्कड़-दुक्कड़	इक्का-दुक्का	अख-जुं, स्यठाह कम	एकड़ि-बेकड़ि	एकटा-दुकटा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एकम	यूनिट	एकाइ	एकक	एकक, गोट	खुजिङ्, यूनिट	एकक, एक, मान स्वरूप एक, मात्रा	यूनिटु	ऑन्रियम्	यूनिट्टॅ	घटक
एकम	एकं	एकाइ	एकक	एकक गोट	खुजिङ्, यूनिट	एकक, गोटे	ऑकट्लु	ऑट्टै, ऍण्	ऑट्ट	एक्कम्
एको, एक्को	एक्को	एकघोडे बग्गी, टमटम, एक्का	एक्का गाड़ी, टमटम	एक्का गाड़ी	शगोल गाड़ी	घोड़ा-गाड़ि, टांगा	जेंट्का	कुदिरै वण्डि	इक्का वण्डि, कुतिर वण्ड़ि	ऍक्कागाडि
एको, एक्को	एको	एक्का	टेक्का (तास)	(ताच-पातर) एक्का	शगोल गाड़ी	तासर-पत्ता	वॉकट्लॅ-आकु	'एस्' चीट्टु	आस् (चीट्टॅ)	ऍक्का
एकल-दोकल	एकटें दुकटें	कोही-कोही, फाटफुट	केउ-केउ, कोनोकोनो	दुइ-एक, दुटा-एटा, कोनो-कोनो	अमता-अनिदा, कना-कनागुम्दा	गोटाए-दुइटा, जणे-दिजण	ऑकरिद्दरु	ऑन्रिरण्डु	ऑट्टयुम् तॅट्टयुम्	ओब्बिब्ब

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
इच्छा	स्त्री.	चाह, कामना	इच्छा	इच्छा, चाहुण	ख़ाहिश (ख़्वाहिश)	यछ़ा	इछा	इच्छा
इठलाना	अ.क्रि.	गर्वसूचक चेष्टाएँ, इतराना	सलीलं + चेष्ट्, हावं दर्शय्	आकड़णा, इतराना	इठलाना, इतराना	वर करॅन्य	फूंडिजणु, टेगरि डेखारणु	ऐट दाखवणे
इतिवृत्त	पुं.	1. किसी विषय या घटनाओं का काल-क्रमानुसार पूर्ण विवरण	वृत्तान्तम्	क्रमक बिरतांत, केस हिसट्री	तवारीख़	तमसील, हिस्ट्री	विचूर	इतिवृत्त
		2. इतिहास	इतिवृत्तम्	इतिहास, तारीख	सरगुज़श्त	–	वृतांतु	वृत्तांत
इतिहास	पुं.	व्यक्ति, समाज, विषय देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का काल-क्रमानुसार वर्णन	इतिहास:	इतिहास, तारीख़	तारीख़	तॉरीख, यतिहास	इतिहासु, तवारीख़	इतिहास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
इच्छा, मरजी, रुचि	इत्सा, इच्छा	इच्छा, अभिलाषा	इच्छा, आकांक्षा (क्खा)	इच्छा, कामना, हेंपाह	अपांबा	इच्छा, कामना, आकांक्षा, इप्सा, लालसा	कोरिकॆ, इच्छॆ	इच्चै, विरुप्पम्	आग्रहं, इच्छा	आसॆ, बयकॆ
ऍंट देखाडवी	हड्डें फुडें काझ्न चलप, धिगी	इतरिनु, फुइँ देखाउनु	ठमक, दमक	ओफंन्दि फुरा	पोङ्ना, लैखत्ला	गर्ब- देखाइबा	मिडिसिपड्डॆ	चॆरुक्कुडन् नडक्क	गर्वु काणिक्कुक, अहंकरिक्कुक	बिंक, जंभ नर्डयुवुदु, जंभमाडुवुदु
इतिवृत्त	व्यक्ती इतिहास	इतिवृत्त, ऐतिहासिक वृत्तांत	इतिबृत्त, इतिहास	इतिबृत, अतीतर बिबरण, बुरुञ्जी इतिहास	थौदोक अमगी मथङ् मनाओ नाइना वारी परिङ् ताकपा	इतिबृत्त, पूर्ण- बिबरण	इतिवृत्तमु, कथॆ	वरलाऱु	इतिवृत्तम्, संभव- विवरणम्	स्थितिय विवर
इतिहास	वृत्तांत	इतिहास	इतिबृत, इतिहास, पुराबृत	इतिहास, बुरंजी	हिस्टरी	इतिहास, पूर्बरु- घटिजाइयिबा- विशेष- घटणाबली	चरित्रॆ	पऴंकदैगळिन् वर्णनै, चरित्तिरम्	इतिवृत्तम्	इतिहास, कथे,
इतिहास, तवारीख	इतिहास	इतिहास	इतिहास	इतिहास, पुरनि- कथा	इतिहास	इतिहास, बृतांत, घटणा	चरित्रॆ	देश चरित्तिरम्, नाट्टु वरलाऱु	चरित्रम्	चरित्रॆ, इतिहास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
इत्र	पुं.	पुष्पसार, अतर	पुष्पसारः, गन्धः	अतर	इ़त्र	अॅतुॅर	अतुरु, इत्रु	अत्तर
इधर	क्रि. वि.	इस ओर, इस तरफ, इस स्थान पर	अत्र, इतः	एर्धर, ऐर्धर	इधर	योर	हिते, हिन पासे	इकडे
इनकार	पुं.	न मानने की क्रिया या भाव, अस्वीकृति	अस्वीकारः, अनङ्गीकारः	इनकार	इनकार	न मानुन	इन्कार	नकार
इनाम	पुं.	पुरस्कार, पारितोषिक	पारितोषिकम्	इनाम	इनआम	यनामुॅ	इनामु	इनाम
इमारत	स्त्री.	भवन	भवनम्	इमारत	इ़मारत	अमारथ	इमारत	इमारत
इलाका	पुं.	क्षेत्र, प्रदेश	क्षेत्रम्, प्रदेशः	इलाका	इ़लाक़ा	अलाकुॅ	इलाइको	इलाका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
इत्र, अत्तर	अत्तर	अत्तर	आतर, पुष्पसार, सुगंध	आरक, सुगंधि निर्यास	मनम, नुङ्शिब लैनम	अतर सुगंधित- द्रब्य	अत्तरु	अत्तर्	अत्तर्	अत्तर
आबाजु, आतरफ	हांगा	यता, यसतर्फ, यस ठाउँमा	एइदिके, एइधारे, एइखाने, एखाने	एइफाले एइपिने	असोमदा, सोमदा	एपटे, एहिआड़े	इच़्टॅ, इक्कडॅ	इंगे, इंदप्पक्कम्	इविर्ड	ईकर्ड, इल्लि, अक्कपक्क- दल्लि
इनकार, मना, ना	न्हयकार	इंकार, नामंजुरी	अस्वीकार (सी)	अस्वीकार	यादबा, यानिङ्दबा	अस्वीकृति, मना करिबा	निराकरणॅ	मरुप्पु	तळ्ळि- क्कळयल्	अस्वीकार
इनाम	इनाम, पुरस्कार	बकस, पुरस्कार, इनाम	पुरस्कार, पारितोषिक	पुरस्कार, बँटा	मना	पुरस्कार, पारितोषिक, प्रतिफल	बहुमानमु, इनामु	इनाम्, वॅगुमदि	सम्मानम्, पारितोषिकम्	इनामु
इमारत, भवन	इमारत	महल, भवन, इमारत	अट्टालिका, इमारत, भबन	भवन, घर	फुरा, युम	भवन, घर, अट्टालिका, बासगृह	भवनमु, मेडॅ	माळिगै	कॅट्टिटम्	कट्टड
इलाको, प्रांत	इलाखो	क्षेत्र, इलाका	एलाका	एलेका, क्षेत्र, लाट	लैमाय्गी पाक् चाओबा, लम, क्षेत्र-फल	क्षेत्र, सीमा, प्रदेश, अंचल	इलाका, प्रांतमु	इलाका, पिरिवु	एला, प्रदेशम्	प्रदेश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
इलाज	पुं.	1. उपचार, चिकित्सा	उपचारः	इलाज	इलाज	यलाज	इलाजु	इलाज, उपचार
		2. प्रतिकार की युक्ति या उपाय	प्रत्युपायः	–	चारा, तदबीर	–	इलाजु	इलाज
इशारा	पुं.	संकेत	सङ्केतः	इशारा	इशारा	इशारुॅ	इशारो	इषारा
इस्तरी	स्त्री.	कपड़े की सिलवट दूर करने या तह बिठाने के लिए लोहे या पीतल का उपकरण	स्तरी	इसतरी	इस्तरी	कुंद्य	इस्त्री	इस्त्री
इस्पात	पुं.	विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ एक प्रकार का कड़ा और बढ़िया लोहा	लौहसारः	असपात	फ़ौलाद	सिटील	रुकु, फ़ौलाद	पोलाद
ईंट	स्त्री.	1. साँचे में ढाला मिट्टी का एक छोटा खंड जो दीवार आदि बनाने के काम आता है	इष्टिका	इट्ट	ईंट	सीर	सिर	वीट
		2. ताश के चार रंगों में से लाल रंग की चौकोर बूटियों वाला एक पत्ता विशेष	इष्टिका	इट्ट, ईंट	ईंट	–	ईंट	(पत्त्यांत) चौकट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
इलाज, उपचार	इलाज	उपचार, ओखती-मूलो	चिकित्सा, उपचार	चिकित्सा, रोग निरामय करा	लाइयेङ्बा	उपचार, चिकित्सा	चिकित्सँ	चिकिच्चै	चिकित्स	चिकित्से
उपाय	उपाय	उपाय, जुक्ति, युक्ति	चिकित्सा, प्रतिकार	प्रतिकारर उपाय, चिकित्सा, औषधि	उपाय	प्रतिकारर-उपाय-चिकित्सा	उपायमु	उपायम्	उपायम्	परिहार, उपाय
इशारो, संकेत	कुरू	इसारा, सङ्केत	संकेत, इशारा	संकेत, इंगित,इचारा	इंगित	संकेत, इंगित,सूचना	सैंग, संज्ञ	जाडै, शैके	आंग्यम्	सन्ने, संकेत
इस्तरी, इस्त्री	इस्तरी, फेर्र	इस्त्री, इस्तरी, प्रेस	इस्तिरि (प्रेस करा)	इस्त्री	इस्तरी, आयरन	इस्त्रि	इस्त्री, चलुवँ	इस्तिरि पोडुदल्	इस्तिरि	इस्त्रि-पेट्टिगे
पोलाद, स्टील	स्टील	इस्पात	इस्पात	तीखा, लोहार उपकरण	स्टील	इस्पात, लुहा	उक्कु, स्टीलु	एंह्कु	उरुक्कुँ	उक्कु
ईंट	वीट	इँट, इँटा	इँट	इटा	चेक	ईटा (ब्रिक)	इटुकँ	चंगल्	इष्टिक	इट्टिगे, इट्टंगि
चोकट	चौकट	इँट, इँटा	रूइतन (तास)	ताचर रूहितनर पात, रङापात	चेक	तास-खेलर-नालिपान-पता	पँक लो डायमन्	डैमंड् (चीट्टु)	डैमन् (चीट्टँ)	डयमण्डु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ईंधन	पुं.	जलाने में काम आने वाली लकड़ी/ पेट्रोलियम पदार्थ	इन्धनम्	बालण	ईंधन	ज़ालुन, ज़्युन	जलाऊ पदार्थ (काठियूं)	इंधन जळण, सरपण
ईख	स्त्री.	गन्ना, ऊख	इक्षुः	इक्ख, गन्ना	ईख, गन्ना	नयशक्कर	कमंदु	ऊंस
ईश्वर	पुं.	परमात्मा, भगवान	ईश्वरः	रब्ब, ईशवर	अल्लाह, खुदा	ईशर, बगवान	ईश्वरु	ईश्वर, भगवान
उँड़ेलना/ उडेलना	स. क्रि.	किसी तरल पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे में डालना या जमीन पर गिरा देना	अवस्रावय्	उलद्दणा, उलटाउणा	उंडेलना	त्रावुन, फिरुन	ओतणु	ओतणें
उकताना	अ. क्रि.	ऊबना	खिद्	उकताउणा	उकताना	तंग युन	ककि थियणु, बेज़ार थियणु	त्रासणे, कंटाळणें
उकसाना	स. क्रि.	भड़काना, उत्तेजित करना	प्रोत्साहय्	उकसाउणा, चुकक्णा	उकसाना	त्रुस द्युन	भड़िकाइणु	भडकविणे, चेतविणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ईंधण, बळतण	जळव, इंधन	इंधन	इंधन, ज़्वालानि (जा)	इंधन, खरि	शिङ्	जालेणि-काठ, जालेणि	इंधनमु, वंट चॅरुकु	विऱगु	विऱकुॅ	सौदे
शेरडी	कोबु, ऊस	उखु, इक्षु	आख	कुहियार, इक्खु	चू	आखु	चॅरकुगड	करुंबु	करिंपुॅ	कब्बु
ईश्वर, भगवान, प्रभु	ईश्वर	ईश्वर, भगवान, परमात्मा	ईश्वर, भगबान (श्श) महात्मा	ईश्वर, प्रभु, गराकी परमात्मा, भगवान	ईश्वर, लाइ	परमात्मा, भगबान, ईश्वर	भगवंतुडु, देवुडु	कडवुळ्	ईश्वरन्	भगवंत
रेडवुं	वोतप	खन्याउनु	ढाला	ढाल, बाक पात्रकातिकरि बोवाइ दि	हैदोकपा, हैजिनबा	ढालिबा, अजाड़िबा	तिरुगपोयुट	विड (दिरवङ् गळै)	ऑळिक्कुक	सुरियुवुदु, चॅल्लुवुदु
कंटाळवुं	बेजार	उच्चाट लाग्नु, उराठ लाग्नु, आत्तिनु	मन उचाटन हओया	आमनि लाग, भागरि पर	खिबा	बिचलित-हेबा, मन-उच्चाटन हेबा, उच्चाट, अस्थिर हेबा	विसुगुचॅंदुट	चलिप्पडैय	मुषियुक	बेजारागुवुदु
भडकाववुं	खुबळवप	भड्काउनु, उक्साउनु, उचाल्नु	उसकानो, ओसकानो, उसकानि देओया	उचटनि, उत्तेजित कर, उद्गनि	कामशिन्बा	उत्तेजित-करिबा, टिहाइबा	रॅच्चगॉट्टुट	तूंडिविड	प्रेरिप्पिक्कुक, इळक्किविटुक	प्रचोदिसुवुदु, प्रेरेपर्णमाड्डुवुद्दु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उक्ति	स्त्री.	किसी की कही हुई बात, कथन, वचन	उक्तिः	उकती	क़ौल, मक़ूला	वनुन, कथ	चविणी	उक्ती, वचन, कथन
उखाड़ना	स. क्रि.	जमी, ठहरी या लगी हुई चीज को खींचकर आधार से अलग करना	उत्खन्, उन्मूल्	उखेड़ना	उखाड़ना	मूॅलुॅ कडुन, प्राटुन	उखेड़णु, पाड़ां पटणु	उखडणे, उपटणे
उगना	अ. क्रि.	1. उदय होना, निकलना	उत् + इ	उगणा	निकलना	खसुन	उभिरणु, उसिरणु	उगणे, उदय होणे
		2. अंकुरित होना	उत् + पद्	उगणा	फूटना	खसुन	सलो फूटणु	उगवणे, अंकुर, फुटणे
		3. उपजना, पैदा होना	उत् + पद्	उगणा	उगना	खसुन	पैदा थियणु	उगवणे, उत्पन्न होणे
उगलना	स. क्रि.	खाई हुई वस्तु को मुँह से बाहर निकाल देना	उद् + वम्	उग्गलणा	उगलना	द्रोॅख अनुॅन्य	ओगारण, कइ करणु	ओकारी करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उक्ति, कथन	स्पश्ट म्हणणें, निवेदन	भनाइ, वचन, उक्ति	उक्ति	एक्ति, कथा, बचन, विवृत्ति	वङाङ्,	कथन, बचन, बिबृत्ति	उक्ति, सूक्ति	पॉन् मॉळि	उक्ति, सूक्तम्	हेळिकॅ, उक्ति
उखाडवुं	उस्तप	उखेल्नु, उखाड्नु	उपड़ानो, उखड़ानो, ओपड़ानो	उभाल, उघाल, एरुवा	फूतोक्पा	ओपाड़िबा, उत्पाटन-करिबा	पॅळ्ळगिंचुट	पिडुंगि ऍरिय	परिच्चुमाट्टुक	कीळुवुदु
उगवुं, उदय थवों	उदेता	उदाउनु, झुल्कनु	उदय हओया	ओला, उदय ह ओपज	हौरक्पा	इच्छा हेबा, उदय हेबा, उइँबा, उँकिमारिबा	उदयिंचुट	वळर, वॅळिवर	उदिक्कुक	मूडुवुदु, उदिसुवुदु
फूटवुं	कोंबयेवप	उम्रनु, टुसाउनु	गाछ, अंकुरित हओया	अंकुरित होवा	मयोन चोंलक्पा	अंकुरित-हेबा, जन्म हेबा	मॉलचुट, मॉल कॅत्तुट	मुळैक्क	मुळक्कुक	अंकुरिसुवुदु
नीपजवुं, उत्पन्न थवुं	उगवप	उब्जनु, उब्जा हुनु	—	गांज, अंकुरित ह उपजा	हौरक्पा	जन्म हेबा	मॉलचुट, मॉल कॅत्तुट	उण्डाग	अंकुरिक्कुक, मुळक्कुक	हुट्टुवुदु बॅळॅयुवुदु
ओकवुं	थूकप, ओंकप	ओकल्नु, उकेल्नु	बमि कोरे देओया, बोले देओया	ओकाल बमि करा, उलिओवा	ओथोक्पा, ओबा	उपुजिबा	कक्कुट	कक्क	छर्दिक्कुक	उगळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उगाना	स.क्रि.	1. किसी बीज या पौधे को उपजाने की क्रिया	उत्पादय् .	उगाउणा	उगाना	खारुन	उसिराइणु	उगविणे
		2. उत्पन्न या पैदा करना	उत्पादय्	उगाउणा	पैदा करना	–	पैदा करणु	उत्पन्न करणें
उघाड़ना	स.क्रि.	खोलना, अनावृत करना, नंगा करना	उद्घाटय्, अपावृ	उघाडणा, उघेड़णा	खोलना, बेपरदा करना	खोलुन, मुचुॅरावुन	उघाड़ो करणु, खोलणु, पर्दो हटाइणु	उघडणें, अनावृत करणे, नागवे करणें
उचटना	अ.क्रि.	1. किसी जमी या चिपकी हुई वस्तु का अपने आधार से अलग होना, छूटना	वि+श्लिष्,	उचेड़णा	उचटना,	वेर्थुन	उखिड़णु.	पृथक होणे, सुटणे
		2. मन का हट जाना, न लगना, ऊबना	मनो न✓श्लिष्	–	ऊबना	दिख युन	बेज़ार थियणु, मन न लगणु	मन न लागणे, कंटाळणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उगाडवुं	उगवप	उब्जाउनु, उमार्नु	उगरानो, उगलानो	ओपजा, उत्पन्न कर	थाबा	ओगालिबा, बांति- करिबा (बांति करिबा)	मॉलिपिंचुट	मुळैक्क वैक्क	मुळप्पिक्कुक	बॆळसुवुदु
उत्पन्न करवुं	उत्पन्न करप	उत्पन्नु गर्नु, उत्पादन गर्नु	उत्पादन करा	उत्पादन कर, उपजा कर	हौहन्वा	उत्पन्न- करिबा, उपुजाइबा, उत्पादन करिबा	पॅडिंचुट	उण्डाक्क	विळयिक्कुक	हुट्टिसुवुदु
उघाडवुं, खोलवुं, खुल्लुं- करवुं	उंधडप, नागडें करप, नग्नकरप	उदाङ्गो पार्नु, अनावरण गर्नु	खोला, अनाबृत करा	बखलिया, उलिया ओला प्रकाशकर	हाङ्दोक्पा, हाइदोक्पा फि लौथोक्पा	खोलिबा, लंगला- करिबा, उलग्न करिबा	तॆरचुट, नग्नमुचेयुट	तिरक्क, उरिक्क	अनावरणम्, चॆय्युक, तुरक्कुक उरिक्कुक	बिच्चुवुदु, तॆरॆयुवुदु, बत्तलॆमाडु
ऊचडवुं, उधेडवुं	काडप	अलग्गु हुनु, उप्कनु	पृथक हओया	खह, एर औफर बिरक्ति	शेतत्पा, शेततोक्पा	अलगा- हेबा, भिन्न बा- पृथक हेबा	तॉलगिपोवट	विडुपड	इळकुक, वळुतुक	कळचुवुदु
मनथी- उतरवुं, कंटाळवुं	आंग काडप	उच्चाट लाग्नु, उराठ लाग्नु, विरक्तिनु	मन नालागा, बिरक्ति	मन न लागिबा, आमनिलगा भागर	खिबा	मन न- लागिबा	विरक्तिपुट्टु	मनदु अलुत्तुप्पोग	मनस्सु मारुक, मुषियुक	बेसरवागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उचित	वि.	1. उपयुक्त	उचितम्	उचित	सही, मुनासिब, बराबर	मुनॉसिब	ठीक, सही, मुनासिब	उचित, उपयुक्त, योग्य, ठीक
		2. न्यायसंगत, तर्क संगत	न्याय्य	उचित, ठीक	रूएइन्साफ़	मुनॉसिब	इन्साफ़ रूइ	न्यायसंगत
उच्च	वि.	1. ऊँचा	उच्छ्रित	उच्चा	ऊँचा (बुलंद)	थोंद	ऊचो	उच्च
		2. पद आदि में औरों से ऊपर या बड़ा	वरीयस्	उच्चा	बरतर	थोंद	आला	वरिष्ठ
		3. श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	उच्चा	आला	थोंद	उत्तम	श्रेष्ठ
उच्चारण	पुं.	मुँह से स्वर और व्यंजनयुक्त शब्द निकालना	उच्चारणम्	उच्चारण	तलफ़्फुज़	वनुँनुक तरीकुं, तलफुज़	उचारणु, उचार करणु	उच्चार
उछल-कूद	स्त्री.	बार-बार उछलने या कूदने की क्रिया	उत्कूर्दनम्	नच्च-टप्प	उछलकूद	वोंतलबुजि, वोंठ-छ़ाँठ	ठेंग टपा	हसणे-खिदळणें
उछलना	अ.	1. वेगपूर्वक ऊपर/आगे की ओर बढ़ना	उत्शल् (उच्छल्), उत्+प्लु	उछल्लणा	उछलना	वोंठु-तुलुॅन्य	उछिलिजणु	उसळणें
		2. अत्यंत प्रसन्न होना, खुशी से फूलना	नृत्	–	खुशी का इज़हार करना	स्यठा खोंश गछुन	टपा ड्डियणु	आनंदानं खूश होणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उचित, योग्य, घटित	योग्य	मनासिब, उचित	उचित, उपयुक्त, योग्य	उचित, उपयुक्त	चान्नबा	उपजुक्त, जौग्य, उचित	उचितमैन॒, तगिन॒, योग्यमयिन॒	तगुंद, सरियान	उचितम्, शरियाय	तक्क, योग्य, सरियाद
न्याययुक्त	कायद्या प्रकार	सुहाउँदो, न्याय्- संगत	उचित, न्यायसंगत	उचित, न्याय्य, न्यायसंगत, युक्ति-युक्त	अचुंबा वायेनगा चान्नब	न्यायसंगत, उचित, जथार्थ	सरि अयिन॒	नियायमान	न्यायमाय	न्यायसम्मत
उच्च, ऊँचुं	व्हड	अग्लो, अल्गो	उँचु	ओख, उच्च	अवाङ्‌बा	उंचा, उच्च	एंत्तयिन॒	उयंर्द	पोक्कमुळ्ळ	एत्तरवाद
श्रेष्ठ	व्हडलो	उपल्लो तहको, ठूलो	उच्च, श्रेष्ठ	शीर्ष स्थानीय उच्च पदस्थ	फम अवाङ्‌बा	उच्च, श्रेष्ठ, उच्चकोटिर	उन्नतमियन॒	पदवियिल् उयंर्द	उयर्न्न	हिरिय, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ
श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ, विशिष्ट	उच्च, उँचु	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट	अथोइबा	उत्कृष्ट	श्रेष्ठमयिन॒	चिर्प्पान	श्रेष्ठमाय	हिरिय, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ
उच्चारण, उच्चार	उच्चारण	उच्चारण, बोली	उच्चारण (न)	उच्चारण मताकार्य कोवाकार्य	खेंथोक्, उच्चारण	उच्चारण प्रणाली वा रीति	उच्चारण॒	उच्चरिप्पु	उच्चारणं	उच्चारणॆ
कूदंकूदा, कूदाकूद	खिदळप	कूदाकूद, उफ्राउफ्री, दगुरादगुर	लाफालाफि	जॉम्प-मरा, लाफ	चोङ् फन्बा	कुदिबा, डिंआ- डेईं	गंतुलु वेयुट॒	कुदित्तु विळैयाडुदल्	तुळ्ळिक्क- ळिक्कुक	हाराट, कुणित
उछळवुं, उंचेजवुं, कूदवुं	उसळप	उफ्रनु, उर्लनु	लाफानो	उचाल मार, जंपिया, उचला, दाङ्-खोवा	चोङ्खत्पा	उछुलिबा, उतफूल्लित- हेबा	एंगुरुट॒	कुदित्तु एळ	कुतिच्चु चाटुक	हारुवुदु
प्रसन्नता थी उछळवुं	खूब आनंदीत जावप	दङ्दास हुनु, मक्ख पर्नु	आनंदे लाफानो	अतिकै आनंदित होवा	हराओना चोङ्बा	अत्यंत प्रसन्न हेबा, आनंदित-हेबा, खुसि हेबा	गंतुलु वेयुट॒	पूरित्तुप्पोग	अत्यंतम् आह्ळादिक्कुक, संतोषम् कोण्डुं निर्युक	नेगेदाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उजड़ना	अ. क्रि.	किसी वस्तु का जमे हुए स्थान से उखड़ना	जॄ	उज्जड़णा	उजड़ना	वॉरान ग़छुन	उजिड़णु	उध्वस्त होणें
उजाला	पुं.	1. चाँदनी, प्रकाश, रोशनी	प्रकाश:	उजाला	उजाला, रोशनी	गाश	उजालो, प्रकाशु	उजेड
		2. प्रात:काल होने वाला प्रकाश	प्रकाश:	उजाला	उजाला	गाश	सोझिरो	प्रकाश, प्रभा
उठना	अ. क्रि.	1. गिरे, झुके, बैठे या लेटे होने की स्थिति से खड़े होने की स्थिति में आना	उत्+ स्था	उट्ठणा	उठना	वोँथुन	उथणु	उठणे
		2. ऊपर जाना अथवा बढ़ना	आ+रुह्	उट्ठणा	उठना	वोँथुन	उथणु, मथे चढ़णु	वर जाणे, चढणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उजडावुं	कोसळप	उज्रनु, उजाड हुनु, भत्कनु, बिग्रनु	भुमि, ग्राम, स्हान-नष्ट हओया, विध्वस्त हओया	छन-पर उजार उच्छन्नह नष्टह	माङ्थक्पा, लैखा तारक्पा	नष्ट-होइजिबा, उजुड़िबा	शिथिलमगुट	पाळ्डैदल्	वासशून्य-मावुक	हाळुबीळुवुदु
उजाश (स), अजवाळुं	उजवाड	उज्यालो, प्रकाश, ज्योति	आलो, चांदनि, प्रकाश, उज्जल	जोनाक, पोहर	मङाल, ङान्बा, थाबल	प्रकाश, आलोक	प्रकाशमु, वॆलुगु	वॆळिच्चम्	वॆळिच्चम्	बेळकु
प्रकाश	फांतोड	झिसमिसे उज्यालो, मिरमिरे	आलो	फेँहुजालि पुवा-पोहर	नोंङा-नथोरक्पा	उज्वल, सफा, फर्चा, परिष्कार	वॆलुतुरु	विडियर्कालै वॆळिच्चम्	पुलर्वॆट्टम्	मुंबॆळकु
उठवुं	वयर उखलप	उभिनु, ठिङ्गहुनु	ओठा	गातोल थिय ह उठ गा-दाङ्	लेप्खत्पा	ठिआ हेबा, छिड़ा हेबा, दंड़ायमान-हेबा	निलबडुट, लेचुट	ऎळुंदिरुक्क	ऎळुन्नेल्क्कुक	एळुवुदु
उठवुं, ऊभुं थवुं	वयर चडप	उठ्नु, उक्लनु, उकालो लाग्नु, उर्लनु	ओठा, चड़ा	उठ, गादाङ	हौगत्पा	उपरकु-जिबा (उठिबा), उपरकु-चढ़िबा	पयिकि वच्चुट	ऎंब, मेले पोग	पॊंतुक, पॊङ्ङुक	मेलक्केळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उड़ना	अ.क्रिं.	1. पंखों या परों की सहायता से आधार छोड़कर ऊपरउठना और आकाश या वायु में इधर-उधर आना जाना	उड्डीय्	उड्डणा	उड़ना	वुडुन	उड॒ामणु	उडणे
		2. प्राकृतिक, रासायनिक आदि कारणों से पदार्थ का धीरे-धीरे भाप बन जाना	क्षि	–	उड़ना	वुडुन	उड॒ामणु	लुप्त होणें
		3. ग़ायब या लुप्त हो जाना	लुप्	–	ग़ायब	गॉब गछुन	थियणु	लुप्त होणें
उतना	वि.	पहले निर्धारित मात्रा में	तावत्	ओना, उतना	उतना	त्यूत, त्यूतुय	ओतिरो	तितका
उतरना	अ.क्रिं.	किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर से नीचे आना	अव+तृ	उतरना	उतरना	वसुन	लहु॒णु	उतरणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उडवुं (हवामां)	उडप	उड्नु	ओड़ा, उड़ा	उर शून्यत- चलिफुर, नाइकिया ह आकाशत- उरा	पाइबा	उड़िबा	एंगरुट	परक्क	परक्कुक	हारुवुदु, हाराडुवुदु
फीकुं पडवुं	विलीन जावप	नासिनु, सिद्धिनु	ओड़ा, उबे जाओया	उरि नाइकीया ह उरि या	तप्ना- तप्ना पाइथोकखिबा लोइथोक्खिबा	धीरे-धीरे कमिबा	आविरयि- पोवुट	मळ्ळ मळ्ळ कुरैंदु पोग/ मरैंदुपोग	इल्लाताकुक	इंगुवुदु
गायब के लुप्त थवुं	नाच् पावप	अलपिनु लोप हुनु, बिलाउनु	ओड़ा	लुका, बाष्पी भूत ह	माङ्खिबा, लुप्खिबा	लुप्त हेबा, शेष हेबा, हजि जिबा	मायमगुट	मरैंदुपोग	लोपिक्कुक	मायवागुवुदु
एटलुं	तितलें	उति, उत्ति, त्यत्ति	ततो, तेमन, सेइ रकम	सिमान, सिमानखिनि	अदु खत्त	सेतिकि, सेइभति	अन्त	अव्वळवु, अत्तनै	अत्रयुं	अष्टु
ऊतरवुं	उतरप, देंवप	ओर्लनु, ओरालो लाग्नु	नामा	नामा, तल ह, चापर- लै गतिकर	कुमथरक्पा/ कुमथबा	अबतरण- करिबा, ओल्हाइबा, अबतिर्ण हेबा	दिगुट	इरंग	इरङ्ङुक	इळियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उतार-चढ़ाव	पुं.	1. नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने की अवस्था, क्रिया या भाव	अधरोत्तर	उतरा-चढ़ा	कमी-बेशी	हर्योर-बोंन, उतार-चडाव	लाहु-चाढु	चढउतार
		2. किसी वस्तु के मान, मूल्य स्तर आदि का बराबर घटते-बढ़ते रहना	ह्रासवृद्धी	उतार-चढ़ा, उतरा-चढ़ा	कमी-बेशी	हर्योर-बोंन	घटा-वधी, कमी बेशी	–
उतारना	स. क्रि.	1. ऊपर से नीचे लाना	अवनामय्, अवतारय्	लाहुणा	उतारना	वालुन	लाहिणु	उतरविणे
		2. अलग करना (वस्त्र , आभूषण)	परिहृ	लाहुणा	उतारना	कडुन	–	वस्त्र, आभूषण काढणे
		3. पार या दूसरी ओर पहुँचाना (नदी आदि के)	अवतारय्	लाहुणा	किनारे लगाना	तारुन	पारि पहुचाइणु	नदी इत्यादीच्या पैलतीरास पोहोचणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चडती-पडती, उतराण-चढाण	चट्टी-देंवती	उँधो-उभो	ओठा-नामा, उठा-नामा, चढ़ाइ-उतराइ	उठा-नमा, तल-ओपर	अका-अकुम	उतरा चढ़ा, ओल्हाणी-ओ चढ़ाणी, ओल्हाइबा-ओ चढ़िबा	एंत्तु-पल्लमुलु	एट्ट इऱक्कम्	कयट्टवुम्, इऱक्कवुम्	एरिळित
चढ़-उतार	वाडप-कमीजावप	तलमाथि, घटीबढी, कमीबेसी	कमा-बाड़ा	उठा-नमा	हाइगत्-हाइथ	कम हेबा-ओ बढ़िबा, मान बा मूल्यर खसिबा-बढ़िबा	हॅच्चुतग्गुलु	विलै एरुवदु	एट्ट-क्कुऱच्चिल्	हॅच्युकडिमॅ यागुवुदु
उतारवुं	देंववप	ओराल्नु	नामानो, नामा	नमा तललै या	थाङ्थरक्पा, लौथरक्पा	अबतरण-करिबा, उतारिबा, ओल्हाइबा	दिंपुट	कीळे इऱक्क	ताळोट्टु कॉण्डुवरिक	इळिसुवुदु
काढवुं	काडप, काडून दवरप	झिक्नु, निकाल्नु, उतार्नु	खोला, छाड़ा	खोल, सोलोका	लौथोक्पा, होङ्दोक्पा	अलगा-करिबा, खोलिबा	तीसि वेयुट	कळैय, अविळ्क्क	अळिच्चु-वॅक्कुक	कळचुवुदु
पार लई जवुं	पावोवप	नदी तार्नु	नदीरअपर पारे पहुँछोनो	पार कर	लानथोक्पा शिंदोक्पा	पारि-हेबा	दाटिंचुट	अक्करै सेक्कं	कर कटत्तुक	दाटिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उत्कंठा	स्त्री.	कुछ करने की प्रबल इच्छा, चाव	उत्कण्ठा	उतकंठा, सद्धर	अरमान	चाव, शोख	चाह, अबि॒लाखा, उत्कंठा	उत्कंठा
उत्कर्ष	पुं.	1. ऊपर की ओर उठने, खिंचने या जाने की क्रिया या भाव	उत्कर्षः	चढ़त, चढ़तल	उरूज	थज़र, औंरूज	चाढ़ु, मथे वधणा जी हालत	ओढणे
		2. पद, मान, संपत्ति, भाव, मूल्य आदि में होने वाली वृद्धि	उत्कर्षः	–	तरक़्क़ी	थज़र	वाधारो, वाधि	उत्कर्ष
उत्तम	वि.	गुण, विशेषता आदि में सबसे बढ़कर	उत्तम	उत्तम, बधीया	अफ़ज़ल (आला)	थौंद, वोंतम	उतमु, आला	उत्तम
उत्तरा-धिकार	पुं.	मृत्यु हो जाने अथवा अपना अधिकार छोड़ देने पर किसी दूसरे को उसकी धन-संपत्ति, पद आदि मिलने का अधिकार	उत्तराधिकारः	वरासत	हक़्क़े-विरासत, जानशीनी	वॉरिसदर	वरिसो, विरासत	वारसा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उत्कंठा	उत्कंठा	चौचौ, उत्कण्ठा, प्रबल इच्छा	उत्कंठा	उत्कण्ठा, प्रबल-इच्छा	अपांबा (चानिङ्बा थक्निङबा तौनिङ्बा)	उत्कण्ठा, प्रबल इच्छा	तहतहँ, उत्कंठ	तीविर विरुप्पम्, अवा	उत्कंठ, आग्रहम्	प्रबल इच्छे
उत्कर्ष	वयर सरप	उत्कर्ष, मास्तिर तान्ने काम	उत्तम, उत्कर्ष	उत्कर्ष, उत्तम, उच्च-कोटिर	हेङ्गत्पा, चिङ्खत्पगी मओङ्	उत्कर्ष, उत्तम, उच्चकोटिर	उत्कर्षमु, अतिशयमु	एंळुच्चि	उत्कर्षम्	एळिगे, अभिवृद्धि
उन्नति, अभिवृद्धि	उत्कर्श, अभिवृद्धि	उन्नति, समृद्धि, बढोत्तरी	वर्धित, उन्नत	उन्नति, संपन्नता, समृद्धि	फम, इज्जत, लन-थुम असिनचिङ्बा हेंङगतल-क्पगी मओङ्	पद-मान-आदिर-बृद्धि, समृद्धि	वृद्धि	पदवि, संल्वाक्किल उयर्च्चि	अभिवृद्धि	बडति
उत्तम, सौथी, सारू, श्रेष्ठ	उत्तम	उम्दा, उत्तम	उत्तम, सर्वश्रेष्ठ	उत्तम, श्रेष्ठ, आटाइतकै-भाल	अथोइबा	उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट	उत्तममयिन	चिरंद	उत्तमम्	उत्तम
उतराधिकार, वारसानो अधिकार	उत्तराधिकार	उत्तराधिकार	उत्तराधिकार	उत्तराधिकार, पैतृक-संपत्ति-प्राप्ति	महुत्शिल्-हौगदबा, हक फङ्हौगदबा	उत्तराधिकार, दायाद, ऐतिह्य प्रभृतिर परंपराक्रमे अधिकारी	वारसत्वमु	सांत्तुरिमै	अनंतरावकाशं	उत्तराधिकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उत्तेजना	स्त्री.	किसी व्यक्ति द्वारा बिना समझे-बूझे कोई काम करने में उग्रता तथा शीघ्रता से रत होने का भाव	उत्तेजना	उतेजना	इश्तिआल, जोश	वुँतिश	जोशु, उतेजना	उत्तेजना
उत्पादन	पुं.	उत्पन्न या पैदा करने की क्रिया या भाव	उत्पादनम्	पैदावार, उतपादन	तख़्लीक़, पैदावार	पॉदावार	पैदाइश, उत्पादनु	उत्पादन
उत्सव	पुं.	धूमधाम से होने वाला सार्वजनिक आयोजन	उत्सव:	उतसव, पुरब, तिउहार	जश्न	वौँथसब, बौँड-दौँह	उत्सवु, जशनु, जल्सो	उत्सव
उत्साह	पुं.	उमंग, हौसला	उत्साह:	उतशाह, उमाह्	जोश, वल्वला	जोश	उत्साहु	उत्साह
उत्सुक	वि.	मन में तीव्र अभिलाषा रखने वाला	उत्सुक	उतसुक	बेताब, मुश्ताक़	बेँताब	आतुरु, उकंढियो, उत्सुकु, मुश्ताकु	उत्सुक
उदय	पुं.	1. उद्‌भव	उदय:	उदै, चढ़ना	तुलूअ	तरुँकी, खसुन	उभिरण/उसिरण जी हालत, चाढ़ु	उद्‌भव
		2. ग्रह, नक्षत्रों, तारों आदि का क्षितिज से ऊपर उठकर आकाश में आना और दृश्य होना	उदय:	–	तुलूअ	तरुँकी, खसुन	उभिरण जी हालत	उदय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उत्तेजना, उश्केरणी, आवेश	उत्तेजना	आवेश, उत्तेजना	उत्तेजना	उत्तेजना, उद्गनि, उद्दीपना	चराङ्-खोइराङ्नबा मेन-मान तादना थबक तौबा	उत्तेजना, आबेश	उद्रेकमु	तूण्डुदल्, आवेशम्	उत्तेजनम्	प्रचोदनॆ, आवॆश
उत्पादन	उत्पादन	उब्जा, उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन, उत्पन्न होवा, जन्म दिया-कार्य	पोत्थोक थोकहन्बा	उत्पादन, उत्पन्न	उत्पत्ति	उर्पत्ति, विळैच्चल्	उत्पादनम्	उत्पादनॆ
उत्सव, तहेवार, ओच्छव, आनंदनो मेळावडो	उत्सव	उत्सव	उत्सब	उत्सव, उछव, समारोह, आनंद, संतोष	कुम्है, उत्सव	उत्सब, समारोह	उत्सवमु	उत्सवम् तिरुविळा	उत्सवम्, आघोषम्	उत्सव
उत्साह, जोश, उमंग, आनंद,हर्ष	उत्साह	उत्साह, जोस	उत्साह	उत्साह, उद्ग्रीवित	हैनिङ्बा	उत्साह, अग्रसर-भाव, उदग्रीब, उदविग्नता	उत्साहमु	उर्चागम्, आवल्	उत्साहम्	हुरुपु, उत्साह
उत्सुक, आतुर, अधीरुं	उत्सुक	उत्सुक	उत्सुक, व्यग्र	उत्सुक, आग्रही, व्यग्र, उद्ग्रीव	लाङ्तक्नबा (खनिङ्बा, हैनिङ्बा, तानिङ्बगी)	उत्सुक, आग्रही, व्यग्र, अधीर, आतुर	आतुर-तगॆ	आवलान	उत्सुकन्, तत्परन्	तवक, उत्सुक
उदय, उद्भव	उद्भव	उदय, उद्भव	उत्थान, उद्भब, उत्पत्ति	उदय, उद्भव, प्रकाश	थोरक्पा	ऊपरकु उठिबा, उद्भब, उत्पत्ति	उदयमु	उयर एंळुदल्	उदयम्	उद्भव
प्रगटवुं	उदेवप	उदय	उदय (सूर्जेर उदय)	उदय, उत्पत्ति, आविर्भाव,उठाकार्य	थोरक्पा	उदय, आबिर्भाब, प्रकाशित-हेबा	उदयमु	उदित्तल्	उदयम्	उदय, मूडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उदार	वि.	1. खुले हृदय वाला	उदारः	खुलदिला, उदार	कुशादादिल	वोदार	उदार	उदार
		2. जो स्वभाव से नम्र और सुशीलहो और पक्षपात संकीर्णता का विचार छोड़कर सबके साथ खुले दिल से आत्मीयता का व्यवहार करता हो।	उदारः	सख़ी	फ़ैयाज़	फयाज़	वड्डीअ दिल वारो, सख़ी	उदार
उदास	वि.	खिन्न, चिंतित	खिन्न, विषण्ण	उदास, रंजीदा, गमगीन	उदास	गमगीन, वोंदॉस्य	उदास, मायूस	उदास
उदासीन	वि.	1. अलग या दूर रहने वाला	उदासीन	निरलेप, उदासीन	बेतअल्लुक़	वोंदॉसी	उदासीन, ग़ैरजानिबदार	उदासीन
		2. आसक्ति अथवा कामना-रहित	उदासीन	–	उदास	–	उदासीन, कामना-रहित	आसक्ति, वा कामना रहित
		3. तटस्थ, विरक्त	उदासीन	उदासीन	ग़ैरजानिबदार	–	वेरा<u>ग</u>ी, विरक्त	तटस्थ, विरक्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उदार, दानशील	उदार	मनकारी, उदार	उदार, दानशील	उदार, महत अकपट ओख बदान्य	पुक्चेन चाओबा	दानी, महत, दानशील	उदारुडु	दाराळ गुणमुळ्ळ	तुऱ्न्न हृदयमुळ्ळ, दानशीलन्	उदारि, दानि
उदार	दिलदार	उदार, दिलदार	उदार चरित, प्रशस्तचित्त, महामति, दयालु व्यक्ति	उदार, महान ओख, बहल मनर बदान्य	–	समदृष्टि-संपन्न, उदार, महान, महामति, दयालु	विशालॅ-हृदयुडु	पण्बुड़न् नड़ंदुकॉळ्गिर	उदाराशयन्	दोड्ड मनस्सिनव
उदास, गमगीन, खिन्न	उदास	उदास, खिन्न	उदास, विषण्ण (न्न)	चिंतित, उदास, विषयर प्रति बिमुख, अनुरागहीन	नुङ्नाङ्बा, चिंता तौबा	उदास, चिंतित, बिषर्ण, बिषाद	विचारपड्डु-चुन्नॅ	मनम् तळंर्द, वरुत्तमुट्ट	दुखितन्	उदास
उदासीन	उदासीन	उदासीन	उदासीन	उदासीन, दूरत-थका, केवलिया	थाप्दोक्पा, नुङ्नाङ्बा	अलगा-रहिबा बाला, उदासीन, चिंतित	विरागि-अयिनॅ	तनित्तु इरुक्किऱ्	अकन्नि-रिक्कुन्न	उदासीन, निर्लिप्त
अनासक्त	अनासक्त	अनासक्त, निर्लिप्त	अनासक्त, उदासीन, निर्लिप्त	बैरागी, गृहस्थधर्म पालन न करे, अविवाहित, अनासक्त	अपांबा लैतबा, हैनिङ्बा लैतबा	उदासीन, अनासक्त, निर्लिप्त, बैरागी	विरक्ति चॅंदिनॅ	पट्ट्रुदलट्ट्र	अनासक्तन्	विरक्त
तटस्थ, विरक्त	तटस्थ	विरक्त, तटस्थ	तटस्थ, उदासीन,	निरेपक्ष निस्पृह	–	तटस्थ, बिरक्त, उदासीन, निष्प्रभ	तटस्थमगु	पट्ट्रिल्लाद	विरक्तन्	तटस्थ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उदाहरण	पुं.	1. नियम, सिद्धांत आदि को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत तथ्य	दृष्टान्तः, निदर्शनम्	उदाहरन, मिसाल	मिसाल, नज़ीर	मिसाल	मिसालु	उदाहरण
		2. ऐसा आचरण, कृति या क्रिया जो दूसरों को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करे	निदर्शनम्	मिसाल	मिसाल	मिसाल	आदर्शु, नमूनो	आदर्श
उद्घाटन	पुं.	1. आवरण या परदा हटाना	उद्घाटनम्	उदघाटन	नक़ाबकुशाई	दस तुलुन	उद्घाटनु	उद्घाटन
		2. नया कार्य आरंभ करने के समय औपचारिक उत्सव	उद्घाटनम्	–	इफ़्तिताह	इफतिताह	मुहूर्तु करणु	उद्घाटन
उद्देश्य	पुं.	वह बात, वस्तु या विषय, जिसका ध्यान रखकर कुछ कहा या किया जाए	उद्देश्यम्	उदेश	मक़्सद	मकसद	उदेशु, मक़्सदु	उद्देश्य, हेतू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उदाहरण, दाखलो, दृष्टांत	उदाहरण; देख	उदाहरण, नमुना	उदाहरण, (न)	उदाहरण, पटंतर, निदर्शन, दृष्टांत	खुदम	दृष्टांत, उदाहरण, निदर्शन	उदाहरणमु	उदाहरणम्	उदाहरणम्	उदाहरणे, दृष्टांत
आदर्श	मॉडेल, आदर्श	दृष्टांत, अनुकरणीय आचरण	दृष्टांत, निदर्शन, उदाहरण (न)	आर्हि, आदर्श, उदाहरण	अफबा खुदम	अनुकरणीय-आचरण, दृष्टांत, उदाहरण, आदर्श	आदर्शमु	मादिरि	मातृक	मादरि, आदर्श
उद्घाटन	अनावरण	उद्घाटन, अनावरण	उन्मोचन	उद्घाटन, उन्मोचन मुकुलिकरा	हौदोक्पा, फिजङ् हाइदोक्पा	प्रतिष्ठा, उद्घाटन, उन्मोचन, खोलिबा, आरंभ-करिबा	आविष्करणं	तिरंदु वैत्तल्	अनावरणम् चैंय्यल् तुरक्कुक	अनावरण
उद्घाटन	उद्घाटन	उद्घाटन, अनावरण	उद्घाटन	उद्बोधन, उन्मोचन, मुकुलिकर समारोह	उद्घाटन	औपचारिक-उत्सब, उद्घाटन, उन्मोचन	प्रारंभो-त्सवमु	तिरुप्पु विळा	उद्घाटनम्	उद्घाटनं
उद्देश्य	उद्देश्य	उद्देश्य, ध्येय	उद्देश्य, अभिप्राय, कारण	उद्देश्य, लक्ष्य	पांदम, हाइनिङ्लिबा वाफम	अभिप्राय, लख्य, उद्देश्य	उद्देश्यमु	कुरिक्कोळ्	उद्दिष्टकार्यम्	गुरि, उद्देश्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उद्धरण	पुं.	किसी ग्रंथ, लेख आदि से उदाहरण, प्रमाण, साक्षी आदि के रूप में लिया हुआ अंश	उद्धरणम्	टूक, हवाला	इक़्तिबास	कुनिकिताबि प्यठुँ नीमुँच़ मिसाल, हवालुँ	हवालो, दाख़िलो, टुकरो	उद्धरण
उद्यम	पुं.	परिश्रम, मेहनत	उद्यमः	उद्दम	मेहनत	मेहनत, कूशिश	मेहनत, उदमु	उद्योग, परिश्रम, मेहनत
उद्योग	पुं.	1. परिश्रम, अध्यवसाय	उद्योगः	उदिओग	मेहनत	मैँहनत, कूशिश	मेहनत	उद्योग, परिश्रम, अध्यवसाय
		2. काम-धंधा	उद्योगः	सन्नत	सन्अत	–	उद्योग, धंधो-वापार	काम-धंदा
उद्योग-पति	पुं.	1. उत्पादन-उपक्रम का स्वामी	उद्योगपतिः	उदिओगपती, सन्नतकार	सन्अतकार	सनतकार	उद्योगपती	उद्योगपती
		2. किसी भी उद्योग का स्वामी	उद्योगपतिः	–	–	–	कारखानेदार	कारखानदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवतरण	उद्धरण	उद्धरण	उद्धरण (न), उद्धृति	उद्धृति	करिगुम्बा, वारेङ्, शैरेङ् अमदगी लौथोकरक्पा शरूक	उद्धृत	अवतारिकँ, अवतरणमु	एंडुपगुदि	उद्धरणम्	उद्धरण
उद्यम, यत्न, महेनत	उद्यम	उद्यम, परिश्रम, मिहिनेत	उद्यम, अध्यबसाय, उद्योग (जो)	उद्यम, परिश्रम, उत्साह-प्रचेष्टा	होत्लबा	उद्यम, परिश्रम, उदजोग, अध्यवसाय	प्रयत्नमु, पूनिकँ	उळैप्पु	परिश्रमम्, प्रयत्नम्	उद्योग, दुडित
उद्योग, महेनत, प्रवृत्ति, काम	उद्योग	अध्यवसाय, उद्योग	उद्यम (द्द), अध्यबसाय	परिश्रम, उद्जोग, अध्यबसाय, उद्यम	शु नोंबा	परिश्रम, उदजोग, अध्यबसाय	परिश्रमॅ	उळैप्पु	परिश्रमम्	परिश्रम
कामधंधो	काम-धंधो	कामधंदा, इलम, उद्यम	काजकर्म, जीबिका	उद्योग, शिल्प-व्यावसायिक प्रतिष्ठान्	थबक-इखाङ्	कामधंदा, कामकार्य्य	पनि-पाट	उद्दियोगम्, तॉळिल्	तॉळिल्, व्यवसायम्	कसबु, उद्यम, धंधे
उद्योगपति	उद्योगपती	उद्योगपति	शिल्पपति	उद्योगपति, शिल्पपति	कारखाना-गी मपु	उद्योगपति, शिल्पपति	पारिश्रामिकँ वेत्तँ	तॉळिलदिबर्	मुतलाळि	कार्खानेय यजमान, मालिक
कारखाना मालिक	–	उद्योगपति	शिल्पपति	उद्योगर मालिक, शिल्प-प्रतिष्ठानर गराकी			यजमानि	मुदलाळि	तॉळिलुटम	उद्यमि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उधेड़ना	स.क्रि.	वस्त्रों की सिलाई/बुनाई खोलना	सीवनं भिद्, विकृ	उधेड़ना	उधेड़ना	त्रॉप तुलुन मुचराबुन	उडेड़णु, उधेड़णु	उसवणे
उधेड़-बुन	स्त्री.	मन की अनिश्चयात्मक स्थिति, उलझन	ऊहापोह:	उधेड़बुण	उधेड़बुन	परेशॉनी	बिचिताई, मन जो मोंझारो	विवंचना, व्यग्रता
उन्नति	स्त्री.	1. आगे बढ़ने या विकसित होने की प्रक्रिया	उन्नति:, अभ्युदय:, समृद्धि:	उनती, तरक्की	तरक़्क़ी	तरॅकी	उन्नती, वाधारो, तरक्की	उन्नती
		2. उच्चता	उन्नति:	–	बुलंदी, उरूज	–	ऊचाई	श्रेष्ठता
उन्माद	पुं.	1. मस्तिष्क की असंतुलित अवस्था	उन्माद:	शुदा, झल्ल	जुनून, ख़ब्त, सौदा	पागलगी	दिमाग़ जो तवाज़न बिगिड़णु, चर्याई	उन्माद, वेड
		2. साहित्य में एक संचारी भाव	उन्माद:	उनमाद	–	–	साहित्य में हिकु संचारी भावु	साहित्यांतील एक संचारी भाव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उधेडवुं	उसवप	उधार्नु	सेलाइ खोला	चिलाइ खोल, उघाल	हंदोक्पा	खोलिबा	कुट्लु विप्पुट	तैयलै-प्पिरिक्क	तुन्नल् अऴिक्कुक	निडिसुवुद
उलझन, गूंचवाड़ो	अनिश्च-यात्मक स्थिती	अनिश्च-यात्मक स्थिति, दोधार	इतस्तत: भाव, दुमना, दोमना, द्विधाग्रस्त	गुनागँथा, दोधोर-मोधोर	पुनिङ् इताओ ताओबगी फिभम	मनर-अनिश्चयात्मक स्थिति, ब्यस्तता, इतस्तत-हेबा भाव	ऊहापोहलु, चिक्कु	कुऴप्पमान मननिलै	चिंताक्कुऴप्पं	योचने, चिंत
उन्नति, चडती	उन्नती	अभिवृद्धि, उन्नति	उन्नति, अभ्युदय, श्रीबृद्धि	उन्नति, श्रीवृद्धि, सौभाग्य	चाओखत्पा, याइफबा	उन्नति, बृद्धि, बिकास, अभ्युदय	उन्नति	उयर्वु	उन्नति	प्रगति, मुन्नडे
श्रेष्ठता	श्रेष्ठता	श्रेष्ठुता, उच्चुता	उच्चाबस्था, श्रेष्ठता	उच्चता, समृद्धि, कृतकार्यता	फागत्पा	उच्चता, श्रेष्ठता, उच्चाबस्था	औन्नत्यमु	मेन्मै	पुरोगति	उन्नति
उन्माद, घेलछा, गांडपण	उन्माद	उन्माद, उन्मतता	उन्मतता, पागलामि	उन्मादना, बलिया, उन्मत्त	मयाइ काबा, मयाई	पागलामि, उन्माद, उन्मतता	उन्मादमु, पिच्चि	पैत्तियम्	उन्मादम्, भ्रांतुं	हुच्चु, उन्माद
साहित्यनो संचारी भाव	संचारी भाव	उन्माद (साहित्यमा सञ्चारी भावको एक भेद)	उन्माद	साहित्यर एटा संचारी भाव, उन्मादना भाव	साहित्य दा संचारी भाव अमा	साहित्यर-एक संचारित-भाव	उन्मादमु	कावियत्तिल् आर् मन ऐळुच्चि	उन्मादम्, संचारी भावम्	हुच्चु, उन्माद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उन्मूलन	पुं.	1. जड़ से नष्ट करना	उन्मूलनम्	जड़ (जड़ों) पुट्टणा	बीख़कनी, ख़ातिमा	मूलुॅं तलुॅं-प्राटुन	पाड़ां पटणु, जड़ नासु करणु	नायनाट
		2. समाप्त करना	उन्मूलनम्	–	इख़तिताम	–	ख़ात्मो	उन्मूलन, समाप्त करणे
उपग्रह	पुं.	1. बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाला छोटा ग्रह	उपग्रहः	उपग्रहि	सय्यारचा	उपग्रेंह, लोकॅटसयारु	उपग्रहु	उपग्रह
		2. किसी ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आकाश में छोड़ा जाने वाला यांत्रिक गोला या पिंड	उपग्रहः	उपग्रहि	मस्नूई सय्यारा	–	नकुली उपग्रहु	उपग्रह
उपचार	पुं.	चिकित्सा	उपचारः	इलाज	इलाज	यलाज	इलाजु	औषधोपचार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उन्मूलन	ना नपश्चात करप	मूलोच्छेदन, निर्मूलन	उन्मूलन, उत्पाटन, समूलेंध्वंस	उभला कार्य, खाँन्दि पेलोवा	मरु फङ्ना मुथत्पगी थोओङ्	उत्पाटन, समुल- बिनाश, ब्धंस	पंळ्ळॅ गिंचुटॅ, उन्मूलनमु	वेरोडु अऴित्तल्	उन्मूलनम्	कित्तेसेयुवुदु निर्मूलन
समाप्त करवुं	समाप्त करप, काबार करप	उन्मूलन, पूर्ण विनाश	उच्च्छेद, उम्मूलन	निर्मूल- करा, शेष-करा	लोइशिन्बा	उच्छेद, उन्मूलन, शेष बा निर्मूल करिबा	रूपु मापुटॅ	मुडित्तुविडल्	नशिप्पिक्कल्	सर्वनाश
उपग्रह	ग्रह	उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह,	उपग्रह	उपग्रहमु	उपगिरहम्	उपग्रहम्	उपग्रह
उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह (कृत्रिम)	कृत्रिम उपग्रह	उपग्रह	उपग्रह	उपग्रहमु	चॅयकैंकोळ्	कृत्रिम उपग्रहम्	उपग्रह
चिकित्सा	इलाज, वखद उपचार	ओखतीमूलो, उपचार	चिकित्सा उपचार	चिकित्सा	लाइयेंङ्बा	चिकित्सा, उपचार	चिकित्सॅ	चिकिच्चै	चिकित्स	चिकित्से

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपज	स्त्री.	1. जो उपजा हो, पैदावार, फसल	शस्यम्	उपज, पैदावार	पैदावार	पॉंदावार	उपज, पैदावार	पीक
		2. जो बन कर तैयार हुआ हो, उत्पादन	उत्पाद:	–	मस्नूआ	–	पैदाइश	उत्पादन
		3. मन की नई उद्भावना या सूझ	कल्प:	–	उपज (इख़्तिरा)	–	सूझी	कल्पना
उपजना	अ.	1. उगना, अंकुरण	उद्+गम्, उद्+भिद्	उपजणा	उगना	पॉंदु गछुन, वोंपदुन	उपिजणु, पैदा थियणु	उत्पन्न होणे, उपजणें
		2. कोई नई बात सूझना	स्फुर्, उन्मिष्	सुझणा	–	–	सुझणु	नवीन गोष्ट सुचणे
उपजाऊ	वि.	कृषि के लिए उपयुक्त	उर्वर	उपजाऊ	ज़रख़ेज़	ज़रखेज़	उपजाऊ	सुपीक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊपज, पेदाश	पीक	उब्जाबाली, उपज	फसल	शस्य, खेति, फचल, कृषि जात वस्तु	महै मरोङ् थाबा	फसल, खेति	पॅट	विळैच्चल्	विळवुॅ	बेळ्, फसलु
उत्पादन	उत्पादन	उब्जनी, उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन, जन्म-दिया कार्य	पोत्थोक्	उत्पादन, उपार्जन, उत्पन्न	उत्पत्ति	उर्पत्ति	उत्पादनम्, उत्पन्नम्	उत्पादर्न
(मननी) उपज, कल्पना	कल्पना	सोच-विचार, उपज	चिंता भाबना	उद्भाबना, नूतन कै उलिओवा	पुङ्निङ्गी अनौबा इथिल	मनर नूआ उद्भाबना, चिंता, कल्पना	स्फुरणँ	मनदिल् तोन्रुम् एण्णम्	आशयम्	कल्पर्न
ऊपजवुं, नीपजवुं	उपजप	उब्जनु	जन्मान, जात	गाँज, गँजालि, ओला	वाखल, हौरक्पा, मयोन चोङ्लक्पा, पोखाइरक्पा	अंकुरिबा, जन्म बा जात हेबा	पुट्टुट	विळैय, मुळैक्क	विळयुक, किळिर्क्कुक	हुट्टुवुदु
नवी वात सूझवी	उपजावप	विचार फुर्नु	चिंता, मनन	मनत खेला उद्भावना ह	अनौबा वाखल पोक्लक्पा	नूआ-कथा-आबिष्कार, उदभाबन	स्फुरिंचुट	पुदु एण्णम् तोन्	तोन्नुक	स्फुरिसुवुदु, होळेयुवुदु
उपजाउ, फळद्रुप	उपजाऊ	उब्जाउ, उर्वर	उर्बर	खेतिर-उपयुक्त, उर्बर, उर्वर, सारयुक्त	लैहाओ फबा लैबाक्, लैहाओ फबा लम	उर्बर, उपजुक्त, दोरसा	सारवंतमैन	चॅळिप्पान	विळवुळ्ळ	फलवत्ताद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपदेश	पुं.	1. धर्म और नीति के संबंध में विद्वानों द्वारा बताई गई बातें	उपदेशः	उपदेश	तल्क़ीन (नसीहत)	व्पदीश	उपदेशु	उपदेश
		2. समुचितराय	उपदेशः	–	सलाह, नसीहत	–	सलाह	योग्य सल्ला
उपद्रव	पुं.	1. फसाद, दंगा	उपद्रवः	रौला गौला, दंगा, हफड़ादफड़ी	फ़साद, बलवा	दंगुॅ-फसाद	झगड़ो-फ़सादु	उपद्रव, दंगा, तंटा
		2. हलचल, ऊधम	उत्पातः	–	हंगामा	–	गोड़ु-शोरु	भांडण
उपनगर	पुं.	नगर के आसपास बसा हुआ क्षेत्र, छोटा नगर	उपनगरम्	बसती	मुज़ाफ़ात	सरय	उपनगरु	उपनगर
उपनाम	पुं.	वास्तविक नाम से भिन्न कवियों, लेखकों आदि का स्वयं रखा हुआ कोई दूसरा नाम	उपनाम	उपनाम, तखल्लुस	तख़ल्लुस	तखलुस	तख़लुस	उपनाम, टोपणनाव (पैननेम)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपदेश	उपदेश	उपदेश, प्रवचन	उपदेश, नीति प्रबचन, नीतिबाक्य	उपदेश, नीति, बचन, नीतिवाक्य	पाओताक्	उपदेश, नीति, बचन, नीतिबाणी, उपदेशाबली	उपदेशमु	उपदेशम्	उपदेशम्	उपदेश
योग्य सलाह	योग्य सल्लो	अर्ती, उपदेश	सद् परामर्श	सुपरामर्श	–	सुपरामर्श, भल- उपदेश	सलहा, नीति- वचनमु	अऱिवुरै	उपदेशम्	योग्य सलहे
उपद्रव	उपद्रव	उपद्रो, उपद्रव	दांगा, फेसाद, गंडगोल	काजिया, युँज, दोरात्म्य	फुन-चैनबा, हात्ना शुनबगी इराङ्	दंगा, फिसाद, झगड़ा, गंडगोल	उपद्रवमु	कलगम्	वळक्कुं, कलहम्	दंगे
त्रास, उपाधि, संकट, आपदा	तंटो, झगडो	उधुम, हलचल	उपद्रब, उत्पात, दौरात्म्य	उपद्रव, उत्पात, उद्भंदालि	–	उपद्रब, उत्पात,	गोलं, अल्लरि	तॊंदरवु	बहळम्	गलाटॆ
उपनगर, परुं	उपनगर	उपनगर, बस्ती	उपनगर	उपनगर, सरुनगर, उपकण्ठ	शहर गी नाक् येत्ता ताबा लम	उपनगरी	नगरांचलमु	पुऱ- नगर्	नगरप्रांतम्	उपनगर
उपनाम, तखल्लुस	उपनांव	उपनाम	उपनाम	उपनाम, छद्मनाम, आन नाम	मशागी अशेङ्बा ममिङ् नत्बदा, कौनबा मिङ्	उपनाम, अन्य- नाम, अलगा- नाम	उपनाममु, मारु पेरु	पुनैप्पॆयर्, कुलप्पॆयर्	उपनामम्, तूलिकानामम्	काव्यनाम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपन्यास	पुं.	साहित्य की एक विधा, जिसमें वास्तविक जीवन से मिलते-जुलते चरित्रों और कार्य-कलापों का गद्यात्मक चित्रण हो	उपन्यासः	नावल, उपनिआस	नाविल	नावल	उपन्यासु, नाविल	कादंबरी
उपभोक्ता	पुं.	उत्पादन का प्रयोक्ता, खपतकार	उपभोक्तृ	खपतकार, उपभोगता	सारिफ़	वरतावन-वोल	वापिराईंदड़ु, उपभोगु कंदड़ु	उपभोक्ता
उपभोग	पुं.	किसी वस्तु का व्यवहार में लाना	उपभोगः	उपभोग, खपत, खपा	ऐ़श	इसतिमाल	उपभोगु, इस्तेमालु	उपभोग
उपमा	स्त्री.	गुणों के आधार पर दो वस्तुओं की समानता, अलंकार विशेष	उपमा	उपमा	तश्बीह, तम्सील	मिसाल	भेट, उपमा (हिकु अलंकारु जंहिं में बिनि शयनि जी भेट कयल हूंदी आहे), तश्बीह	उपमा, उपमा अलंकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नवल-कथा	कादंबरी	उपन्यास	उपन्यास नभेल	उपन्यास, दीथल-गल्प नावल्	उपन्यास	उपन्यास	नवलँ	पुदिनम्	नोवल्, आख्यायिक	कादंबरि, व्याख्यान
उपभोक्ता	उपभोक्ता	उपभोक्ता	उपभोक्ता, उपभोगकारी	उपभोकता, भोकता, उपभोग-करोता	शिजिन्-नरिबा, तौरिबा	उपभोगकारी, उपभोक्ता	वाडुकदारुडु	उपयोगिप्पवर्, नुगर्वोर्	उपभोक्तावुँ	अनुभोग
उपभोग, भोगवटो, उपभोग	उपभोग करप	उपभोग, खपत	उपभोग, भोग, भोगकरा	उपभोग, भोजन-पानकर, उपभोग भोगकरा	नुङ्ङाइबा फङ्नब-गीदमक करिगुंबा पोतशक अमा शिजिन्नबा	उपभोग, सुख-भोग, संभोग	भोगमु, अनुभवमु	उपयोगित्तल्, नुगर्तल् नुगंर्दळि़त्तल्	उपभोगम् मुळुवनुम् उपयोगिच्चु तीर्क्कल्	उपयोगिसुवुदु, बळके
उपमा, उपमा-अलंकार	उपमा, उपमा-लंकार	उपमा, दृष्टांत, एक अर्थाल-ङ्कार	तुलना, शादृश्य, उपमा (अर्था-लंकर)	उपमा, तुलना, सादृश्य, उपमा (साहित्यर अलंकार)	चाङ्दम्नबा, उपमा	उपमा, तुलना, सादृश्य	उपमँ, उपमानमु, उपमालंकारमु	उवमै, उवमै अणि	उपमिक्कल्, उपम	होलिके, उपमॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपयोग	पुं.	प्रयोग, व्यवहार	उपयोगः, व्यवहारः	बरतों, उपयोग	इस्तेमाल	इसतिमाल	इस्तेमालु, उपयोगु	उपयोग, व्यवहार
उपयोगी	वि.	प्रयोग में लाए जाने योग्य	उपयोगिन	उपयोगी, कारआमद	कारआमाद, मुफ़ीद	बकार-यिनस-लायक	कमाइतो, उपयोगी	उपयोगी
उपलक्ष्य	पुं.	वह बात, जिसे ध्यान में रखकर कुछ कहा या किया जाए	तात्पर्यम्	मंशा, एहं वेखदे होए	मँशा, मक़्सद	मंशा	मंशा, मुराद	उपलक्ष्य
उपला	पुं.	जलाने के लिए सुखाया हुआ गोबर	गोमयः	पाथी कंडा	उपला	बौंठ	छेणो (सुकलु)	गोवरी, शेणी
उपवन	पुं.	उद्यान, बाग, पार्क	उपवनम्, उद्यानम्	बगीची, पारक	बाग़	बाग	ॿागु, बाग़ीचो, फुलवाड़ी	उपवन, बाग, पार्क

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपयोग	उपेग	उपयोग, प्रयोग	प्रयोग (जो), ब्यबहार, उपजोग	प्रयोग, ब्यबहार	शिजिन्नबा	उपजोग, प्रयोग, ब्यबहार	उपयोगमु	उपयोगम्	उपयोगम्	उपयोग, बळके
उपयोगी	उपेगी, उपयोगी	उपयोगी, प्रयोजनीय	उपजोगी (य)	उपयोगी, प्रयोजनीय	शिजिन्न-निङाइ ओइबा	उपजोगी, आवश्यकीय, प्रयोजनीय	उपयोगकर-मयिनँ	उपयोग-मुळ्ळ	उपयोगमुळ्ळ	केलसक्के बरुव
उपलक्ष्य, संदर्भ	उपलक्ष्य	उपलक्ष्य, उद्देश्य	उपलक्ष्य, अबलंबन	उपलख्य, संदर्भ, प्रयोजन, उद्देश्य	मरमदा, उपलक्ष्य	उपलख्य, संदर्भ, परिप्रेक्षी, तात्पर्ज्य	संदर्भमु	कुरिक्कोळ्	लक्ष्यम्, उद्देशम्	गुरि, कारण
छाणुं	शेणी	गुइँठो	घुँटे (गोबरेर ब्जालानी)	गोबरखुँटि	शन्यि अकङ्बा	घषि	पिडकँ	वरट्टि	वरळि, चाणकवरळि	बेरणि, कुळ्ळु
उपवन, बगीचो, वाड़ी	जारदीन, बगीचो	उपवन, कृत्रिम जङ्गल	बागिचा, उपबन, बागान	फुलनि उपबन, उद्यान, बागिचा बहल-मुकुलि-वँइ	लैकोन, हैकोन, पार्क	उपवन, उद्यान	तोटँ, उद्यानमु	पूंगा	उद्यानं, उपवनं	उपवन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपवास	पुं.	किसी धार्मिक-सांस्कृतिक अवसर पर दिन-भर या दिन-रात भोजन न करने की क्रिया	उपवासः	बरत, वरत, फाका	फ़ाक़ा, रोज़ा	फाकुँ, वोंपवास	उपवासु, व्रतु	उपवास, उपोषण
उपसंहार	पुं.	1. अंत, समाप्ति	उपसंहारः	उपसंघार, समापती	ख़ातिमा	–	अंतु, पछाड़ी	उपसंहार, अंत, समाप्ती
		2. किसी प्रकरण, विषय आदि का वह अंतिम अंश जिसमें विषय का सारांश हो	उपसंहारः	सिट्टा, निशकरश	इख़्तितामिया	अंद, खतुँम	सारांशु, सारु	उपसंहार
उपस्कर	पुं.	औज़ार, उपकरण	उपस्करः	औज़ार	आला, औज़ार	सामानुं	औज़ारु	उपकरण, अवजार
उपस्थिति	स्त्री.	हाज़िरी	उपस्थितिः	हाजरी	हाज़िरी	हॉज़िरी	हाज़िरी	उपस्थिती, हजेरी
उपहार	पुं.	सद्भावपूर्वक अथवा किसी अवसर पर किसी को दी जाने वाली कोई वस्तु	उपहारः	सुगात, तोहफ़ा	तोहफ़ा	तोहफुँ	सूखिड़ी, सौग़ात	उपहार, भेट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपवास, अनशन	उपास	उपुवास, निराहार, व्रत	उपबास, उपोस, अनाहार	अपबास, लघोन, अनाहार	चरा हेन्बा	उपबास, ओपास, अनाहार	उपवासमु	उपवासम्, उण्णाविरदम्	उपवासम्	उपवास
उपसंहार	समाप्ती	अंत, समाप्ति, टुङ्गो	समाप्ति, शेष	अंत, शेष, उपसंहार, उपसंहृत	लोइशिन्बा	अंत, समाप्ति, शेष, उपसंहार	मुगिंपु	मुडिवुरै	उपसंहारम्	कोनेय भाग, उपसंहार
उपसंहार	उपसंहार	सारांश, निचोर	उपसंहार, शेषभाग, समाप्ति	उपसंहार, शेषभाग	वारोइशन	उपसंहार, शेषभाग	मुगिपु	मुडिवुरै	उपसंहार-प्प्रसंगम्	कोनेय भाग, उपसंहार
साधन, ओज़ार	आवतां	ज्याबुल, औजार	उपकरण, सरंजाम	सा-सरंजाम	खुत्लाइ	उपकरण, सरंजाम, आबश्यकीय-जिनिष	पनिमुट्टु	करुवि, सादनम्	उपकरणम्	सलकरणे
उपस्थिति, हाजरी	हाजिरी	हाजिरी, उपस्थिति	उपस्थिति, हाजिरी	उपस्थिति, हाजिरा	कारकपा, लाकपा	उपस्थिति, हाजिर हेबा, विद्यमानता	हाज़रु	मुन्निलै, आजर्	उपस्थिति, हाजर्	हाजरि
उपहार, भेट, बक्षिस	भेट-वस्त	कोसेली, उपुहार	उपहार, उपढौकन	उपहार, उप-ढोकन	खुदोल	उपहार, उप-ढौकन	कानुक	अन्बळिप्पु	उपहारम्, काळ्चद्रव्यम्	उपहार, बहुमान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपहास	पुं.	हँसी, दिल्लगी, खिल्ली, मज़ाक	परिहासः	हासा, टिचकर, टिच्चर	मज़ाक़, तमस्ख़ुर	मज़ाख करुन	ठठोली, चिथर	थट्टा, विनोद, उपहास, मस्करी
उपाधि	स्त्री.	योग्यता, सम्मान आदि की सूचक खिताब, पदवी, डिग्री	उपाधिः	उपाधी, ख़िताब	ख़िताब, डिग्री	खताब	उपाधी, ख़िताबु, डिग्री	उपाधी, डिग्री, पदवी
उपाय	पुं.	युक्ति, तरकीब	उपायः	उपा	तदबीर, तरकीब	व्वपाय, यलाज	उपाउ	उपाय, युक्ती
उपासक	पुं.	1. उपासना करने वाला	उपासक	उपासक	इबादतगुज़ार	बखुॅत्य, वोंपासक	उपासकु, पुजारी	उपासक
		2. आराधक	उपासक	अराधक	मोतक़िद, परस्तार	भगत	भगतु	भक्त, आराधक
उपासना	स्त्री.	1. ईश्वर, देवता आदि की मूर्ति के पास बैठकर किया जाने वाला आध्यात्मिक चिंतन, पूजन, आराधन	उपासना	उपासना	परस्तिश, पूजा, इबादत	पूज़ा	उपासना, पुजा	उपासना, आराधना
		2. किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना	भक्तिः, अभिनिवेशः	–	अक़ीदत, एहतराम	पूज़ा	उपासना	परमासक्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपहास, मश्करी, ठेकडी	मसकरी	गिल्ला, खिसी, उपुहास	उपहास, ठाट्टा	इतिकिङ्, उपहास	नोकपा, फागी, फागी जुगाई	थट्टा, उपहास, ब्यंग	एंगँताळि, परिहासमु	परिहासम्, केलि	उपहासम्	गेलि, उपहास्य
उपाधि, पदवी, खिताब, इलकाब	पदवी, उपाधी	पदवी, उपाधि	उपाधि, पदबी	उपाधि, खिताब, सम्मान-सूचक-नाम	इकाइ-खुम्नबग लोइन्ना पीबा मिङ्थोल, डिग्री	पदबी, डिग्री, उपाधि	बिरुदु	पट्टम्, पदवि	डिग्री, बिरुदम्	बिरुदु
उपाय, युक्ति	उपाय	जुक्ति, उपाय	उपाय	उपाय, कौशल, प्रतिकार	उपाय, पामबै	उपाय, कोशल, प्रक्रिया	उपायमु	उपायम्, वळि	उपायम्	उपाय, युक्ति
उपासक	उपासक	उपासक	उपासक, पूजक, भक्त,साधक	उपासक, सेवक, भँजोता	लाइ निङ्बा मी	उपासक, भक्त, पुजक, पुजारि	उपासकुडु	आरादिप्पवर्	उपासकन्	उपासक
भक्त, आराधक	आराधक	भक्त, आराधक	भक्त, आरार्धक	भक्ति-करोंता, सेवक	लाइ निङ्बा मीओइ	भक्त, आराधक, उपासक	भक्तुडु	बक्तर्	भक्तन्	भक्त
उपासना, आराधना, भक्ति	उपासना करप	उपासना, उपासन, आराधन	उपासना, आराधना, पूजा	सेवा, उपासना आराधना, पूजा, ईश्वरर प्रति अनुराग	ईश्वर पूजा तौबा	उपासना, पूजा, आराधना	उपासनँ	आरादनै, उपासनै	उपासन	ध्यान, प्रार्थने, आराधने
परमासक्ति	–	उपासना	आसक्ति, गंभीर अनुराग	गंभीर-अनुराग	निङ्जबा	आसक्ति	परमासक्ति	आळ्ंद पट्टु	अत्यधिकम् तात्पर्यम्	पूजे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उपेक्षा	स्त्री.	1. अवहेलना	उपेक्षा, तिरस्कार:	अणगौलणा, उपेखिआ	बेरुख़ी, लापरवाही	अनादर, लापरवॉही	बेरुख़ी, नज़रअंदाज़ी, तिरस्कार	उपेक्षा, अवहेलना
		2. अनादर	अवज्ञा, अनादर:	–	इहानत, तौहीन, बेइज़्ज़ती	–	अनादर	अनादर
उबकाई	स्त्री.	उलटी, कै, मिचली, मितली	वमनम्, विवमिषा	उवत्त, उबक	उबकाई, क़ै, मतली	उल्टी यिन्य, द्रोंख यिन्य	उल्टी, कइ, उब़िथो	ओकारी, वांती, मळमळ
उबरना	अ. क्रि.	उद्धार या निस्तार पाना	सम्+उत् धृ (कर्म.), मुच (कर्म.)	उबरना	बचना	वोंतलुन	बची निकिरणु, छोटकारो पाइणु	बचावणे
उबलना	अ. क्रि.	1. आग पर रखे हुए तरल पदार्थ का फेन के साथ ऊपर उठना	उद् +वल्	उब्बलणा	उबलना	ग्रख यिन्य	उभामणु	उकळणे, ओतू येणे
		2. उत्तेजित होना, आवेश में आना	आविस् + भू	–	–	कल शोलुन	तैश में अचणु	उत्तेजित होणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उपेक्षा, तिरस्कार	उपेक्षा	हेपाइ, बेवास्ता, उपेक्षा	उपेक्षा, अबहेला ताच्छिल्य, (क्ख) (ल्ल)	उपेक्षा, अवहेला	थओइदबा	अवहेला, उपेक्षा	उपेक्ष	मदियामै	उपेक्ष	उपेक्षे, अलक्ष्य
अनादर	अनादर	तिरस्कार, अनादर	अनादर, अबज्ञा	अनादर, तुच्छ-ज्ञान	इकाइखुम्नदबा	अनादर, अवज्ञा, अबमानना	तिरस्कारमु	अलट्चियम्	अनादरवुॅ	तिरस्कार
बकारी, उबक, ऊबको	धवळ, ओंकारो	वमन, छाद, बांता, उल्टी	गाबमिकरा, बमन, बमि	बाँति, बमि	तिन चुमबा, ओनिङबा, थुक-थुक लाओबा, अओबा	बाँति	कडुपुलो तिरुगुट, वांति	कुमट्टल्, वाँदि	मनम् मरिच्चल्, ओक्कानम्	वाकरिके, वांति
ऊगरवुं, बचवुं	साल्वार	जोगिनु, उन्मुक्त हुनु	उद्धार पाओया	तर, बाच	नाँथोक्पा, नानथोकहौबा, कन्जहौबा	त्राण पाइबा, संकट-आदिरू-बचिजिबा, तरि जिबा, उद्धार पाइबा	रक्षिंपबडुट	आबत्ति-लिरिंदु तप्पिक्क	कर कयरुक, रक्षप्पॅटुक	संकटदिंद मेलेत्तुवुदु
ऊकळवुं,	उकडप	उम्लनु उम्लिनु	उथलिया उठा, ओथलानो	उतल, उतलि उठ, उठलिउठ	लोन्बा	उतुरिबा, उद्गारित हेवा	पांगुट	कांदिक्क	तिळक्कुक	उक्कुवुदु, कुदियुवुदु
उत्तेजित थवुं	खतखतो	उभड्नु, आवेशमा आउनु	उत्तेजित हओया	उत्तेजित ह, उचटनि, जँक	फिङ्गत्पा, शाओगत्पा	उत्तिजित हेबा, उत्साहित हेबा, प्रबर्तित हेबा	आवेशपडुट	वंगुळि अडैय	आवेशभरितन् आकुक	आवेश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उभरना	अ. क्रि.	1. नीचे के तल से उठकर या निकलकर ऊपर आना	उद्+बल	उब्भरना	उभरना	कलुँ कडुन	उभिरणु	वरयेणे
		2. ऊपर उठकर या किसी प्रकार उत्पन्न होकर अनुभूत या प्रत्यक्ष होना	आविस्+भू	–	–	कलुँ कडुन	मथे चढ़णु, स्पष्ट थियणु	जाणवणे, स्पष्ट होणे
उमंग	स्त्री.	कोई काम करने के लिए प्रेरित करने वाला आनंद या उत्साह	उत्साह:	उमंग, उमाह	उमंग	शोख	उमंगु	उत्साह, उमेद
उम्मीदवार	पुं.	किसी पद पर चुने जाने या नियुक्त होने के लिए प्रस्तुत होने वाला या अपने आपको उपस्थित करने वाला व्यक्ति, प्रत्याशी	प्रत्याशी, अभ्यर्थी	उमीदवार	उम्मीदवार	वौंमेदवार	उमेदवारु/ उमीदवारु	उम्मेदवार
उर्वर	वि.	1. उपजाऊ	उर्वर	उपजाऊ	ज़रख़ेज़	ज़रखेज़	उपजाऊ	उपजाऊ, उर्वर, सुपीक
		2. जिसकी उत्पादन शक्ति अधिक हो (तत्व)	उर्वर	उपजाऊ	ज़रख़ेज़	–	ज़रखेज़	सुपीक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊभरवुं, ऊभरावुं	वयर येवप	प्रकट हनु	उदित हओया, परिब्याप्ति	उला, उदय ह, उलिओवा	ताओखत्पा	उदय हेबा, प्रकाश हेबा, उपरकु- उठिबा	उबुकुट	पांङ्गि एंक	पांङ्ङिवरुक	होरहोम्मुवुदु
प्रगट थवुं	जाणवप	उभड्नु	स्फीत हओया	ओपरलै उठ उद्भासित ह	फाओगत्पा	प्रत्यक्ष हेबा, उदभाषित- हेबा, प्रकटित- हेबा, बिकसित-हेबा	स्पष्टमगुट	मेर्लळुंदु तोन्	प्रत्यक्षप्प्टुक	प्रकटवागुवुदु
उमंग, उत्साह, होश	उमेद	उमङ्ग उत्साह, फुर्ती	आनंदाबेग, आनंद प्रोकाश	उत्फुल्ल, उलाह, आनंद	हराओबा- नुङाइबगी ईथक, ईहौ	उल्लास, उत्साह, आनंद, प्रेरणा	उल्लासमु, पाँगु	उर्चाहम्	उत्साहम्	उत्साह
उमेदवार	उमेदवार	उम्मेदवार, प्रत्याशी	उमेदार, प्रत्याशी, निर्बाचन प्रार्थी	प्रार्थी, दर्खास्तकारी, प्रत्याशी	मीरेप	प्रत्याशी, कर्म-प्रार्थी, निर्बाचन- प्रार्थी	अभ्यर्थि	वेट्पाळर्, अपेट्चगर्	स्थानार्थि	उम्मेदुवार, हुरियाळु
उपजाऊ, फळद्रुप, रसाळ	उपजाऊ, सुपीकपण	उब्जाउ	उर्बर, ऊर्बर- मृत्तिका	सारुवा, उर्वरा, सारथका	लैहाओ- चेन्बा	उर्वर, दोरसा	सारवंतं मैनं	चेंळिप्पान	फलभू- यिष्टमाय, विळवुळ्ळ	फलवत्ताद
उपजाऊ	उर्वर	उर्वर	उर्बर, ऊर्बर	उर्बर, सारगर्भ	पोत्थोक हेन्गत- हन्बगी शक्ति हेन्बा	उर्बर	उर्वरमु	वळमान	उत्पादन- शक्तियेरि्य	हेच्चिन- उत्पत्ति शक्ति, फलवत्ताद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उर्वरक	पुं.	खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए डाली जाने वाली रासायनिक खाद	उर्वरकम्	रेह, खाद	कीमयाई खाद	कीमियाँयी खाद	कीमियाई भाणु	उर्वरक, खत
उलझन	स्त्री.	जिस स्थिति में किसी प्रकार का निश्चय करना बहुत कठिन हो, पेचीदगी	विघ्नः, बाधा	गुंझल, उलझन	उलझन	खुर	उल्झन, मोंझारो	पेंच, विकट प्रश्न
उलझना	अ. क्रि.	1. किसी चीज के अंगों का आपस में दूसरी चीज के अंगों के साथ इस प्रकार फँसकर लिपटना कि सहज में एक-दूसरे से अलग न हो सके	संश्लिष्, उद्+ग्रथ्	उलझणा	उलझना	फसुन	मुंझणु	अडकणे
		2. झंझट, झगड़े आदि में इस प्रकार फँसना कि जल्दी छुटकारा न हो सके	प्रतिसज्	उलझणा	फँसना	वुठनुँयुन	फासणु	अडकणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खातर	सारें, रसायणी	मल, उर्वरक	रासायनिक सार	रासायनिक सार	हार, फर्टिलाइजर	रासायनिक सार	एरुवु	उरम्	वळम् (रासवळम्)	रासायनिक गोब्बर
उलझन, गूंचवाडो	गुंतागुंत	अल्झो, झ्याउलो, जटिलता, टन्टा	झंझाट, फेसाद, जटिलता	समस्या, संकट, जटिलता, जंजाल	चयेतनबा	झंझट, संकट, जटिलता, समस्या, जंजाल, कठिनता, असुबिधा	चिक्कु	शिक्कल्	कुऴप्पम्, चिंता-क्कुऴप्पम्	पेचाट,
गूंचवावुं, गूंचावुं	गुंतप	अल्झनु, अल्झिनु	जड़ाइया पड़ा	जाँट-लगा	चयेत्खोये-त्लबा	जड़ित-करिबा, लगाइबा, स्थापना-करिबा, जोडिबा	चिक्कुपडुट	चिक्कि-क्कोळ्ळ	कुरुङ्ङुक, कुऴयुक	तोडकु
सपडावुं	अडकप	फस्नु, अल्झोमा पर्नु	जटिल परिस्थितिते पड़ा	पाकत पर	खत्न चैनबगी लाङदा थुबा नांथोकपा ङम्दबा	जटिल परिस्थितिरे-पड़िबा, छंदि-होइजिबा, निजड़न-हेबा, किंकर्तब्यबिमुढ़ हेबा	चिक्कु-कोनुट	अगप्पड	अकप्पेटुक, वलयुक	सिक्किहाकि-कोळ्ळुवुदु, सिक्कि बीळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उलटना	अ.क्रि., स.क्रि.	1. सीध की विपरीत दिशा या स्थिति में जाना या होना	विपरि+वृत्	उलटणा	उलटना	वुलटावुन, फिरुन	उबतो थियणु, उलटो थियणु	उलटणे
		2. साधारण स्थिति से विपरीत या विरुद्ध हो जाना या करना	विपरीतं गम्	उलटणा	–	वुलटावुन, फिरुन	उबतो करणु, उलटो करणु	उलटणे
		3. ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर की स्थिति में होना	विपरि+वृत्	उलटणा	पलटना	वुलटावुन, फिरुन	उलटो थियणु	उलटणे
उलटी	स्त्री.	कै, वमन	वमनम्	उलटी	क़ै, उलटी	द्रोंख, कय	उल्टी, कइ	उलटी, वमन, ओकारी
उलाहना	पुं.	मूल दोष या त्रुटि आदि को रोष या व्यंग्य के साथ जताना	उपालम्भ:	उलाहणा	उलाहना, गिला, शिकायत	पाम	ड़ोरापो, महिणो, उलाहनो	तक्रार गार्हाणे
उलीचना	स. क्रि.	किसी बड़े आधान या पात्र में भरे हुए जल आदि को बर्तन या हाथ से बाहर निकालना या फेंकना	उद्रेचय् (उद्+रेचम्)	बुक्कां भर-भर सुट्टणा	उलीचना	पाज़ुन	कंहिं हंधि भरियलु पाणी बुकनि या कंहिं नंढे बासण सां भरे उछिलाइणु	उडविणें, टाकणे, फेकणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊलटवुं	परतप	उल्टो हुनु, उल्ट्नु; उल्टाउनु	उलटो (दिके) याओया वा हओया (ज)	ओलट, ओलोटा	उनथोकपा, उप्पा	ओलटाइबा, बिपरीत, ओलटा	तारुमारगुट	तारुमाराह पोग, इरुक्क	मरियुक	तिरुगुमुरुगु
उलटवुं	–	उल्टो पार्नु	पालटानो, बदलानो	घुराइदे	तायोन्नबा	बदलिबा, बिरुद्ध हेबा	तारुमारगुट	तलै कीळाग	विपरीत-माकुक	उलटा
उलटवुं	अरतें परतें करप	पल्ट्नु, उल्ट्नु; उल्टाउनु, पल्टाउनु	उपुड़ हयोया, उलटानो	बिपरीत ह आलर-फालर तल होवा	मथक मखा ओन्बा	उपर तल होइजिबा, ओलटा-हेबा, बिपरीत हेबा	तल्लै-क्रिंदुलगुट	कविळ	कीळ्मेल् मरियुक	तले-केळगागु
ऊलटी	–	बान्ता, छाद	बमि, बमन	बमि, बाँति	अओबा	बाँति, बमन	वांति	वांदि	छर्दि	वांति
ओळंभो, फरियाद ठपको	पिरंगप	सिकायत, गुनासो	नालिश, अभियोग (जो)	आपत्ति, अभियोग गोचर बाद	वाकत्पा	अभिजोग, आपत्ति, गुहारि	दप्पुट, एत्तिपाडुचुट	पुकार्, निंदनै	परिभवम्, उपालंभम्	दूरु
उलेचवुं (प्रवाही)	उदक शेवटप	पानी हुत्याउनु, फाल्नु	सेचन करा	पानी सिंच, उलियाइ दिया, ओफराइ द	निक्थोक्पा	सेचन करिबा, पाणि ढ़ालिबा	तोडुट	तण्णीरै वारिविड	वंळ्ळम् तेरिप्पिक्कुक	एत्तिवगेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
उल्लंघन	पुं.	आज्ञा, नियम, प्रथा, रीति आदि का पालन न करना, अतिक्रमण	उल्लङ्घनम्	अलंघणा	ख़िलाफ़वर्ज़ी, तजावुज़	खलाफवरज़ी	उलंघनु, भजिकिड़ी	उल्लंघन, अतिक्रमण
उल्लास	पुं.	आनंद, प्रसन्नता	उल्लासः	खेड़ा, हुलास	मसर्रत, ख़ुशी	ख़ोशी	उलासु, ख़ुशी	उल्लास, आनंद, प्रसन्नता
उल्लेखनीय	वि.	जिसका वर्णन करना आवश्यक या उचित हो	उल्लेखनीय	वरणनयोग	क़ाबिले ज़िक्र	वनुन लायख	उलेख जोगो, ज़िक्र जोगो	उल्लेखनीय
उसूल	पुं.	सिद्धांत	सिद्धान्तः	असूल	उसूल	ओसूल	उसूलु	सिद्धांत
उस्तरा	पुं.	बाल मूँड़ने का छुरा	क्षुरः	उसतरा	उस्तरा	खूर	पाकी उस्तरो	वस्तरा
ऊँघना	अ. क्रि.	झपकी लेना, नींद की आरंभिक अवस्था	नि+मिष्	ऊँघणा	ऊँघना	ज़िफुँ करनि	झूटा खाइणु	डुलकी येणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उल्लंघन, अतिक्रमण	उल्लंघन	उल्लङ्घन, नियमको अवहेलना	उल्लंघ्न, अतिक्रमण (न)	उल्लंघन, उलंघन, अवज्ञा-करण	थओइदबा, थओइ वाओइदबा	उल्लंघन, अबज्ञा, भांगिबा, नमानिबा	अतिक्रमण	मीरुदल्	उल्लंघनम्	उल्लंघने, मीरु, अतिक्रमण
उल्लास	उल्लास, आनंद	उल्लास, आनंद	उल्लास, आह्लाद, अतिशय आनंदो	उल्लास, उलाह, रङ्पोवा	हराओबा, नुङ्ङाइबा	उल्लास, आह्लाद, आनंद, उत्फुल्लता	उल्लासमु	आनंदम्	उल्लासम्	उल्लास
उल्लेखनीय	उल्लेखनीय	उल्लेखनीय	उल्ले-खनीय	उल्लेखनीय	शिङ्थानि-ङाई ओइबा, उल्लिङ्ङाइ ओइबा	उल्लेखनीय, आबश्यक, उचित, जथार्थ	वर्णिंपदग्ग, चेंप्पदगिन	कुरिप्पिड-त्तक्क	एंटुतु परयेण्ट, उल्लेखनीय माय	उल्लेखनीय
उसूल, सिद्धांत, नियम	सिद्धांत	सिद्धांत	सिद्धांत	नीति, रीति, दस्तुर	सिद्धांत, अचुंबदा युंफम् ओइबा अरेप्पा वारेप, प्रिन्सपल्	नियम, सिद्धांत, अबधारण, निष्पत्ति	नियममु	कॉळ्गै	तत्वम्, सिद्धांतम्	तत्व, सिद्धांत
अस्त्रो	वाकर	छुरा	क्षुर, खुर	खुर (क्षुर)	लू कोक्नब अथौबा छुरी	खुर	मंगलि कत्ति	सवरक्कत्ति	क्षौरक्कत्ति	क्षौरद-कत्ति
झोकूं खावुं, ऊंघवु	झेमप	उँग्नु, उँघ्नु	तंद्रा, बोसे बोसे झिमोनो	कलमटिया, टोपनि धर	उइबा	ढुलाइबा	कुनिकिपाटु पड्टु	तूंगि वळिय	उरक्कम् तूङ्ङुक	तूकडिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ऊँचा	वि.	1. आधार या तल से ऊपर उठा हुआ	उच्छ्रित	उच्चा	ऊँचा	ह्यॉर, थोंद	ऊंचो, मथे	उंच
		2. लंबा	दीर्घ	लम्मा, उच्चा	लंबा	ह्यॉर, थोंद	डिघो	उंच
		3. पद, मर्यादा आदि की दृष्टि से दूसरों से आगे बढ़ा हुआ	गुरु	उच्चा	आला, अफज़ल	ह्यॉर, थोंद	आला, ऊंचो	श्रेष्ठ
ऊँचाई	स्त्री.	1. ऊँचे होने की अवस्था या भाव	उच्छ्रय	उचाई	ऊँचाई	थज़र	ऊंचाई, बुलंदी	उंची
		2. गौरव, बड़ाई	गौरव	उचाई	अज़मत	–	वडाई, मानु	गौरव, मोठेपण
ऊपर	अव्य.	1. आकाश की ओर, ऊर्ध्व दिशा में	ऊर्ध्वम्	उप्पर	ऊपर	ह्यॉर	मथे	वर
		2. किसी के आधार या सहारे पर	उपरि	उप्पर	–	ह्यॉर	मथां	आधारे
	वि.	1. औरों से बढ़कर, श्रेष्ठ, उत्तम	श्रेयस्, गरिष्ठ	उप्पर	अफ़ज़ल	थोंद	मथे	श्रेष्ठ, उत्तम
		2. अधिक, ज़्यादा	अधिक	उप्पर, वाधू, वधीक	ज़्यादा	प्यॅठ्य	वधीक, ज़्यादा	अधिक, अतिरिक्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊंचुं	ऊँच	उँचो, अग्लो	उँचु	ओख	अवाङ्बा	ऊँचा, उच्चा	ऍत्तयिनॅ	उयर्ंद	उयर्न्न, पॉङ्ङिय	ऐत्तरवाद
लांबुं	लांबाय	लामो, अल्गो	लंबा	डाँगर, दीघल	अशाङ्बा	लंबा, दीर्घ	पॉडवयिनॅ	उयरमान	नीण्ट	उद्दवादु
उच्च	श्रेष्ठ	उच्च, श्रेष्ठ	उच्च, उँचु, उलत	ओपरर, उच्च-पदस्थ	मयामदगी हेन्बा	उच्च, उपर	उन्नतमयिनॅ	मुन्नेरिय	उयर्न्न	दोड्ड
ऊँचाई, उचापणुं	ऊँचेले	उचाइ, उँचाइ	उच्चता, खाड़ाइ	उच्चता, ओख	अवाङ्बा, वाङ्बा	उच्चता	ऍत्तु	उयरम्	उयर्च्च, पॉक्कम्	ऐत्तर
गौरव, वडपण	व्हडपण	गौरव, ठुल्याइँ	गौरब	गौरव, गुरुत्व	लेंबा, चाओबा	जश, ख्याति, गौरब, सुनाम	पॅद्दतनमु	गौरवम्, पॅरुमै	वलिप्पम्, महत्वम्	दोड्डतन
उपर, ऊंचे	वयर	मास्तिर्, उपर	उपर, ओपर	ओपर, फाल	मथक्	उपर, ऊर्ध्व, ओपर	पैयिनॅ	मेले	मुकळिल्, मेल्	मेले
आधारे	–	माथि	उपरे, ओपरे	ओपरत	–	उपरे, ऊर्ध्वरे	मीदॅ, पयिनॅ	मेले चांर्दु	एतिर्नयॅ-ङ्किलुं आश्रयिच्चुॅ	मेले
चडियातुं	उत्तम	श्रेष्ठ, उत्तम	श्रेष्ठ, उत्तम	श्रेष्ट, उत्तम	अथोइबा	उत्तम, श्रेष्ठ	श्रेष्ठमैनॅ	सिरंद	श्रेष्ठमाय	उत्तम
वधारे	अधिक	बढी, थप	अधिक	अधिक, सरह	अहेन्बा	अधिक, अतिरिक्त	ऍक्कुवॅ	अदिग	अधिकम्	हेच्चु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ऊबना	अ. क्रि.	किसी वस्तु विशेष में रुचि न रह जाना, मन में विरक्ति उत्पन्न होना	वि+रज्	अक्कणा	ऊबना (उकताना)	तंग-युन, निर्नु-युन	ककि थियणु, बेज़ार थियणु	त्रासणे
ऊष्मा	स्त्री.	गरम होने की अवस्था, गुण या भाव; गरमी, ताप	उष्मन्, औष्ण्यम्	तपा, तपश	हरारत	वुशनेर, गरमी	गर्मी, तपति	उष्मा, उकाडा
ऊसर	पुं.	रेत की प्रधानता वाली भूमि, जो खेती के लायक न हो	ऊषर	ओसर, बंजर	बंजर	बंजर	वारियासी, कलिराठी, बंजर	नापीक, ओसाड जमीन
ऊहापोह	पुं.	अनिश्चय की दशा में होने वाला तर्क-वितर्क या सोच-विचार, उधेड़-बुन	ऊहापोह:	सोच-विचार	तज़ब्जुब, कश्मकश, उधेड़बुन	हतिहुरि-गछुन	बुड-तर, बिचिताई	उहापोह
ऋण	पुं.	1. उधार, कर्ज	ऋणम्	करजा, रिण	क़र्ज़	करॅज़	कर्जु	कर्ज
		2. किसी का किया हुआ उपकार, एहसान	ऋणम्	अहसान	एहसान	–	अहसानु, थोरो	उपकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कंटाळवूं	बेजार	उराठिनु, वाक्क् लाग्नु	–	आमुवा, आमनि लाग	खिबा	मनरे बिरक्ति जात हेबा, खराप-लागिबा	विसुगुचेंदुंट	चलित्तुप्पोग	मुषियुक	बेजारागुवुदु
उष्मा, ऊष्मा, गरमी, हूंफ	उकाडो, कालोर	तातोपना, उष्मा	उत्ताप, उष्मा	उष्मा, उत्ताप, गरम	अशाबा, मैशा	उत्ताप, गरम, उष्म, उतप्त	वेडि	चूड़ु, उष्णम्	उष्मावूॅं, चूटुॅं	कावु, बिसि
कसर ऊखर	पडंग	बाँझो जग्गा, पर्ती, ऊषर	ऊषर, अनुर्बर	अनुर्बर, असारुवा	थुमगी शरुक्ना हेन्बा पांबी हौबा ङम्दबा लम	अनुर्बर	बीडुभूमि	विळैयाद, तरिशु रनिलम्	तरिशाय, विळविल्लात्त	बंजरु भूमि
ऊहापोह	तर्क-वितर्क	ऊहापोह, तर्क-वितर्क	इतस्ततः भाव, दुमना	बिचार-बिबेचना, इतस्ततः भाव	ऊङ्बा, फूङ्बङ्नबा	किंकर्तब्य-बिमुढ़, अनिश्चित-भाव, मनर तर्कभाव	ऊहापोहँ	ऊहम्	ऊहापोहम्	ऊहापोह, पर्यालोचने
ऋण, देवुं	उधार	कर्जा, रिन	ऋण, धार देना, कर्ज	ऋण	पूबा, पुशिन्बा, शेल तोन्बा	धार, उधार, करज, रुण (ऋण)	ऋणमु, अप्पु	कडन्	कटम्	साल
अहेसान	उपकार	उपकार, भलाइ	ऋण, कृतज्ञता, उपकार बोध (न)	अनुग्रह	–	उपकार, साहाज्य, परोपकार	ऋणमु	आंरुवर् संय्द उदवि	कटप्पाटुॅं	यारादरु माडिद उपकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. घटाने या बाकी निकालने का चिह्न (−)	–	घटाअ	नफ़ी (का निशान)	–	काटूअ जी निशानी (−)	वजाबाकीचे चिह्न (−)
ऋणदाता	वि.	ऋण देने वाला	उत्तमर्णः	लैणदार, लहिणेदार	दाइन (साहुकार)	करुॅज़ दिनुॅ-वोल	लहणेदारु, कर्जु ड्डींदडु	ऋणदाता
ऋतुराज	पुं.	बसंत ऋतु	ऋतुराजः	रुतराजा	मौसमे-बहार (बहार)	सोंत	बसंतु, बहार जी मुंद	ऋतुराज
ऋषि	पुं.	1. वेद-मंत्रों का प्रकाश करने वाले महापुरुष या मंत्र-द्रष्टा	ऋषि	रिशी	रिशी	र्यौंश	ऋषी	ऋषी, मुंनी
		2. आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का साक्षात्कार करने वाला	ऋषिः	रिशी	आरिफ़ (रिशी)	–	–	ऋषि

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बादबाकीनुं चिन्ह (-)	उणोकरुनं, वजा चिहृन (-)	वियोग वा घटाउको चिहृन	ऋण बियोग चिहृन (गणिते)(न)	घाटि होवार चिन	खाइदोक्पा	बाकी काढ़िबा, चिहृन (-), बियोग-करिबा	तीसिवेतँ गुर्तु	कळ्ळित्तल् अडैयाळम्	न्यूनचिहृनम्	कळेयुव चिहृनें (-)
ऋणदाता	उधार दिवपी	साहू, कर्जा दिने, ऋणदाता	ऋणदाता (न)	ऋणदाता	पैसा शान्बा, शेँदोइ चाबा	ऋण-दाता (रुणदाता)	ऋणदातॅ, अप्पिच्चुवाडु	कडन् काडुप्प-वर्	कटम् काॅदुत्तवन्, उत्तमर्णन्	साल काॅडुवव
ऋतुराज, वसंत	ऋतुराज, वसंतऋतु	ऋतुराज, बसंत ऋतु	ऋतुराज, बसंत	बसंत ऋतु	ऋतुराज, बसंत, येनिङथा	ऋतुराज, बसंत	वसंतुडु, ऋतुपति	इळवेनिर् कालम्, वसंतकाळम्	वसंतम्, ऋतुराजन्	वसंतऋतु, ऋतुराज
ऋषि	मंत्र-द्रष्टा	ऋषि, मुनि	ऋषि, बेदमंत्र रचयिता	ऋषि	ऋषि	मुनि, ऋषि	ऋषि	रिषि, मुनिवर्	ऋषि, मुनि	ऋषि, मुनि
ऋषि	ऋषि	ऋषि, तपस्वी	ऋषि	तत्वदर्शी ऋषि	लाइ निङबा मी	तत्वदर्शी, आत्मज्ञानि, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी	ऋषि	ञानि	ऋषि, मुनि	ऋषि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
एकता	स्त्री.	1. ऐक्य का भाव	ऐक्य	एकता	इत्तिहाद, वह्दत	यकुत	एकता, एको	एकता, एकी
		2. समानता	समत्व	समानता	यकसानियत (वह्दत)	–	–	समानता
एकत्र	वि.	इकट्ठा, जमा	एकत्र	इकत्तर	जमा	इकवटुँ करुन	गड्डु	एकत्र
एकदम	क्रि.वि.	1. तुरंत	त्वरितम्	इकदम	एकदम, फ़ौरन	यखदम	यक्दम, तुर्तु	एकदम, लगेच
		2. बिल्कुल	पूर्णतः, सर्वथा	–	बिल्कुल	–	बिल्कुल	अगदी
एकनिष्ठ	वि.	1. अनन्य भक्त	एकनिष्ठ	इक दा भगत	मुवाहिद	तनुँ मनुँ	हिक जो विश्वासी, एक-निष्ठ	एकनिष्ठ
		2. एकाग्रचित्त	एकनिष्ठ, एकाग्रचित्त	इकागरचित्त	यकसू	तनुँ मनुँ	एकाग्रचित	एकाग्रचित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एकता, ऐक्य, समानता	एकवट	मेल, एकता	ऐक्य, एकता, मिल	मिलन, एकता	एकता	मेल, एकता, मिलन, एकत्रित हेबा	ऐकमत्यमु	ऑट्टुमै	ऐक्यम्	ओग्गट्टु, ऐकते
समानता	समानता	समानता	साम्य	साम्य, समानता	अमत्ता ओइबा	साम्य, समानता	समानत्वमु	ऑप्पम्	सादृश्यम्, साम्यम्	समानते
एकत्र, साथे, एकु, एकंदर	एकठांय	एकत्र	एकत्र, समबेत, जमा	एकत्र एकेलग, समवेत	पुन्शिन्बा, खोमजिन्बा	एकत्र, एकाठि-जमा हेबा	ऑकॅ चोटॅ चेरिनॅ	ऑन्रु सेरुन्दु, कूट्टाग	ऑन्निच्चुॅ	ओंदुगूडिद
एकदम, ताबड़तोड़, झपाटाबंध	एकदम	झट्ट तुरुंत	शीघ्र	तुरंते, हठाते	खुदकता	तुरंत, शीघ्र, हठात	तक्षणमु, वेंटने	उड़ने	उटन्	कूडलॅ
साव, तद्दन	बिलकुल	एकदम, बिलकुल	एकदम, एकेबारे, मोटेइ	एकेबारे, संपूर्ण	शोयदना	बिलकुल, संपुर्ण, पूर्ण-भाबरे, समग्र-भाबरे	पूर्तिगा	मुट्टिलुम्	तिकच्चुम्	सर्वथा
एकनिष्ठ	एकनिष्ठ	एकनिष्ठ	एकनिष्ठ	एकनिष्ठ, अनन्य भकत	वाखल अनि लोंगदबा	एकनिष्ठ, अनन्य, एकांत, प्रगाढ़	अनन्यॅ भक्तिगलॅ	ऑरुमुनैप्पट्ट दियानमुडैय	एकनिष्ठनाय	एकनिष्ठ
एकाग्रचित	एकचित्त	एकाग्रचित्त, एकचित्त	एकनिष्ठ, एकाग्रचित्त	एकाग्रचित्त	पुक्निङ् लुप्पा	एकाग्रचित्त, एकनिष्ठ	एकाग्रॅ-चित्तमुगलॅ	मुळुमनदुडन् सॅयलाट्टल्	एकाग्रचित्तन्, मनस्सु वॅच्चु प्रवर्त्तिक्कुन्न	मनस्सिट्टु केलस माडुवव, एकाग्रचित्त

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
एकमत	वि.	एक ही तरह की राय रखने वाला	एकमत	इकमत्त	मुत्तफ़िक़ (मुत्ताफ़िकुर्राय)	यकराय, मुतफिक	यकराइ, हिक मत जा	एकमत
	पुं.	मत की एकता, मतैक्य	मतैक्यम्	–	इत्तिफ़ाक़े-राय	–	हिकु मतु, यक्राइ	मतैक्य
एकमात्र	वि.	अकेला, एक ही	एक	इक्को-इक	अकेला, वाहिद	अकॉय	हिकु ई, अकेलो	एकटा, एकुलताएक, एकमात्र
एकांत	वि.	निर्जन, सूना	विजन, निर्जन, शून्य	इकांत, सुंव	सुनसान, यकसू	ईकांत	एकांत, सुञो, सूनो, सुनसान, हिक जो ध्यानु कंदडु	एकांत, निर्जन, शून्य, एकलक्ष्य, एकध्यानी
	पुं.	निर्जन स्थान	विजन	सुन्नी थां	तनहाई, तख़्लिया	ईकांत	एकांत, अकेलाई	निर्जन स्थान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एकमत	एकमत	एकमत	एकमत, समम- ताबलंबी	एकमत	मोत मान्नबा	एकता, एकमत, एकमन	एकाभि- प्रायमुगल	ऒरु मनदुळ्ळ	एकाभि- प्रायमुळ्ळ	एकाभि- प्रायवुळ्ळ
मतैक्य	मत ऐक्य	मतैक्यु	मतैक्य	मतैक्य, मतर मिल	मोत अमता ओइबा, वाखल मान्नबा	एकमत, अभिन्न- मत	एकाभिप्रायमु	अबिप्पिराय ऒट्टुमै	ऐककण्ठ्यम्	ऒम्मत
एकमात्र, एकनुं- एक, फक्त- एकज	एकमात्र	एक्लो, एकमात्र	एकमात्र	एकमात्र, केवल	अमखक्ता	एकमात्र, केबल, गोटिए	ऒके ऒक्क, एकैक्क	ऒरे, तनियान	एकमात्रम्, ऒरोट्ट, ऒरे ऒरु	ऒंटिग, ऒंदे
एकांत, एकलुं, एकाकी, निर्जन, सूनुं	एकांत	एकलास, सुनसान	एकांत, निर्जन	निर्जन, एकांत	अचिक्पा, अहाङ्बा	निर्जन, एकांत, निकांचन	एकांतमैन	तनिमैयान	एकांतमाय, विजनमाय	एकांत
निर्जन स्थान	निर्जन स्थान	एकांतु, निर्जन स्थल	एकांत, निर्जन स्थान	निर्जनठाँइ, एकांत ठाँइ	मी तादबा लम्	एकांत, निर्जन- बा निभृत- स्थल	एकांतमु	तनिमैयान इडम्	विजन प्रदेशम्	एकांत स्थान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
एकाकी	वि.	अकेला	केवल, एक, एकाकिन्	कल्लमुकल्ला, कल्लाकारा	अकेला, तनहा	कुनुय	अकेलो	एकाकी, एकटा
एकाग्र	वि.	तन्मय, दत्तचित्त	एकाग्र	इकागर	यकसू	तनुॅ मनुॅ	एकाग्र, हिकमनो	एकाग्र, तन्मय, दत्तचित्त
एकाधिकार	पुं.	संपूर्ण स्वामित्व	एकाधिकार:	इज़ारेदारी	इज़ारादरी-(इजारा)	इजारॅदॉरी	अकेले जो अधिकारु	एकाधिकार
ऐंठन	स्त्री.	मरोड़	आकुञ्चनम्	वट्ट	ऐंठन	वुठन	मरोड़, वटु, वकड़ु	पीळ, मुरगळा, ताण
ऐंठना	अ. क्रि.	1. बल पड़ने के कारण मुड़ना या संकुचित होना	आकुञ्च्	वट्ट पैणे, मरोड़े लैणा	ऐंठना	वुठुन, मूरुन	मुड़णु, मुड़ी पवणु	मुरगळणे
		2. अकड़ दिखाना	आ+कड्, गर्व्	आकड़णा	–	वुठुन	अकिड़िजणु	ऐट करणे
	स.क्रि.	1. मरोड़ना	आ+कुञ्च्	वट्टणा	–	मूरुन	मोड़णु, मरोड़णु	पिरगळणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एकाकी, एकलुं, निराधार	एकसुरो	एक्लो, एकाकी	एकला, एकाकी	एकाकी, अकले	नाइतोम ताबा, मदोम	एकाकी, एकुटिआ	एकाकि, आंटरि	तनियान, आंण्डियान	ओंट्ट, एकाकि	ओंटिग
एकाग्र, एकलक्षी, तल्लीन, तन्मय	एकाग्र	एकाग्र, एकचित्त	तन्मय, एकाग्र	एकाग्र, तन्मय	पुकनिङ् लुप्सिन्बा	तन्मय, एकाग्र, एकनिष्ठ, ध्यानमग्न	एकाग्रमु	मनदु कुळंबाद, गवनमान	एकाग्रमाय	एकाग्र, तन्मय
एकाधिकार, इजारो	एकाधिकार	एकाधिकार, एकलौटी अधिकार	एकाधिकार, एकचेटे अधिकार	एकाधिकार, एकछत्री अधिकार	मागीनिदा खन्बा, मथंतगीनि खन्बा, मॉनोपोली	एकाधिकार, एकचाटिआ अधिकार	एकाधिकारमु	तनि उरिमै	एकाधिकारम्, मोणोपळि	एकस्वाम्य
लपेट, वळ, अमळ	मुरडप	बाउँड्याइ, ऐंठन, अरन्याइ	मोचड़, पाक देयोया	मोचर-पाक	लैखत्पा, लैथोक्पा, शुमदोक्पा	मोड़िबा, धुरेइबा, बुलाइबा	मेलि, मेलिक	तिरुगुदल्	चुळि, पिरि, पिरिमुरुक्कम्	तिरुवु, हुरि
अमळावाने कारणे वळवुं	मुरडवप	बटारिनु, बाउँडिनु	टान धरा	मोटोका खा, भाज लाग, संकोचित ह	लैथेक्पा, थुप्पा	बशता-स्वीकार-करिबा, मुंड-नुआँइबा	मेलि पडुट	तिरुंब	पिरियुक	तिरुचिकोळ्ळु-वुदु
अकडाई देखाडवी	--	तुजुक देखाउनु	देमाक देखानो	अहंकार कर	मुक्पा	अकड़ेइबा, अहंकार-देखाइबा	गर्विंचुट	विरैत्तुप्पोग	गर्वु काणिक्कुक	जंभकोच्चुवुदु
मरोडवुं	मुरडवप	अँठ्याउनु, बटार्नु	मोचड़ानो, पाकानो	गोचर पका	लैखत्पा	ठकिबा, प्रबंचना, शठता, प्रतारणा	मेलिक वेयुट	तिरुग	पिरि मुरुक्कुक, पिरिक्कुक	हुरिमाडुवुदु, तिरुचुवुदु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. धोखा देकर लेना	मुष्	मुठणा, मुच्छणा	–	–	ठगु॒णु	फसवून, लुबाडणे
ऐनक	स्त्री.	चश्मा	उपनेत्रम्	ऐनक, चश्मा	ऐ़नक, चश्मा	ऑनक	ऐनक, चश्मो	चष्मा, चाळिशी
ऐश्वर्य	पुं.	1. धन-संपत्ति, वैभव	ऐश्वर्यम्	ऐशवरय	अमारत	खोॅशहॉली	धनु-दौलत	ऐश्वर्य, धन-संपत्ती, वैभव
		2. प्रभुत्व, शक्ति	ऐश्वर्यम्	प्रभुता	–	–	शान-शौक़त	प्रभुत्व, शक्ती
ओजस्वी	वि.	1. प्रभावशाली, तेजस्वी	ओजस्वी	तेजवंत, तेजस्वी	पुरअसर, पुरनूर	तीज़वान, नूर पशपुन	तेजस्वी, जल्वेदार	ओजस्वी, प्रभावशाली, तेजस्वी
		2. शक्तिशाली	ओजस्वी, बलवत्, शक्तिमत्	ताक़तवर	ज़ीशान, ताक़तवर	–	ताक़तवर	शक्तिशाली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धोखाथी लई लेवुं, ठगवुं	फँसवप	एँठनु	ठकानो	ठगा	नमफुदा लौबा	ठकिबा, प्रतारित-करिबा, अन्याय काम-करिबा	मोसगिंचि तीसुकोनुट	एमाट्टि एंडुत्तुक्कोळ्ळु वुदु	चतिक्कुक	मोसदिंद तेगदुकोळ्ळु वुदु
चश्मां	चश्मो	चस्मा	चशमा	चश्मा	अनोक	चषमा	कळ्ळजोडु	मूक्कु-क्कण्णाडि	मूक्कु कण्णाटि, कण्णट	कन्नडक, चाळीसु
ऐश्वर्य, विभूति, संपत्ति	ऐश्वर्य	ऐश्वर्य् श्री-संपत्ति	ऐश्वर्य, धन संपत्ति	धन संपत्ति	लन्-थुम्	ऐश्वर्य, वैभब, धन-संपत्ति	ऐश्वर्यमु	सेल्वम्, वैबवम्	ऐश्वर्यम्	ऐश्वर्य, संपत्तु
ईश्वरपणुं	प्रभुत्व	प्रभुत्व्, शक्ति	प्रभुत्व	प्रभुत्व, शक्ति	शक्ति	प्रभुत्व, भाक्ति	प्रभुत्वमु, शक्ति	तिरुमै	प्रभुत्वम्, अधिकारम्	प्रभुत्व
ओजस्वी, ओजसवाळुं, तेजस्वी, प्रभावशाळी	तेजस्वी	ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली	ओजस्वी, तेजस्वी	ओजस्वी, प्रभाबशाली	इथिल पीङंबा, मचिन चत्पा	प्रभाबशाली, तेजस्वी, ओजस्वी, बलिष्ठ	ओजस्वि	ऑळिमयमान	ओजस्वियाय	ओजस्वि
शक्तिशाळी	शक्तिशाळी	शक्तिशाली, प्रतापी	शक्तिमान	शक्तिशाली	शक्ति लैबा	शक्तिशाली, बलिष्ठ, बलशाली	शक्तिशालि	तिरुमैयुळ्ळ	बलवान्	शक्तिशालि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ओझल	वि., पुं.	अदृश्य, छिपा हुआ	अदृश्य, अगोचर	ओहले	ओझल	गॉब ग़छुन	ग़ाइब, ओझल, अलूप	अदृश्य
ओझा		1. भूत-प्रेत आदि झाड़ने वाला व्यक्ति	मान्त्रिक:, आभिचारिक:	मांदरी, सिआणा	आमिल	जिनँ माँथुँरि-वोल	झाड़ो, झाड़ विझंदड़ु	मांत्रिक
		2. ब्राह्मणों की एक उप-जाति	ब्राह्मणजाति-विशेष:	ओझा	–	जिनुँ माँथुँर-वोल	ब्राह्मणनि जो हिकु तब्क़ो	ब्राम्हणांचीएक उप-जाती
ओटना	स. क्रि.	कपास के बिनौले अलग करना	पृथक्+कृ	वेलणा	ओंटना	चारुन	ओटणु	सरकी काढणें
ओढ़ना	स. क्रि.	1. किसी कपड़े आदि से बदन ढकना	आच्छादय	उत्ते लैणा	ओढ़ना	वलुन	ओढणु	पांघरणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ओझल, अदृश्य, छुपायेलुं	दोळ्या आड जावप	अदृश्<u>य</u>, ओझेल	अदृश्य, आड़ाल	अदृश्य, लुप्त, लुकाइथका	उदबा, लोत्खिबा	अदृश्य, बिलुप्त, आढ़ुआल, दृष्टिर-अंतरालरे	अदृश्यमैन	मरैंद, काण मुडियाद	मरुञ्ञ, काणाताय	मरेयाद
भूवो	मांत्रिक	झाँक्री, धामी, बिजुवा	ओझा, वैदय	ओजा, बेज, शिक्षक	माइबा	गुणिआ	भूतवैद्युडु	मंदिरवादि	मंत्रवादि	मंत्रवादि
ओझा	बामणाली एक जात	ब्राह्मणको एकथर, ओझा	ओझा, ब्राह्मणेर जाति, विशेष, ग्रामीण वैद्य	ब्राह्मणर एटा जाति, अध्यापक	–	ब्राह्मणंकर-एक जाति	ऑर्क ब्राह्मणं जाति	बिरामणर्गळिल् ऑरु ऑरु पिरिवु	ब्राह्मणजाति	ओझा, ब्राह्मण
कपास वीणवो	कापूस पिंजप	ओट्नु, उइँट्नु	तूलोर बिचि छाड़ानो	कपाह नेओट, कपाहर परा गुटि एरुबा	लशिङ् मरु लौथोक्पा	मिणिबा	एकुट	पंजु कडैय	पञ्ञि कटयुक	हत्ति बिडिसुवुदु
ओढवुं	पांगून घेवप	ओढ्नु	ढाका नेओया	ओर, पिंध चादर	इन्बा, कुपशिन्बा	ढांकिबा, आबृत-करिबा, घोड़ाइबा	कप्पुकोनुट	पोत्तिक्कोळ्ळ	पुतक्कुक	होद्दुकोळ्ळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जिम्मा लेना	कार्यधुरं+धृ	जिम्मा लैणा	–	ह्यॉन	ज़िमो खणणु	उत्तरदायित्व घेणें
	पुं.	तन ढकने के लिए ऊपर से डाला जाने वाला वस्त्र	प्रावारक, प्रच्छद	–	ओढ़ना	वलुन	ओढणी, मथां पाइण जो कपड़ो	अंगावर घेतलेले वस्त्र
ओर	स्त्री.	1. दिशा, तरफ	अभिमुखम्	वल्ल, दिशा	तरफ़	तरफ	तरफ़	बाजू, दिशा
		2. पक्ष	पक्षः	पेह्लु	जानिब	–	पासो	पक्ष
ओला	पुं.	वर्षा में गिरने वाले बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े	उपलः	गड़ा, औला अहिण	ओला	डोठ	ग॒ड़ो, ओलो	गार
ओस	स्त्री.	वातावरण में फैली हुई भाप, जो जलकण रूप में पृथ्वी पर गिरती है	तुषारः, नीहारः	तरेल	शबनम, ओस	शबनम	माक	दैव
ओहदा	पुं.	किसी कर्मचारी या कार्यकर्ता का पद	पदम्	ओहदा, हुद्दा, मरतबा	ओहदा	ऑहदुॅ	उहिदो	हुद्दा, अधिकारपत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ओढवुं	जवाबदारी	जिम्मा लिनु, उत्तरदायित्व वहन गर्नु	दायित्व नेओया	दायित्व ल	इन्फि	दायित्व-ग्रहण करिबा	बाध्यतँ पैन वेसुकौनु	पॉरुप्पै एंडत्तुक्कॉळ्ळ	चुमतल एल्क्कुक	होणेवहिसुवुदु
ओढवुं	–	च्यादर	चादर उड़नि	चादर	–	बाह्य बस्त्र, बहिर्बास, चादर	दुप्पटि	पोर्वै	पुतप्पुँ	होदिके
बाजु, तरफ	दिका, वटेन	दिशा, पट्टि	दिक	फाल, दिश, दिह, पिन	माइकै	दिशा	वैपु	पक्कम्	नेर्क्कु	कडे
पक्ष, दिशा, बाजु, तरफ	पक्ष	पक्ष, तर्फ	दिक, पक्ष (क्ख)	पक्ष, पिने	मीचङ्, नाकल	पख्य, पाख, धार, प्रांत, कड़	वैपु	पक्कम्	वशम्	पक्ष
करो (परसादनो)	करे, गारे	असिना, असिनु	शिला-बृष्टि	बरषुणर शिल	लेन	कुआ-पथर, करका	वडगळ्ळु	आलंकट्टि	आलिप्पळम्	आनेकल्लु
ओस, झाकळ	दव	शीत, ओस	शिशिर, हिम	नियर	लिक्ला	शिशिर-बिंदु, हिम बिंदु	मंचु	पनि	मञ्जुतुळ्ळि	इब्बनि
अधिकार-पद, होद्दो	हुददो, पद	ओहदा, पद	पद	पद, पदबी	फम	पद, पदबी, सम्मान	होदा	पदवि	स्थानम्, पदवि	हुद्दे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
औचित्य	पुं.	उचित होने की अवस्था या भाव, उपयुक्तता	औचित्यम्	उचितता	माक़ूलीयत, मौज़ूनीयत	जॉनी	उचितता, जोगाई, मुनासिबत	औचित्य
औजार	पुं.	हथियार, उपकरण	उपकरणम्	संद, औज़ार	औज़ार	अवज़ार	औज़ारु	अवजार, उपकरण
औटाना	स. क्रि.	किसी तरल पदार्थ को उबालकर या खौला कर गाढ़ा करना	उद्वालय्	उबालणा	औंटाना	मोॅटरावुन	काढ़णु, घाटो करणु, टहिकाइणु	आटविणे
औद्योगिक	वि.	1. उद्योग-संबंधी	औद्योगिक	उदिओगिक, सन्नती	सन्अती	कारुॅबॉरी	उद्योग संबंधी, उद्योगिक	औद्योगिक, उद्योग-संबंधी
		2. वस्तुएँ तैयार करने के काम से संबंध रखने वाला	औद्योगिक	–	सन्अतगर	–	हुनरी	औद्योगिक
औद्योगीकरण	पुं.	नए-नए कल-कारखाने स्थापित करना	उद्योगीकरणम्	उदिओगीकरन, सन्नतीकरन	सन्अतियाना	सनतीकरन	उद्योगीकरणु	औद्योकिरण, औद्योगिकरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
औचित्य	औचित्य	औचित्य, उपयुक्तता	औचित्य	औचित्य, युक्ति	चान्नबा मतौ	उपजुक्तता, जुक्तिजुक्त, जथोचित, उचित	औचित्यमु	उगंद तन्मै, पारुत्तम्	औचित्यम्	औचित्य
ओजार, हथियार	उपकरण	ज्याबुल, औजार	हाथियार, यंत्रपाति (ज)	सा-सरंजाम, उपकरण	खुत्लाइ	हतियार, अस्त्रशस्त्र, उपकरण, आबश्यकिय-जिनिष	पनिमुट्टु	करुवि	उपकरणम्, पणियायुधम्	सलकरणे, उपकरण
अकळवुं, उकाळवुं	आटवप	बाक्लो पार्नु (उमालेर्), गाढा गर्नु	फोटानो	उतलाइ घन कर	लोन्शिन्बा	गरम-करिबा, फुटेइबा	मरगॅ कायुटॅ	वट्ट-क्काय्च्च	काच्चिक्कु-रुक्कुक	कुदिसुवुदु
औद्योगिक	औद्योगिक	उद्योगसित् संबंधित	शिल्प संक्रांत	औद्योगिक	उद्योग का मरिलैनबा	उद्योग-संबंधी, औद्योगिक	पारिश्रामिकॅ	तॊळिल् संबॅंदमान	व्यावसायिकं	कैगारिकेय
औद्योगिक	–	औद्योगिक	–	औद्योगीकरण	उद्योग का मरिलैनबा	औद्योगिकरण, शील्पकरण	परिश्रमॅ संबंधमयिनॅ	–	तॊळिल्	उद्यमि
औद्योगि-करण	औद्योगिकरण	औद्योगिकरण	शिल्पायन	औद्योगीकरण	इन्डस्ट्रिय-लाइजेशन, कल-कारखाना लिङ्खत्पगी थबक	शिल्पोन्नति, औद्योगीकरण	पारिश्रामीकरण	तॊळिलमय-माक्कुदल्	व्यवसाय-वत्करणम्	कैगारिकेय-स्थापने, औद्योगीकरण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
औपचारिक	वि.	1. उपचार-संबंधी	सोपचार	उपचारिक	तदारुकी	रसमी	इलाज संबंधी	औपचारिक
		2. दिखावटी	औपचारिक	रसमी	रस्मी	–	रिवायती, रस्मी, दस्तूरी	औपचारिक लौकिक
औपचा-रिकता	स्त्री.	1. औपचारिक होने की अवस्था, गुण या भाव	औपचारिकता	लोकाचार	रस्मियात (रस्म)	रसॅमी	दस्तूर मूजिब, रिवायत-परस्ती	औपचारिकता
		2. दुनियादारी	लोकव्यवहार:	–	दुन्यादारी	–	दुनियादारी	व्यवहार, लौकिक
और	योजक (अव्य.)	दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द	च	ते, अते	और	बैंयि	ऐं	आणि, तथा
	वि.	दूसरा	अन्यत्, इतर	होर	दूसरा	–	ब़ियों	आणखी, दुसरा
	क्रि.वि.	अधिक	अधिकम्	होर	ज़्यादा	–	वधीक, अञा बि	आणिक, अधिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
औप-चारिक	औपचारीक	उपचार-संबंधी	चिकित्सा-संबंधी	औपचारिक, चिकित्सा बिषयक	लाइयेङ्-बगा मारि लैनबा	चिकित्सा-संबंधीय	सपर्यकु संबंधिंचिन	चिकिच्चै संबंदमान	औपचारिकम्	औपचारिक
औप-चारिक	देखाव्या-पुरतें	औपचारिक, यथाचार	शिष्टाचार	यथाचार, बिधिगत, शिष्टाचार	फोओमल्, हौन चत्लबीगी मतुङ् इन्ना	शिष्टाचार, औपचारिक, बिधिगत, नीतिगत	लांछन प्रायमैन	मुरैप्पडियान	औपचारिकम्	तोरिकेय
औपचा-रिकता	–	औपचा-रिकता	शिष्टा-चारिता	यथाचारिता, आनुष्ठानिकता	फार्मेलिती	आनुष्ठानिकता, औपचारिकता, शिष्टाचारिता	लांछनमु	मुरैमै	औपचा-रिकत्वम्	औपचारिकते
दुनियादारी	–	सांसारिकता, लोकाचार	दुनियादारि	सांसारिकता	चत्लबी	सांसारिकता, सामाजिकता	मर्याद, व्यावहारिकत	उलग वळ्क्कु	नाट्टुनटप्पुं	लौकिक ज्ञान
अने, तथा	आनी	र, एवम्, एवं, तथा	आर, ओ, एबम्	आरु, तथा, एबं	अमसुङ्	एवं, ओ, तथा, छड़ा	मरियु	मेलुम्, मट्टुम्	उम्	मत्तु
बीजुं	दूसरो	अर्को, आर्को, दोस्रो	आर, अन्य (न्न)	अन्य, बेलेग	अतोप्पा	अन्य, आरटि	रेंडव	मटर्टारु, इन्नुम्	मट्टारु, मट्टे	बेरे, इतर
वधु	अधीक	अरु, बढी, अधिक	आर, बेशि, अधिक	आरु, अधिक बेचि	अहेन्बा	अधिक, बेशी	अधिकमु, एक्कुव	अदिगमाग	कूटुतल्	इन्नु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
औरत	स्त्री.	1. स्त्री, महिला	स्त्री	तीवीं, औरत	औरत	ज़नानुँ	औरत	स्त्री, महिला
		2. पत्नी	पत्नी	तीवीं, औरत, पतनी	ज़ौजा	–	ज़ाल, जोइ, पत्नी	पत्नी
औषधालय	पुं.	दवाखाना, चिकित्सालय	औषधालय:	दवाखाना, औशधाला	दवाख़ाना	दवाखानुँ	अस्पताल, दवाख़ानो	औषधालय, दवाखाना
औषध	स्त्री.	1. दवा	औषधम्	दवा, औशधी	दवा	दवा	दवा	औषध
		2. रोग नाशक जड़ी-बूटी	ओषधि:	–	जड़ी-बूटी	–	औखद, दवा में कमि ईंदड़ जड़ी-बूटी	जड़ी-बूटी
औसत	पुं./वि.	1. मध्य, बीच का	मध्यमानेन, मध्यमान:	औसत	औसत	अवसथ	सरासरी, विचु	सरासरी
		2. साधारण, सामान्य	प्राकृत, अविशिष्ट	–	मामूली	–	विचोलो, साधारण	सामान्य, साधारण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नारी, औरत, स्त्री	अस्तूरी	स्वास्नी-मान्छे, स्त्री	महिला, नारी	महिला, तिरोता, नारी	नुपी	स्त्री, महिला, नारी	स्त्री	पॆण, मादु	स्त्री, पॆण्णुॅ	महिळे, हेंगसु, हॆण्णु
बैरी	बायल	पत्नी, स्वास्नी	पत्नी, स्त्री, भार्या	पत्नी, परियाल, स्त्री	नुपी	पत्नी, स्त्री	भार्य	मनैवि	भार्य	हेंडति
औषधालय, दवाखानुं	दवाखानो	औषधालय	औषधालय, दबाईखाना	औषधालय	हिदाक् योन्फम	औषधालय, औषध दोकान	औषधालयमु	मरुंदगम्	औषधालयम्, आशुपत्रि	आस्पत्रे
औषधि (धी), औसड, दवा	वखद	ओखती, औषधी	ओषुध, औषध	औषध, दरन दबाइ	हिदाक्	औषधी, औषध	मंदु, औषधि	मरुंदु	मरुन्नुॅ	औषधि, मद्दु
जडीबूटी	–	जरीबुटी	भेषज, उद्‌भिद	बनौषधि, बन दरब	हिदाक्-का मरि लैनबा ऊरु-वारु, मना-मशिङ्, जड़ी-बूटी	चेर मूलँ, बनौषधि	औषधि	मूलिगैगळ्	पच्चिल मरुन्नुॅ	गिडमूलिके
सरासरी, सरेराश	सरासरी	साला-खाला, सरदर, औसत	अनुपात	गड़, परिणाम, मध्यम	चाङ्चत्	हाराहारि, मोटामोटि	सगटु	सरासरि	शराशरि	सरासरि
साधारण	सामान्य	साधारण, सामान्य	साधारण (न)	साधारण	–	साधारण, सामान्य	साधारणँ-मयिनँ	सादारण	साधारणमाय	साधारण

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कंगाल	**वि.**	अति निर्धन	अकिञ्चन:	कंगाल	कंगाल, मुफ़्लिस	कंगाल	कंगालु	कंगाल, दरिद्री
कंघा	**पुं.**	बाल झाड़ने या सँवारने का एक उपकरण	कङ्कम्	कंघा	कंघा	कंगुव	फणोटो, कंघो	कंगवा
कंजूस	वि.	धन संग्रह के लालच में आवश्यक वस्तुओं पर भी खर्च न करने वाला (व्यक्ति), कृपण	कृपण:, कणजुष्	कंजूस	कंजूस	कंजूस	कंजूस	कंजूस, चिक्कू, कृपण
कंठ	पुं.	1. गला	कण्ठ:	गला	कंठ (गला)	हौंट	गलो, कंठु	गळा
		2. गले से निकला हुआ स्वर	कण्ठ्य:	–	सुर (गले का)		सुरु, आवाज़ु	गळयांतून निघालेला स्वर
कंधा	पुं.	मनुष्य के शरीर की बाँह का वह ऊपरी भाग या जोड़, जो गले के नीचे धड़ से जुड़ा रहता है	स्कन्ध:	मोढा, कन्हा	कंधा	प्योंक	कंधु, कुल्हो	खांदा
कँपकँपी	स्त्री.	भय, शीत आदि के कारण शरीर में होने वाला कंपन	कम्पनम्	कांबा, कंबणी	कपकपी	तॉर खसुँन्य	ड॒किणी, कंबण जी हालत	कांपरे, हुड़हुड़ी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कंगाल, दरिद्र	खांकणवाळ	कङ्गाल, दरिद्र	काङ्गाल, दरिद्र	अति-निर्धन, कंगाल, दाल दरिद्र दुखिया	शाथिना लाइरबा	कंगाल, दरिद्र, गरिब, दीन	निरुपेद	दरिद्दिरन्, मिग एळै	दरिद्रन्	दरिद्र, बडव
कंगवो, कांसको, दांतियो	फणी	काइँयो, काँगियो	चिरुनी	फणि, काकै	शम्जेत्	पानिआ, चिरूणी	दुव्वॅन	चीप्पु	चीप्पुॅ	बाचणिगे, बाचणिके
कंजूस	कंजूस, चामटो	कंजुस, किरंटोकी	कृपण (न)	कृपण	अरिक्पा	कृपण, कंजूस्	लोभि, पिसिनिर्गाट्टु	कंजन्, करुमि	पिशुक्कन्	जिपुण
गळुं	गळो	घाँटी, कण्ठ	कण्ठ, गला	गला, कण्ठ	खौरी	गला, कंठ, बेक	कंठमु	कळुत्तु	कळुत्तुॅ	गंटलु, कत्तु
सूर, साद	स्वर	स्वर, आवाज	आओयाज, कण्ठ-स्वर (स)	कण्ठ स्वर	खनाओ	कंठ-स्वर	कंठस्वरमु	कुरल्	स्वरम्	कंठ
कंध, स्कंध, खभो	खांद	कुम, काँध	कांध, काँध	कांध	लेङजुम, लेङ्बाल	कांध, स्कंध	भुजमु	तोळ्	तोळ्	हेगलु
कंप, कंपारी, ध्रुजारी	कडकडो	कँपाइ, काम, कम्पन	काँपुनि	कँपनि, थर्थरणि	निक्पा	धरिबा	वणकु	नडुक्कम्	विर्यल्	नडुक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कंबल	पुं.	मोटी ऊनी चादर, जो ओढ़ने के काम आती है	कम्बल:	कंबल	कंबल	कमुॅल्य	कंबलु	घोंगडी
कई	वि.	1. एकाधिक	बहु	कई	कई	वारयाह	केई, घणेई	कित्येक, अनेक
		2. कुछ	किम् +चित्	कुझ	कुछ	–	कुछ	काही
कक्ष	पुं.	किसी इमारत का भीतरी भाग, कमरा या खंड	कक्ष:	कमरा	कमरा	कुठ, कमरॅ	कोठी, कमरो	खोली
कक्षा	स्त्री.	1. दर्जा, श्रेणी	कक्षा	जमात, दरजा	दर्जा (जमाअत)	जमाथ	क्लासु, दर्जो	कक्षा, वर्ग, इयत्ता
		2. आकाश में ग्रहों के भ्रमण का गोलाकार-सम मार्ग	कक्षा	फेरा, मंडल	मदार	–	मदार (आकास में ग्रहनि जे घुमण जो घेरो)	कक्षा, मंडळ, खगोल मार्ग
कचहरी	स्त्री.	न्यायालय, अदालत	न्यायालय:	कचेहिरी	कचहरी	कचहीर्य, अदालथ	कचहरी, अदालत	कचेरी, न्यायालय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कंबल, कामळो, धांबळो	कांबळ	काम्लो, कंबल	कंबल	कंबल	कंबल	कंबल	कंबळि	कंबळि	कंपिळि	कंबळि
कई, अनेक	खूब	कैयूँ, कैय्यन	एकाधिक, अनेक	एकाधिक, अनेक	अमदगी हेंन्बा, कयामरुम	बहुत, एकाधिक, अनेक	कांदरु	अनेक	अनेकम्	हलवु
कईक, केटलुंक, थोडुंक	थोडे	केही	कयेक, कतकगुलि	किछु, अलप	खरा	अनेक गुडिए, किछि, अल्प, स्वल्प	कोन्नि	पल	पल	केलवु
ओरडो	कूड	कोठा, कक्ष	कक्ष, कामरा, घर (क्ख)	कोठा, खाँटाली	का	वड़- कोठरि, कक्ष	गदि	वीट्टिन उट्पगुदि, उळ्, अरै	मुरि	कोणे
वर्ग	कक्षा, वर्ग	कक्षा, दर्जा	श्रेणी (न)	मान, श्रेणी	क्लास रूम, लैरिक् तंफम का	श्रेणी, बर्ग	तरगति	पळ्ळि वगुप्पु	क्ळास्	तरगति
कक्षा	कक्षा- मंडळ, परिभ्रमण कक्षा	कक्ष, ग्रहहरू घुम्ने मार्ग	कक्ष (क्ख)	कक्षपथ	अकोइबा	ग्रह- मानंकर- गतिपथ, कक्ष	कक्ष्य	कोळ्ग'ळिन्, शुट्टुप्पादै	भ्रमणपथम्	कक्षे
कचेरी, अदालत, कोर्ट	कचेरी	कचहरी, न्यायालय	काछारी, विचारालय, आदालत	काछारी, न्यायालय, बिचारालय	कोर्ट	कचेरि, न्यायालय, अदालत, विचारालय	कचेरि, न्यायस्थानमु	नीदिमन्रम्	कच्चेरि, कोटति	कचेरि, कोर्टु, न्यायालय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कचोटना	अ. क्रि.	पीड़ा या वेदना होना	व्यथ्	चुभणा	चुभना, खटकना	सनुन	चुभणु, डुखणु	बोंचणे, टोचणे
कच्चा	वि.	खाद्य पदार्थ जो पका न हो, अधपका	आम, अपक्व	कच्चा	कच्चा, ना पुख़्ता	कोंच	कचो, अधु पकलु (खाधो), कचो अण-रसियल (फल)	कच्चे, अर्धपक्व
कटघरा (कठघरा)	पुं.	1. काठ का जंगलेदार घेरा	गोष्ठम्	कटहिरा	कटहरा	जंगलुँ	काठ जो वड्डो पिञिरो	लाकडाचा मोठा पिंजरा
		2. कचहरी में वह स्थान, जिसमें अभियुक्त खड़े होते हैं	साक्ष्यपीठम्, साक्ष्यवेदिका	कटहिरा	–	–	कटहरो (कोर्ट में डोहीअ जे बीहण जो हंधु)	पिंजरा
कटार	स्त्री.	छोटी छुरी	छुरिका	कटार	कटार, छुरी	छुर्य	कटार, कटारी	खंजीर, कट्यार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कचोटावुं	टोचप	बिझ्नु, चस्क्नु	दंशन, बेंधा	अंतरन, दुख पा	चैना	झुरिबा, मन दुख-करिबा, पश्चाताप-करिबा	पीडिंचुट कुच्चुकोनुट	वरुत्तप्पड़	नोवुक, नांपरप्पेटुक	व्यथेपडुवुदु, मनक्के चुच्चुवंथ
कच्चुं, काचुं, अपक्व	कच्चे, हरवें	काँचो, नपाकेको, अपरिपक्व	काँचा	नि सिजा, काँचियलि कोमल आपँइता, काँचियलि, अपुरठ, केंचा	मुंदबा	कंचा, अधा-पाकला-होइथिबा-खाद्य, अपरिपक्व	उडकनि, पच्चि	पळुक्काद, कार्व्वट्टान	वेवात्त, पळुक्कात्त, पच्च	बेंदिल्लद, हसि, कायि
चांजरुं	लाकडाची वय	खोर, कटेरो	काठेर खाँचा	काठगरा, काठर-गँराल	पिंजरा, शा उचेक्की थंफम्	पिंजरा, पंजूरी	पंजरमु, बोनु	मरक्कूण्डु	कूटुं	बेलिहाकिद, पंजर
कठेडो	गवाय/ साक्षेचो पांदरो (विटनेस बॉक्स)	कठघरा, कठघर	काठगड़ा	काठगरा	साक्षी गी लेप्फम्	काठगड़ा	बोनु	साट्चिक्कूण्डु	साक्षिक्कूटुं	साक्षिकट्टे, कटकटं
कटार, कटारी	खंजीर	कटार, कटारी	छुरि, काटारी	कटारी	हैज्रांग, छुरी, थाङ् मचा	छोट छुरी, कटुरी	चिन्न कत्ति	कटारी	कठारि	कत्ति, कठारि, बाकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कटु	वि.	1. जिसके स्वाद में कड़वापन हो	कटुः, कट्वी	कौड़ा	तल्ख़, कड़वा	ट्यॊंठ	कौड़ो	कडू
		2. अप्रिय, बुरा लगने वाला	कटु	कौड़ा	–	ट्यॊंठ	अणवणंदड़ु	अप्रिय, कटु
कट्टर	वि.	पक्का, दृढ़ निश्चयी, सिद्धांतवादी	दृढ, दृढा, दृढम्	कट्टर	कट्टर	कटर	कट्टर	कट्टर, पक्का
कठपुतली	स्त्री.	काठ (लकड़ी) की बनी हुई पुतली, जिसे धागे या तार की सहायता से नचाया जाता है	काष्ठपुत्तलिका	कठपुतली	कठपुतली	दारिदॅंज	पुतली (काठ जी गुड़ी)	कळसूत्रीबाहुली
कठिन	वि.	जो आसानी से न हो सके, मुश्किल	कठिन	औखा, कठन	मुश्किल, सख़्त	कठ्युन, मुश्किल	डुखियो, मुश्किल	कठीण, अवघ, बिकट
कठोर	वि.	1. कड़ा, सख्त	कठोर	कठोर	सख़्त	सखॊ़ंत	सख्त	कठोर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कटु, कडवुं, तीखुं	कोडू	टर्रो, तिच्छरो	कटु, तिक्त, तेंतो	कटु, तिक्क	अखाबा	कटु, कठोर, अप्रिय	चेदयिन, कटुवैन	कसप्पान	कय्प्पुळ्ळ, चवर्प्पुळ्ळ	खारवाद, कहि, तीक्ष्णवाद
अप्रिय	वायट दिसपी, अप्रिय	रुखो, अप्रिय	कटु, अप्रिय कथा	अप्रिय	नुङशिद्बा, अयाक्पा	अप्रिय, खराप	कटुवैन	पिडिक्काद	इष्टप्पटात्त	अप्रिय
कट्टर, चुस्त	पक्को, सिद्धांत- वादी	कट्टर, दृढ	दृढ, सिद्धांत बादी	दृढ़मना, दृढ़ निश्चयी	हक्चिन्बा	कठोर, दृढ़, दृढ़मना, कठोरता	गट्टिपट्- टुदलगल	कॉळ्गैप्पिडि- प्पुळ्ळ	उरुच्च, याथास्थिति- कनाय	दृढ़ निलुविन, सिद्धांतवादि
कठपूतळी	कळसूत्री बावले	कठपुतली	काठेरपुतुल	काठर पुतला	हङलाइ	काठ-पितुला, काथ, कंढेइ खेल	कॉय्यबॉम	बोम्म- लाट्टत्तिन् पयन्पडुम् बॉम्मै	मरप्पाव	सूत्रद- गोंबे
कठिन, कठण, सखत, अघरू, मुश्केल	कठीण	गाह्रो	कठिन, मुश्किल	कठिन, टान, सहज न होवा	अरुबा	कठिन, मुस्किल	कष्टमैन	कष्टमान	कठिनम्	कठिण, कष्टवाद
कठोर, कडक, सखत	कडक	कडा, सख्त	कड़ा, शक्त, कठोर	कठोर, टान	तम्थिबा, अकन्बा	कठोर, कड़ा, शक्त, निर्दय, निष्ठुर	कठोरमैन	कडिनमान	कटुप्पमाय	गट्टि, कठोर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. निर्दयी, निष्ठुर	कठोर	–	सख़्त दिल	–	कठोर, निर्दयी	निर्दयी, निष्ठुर
कड़कना	अ.क्रि.	1. कड़कड़ का शब्द होना	कडकडा + कृ, गर्ज्	कड़कणा	कड़कना	टासुँरारय, ग़र्छुंन्य	कड़िकड़ि करणु	कडाडणे
		2. रोषपूर्ण तेज आवाज में बोलना	–	–	–	क्रकुँनाद	किरकिरि करणु	–
कड़वा	वि.	1. स्वाद में कसैला या कटु	कषाय	कौड़ा	कड़वा	ट्यॉठ	कौड़ो	कडू
		2. कटु प्रकृति का	तीक्ष्ण	कौड़ा	–	–	–	कटु वृत्तिचा
		3. अप्रिय	अप्रिय	कौड़ा	–	–	अणवणंदड़ु	अप्रिय
कड़ा	पुं.	धातु का मोटा छल्ला	कङ्कणम्	कड़ा	कड़ा	कौंर	कड़ो, कंगणु	कडा
	वि.	सख्त, कठोर	कठोर, कड	केड़ा, करड़ा	कड़ा, सख़्त	सखुँत	सख़्त, कठोर	सख्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्दय, कर्कश	निष्ठुर	निर्दयी, निष्ठुर	निर्मम, निष्ठुर, कठोर	निर्दय, निष्ठुर, निर्मम	नुङ्शि हैतबा	निर्दय, निष्ठुर, निर्मम, क्रूर	दयलेनि	कांडूरमान	दयविल्लात्त	मरुकविल्लद, निर्दय
ककडवुं, कडकडवुं	कडकडप	कटकटाउनु	कड़कड़ शब्द हओया	डाङर शब्द कर	अयाक्पा	कड़कड़-शब्द-हेबा	कटकटॅ-लाडुटॅ	अदट्ट, कडुकडुक्क	कयर्क्कुक	पटपट-शब्दवागु, गर्जनेमाडु
–	–	गड्कनु	–	गाजनि मार	–	कड़किबा	गर्जिंचुटॅ	–	–	–
कडवुं	कोडू, कडसाण	तिच्छुरो, टर्रो, कसैलो	कषा स्वाद वा कटु (सा), तैँतो	कटु, तिता	अखाबा	पिता, कषा	चेदैनॅ	कसप्पान	कैप्पु-रसमुळ्ळ	कहि, वगरू
कडवा स्वभाव वाळुं	कडसाण प्रकृति चो	खस्रो, कर्कश	कड़ा प्रकृतिर	कठुवा प्रकृतिर	–	कटु-प्रकृतिर, कठोर-प्रकृतिर	कटुवैनॅ मयिनॅ	कांडूरमान गुणमुळ्ळ	शुण्ठियुळ्ळ	सिडुकलु, कटुस्वभावद
अप्रिय	अप्रिय	अप्रिय	कटु, अप्रिय	अप्रिय	नुङ्शिदबा	अप्रिय, कटु	अप्रियमैनॅ	पिडिक्काद	अप्रियमाय	अप्रिय
हाथनुं एक घरेणुं	कड़ो, तोडॉ	कडा	शक्त, कड़ा, कठोर	काढ़ा, कठोर	–	कड़ा, शक्त, कठोर	कडियमु	काप्पु	काप्पुॅ, कट्टिवळ	बळे, कंकण, कडग
सखत	कठोर	सख्त, निष्ठुर	कड़ा, कड़ाइ	कठोर, टान	अकन्बा	धातुनिर्मित-बड़ बला, बाजु	कठोरॅ-मैनॅ	कडिनमान	कटुत्त	गट्टि मुट्टाद, बिरुसाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कढ़ाई	स्त्री.	बेलबूटे निकालने का या बनाने का काम	सूचीशिल्पम्	कढाई	कढ़ाई, कशीदाकारी	टोंपुंकॉम	भर्तु/भर्थु	कशीदा
कतरन	स्त्री.	कपड़े, कागज आदि के छोटे-छोटे रद्दी टुकड़े	शकलम्, वृत्तखण्ड:	कतर, कातर	कतरन	तिलिमु, तुॅर	कतरि (कपड़े, काग़ज़ वग़ैरह जी)	बारीक रद्दी तुकडे
कतरना	स.क्रि.	कपड़े, कागज आदि को कैंची से काटना	✓कृत्	कतरना	कतरना	कपटुन	कतरणु, कटणु	कापणे
कतरनी	स्त्री.	कैंची	कर्तनी	कैंची	कतरनी	कंची	कैंची	कात्री
कतराना	अ.क्रि.	बचना	परि + हृ, परि + त्यज्	कतराउणा	कतराना	बचुन	कतिराइणु, पासो करणु, नजर बचाए खिसकणु	चुकविणे, टाळणे
कतार	स्त्री.	पंक्ति	पङ्क्तिः, अवली	कतार, डार (पक्षियों की)	क़तार	लॉन	कतार	ओळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भरतकाम	भरतकाम	कार्चोप, कारचोब, बतुभराइ	सुचिशिल्प	बेजिरे फुल तोला काम, फुल बँचा	लोन्बा	फुलपका-सिलाइ-काम, मिनाकारी, सूची-शिल्प	एंब्राइडरी पनि	तुणियिन्मेल् चंय्युम् पूवेलै	चित्रप्पणि, सूचिवेल	कसूति-कंलस
कातरण	कात्रण	कतरन	कापड़वा कागजेर कर्तित अब्यबहार्य अंश, काट-छांट	कापोर, कागज आदिर सरु-भाग, सरुडोखर	मचेत्	कपड़ा, कागज, धातु आदि-छोट-छोट-रदि टुकड़ा, कटा-कना	कत्तिरिंपु	कत्तरित्तु एंडुक्क-प्पट्ट तुण्डु	कष्णम्, वंट्टुतुण्टुं	तुणुकु-कत्तरिसि-उळिद
कातरवुं	कापप	कत्रनु	काटा-छाँटा	काटन, कटा	कक्पा	काटिबा	कत्तिरिंचुट	कत्तरित्तल्	कत्रिक्कुक	कत्तरिसु
कातर	कातर	कतर्नी, कैंची	काँचि, काँइचि	कैंची	काति	कइंची	कत्तॅर	कत्तरिक्कोल्	कत्रिक	कत्तरि
कतरावुं	ताळप	जोगिनु, बच्नु	दृष्टि एड़ाइया सरिया पड़ा, केटे पड़ा	आँतरि फालरि फालरि काट	उशिन्नदबा, थैदोक्पा	आड़ेइ-जिबा, दृष्टि एड़ाइबा, बेखातिर-करिबा	तप्पिंचुकॉनुट	तप्पिक्क	ऑळिञ्ञु मारुक	जारिकोळ्ळु
कतार, हार	रांग, वळ	लाम, पङ्क्ति	पंक्ति, सारि	शारी, लानि	परेङ्	अनुक्रम, परंपरा	पंक्ति, वरुस	वरिशै	वरि, पंति	सालु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कत्था	पुं.	खैर की लकड़ी का सत जो पान में खाया जाता है	खदिरः	कत्था	कत्था	कथ्थुं	कथो	कथ्था
कथनी	स्त्री.	कही हुई बात, उक्ति	उक्तिः	कथनी	क़ौल, मल्फ़ूज़ा	वॅन्यमुॅच् कथ	चविणी	उक्ती
कथा	स्त्री.	1. किस्सा, कहानी	कथा	कथा	दास्तान, अफ़साना	कथ	कथा, कहाणी	कथा, गोष्ट
		2. पौराणिक आख्यान	आख्यानम्	अखिआन	हिकायत (असातीर)	कथा	कथा	कहाणी, आख्यान
कथानक	पुं.	किसी साहित्यिक रचना की कथा-वस्तु	वस्तु, कथावस्तु	कथानक	प्लाट	कथ, प्लाट	कथा, कथावस्तू	कथानक
कद	पुं.	(व्यक्ति की) ऊँचाई	उत्सेधः, परिमाणः	कद	क़द	कद	कदु	(व्यक्तीची) उंची
कनक	पुं.	1. सोना, स्वर्ण	सुवर्णम्	सोना	सोना, ज़र	सोॅन	सोनु	कनक, सोने, सुवर्ण
		2. धतूरा	धतूरः, कनकः	धंतूरा	धतूरा	दतुर	धातूरो	धोत्रा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काथो	कथ्थो	खयुर	खयेर	खयेर, खैर, खैरा	कत्था	खइर	काचु	कत्तैक्कांबु	कत्थ	काचु, खदिर
कथनी	कथन	कथन, भनाइ, उक्ति	उक्ति, कथन	कथा, उक्ति	वडाङ्	कुहा कथा, उक्ति, कथन	माटॅ	पेच्चु, वचनम्	पर्चिचल्, वाक्कुँ	मातु
कथा, वार्ता	कथा	कथा, कथा–कुथुङ्ग्री	काहिनी, गल्प	काहिनी, कथा	वारी	कथा, काहाणि, गल्प	कथॅ	कदै, चिरुकदै	कथ चेरूकय	कथे
ईश्वर के धर्म संबंधी प्रवचन	आख्यान	आख्यान, धर्मोपदेश	कथा (सत्य नारायणेर कथा)	साधुकथा, पौराणिक आख्यान	धर्म की वारी	पौराणिक–आख्या	हरिकथॅ	कथा कालट्चेपम्	कथाप्रसंगम्, हरिकथ	हरिकथे
कथानक	कथानक	कथानक, कथावस्तु	कथाबस्तु, काहिनीर बिषयबस्तु	कथाबस्तु, बिषयबस्तु	वारीगी कयात्	कथावस्तु, बिषयवस्तु, सारांश	कथावस्तुवु	कदैयिन् करु	कथावस्तु	कथावस्तु
कद	ऊँचाय	कद, जीउडाल, ऊँचाइ	उच्चता	उच्चता, शरीरर ओख	अवाङ्बा	व्यक्तिर उच्चता	पांडवु	उयरम्, आकिरुति	पांक्कम्, उयरं	ऐत्तर
कनक, सोनुं,	भांगर	सुन, स्वर्ण	कनक, स्वर्ण (स)	सोण, स्वर्ण	सना	कनक, सुना, स्वर्ण	बंगारमु	तंगम्	स्वर्णम्	चिन्न, बंगार
धतूरो	धुतरो	धतुरो	सोना	कनक, धातूरा		दुदुरा	उम्मंत्तॅ	ऊमत्तै	उम्मत्तै	महुगुणिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कन्यादान	पुं.	वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्या को वर को सौंपना	कन्यादानम्	कन्निआदान	कन्यादान	कन्यादान	कन्यादानु	कन्यादान
कपट	पुं.	1. छलपूर्ण आचरण, दुराव	कपट:	कपट	कपट	कपठ, छ़ल	कपट, दोखो	कपट
		2. धोखा	छलम्	–	–	–	छलु	फसवणूक
कपड़ा	पुं.	1. वस्त्र, वसन	वस्त्रम्	कपड़ा	कपड़ा	कपुर	कपड़ो	कापड
		2. पहनावा, पोशाक	वेश:	–	–	–	कपड़ो, पोशाक	पोशाख, वस्त्रें
कपाट	पुं.	1. किवाड़, दरवाजे का पल्ला	कपाट:	भिंत्त, बार, किवाड़, बूहा	किवाड़	दरवाज़ुॅ	कपाटु, ताकु	कवाड
		2. दरवाजा, द्वार	द्वारम्	–	–	–	दरवाज़ो, दरु	दरवाजा, दार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कन्यादान	कन्यादान	कन्यादान	कन्यादान	कन्यादान जी, जीयरी कइना आनुष्ठानिक भावे संप्रदान	शगोइदाक, कन्यादान	कन्यादान, बिवाह-कराइबा	कन्यादानमु	तिरुमणम्, कन्निकादानम्	कन्यकादानम् (विवाहम्)	कन्यादान
कपट, छळ	कपट	कपट, छल	कपट, छल, छलना	कपट, शठता, प्रताड़ना	नम्थाक्	कपट, छल, प्रतारणा	कपटमु	वंजनै	कपटम्	मोस, वंचने, कपट
दगो	फंसवप	धोका	धाका	धोका	नम्थाक्	कपट-करिबा	मोसमु	सूदु	चति	वंचने
कपडुं, कापड़	कपडो	कपुडा, वस्त्र	कापड़	कापोर, बसन, बस्त्र	फि	कपड़ा, कना, बस्त्र	गुड्डॅ	तुणि	वस्त्रम्, तुणि	बट्टे, अरिवे
पहेरवानुं, लूगडुं, पोशाक	भेस, पोसाक	लुगा, पोसाक	पोशाक	पोछाक, साजपार	फिजेत्	पिंधा, पोषाक, परिच्छद, बस्त्र, लुगापटा	दुस्तुलु	उडुप्पु	वेषम्	उडिगे
कसार	कवाड	कपाट, खापा	कपाट, दरजार, पाल्ला	कपाट, दुवार	थोङ्ना	कबाट, कबाटर फाले	कवाटमु	कदवु	कतकुँ	कद
बारणुं	दार	ढोका, दैलो	दरजा, द्वार	दुवार	थोङ्	दुआर	तलुपु	निलैवायिल्	वातिल्	बागिलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कपास	स्त्री.	एक पौधा. जिसके ढ़ोंढ़ (फल) में से रूई निकाली जाती है	कर्पासः	कपाह	कपास	कपस	कपह जो बूटो, कपह	कापूस, कापूसाचे झाड
कपूत	पुं.	बुरे आचरण वाला पुत्र, व्यसनी पुत्र	कुपुत्रः	कपूत	कपूत	कोँपूत, नालायक	कुपुटु, कपूतु	कुपुत्र
कपूर	पुं.	सफेद रंग का एक सुगंधित घन पदार्थ, जो हवा में रखने से भाप बन कर उड़ जाता है	घनसारः, कर्पूरः	कपूर	काफ़ूर	कोफ़ूर	काफ़ूर	कापूर
कपोल	पुं.	गाल	कपोलः	गल्ह	गाल	गल, बुथ्य-लब	गलु/गिलु	गाल
कफन	पुं.	शव को लपेटने का कपड़ा	शवाच्छादनम्	खप्फण	कफ़न	कफन	कफ़नु/ खफणु	कफन
कब	क्रि. वि.	किस समय	कदा	कद, कदों	कब	करबॉग्य	कड़हिं? कंहिं वक़्ति?	केव्हां, कधी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रू, कपास	कापूस, कापूसाचे झाड	कपास, रुवो	तुलो, कापास	कपाह	लशिङ्	छोट गछ-जाहाठारु-तंतु बाहारे कपा, कार्पास	प्रत्ति, प्रत्तिचेट्टु	पंजु, परुत्ति	पञ्ञि, परुत्ति	हत्ति, हत्तिय गिड
कपूत	नालायक पूत	कुपुत्र, कपूत	कुपुत्र	कुपुत्र बेया पो बेया मता-संतान	शागै चेन्थहन्बा मचा	कुपुत्र, अबैध, नष्ट चरित्र, कुलांगार	कुपुत्रुडु	केट्ट नडत्तैयुळ्ळ	मुटियनाय पुत्रन्	कुपुत्र
कपूर	कापूर	कपूर	कर्पूर	कर्पूर, काफुर	कपूर	कर्पूर	कर्पूरमु	कर्पूरम्, चूडम्	कर्पूरम्	कर्पूर
कपोल (ळ), गाल	गाल	गाला, गालो	गाल, कपोल	गाल, कपोल	खजाइ	गाल	चेक्किलि, बुग्ग	कन्नम्	कपोलम्, कविळ्	केन्ने, गल्ल
कफन, शबने ओढाडवानुं लूगडुं	धुवट	कात्रो, शववस्त्र	कफन, शवाच्छादन-बस्त्र	शव ढका कापोर, शवच्छादन	काइखुंफि	काठ-निर्मित शब रखिबा बाक्स	शवमुपै कप्पु गुड्डॅ	पिणत्तै मूडुम् तुणि	शवक्कोटि	हेणद बट्टे
क्यारे	केन्ना? कितलें	कहिले? कुन बेला? कुन बखतमा	कखन	केतिया, कोन समयत	करंबा मतम	केबे, केते बेले, केउँ-केउँ-समयरे	एप्पुडु	एप्पोळुदु	ऐप्पोळ्	यावाग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कबाड़ी	पुं.	टूटी-फूटी या पुरानी चीजें खरीदने और बेचने वाला	अवस्कर-विक्रयिन्	कबाड़ी	कबाड़िया, कबाड़ी	कबॉड्य	कबाड़ी	रद्दीवाला
कबूलना	स.क्रि.	स्वीकार करना	स्वी + कृ, ऊरी + कृ	कबूलणा	क़ुबूलना	कोंबूल करुन	क़बूलणु	कबूल करणें
कब्जा	पुं.	अधिकार	अधिकार:, आधिपत्यम्	कब्जा	क़ब्ज़ा	कबजुं	क़ब्ज़ो	कब्जा
कब्रिस्तान	पुं.	शव दफनाने का स्थान	प्रेतभूमि:, शवाधानस्थलम्	कबरसतान	क़ब्रस्तान	कबरिस्तान	क़ब्रिस्तानु	स्मशान
कभी	क्रि.वि.	किसी समय, किसी अवसर पर	कदाचित्, कदापि	कदे, कदी	कभी	कुनि वक्तुं	कड़हिं, कंहिं वक़्ति	कधी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भांग्या-तूटया के रद्दी मालनो वेपारी	रद्दीवालो	रद्दीवाला	पुरातो कागज आदिर क्रेता	फुटा-फटा वस्तु बेचोंता	कोंतेक् थाङ्तेक लैबा-योन्बा तौबा नुपा, नुपी	भंगा-रुजा बा पुरुणा-बस्तुर बिक्रेता	चॅत्तसरुकु कॉनुवाडु	कायलांकडै-क्कारन्	आक्रिक्कारन्	हळेय अथवा वडकु-मुरुकु सामानु मारुवव
कबूल करवुं, मानी जवुं	कबूल करप	कबुल्नु, स्वीकार गर्नु	मेने नेओया, स्वीकार करा	स्वीकार कर, मानि लोवा	थाबा	ग्रहण-करिबा, मानिनेबा, स्वीकार-करिबा, मान्य-करिबा	स्वीकरिंचुट, अंगीकरिंचुट	ऑप्पुक्कॉळ्ळ	स्वीकरिक्कुक	ओप्पिकॉळ्ळु-वुदु, स्वीकारमाडुवुदु
कबजो	कब्जो	कब्जा, नियंत्रण	दखल, आयत्ते राख	दखल, अधिकार	खुदुम्दा थंबा	अधिकार, हक, दखल, न्यायसंगत, दाबि	अधिकारमु	कैप्पट्टल्	अवकाशम्	स्वाम्य, स्वाधीन
कब्रस्तान	कबर स्थान	कब्रिस्तान, चिहाने चौर	गोरस्थान, कबरस्थान	कबरखाना, मरिशलि	पांगलगी मोङ्फम	कबरस्थान, कबरखाना	श्मशानमु	इडुकाडु, मयानम्	कबरिटम्, सॅमित्तेरि	स्मशान
क्यारेक	केन्नाय, खंचाय	कहिले, कुनै बेला	कखनओ	कोनोएक समयत्	करिगुंबदा	केबे, केतेबेले, केउँ समयरे	ऍप्पुडैनॉ	ऍप्पॉळुदावदु	ऍप्पोळ्ङ् किलुं	यावागलादरू

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कमंडल	पुं.	संन्यासियों का जलपात्र	कमण्डलु:	करमंडल	कशकोल, कमंडल	कमंडल	कमंडलु	कमंडल
कम	वि.	परिमाण, मात्रा, संख्या में थोड़ा	स्तोक, अल्प	घंट	कम	कम	घटि, थोरो	थोडे
कमजोर	वि.	दुर्बल, असमर्थ	कृश, दुर्बल	कमज़ोर	कमज़ोर	कमज़ोर	कम्ज़ोर	कमजोर, अशक्त
कमर	स्त्री.	शरीर का मध्य भाग, कटि	कटि:, मध्यम्	लक्क, कमर	कमर	कंबर	कमर, चेल्हि	कंबर
कमरबंद	पुं.	कमर का एक आभूषण	कटिबन्ध:, मेखला, काञ्ची, रशना	कमरकस्सा, कमरबंद	कमरबंद	कंबरबंद	कमरबंदु	कमरेला बांधवयाचे वस्त्र/उपरणे
कमरा	पुं.	कक्ष, कोठरी	कोष्ठ:, कक्ष:	कमरा	कमरा	कमरॅ	कमरो, रूमु, कोठी	खोली
कमल	पुं.	तालाबों में उगने वाला एक प्रसिद्ध फूल	कमलम्, पङ्कजम्	कौल, कमल	कंवल	पंपोश	कमलु, कंवलु	कमळ
कमान	स्त्री.	धनुष, शरासन	धनुस् , शरासनम्	कमान	कमान	कमान	कमान, तीर	धनुष्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कमंडळ	कमंडल	कमण्डलु	कमण्डुलु	कमण्डलु	युबी खुजाइ, कमंडल	कमंडलु	कमंडलमु	कमंडलम्, सन्निया- शिगळिन् तण्णीर् पात्तिरम्	कमंडलम्, किण्टि	कमंडल
कम, ओछुं	थोडे	थोरै, कम्ती, अलिकति	अल्प, सामान्य	कम, ताकर	हंथबा	कम, अल्प, सामान्य, किछि	तक्कुवॅ	कांजम्, कुरै̱वान	कुऱ̱वाय	कडिमे, स्वल्प
कमजोर, दुर्बल, अशक्त	अशक्त	कमजोर, अशक्त	दुर्बल, अशक्त, कमजोरी	दुर्बल, आशक्त, असमर्थ	अशोन्बा	कमजोर, दुर्बल, अशक्त, असमर्थ	बलहीनमैन	बलवीनमान	दुर्बलन्	दुर्बल, अशक्त
कमर, कम्मर, केड, कटि	कंबर, कमर	कम्मर, कटि	कोमर, कटि	कँकाल	ख्वाङ्	अंटा	नडुमु	इडुप्पु	अर	सोंट, नड
कमरबंध	कमरपटो	कमरबंदी, पटुका	कोमरबंध	कँकालर तङालि	ख्वाङ्चेत्	अंटारे- बांधिबा- कनापटि	नडिकट्टु	इडुप्पिल् कट्टुम् तुणि	अरप्पट्ट	नडुकट्ड़ु
ओरडो	खोली	कोठा, कोठो	कामरा, कुठरि, घर	कोठा	का	कक्ष, कोठरी, घर	गदि	अऱै, उळ्	मुऱि	कोणे
कमल (ळ)	कमळ	कमल, पद्म	पद्म, कमल (द्दो)	कमल, पदुम	थंबाल	पद्म, कमल	कमलमु	तामरै	कमलम्, तामर	तावरॆ, कमल
कमान, धनुष, कामठुं	कमान	धनु, कमान	कामान	धनु	लिरूङ्	धनु, धनुष	विल्लु	विल्	विल्लुॅ	बिल्लु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कमाना	स.क्रि.	उपार्जन करना	उप + अर्ज्	कमाउणा	कमाना	कमावुन	कमाइणु	कमविणे
कमी	स्त्री.	1. कम होने की स्थिति या भाव	न्यूनता, अपर्याप्तता	घट्ट, तोटा	कमी	कॅमी	कमी, घटिताई	कमतरता, कमी
		2. त्रुटि	अपर्याप्तता	तोट	–	–	कमी, नुक्सु	त्रुटि
		3. अभाव	अभाव	–	–	–	कमी, खोटि	अभाव
कर	पुं.	1. हाथ	करः	हत्थ, कर	हाथ	अथुँ	हथु	हात
		2. सरकार द्वारा जनता से उगाहा हुआ धन	करः	कर	टेक्स (महसूल)	–	ढल, टैक्स	कर
करघा	पुं.	कपड़ा बुनने का यंत्र	तन्त्रवापः	खड्डी	करघा	वोनन वान	आड़ाणो	माग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कमावुं	जोडप	अर्ज़नु, आर्ज़न गर्नु, कमाउनु	उपार्जन करा, कामानो, आय करा	उपार्जन कर, आर्ज, अर्जन कर	तान्बा	कमेइबा, आय, उपार्जन, लाभ करिबा	संपादिंचुट	संबादिक्क	संपादिक्कुक	संपादिसु
ओछप, ऊणप	उणें	घटी, अभाव, कमी	न्यूनता, अल्पता, कम हओया	घाटि	हंथबा	अल्प, किछि	तक्कुवँ, लोटु	कुरैवु	कुरवुॅ	कोरते
त्रूटि	त्रुटी	त्रुटि	त्रुटि, दोष	त्रुटि, दोष	दोष	त्रुटि, भूल, दोष	लोपमु	तवरु	कुट्टम्	कुंदु
अभाव	अभाव	कमी, अभाव	अभाव, अनटन, टानाटानि	अभाव	अवात्पा	अभाब, स्वल्पता, बिरलता, न थिबा-अबस्था	कॉरतँ	इल्लामै	अभावं, इल्लाय्क	अभाव
कर, हाथ	हात	हात	हात, कर	हात, कर	खूत्	कर, हात, हस्त	चॅय्यि	कै	कै	कै, हस्त
वेरो, लागो	टॅक्स, कर	कर, शुल्क्	कर, शुल्क, खाजना राजस्व	कर, राजह	टैक्स	कर, राजस्व, शुल्क, खजणा	पन्नु	वरि	करम्	तेरिगे, कर
साळ	हातमाग	करघा, कर्घा	ताँत	ताँत	योङ्खम	तंत, लूगा-बुणिबा जंत्र	मग्गमु	कैत्तरि	तरि	मग्ग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
करना	स.क्रि.	कार्य का संपादन	✓कृ	करना	करना	करुन	करणु	करणें
करनी	स्त्री.	1. कार्य, कर्म, आचरण	कर्म, स्वीकृति:	करनी	करनी	कॉम	करिणी, कमु	कृती, कर्म, कार्य
		2. राज-मिस्त्री का एक औजार	कर्णी	कांडी	करनी	करुॅन्य	करिनी, कांडी (राज़े जो औज़ारु)	करनी
करवट	स्त्री.	पार्श्व के बल बैठने-लेटने की स्थिति	करवर्त:	पासा	करवट	लरि फिरुन	पासो (बदन जो)	कूस, कुशी
करारा	वि.	1. कुरकुरा	सुपक्व:	करारा	करारा	त्रकुर	भुर्किणो	कुरकुरीत
		2. तेज, उत्कट, उग्र	उग्र:	–	तेज़	–	सख़्त, तेज़ (जवाबु वगैरह)	तेज, उत्कट, उग्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
करवुं	करप	गर्नु, कुनै काम सम्पादन गर्नु	कोनो काज करा	कोनो काम कर, कार्य संपदन	तौबा	करिबा, कार्य-संपादन, शेष करिबा	चेयुट	चेय्य	चेय्युक	माडुवुदु
करणी, आचरण	कर्म	कार्य, कर्म	कर्म, काज	कार्य, कर्म, काम	थबक, कर्म	काम, कार्य, कर्म	कार्यमु, पनि	चेयल्, कारियम्	प्रवृत्ति	केलस
रांपी	–	ज्याबुल, कर्नी, डकर्मीले काम गर्ने हातो	कर्णिक (न)	करणी	करनी, करनेल	करणी	तापी	करणै	कुलेरुँ	करणे
करवट, पडखुं, पासुं	कूस परतप	कोल्टो	कात, आड़, पार्श्वे अबस्थित	काति बा बागर	याओन्बा	कड़, धार, पार्श्व	प्रक्क	(उडलिन्) पक्कम्	(शरीरत्तिन्टे) वशं	मग्गुलु
कडक	कुरकुरींत	कुरकुरे	मचमचे	मुरमुरीया, चनका	गरौ-गरौ लाओबा, अकेंबा	कड़कड़िआ	करकरलाडु	मुरुगलान करुमुरुवन्र्	करुमुरेयुळ्ळ	गरिगरियाद
तीक्ष्ण	–	कडा, उग्र, रूखो	शक्त (काज), कड़ा (जवाब)	उत्कट, उग्र, टान, चोका-धारथका	फिङ्बा, इशौ कन्बा	कड़ा, उत्कट, उग्र, टाण	तीव्रमयिन	उरुदियान	उग्रमाय, शक्तियाय	चुरुकु, उग्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कराहना	अ. क्रि.	पीड़ा या वेदना का व्यथा-सूचक शब्द	क्रन्द्	हूँगणा, कराहणा	कराहना	ऊँह करुन, ऊँहरास्य	कंझणु, कुर्कणु	कण्हणे
करुण	वि.	1. दुखद	दु:खद	दरददिला	दर्दनाक	दर्दनाक, सनवुन	दुखदाई	दुखद, दयनीय
		2. साहित्य में एक रस	करुण	करुण	दर्द, सोज़	–	करुण रसु	करूण रस
करोड़पति	वि.	करोड़ों की संपत्ति वाला	कोटिपति:, कोट्यधीश:	करोड़पती	करोड़पति	करोड़पॅती	किरोड़पती	कोट्याधीश
कर्ज	पुं.	ऋण	ऋणम्	करज़ा	क़र्ज	करॅज़	क़र्ज़ु	कर्ज

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पीडाथी 'आह' करवी	कणकणप	चीत्कार्नु	कातरानों, कराउनु	कँका	नाहेबा	कुंथाइबा	मूलुगुट	मुनग	वेदन कॉण्टु	नरळुवुदु ञरङ्ङुक
शोककारक	दुखीत	दु:खद	कातर, शोकाबह, दुखद	करुण, दुखदायक, शोकानह, कातर	वाबिबा	दुखद, आर्त, शोक, कष्ट	दुखं-दायकमैन	परिदापमान	करुणमाय	कष्टकर
साहित्य शास्त्र नो एक रस (करूण रस)	साहित्याचो एक रस	करुण	करुण रस (अलंकार-शास्त्रे) (न)	करुण रस	साहित्यगी रस अमगी ममिङ्	साहित्यरे-एक-रस, दयालु, कृपालु	करुणं रसमु	करुणै, नवरसङग-ळिल्, ऑन्रु	करुण रसम्	करुण-रस
करोडपति	कोट्याधीश, करोड़पती	करोडपति	कोटिपति	कोटिपति	करोड़ गी मपु	कोटिपति	कोटीश्वरुडु	कोटीश्वरन्	कोटीश्वरन्	कोट्याधीश
करज, देणुं	रीण	रिन, कर्जा, सापट	धार, ऋण, कर्ज	ऋण, धार	शेंदोल	करज, ऋण, धार	अप्पु	कडन्	कटम्	साल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कर्तव्य	पुं.	1. धर्म	कर्तव्यम्	करतव्व	फ़र्ज़	फरुँज़	कर्तव्य, फ़र्ज़ु	कर्त्तव्य
		2. विधिसम्मत कार्य	अनुष्ठेय कर्म	–	फ़रीज़ा फ़र्ज़, लाज़िम	–	विधान मूजिब कार्य	नियमबद्ध·
कर्त्ता	पुं.	1. रचयिता, निर्माता	कर्ता, विधाता	करता	ख़ालिक़	करनवोल, दय	कर्ता, कंदड़ु	कर्ता, रचयिता, निर्माता
		2. व्याकरण में पहला कारक	कर्ता	करता	फ़ाइ़ल	–	ग्रामर में 'फ़ाइल'	कर्ता (व्याकरणांतील)
		3. गृहस्वामी	कर्ता	करता	साहिबे-ख़ाना, वलीएनेमत	मॉलिख	मालिक (घर वग़ैरह जो)	मालक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कर्त्तव्य	कर्तव्य	कर्तव्य्	कर्त्तव्य, करणीय	कर्त्तव्य, करणीय, कररिब लगीया	तौफम थोक्पा मथौ	कर्त्तव्य, दायित्व	कर्तव्यमु	कडमै	कर्तव्यम्, कटम	कर्तव्य
फरज	वैधानिक	कर्तव्य्, नियमवद्ध	कर्तव्य, बिधेय	बाध्य-बाधकता	तौदा याद्रबा थौदाङ्	बिधेय, नीतिगत-कार्य्य	विधि	चट्टप्पडि चंय्य वेण्डिय वेलै	कर्तव्यं, कटम	कर्तव्य
कर्ता	कर्तो	कर्ता, निर्माता, रचयिता	कर्ता, स्रष्टा, निर्माता	कर्ता, करोँता	थौबु	कर्ता, निर्माता, कार्ज्य-कराइबा-व्यक्ति	कर्ते, चेयुवाडु	चंय्बवन्	कर्त्तावुँ, निर्मातावुँ	कर्ता
पहेली विभक्ति नो कारक	कर्ता	कर्त्ताकारक (कतृकारक)	कर्ता, (व्याकरणे) कारक विशेष	कर्ता, कारक	हिंदी व्याकरणगी कारक की अहान्बा मखल, ममिङ्	व्याकरणरे-प्रथम कारक	कर्ते, कारकमु	एंळुवाय्	कर्त्तावुँ	प्रथमाविभक्ति
कुटुंबनो स्वामी	मालक	स्वामी, मालिक	कर्ता, मालिक	घरर गराकी	मपू	परिबारर-स्वामी, मुरबि	यजमानि	वीट्टु यजमान्	कारणवन्	कर्ता

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कर्त्ता-धर्त्ता	पुं.	वह व्यक्ति, जिसको किसी कार्य या विषय के सभी अधिकार प्राप्त हों	कर्तृ-धर्तृ	करता-धरता	करता-धरता	करता-दरता	कर्ता-धर्ता, मुख्य कमु कंदड़ु	कर्ताधर्ता
कर्म	पुं.	1. काम, कार्य	कर्मन्, कार्यम्	करम	काम	करॅम	कर्मु, कमु	कर्म, काम
		2. पूर्व जन्म के कार्य	दैवम्	करम	करम (आमाल)	करॅम	कर्मु	कर्म (गत जन्मीचे)
		3. धार्मिक कार्य	धर्मकार्यम्	करम	करमकांड	करॅम	कर्मु	धर्मकार्य
		4. हिंदी व्याकरण में दूसरा कारक	कर्म	करम	मफ़ूऊल	करॅम	ग्रामर में 'मफ़ऊल'	कर्म (व्याकरणांतील)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कर्त्ता-डर्त्ता	कर्तो-धर्तो	कर्ताधर्ता, सर्वेसर्वा, हर्ताकर्ता, गृहकर्त्ता	कर्ता, प्रधान व्यक्ति, गृहकर्ता	करोंता, कर्ता	अशिन् अराङ् तौबा मी	मूख्य, प्रधान ब्यक्ति	सर्वाधिकारि	एट्टुनडत्तपवर्	नटत्तिप्पुकारन्	यजमान, यल्लवनु-माड्डुवव
कर्म, काम	काम	काम, काज, कार्य	कर्म, कार्य, काज (ज)	कर्म, काम	मथौ, थबक	काम, कार्य्य, कर्म	पनि	वेलै, चॆयल्	जोलि	केलस
कर्म	कर्म	पूर्वजन्मको कर्म	कर्म (पूर्वजन्मेर कर्म)	पूर्वजन्मर कर्म	थबक	पूर्व-जन्मर-कर्म	कर्मे	मुन्विनै	पूर्वकर्म्मम्	धार्मिक विधि
धर्म कर्म	धार्मिक कार्य	लौकिक संस्कार	कर्म, शास्त्र-बिहित अनुष्ठान	धर्मीय कर्म	कर्म	धार्मिक-कार्य्य, धर्म काम	कर्मे	मदच्चडङ्गु	मतपरमाय कर्मम्	कर्म
बीजी विभक्ति नो कारक	कर्म (व्याकरण)	कर्मकारक	कर्म (व्याकरणे) कारक बिशेष	(व्याकरण) कर्म्म-कारक, द्वीतीया-विभक्ति	हिंदी व्याकरण दा कारक की अनिशुबा मखल	व्याकरणरे द्वितीय कारक	कर्मे	चेयप्पडु पॊरुळ्	(व्याकरण) कर्मम्	कर्म, कर्मपद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कर्मठ	वि.	मेहनती, अध्यवसायी	कर्मठ	कामा	–	मेहनती	मेहनती	मेहनती
कलंक	पुं.	1. दाग, धब्बा	कलङ्कः	कलंक	कलंक	दाग	दाग़ु, धबो	कलंक, डाग
		2. लांछन, निंदा	कलङ्कः, आक्षेप	–	ऐब	हाँछ़	कलंकु	लांछन
कल	क्रि. वि.	1. आज के ठीक पहले का दिन	गतदिनम्, ह्यः	कल्ह	कल	राथ	काल्ह	काल
		2. आज के ठीक बाद आने वाला दिन	श्वः	कल्ह	–	पगाह	सुभाणो	उद्या
		3. चैन, आराम	विश्रामः	चैन	चैन	चैन	चैनु, आरामु	आराम
	स्त्री.	4. मशीन, यंत्र, पुर्जा	यन्त्रम्	कल	कलपुर्ज़ा	मिशीन	कल, मशीन	मशीन, यंत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महेनतु	कर्मठ	कर्मठ, सक्रिय	परिश्रमी, मेहनति, कर्मठ	परिश्रमी, कर्मठ	नोमबा कनबा	परिश्रमी, कर्मठ	कर्मनिष्ठगलॆ	उळैप्पाळि	परिश्रमियाय	कर्मनिष्ठ
डाघ, कलंक	दाग	कलङ्क, दाग	कलङ्क, दाग	कलंक, दाग, चेका	दाग, अचुबा	कलंक, दाग, बदनाम, दुर्नाम	कळंकमु, मच्चॆ	माशु, अळुक्कु	पाट्टु अटयाळम्	कलंक
लांछन, आळ	निंदा	लाञ्छना	कलङ्क, अपबाद, लाञ्छन	निंदा, लांछन	मराल, निंदा	लांछन, निंदा, अपबाद	निंदॆ	कुऱै	कळंकम्	निंदे, अपवाद
काल (गई)	काल	हिजो	काल, गतकाल	कालि, योवाकालि	ङराङ्	गतकालि, कालि	निन्नॆ	नेट्ऱु	इन्नलॆ	निन्ने
काल (आवती)	फाल्या	भोलि	काल, आगामी काल	काइलै	हयेङ्	आसंता-कालि	रेपु	नाळै	नाळॆ	नाळॆ
आराम	आराम, सुशेग	आंतरिक शांति, सुख, चैन	आराम	आराम, शांति	पोथाबा	आराम, सुख, शांति	निश्चिंतॆ	निम्मदि	शांति	नेम्मदि, सुख
यंत्र	मशीन, यंत्र	मेसिन, यंत्र, पाटपुर्जा	यंत्र, कल (ज)	कल, यंत्र, मेचिन	मशीन, यंत्र	कल, जंत्र	यंत्रमु	इयंदिरम्	यंत्रम्	मशीनु, यंत्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कलई	स्त्री.	1. सफेद रंग का प्रसिद्ध खनिज पदार्थ, राँगा	वङ्गम्	कली	क़लई	कलाय, मछ़	क़लई	कल्हई, कथील
		2. सफेदी	सुधालेपः	कली	सफ़ेदी	–	पोची, सफ़ेदी	सफेदी
कलफ	पुं.	नए धुले कपड़ों पर की जाने वाली चावल, अरारोट की माँड	मण्डलेपः	माइआ, मावा, कलफ	कलफ़	मायि	कलफ	कलप, कांजी
कलम	स्त्री.	1. लेखनी	कलमम्	कलम	क़लम	कलम	कलमु, लेखणी	लेखणी
		2. पेड़-पौधों की टहनियों से बनाया गया नया पौधा	रोपणाय कृता शाखा	कलम	क़लम	कलम	कलमु	कलम (रोपाचे)
कलरव	पुं.	पक्षियों की चहचहाट	कलरवः	चहचहाट	कूक	बोल-बोश	पखियुनि जी चह चह जो आवाज़ु	कलरव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कलई	कलय	कलइ, राङ	दस्ता, राङ, रूपा	बगिताम	खोरि, जिङ्क, (अबरक) ना शेंबा	दस्ता, रूपा	तगरमु, कळाइ	ईयम्	वॆळ्ळुत्तीयम्	कलाई
सफेदी	–	सेतोरङ	चुनकाम	कलाइ	कोल-लिक्ता तैनबा महि, शुनु हायबा	चून सफेइ, धलारंग	वॆल्लॆ	कलाय् पूशुदल	वॆळ्ळ पूशल्	सुण्णद बळित
आर, कांजी, खळ	निशें	कलप	कलप, माड़	मंड़लगा सजकरा	चनाङ्	चाउलपेज, लेहिमंड, भातपेज	गंजि	तुणिगळुक्कु पोडम् कंजि	कञ्ञि	गंजि
कलम	लेखणी	लेखनी, कलम	कलम, लेखनी	कलम, लेखनी	कोलोम	लेखनी	कलमु	पेना	पेन	लेखनि
कलम	कलम (रोप्याची)	कलम	कलम	(गछर) कलमी	कलम	–	अंटु	ऑट्टुच्चॆडि	ऑट्टुत्तै	कसिमाडिद
कलरव, गुंजारव	चिंवचिंवाट	कलरव, कूजन	कलरब, काकलि, कूजन	कलरव, कलकलनि	उचेक्की मखोल	गुंजरण, कलरब, कोईलीर-कलकलरब	कलरवमु	परवैगळिन् ऑलि	कळरवम्	कलरव, गळिबिळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कलश	पुं.	1. घड़ा, कलसा	घटः, कलशः	घँड़ा	कलसा	कलश, गडुँ	कलशु	कलश, कळशी, घागर
		2. मंदिरों आदि के शिखर पर लगा घड़ेनुमा कंगूरा	शृङ्गम्	कलस	कलस, कंगूरा	–	कलशु, कंगूरो	कळस
कलह	पुं.	झगड़ा, विवाद	कलहः	कलाह	लड़ाई	लडॉय	कलहु	कलह, भांडण
कला	स्त्री.	1. हुनर, आर्ट	कला	कला	फ़न	हौंनर	कला	कला
		2. चंद्र या सूर्य का अंश	कला	–	कला	कला	कला (चंड या सिज जो हिसो)	चंद्रा ची कला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कलश, कळश	कलश	कलश, घैँटो	कलस, घड़ा, कलश	कलह	चफू	कलस, माठिआ, गगरा, कलसि	कलशमु, कुंड	पानै	कलशम्	कांड
शिखर, टोच	कळस	मंदिरको गजुर	कलस, कलसाकृति चूड़ा वा अलङ्कार	कलची	कलश	कलस, बर्तुलाकार-चूड़ा	कलशमु	गोपुरंगळिन् कलशम्	ताळिकक्कुटम्	कलश
कलह	झगडें	कलह, बाझाबाझ, युद्ध, लडाइँ	कलह, बिबाद	कलह, दंद, काजिया, बिबाद	इमुङ् इशौ लाङ्नबा, लाओनबा	कलि, कजिआ, कलह, बिबाद, झगड़ा	कलहमु	कलहम्	कलह्म्	जगळ
कला (ळा)	कला	कला, सीप	कला, नृत्य, गीतादि चौषट्टी कला	कला, सुकुमार शिल्प	कला, आर्ट	कला, नृत्य गीतर-समष्टि	कळ	कलै	कल	कलॅ
चंद्रनो सोळमो भाग	चंद्रीम आनी सूर्या चो अंश	चंद्रकलाको सोह्रौं भाग, चंद्र-सूर्यका अंश	कला, चंद्र अथबा सूर्येर अंश (ज)	चंद्र-सूर्यर-कला अंश	–	कला, चंद्रर एक अंश	कळ	चंदिर बिंबत्तिन् पगुदि	कल, चंद्रक्कल	कलॅ, अंश, भाग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कलाकार	पुं.	कला-साधक	कलाकारः	कलाकार	फ़नकार	कलाकार, फनकार	कलाकारु	कलाकार
कलाबाजी	स्त्री.	सिर नीचा करके उलट जाने की क्रिया या खेल	उद्वर्तनम्	कलाबाज़ी, उलटबाजी	क़लाबाज़ी	वलुँगतुन	कलाबाज़ी	गोलांटी उडी
कलियुग	पुं.	पुराणानुसार चार युगों में से चौथा युग	कलियुगम्	कलजुग	कलजुग, कलयुग	कलियोंग	कलिजुगु	कलियुग
कली	स्त्री.	बिना खिला फूल	कलिका	कली	कली	टूर	कली, मुखिड़ी	कळी
कलुष	पुं.	मलिनता, गंदगी	कलुषम्	दाग़	गुनाह, पाप	दाग	मलीनता	पातक, पाप

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कलाकार	कलाकार	कलाकार, कलाविद्	कलाबिद्, शिल्पी	कलाकार, शिल्पी, कला-कुशली	कलाकार, आर्टिस्ट	कलाबित, कलाकार, कलार-साधक, कला-कुशली	कळाकारुडु	कलैञर्	कलाकारन्	कलाकार
गुलांट	गोलाटी मारप, लगाटी मारप	कलाबाजी	डिगबाजि	लुटिखोट, कलानिपुन	मन ओन्बा	शिल्पी, खेल-देखाली	पल्टी कॉट्टुटॅ	कुट्टिक्करणम् पोड्डुदल्	तलकुत्ति मारि्च्चिल्, कुट्टिक्करणम्	चुतुरर्त
कलियुग	कलियुग	कलियुग	कलियुग	कलिजुग	कलियुग	कलियुग, हिंदु शास्त्र अनुसार चारि जुगर शेष जुग	कलियुगमु	कलियुगम्	कलियुगम्	कलियुग
कळी	कळी	कोपिलो, कोपिला	कुँडि, कलि (कुसुमेर)	फुलर कलि, कुमुलिया-गुटि	अपोंबा लै	कढि, कढ़, फुल कढ़	मॉग्गॅ	मॉट्टु	पूमॉट्टॅ	मोग्गु
पाप	पाप	अधर्म, पाप, कलुष	कलुष, पाप	पाप, दुष्कर्म, अधर्म	पाप, पाप तौबा मी	पाप, कलुष, दुष्कर्म	मालिन्यमु, कल्मषमु	पावम्	पापम्, पातकम्	पाप

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कलेजा	पुं.	1. यकृत, जिगर	यकृत्	कलेजा, कलेजी, कालजा	कलेजा	वॉलिंज, दिल	छाती, सीनो	छाती, वक्षस्थल
		2. जीवट, साहस	सामर्थ्यम्	कलेजा	हिम्मत	जिगरुॅ	कलेजो, हिमथ	साहस, हिम्मत
कल्पना	स्त्री.	अन्तःकरण में अवास्तविक वस्तुओं के स्वरूप को उपस्थित करना	कल्पना	कलपना	तसव्वुर, तख़्युल	खयॉली	कल्पना, तसव्वुर	कल्पनाशक्ती
कल्प-वृक्ष	पुं.	मानव-इच्छाओं को पूर्ण करने वाला देव-लोक का एक वृक्ष	कल्पवृक्षः	कलप बिरछ	शजर-ए-तमन्ना	कल्प व्रेख्य	कल्प वृक्ष, कल्प बिरछ	कल्पवृक्ष
कल्याण	पुं.	हित, भलाई	कल्याणम्	कलिआण	बह्बूद	कल्यान	कल्याणु, भलो	कल्याण, हित
कवि	पुं.	कविता या काव्य का रचयिता	कविः	कवी	शाइ्र	शॉयिर, गोंनमाथ	कवी, शाइरु	कवि

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छाती	काळीज	कलेजो, यकृत	बक्ष, छाति, बुक	बुकु, यकृत, स्तन	थम्मोय	छाति, बख्य, बुकु	गुंडॅ	मार्बु	नॅञ्चुॅ	यदे, हृदय, यकृत्तु
साहस	साहसी	साहस, आँट	साहस	साहस	थौना	साहस, शौर्ज्य, बिरत्व, निर्भिकता	साहसमु, गुंडॅ निब्बरमु	दैरियम्	तंट्टम्	साहस, ऐदेगारिके
कल्पना	कल्पना	कल्पना, अनुमान	कल्पना	कल्पना, धारणामूलक	भावना शाबा, कल्पना	कल्पना, अबास्तबता, कल्पित, धारणामूलक	कल्पनॅ	कर्पनै	संकल्पम्	कल्पने, ऊहे
कल्पवृक्ष	कल्पवृक्ष	कल्पवृक्ष, कल्पतरु	कल्पतरु, कल्पबृक्ष (क्ख)	कल्पतरु, कल्पवृक्ख	कल्प-वृक्ष	कल्प वृख्य, कल्पतरु	कल्पवृक्षमु	कर्पग मरम्	कल्पवृक्षम्	कल्पवृक्ष
कल्याण	बरे	कल्याण, भलाइ	कल्याण, समृद्धी (न)	कल्याण, मंगल, हित	याइफबा, चाओखत्पा	कल्याण, हित, बिकास, समृद्धि	मेलु, शुभमु	नलन्	नन्म, समृद्धि	हित, कल्याण
कवि	कवी	कवि	कबि	कवि	कबि	कबि	कवि	कविञन्	कवि	कवि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कविता	स्त्री.	लय प्रधान तथा शब्द-बद्ध साहित्यिक रचना	कविता	कविता	नज़्म, शाइरी	शॉयिरी	कविता, शइरु	कविता, काव्य
कष्ट	पुं.	1. पीड़ा	कष्टम्	कशट	तकलीफ़	कश्ट	कष्टु, तकलीफ़	त्रास, पीड़ा
		2. मुसीबत	कष्टम्	–	मुसीबत	तकलीफ	मुसीबत, विपदा	तसदी, संकट, आपत्ती
		3. मेहनत, श्रम	श्रमः	–	दिक़्क़त	मेहनत	मेहनत, श्रम	श्रम, कष्ट
कसना	स.क्रि.	1. बंधन कड़ा करना	दृढी + कृ	कसणा	कसना	कसुन	कसणु, छिके ब॒धणु	कसणे आवळणे
		2. कसौटी पर सोने की जाँच करना, परखना	परि √ ईक्ष्	परखणा	परखना	–	कसौटीअ ते सोनु वग़ैरह परिखणु	कस लावणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कविता, काव्य	कविता	कविता	कबिता, काब्य	कविता, काव्य	शैरेङ्	कबिता	कवित्वमु	कवितै	कवित	कविते, काव्य
कष्ट, दु:ख, संताप	पिडा	दुख, पीडा, कष्ट	कष्ट, दु:ख, क्लेश, पीड़ा	कष्ट, पीड़ा, क्लेश, यातना	अवाबा	कष्ट, पीड़ा, क्लेश, दुख	बाधं, नोप्पि	तुन्बम्	कष्टप्पाटुॅ	कष्ट, दुख
आपत्ति, मुसीबत	त्रास	आपद, सङ्कट	कष्ट, बिपद	जंजाल, बिपद	खुदोङ् थिबा	आपत्ति, जंजाल, बिपद, कष्ट	विपत्ति	इडर्	कष्टप्पाटुॅ	कष्ट, तोंदरे
श्रम	कष्टी	मिहिनेत, परिश्रम	कष्ट, श्रम, आयास	श्रम, गार खाटनि, परिश्रम	नोंबा	श्रम, परिश्रम, काम-करिबा	कष्टमु, श्रमं	उळैप्पु	आयासम्	श्रम, कष्ट
कसवुं	कसप	कस्नु, कसाकस गर्नु	कषा, आँटा	आँट, कच, टानि, बांध	चेत्ना पुन्बा	कषिबा, बंधन कड़ा-करिबा, जोर, दृढ़ भाबरे-बांधिबा	बिगिंचुटं	कट्टै इरुक्क	मुरुक्कुक	बिगियुवुदु
कसोटी करवी	कसणप	सुन-चाँदीको स्तर निर्धारित गर्नु	कष्टि पाथरे (सोना) परीक्षा करा (करना)	कषटि-शिलत घँह	–	कषटि-पथर	गीटु रायिपै बंगारुनु परीक्षिंचुटं	उरैत्तुप्पार्क्क	माट्टुरक्कुक	उज्जुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कसबा (कस्बा)	पुं.	छोटा शहर	लघुनगरम्	कसबा	क़स्बा	सरय, कसबुॅ	नंढो शहरु	कसबा, लहान शहर
कसम	स्त्री.	शपथ	शपथः	सौंह, कसम	क़सम	कसम	क़समु	शपथ
कसर	स्त्री.	कमी, न्यूनता	न्यूनता	कसर	कसर	कसर	कसर, कमी	कसर, न्यूनता
कसरत	स्त्री.	व्यायाम	व्यायामः	कसरत	वरज़िश, कस्रत	कसरत	कसरत	व्यायाम, कसरत
कसाई	पुं.	पशुओं आदि की हत्या करने वाला, बूचड़, वधिक	वधिकः, सौनिकः	कसाई	क़साई	पुज	कासाई	कसाई, खाटीक
कसूर (कुसूर)	पुं.	दोष, अपराध	दोषः, त्रुटिः	कसूर	कुसूर, भूल	कोंसूर	क़सूरु, <u>डो</u>हु भुल, चुक	कसूर, दोष, अपराध, त्रुटि

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कसबो	लहान शारन	सानो शहर	छोटो शहर	सरु नगर	अपिक्पा शहर	छोट सहर	चिन्न पट्टणमु	कस्बा (चिरु नगरम)	चॅरिय पट्टणम्, पट्टण प्रांतं	चिक्क ऊरु, पट्टण
कसम, सोगंद	शप्पत, सोपूत	किरिया, शपथ	शपथ, दिब्यि, कसम	शपथ, शपत, अंगीकार	वाशक्पा	शपथ, राण, प्रतिज्ञा	आॅट्टु	शबदम्, आणै	शपथम्	आणे, प्रमाण
कसर, खामी	कमी	कमी, न्यूनता	न्यूनता, कम	कम, घाटि, न्यूनता	खजिकतङ् हंथबा	न्यूनता, स्वल्प	लोटु, कारते	कुरै	कुरवुॅ	कोरते
कसरत	व्यायाम	कसरत, व्यायाम	ब्यायाम, कसरत	कसरत, ब्यायाम	हक्चाङ् शाजेल तौबा	कसरत, व्यायाम	व्यायाममु	देहप्पयिर्चि	व्यायामम्	कसरत्तु
कसाई	कसाब, खाटीक	कसाई	कसाइ	कचाइ	शा हात्लगा योन्बा	कंसेइ	कसाइवाडु	कशाप्पुक्कारन्	कशाप्पुकारन्	कटुक, कटुग
खामी, भूल, कसूर	चूक, दोश	त्रुटि, भूल कसूर, दोष,	कसुर, त्रुटि, भुल-चुक, कसुर, दोष, अपराध	त्रुटि, भूल, दोष, अपराध	अशोइबा, अकाओबा, मराल	त्रुटि, भूल, दोष, अपराध	पारपाटु, अपराधमु	कुट्टम	कुट्टम्, अपराधम्	तप्पु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कसैला	वि.	आँवले, फिटकरी आदि के स्वाद वाला	कषाय, रुक्ष	कसैला	कसैला	ट्योंठ	कसारो	तुरट
कसौटी	स्त्री.	1. सोना परखने का काला पत्थर	निकषोपल:	कसवट्टी, कसौटी	कसौटी	कॅहवॅट	कसौटी	निकष
		2. मूल्यांकन के मानक आधार	परीक्षा	कसवट्टी, कसौटी	–	–	–	कसोटी
कस्तूरी	स्त्री.	एक विशेष नर मृग की नाभि के पास की गाँठ में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ	कस्तूरिका	कसतूरी	मुश्क	कोंस्तूर्यनाफुॅ	खथूरी/ खस्तूरी, मुश्क	कस्तुरी
कहकहा	पुं.	जोर की हँसी, ठहाका	अट्टहास:	ठहाका	क़हक़हा	खंगालुॅ	टहकु	खदखदा हंसणे खिदळणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कषाय स्वादनुं, कसाणुं	कसाय	टर्रो, कसैलो	कषा, कषाटे	केहेटा, कषाय	चाथत्पा, फक्पा	कषा	आंगरु	तुवर्प्पान	चवर्प्पुळळ	ओगरु
कसोटी	कसणी	कसी, कसौटी	कष्टिपाथर, निकष, कालो पाथर	कषटि-शिला	सना चाङ येङ्नबा अमुबा नुङ् मखल अमा	कषटि, पथर, शिला	गीटुराइ	उरैकल	उरकल्लुॅ	ओरेगल्लु
कस काढवानी रीत	कसौटी, कसवटणी	मापदण्ड	मूल्य निर्धारणेर मानदण्ड	सूत्र, मान-निर्धारण	चाङ्येङ्	मूल्य-निर्धारण	कालमानमु	विलै मदिप्पिडुम सादनम्	माट्टुॅ	ओरे
कस्तूरी	कस्तूरी	कस्तूरी	कस्तुरी	कस्तुरी, गांधकलाइ, मृगनाभि	शजि मखन अमा, कस्तूरी शजिगी खोइदौदगी फङ्बा मनम नुङ्शिबा पोत्	कस्तूरि	कस्तूरि	कस्तूरि	कस्तूरि	कस्तूरि
अट्टाहास्य, खडखडाट हसवुँते	हाँसो	अट्टहास	उच्च हास्य, अट्टहास	धेकधेकनि, डाङर हाँहि, अट्टहास्य	फाक्-फाक् नोक्पा, वा-वा नोकपा	जोररे-हसिबा, उच्च-हास, अट्टहास	पकॅ पकॅ, अट्टहासमु	अट्टहासम्	पाट्टिच्चिरि	अट्टहास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कहना	स.क्रि.	बोलना, बताना	कथ, वच्	कह्णा	कहना	कथ करुँन्य	चवणु	बोलणें
	पुं.	कथन, बात	वचनम्, कथितम्	कह्णा	कहना, कहा	कथबाथ	चविणी, ग॒ाल्हि	कथन, गोष्ट
कहाँ	क्रि.	किस स्थान पर	क्व, कुत्र	कित्थे	कहाँ	कति	किथे, कहिड़े, हंधि	कोठे
कहानी	स्त्री.	1. कथा, किस्सा	कथा, आख्यायिका	कहाणी	कहानी	कहॉनी, कथ	कहाणी, आखाणी	कहाणी, गोष्ट
		2. मनगढ़ंत बात	गल्पः	–	क़िस्सा	कहॉनी, कथ	कहाणी, आखाणी	दंत कथा
कहावत	स्त्री.	लोक प्रचलित कथन या वाक्य	आभाणकः, लोकोक्तिः	अखाण, अखौत, कहावत	कहावत (मसल)	कहावथ	कहावत, चविणी	लोकोक्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कहेवुं	उलोवप	भन्नु, कहनु	बला, कओया	क, कथा क	हाइबा	कहिबा, कथा-कहिबा	चंप्पुट	चॉल्ल, कूऱ्	पऱयुक	हेळुवुदु
कथन, कहेवुं ते	कथन	भनाइ, कथन	कथन, कथा	कथा, मात, उक्ति	वङाङ्	कथन, कथा, उक्ति	माट	कूट्टु	परच्चिल्	हळिके, मातु
क्यां	खंय, खंयचे कडेन	कता, कुन ठाँउमा, कुन स्थितिमा, कुन अवसरमा	कोथाय	कत (कोत), कोन ठाँइत, कोन-समयत	कदाइदा	केउंठि केउँठारे, केउँस्थानरे	एंक्कड	ऍङ्गे	एंविट	एंल्लि
वार्ता	काणी	कथा, कहानी	काहिनी, गल्प, केच्छा	काहिनी, कथा	वारी	काहाणी, गल्प, गप	कथ	कदै	कथ	कते, सण्णकते
दंतकथा	दंतकथा	मनगढंते कुरा, दंत्युकथा	बानानो कथा (गल्प)	सजा कथा, मने गढा कथा	अशेमबा शाजन्बा वा	मनगढ़ा-कथा, गल्प, गप, काहाणी	कथ	कट्टुक्कदै	कट्टुकथ	कल्पित मातु, दंतकथे
कहेवत	म्हण	उखान, लोकोक्ति	प्रबाद, लोकोक्ति	प्रबचन, फकरा, दृष्टांत	पओरौ	प्रबचन, प्रबाद, ढग, जनकथा, लोककथा	सामेंत, लकोक्ति	पळमॉळि	पळंचॉल्लुं	गादे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
काँखना	अ. क्रि.	1. मल-त्याग के समय आँतों या पेट की वायु को दबाना	कङ्ख्	किल्लहणा	काँखना	लमुन	कंझणु, कंखणु	कुंथणे
		2. परिश्रम का काम करते समय ऊँह-आह की ध्वनि करना	कङ्ख्	किल्लहणा	काँखना	कुँकुॅराय	–	कुंथणे
काँच	पुं.	शीशा	काचः	कच्च	काँच	शीशुँ	शीशो, काँचु	कांच
काँटा	पुं.	1. पेड़-पौधों की डालियों पर निकले नुकीले और कड़े अंकुर, कंटक	कण्टकम्	कंडा	काँटा	कँड्य, कोंड	कंडो	कांटा
		2. तराजू	तुला	कंडा	तराजू	कंडुँ	तराज़ी, कांटो	तराजू, काटा
		3. एक उपकरण, जिससे चीजें उठाकर खाई जाती हैं	विशाखा	कांटा	काँटा	काँटुँ	कांटो (खाधो खाइण लाइ)	काटा (जेवायच्या वळचा)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
करांजवुं	विकळावप	ठसठस गर्नु, कन्नु	कौँतानो, कौँत देओआ	एँह कर	थिशङ्बा	कुंथाइबा	मुक्कुटॅ	मुक्कि मुनग	मुक्कुक, मुरळुक	तिणुकु
घणुं जोरथी बोलवुं	–	कन्नु, कनिनु	कौँकानो	हैचादि, जोर दिया	–	कुंथाइबा	मुक्कुटॅ	मुनग	मुरळुक	नरळु
काच	कांच	काँच, सिसा	काच, काँच	काँच, चिचा	लिक्ली	काच	गाजु	कण्णाडि	कण्णाटि	काजु, गाजु
कांटो	कांटो	काँटो, कण्टक	काँटा	काँइट	तिङ्खङ्	कंटा, कंटक	मुल्लु	मुळ्	मुळ्ळुॅ	मुळ्ळू
त्राजवुं, तराजू	तागडी	तराजु, तुलो	काँटा, लौहमय मानदण्ड	तर्जु, पाल्ला	सेरफला	तराजु, निकिति	त्रासु	तराशु	त्रासॅ्	तक्कडि
चमचा घाटनुं साधन	फॉर्क	काँटा	काँटा, चामच	काँटा- चामच, काँटा	फोर्क	कंटा चामुच	फोर्कु	मुळ्-करंडि (फोर्कु)	मुऴळुॅ (फोर्क)	फोर्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कांति	स्त्री.	1. चमक, आभा	प्रभा	चमक, लिशक	नूर, ताबानी, चमक	चमख	चमक	कांती, चमक
		2. शोभा, सौंदर्य	लावण्यम्	–	जमाल	तीज़, दिवथ	सूंहं, सोभिया	शोभा, सौंदर्य
काँपना	अ. क्रि.	क्रोध, भय, शीत आदि से शरीर का रह-रह कर हिलना	कम्प्, वेप्	कंबणा	काँपना, लरज़ना	थरॅथरॅ-अर्चुन्य	कंबणु, डुकणु	कापणे, थरथरणे
कागज	पुं.	सन, बाँस, चीथड़े आदि की लुगदी से बना पत्र	कर्गदः	कागज	काग़ज़	काकज़	काग़ज़ु	कागज
काजल	पुं.	तेल, घी आदि के जलने से तैयार कालिख	कज्जलम्	कज्जल	काजल	कजुल	कजलु	काजळ
काट-छाँट	स्त्री.	फालतू अंश काट कर अलग करने की क्रिया या भाव	शोधनम्, संक्षेपणम्	कटवड्ढ, कांट-छांट	काँट-छाँट	च़टुॅ-वाठ	काट-कूट, कट-कूट	काट-छाट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कांति	आभा	कांति, प्रभा	कांति, शोभा, सौंद<u>र्य</u> (र्ज)	शोभा, सौंदर्य	अरङ्बा, मङाल	शोभा, सौंदर्य, सुंदर	कांति	ऍऴिल्	सौंदर्यम्	मैकांति
शोभा, सौंदर्य	सौंदर्य	शोभा, सौंद<u>र्य</u>	कांति, शोभा, सौंद<u>र्य</u> (र्ज)	शोभा, सौंदर्य	निङ्थिजबा	शोभा, सौंदर्य, कांति, सुंदर	सौंदर्यमु	ऍऴिल्	सौंदर्यम्	सौंदर्य
कांपवुं, कंपवुं, धूजवुं, थरथरवुं	थरथरप	काँप्नु, काम्नु, थरथराउनु	काँपा, कंपित-हओया	कँप, कँपा, कँपनि	निक्पा	कंपिबा, थरिबा	वणकुट	नडुंग	विर<u>ु</u>क्कुक	नडुकु
कागज, कागळ	कागद	कागत, कागज	कागज	कागज, काकत, तुलापात	चे	कागज	कागितमु	कागिदम्	कटलासुँ	कागद
काजल(ळ), मेश	काज़ळ	गाजल	काजल, अञ्जन	काजल, अंजन	काजोल	कला, काजल	काटुकँ	कण्मै	कण्मषि	काडिगे
कापकूप	कडसरावणी	काँटछाँट	काट-छाँट	काट-कुट	कक्थोक् कक्शिन्	काटछांट, काट कुट	सवरिंपु	अडित्तल् तिरुत्तल्	चॆत्तिमिनुक्कल्, वॆट्टिच्चुरुक्कल्	कत्तरिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
काटना	स.क्रि.	1. औजार या शस्त्र से किसी वस्तु के टुकड़े करना	✓कृत्, ✓छिद्, ✓खण्ड्	कट्टणा, वड्ढणा	काटना	चटुन	कपणु, कटणु	कापणे
		2. डंक या दाँत गड़ा कर घाव करना	✓दश्	वड्ढणा	काटना	चटुन	डुंगणु, चकु पाइणु	चावणे
		3. खंडन करना, गलत ठहराना	अस्वी +✓कृ, ✓खण्ड्	कट्टणा	तरदीद करना	चटुन	करणु, रद करणु	खंडन करणे, अमान्य करणे, रद्द करणे
काठ	पुं.	1. लकड़ी, काष्ठ	काष्ठम्	लकड़, लक्कड़, काठ	काठ	काठ-बाठ	काठु	लाकूड
		2. ईंधन	इन्धनम्	बालण	काठ	–	काठियूं (बारण जूं)	ईंधन, सरपण, जळण
काढ़ना	स.क्रि.	1. उकेरना, नक्कासी करना	उत् ✓कृ	कड्ढणा	काढ़ना	टोंपु कडनि	भर्तु भरणु	कशीदा काढणे
		2. किसी वस्तु के भीतर से कोई चीज बाहर निकालना	उत्‌ः✓कृष्	कड्ढणा	काढ़ना	कडुन	कढणु	काढ़णें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कापवुं	कापप	काट्नु	काटा	काट, छोआकर	कक्पा	काटिबा, छोट छोट खंड कटिबा	कांयुटॅ	वॅट्ट, तुण्डाक्क	कत्रिक्कुक, वॅट्टुक	कत्तरिसु
करडवुं	चाबप	डङ्क मार्नु, टोक्नु	हुल फुटान, कामड़ानो	दाँतेर-कामोर	चिक्पा	दंशन क़रिबा	कुट्टुटॅ	कडिक्क	कटिक्कुक	तुंडुमाडु
वखोडवुं, तोडी पाडवुं	रद्द करप, खंडन करप	खण्डन गर्नु	काटा, खण्डन करा	खण्डन-कर, अमान्य-कर	येत्पा	खंडन करिबा, अमान्य करिबा, अस्वीकार करिबा	खॅडिंचुटॅ	मरुक्क	खॅडिक्कुक	अळिकिसु, खंडिसु
काष्ठ	लाकूड	काठ, काष्ठ	काठ, काष्ठ	काठ	ऊ अकक्पा	काठ, काष्ठ	कर्रॅ	कट्टै, मरम्	मरं, तटि	उस्वलु
लाकडु बळतण	इंधन, जळव	इंधन, दाउरा	जवालानि, इंधन	खरि	ऊ शिङ्	काठ, जालेणि	वंटचॅरुकु	विरगु	विरकुॅ	कट्टिगॅ, सौदॅ
आलेखवुं, कशीदो करवो	नक्षीकाम, कंगरखीस (लाकूड) भरतकाम (कपडो)	कार्चोपी भर्नु, बेलबुट्टा हाल्नु, बतुभराइ	कारुकार्य करा	नीरस, कठुआ	लोन्बा	कारूकार्ज्य-करिबा	चॅक्कुटॅ	चित्तिर वेलैप्पाडु	कॉत्तुपणि	कसूति-हाकुवुदु
काढवुं	काडप	निकाल्नु, काढ्नु	बाहिर करा	नीरस, कठुआ	शत्तोक्पा, हंदोक्पा चिङथोक्पा	काढ़िबा, बाहार-करिबा	वॅलिकि तीयुटॅ	वॅळिये ऍडुक्क	पुरत्तॅटुक्कुक	तेगेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कातना	स.क्रि.	रूई, ऊन, रेशम आदि बट कर धागा बनाना	✓सूत्रय	कत्तणा	कातना	कतुन	कतणु	कातणे
काना	वि.	1. जिसकी एक आँख खराब या विकृत हो	काणः	काणा	काना	कोन	काणो	काणा, चकणा
		2. कीड़ा लगा फल, सब्जी	कीटाविद्ध	काणा	दाग़ी	दॉगी	दाग़ी, कीअँनि खाधलु (भाज़ी, मेवो वग़ैरह),	नासके
कानून	पुं.	1. राज्य नियम, विधि	विधिः	कनूंन	क़ानून	कोनून	क़ानून	कायदा, राजनियम, विधी
		2. सर्वमान्य नियम या रूढ़ियाँ	आचारः	काइदा	क़ाएदा	कोनून	नेमु	नियम वा रूढ़ी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कांतवुं	कांतप	काल्तु, धागो निकाल्नु	सुता काटा	पका, पाक दि कटा (सुता)	लङ् नाइबा	सुता काटिबा	वड्डुकुट	नूल् नूर्क्क	नूल्क्कुक	नूलुवुदु
काणुं	कुड्डो	कानो, एकआँखे	काना, अंध	कणा, एटा-चकुरे-नेदेखा	ममित् नामा ताङ्बा	कणा, एक बा-गोटे-आखिआ	एकाक्षि	ओरुकण् कुरुडान	ओट्ट-क्कण्णन्	ओक्कण्ण
सडेलुं	तेंचप	कानू	काना फल, पोकाय काटा फल	पोके खोबा, पोके बिंधा	तिल चारबा उहै	पोकलगा-(पोकरा) फल	पुच्चिन	पूच्चि कडित्त	पुळूक्कुत्तुळ्ळ	हुळुतिंद
कानून, कायदो	कायदो, राज्य नियम	कानुन, ऐन	आइन, कानुन	आइन, कानून	कानून, नियम	कानुन, आइन, नियम	चट्टमु	चट्टम्	नियमम्	कायदे
रिवाज, नियम	नियम	प्रथा, रुढि	रीति, प्रथा	नियम, नीति, रीति, आइन	चत्नबी	सर्वमान्य-नियम, रीति, प्रथा, नीति	आचारमु	समूह कट्टुप्पाडु	समूहय संप्रदायम्	नियम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
काफी	वि.	पर्याप्त, यथेष्ट	पर्याप्तम्, यथेष्टम्	काफी	काफ़ी	वरियाह	काफ़ी	पर्याप्त, यथेष्ट
काम	पुं.	1. कार्य, कृत्य	कृत्यम्	कम्म	काम	कॉम	कमु	कार्य, कृत्य
		2. धंधा, व्यापार, नौकरी	वृत्तिः	कम्म	धंधा	कॉम	–	धंदा, व्यापार, नोकरी
		3. इच्छा, अभिलाषा, कामना	अभिलाषा	कामना, इच्छा	ख़्वाहिश	कॉम	इछा, कामना	इच्छा, अभिलाषा, कामना
कामधेनु	स्त्री.	कामनाएँ पूरी करने वाली पुराण-प्रसिद्ध गाय	कामधेनुः	कामधेन	कामधेनू	कामदीन	कामधेनू	कामधेनु, सुरभी
कामना	स्त्री.	अभीष्ट, हार्दिक इच्छा	कामना	कामना	तमन्ना, आरज़ू	यछुन	कामना, इछा	कामना, इच्छा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूरतुं	पर्याप्त, जायतितलो	मनग्यु, प्रशस्त	पर्याप्त, यथेष्ट, प्रचुर	पर्याप्त, यथेष्ट	मतिक् चाना	जथेष्ट, पर्ज्याप्त	चालिनंतँ	पोदुमान	वेण्टत्र	साकष्टु, बहळष्टु
कर्म, कृत्य	कार्य	काम, कर्म	कार्य, काज (ज)	काम, कृत्य	थबक	कार्ज्य, कृत्य	पनि	वेलै	कार्यम्	केलस
व्यवसाय, धंधो, नोकर चाकरनुं काम	धंधो, व्यापार	कार्य, व्यापार, धंदा	काज, चाकरी	बृत्ति, चाकरि	शिन्फम	धंदा, बृत्ति, चाकिरि, कार्ज्य	उद्योगमु	तॉऴिल्, पणि	जोलि	कसबु, धंधे
इच्छा, वासना	कामना	इच्छा, चाहना	बासना, अभिलाष, कामना	कामना, इच्छा, अभिलाष	अनिङ.बा, अपांम्बा	इछा, अभिलाष, कामना	कोरिकँ	विरुप्पम्	आग्रहम्, कामन	बयके, इच्छे
कामधेनु	कामधेनु	कामधेनु सुरधेनु, सुरभि	कामधेनु, सुरभि	कामधेनु, सुरभि	कामधेनु	कामधेनु, सुरभि	कामधेनुवु	कामदेनु	कामधेनु	कामधेनु
कामना	हादीक	कामना, हार्दिक इच्छा	कामना, वासना, इच्छा	कामना, अभिलास, इच्छा	अनिङ्बा, अपांबा	अभीष्ट, इच्छा, कामना, अभिलाष	कोरिकँ, अभिलाषँ	आशै	अभिलाषम्	कोरिके, इच्छे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कामयाब	वि.	सफल	सफल	कामयाब	कामयाब	कामयाब	कामयाब	सफल, यशस्वी
कायम	वि.	स्थिर, पक्का, दृढ़	स्थिर, दृढ	काइम	क़ाइम	कॉयिम	काइम	कायम, स्थिर, पक्का, दृढ़
कायर	विं.	डरपोक	भीरु	डराकल, काइर	बुज़दिल	खोचु बुड	कांइरु	भित्रा, भेकड
कायाकल्प	पुं.	काया शुद्धि की क्रिया	कायाकल्पः	काइआकलप	काया पलट	कायाकलप	कायाकल्पु	कायापालट
कारखाना	पुं.	व्यापारिक दृष्टि से बड़ी मात्रा में वस्तु निर्माण की शाला	निर्माणी, शिल्पशाला	कारखाना	कारख़ाना	कारखानुॅ	कारखानो	कारखाना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कामयाब, कामियाब, कृतार्थ, सफळ	सफळ	सफल, कामयाब	सफल	सफल, फलवती	महै यान्बा	सफल, फलप्रद, कृतकार्य्य	सफलतँ-चँदिन	वॆट्ट्रि पॆट्ट्र	सफलन्	सफल, कृतार्थ
कायम	कायम	कायम, स्थिर, दृढ	कायेम, चिरस्थायी, पाका	स्थिर, पका, दृढ़	लेङ्दबा, अचेत्पा	स्थिर, पक्का, शक्त, सुदृढ़	स्थिरमयिनॅ	निलैयान	स्थिरमाय	कायम्, स्थिर
कायर	भितरो, भेंकडो	काथर, काँतर, डरछेरुवा	भीतु, भीरू, कापुरुष	भीरू, कापुरुष, निरुत्साह	पाङ्दबा, मीकिथी, मीचैल	कातर, भीरू, डरकुला, कापुरुष	पिरिकि	कोऴैयान, बयंद	भीरु	हेडि
कायापलट	कायापलट	कायाकल्प्	कायाकल्प	कायाकल्प	–	सुस्थ-अबस्था, सुस्थ, निरोग, आरोग्य	कायाकल्पमु	मुळु माट्ट्रम्	कायाकल्पम्, आमूल परिवर्तनम्	कायाकल्प
कारखानुं	कारखानो	कारखाना, औद्योगिक प्रतिष्ठान	कारखाना	कारखाना	कारखाना	कारखाना, शिल्पशाला	कार्खाना	पणिमनै, तॊऴिलगम्	तोऴिल् शाल, व्यवसायशाल, फैक्टरि	फ्याक्टरि, कार्खाने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कारण	पुं.	1. हेतु, उद्देश्य, प्रयोजन, वजह	कारणम्, हेतु	कारण, कारन	सबब, बाइस	हीथ, सबब	सबबु	हेतू, उद्देश्य, प्रयोजन
		2. प्रेरक घटना या परिस्थिति	कारणम्	कारण, कारन	वजह	वजह	कारणु	कारण, प्रेरक घटना किंवा परिस्थिती
कारतूस	पुं.	बंदूक, रिवाल्वर आदि में रखकर चलाई जाने वाली धातु, दफ्ती आदि की बनी हुई खोली, जिसमें धातु की गोली और बारूद भरा होता है	गुलिका	कारतूस	कारतूस	कारतूस	कारतूस	काडतूस
कारस्तानी (कारिस्तानी)	स्त्री.	1. हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कोई काम, चालबाजी	अपकृत्यम्	कारसतानी	कारस्तानी	कॉरिस्तॉनी	कारिस्तानी, चालाकी	कारस्थान
		2. करतूत	कुकर्मन्	–	–	–	–	चालाखी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हेतु, उद्देश्य	हेतु	हेतु, उद्देश्य, प्रयोजन	कारण, हेतु, उद्देश्य (न)	हेतु उद्देश्य, कारण	दमक, पांदम	कारण, हेतु, उद्देश्य	कारणमु	नोक्कम्	कारणम्	प्रयोजन, उद्देश्य
कारण	प्रेरक घटना	कारण	कारण, परिस्थिति (न)	प्रेरक घटना बा परिस्थिति, कारण	मरम	कारण, घटणा, परिस्थिति	कारणमु	कारणम्	कारणम्	कारण
कारतूस	कारतूश	टोटा, कार्तोस	कार्तुज, बंन्दुकेर टोटा	बंदुकर गुली	नोङ्मै मरु	गुलि, गुलि-संबंधीय	तूटा	तोट्टा	तोट्ट	गुंडु, सिडिमद्दि तोटे
कारस्तान	कारस्थानी	चालबाजि, षडयंत्र	कारसाजि, कारचुपि, चालबाजि, चालाकि	चालाकि, चलना	लौतुनबा	चालबाजि, चालाकि, ठकाबाजि, ठकामि, अनीति बा-दुनीति काम	कपटमु, पन्नागमु	चूदु	सूत्रम्, चातुर्यम्	पितूरि
करतूत	कूट	कर्तुत	अनुचित काज-कम्म	बेया-काम, अनुचित काम	चुंदबा थबक	अनुचित-काम, बेआइन-काम, अबैध काम	दुश्चेष्ट	कंट्ट नडवडिक्कै	अनावश्य प्रवृत्ति	धूर्ततन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कारावास	पुं.	बंदीगृह में रहने का दंड	कारागार:, कारागृहम्	कैद	क़ैद, हब्स	जेल	जेल, जेल में रहण जी सज़ा	कारावास, तुंरूग
कारीगर	पुं.	रचना या मरम्मत करने वाला	शिल्पी	कारीगर	कारीगर	कॉर्यगर	कारीगरु	कारीगीर
कार्य	पुं.	काम	कार्यम्	कारज	काम	कॉम	कमु, कार्यु	कार्य, काम
कार्यकर्ता	पुं.	काम करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी	कर्मकर:, कार्यकर्ता	कारजकरता	कारकुन	कॉम करन वोल	कार्यकर्ता, कमकंदड़ु कर्मचारी	कार्यकर्त्ता, कर्मचारी
कार्य-कारिणी	स्त्री.	संस्था आदि का कार्य चलाने वाली समिति	कार्यसमितिः	कारजकारनी	आमिला	इंतिज़ॉमी कमीटी	कारोबारी कामेटी	कार्यकारिणी
कार्यक्रम	पुं.	1. कार्य संपादन विवरणिका	कार्यक्रमः	कारजकरम, प्रोगराम	प्रोग्राम, लाएहए अमल	प्रोग्राम	कार्यक्रमु	कार्यक्रम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कारावास	बंदखण, जयल	कारावास	काराबास	काराबास, कारादण्ड, बंदीशाल	कैसुमशङ्	काराबास, कारादंड	कैदु	चिरै वासम्	तटवुशिक्ष	कैदु
कारीगर	कारागीर	कालिगड, कारिगर	कारिगर	कारिकर, कारु, शिल्पी	शिल्पी, ऊदा नुङ्दा हक्लगा शारिबा मी (आर्टीस्ट)	कारिगर, श्रमशिल्पी, हस्तशिल्पी	पनिवाडु	सिर्पि, तॉळिल- तिरमैवाय्न्दवन्	तॉळिलाळि शिल्पि	शिल्पि
कार्य	काम	काम, काज, कार्य	कार्य (र्ज), काज, कर्म	कार्य, काम	थबक	कार्ज्य, काम	कार्यमु, पनि	वेलै	कार्यम्	केलस
कार्यकर्ता (र्त्ता), काम करनार	कार्यकर्तो, कर्मचारी	कार्यकर्ता, कर्मचारी, श्रमिक	कर्मी, कर्मचारी	कार्यकर्ता, कर्ता, कर्मचारी	थबक लौबा मी	कार्ज्यकर्ता, कर्ता, कर्मचारी	कार्यकर्त्त, उद्योगि	अलुवलर्	प्रवर्तकन्, उद्योगस्थन्	केलसगार, कर्मचारी, कार्यकर्ता
व्यव- स्थापक समिति, कार्यवाहक सभा	कार्यकारिणी	कार्यकारिणी, कार्यसमिति	कार्यकारिणी, कर्मसमिति (ज) (न)	कार्यनिर्बाह कमिटी, कार्यपालिका	संस्था पुननबा खल्लबा मीओइ, समिति	कार्ज्यनिर्बाह, कार्ज्यकारी, कार्ज्यकारिणी, ब्यवस्थापक समिति, कार्ज्यपालिका	कार्य- निर्वाहिकॆ	चंयर् कुळु	प्रवर्तक समिति, निर्वाहक समिति	निर्वाहक, कार्यकारिणी
कार्यक्रम	कार्यक्रम	कार्यक्रम, कार्यसूची	कार्यक्रम, कार्यसूचि (ज)	कार्यक्रम, कार्यसूची	थौरम परेङ	कार्ज्यक्रम, कार्ज्यसूची	कार्यक्रममु	निगळ्चि निरल्	कार्यपरिपाटि	कार्यक्रम- पट्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उक्त सूची के अनुसार होने वाला कार्य	कार्यक्रमः	–	–	–	–	कार्यक्रम
कार्य-पालिका	स्त्री.	नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाला शासकीय विभाग	कार्यपालिका	कारज पालका	आमिला, मुंतजिमा	मुनतॅज़ॉमियि कमीटी	कारोबारी सभा, कार्यपालिका	कार्यपालिका
कार्यवाही	स्त्री.	कृत कार्य का विस्तार से उल्लेख	विवरणम्	कारवाई	कार्रवाई	कारवॉयी	कारिवाई/ कार्रवाई	कार्रवाई, कार्यवाही
कार्यालय	पुं.	दफ़्तर	कार्यालयः	दफ़तर	दफ़्तर	दफतर	आफ़ीस, दफ़्तर, कार्यालय	कार्यालय
काल	पुं.	1. समय	कालः	काल	ज़माना	समय, वखुॅत	वक़्तु, कालु	काळ, समय
		2. मौत, मृत्यु	मृत्युः	काल	काल, मौत	काल	कालु, मौतु	मृत्यू, अंत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ए प्रमाणे थनारूं कार्य	कार्यावळ	कार्यक्रम	कार्यक्रम (ज)	कार्यसूचीर विषय	थौरम परेङ्गी मतुङ् इन्ना तौरिबा थबक	कार्य्यक्रम, कार्य्यसूची	कार्यक्रममु	निगळ्चि निरल्	कार्यपरिपाटि	कार्यक्रम
कारोबारी समिति	कार्यपालिका	कार्यपालिका	कर्मसमिति	कार्यपालिका	एक्जेक्टिव, मरु ओइबा खङ्गत्लबा मीओइ	कार्य्यपालिका, कार्य्यकारी-कमिटि	कार्यपालिकँ	चंयलाट्चि-त्तुरै	एक्सिक्यूटीवॅ	आडळितवर्ग
कार्यवाही	कार्यवाय	कारबाही, कारबाई	प्रतिबिधानिक ब्यबस्था	ब्यवस्था, क्रिया, कारवाही	थबक चत्थनबा, थबक ओइनबा	कार्य्यबाही, कार्य्यकारी	कारुबरु, चर्य	नडवडिक्कै	नटपटि	कार्यकलाप
कार्यालय, ऑफिस, कचेरी	कचेरी	अड्डा, कार्यालय, आफिस	दप्तर, आफिस, कार्यालय (ज)	कार्यालय, दफतर	ऑफिस	कार्य्यालय, दप्तर	कार्यालयमु	अलुवलगम्	कार्यालयम्, आप्पीसॅ	कचेरि, कार्यालय
काल	समय, वेळ	समय, काल	काल, समय	समय, काल	मतम	काल, समय	कालमु	नेरम्	कालम्, समयम्	समय, काल
मोत, नाश	मरण	मृत्यु	काल, मृत्यु	मृत्यु, मरण	शिबा	मृत्यु, मरण	चावु, मृत्युवु	मरणम्, चावु	कालम्, मरणम्	सावु, मृत्यु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. क्रियाओं से सूचित वह तत्व, जिससे किसी घटना या बात के घटित होने का समय ज्ञात होता है	कालः	काल	वक़्त	–	वक्तु, अर्सो	काल, केळ
काला	वि.	1. जो काजल के रंग का हो, कृष्ण, श्याम	कृष्ण	काला	काला	क्रुहुन	कारो	काळा
		2. जिसमें प्रकाश न हो, अंधकारपूर्ण	तिमिरावृत	काला	तारीक	–	ऊंदाहो	अंधकार पूर्ण
		3. अनुचित, कलंकित, लांछित	कलङ्कित	–	–	–	अनुचित	–
काला बाजार	पुं.	कानून-विरोधी व्यापार	अवैध-व्यापारः	काला बजार, काला धँदा	काला बाज़ार	चूरुँ-बापार	ब्लैक मार्केट, कारी बाज़ार, अज़ोग वापारु	काळा बाजार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वेळा	काळ	बेला, बखत	क्रियाकाल, क्रियानुष्ठान काल- ज्ञापक धातु रूप	क्रियार काल, धातुर रूप	थबक तौबगी मतम खङ्हन्बा टेन्स	समयज्ञान- सूचक- तत्त्व, क्रियार काल (व्याकरण)	कालमु	कालम्	कालम् (वर्तमान कालम् मुतलायव)	काल
काळुं	काळो	कालो	कालो रङ, कृष्ण बर्ण, श्यामल (न)	कला, कला- बरणर	अमुबा	कला, श्यामल	नलुपु	करुप्पान	करुत्त	कप्पु, करी
अंधकार- पूर्ण	काळोख	अँध्यारो, अंधकार- पूर्ण	कालो, तमिस्र, तमसा	एंधार, अंधकार	अमंबा	अंधकारपूर्ण, तमसाच्छन्न	प्रकाश हीनमु	इरुट्टान	प्रकाशम् इरुण्ट	कत्तले
अंधकार- पूर्ण	कलंक	अनुचित, कलङ्कित लाञ्छित	अनुचित, लाञ्छित, कलंकित	दागी कलंकित, दुर्नामी	चुम्दबा, दोष लैबा	–	अनुचितमैन	–	–	कळंकित
काळा बजार	काळोबाजार	कालोबजार, चोरबजार	कालो बाजार, चोरा कारबार, ब्लैकमार्केट	काला- बाजार, ब्लैक मार्केट	चुम्दबा, दोष लैबा	कलाबजार, कानुन- बिरोधि- बजार	दॉंग व्यापारमु	करुप्पु चंदै	कळ्ळ- क्कंपोळम्	काळसंते

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कालीन	पुं.	मोटा-बिछावन, गलीचा	कुथास्तरणम्, और्णास्तरण	कलीन, कालीन	क़ालीन	कॉलीनुं	ग़ालीचो	गालीचा
	वि.	काल विशेष से संबंधित	कालिक	–	ज़मानी	वखतुक	काल जो, वक़्त जो	कालीन, त्या काळचा
काल्पनिक	वि.	मनगढ़ंत, कल्पित	काल्पनिक	कालपनिक	ख़याली, फ़र्ज़ी	खयॉली	मन-घड़ति, ख़याली, काल्पनिक	काल्पनिक, कल्पित
काव्य	पुं.	साहित्यिक रचना	काव्यम्	कावि	नज़्म (कलाम)	शॉयरी	काव्य, कविता, शइर	काव्य
काश्तकार	पुं.	किसान, खेतिहर	कृषकः	वाहीवान, काशतकार	काश्तकार	काशकार	हारी, किसानु	शेतकारी
किताब	स्त्री.	पुस्तक	ग्रन्थः	किताब	किताब	किताब	किताबु	पुस्तक, ग्रंथ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गालीचो	गालीचो	गलैँचा	गालिचा, कार्पेट	दलिछा, कार्पेट	गलीचा, फीदा	गालिचा, दरि, सतरंजि	तिवाची	विरिप्पु (जम-वकाळम्/ कंवळि)	कार्पेट्, परवतानि	रत्नगंबळि
काळनुं के ते संबंधी	काळाचो	कालीन, कालिक	कालीन	कालीन	कालीन-फीदा	कालविशेष सहित, संबंधित कालीन	कालिकमु	कालत्तिय	कालत्तिलुळ्ळ, कालीनम्	कालद
काल्पनिक, कल्पेलुं	कल्पित, काल्पनिक	कल्पित, काल्पुनिक, बनावटी	काल्पनिक, कल्पना-प्रसूत, काल्पनिक, मनगड़ा	कल्पना-प्रसूत, मने गंढ़ा, काल्पनिक	भावना शाबा	कल्पित, काल्पनिक, मनगढा	कल्पितमु	कर्पनै-सॅय्यप्पट्ट	ऊहाधिष्ठितम्, काल्पनिकम्	कल्पित, कल्पनेय
काव्य	काव्य	काव्यु	काब्य	काव्य, पद-साहित्य	शैरेङ्	काव्य, कबिता	काव्यमु	काप्पियम्	काव्यम्	काव्य, पद्य
किसान, खेडूत	शेतकरी, शेतकामती	किसान, खेतीवाल	चाषा, चाषी, कृषिजीवी	कृषक, खेतियक	लौमी, लौ उबा मी	कृषक, चाषी, चषा, कृषिजीबी	रैतु	कुडियानवन्	कर्षकन्	रैत, कृषिक
किताब, पुस्तक, चोपड़ी	पुस्तक, ग्रंथ	किताप, किताब, ग्रंथु	बइ, ग्रंथ, पुस्तक	किताप, ग्रंथ	लाइरिक्	पुस्तक, ग्रंथ, बहि	पुस्तकमु	पुत्तगम्	ग्रंथम्, पुस्तकम्	पुस्तक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
किनारा	पुं.	1. अंतिम छोर, सिरा	कूलम्	कंढा, किनारा	किनारा	बोंठ	सिरो, छेड़ो, किनारो	टोक
		2. नदी या समुद्र का छोर, तट	तीरम्	कंढा, किनारा	किनारा	बोंठ	किनारो	किनारा
किफायत	स्त्री.	अनावश्यक व्यय में कटौती	मितम्	किरस, सरफा	किफ़ायत	किफायत	किफायत, सर्फो	बचत
किरकिरा	वि.	महीन कंकड़, बालू आदि से युक्त वस्तु	शार्करिल, सिकतिल	किरकिरा	किरकिरा	बद्मजुंगी	किर्किरो	रेताळ
किराना	पुं.	पंसारी की दुकान में मिलने वाला सामान	क्रेयान्नम्	किरिआना	किराना	किरियानुँ	पसारु, किर्यानो	किराणा
किराया	पुं.	1. भाड़ा	भाटक:	किराइआ	किराया	किराय	भाड़ो	भाडें
		2. अचल संपत्ति के उपयोग के बदले में देय धन	–	किराइआ	किराया	किराय	मसुवाड़	भाडे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
किनारो, कोर	तोक	किनार	धार, किनारा	काष, तट, किनार, दाँती	मपाल	किनारा, धार, पार्श्व	अंचु	ओरम्	कर, ओरम्	तुदि, कोने
कांठो, तट	कांठ	तट, किनार	कूल, किनारा, तीर, तट	कूल, पार	तोरबान	कूल, तट, किनारा, तीर, पार	ओड्डु	करै	तीरम्, तटम्	दड
किफायत	बचत	फारो, किफायत, बचत	किफायत, मितब्ययिता	मिताचार, मितब्यय	लिक्ना शिजिन्नबा, खाक्पा	मित-ब्ययिता, मितब्यय, अल्पखर्च	पांदुपु	चिक्कनम्	चिलवुचुरु-क्कल्	मितव्यय, उळिताय
कर-करवाळुं	करकर	किरकिरे	किरकिर, करकर, काँकर अथबा बालियुक्त (ज)	खेचखेचीया, खिंखिङिया	अकेङ्बा	कंकर, बालिआ-पथर	किरकिर	मणल् कलंद	करटुं	हरळुवुळ्ळ
करियाणुं	भूसारी	किराना	तैजस पत्र, मशलादि, बिक्रय होये गेछे एमोन बस्तु	गेलामाल	दुकांदार फङ्बा चेङ् हवाइ, मरु-मराङ्	भुसामाल-दोकान, मौलिक-खाद्य बिक्रय केंद्र	चिल्लर-सरुकुलु, किराना	मळिगै सामान्	पल व्यंजनम्	किराणि
भाडुं	भाडे	भाडा, किराया	भाड़ा	केरेया, भारा	भाड़ा	भडा	बाडुग	वाडगै	वाटक	बाडिगे
भाडुं	खांडाचे पयशे	बहाल	भाड़ा	केरेया, भारा	वाइरूबगी, लैरुबगी, तोंङ्बगी-दमक पीबा ममल	सुध	बाडुग	कुडक्कूलि	वाटक	बाडिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
किरायेदार (किराएदार)	पुं.	अचल संपत्ति किराए पर लेने वाला व्यक्ति	भाटकवासी	किराएदार	किराएदार	किरायिदार	मसुवाड़ी	भाडेकरू
किलकारी	स्त्री.	बच्चे की हर्ष-ध्वनि	कलरवः, रवः	किलकारी	क़िलक़ारी	बोल-बोश	किलकारी (ब़ारनि जो खुशीअ जो आवाज़ु)	लहान मुलाचा ध्वनी
किला	पुं.	दुर्ग, गढ़	दुर्गः, कोटः	किला	क़िला (क़लआ)	किलुॅ	किलो	किल्ला, गड
किवाड़	पुं.	दरवाजे का पल्ला, कपाट	द्वारम्, कपाटम्	किवाड़, भिंत्त, बार	किवाड़	दरवाजुॅ पॉट	ताकु, कपाटु, दरु	दाराची फळी
किशोर	वि.	ग्यारह से पंद्रह वर्ष तक की अवस्था का बालक	किशोरः	गभ्भरेट, किशोर	कमसिन, नौ उम्र	लडकुॅ	किशोरु	किशोर
किसान	पुं.	कृषक	कृषीवलः, कृषाणः	किरसाण	किसान	ग्रूस	किसानु, हारी	शेतकरी, कृषक
किस्त	स्त्री.	निश्चित समय पर दिए जाने वाले ऋण का एक भाग	ऋणभागः, ऋणांशः	किशत	क़िस्त	कुॅस्त	क़िस्त	हप्ता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भाडूत, भाडुआत	भाडोत्री	भाडावाल, किरायादार	भाड़ाटिया, भाड़ाटे	भारातीया	भाड़ा पीबा मीओइ	भड़ाटिआ	अद्दॅवाडु	वाडकै क्कारन्	वाटकक्कारन्	बाडिगेयव
किलकारी	हांशे	खित्का, बच्चाहरुको हँसाइ	शिशुदेर हर्षध्वनि	खिखिनि, लोरा- छोवालीर हर्षोल्लास	हराओना खे-खे नोक्पा (अङाङ्ना)	पिलांक, हर्षध्वनि, हर्षोल्लास	किलकिलॅ नव्वु	कुम्माळम्	किलुकिलारवं	केके
किल्लो	किल्लो	किल्ला, गढ	केल्ला, दुर्गो (दुर्ग)	किल्ला, दुर्ग, कोंठ	लान्बन्	दुर्ग, गड़	कोटॅ	कोट्टै	कोट्ट, दुर्गम्	कोटे
कमाड, बारणुं	कवड, दाराची फळी	खापा, ढोका, दैलो	कपाट, दरजा	दुवारर, पाल्ला, कपाट	थोङ्ना	कबाट	तलुपु	कदवु	कतकुॅ	कद
किशोर	किशोर	किशोर, अवयस्क	किशोर	किशोर, चेमनीया	इन्खत्लक्पा नुपामचा	किशोर, जुबक (युबक), तरुण	किशोरुडु	विडलै, 11 वयदुक्कु- मेल 15 वयदुक्कुट्पट्ट पैयन्	किशोरन्	किशोर, बालक
किसान, खेडूत	शेत- कामती, शेतकार	किसान, खेतीवाल	कृषक, चाषी, चाषा	कृषक, खेतियक	लौमी, लौ ऊबा मी	कृषक, चाषी, चषा	रैतु	कुडियानवन्	कर्षकन्	रैत, कृषिक
किस्त, कांधु	हाप्तो	किस्ता	किस्ति, भाग, अंश	किस्ति, भाग, अंश	इनस्टालमैट, ताङ्कक् नाइना पीबा	किस्ति, अंश, भाग	किस्तु, कंतु	तवणैप्पणम्	किस्त्, तवण, गड्ड	कंतु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
किस्म	स्त्री.	प्रकार	प्रकारः, भेदः	किसम	क़िस्म	कुँसुँम	किसिम	प्रकार
किस्सा	पुं.	कहानी	वृत्तान्तः, आख्यायिका, कथा	किस्सा	क़िस्सा	कुँसुँ	क़िसो	किस्सा, गोष्ट, कहाणी
कीचड़	पुं.	पानी मिली धूल, पंक, कर्दम	पङ्कः, कर्दमः	चिक्कड़	कीचड़	रब	गप, चिक	चिखल
कीट	पुं.	कीड़ा	कीटः	कीड़ा, कीट	कीड़ा, किर्म	क्योंम	कीड़ो, जीतु	किडा
कीटाणु	पुं.	1. बहुत छोटे-छोटे कीड़े	कृमिः	किरम, जरासीम	जरासीम	केंम्य-क्रील, जरॉसीम	जीविड़ा	जंतु
		2. सूक्ष्म कीट, विषाणु	कृमिः	–	–	–	–	रोगजंतू
कीड़ा	पुं.	उड़ने या रेंगने वाला छोटा जंतु, कीट	कृमिः	कीड़ा	कीड़ा	क्योंम	कीड़ो	किडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रकार	प्रकार	किसिम, थरी	प्रकार, रकम	प्रकार, बिध	मखल, गुण, धर्म	प्रकार	रकमु	मादिरि, विदम्	तरम्	जाति, प्रकारद
किस्सो	वृत्तांत	कथा, वृत्तांतु	काहिनी, गल्प	काहिनी, आख्यान, बृत्तांत	वारी, थौदोक-वाथोक् की वारी	काहाणी, गल्प, बृतांत	कथ, वृत्तांतमु	कदै वरलारु	कथ	कर्त
कीचड	चिखल	हिलो, पङ्क	कादा, पाँक	बोका	लैखोम, लैनाङ्	कादुअ, पंक	बुरद, अडुसु	सगदि, चेरु	चेळि	केसरु, कॉच्चे
कीट, कीडो	किडो	किरो, कीट	कीट, कीड़ा, पोका	कीट, पोक	तील-काङ्	कीट, पोक	पुरुगु	पूच्चि	कीटम्, पुळु	हुळु
कीटाणुं	बारीक जीव	कीटाणु	कीटाणु	कीटाणु	महिक्	कीटाणु	क्रिमि कीटकालु	पूच्चि-पॉट्टु	कीटाणु	कीट
रोगना कीटाणुं	जंतू	रोगाणु	रोगेर कीटाणु (न)	बीजाणु	लांइना पुबा महिक्	बीजाणु	रोगाणुवुलु	उयिरणु	रोगाणु	क्रिमि
कीडो	किडो	कीरो, किरी	कीट, कीड़ा, पोका	कीट, पोक	तील-काङ्	पोक	पुरुगु	पुळु, पूच्चि	पुळु	हुळु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कीमत	स्त्री.	1. दाम, मूल्य	मूल्यम्	मुल्ल, कीमत	क़ीमत	कूँमथ	क़ीमत	किंमत, मूल्य, दाम
		2. महत्व	मूल्यम्	मुल्ल	अहमियत	–	अहमियत, मुल्ह	महत्वपूर्ण
कीमती	वि.	1. अधिक कीमत या मूल्य का, मूल्यवान	बहुमूल्यम्	कीमती	क़ीमती	कूँमती	क़ीमती, मुल्हाइतो	बहुमूल्य
		2. महत्वपूर्ण	बहुमूल्यम्	बहुमुल्ला	अहम	–	अहमियत-भर्यो	महत्वपूर्ण
कीर्ति	स्त्री.	यश, ख्याति	कीर्तिः, यशस्	जस, सोभा, कीरती	शुहरत, शोहरत	मशूरी	जसु, नामूस, कीर्ती	कीर्ती, यश, ख्याती
कुंज	पुं.	झाड़ियों, लताओं के समूह	कुञ्जम्	कुंज	कुंज	पोशि वॉर	कुंजु, वलियुनि सां ढकियल जगह	लताकुंज
कुंजी	स्त्री.	1. चाबी, ताली	ताली, कुञ्चिका	कुंजी	कुंजी	कुंज़	कुंजी, चाबी	किल्ली
		2. कठिन पुस्तक के अर्थ स्पष्ट करने वाली पुस्तक	साहाय्य पुस्तकम्, टीका	कुंजी	शरह, किलीद	कुंज़	सूंहों, कुंजी	सहायक पुस्तक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
किंमत	मोल	दाम, मोल	दाम, मूल्य	दाम, मूल्य	ममल	दाम, मूल्य	विलुवॅ, खरीदु	विलै	विल	बेले
कदर, बूज, लेखुं	महत्व	किम्मत, महत्<u>व</u>	महत्व	महत्त्व, गुरुत्व, मूल्य	ममल	महत्त्व, मूल्य	विलुवॅ	मदिप्पु	विल मतिप्पुॅ	महत्व
कीमती, मूल्यवान	म्हारग, मोलादीक	किम्मती, दामी	बहुमूल्य, मूल्यबान्, दामी	मूल्यवान्, दामी	अताङ्बा	मूल्यबान, दामिका	खरीदयिनॅ	विलैयुयर्द	विलयेरि्य	दुबारि, बेलेयुळ्ळ
अगत्यनुं	महत्वपूर्ण	महत्<u>वपूर्ण</u>	महत्वपू<u>र्ण</u>	गुरुत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण	ममल नाइदबा	महत्वपूर्ण	विलुवैनॅ	मदिप्पुळ्ळ	प्रधानप्प्ट्ट	महत्वपूर्ण
कीर्ति	किर्ती	कीर्ति, <u>ज</u>स	कीर्ति, <u>य</u>श, ख्याति (ज)	यश, कीर्ति, ख्याति	मिङ्चत्	कीर्त्ति, ख्याति, सुनाम	कीर्ति	कीर्ति, पुगळ्, पॅरुमै	कीर्ति	कीर्ति
कुंज	कुंज	कुञ्<u>ज</u>, लतागृह	कुञ्ज	कुंजबन	उरि-वारिना कोइशिन्बा मफम	कुंज, लता-कुंज	पॉदरिल्लु	शोलै, कॉडिप्पंदल्	निकुंजं-वळ्ळिक्कुटिल्	कुंज
कूंची	चावी	साँचो	चाबि काठि	तलार चाबि	शो, चाबी	कंची, चाबी	ताळपुचॅवि	चावि	ताक्कोल	बीगदकै
गाईड	सहायक पुस्तक	सहायक पुस्तक, कुञ्जी	टीका, नोटबइ	सहायक पुथि, हात-पुथि	नोट	माने बहि	टीका	कैयेडु वऴिकाट्टि	पठनसहायि, गैडुॅ	कैपिडि, मार्गदर्शि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुंभ	पुं.	1. धातु, मिट्टी आदि का पात्र, घड़ा, कलश	कुम्भः	कुंभ, घड़ा	घड़ा	मठ, नॉट	दिलो, घड़ो	कुंभ, कलश
		2. ज्योतिष में ग्यारहवीं राशि	कुम्भः	कुंभ	दल्व	कोंम्ब	कुंभु	कुंभ राशी
		3. प्रति बारहवें वर्ष मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पर्व	कुम्भः	कुंभ	कुँभ	कोंम्ब	कुंभु	कुंभ (मेळो)
कुकर्म	पुं.	बुरा काम, निंदनीय कर्म	कुकर्मन्	कुकरम	फ़ेले-बद	कोंकरुँम	कुकर्मु	कुकर्म वाईट काम, निंदनीयकर्म
कुचक्र	पुं.	हानि पहुँचाने के लिए बनाई गई योजना, साजिश	कुचक्रम्	कुचक्कर	साज़बाज़, साज़िश	कोंच़खुॅर, सॉज़िश	मन्सूबो	कुचक्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कुंभ, घडो	कुंभ, कळश	कलश, गाग्रो	कुंभराशि, कुंभमेला	कलह, कुंभ, हातिरकूम	चफू	कुंभ, माठिआ, घट, कलश	कुंडॅ	पानै	कुटम्	कोड, कोडपान
एक राशि	कुंभ राशी	कुंभ राशि	कुंभ राशि	कुंभ-राशि	कुंभ राशि	ज्योतिष-शास्त्रे-एकादश-राशि, कुंभराशि	कुंभॅ राशि	कुंब राशि	कुंभं	कुंभ राशि
कुंभ (मेळो)	कुंभ मेळो	कुंभ पर्व, मेला	कुंभयोग (ज)	कुंभ मेला	कुंभ	कुंभ मेला	पुष्करमु	कुंब मेला	कुंभ मेळ	कुंभ-मेळ
कुकर्म	कुकर्म	कुकर्म, दुष्कर्म	कुकर्म, दुष्कर्म	कुकर्म बेयाकाम	फत्तबा थबक, निनंदा तौनिंङाइ ओइबा थबक	कुकर्म, अपकर्म	कुकर्मे, दुष्कृत्यमु	कॅट्ट चॅयळ्	दुष्कर्म	कुकर्म
कावतरूं	कुचक्र	कुचक्र	कुचक्र, चक्रांत	कुचक्र, चक्रांत	कनागुंबबु फत्तबा, माङहन्ना शिनबा लाङ्	खरापकाम, दुष्कर्म	कुट्र	सूळ्च्चि	गूढालोचन	आंळसंचु, कुचक्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुचलना	स. क्रि.	1. व्यक्ति या वस्तु को पैर से रौंदना	रन्धम्	कुचलणा	कुचलना	लतुँमोंड-करुँन्य	चीभाटणु	चिरडणे
		2. आघात, प्रहार से दबाना	पादेन आ+हन्, पादेन/मर्दय्	–	–	लतुँमोंड-करुँन्य	चीभाटणु	चिरडणे
कुछ	वि.	अल्प, कम, थोड़ा-सा	किञ्चित्, अल्प	कुझ, कुछ	कुछ	केंह	कुछ, कुझ	थोडे
	क्रि. वि.	अज्ञात, अनिर्दिष्ट या अनिश्चित परिमाण, मात्रा या रूप	किञ्चित्	बहुत थोडा, जरा जिहा	कुछ	केंह	–	किंचित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कचडवुं	चेंचावप	पिँद्नु, पिँध्नु, पिन्नु	पेषा, गुँडीकरा	पिँह	नेत्खाइबा	षडजंत्र, चक्रांत	दंचुट, कालरायुट	नशुक्क	नशिप्पिच्चु- कळयुक	हिसुकु, तुळि
चगदवुं, कूटो करवो	धपके घालप	कुल्चनु	आघात, प्रहारादिर दवारा जखमकरा अथबा थेँतलानौ	प्रहार करि, पिहा वा गुरि करा	तक्खाइबा, चप्खाइबा	दलिबा, आघात-करिबा, पिटिबा, प्रहार-करि, आहत करिबा	अणगदोक्कुट	नेरुक्क	मर्दिच्चवशना-क्कुक	जज्जु
थोडुं	थोडे, कमी	केही, थोरै, अलिकति	किछु, किञ्चित, अल्प कम, इषत्	अलप, ताकर कम	खरा, खरादङ्	किछि, किंचित	कोन्नि, कोंति	कोंजम्, चिल	कुरच्चुं, अल्पं	केलवु, स्वल्प
केटलुंक	–	अज्ञात, अनिर्दिष्ट वस्तु वा कुरा	ये कोनो परिमाण सामान्य बस्तु	यि कोनो (परिमाण)	खरा	अनिर्दिष्ट- परिमाणेरे	एदो, ऍन्नो, एवो	कोंजम्, चिल	कुरच्चुं	स्वल्प

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	सर्व.	कोई अज्ञात अनिर्दिष्ट या अनिश्चित वस्तु या बात	किम्+चित्	–	कुछ	केंह	–	काही
कुटिया	स्त्री.	घास-फूस की बनी झोंपड़ी, कुटी	उटजः, कुटीरः	कुटीआ	कुटिया	कुटिया, जोम्फ़ुर	झूपिड़ी	झोपडी
कुटिल	वि.	1. टेढ़ा	कुटिल, वक्र	कुटिल	कज (टेढ़ा)	कोंट्यल	ड़िंगो	कुटिल बाईट, वाकडा
		2. मन में छल, कपट, द्वेष आदि रखने वाला कपटी, दुष्ट	कुटिल	–	कजतबबा	–	कपटी, चालाक, हिर्फ़ती	कपटी, दुष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
काईक, कशुंक	कितेंय	कुनै अज्ञात अनिश्चित कुरा	सामान्य	किबा	खरा	अज्ञात, अजणा, अनिर्दिष्ट बस्तु वा-कथा	एदो	एदो चिल	एतो	एनो
कुटि, कुटिर, झूंपडी	खोपी	झुपडी, छाप्रो	कुड़े घर	कुटिर, जुपुटीघर	खाङ्पोक्शङ्	कुटीर, झुंपुड़ि, कुड़िआ	गुडिसॆ	कुडिशै	कुटिल्	गुडिसलु
कुटिल, वांकु	वाकडें	टेढो, बाङ्गो	कुटिल, बाँका, कपट, छलना	टैंरा, बेकाँ, कुटिल, कुचक्री	खोइबा	बंका, बक्र	वंकरयिन	कोणलान, वळैंद	वळञ्ज, वक्रमाय	वक्र, सोट्ट
छळवाळुं, कपटी	कपटी, दुष्ट, कुन्नाटो	कपटी, दुष्ट	कुटिल	कुटिल, कपटीया, कुचक्री	पुक्चेल खोइबा मबुक् फत्तबा	कपटी, दुष्ट, खल	कपटि	वंचगमान	दुष्टन्, कपटशालि	कपटि, कुटिल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुटीर-उद्योग	पुं.	घरेलू स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन	कुटीर-उद्योगः, हस्तोद्योगः	घरेलू दस्तकारी, घरेलू उदिओग	घरेलू सनअत (काटेज इंडस्ट्रीज़)	लोंकुट गरेलू सनत	घरू हुनर	कुटीर उद्योग/ गृहोद्योग
कुटुंब	पुं.	परिवार	कुटुम्बः, कुटुम्बम्	टब्बर, कुटंब	कुंबा, ख़ानदान	कोटंब, अयाल	कुटुंबु	कुटुंब
कुढ़ना	अ. क्रि.	मन ही मन दुखी और विकल होना	√क्षुभ्, अन्तः परि√तम्	कुढ़ना	कुढ़ना	बेंज़ार	खफ़े थियणु, बेज़ार थियणु	कुढणे
कुतरना	स. क्रि.	दाँत से छोटे-छोटे टुकड़े करना	दन्तैः +खण्ड्	कुतरणा	कुतरना	त्रुकुन, ब्रकुन	कुतिरणु	कुरतडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कुटीर-उद्योग, गृहउद्योग	गृह उद्योग	कुटीर उद्योग, घरेलु उद्योग	कुटीर-शिल्प (कुटिर)	कुटीर-शिल्प	कोटिज इंडस्ट्रीज, युमदा शुबा याबा थबक तौदुना शेंदाल लंबी ओइबा	कुटीर-शिल्प	कुटीर परिश्रमे	कुडिसै-तॊळिल्	कुटिल् व्यवसायम्	गृह कैगारिके
कुटुंब, परिवार	कुटुंब, घराबो	घर परिवार, नातागोता	कुटुंब, कुटुम	कुटुम, संपर्कीय, जाँति मितिर	इमुङ् मनुङ्	कुटुंब, परिबार	कुटुंबमु	कुडुंबम्	कुटुंबम्	कुटुंब
कढवुं, बळापो करवो	शिंवशिंवप	कुँडिनु, विकल हुनु, चित्त दुख्नु	बिरक्त हओआ	संतप्त होवा, विकळ होवा	थमोइनुङदादि वाबा अमाइ लाङतकनबा	घारिबा, बिकलहेबा, दु:ख, रोष करिबा	कुमिलिपोवु	वॆरुप्पु कोळ्ळ	मनस्सुरुकुक	संकटपडु
दांतथी कापवुं	कुरतडप	दाँतले कोतर्नु, टोकेर् टुक्रा-टुक्रा पार्नु	दाँत दिया कुटि कुटि करे काटा	कुटा (दाँतेरे)	मकुप ताना चिक्थत्पा	दांतरे-टुकड़ा-करिबा, दांतरे-छिंड़ाइबा	कॊरुकुट	कडित्तुक्कुदर	कटिच्चु-पॊट्टिक्कुक	कच्चुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुतूहल	पुं.	1. जिज्ञासा	कुतूहल	उतसुकता, जगिआसा	तजस्सुस	खोव, शोख	अजबु, हैरत	कुतूहल, जिज्ञासा
		2. आश्चर्य	कौतुक, कौतूहल	अचरज	इस्तेजाब, तहय्युर	–	अचरजु	आश्चर्य
कुप्पी	स्त्री.	तेल, चिकनाई आदि डालने के लिए छोटा पात्र	चर्मकूपी	कुप्पी	कुप्पी	कुप्य	कुपी, द<u>ब</u>ी	बुधली
कुबड़ा	पुं.वि.	पीठ की हड्डी के मुड़ जाने से ग्रस्त व्यक्ति	कुब्ज	कुब्बा	कुबड़ा	कोंब	कु<u>बि</u>ड़ो	कुबडा
कुमकुम	पुं.	रोली	कुङ्कुमम्	केसर	रोली, कुमकुम	कोंग	रोली (हैड ऐं केसर ग<u>डे</u> ठहियलु लेपु, जेको निरिड़ ते ल<u>गा</u>इबो आहे)	कुंकुम
कुमुदिनी	स्त्री.	कमल की तरह का सफेद फूलों वाला पौधा	कुमुदिनी	कम्मी	नीलोफ़र (निलोफ़रे-माहताबी)	पंपोश	कुमुदिनी, कूणीअ जो गुलु	चंद्रकळ, कुमुदिनी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कुतूहल	जिज्ञासा	कुतूहल, उत्सुकता	कुतूहल, औत्सुक्य, जिज्ञासा	कौतुहल कुतूहल, ओत्सुक्य, जानिबरतेपाह	खङ्निङ्बगी लाङ्तक्नबा	कौतुहल, जिज्ञासा, उत्सुकता	कुतूहलमु	अरियुम् आवल्	कुतुहलम्, कौतुकम्	कुतूहल
नवाईभरी वस्तु	आश्चर्य	आश्चर्य	आश्चर्य (ज), बिस्मय	आश्चर्य, बिस्मय, आचरित	अङकपा	आश्चर्य, बिस्मय	आश्चर्यमु	आच्चरियम्	आश्चर्यम्	आश्चर्य
कुप्पी	कुपी, बुदली	तेलदानी	कुपि, लंम्पो	तेलर कुपी	थाओ लिक्ली, थाओ कौता	काहालि	सिद्दं, गिर्न्नं	शीशा, कुप्पि	कुप्पि	बुड्डि, बुद्दलि
कूबडुं, बेढंगु	कुबड	कूँजो, कुप्रो	कुँजो	कुँजा	नम पोन्बा	कुजा	गूनिवाडु	कूनन्	कूनन्	गून बेन्नु
कंकु	कुकूम	सिँदुर, सिन्दूर	कुंकुम चूर्ण (र्न)	सिंदुर	कुमकुम	कुंकुम, अभिर, सिंदुर	कुंकुमँ	कुंकुमम्	कुंकुमम्	कुंकुम
कुमुदिनी	कुमुदिनी	कुमुदिनी, सेतो कमल	कुमुदिनी, शालुक फुल, पद्म (द्द)	भेटफुल	थरो	कुमुदिनी, कईं	तंल्लकलुवं	अल्लिप्पू	आंपल्, कुमुदिनि	कुमुद, बिळि नैदिले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुम्हलाना	अ. क्रि.	1. मुरझाना	√ग्ले	कुमलाउणा	कुमहलाना	च़मुठुन	कूमाइजणु	क़ोमेजणें
		2. चेहरे का रंग फीका पड़ना	विवर्णी √भू	–	–	शुसुनुन	मुंहं पीलो पवणु	चेह्र्याचा रँग फिका पडणें
कुल	पुं.	खानदान, घराना, वंश	कुलम्	कुल	ख़ानदान	खानदान, कौंल	कुलु, ख़ानदानु	कुल, वंश, घराणे
	वि.	पूरा, सारा	समग्र	कुल	कुल	सोरुय	कुलु, खानदान	पूर्ण, सारे
कुल देवता	पुं.	जिसकी पूजा किसी कुल में परंपरा से होती आई हो	कुलदेवता	कुलदेवता	ख़ानदानी देवता	कौंलुँदिवता	कुल देवता	कुलदेवत
कुलीन	वि.	उच्च कुल में उत्पन्न	कुलीनः	खानदानी	ख़ानदानी, मुअज्ज़ज़	खानदॉन्य	खानदानी, सुठे कुल जो	कुलीन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
करमावुं	बावप	ओइलाउनु	शुकाइया याओया (जा)	मरह, लेरेला	खुइजिन्बा	झाउंलि-पड़िबा, मउलि जिबा	वाडिपोवुट	वाडिप्पोग	वाटुक	बाडु
चेहरानोरंग फीको पडवो	चेरो पडप	झ्याउरिनु, निन्याउरो हुनु	म्लान हओया, निष्प्रभ हओआ	शैंता परा	मक्शिन्बा	फीका-पड़िबा, मलिन, निष्प्रभ	पालिपोवुट	मुगं वाड	वाटुक	सर्प्पयागुवुदु
कुल (ळ)	कुळ	कुल, खानदान	कुल, बंश	कुल, बंश	शागै	कुल, बंश	कुलमु	वंशम्, कुलम्	कुल, वंशम्	वंश, कुल
बधुं, तमाम	पूराय	सारा, समस्त, जम्मै	पुरो, समस्त	सकलो, पूर्ण, संपूर्ण	अपुन्बा	पूरा, समूल, समस्त, संपूर्ण	मोत्तमु, अंता	पूरा, मुळु	ऑक्कं, मोत्तम्	ओट्टु
कुलदेवता	कुलदेवता	कुलदेवता	कुलदेबता	कुलदेवता, वंशर-इष्टदेवता	शागैगी लाइ अपोक्पा, कुल देवता	–	कुल देवत	कुल दय्वम्	कुल देवत	कुल देवते
कुलीन	कुलीन	घरानियाँ, खानदानी	कुलीन, बोनेदि	कुलीन, सद्बंशज	अवाङ्बा जात्की ओइबा	कुलीन, खानदानी, उच्च बंश जात	कुलीनुडु	उयर् कुलत्तु	कुलीनन्	कुलदेवते, मनेदेवरु कुलीन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कुल्हड़	पुं.	मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र	शरावः	कसोरा	कुल्हड़	मचिवॉर	ठिकर जो प्यालो	मातीचे लहान पात्र
कुशल	वि.	चतुर, होशियार	कुशल, निपुण	हुनरमंद	उस्ताद, मश्शाक़	हुशार	भड़ु, होशियार	कुशल, चतुर, हुशार
	पुं.	खैरियत, राजी-खुशी	कुशलम्	राजी-बाजी, कुशल	ख़ैरियत	रुॅच़र	चङभलाई	कुशल, क्षेम
कुश्ती	स्त्री.	एक प्रसिद्ध भारतीय खेल	मल्लस्पर्धा	कुशती, घोल	कुश्ती	कुश्ती	कुश्ती	कुस्ती, मल्लयुद्ध
कुष्ठ	पुं.	एक संक्रामक रोग, जिसमें शरीर की त्वचा, नसें आदि सड़ने-गलने लगती हैं, कोढ़	कुष्ठरोगः	कोढ़	कोढ़	म्योंद	कोढु	कोड, महारोग
कुसुम	पुं.	पुष्प, फूल	पुष्पम्	फुल्ल	फूल	पोश	गुलु, पुष्पु	कुसुम, फूल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कुलडी	माती चे लहान आयदन	पेय पदार्थ खाने माटोको सानो गिलास	मृत्तिका भांड, माटिर पात्र, भाँड़	माटिर-पात्र, भाँड़	इशाइफू, लैबाक्ना शाबा इशिङ् हापनबा चफू	शरा, पात्र	मट्टिपिडत॒	मण्-किण्णम्	मण्-कुटुक्क, मण् किण्णं	मण्णिन कुडिके गुडिगे
कुशल (ळ)	कुशळ	कुशल, सिपालु, पोख्त	चतुर, चालाक	कुशल, पार्गत	है शिङ्बा	कुशल, चतुर, चालाक, धूर्त	कुशलुडु, चतुरुडु	कैतेर्न्द	समर्थन्	कुशल
शुभ, कल्याण	कुशळ	सन्चो-सुविस्ता, आराम	कुशल, मंगल	कुशल-मंगल	याइफबा	खुसि (कुशल मंगल)	कुशलमु	क्षेमम्, सौक्कियम्	क्षेमम्	क्षेम
कुस्ती	कुस्ती	कुस्ती, पहलमानी	कुस्ति, मल्लयुद्ध (ज)	कुस्ति, मालयुँज, मल्ल	रैस्लिंग, मुक्ना शान्बा	कुस्ति, मल्लजुद्ध	कुस्ती, मल्लयुद्धमु	गुस्ति	गुस्ति	कुस्ति
कुष्ठ, कोठ	कुश्ठ	कोर, महारोग	कुष्ठ रोग	कुष्ठरोग	कुष्ठी, अङौबा पक्पा लैना, लेप्रसि	कुष्ठ (रोग)	कुष्ठु रोगमु	कुष्टनोय् तॉळुनोय्	कुष्ठ रोगम्	कुष्ठ
कुसुम, फूल	फूल	फूल, पुष्प	कुसुम, फुल, पुष्प	कुसुम, फुल	लै	कुसुम, फुल, पुष्प, सुमन	कुसुममु, पुव्वु	पू	पुष्पम्, कुसुमम्	हूवु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कूँची (कूची)	स्त्री.	1. तूलिका	तूलिका, वर्णिका	कूची	कूची (कूंची)	बुरुश	कूची (चित्र-कारीअ जो)	तूलिका, ब्रश
		2. मूँज आदि का बनाया हुआ एक प्रकार का ब्रुश	मार्जनी	कूची	–	–	मुञ जी ठहियल, कूची	कुंचला
कूआँ (कुआँ, कुवाँ)	पुं.	पानी निकालने के लिए जमीन में खोदा हुआ गहरा तथा गोल गड्ढा	कूपः	खूह	कुवाँ (कुआँ)	क्रूल	खूहु	विहीर
कूटना	स. क्रि.	1. किसी चीज को महीन करने के लिए लगातार पीटना	कुट्ट्	कुट्टणा	कूटना	च़ेटुन	कुटणु	कुटणे
		2. भूसी अलग करने की प्रक्रिया	–	–	–	मुनुन	कुटणु	कांडणे
कूटनीति	स्त्री.	व्यक्तियों या राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में दाँव-पेच की नीति	कूटनीतिः	कूटनीती	सियासत (हिकमते अमली)	चाल, सियासत	कूटनीती, हिकमत अमली राजनीती, चालाकी	कूटनीती
कूदना	अ.क्रि	छलांग लगाना	कूर्द्	कुद्दणा, टप्पणा	कूदना	वोंठ त्रावुंन्य	टपणु, टपो डियणु	उडी मारणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पींछी	ब्रश	कूची, तुलिक	तुलि	तुलिका	तूलिका	तुलिका, तुली	कुंचं	वर्णम् तीट्टुम् तूरिकै	ब्रष्	कुंच, ब्रश
कूचडो	ब्रश	कूंची, बुरुस	ब्रुश, बुरुस, ब्रास	बेरत चूण दिया ब्रुरूज, ब्राछ	ब्रुश, शदु	ब्रुश, तुली	कुंचं	बिरष्, वंळ्ळै आडिक्कुम् मट्टै	ब्रष्	चिक्क-कसबरिगे
कूवो	बांय	कुवा, कूप	कुआ, कूप	नाद, कुँवा	गूहा	कूअ, कूप	बावि	किणरु	किणरु, कूपम्	बावि
कूटवुं	कुटप	पिस्नु कुट्नु (ढिकीमा धान आदि)	कोटा, कुटा, गुँडो करा	कोटा, खुंदा	शुबा, पौ शुबा	कूटिबा	दंचुटं	इडिक्क	उरलिल् इट्ट इटिक्कुक	कुट्टुवुदु
कूटनीति	कूटनिती	कुटनीति	कूटनीति	कूटनीति	कूटनीति, अरोन्बा खोङचत् अरोन् अथूप की नीति	कूटनीति	कूटनीति	अरसियल्	नयतंत्रम्	व्यवहार
कूदवुं	उडीमारप	हाम फाल्नु, फाल हाल्नु	लाफानो	जपिया	चोङ्थबा	डेइंबा	दूकुटं	कुदिक्क	चाटुक	हारुवुदु, जिगियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कृतघ्न	वि.	उपकार न मानने वाला	कृतघ्न	किरतघन	नाशुक्रा, एहसान-फ़रामोश, नमक हराम	एहसान-फरामोश	कृतघ्न, गुणचोर, अहसान-फ़रामोश	कृतघ्न
कृतज्ञ	वि.	उपकार को मानने वाला	कृतज्ञ	किरतग्ग	एहसानमंद, ममनून	मशकूर	अहसानमंद, शुकुरगुज़ार	कृतज्ञ
कृतार्थ	वि.	1. जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो	कृतार्थ	किरतारथ	शादकाम, फ़ारिग़	क्रेंतारथ, फारिग	कृतार्थ, सफल	कृतार्थ
		2. लक्ष्य प्राप्त	संतुष्ट	किरतारथ	–	–	मनोरथु	कृतार्थ
कृत्रिम	वि.	1. जो प्राकृतिक न हो, मानव निर्मित	कृत्रिम	बनाउटी	मस्नूई	नकली	ग़ैर-क़ुदरती, हथराधू	कृत्रिम
		2. बनावटी, दिखावटी	–	–	नक़ली	–	बनावटी, नक़ुली	बनावटी, दिखावट
कृपा	स्त्री.	अनुग्रह, दया	कृपा	किरपा	मेहरबानी, इनायत	क्रपा, दया	कृपा	कृपा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कृतघ्न	कृतघ्न	बैगुनी, कृतघ्न्	कृतघ्न, अकृतज्ञ	कृतघ्न, अकृतज्ञ	तौबीमान खङ्दबा	अकृतज्ञ, कृतघ्न, बेइमान	कृतघ्नुडु	नन्ऱि मऱंद	कृतघ्नन्	उपकारगेडि, कृतघ्न
कृतज्ञ	कृतज्ञ	कृतज्ञ	कृतज्ञ	अशलागी, कृतज्ञ, शलागलोवा	तौबीमल खङ्बा	कृतज्ञ	कृतज्ञुडु	नन्ऱि मऱवाद	कृतज्ञन्	कृतज्ञ, उपकार स्मरिसु
कृतार्थ	कृतार्थ	कृतार्थ	कृतार्थ	कृतार्थ, कृतकार्य, सफल	पांदम फङ्बा, महै यान्बा	कृतार्थ, कृतज्ञ	कृतार्थुडु	नोक्कत्तिल् वॆट्ऱि पॆट्ऱ	कृतार्थन्	कृतार्थ
कृतकृत्य	कृतार्थ	कृतार्थ	कृतार्थ, संतुष्ट	संतुष्ट, चरितार्थ	महै यान्बगी हराओबा	कार्यसिद्धिरे संतुष्ट, कृतार्थ	कृतार्थुडु	चॆयल् निऱैवेऱिय	चरितार्थन्	कृतार्थ, उपकृत
कृत्रिम, अकुदरती	कृत्रिम	कृत्रिम	कृत्रिम, अप्राकृतिक, नकल	कृत्रिम, जाल, नकल	शेमजन शाज़न्बा	कृत्रिम, अप्राकृतिक	कृत्रिम-मयिनँ	चॆयकैयान	कृत्रिमम्	कृतक, कृत्रिम
बनावटी	अडेचे	कृत्रिम, बनावटी, नकली	कृत्रिम, आड़ंबरपूर्ण	सज्जित, देखानियार	तात् तौबा	देखाइहेबा, सज्जित, कृत्रिम, आडंबरपूर्ण	कपटमैन	पगट्टान	कॆट्टिच्चमच्च	तोरिकॆय
कृपा	कृपा	कृपा, निगाह	कृपा, अनुग्रह, दया	कृपा, अनुग्रह, दया	थौजाल	कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकंपा	कृपँ	दयवु	कृप	कृपे, अनुग्रह

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कृषि	स्त्री.	खेती-बारी	कृषि	खेती, वाही	खेती (ज़राअत)	जमींदारी	खेती	शेती, शेती वाडी
केंद्र	पुं.	1. मध्य बिंदु	केंद्र, नाभि	केंदर	मर्कज़	मरकज़	मर्कजु	केंद्र
		2. मध्य भाग	मध्यभागः	केंदर	–	मंज़बाग	विचु	मध्य भाग
		3. दूर-दूर तक फैले हुए कार्यों की व्यवस्था तथा संचालन हेतु मुख्य स्थान	केन्द्रस्थानम्	केंदर	–	मरकज़, केंद्र	मर्कजु, केंद्रु	केंद्र
केवल	वि.	जिसका या जितने का उल्लेख किया जाए वही या उतना ही	केवल	सिरफ, केवल	फ़क़त, महज़	सिरिफ	रुगो, फ़क़त	केवल मध्य भाग
	क्रि. वि.	मात्र, सिर्फ	–	–	सिर्फ़	–	रुगो, सिर्फ़	फक्त, एकमात्र, मात्र
केश	पुं.	सिर के बाल	केशः	केस	मू, बाल	मस, किह	वार, केस	केस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कृषि, खेती	शेती	खेती, खेतीपाती	चाष, कृषि	कृषि, खेति	लौमी	कृषि, खेति, चाष	व्यवसायमु	वेळाण्मै	कृषि	सागुवळि
केंद्र	केंद्र	केंद्र, बीचको ठाउँ वा बिन्दु	केंद्र, मूल	केंद्र, मूल, प्रधान	मफम	केंद्र, मध्यस्थल, केंद्रस्थल	केंद्रमु	मैयम्	केंद्रम्	केंद्र
मध्यबिंदु, वच्चेनुं	मदलो भाग	मध्य भाग, बीचको ठाउँ	केंद्र, मध्यभाग	मध्यभाग, माज, वृत्तर केंद्र-बिंदु	मयाइ, सेंटर	मध्यभाग, मझि, केंद्र	केंद्रमु	नडुंप्पगुदि	मध्य भागम्	मध्य
कोई वस्तु नुं मध्य या मुख्य स्थान	केंद्रीय	सदर मुकाम	केंद्र, केंद्रस्थल	मूळ बा मुख्यस्थान, केंद्र बिंदु	मयाइ चबुक	मूल बा-मुख्य	केंद्रमु	तलैमै निलैयम्	केंद्रम्	मुख्य-स्थान
केवल (ळ)	केवळ	केवल, त्यही एक मात्र	शुधु, केबल, एकमात्र	केवळ, एकमात्र	शुप्नगी	केबल, मात्र, एकमात्र	केवलमु	मट्टुम्	केवलम्	बरे, केवल
मात्र, फक्त	फकत	मात्र, खालि	मात्र, शुधु, केबल	मात्र, माथोन मुठेइ	अमता	मात्र, केबल, एकमात्र	केवलमु	मात्तिरम्	वेरुम्, मात्रम्	मात्र
केश, बाल, वाळ	केस	कपाल, केश	चुल, केश, अलक	केश, चुलि, मुरर चुलि	शम्	केश, बाल	वेंट्रुकलु	तलै मयिर्	तलमुटि, केशम्	कूदलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कै	स्त्री.	उलटी, वमन	वान्तिः	कै, उलटी	क़ै	कय, द्रोंख	कै, उलटी	ओकारी
कैद	स्त्री.	अपराधियों को दंड देने के लिए बंदी बनाना	बन्धनम्	कैद	क़ैद	कॉदखानुँ	क़ैद	कैद
कैदी	पुं.	बंदी, अपराधी	बन्दिन्	कैदी	क़ैदी	कूँद्य	क़ैदी	कैदी, बंदी
कोंपल	स्त्री.	पेड़-पौधों आदि में निकलने वाली नई मुलायम पत्तियाँ, कल्ला	किसलयः	तूई, करूंबल	कोंपल	बामन	अंकुरु, नओं फुटलु पनु	अंकुर
कोई	सर्व.	अज्ञात, अनिर्दिष्ट वस्तु या व्यक्ति, संपूर्ण में में से एक	किम्+चित्	कोई	कोई	काँह	को, का, कोई	कोणी
	वि.	न जाने कौन एक, बहुतों में से चाहे जो एक	कतम	कोई वी, जेह्ड़ा वी	कोई	--	कोई	कोणीतरी
	अव्य.	लगभग	प्रायः	कोई	कोई	--	लगभग	सुमारे, जवळ जवळ, बहुधा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊलटी, वमन, ओकारी	ओंकारो	बाँता, छाद, वमन	बमि, वमन	बमि, बाँति	अओबा	बांति, बमन	डोकु, वांति	वाँन्दि	छर्दि	वांति
कैद, जेल	कादय, बंदखण	थुना, कारावास	कयेद, जेल, काराबास, बँदिशाला	काराबास, बंदीशालत-थका	बंदी थंबा कैशुमशङ्	कइदिखाना, कारागार, बँदिशाला	चॅर, जैलु	कैदु	तटवुँ	जैलु, तुरंग
कैदी	कैदी	कैदी, बंदी, थुनुवा	कयेदी, बंन्दी, कारारुद्‌य	कयदी, बंदी	बोंदी	कइदी, बंदी	खैदी	कैदि	बंधनस्थन्, तटवुपुळ्ळि	बंदि, कैदि
कूंपळ	आंकरी	टूसो, मुनु, पालुवा	किशलय, कचिपाता	कुँहिपात	अनौबा मयोन	कंअलिआ-पत्र, किशलय	चिगुरुटाकु	तळिर्	अंकुरम्, पॉटिप्पुँ	चिगुरु
कोई	कोणूय	कोही	कोनो, केह, केउ	कोनो, यिकोनो, कोनोबा, किबा	कनागुंबा, कनानोमा	केहि, कौणसि, किए	एँवरो, एदो	एदावदु, ऑरु, एँवनो	आरो, एतो	यारो
गमे ते, एक, कोई एक, कोइक	एकाद्रे	कुनै	कोनो, केह, केउ	यिकोनो, कोनो एक	अमा	अनेकंक-मध्यरू-एक, अन्यतम	एँवरो आंकरु	एदावदु, ऑरु, एँवनो	आरो, एतो	यारादरु, यावुदादरु
लगभग	अदमास	लगभग, प्रायः	प्राय	प्राये, प्रायेइ	चाओराक्ना	प्राय	सुमारु, रमारमि	सुमार्	एकदेशम्	सुमारु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कोठरी	स्त्री.	छोटा कमरा	कोष्ठः, कक्षः	कोठड़ी	कोठरी	कूठुॅर	कोठड़ी	लहानखोली, कोठरी
कोठी	स्त्री.	बहुत बड़ा, ऊँचा और पक्का मकान	भवनम्, अट्टालिका	कोठी	कोठी	कुठय, कूठ्य	कोठी, वड़ो घरु, बंगलो	कोठी, वार्डा
कोतवाल	पुं.	पुलिस का वह प्रधान कर्मचारी, जिसके अधीन कई थाने और बहुत-से सिपाही होते हैं	कोटपालः	कोतवाल	कोतवाल	कुटवाल	कोटवालु	कोतवाल, पोलिस इंस्पेक्टर
कोतवाली	स्त्री.	कोतवाल का मुख्यालय	कोटपालिका	कोतवाली	कोतवाली	कुटवॉली	कोटवाली, मुख्य पुलीस थाणो	कोतवाली, मुख्य पोलिस ठाणे
कोमल	वि.	नरम, मुलायम	कोमल, मृदु	कूला, कोमल	मुलाइम	कूमल, नरॅम	कोमल	कोमल
कोरा	वि.	बिल्कुल ताजा और नया, न बरता हुआ	नव, अव्यवहृत	कोरा	कोरा	कोरुॅ	कोरो, नओं	कोरा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कोटडी, ओरडी	ल्हान कूड	साँघुरो वा सानो कोठो	कुठरी, खोप, छोटो कामरा	कुठरी, कोठा, खोंटाली	अपिक्पा का	कोठरी, बखरा	कांट्टडि, गदि	सिरु अरै	चेरिय मुरि	कोणे
मोटुं-भव्य मकान	कोठी	कोठी, ठूलो घर	कुठि, अट्टालिका, दालान	डाङर पकीघर, दालान	अचौबा अवाङ्बा युम	कोठि, कोठाघर, पका घर, अट्टालिका	भवनमु, भवंति	माळिगै, बंगळा	बंगळावुँ	बंगले
कोटवाल (ळ)	पोलिस इंस्पेक्टर	प्रहरी-अधिकृत, कोतवाल	कोटाल, कोतोयाल, दारोगा	दारोगा, कोतोयाल	शहर अमगी पुलिस मकोक्	दारोगा, कटुआल (पोलिस-इंसपेक्टर)	पोलीस इंस्पेक्टरु	कावल् तुरै आदिकारी, पोलिस इंस्पक्टर्	पोलिस् इंस्पेक्टर्	पोलीसु अधिकारि, कोतवाल
थाणुं	पोलिस थाणे	ठाना, कोतवाली	कोतोयालि, थाना	पुलिच थाना, आरक्षी-चकी	हेड पुलिस स्टेशन	कटुआल-कार्य्यालय, थाना	पोलीस स्टेशनु	कावल् निलैयम्	पोलिस् स्टेशन्	ठाणे
कोमल (ळ)	कोमळ	कोमल, नरम, मुलायम	कोमल, नरम, प्रिय अनुभूति	कोमल, नरम, सुकुमार, मृदु	अथोत्पा	कोमल, नरम	कोमलमयिनँ	मिरुदुवान	कोमंळम्, मृदु	कोमल, मृदु
कोरूं	कोरो	नयाँ, नवीन	कोरा, आनकोरा, नूतन, नतुन	नतुन, पूर्व-नवीन	शिजिन्न-द्रिबा अनौबा	अरखनुआ, नुआ, नूतन	कात्तँ, वाडनि	पुदिय	पुतिय, कोटि	होस

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कोलाहल	पुं.	चीखने-चिल्लाने से होने वाला शोर	कोलाहलम्, तुमुलम्	हाल-दुहाई, शोरशराबा	शोर, ग़ुल	शोर	कोलाहल, शोर	कोलाहल
कोल्हू	पुं.	बीजों और गन्ने को पेरने का यंत्र	निष्पीडकः	कोल्हू	कोल्हू	तीलुँवॉन्य-वान	घाणो	चरक, घाणा
कोश (कोष)	पुं.	1. किसी विशेष क्रम से शब्द और उनके अर्थ वाला ग्रंथ, कोश	कोषः	कोश	लुग़त (लुग़ात)	डिकशनरी, लॉंगथ, कूश	कोश, डिक्शिनरी, लुग़त	शब्दकोष
		2. संचित द्रव्य	कोषः	–	ख़ज़ाना	–	कोश, खज़ानो	कोष, निधी
कोशकार	पुं	शब्दों का संग्रह तथा उनका संपादन करने वाला	कोशकारः	कोशकार	मुदव्विन	डिकशनरी बनावन- वोल, लग़त नवीस	कोशकार, लग़त नवीस	कोशकार
कोशिश	स्त्री.	प्रयत्न, चेष्टा	प्रयत्नम्	कोशश, कोशिश	कोशिश	कूशिश	कोशिश	प्रयत्न
कोषाध्यक्ष	पुं.	जिसके पास कोष रहता है, खजांची	कोषाध्यक्षः	खजानची	ख़ज़ांची (ख़ज़ानची)	खँजाँची	ख़ज़ांची	कोषाध्यक्ष, खजीनदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कोलाहल	कुळकुलाट	कोहोलो, कोकोहोलो, कोलाहल	कोलाहल	कोलाहल, कोहलि	लाङ्बा निन्बा	कोलाहल, पाटितुण्ड करिबा	कोलाहलमु	कोलाहलम्, इरैच्चल्	कोलाहलम्, बहकम्	गद्दल, गलाटे
कोलु	घाणो	कोल	घानि, कलु	शाल, घानी	कोल्हू	घणा	गानुग	चॅक्कु	चक्कुँ	गाण
कोश (ष), शब्द-कोश	कोश (शब्द)	शब्दकोश, कोश	कोश, शब्द-कोष, अभिधान	अभिधान, कोष	वाहै गी पुकै, डिक्स्नारी	कोश, शब्दकोश, अभिधान	कोशमु, निघंटुवु	अगरादि	शब्द कोशम्, निघंटु	शब्दकोश
भंडार, खजानो	कोश	कोष, ढुकुटी, खजाना	कोष	पूँजि, एकत्रित-धन, धनर-भँराल		एकत्रराशीकृत धन, कोष, एकत्रित धन	निधि	निदि, पॉक्किषम्	निधि, खजनावुँ	बोक्कस
कोशकार	कोशकार	कोशकार	कोषकार, अभिधानकार	कोषागर, अभिधान-लिखक	डिक्स्नारी इबा मी	कोशकार, अभिधानकार, अभिधान-लेखक	निघंटुकर्त	अगरादि आशिरियर्	निघंटुकारन्, कोशकारन्	कोशकार
कोशिश, प्रयत्न	प्रयत्न	जमर्को, कोसिस	प्रयास, प्रयुत्न, चेष्टा (ज)	यत्न, चेष्टा	होत्नबा	प्रजत्न, चेष्टा, जत्न	प्रयत्नमु	मुयर्चि	प्रयत्नम्	प्रयत्न
कोशाध्यक्ष कोषाध्यक्ष	खजांची	खजान्ची, कोशाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष, खाजाञ्ची (क्ख)	कोषाध्यक्ष, धनर भँराल-धनरक्षक	कैरुङ्बा, लन् थुम पान्नब	कोशाध्यक्ष	कोशाधिकारि	पॉरुळाळर्	खजांचि	खजांचि, कोशाधिकारी, भंडारी

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कोष्ठक	पुं.	( ), [ ] और { } चिह्नों में से कोई एक	कोष्ठकम्	कोशठ, ब्रैकट, बंधनी	क़ौसैन	ब्रैंक्यठ	डिंगियूं, डिंगियुनि जी निशानी, ब्रैकेट	कंस
कोसना	स. क्रि.	सताए जाने पर किसी की अशुभ कामना करना	+क्रुश्, +शप्	कोसणा	कोसना	वोंहुवोह करुॅन्य	पिट-पारातो करणु	शिव्याशाप देणे
कौंधना	अ. क्रि.	कुछ क्षणों के लिए (बिजली का) चमकना	वि+द्युत्	चमकणा, कूंदणा	कौंदना	वुजुॅमलुॅ	चिमकणु, चमकणु	(वीज) चमकणे
कौतुक	पुं.	1. आश्चर्य या उत्सुकताजनक विलक्षण बात	कौतुकम्	कौतक	अजूबा	तमाशि	कौतुकु, करामत	कौतुक, विलक्षण
		2. मनोविनोद, दिल्लगी	कौतुकम्	–	तमाशा	जॅशनुॅ	तमाशो	थट्टा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ब्रैकेट कौंस	कंस	कोष्ठक, खण्ड, खाना	बंधनी	बंधनी	ब्रैकेट	कोश्ठक, बंधनी-चिह्न	ब्राकेट्टु, कुंडलीकरणमु	अडैप्पुक्कुरि	कोष्ठकम्, ब्राक्कट्टुं	आवरण चिह्न
कौंहेणुं मारवुं	शाप दिवप	सराप्नु	अभिशाप, अभिसंपात	अभिशाप दि, अमंगल कामनाकर	शाप तौबा, थीना चैबा	गालिदेबा, अमंगल-कामना-करिबा	तिट्टुट	शबिक्क	पिराकुक, शपिक्कुक	शाप कोडुबुदु, शपिसुवुदु
वीजळीनो चमकारो थवो	चमकप	चम्कनु	चम्कानो	जिलिका, चिकमिका	नोङ्थाङ् कुप्पा	बिजुलि चमकिबा	मेरयुट	मिन्न	मिन्नुक	हॉळ्युवुदु
कौतुक	कौतुक	कुतूहल, कौतुक	कौतुक	कौतुक, रं-धेमली आमोद	खङ्निङ्बा लाङ्तकनबा	कौतुक, कौतुहल	कौतुकमु, कौतूहलमु	आवल्	कौतुकम्	सोजिग, कौतुक
टीखळ	मसकरी	मनोविनोद, मनोरञ्जन	आमोद, परिहास, हासि ठाट्टा, क्रीड़ा कौतुक	आनंद, फुर्त्ति, आमोद-प्रमोद, परिहास	हराओ तयांबा, फागी	मनोविनोद, आनंद-परिहास, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा-कौतुक	तमाश	परिहासम्, वेडिक्कै	मनोविनोदम्, नेरंपोक्कुं	विनोद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
कौन	सर्व.	1. जानकारी हेतु वाचक सर्वनाम	किम्	कौ़ण	कौन	कुस	केरु	कोण
		2. कोई व्यक्ति	किम्+अपि, किम्+चित्	–	–	–	को	कोणी व्यक्ती
क्या	सर्व.	1. प्रश्नवाचक सर्वनाम	किम्	की	क्या	क्याह	छा	काय
		2. आश्चर्यजनक एवं उपेक्षासूचक प्रसंगों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति	किमिति	–	कया	–	छा!	काय!
क्यों	क्रि.वि.	कारण जानने के लिए प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द	कथम्	किओं	क्यों	क्याज़ि	छो, छा लाइ	कां
क्योंकि	अव्य.	कारण यह है कि, इसलिए कि	यतः	किओं जे, किओंकि	क्योंकि	तिक्याज़ि	छो त	अशासाठी कीं

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कोण	कोण, किदें	को, कुन, कुनचाहिँ	कि (वस्तु), के (व्यक्ति) कोन	कोन, कोनटो, केओ-जना	कना	किए	एंवरु	यार्, एंदं	आरु॑, एनु॑	यारु
कोई पण-व्यक्ति	कोणूय	कोही व्यक्ति, कुनै व्यक्ति	कोनो लोक	कोनोबा, कोनोबा मानुह	कनागुंबा	कौणसि व्यक्ति	एंवरो	एंवन्	एतंङकिलुम् व्यक्ति	यावनु
शुं?	कितें	के	कि	कि	करि	कण	एमिटि	एंन्न	एंतुं	एनु
शुं!	हय!	हो र्!	की	हाँ! आश्चर्य प्रकाशक उक्ति बिशेष	करि	हँ, कण	अलागा !	वियप्पु कुरिक्कुम् साॅल्	एंतुं	एनु
शामाटे, केम	कित्याक, किद्याक	किन्	केनो (क्यानो)	किय केलेइ	करिगी	काहिंकि	एंदुकु	एन्	ऍन्तिनु, ऍन्तु कोंडुं	एके! एतक्के
केमके	अंशे की	किनभने, यस निम्ति कि	कारण, केनोना (न)	कारण, कियनो	मरमदि	कहिंकि, ना	एंदुकंटे	एनंन्नाल्	एंतु कोंडंन्नाल्	एकेंदरे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्रम	पुं.	1. तरतीब, सिलसिला	क्रमः	लड़ी, क्रम	तरतीब, सिलसिला	सिलसिलुॅ	सिलसिलो, क्रम	अनुक्रम
		2. उचित रूप से काम करने का ढंग	यथाक्रमम्	–	सलीक़ा (नज़्म)	सिलसिलुॅ	–	रीत
क्रमशः	क्रि. वि.	1. नियत क्रम के अनुसार, सिलसिलेवार	क्रमशः	लड़ीवार, क्रमवार	तरतीबवार	सिलसिलुॅवार	सिलसिलेवार	क्रमशः
		2. एक-एक करके, बारी-बारी से	अनुक्रमेण, क्रमानुसारेण	लड़ीवार, क्रमवार	एक-एक करके	सिलसिलुॅवार	वारे सां	क्रमवार
क्रय	पुं.	मोल लेने की क्रिया या भाव, खरीद	क्रयः, क्रयणम्	खरीद	ख़रीदारी (ख़रीद)	मॅल्य ह्योन, खरीदारी	ख़रीद	खरेदी
क्रांति	स्त्री.	एक दशा से दूसरी दशा में बड़ा परिवर्तन	क्रान्तिः, विप्लवः	करांती	इन्क़िलाब	इनकलाब	क्रांती, इन्कलाबु	क्रांती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्रम	अनुक्रम	क्रम, सिलसिला	क्रम	क्रम, क्रमशः	मथङ् मनाओ	क्रमशः	क्रममु	वरिशै	क्रमम्	क्रम
रीत, पद्धति	रीत	तरिका, ढङ्ग	क्रम, नियम	क्रम, शैली	—	ठीक-भाबरे काम-करिबा, ढंग, शैली	क्रममु	ओ़ळुंगु, मुरै	मुऱ	रीति
क्रमशः	क्रमान	क्रमशः	क्रमशः, क्रमानुसारे	क्रमशः, क्रमागत, क्रमानुसरि	मथङ् मनाओ नाइबा	क्रमशः, क्रमानुसार	क्रमंगा	वरिशै किरममाग	क्रममायि, मुऱ्य्क्कुँ	क्रमवागि, क्रमशः
क्रमथी	इल्लें इल्लें करून	पालै पालो गरेऱ, क्रमैसित	एक-एक करे, पालाक्रमे	क्रमे, अनुक्रमे	अममम् ओइना, पाली-पाली नाइना	गोटे-गोटे करि, थरकु थर	क्रमानु-सारंगा	मुऱैप्पडि	ओरोन्नायि, क्रमत्तिल्	ओंदोंदागि
क्रय, खरीदी	खरेदी	खरिद, क्रय	क्रय, केना, खरिद	क्रय, किना	लैबा, तिक्पा	क्रय, खरीद, किणिबा	क्रयमु, कॉनुट	किरयम्, विलैक्कु वांगुदल्	क्रयम्, वाङ्ङ्ल्	कोळ्ळुवुदु, क्रय
क्रांति	क्रांती	क्रांति, विद्रोह	क्रांति, बिप्लब	क्रांति, बिप्लव, अयन-वृत्त	अओन्बा	क्रांति, बिप्लब	विप्लवमु	पुरट्चि	विप्ळवम्	क्रांति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्रांतिकारी	पुं., वि.	क्रांति का प्रयत्न करने वाला	क्रान्तिकारी	कारांतीकारी	इन्क़िलाबी	इनकलॉबी	क्रांतीकारी, इन्क़लाबी	क्रांतिकारी
क्रिया	स्त्री.	1. कोई कार्य चलते या होते रहने की अवस्था या भाव	क्रिया	किरिआ	अमल	कॉम	कमु	क्रिया
		2. कोई काम करने का ढंग या विधि	कार्यविधिः	किरिआ	अमल	अमल	तरीक़ो, ढंगु, विधी	पद्धत, रीत
		3. व्याकरण में वे शब्द, जो किसी कार्य, घटना आदि के होने या किए जाने के वाचक होते हैं	क्रियापद	किरिआ	फ़ेअल/फ़ेल	–	ग्रामर में 'फ़इल'	क्रियापद
क्रीड़ा	स्त्री.	1. खेलकूद	क्रीडा	खेड	खेलकूद	गिंदुन	रांदि-रूंदि	क्रीडा, खेळ
		2. आमोद-प्रमोद	क्रीडा	खेड	खेल	असुँन-गिंदुन	मौज-मस्ती	क्रीडा, मौजमजा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्रांतिकारी	क्रांतिकारी	क्रांतिकारी	क्रांतिकारी, बिप्लबी	बिप्लवी	अओन्बा पुरक्नबा होत्लरिबा मीओइ	क्रांतिकारी, बिप्लबि	विप्लवकारुडु	पुरट्चिकरमान	विप्ळवकारि	क्रांतिकार
क्रिया, कार्य	क्रिया	क्रिया	क्रिया	क्रिया, काम	तौबा, ओइबगी भाव	क्रिया, कार्याबस्था	क्रियॅ	विनैच्चॉल्	क्रिय	क्रियापद
रीती, पद्धति	पद्धत, रीत	ढङ्ग, विधि	विधि, प्रक्रिया	कार्यविधि, प्रक्रिया, धर्म-कार्य	थबक तौबगी मओङ्	काम-करिबा ढंग, बिधि, प्रक्रिया	पद्धति	चॅयल् मुरै	प्रक्रिय, रीति	रीति
क्रियापद	क्रियापद	क्रियापद, क्रिया	क्रिया (ब्याकरणे)	व्याकरणत (क्रियापद)	–	व्याकरणरे-कार्यसंपादन, वाचक शब्द (क्रियापद)	क्रियॅ	विनैच्चॉल्	क्रियापदम्	क्रियापद
रमत गमत	खेळ	खेलकुद, खेलबाड	क्रीड़ा, खेला धूला	खेला-धुला, क्रियाकलाप	शान्न खोत्नब	खेलिबा	आटॅ, क्रीडॅ	विळैयाट्टु	कळि	आट, क्रीडे
क्रीड़ा, खेल	मौजमस्ती	खेल, आमोद-प्रमोद	क्रीड़ा, आमोद-प्रमोद	क्रीड़ा, आमोद-प्रमोद	हराओ तयाँबा	क्रीड़ा, आमोद-प्रमोद	विनोदमु	केळिक्कै	क्रीड	आमोद-प्रमोद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्रूर	वि.	निर्मम तथा हिंसक कार्य करने वाला, निर्दयी	क्रूर, निर्दय	जालम	सफ़्फ़ाक, बेरहम, ज़ालिम	बेइंसाफ	कड़ो, कठोर, निर्दयी	क्रूर, कठोर, निर्दयी
क्रोध	पुं.	कोप, गुस्सा	क्रोध, रोष, कोपः	करोध, रोह्	ग़ुस्सा, इताब	गुस्सुॅ	क्रोध, कावड़ि, गुसो	क्रोध, राग
क्लेश	पुं.	कष्टपूर्ण मानसिक स्थिति, मनोव्यथा	क्लेशः, मनोव्यथा	कलेस	रंज, कोफ़्त	वोॅदॉसी, दोॅख	क्लेशु, कलहु	क्लेश
क्षण	पुं.	काल का एक बहुत छोटा परिमाण, पल	क्षणम्, मुहूर्त	खिण, छिण	लम्हा	च्युंह	खिन, पलु	क्षण
क्षति	स्त्री.	1. चोट लगने से होने वाला घाव	व्रणः	सट्ट, ज़खम	ज़ख़्म	नोॅकसान	घाउ	क्षती, जखम
		2. हानि, घाटा	क्षतिः, हानि	घाॅट, घाॅटा	ज़रर, नुक़्सान	–	घाटो, नुक़्सानु	हानी, तोटा, क्षती
क्षतिपूर्ति	स्त्री.	हानि या घाटे का पूरा होना	क्षतिपूर्तिः	मुआवजा, हरजाना	तलाफ़ी	नोॅकसान पूरुॅ-करुन	भरपूराई	क्षती पूर्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्रूर	क्रूर	निष्ठुर, निर्दय	क्रूर, निर्दय	क्रूर, निर्दय, निष्ठुर	तम्थिबा, नुङ्शि हैतबा	क्रूर, निर्दय, निष्ठुर	क्रूरॆ मयिनॆ	काँडूरमान	क्रूरन्, निर्दयन्	निर्दय, क्रूर
क्रोध	राग	रिस, क्रोध	क्रोध, राग, गोसा	क्रोध, खं, राग	अशाओबा	क्रोध, राग	क्रोधमु, कोपमु	कोबम्	क्रोधं, कोपम्	सिट्टु, क्रोध, कोप
क्लेश, पीड़ा, दु:ख	क्लेश	क्लेश, कलह, मनोमा-लिन्यता	क्लेश, मनोब्यथा, पीड़ा, दु:ख	क्लेश, मानसिक-दु:ख, पीड़ा, मनोव्यथा	वाखल नुङ्ङाइतबा, थवाइ वाबा	मनोव्यथा, क्लेश, दु:ख, पीड़ा	क्लेशमु	आयासम्	क्लेशम्	व्यथे
क्षण	खिण	छिन, क्षण	क्षण (खन)	क्षण, मूहूर्त्त, अल्प-समय	मित्कूप्	क्षण, मुहूर्त्त (ख्यण)	क्षणमु	कणम, नाँड़ि	क्षणम्	क्षण
क्षति, क्षत, धा	घाय	खति, चोटपटक	क्षत (क्ख), धा	खत, घा अनिस्ट	अशोक्पा अनाबा	क्षति, आघात, धा	दॆब्ब, गायमु	अळिवु	मुरिवुँ	गाय
नुकसान, हानि, घाटो	नफो-नुकसान	नोक्सानी, घाटा	क्षति (ख), लोकसान	क्षति, हानि, लोकचान	अमाङ्बा	हानि, लोकसान, क्षति	नष्टमु, हानि	नष्टम्	नष्टम्, हानि	हानि, नष्ट
क्षतिपूर्ति	भरपाय	क्षतिपूर्ति, मुआवजा, हर्जाना	क्षतिपूर्ति (ख)	क्षतिपूरण, क्षतिर परिवर्ते दियाधन	अन्नात्पा मेन्खत्पा	क्षतिपूरण	नष्टपरिहारमु	नष्ट ईडु	नष्टपरिहारम्	नष्टभर्ति

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्षत्रिय	पुं.	1. हिंदुओं के चार वर्णों में से दूसरा वर्ण	क्षत्रियः	खत्री	छत्री (खत्री)	ख्यतुॅर्य	खत्री	क्षत्रिय वर्ण
		2. उक्त वर्ण का व्यक्ति	क्षत्रियः	–	–	–	–	क्षत्रिय पुरुष
क्षमता	स्त्री.	1. सामर्थ्य	क्षमता, सामर्थ्यम्	समरत्था	ताक़त, मक़्दूर	ताकथ, ह्यमथ	ताक़त, सघ	सामर्थ्य, क्षमता
		2. कोई कार्य करने का कौशल	अर्हता	–	अह्लियत, इस्तेदाद	–	लियाक़त, योग्यता	पात्रता, योग्यता
		3. ग्रहण या धारण करने की पात्रता	क्षमता, धारणशक्तिः	–	गुंजाइश, वुसअत	–	जगह, गुंजाइश (रखण या धारण करण जी)	सामर्थ्य, शक्ती
क्षमा	स्त्री.	1. किसी भी प्रकार का अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति मन में कोई विकार न होना	क्षमा, सहिष्णुता	खिमा	मआफ़ी/माफ़ी	बख़्शुन	खिम्या, माफ़ी	क्षमा
		2. किसी दोषी या अपराधी को बिना किसी प्रतिकार के छोड़ देने का भाव, माफ़ी	क्षमा, मर्षण	–	–	–	–	माफी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्षत्रिय (वर्ण)	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय (ख)	क्षत्रिय, वर्णाश्रमर द्वितीय-वर्ण	क्षेत्री शागै, निङ्थौचा	ख्यत्रिय (क्षत्रिय)	क्षत्रियॅ जाति	क्षत्रियॅ कुलम्	क्षत्रियजाति	क्षत्रिय
क्षत्रिय (पुरुष)	क्षत्रिय पुरुश	क्षत्रिय पुरुष, छेत्री	क्षत्रिय (ख)	क्षत्रिय लोक	क्षेत्री मचा-मशु	क्षत्रिय	क्षत्रियुडु	क्षतिरियन्	क्षत्रियन्	क्षत्रिय
शक्ति	सामर्थ्य	सामर्थ्य, क्षमता	क्षमता (ख), सामर्थ्य (र्थ)	क्षमता, सामर्थ्य, बल	तौबा ङंबा	क्षमता, (ख्यमता) सामर्थ्य	सामर्थ्यमु	तिरुमै	कळिवुॅ	सामर्थ्य
योग्यता	पात्रता	पात्रता	क्षमता (ख)	सामर्थ्य, योग्यता	तौङंबा, थौङंबा	जोग्यता, सामर्थ्य.	सामर्थ्यमु	तगुदि	प्राप्ति	योग्यते, अर्हते
पात्रता	पात्रताय	तागत, क्षमता	क्षमता (ख)	सामर्थ्य, शक्ति	केपसिटी	क्षमता, शक्ति	सामर्थ्यमु, शक्ति	सामर्त्तियम्	सामर्थ्यम्	धारणशक्ति
क्षमा, माफी	क्षमा	क्षमा	क्षमा (ख), मार्जना	क्षमा, दोष-मार्जना	ङाक्पिबा	क्षमा (ख्यमा)	ओर्पु	मन्निक्कुम् इयल्बु	क्षम	क्षमे
माफी	माफी	माफी	माफ, क्षमा (ख)	क्षमा	ङाक्पिहैबा	क्षमा	क्षमापणॅ	मन्निप्पु	माप्पुॅ	क्षमे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्षय	पुं.	1. क्रमशः तथा प्राकृतिक रूप से होने वाला ह्रास	क्षय, ह्रासः	खै	ज़वाल	नाश	खइ	क्षय
		2. नाश	ध्वंसः, क्षय	खै	ख़ातिमा	नाश	नासु, खइ	नाश
		3. यक्ष्मा (टी.बी.) नामक रोग	यक्ष्मान्	खई रोग, तपदिक	दिक़ (तपेदिक़)	सिलुं	सिल्ह, तपेदिक	यक्ष्मा नामक रोग
क्षितिज	पुं.	जहाँ पृथ्वी और आकाश एक-दूसरे से से मिलते हुए जान पड़ते हैं	क्षितिज	दिसहद्द, दुमेल	उफ़ुक़	उफ़क	उफ़कु	क्षितिजु
क्षुधा	स्त्री.	भोजन करने की इच्छा, भूख	क्षुधा, बुभुक्षा	भुख	भूक	बोछि	बुख	क्षुधा, भूक
क्षेत्र	पुं.	1. जोता-बोया जाने वाला भूमिखंड, खेत	क्षेत्रम्	खेतर	खेत	खाह	खेत, बनी	शेती
		2. प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि दृष्टियों से निर्दिष्ट भू-भाग	क्षेत्रम्	—	ख़ित्ता, इलाक़ा	अलाकुं	खेत्रु	क्षेत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्षय	क्षय	ह्रास, क्षय	क्षय, (ख)	क्षय, ह्रास, ध्वंस, कमियोवा	लैखा तारक्पा, माङ्थरक्पा	क्षय	क्षयमु	तेय्दल्	क्षयम	कोरगु, क्षीणिसु
नाश	नाश	नाश	क्षय (ख) नाश	नाश, ध्वंस	माङ्बा	नाश, ध्वंस	नाशनमु	अऴिवु	नाशम	नाश
क्षय (रोग)	टी.बी., क्षयरोग, धंगरखांक	सुकेनास, राजयक्ष्मा, टी.बी.रोग	क्षय रोग, यक्ष्मा (ख)	यक्ष्मा, क्षयरोग, खेहरोग	टि.बि., लाइना	जक्ष्मा	क्षय रोगमु	काश नोय्	क्षय रोगम्	क्षय
क्षितिज	क्षितिज	क्षितिज	क्षितिज (ख)	दिग्बलय, दिगंत	येङ्खम्, होराइजन	चक्रबाल, दिगंत	दिगंतरेखा, दिग्वलयमु	अडिवानम्	चक्रवाळं	क्षितिज
क्षुधा, भूख	भूक	भोक	क्षुधा, खिदे	क्षुधा, भोक	अराबा, लांबा	क्षुधा, भोक	आकलि	पसि	विशप्पुं	हसिवु
क्षेत्र, जमीन, खेतर	शेत	खेत, फाँट-मैदान	क्षेत्र, खेत, जमि	खेतिर-माटी, खेतिर पथार ठाँई	लौबुक	क्षेत्र (क्खेत्र), जमि, खेत	पॉलमु	वयल्	वयल्	होल
स्थान, जगा	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र, भूभाग	लम्दम्, जोन	भूभाग क्षेत्र	क्षेत्रमु	निलप्पगुदि	प्रदेशम्	प्रदेश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
क्षेत्रफल	पुं.	किसी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई को गुणन करने से निकलने वाला वर्गात्मक परिमाण, रकबा	क्षेत्रफलम्, परिमाणम्	खेतरफल	रक़्बा	बाडव, रोंकबु	एराज़ी	क्षेत्रफळ
खंड	पुं.	1. टुकड़ा, अंश	खण्डम्	खंड	टुकड़ा	हिसुॅ	हिसो, भाङो, खंडु	खंड, तुकड़ा
		2. किसी संपूर्ण वस्तु का कोई विशिष्ट भाग या विभाग	अंशः, खण्डः, विभागः	खंड, वंड	जुज़्व (जुज़)	हिसुॅ	–	वस्तूचा विशिष्ट भाग किंवा विभाग
खंडहर	पुं.	इमारत या भवन, खंड-खंड होकर गिरा पड़ा हो, भग्नावशेष	भग्नावशेषः	खंडर	खंडर	खंडुरात, आसार	खंडहरु	भग्नावशेष
खंभा	पुं.	गोल या चौकोर रचना, जिस पर छत या कोई भारी चीज टिकी रहती है	स्तम्भः	खंबा	सुतून	च्यून (खंबा)	थंभु, थंभो	स्तंभ, खांब
खगोल	पुं.	आकाश, मंडल	खगोलः, नभोमण्डलम्	खगोल	कुरए-आसमान (कूरए-फ़लक)	आकाशि मंडुल	आकास मंडलु	आकाश मंडळु, खगोल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
क्षेत्रफळ (ल)	क्षेत्रफळ	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (खे)	क्षेत्रफल, परिमाण, माटीकाली	एरिया, पाक्पा चाओबा	क्षेत्रफल (खेत्रफल)	विस्तीर्णमु, वैशाल्यमु	परप्पु, विस्तीर्णम	क्षेत्रफलम्, विस्तीर्णम्	क्षेत्रफल
खंड, टुकड़ो, नानो भाग	खंड	खण्ड, टुक्रा	खंड, अंश, टुकरा	खण्ड, टुकुरा, डोखर	मचेत्	खंड, अंश	खंडमु, मुक्कँ	बागम्	खंडम्, कषणम्	तुण्डु
भाग	टुकडो, भाग	भाग, विभाग	विभाग	भाग, विभाग, खण्ड	शरुक्	–	भागमु	तुण्डु	अंशम्, भागम्	खंड
खंडेर	भग्न अवशेष	भग्नावशेष	भग्नाबशेष	भग्नावशेष	अमन्बा फुरा दोलाल	भग्नावशेष (भंगा अंश)	शिथिलमु, भग्नावशेषमु	इडिपाडु	भग्नावशेषम्	हाळु-बिद्द-मने, भग्नावशेष
थांभलो	खांबो	खाँबो, खाँभो	स्तंभ, थाम	स्तंभ, खुँटा	युंबी	खुंट, स्तंभ	स्तंभमु	तूण्, कंबम्	तूणुँ	कंब
खगोळ (ल)	खगोल	खगोल, आकाश-मण्डल	खगोल, आकाश मण्डल	आकाश मण्डल, नभोमण्डल	अतिया, नोङ्मदोल	आकाश-मंडल	आकाश मंडलमु	विण् वॅळि	आकाश मंडलम्	आकाश मंडल, खगोल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खटकना	अ. क्रि.	1. खट-खट की आवाज होना	√खटखटाय्	खटकणा	खटकना	अंदुॅरी दजुन, खटकुन्	खड़कणु	वाजणे
		2. बुरा मालूम होना	अन्तः√व्यथ्	खटकणा	खलना	–	चुभणु, खटिकणु	खटकणे, सलणे
खटाई	स्त्री.	1. खट्टे होने की अवस्था	अम्लता	खटिआई	खटाई	च़ोॅक्यर	खटाई (खटो सवाद), खटि	आंबटपणा
		2. कोई खट्टी वस्तु	अम्ल	–	–	–	खटाणि	आंबट वस्तू
खट्टा	वि.	जिसमें अम्लीयता हो	अम्ल	खट्टा	खट्टा	च़ोॅकं	खटो	आंबट
खड़ा	वि.	धरातल से सीधा ऊपर की ओर उठा	दण्डायमानः	खड़ा, खलोता	खड़ा, क़ाइम	खडा, वोॅदनि	सिधो, उभो, खड़ो	उभा
खड़ाऊँ	स्त्री.	काठ की बनी हुई एक प्रकार की पादुका	काष्ठपादुका	खड़ा, खड़ावां	खड़ाऊँ	खाव	चाखिड़ी, खड़ाऊ	खडावा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खटखट आवाज थवो	खणखणप	खट-खटाइनु	खट्खट् शब्द हओया	ठेका खाइ होवा शब्द, खट् खट् शब्द	थेङगाइनबा, तक्खाइनबा, मखोल थोक्पा	खट् खट्-शब्द हेबा	कटकटमनुट	तट्ट	तट्टुक	सद्दु आगुवुदु
खूंचवुं	खटकप	बिझ्नु	खटका हओया	मनत-बाज, मनत-जाग	खोइराङ् खोइशाओनबा	फटका-लागिबा	नच्चकपोवुट	मनदै उरुत्त	मनस्सिल् कॉळ्ळुक	केट्टदेनिसुवुदु, चुच्चुवुदु
खटाई, खाटापणुं	आंबटेवप	अमिलो	टक, अम्ल	टेङा गुण	अशिन्बा पोत	खटा, अम्ल	पुलुपु	पुळिप्पु	पुळि	हुळि
खाटी वस्तु	आंबट वस्तू	अमिलो पदार्थ, चुक	टक जिनिस	टेङा बस्तु	अशिन्बा पोत	खटा	पुल्लनि व-स्तुवु	पुळिप्पान वस्तु	पुळिक्कुन्न वस्तु	हुळि वस्तु
खाटुं	आंबट	अमिलो, अमिल्चुके	टक, खाट्टा	टेङा, टेङे-चीया	अशिन्बा	खटा	पुल्लनि	पुळिप्पान	पुळिच्च, पुळिरसमुळ्ळ	हुळियाद
ऊभुं	उबें	खडा, सोझो उभिएको	खाड़ा, दण्डायमान	थिय	लेप्पा	ठिआ, छिड़ा, दण्डायमान	निलबडिन	निन्रुकोण्डिरु-क्किर्	निल्क्कुन्न, कुत्तनंयुळ्ळ	निंतवनु
पावड़ी, चाखड़ी	खडाव	खराउ, कठपाउ	खड़म	खरम, काठर पादुका	खुरुम	कठउ, खड़म, पादुका	पावुकोळ्ळु	मिदियडि, पादुकै	मितियडि, पादुकम्	हावुगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खतरनाक	वि.	जोखिम-भरा	भीषण	खतरनाक	ख़तरनाक	खतरनाक	ख़तरनाक	भयंकर, जोखिमीचा
खतरा	पुं.	अनिष्ट, संकट आदि की आशंका	अनिष्टाशङ्का	खतरा	ख़तरा	खतरु	ख़तरो	धोका
खनिज	वि.	1. खान से खोद कर निकाला हुआ	खनिजम्	खणिज	मादिनी	मॉदनी (कानि मंज़ कोंडमुत)	खाणि मां खोटियलु	खनिज
		2. खनिज पदार्थ	आकरजम्, खनिजम्	–	मादिनीयात	–	मादनी पदार्थ	खनिज पदार्थ
खपत	स्त्री.	खपने या खपाने की क्रिया अथवा भाव; माल की बिक्री	विक्रय:, आपूर्ति:	खपत	खपत	खरचि	खपति	खपणे
खरा	वि.	1. विशुद्ध	विशुद्ध, निर्दोषि	खरा	खरा	शोंद	खरो, निजु, शुध	विशुद्ध खरा
		2. ईमानदार, सच्चा और शुद्ध हृदय वाला	निश्छल:	खरा	खरा	–	ड़े-वठुजे वंहिवार में खरो, सचो, ईमानदार	चोख

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खतरनाक, जोखम-भरेलुं	जोखिमी	खतरनाक	बिपज्जनक	भयावह, बिपदजनक	खुदोङ्थिनि-ङ्ङाइ ओइबा	बिपदजनक, भयाबह	प्रमादकरमर्यिन	अपायकरमान	अपकटकरम्	अपायकरवाद
भय, जोखम	धोको	खतरा, सम्भावित विपत्ति	बिपद	भय, बिपद	खुदोङ्थिबा	बिपद, भय	प्रमादमु	अपायम्	अपकटं	अपाय
खनिज	खनीज	खनिज	खनिज	खनिज, खनिजात, भूगर्भस्थ-धातु	खोनिदगी	खणिज	खनिजमु	सुरंगत्तिनिन्ऱु ऍडुत्त	खनियिल् निन्नु ऍट्टुत	खनिज
खनिज-पदार्थ	खनीज पदार्थ	खनिज पदार्थ	खनिज	खनिज पदार्थ	खोनिगी पोत	खणिज-पदार्थ	खनिज पदार्थमु	कनिप्पॊरुळ्	खनिज पदार्थम्	गणि पदार्थ, खनिज पदार्थ
खपत, मालनो उपाड़	खपप	खपत, उपभोग	काटति	प्रयोजनीय सामग्रीर खरच बा उपभोग	खप्पा	काटति, खर्च्च	वाडुकं, अम्मकमु	चॆलवादल्	चॆलवुॅ	खर्चु, वेच्च, व्यय
खरूं	खरो, अस्सल	शुद्ध, विशुद्ध, खाँटी	खाँटि, विशुद्ध	खाँटि, बिशुद्ध	तशेङ् तशेङबा अशेङ्बा	बिशुद्ध	शुद्धमयिन, कल्तीलेनि	शुत्तमान, असल्	शुद्धमाय, तनि	अप्पट
खरो	उजू	इमानदार, निष्कपट, शुद्ध	खाँटि, साच्चा	खाँटि, बिशुद्ध, खाटां	पुक्चेन शेङ्बा	खाण्टि, ठिक	निजायि-तीगल	नंबिक्कैयान	विश्वस्तन्, नेरुकारन्	साचा, प्रामाणिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खराद	पुं.	लकड़ी अथवा धातु की वस्तुओं को सुडौल तथा चिकना बनाने वाला यंत्र	शाण:	खराद	ख़राद	खह्रन	जंडी, ख़राद	रंधा
खरीद	स्त्री.	1. मोल लेने की क्रिया या भाव, क्रय	क्रय:, क्रयणम्	खरीद	ख़रीदारी	ह्यॉन	ख़रीद, ख़रीदारी	खरेदी
		2. वह जो खरीदा जाए	क्रीतम्	खरीद	ख़रीद	–	–	माल
खरीदना	स. क्रि.	मोल लेना, क्रय करना	√क्री	खरीदणा	ख़रीदना	मॅल्य ह्यॉन	ख़रीदणु, ख़रीद करणु	विकत घेणे
खरोंच	स्त्री.	नख अथवा अन्य किसी नुकीली वस्तु से छिलने के कारण पड़ा हुआ दाग या चिह्न, खराश	त्वग्व्रण:, नखाङ्क:, ईषत्क्षत	झ़रीट	खरोंच, ख़राश	जुॅल	रहिंड, रहिड़	बोचकारा
खर्च (खरच)	पुं.	1. धन, वस्तु, शक्ति आदि का होने वाला उपभोग, व्यय	उपभोग:, व्यय:	खरच	ख़र्च	खरॅच	ख़र्चु	खर्च
		2. वह धन-राशि, जो किसी वस्तु को खरीदने या बनाने के लिए व्यय की जाती है	व्यय	खरच	ख़र्च	खरॅच	ख़र्चु	खर्च
खलना	क्रि.	अनुचित, अप्रिय या कष्टदायक प्रतीत होना, अखरना, खटकना	अप्रियं/अनु√भू (कर्म॰), न √रुच्	खटकणा	खलना	खरुन	खटकणु	खटकणे, बोचणें, सलणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खराद, संघाडो	किसूळ, रंधो	रंडा	रँयादा	कुंद, रेंदा	फुंद्रै	रंदा	सार्न, चित्रिकं	कडैसल् यंदिरम्	कटच्चिल् चाण	कडेचलु-यंत्र
खरीद	खरेदी	खरिद, किनमेल	खरीद, क्रय	किना, क्रय किना-कार्य	लैबा	क्रय, किणिबा, खरिद	कांनुगोलु	विलैक्कु वांगुदल्	विलक्कुँ वाङ्ङल्	खरीदि, क्रय
माल	माल	मालसामान	खरिद, केना	किना बस्तु	लैगदबा, पोत	किणा, खरिद	कोन्नं सामानु	वांगिय पांरुळ्	क्रयवस्तु, वाङङिय वस्तु	पण्य
खरीदवुं	विकतो घेवप	किन्नु, खरिद्नु	खरिद करा, केणा	किन, किना	लैबा, लैबगी थबक तौबा	किणिबा	कांनुटं	विलैक्कु वाङ्ग	विलैक्कु वाङ्ङुक	कांळ्ळुवुदु
उझरडो	झरको	खेस्रिएको खत, दाग	आँचड़ेर दाग	आँचोर	खोत्पा	रांछुड़िबा, रांपुड़ा दाग	गंटु	सिराय्प्पु	पोरल्	गीटु, गीचु
खर्च	उपभोग	उपभोग खर्च	खरच, ब्यय	खरच, ब्यय	खोर्च	खर्च	खर्चु	चंलवु	चिलवुँ	खर्चु
खर्च	खर्च	खर्च	खरचा	खरच करा धन	खोर्च	–	विलुवं	उर्पतिच्चंलवु	चिलवुँ	वेच्च
खटकवुं	खटकप	बिझ्नु, चित्त दुख्नु, चस्किनु	अनुचित लागा, खाराप लागा	अप्रिय लगा, अप्रीतिकर बा कष्टदायक ह	शाओनिङ्बा, नुङ्ङाइतबा	खराप-लागिबा, अप्रिय लागिबा, अनुचित, अप्रिय, कष्टदायक	चंडुगा तोचुटं	अरुवरुप्पु-उण्डाग	विषममायि तोन्नुक पुण् पड	नोयुवुदु, केट्ट-द्दनिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खलिहान	पुं.	जहाँ फसल काट कर रखी, माँड़ी तथा ओसाई जाती है	खल	खलवाड़ा	खलियान	खाह	देरो	खळे
खली	स्त्री.	तिलहन का वह अंश, जो उसे पेर कर तेल निकालने के बाद बचा रहता है	खलि:, खली	खल	खली	खॅज	खड़ु	पेंड
खस्ता	वि.	1. भुरभुरा, बहुत थोड़ी दाब से टूट जाने वाला, कुरकुरा	भिदेलिम	खसता	ख़स्ता	खस्तुॅ	भुर्किणो	खुसखुशीत
		2. टूटा-फूटा, भग्न, दुर्दशाग्रस्त	भग्न	–	ख़स्ताहाल	खस्तॅ	ख़स्ता-हाल, भगुलु-भुरियलु	तुटलेले-फुटलेले
खाँसना	अ. क्रि.	खाँसी आने या होने का-सा शब्द करना, गला साफ करना	√कास्	खंघणा	खाँसना	ज़ास	खंघणु	खोकणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खळुं	खळो	खलियान	खामार, खेत-खामार	खोला शस्य रखा ठाँइ	फौ खाओरुरगा पैफम	खला	कळ्ळमु	कळत्तु मेडु	कळम्	कण
खोळ	पेंड	पिना, खली	खोल, खइल	खलिहै	थाओथी	पिड़िआ	गानुगपिंडि	पिण्णाक्कु	पिण्णाक्कुॅं	हिंडि
बरड	मुसमुसीत	कुरकुरे, नरम, कमलो	खास्ता, मुचमुचे	मुर-मुरीया, चनका, कोमल	अकेंबा	खास्ता, बहुत नरम, कोमल	मेतकॅ, बोलु	मुरुगलान	पॉरिञ्ञ, अमर्त्तियाल् पॉट्टुन्नु	गरिगरि, ओडेदु चूरागुव
तूटेलुं, भांगेलुं	तुटकें-फुटकें	टुटेफुटेको, भत्केको, जीर्ण	खास्ता	भङा-फुटा, भगा, दुर्दशाग्रस्त	—	भग्न, भंगा, फुटा, फटा, दुर्दशाग्रस्त	भग्नमयिन	इडिंद उडैंद, नलिवडैंद	पॉट्टिय, मोश स्थितियिल् उळ्ळ	जीर्ण, भग्न
खांसवुं	खांकप	खोक्नु	कासा	काह, काहा	लोक् खुबा, खौदेंबा	खासिबा, काशिबा	दग्गुट	इरुम	चुमय्क्कुक, कुरय्क्कुक	केम्मुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खाई	स्त्री.	1. दुर्ग के चारों ओर खोदा हुआ गहरा स्थान जो पानी से भरा रहता है	परिखा, परिखात	खाई	ख़ंदक़	खय	खाही	खंदक
		2. युद्ध क्षेत्र में छिप कर गोली चलाने के लिए खोदे जाने वाले गड्ढे	खात	–	खाई	खंदुख	खंदक	खंदक
खाकी	वि.	खाक अर्थात् मिट्टी के रंग का, भूरा	धूसर	खाकी	ख़ाकी	खॉक्य	ख़ाकी (रंग जो)	भुरकट, खाकी
खाट	स्त्री.	चारपाई	खट्वा	मंजी	चारपाई, खाट	चारपाय	खट	बाज, खाट
खाद	स्त्री.	सड़ाया हुआ गोबर, पत्ते आदि	उर्वरकम्	खाद, रेह	खाद	पाह, खाद	भाणु	खत
खादी	स्त्री.	खद्दर	हस्तवासस्	खंद्दर, खादी	खादी	खदुॅर	खादी	खादी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खाई	खळी	कुलेंसो, कुलो, खाई	खाई	खाई, खाल, दीथल-बहल	लोक्चप, लोक्लुङ्	खाई, खाल	कंदकमु	किडंगु	ट्रेंच	तेग्गु, कंदक
संरक्षणार्थे खोदेलो खाडो	खंदक	खाल्टो/ खाल्डो	परिखा	खाल	कोम	खाल	कंदकमु	किडंगु	ट्रेंच्, कुळि	कोळ्ठ
खाखी (रंग)	खाकी	खाकी	खाकी रंग	मटीया बा खाकी रंग	खाकी, अवाओबा	माटिआ	खाकी रंगु	पळुप्पनिऱम् मण्णिऱमान	काक्कि निऱम्	खाकि
खाटलो	खाट	खाट	खाट, खाटिया	खाट, तक्तापोश	चारपाई, थौंरीना शाबा काङथोल	खट, खटिआ	मंचमु	कट्टिल्	कट्टिल्	होरसु
खातर	सारें	मल	सार	पचन, सार	हार	खत	एंरुवु	एंरु	वळम्	गोब्बर
खादी	खादी	खाँडी, खादी	खादि, खद्दर	खादी, खद्दर	खादी	खदि	खादी, खद्दरु	कदर् तुणि	खादि, खदर्	खादि, खद्दर्

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खाद्य	वि.	जो खाए जाने योग्य हो, भोज्य	खाद्य	खाण-जोग	खुर्दनी	ख्यन, खो'रदनी	खाइण जोगो	खाद्य
	पुं.	1. खाए जाने वाले पदार्थ	भक्ष्यपदार्थ, खाद्यम्	खाध, खाध-खुराक	खूराक	ख्यन	खाजु, खाधी	खाद्य पदार्थ
		2. भोजन	भोजनम्	खाध, खाध-खुराक	खाना	ख्यन	–	भोजन
खाद्यान्न	पुं.	वे अन्न जो खाने के काम आते हैं	खाद्यान्नम्	अन्न, अनाज	ग़ल्ला	अनाज	अनु, अनाजु	खाद्यान्न
खान	स्त्री.	1. वह स्थान, जहाँ से धातु, पत्थर आदि खोद कर निकाले जाते हैं	खनिः, आकर	खान	कान	कान	खाणि	खाण
		2. वह स्थान, जहाँ कोई वस्तु अधिकता से होती या पाई जाती है	आकरः	खान	कान	कान	–	खाण
खाना	स. क्रि.	भोजन करना	✓ खाद्	खाणा	खाना	ख्यौंन	खाइणु	खाणें, भोजन करणें
		1. भोजन	भोजनम्	खाणा	खुराक	ख्यन	खाधो	भोजन
		2. दीवार, आलमारी, मेज आदि में रखने का स्थान	कोष्ठः	खाना	ख़ाना	–	ख़ानो	कप्पे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खाद्य	खाद्य	खाद्य	खाद्य	खाद्य, भक्ष्य, भोज्य	अचापोत्	खाद्य, भक्ष	तिनि दगिनि	उण्णत्तहुंद	खाद्यम्	भक्ष्य
खाद्य पदार्थ	खावचे पदार्थ	खाइने पदार्थ	खाद्य वस्तु	खाद्य-पदार्थ, आहार	अचापोत्	खाद्य-पदार्थ	तिनुबंडा-रमुलु	उणवुप्पॊरुळ्	खाद्य वस्तु	खाद्य
भोजन	जेवण	भोजन, खानेकुरा	आहार खाबार	भोजन, आहार	चाक्	भोजन	आहारमु	साप्पाडु	भक्षणम्	ऊट, खाद्य पदार्थ
खाद्य अनाज	खाद्य-अन्न	खाद्यान्न	शस्य	खाद्य शस्य	चेङ्-हवाइ	खाद्यान्न	खाद्यान्नमु, तिने धान्यमु	उणवु दानियंगळ्	भक्ष्यधान्यम्	खाद्य धान्य गळु
खाण	खनीज	खानि, खानी	खनि	खनि, आकर	खोनि	खणि	गनि	कनि, सुरंगम्	खनि	गणि
खाण	मीनाखण	खानि	आकर	आकर	खोनि	खणि	गनि	चॆळिप्पाह किडैकुं इडम	शेखरम्	भंडार
खावुं	खावप	खानु	खाओया	खा, भोजन-कर बा करा	चाबा	खाइबा, भोजन-करिबा	तिनुटॆ	साप्पिड	तिन्नुक, उण्णुक	ऊट माडुवुदु
भोजन	खाण, जेवण	भोजन	भोजन, आहार	भोजन, खाना, खोवाबस्तु	चाक्	भोजन	भोजनमु	साप्पाडु, उणवु	भक्षणम्	ऊट
खानुं	कुरकूट, खण (वटणींत) (आरमारींत)	खण्ड, खाना	देयालेर ताक	बस्तु रखा ठाइ	काखल्	थाक	सॊरुगु	अलमारि/ शुवर् गळिल् अरैगळ्	अर्, कळ्ळि	गूडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खारा	वि.	जिसमें क्षार का अंश या गुण हो	क्षार, लावणिक	खारा	खारा	नूनुँदार	खारो (सवाद में)	खारट
खाल	स्त्री.	त्वचा, चमड़ा	चर्मन्, त्वक्	खल्ल	खाल	मुँसलुँ	खल	चामडी
खाली	वि.	1. रिक्त	रिक्त	खाली	ख़ाली	छ़ोंर	ख़ाली	रिकामा, रिता, रिक्त
		2. रोजगार-रहित	निरुद्यम	खाली	बेकार, बेरोज़गार	बेकार	वांदो	बेकार
		3. जो उपयोग में न आ रहा हो	अविनियुक्त	खाली	ग़ैरमुस्तामल	ब्यूठ	ख़ाली, बेकार	निरुपयोगी
खास	वि.	विशेष, विशिष्ट	विशिष्ट	खास	ख़ास	खास	ख़ास	खास
खिड़की	स्त्री.	दीवार में छोटे दरवाजे की तरह का स्थान	वातायन	बारी, खिड़की	खिड़की	दॉर	दरी, गिड़िखी	खिडकी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खारूं	खारट	खारो, नुनिलो, क्षारयुक्त	लबणाक्त (न)	खार, खार-लगा खारुवा, लुणीया	अयाक्पा, थुम्ही चेन्बा	लुणिआ	उप्पनि	उप्पु-क्करिक्किर्	क्षारमुळ्ळ, उप्पुरसमुळ्ळ	उप्पाद
खाल, चामड़ी, त्वचा	कात	छाला, त्वचा, चर्म	चामड़ा, छाल	छाल, चामरा	शऊन, मऊन	त्वचा, चम, चर्म	तोलु, चर्ममु	तोल्	तोलॅ	चर्म, तोगलु
खाली	रितें, रिकामें	खाली, रित्तो	खालि, रिक्त	खाली, शून्य	अहाङ्बा	खालि, रिक्त, शुन्य	खाली	कालियान	कालियाय, ऑळिञ्ञ	खालि, बरिदाद
बेकार	बेकार	बेकार, बेरोजगार	खालि, बेकार	निबनुवा	थबक् लैतबा	रोजगार-रहित (बेकार)	उद्योगमु-लेनि	वेलै इल्लाद	तोळिल् इल्लात्त	निरुद्योगि
निरुपयोगी	व्यर्थ	खाली, बेकाम	कोनो काजेर नय	कोनो-कामत नहा, अकामिला	शिजिन्नद्रबा	बेरोजगार, अनुपयोगी	खाली	उबयोगमट्ट	उपयोगत्तिल् इल्लात्त	उपयोगक्के बारद
खास	खास	खास, विशिष्ट	खाश, बिशिष्ट	बिशिष्ट, बिशेष	अथोइबा	बिशिष्ट	मुख्यमयिनॅ	विशेषमानॅ	प्रत्येकम्	विशेष
बारी	जनेल	झ्याल	जानाला, खिड़कि	खिरिकी, खिड़िकी	थोङ्नाओ	झरका	किटिकी	जन्नल्	जन्नल्	किटकि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खिन्न	वि.	1. उदास, विकल	खिन्न, विषण्ण	उदास	अफ़्सुर्दा	वोंदास	उदास	खिन्न
		2. अप्रसन्न, असंतुष्ट	अप्रीत, विकल	उदास	रंजीदा	–	नाराज़, बेज़ार	चिंतित, असंतुष्ट
खिल-खिलाना	अ. क्रि.	बहुत प्रसन्न होने पर खुलकर हँसना	उच्चैः/सशब्दं ✓हस्	खिड़खिड़ाउणा, हस्सणा	खिलखिलाना	स्यठाह खोंश सपदुन	ड॒ाढियां खिलणु, टहकु ड॒ियणु	मोठ्याने हंसणे
खिलना	अ. क्रि.	1. कली या फूल का पंखुड़ियाँ खोलना	वि✓कस्	खिड़णा	खिलना	खोंश सपदुन	टिड़णु, खिड़णु	उमलणे
		2. कोई सुखद कार्य या बात होने पर आनंदित होना	✓मुद्	खिड़णा	खुश होना	खोंश सपदुन	–	प्रसन्न होणें
		3. सुंदर लगना, फबना	✓रुच्	खिड़णा	–	खोंश सपदुन	ठाहूको लग॒णु	सुंदर दिसणे, शोभणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खिन्न, उदास, गमगीन	उदास	खिन्न, उदास	खिन्न, उदास, विकल, बिषन्न	बियाकुल, उदास	नुङ्नाङ्बा	बिषण्ण, उदास, ब्याकुल	खिन्नतं चेंदिनं	वरुत्तमडैंद	दुखितन्, खिन्नन्	उदास
चिंतित, असंतुष्ट	असंतुष्ट	अप्रसन्न, क्षुब्ध	अप्रसन्न, असंतुष्ट	बिषण्ण, मनमरा, असंतुष्ट	पेंदबा	अप्रसन्न, बिषण्ण, असंतुष्ट	दिगुलु-पडिनं	मनम् वंदुंबिय	अप्रसन्नन्, दुखितन्	अप्रसन्न
खड़खड़ाट हसवुं	व्हडल्यान हांसप	खिलखि-लाउनु, खिलखिल हाँस्नु	खिलखिल करिया हासा	खिलखिला, खिलखिलाइ हाँहा	फाक् फाक् नोक्पा हराओना नोक्पा	खिल् खिल हसिबा, मनखोला-हस	पकपकनव्वुटं	उरक्क-च्चिरिक्क	पांट्टिच्चि-रिक्कुक	जोरागि नगुवुदु
खीलवुं	फुलोर	फक्रनु	फोटा, प्रस्फुटित हओया	मेल, मेलखोवा खोल, बिकसित ह	शात्पा, शात्काइबा	फुटिबा, प्रस्फुंटित	विकसिंचुटं	मलर	विटरुक	अरळुवुदु
प्रसन्न थवुं	प्रसन्न जावप	खुसी हुनु, दङ्गिनु	प्रफुल्ल हओआ	आनंद-होवा	मका लांबा, हराओबा	प्रफुल्ल, आनंद	संतोषं पडुटं	मनम् मगिळ्	आनंदिक्कुक	संतोषपडुवुदु
सुंदर देखावुं, शोभवुं	सुंदर दिसप	सुहाउनु, राम्रो देखिनु	भालो लागा	भाल-लाग	फजथोक्पा	सुंदर, भल	शोभिंचुटं	अळगाह तोन्र्	सुंदरमायि तोन्नुक	शोभिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खिलाड़ी	पुं.	खेल खेलने वाला	क्रीडक	खिडारी	खिलाड़ी	खिलॉड्य	रांदीगरु, खिलाड़ी	खेळाडू
खिलाना	स.	1. भोजन कराना	✓भोजय्	खुआउणा	खिलाना	ख्यावुन	खाराइणु	जेवायला धालणे
		2. खेल खिलाना	✓क्रीडय्	खिडाउणा	–	गिंदुँनावुन	राँदि कराइणु, खेडाइणु	खेळ खेळविणें
		3. दुलारना	✓लल्	खिडाउणा	–	–	कुडाइणु	लाड करणें
खिलौना	पुं.	1. बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई धातु, मिट्टी आदि की आकृति, चीज या सामग्री	क्रीडनक	खिडौणा	खिलौना	तमाशुँ	रांदीको, खिलौनो	खेळणें
		2. मन बहलाने का साधन या सामग्री	विनोद	–	–	–	–	खेळणें-मन वळविण्याचें साधन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खेलाड़ी	खेळपी, खेळगडो	खेलाडी	खेलोयाड़, खेलुड़े	खेलुवै, खेलोंता	शानरोइ	खेलाली	आटगाडु	विळैयाडुबवन्	कळिक्कारन्	आटगार
जमवुं	जेवण वाडप	खुवाउनु	खाओयानो	खुवा	पिजबा	खुआइबा	तिनिपिंचुट	ऊट्ट, उणवु कोडुक्क	ऊणु कळिप्पिक्कु-क, तीट्टुक	ऊट, माडिसुवुदु, तिन्निसुवुदु
रमाडवुं	खेळ खेळवप	खेलाउनु	खेलानो	ओमला मोकोला	शानहन्बा, शान खोत्लहनबा	–	आडिंचुट	विळैयाड्-चर्च्य्य	कळिप्पिक्कुक	आडिसुवुदु
लाड करवां	अपुरबाय करप	लाडप्यार गर्नु	आदर करा	मरम कर	लुना चान्ना तौबा	गेल करिबा, आदर करिबा	मुद्दाडुट	चेल्लम् कोंज	कोञ्जिक्कुक	मुद्दाडुवुदु
रमकडुं	खेळणें	खेलौना	खेलना	खेल्ना, खेलार सामग्री	शानपोत्	खेलना	आटव-स्तुवु, बोम्म	विळैयाट्टु सामान्	कळिप्पाट्टम्	आटद-सामानु
मन बहलाव-वानुं साधन के सामग्री	मन भुलौचे साधन	खेलबाडको सामग्री	मन भोलानो बस्तु	पुतला बा तेने मन मन भुलोवा सामग्री	हराओहन्नबा पोत्	मनभुला-बस्तु	आटव-स्तुवु	मागिळ्च्चि-तरुम् वस्तु	विनोद-सामग्रि	आटद-सामानु, आटिगॆ-सामानु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खिसकना	अ. क्रि.	1. सरकना	✓सृ, ✓सृप्	खिसकणा	खिसकना	हिलुन, नीरिथ-च़लुन	सुरणु	सरकणे
		2. किसी वस्तु का अपने स्थान से कुछ हट जाना	✓भ्रंश्	खिसकणा	–	नीरिथ-च़लुन	खिसिकणु	सटकणे
		3. चुपके से उठ कर चल देना	अप✓सृप्	खिसकणा	खिसकना	लिपुॅर थवुॅन्य	खिसिकणु	सटकणे
खींचना	स.क्रि.	1. किसी वस्तु को बलपूर्वक अपनी ओर लाना या अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ना	आ✓कृष्	खिच्चणा	खींचना	लमुन	छिकणु	ओढणें, खेचणे
		2. किसी वस्तु या स्थान में स्थित किसी दूसरी वस्तु को बलपूर्वक बाहर निकालना	निस् ✓कास्	खिच्चणा	–	लमुन	छिके कढणु	बाहेर ओढणें, खेचणे
		3. किसी वस्तु का तत्व, सार या सुगंध निकालना	अप ✓सारय्	खिच्चणा	–	सत/ऑरख-कडुन	अर्कु कढणु	अर्क काढणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सरकवुं	सरकप	घस्रनु, घिस्रनु	पालिए जाओया	चुचरि या	चङ्शिन्बा, हंदोकखिबा	खसिजिबा	जरुगुट	उट्कार्न्द- पडिये नगर	निरङ्ङुक	सरियुवुदु
हटवुं	हटप	सर्नु	पालिए जाओया	आतरि योवा	मफम हंदोक्पा	हठात- चालिजिबा	जरुगुट	ओरु पोरुळ् तन् इडत्तिलिरुंदु नर्गन्र्दु पोग	वळुतुक	जारुवुदु
खसवुं	कूस- पारप	हट्नु, हिँड्नु, सुइँकुच्चा ठोक्नु	–	आतरि दिया ऑतर ह	तुमिन्ना हौगत्खिबा चत्खिबा, स्वाइ माङ्खिबा	खसि- पलाइबा	जारु- कोनुट	नळुव	तटि तप्पुक	जारिको- ळ्ळुव
खेंचवुं	वोडप	तान्नु	टाना, खेँचा, आकर्षण	टान, आकर्षण कर	चीङ्बा	टाणिबा, आकर्षित- करिबा	लागुट, तीयट	इळुक्क	वलिक्कुक	ऐळेयुवुदु
जोर थी बहार काढवुं	खेंचप	तान्नु, निकाल्नु	हेँचड़ानो	टानि उलिया	चिङ्थोकपा, शत्तोक्पा	टाणि- आणिबा	लागुट, पीकुट	इळत्तु वॆळिये एंडुक्क	वलिच्चु पुरत्तटुक्कुक	तेगेयुवुदु
कोई पण चीजनो अर्क काढवों	अर्क- काडप	निकाल्नु, झिक्नु	–	उलिया	लौथोक्पा	सार- बाहार- करिबा	रसमु तीयुट	सारत्तै पिळिय	पिळिञ्ञ- टुक्कुक	तेगेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खुजली	स्त्री.	1. शरीर के किसी अंग में रक्त का संचार रुक जाने के कारण होने वाली सुरसुरी	कण्डूतिः, खर्जु	खुरक, खुजली	खुजली, ख़ारिश	तॅछिन्य	ख़ारिस, खुजिली	खाज
		2. खाज	कण्डू, कण्डु	खुरक, खुजली	ख़ारिश	खॉरिश	ख़ारिस, खाजि	खरूज, खाज
खुजाना	स. क्रि.	शरीर के किसी अंग में खुजली होने पर उस स्थान को नाखूनों अथवा उँगलियों से बार-बार मलना या रगड़ना	✓कण्डू , ✓घृष्	खुरकणा	खुजाना	कशुन, तछुन	खनहणु	खाजविणे
खुदरा	पुं.	1. किसी चीज के छोटे-छोटे अंश, खंड या टुकड़े, फुटकर	क्षुद्र	फुटकर	खुर्दा	छांठ	रेज़ो, खुर्दो	किरकोळ, फुटकळ, चिल्लर
		2. वस्तु को थोड़ा-थोड़ा बेचना	क्षुद्रविक्रयः	परचून	परचून	परचून	रेज़िकी	किरकोळ
	वि.	थोड़ा-थोड़ा करके बिकने वाला	–	परचून	खुर्दा	–	रेज़िकी	किरकोळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खुजली, चळ, खंजवाळ	खरपप	चिलचिलाइ	सुड़-सुड़ि	सुरसुरणि, पिरपिरनि	हाकजबा	कुंडेइ-हेबा	दुरद, नव्व	अरिप्पु	चांरिच्चिल्	नवे, तुरिके
खस	खाज	लुतो	चुलकुनि	खजुवति, खजुलि	फुरी थुङ्बा	कुंड़िआ (रोग)	गज्जि	चांरि	चांरि	कज्जि
खणवुं	खाजवप	चिलाउनु	चुलकानो	चिलाउनु	होत्पा	कुंड़ाइबा	गोकुट, गीकुट	चांरिय	चांरियुक, मांतुक	कंरेयुवुदु
खुड़दो, खुरदी, परचूरण	तुकडे	खुद्रा	खुचरो, टुकड़ो	सरु सरु खण्ड, टुकुरा	मकुप	खुचुरा	चिल्लर सरुकुलु	चिल्लरै सामान्	चिल्लर्	चिल्लरे-सामानु विक्रय
परचूरण	किरकोळ	फुटकर मालसामान	खुचरा	खुचुरा, खुचुरिया	अचोइबा, मचोइ मचोइबा	खुचुरा बिक्रय	चिल्लर अम्मकमु	चिल्लरै विर्पनै	चिल्लर् कच्चवटम्	चिल्लरे
परचूरण	चिल्लर	फुटकर	खुचरो बिक्रि	खुचरा बिक्रि	चोइना, चोइना-चोइना	खुचुरा विक्रेता	चिल्लर अम्मकमु	चिरिदु चिरिदाग विर्पनै	चिल्लरयायि विल्क्कुन्न	चिल्लरे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खुर	पुं.	कुछ पशुओं के पैरों का अगला सिरा, जो प्राय: गोल तथा बीच में से फटा हुआ होता है	खुर:	खुर	खुर, सुम	पडुर	खुरु	खूर
खुरचना	स. क्रि.	किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार रगड़ना कि वह कुछ छिल जाए	✓घृष्	खुरचणा	खुरचना	जुॅंलुन	खुरिचणु, छिलण	खरडणें
खुराक	स्त्री.	1. खाद्य पदार्थ, भोजन, आहार	आहार:, भोजनम्	खुराक	खुराक	खोॅराख	ख़ोराक, खाधो	भोजन, खाद्य पदार्थ, आहार.
		2. किसी पदार्थ की एक नियत मात्रा, इकाई	मात्रा	खुराक	खुराक	डंग	ख़ोराक	भोजनाची मात्रा, खुराक
खुश	वि.	प्रसन्न, संतुष्ट	प्रीत, सन्तुष्ट	खुश	खुश	खोॅश	खुश	खुश, प्रसन्न, संतुष्ट
खुश-किस्मत	वि.	अच्छे भाग्यवाला, सौभाग्यशाली, भाग्यवान	सौभाग्यशालिन्, भाग्यवत्	खुशकिसमत	खुशक़िस्मत	खोॅश कुॅस्मत, बाग्यवान	खुशकिस्मत	भाग्यवान, नशीबवान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खरी	टाप, खूर	खुर	खुर	खुरा	खुर	खुरा	गिट्ट	कुळंबु	कुळंपुं	गोरसु
उझरडवुं	खरडप	खुर्कनु, ताछ्नु, उप्काउनु	चाँछा	रोक, रोकिया	खोत्पा, खोत्तत्पा, होत्पा	रांपिबा	गीरुट	तुरुव, चुरण्ड	चुरण्डुक	कॆरॆदु तॆगॆ
खोराक	आहार	खाद्य पदार्थ, भोजन	खोराक, आहार	आहार, भोजन, खुराक	चिन्जाक्	आहार, भोजन	भोजनमु, आहारमु	उणवु	भक्षणम्	आहार, ऊट, भोजन
भोजन	जेवणाची मात्रा	खुराक, खानाको मात्रा	खोराक, औषधेर मात्रा	खोराक	चाक्लुक	खाइवा-परिमाण	डोसु	ऑरु मुरै शाप्पिडुम् उणवु	ऑरु नेरत्ते आहारं	ऑंदु-हॊत्तिन ऊट
खुश	खोस, खुशी	खुस, प्रसन्न	प्रसन्न, खुशी	प्रसन्न, सूखी, आनंद, संतुष्ट	हराओबा, अपेन्बा	खुसि, प्रसन्न	संतोषमुर्पादिन	संतोषमान, मगिळ्चियुट्ट	संतोषमुळ्ळ	प्रसन्न
खुश-किस्मत, नसीबदार	नशीबवान	भाग्यशाली, भाग्यमानी	सौभाग्य शाली, भाग्यबान	भाग्य	लाइबक फबा, मराइबक फबा	भाग्यबान्, सोभाग्यशाली	अदृष्टवंतुडु	बाग्गिय शालि	भाग्यवान्	अदृष्टशालि, भाग्यवंत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खुशखबरी	स्त्री.	शुभ समाचार	शुभवार्ता, सुसंवाद	खुशखबरी	खुश ख़बरी	खुशखबरी	खुश ख़बरी, शुभ समाचार	खुश खबर
खुश्क	वि.	1. सूखा	शुष्क	खुशक	खुश्क	खोंशख	खुश्क	कोरडा, शुष्क
		2. चिकनाई रहित	रुक्ष	रुक्खा	–	होंख	–	–
		3. जिसमें कोमलता या रसिकता न हो	अरसिक	–	खुश्क	–	–	शुष्क
खून	पुं.	1. रक्त, रुधिर, लहू	रक्तः, रुधिर	खून	खून.	खून, रथ	खून	रक्त, रुधिर
		2. हत्या	वधः	खून	क़त्ल	–	हत्या	खून

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खुश खबरी	बरी खबर	खुसखबरी, खुसीको खबर	सुसंबाद, आनंद-संवाद	शुभ बार्त्ता, सुखबर	याइफबा पाओ, नुङङाइबा पाओ, हराओ-नुङङाइबा पाओ	शुभ-समाचार, भल-खबर	शुभवर्त्त	नर्चॅय्दि	नल्ल वर्त्तमानम्, संतोष वार्त्त	शुभ समाचार
सूकुं	सुको	सुक्खा	शुष्क	शुकान, शुष्क	अकङ्बा	शुखिला, सुष्क	एॅण्डि-पोयिनॅ	उलंर्द	ईर्प्पमिल्लात्त, उणङ्ङिय	ऑणगिद
रूअ	—	रुखो, रुखा	रुक्ष	रुक्ष, खहटा	जबौ-जबौ लाओबा	शुष्क, शुखिला, रुक्ष	गरुकयिनॅ	वरण्ड	ऍण्णमय-मिल्लात्त	जिड्डिल्लाद, वणगिद, स्वाद इल्लद
शुष्क	शुष्क	सुक्खा, फुस्रो, खस्रो	नीरस, कर्कश	नीरस, कर्कश	मोंदबा	रसहीन, निरस, कर्कश	नीरसॅ मयिनॅ	रसिकत्तन्मै इल्लाद	विरसनाय	नीरसवागिरुव
खुन, लोही, रक्त	रगत	रगत, रक्त	रक्त, रुधिर	तेज	ई	रक्त, रुधिर	रक्तमु, नॅत्तुरु	रत्तम्	चोर	रक्त, नेत्तरु
—	खून, हत्या	हत्या, मारकाट	खुन, हत्या	हत्या, बध	मी हात्पा	हत्या, बध	हत्यॅ, खूनी	कॉलै	कॉल	कॉले, खूनि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खूब	वि.	सब प्रकार से अच्छा और उत्तम, बढ़िया	अत्युत्तम	खूब	ख़ूब	खूब, कॉफी	ख़ूब	चांगला, उत्तम
	क्रि. वि.	अच्छी तरह से, भली-भाँति	सम्यक्	खूब	ख़ूब	–	–	फार चांगल्या प्रकारे
खूबसूरत	वि.	सुंदर	मनोज्ञ, मनोहर	खूबसूरत	ख़ूबसूरत	खूबसूरत, खोंश शकुॅल	ख़ूबसूरत	सुंदर सुंरख, देखणा
खेत	पुं.	वह भू-खंड, जो फसल उपजाने के लिए जोता-बोया जाता है	क्षेत्रम्	खेत	खेत	खाह	खेतु, ब̱नी	शेत
खेतिहर	पुं.	जमीन को जोत-बोकर उसमें फसल उपजाने वाला व्यक्ति, किसान, कृषक	कृषाण:, कृषक:	वाहीवान, वाहीकार, किरसाण	किसान	ग्रूस	हारी, किसानु	शेतकारी
खेती	स्त्री.	1. खेत को जोतने-बोने तथा फसल उपजाने की कला तथा काम	कृषिकर्म	खेती	खेती	ग्रीस्य कार, खाहुॅ-कॉम	खेती	शेती
		2. खेत में बोई हुई फसल	कृषि:, शस्यम्	खेती	फ़स्ल	फसुॅल	फ़सुलु	पीक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खूब, सारुं, सुंदर	खूब, बरें	खूब, उत्तम, बढिया	खुब, भाल, उत्तम	बेच, बढ़िया, अति उत्तम	याम्ना अफबा	खुब, उत्तम, बढिआ	मंचि, उत्तममयिन̄	चिरुंद	मेल्त्तरम्	उत्तमवाद, अंदवाद
घणुं	उत्तम	राम्ररी	भाल भाबे	बेच भालकै	याम्ना फजना	भल-भाबरे, उत्तम भाबरे	बागुगा	नन्राग	सुंदरमाय	चॆन्नागि, बेकादष्टु
खूबसूरत	सुंदर, देखणो	राम्रो, सुंदर, आकर्षक	सुंदर, आकर्षक	बढ़िया, सुंदर	निङ्थिजबा, याम्ना फजबा	बढ़िया, सुंदर	अंदमयिन̄	अऴगान	सुंदरमाय, अऴकुळ्ळ	सुंदरवाद, अंदवाद
खेतर	शेत	खेत, जग्गा	खेत	खेति, खेतिर पथार	लौबुक, लौ ऊनबा लम्	खेत, जमि	पॉलमु	वयल्	वयल्	हॉल, गद्दॆ
खेडूत	शेतकार, शेतकामती	खेतालो, किसान	चाषा, कृषक	खेतियक, कृषक	लौमी, लौ उबा मी	कृषक, चषा	रैतु, कर्षकुडु	कुडियानवन्	कर्षकन्, कृषिक्कारन्	रैत, ऑक्कलिग
खेती	शेती	कृषि	चाष	खेति, कृषि	लौउबा	चाष, कृषि कर्म	व्यवसायमु	विवसायम्, पयिर् तोऴिल्	कृषिप्पणि	बेसाय
फसल	पीक	खेती, बाली	फसल, शस्य	शस्य, खेति	लौबुक्ता हौबा महै-मरोङ्	फसल	पैरु	पयिर्	विळ	बॆळॆ, पैरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खेद	पुं.	कोई अपेक्षित काम न करने अथवा कोई काम या बात ठीक तरह से न होने पर मन में होने वाला दुख, अप्रसन्नता, रंज	खेदः	अफसोस, खेद	रंज, अफ़सोस	दौंख	डुखु, अफ़सोस	खेद
खेना	स.क्रि.	डांड़ों की सहायता से नाव को चलाना	✓चालय्	खेवणा	खेना	नाव वायिन्य	बेड़ी हलाइणु, वंझु हणणु	वल्हविणे
खेल	पुं.	1. मन बहलाने के लिए किया जाने वाला कोई काम, क्रीड़ा	खेल:, क्रीडा	खेड	खेल	खेल	खेलु, रांदि	खेळ
		2. बहुत साधारण या तुच्छ काम	लीला, क्रीडा	खेड	–	खेल	–	खेळ, तुच्छ कार्य, सोपी गोष्ट
खेल-कूद	स्त्री.	1. खेल, क्रीड़ा	क्रीडा	खेड	खेलकूद	गिंदुन	रांदि-रूंदि, ठेंग-टपा	खेळ-क्रीडा
		2. (बच्चों की) उछल-कूद, आमोद-प्रमोद, कल्लोल	आमोद-प्रमोद	–	–	–	–	खेळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खेद, रंज, दुख	दूख	खेद, क्षोभ	खेद, दुख	खेद, दुख, अनुशोचना	नुङ्ङाइतबा	दु:ख	दुखमु, विचारमु	वरुत्तम्	खेदम्, दुखम्	दुख, व्यर्थ
हलेसां मारवां	होडें ताणप	खियाउनु, डुङ्गा चलाउनु	दाँड़ चालानो	(नाओ) बा	होन्बा	नौका-चलाइबा, कात-मारिबा	तंड्लुवेयुट	तुडुप्पाल् पडगोट्ट	तुळयुक	हुट्टु हाकुवुदु
खेल, रमत	खेळ	खेल, क्रीडा	खेला (ख्याला)	खेल, धेमालि	शान्नबा	खेल, क्रीडा, खेलकुद	आट	विळैयाट्टु	विनोदम्, कळि	आट
सरल काम	सोंपे	तुच्छ काम, मामुली काम	तुच्छकाज	साधारण बा तुच्छ काम	अराइबा थबक्	तुच्छ काम, साधारण-काम	आट	मिग एळिदान वेलै	एळुप्पमाय	आट
रमत-गमत	खेळ, क्रीडा	खेलकुद	खेला, क्रीड़ा	खेल-धेमालि	शान्न-खोत्लबा	खेल-क्रीड़ा	आटलु-पाटलु	विळैयाट्टु	कळि	आटपाट
खेल	खेल	मनोविनोद, खेलाँची	खेला-धूला	खेल-धेमालि	चोङ् फनबा	पिलांक-खेलकुद	आटपाटलु	ओट्टमुम् कुदियुम्	चाट्टवुम् कळियुम्	जिगिदाट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खेलना	अ.क्रि.	1. मन बहलाने के लिए शारीरिक क्रियाएँ करना	✓क्रीड्	खेडणा	खेलना	गिंदुन	खेडुणु, रांदि करणु	खेळणे, व्यायाम करणे
		2. मजाक बनाना	✓खेल्	–	–	–	–	–
खैरात	स्त्री.	दान के रूप में दिया जाने वाला धन या पदार्थ, दान	दानम्	खैरात	ख़ैरात	खॉरात	ख़ैरात, दानु	दान
खोखला	वि.	1. जिसके भीतर कुछ न हो, भीतर से रिक्त	शून्यगर्भ, रिक्त	पोला, खोखला	खोखला	खोँखुर	पोरो, खोखलो	पोकळ
		2. निस्सार, थोथा	सारहीन	पोला, खोखला	–	–	–	निस्सार
खोज	स्त्री.	1. किसी नए तथ्य आदि का पता लगाने का काम, शोध, अनुसंधान	अनुसन्धान, अन्वेषणम्	खोज	दर्याफ़्त (तहक़ीक़)	छाँड़, खोज	खोज	शोध, संशोधन
		2. किसी खोई या छिपी हुई वस्तु को ढूँढ़ने की क्रिया	गवेषणा	खोज	तलाश, जुस्तुजू	–	खोज, तलाश, गो़ल्हा	शोधणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रमवुं	व्यायाम	खेल्नु	खेला	खेल	शान्नबा	ब्यायाम	आडुट	विळैयाड	कळिक्क	आट आडुवुदु
—	—	हाँसो उडाउनु, खेलबाड गर्नु	खेला करा	काम एरि धेमालि करा	शानपोत् ओइना खल्लगा तौबा थबक्	खेलिबा	आडुट	विळैयाड	कळिक्कुक	आट आडुवुदु
खेरात, दान	दान	दान	दान, खैरात	दान	दान	दान	दानमु, उचितमु	दान- दरुमम्	दानम्	दान
खोखलुं, पोलुं	पोकळ, पोको	खोक्रो, रित्तो	फँपा, रिक्त	फोपोला	अहाङबा	पोला, फंपा	बोलु	पांदु उळ्ळ	ओंळिञ्ञ, पोंळ्ळयाय	पोंळ्ळु
अर्थ विनानुं	निसार	निस्सार, साररहित	सार रहित	असारुवा, असार	महाओ याओदबा कान्नदबा	असार, सारहीन	निस्सारमु	पदर् पोन्, सारमट्ट	पोंळ्ळयाय, निस्सारमाय	सारविल्लद
खोज, शोध	सोद	खोज, अन्वेषण	खोँज, संधान	बिचार, अनुसंधान	थिबा, अनुसंधान	खोजिबा, अनुसंधान	परिशोधन, अन्वेषण	आराय्च्चि	अन्वेषणम्, गवेषणम्	शोधनं, अनुसंधान
खोजवुं, शोधवुं	संशोधन	खोजी, खोज	—	बिचार	—	खोजिबा	वेंतुकुलाट	तेडुदल्	तिरच्चिल्, तेटल्	हुडुकु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खोजना	स. क्रि.	1. किसी खोई या छिपी हुई वस्तु के पता लगाने का प्रयत्न करना, ढूँढ़ना	✓गवेषय्, अनु + ✓इष्	खोजणा	खोजना	छारुन	गोल्हणु	शोधणे
		2. अनुसंधान या शोध करना	अनु √सम् + ✓धा	खोजणा	तहक़ीक़/ तहक़ीक़ात करना	–	खोजणु, खोजना करणु	संशोधन किंवा शोध करणें
खोट	स्त्री.	1. मिलावट (सोना आदि में)	श्यामिका, अपमिश्रण	खोट	खोट	खोंचर	खोटु	भेसळ, खोट
		2. दोष	दोष	खोट	ख़राबी	–	ख़राबी	दोष
खोटा	वि.	1. मिलावटी	कूट, अपमिश्रित	खोटा	खोटा, मिलावटी	खोंट	खोटो, कूड़ो, मिलावटी	खोटा, असत्य
		2. हीन, अविश्वसनीय	कूट	खोटा	नक़ली (जाली)	–	खोटो, नकुली	बनावटी, नकली, मिथ्या, खोटा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खोजवुं, शोधवु, जोतपुं	सोदप	खोज्नु, तलाश गर्नु	खौंज करा, तल्लाश करा	बिचार	थिबा	खोजिबा	वेदुकुट	तेड	अन्वेषिक्कुक	हुडुकुवुदु
शोध करवी	सोदकरप, शोधकरप	अन्वेषण गर्नु, अनुसंधान गर्नु	अनुसंधान करा	अनुसंधान	थिजिन्बा	अनुसंधान करिबा	परिशोधिं-चुट	आराय	गवेषणम् नटत्तुक	शोधनं माडुवुदु
खोट	मिसळप	खोट, मिश्रण	खोट, भेजाल	सोणत दिया तामर भाँज	कोरी यान्बा सना	तंबा-मिशा-सुना	कल्ती	तंगत्तुडन् कलप्पडम् चेयद तामिरम्	स्वर्णत्तिल, चेर्त्त चेपुं, कलर्पु, मायम्	बेरकेयागिरुव-ताम्र
दोष	दोश	दोष	दोष, खुंत	दोष	दोष	दोष	दोषमु	कुट्टम्-कुरै	कुट्टम्	दोष, कुंदु
खोटुं	लटके	खोट भएको, मिसावट भएको	भेजाल	भाँज, भँजाल	याशिन्बा	मिश्रित, भेजाल	कल्ती-अयिन	कलप्पडमान	कलर्प्पुळ्ळ	बेरकेयाद
बनावटी, नकली	बनावटी, नकली	नक्कली, अवैध, झुटो	नकल, मिथ्या, साजानो	नकली, भँजाल	शाजिन्नबा, ओइदबा	नकली, मिशा	बूटकमु, नकिली	पोलि	कृत्रिममाय, कळ्ळमाय	नकलि, सुळ्ळु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खोदना	स.क्रि.	1. कुदाल आदि से जमीन पर आघात करके गड्ढा बनाना	खन्	पुट्टणा, खोदणा	खोदना	खनुन	खोटणु	खणणे, खोदणे, उकरणे
		2. उक्त क्रिया द्वारा दबी पड़ी हुई वस्तु बाहर निकालना	उत्खननम्	खनन्, खोदणा	–	खनुन	–	खणणे
		3. नक्काशी करना	उत् ✓कृ	खुणना, उक्करना	–	खनुन	उकरणु, चिटु कढणु	नक्षीकाम करणें
खोना	स.	1. किसी वस्तु का भूल से कहीं छूट ज़ाना	वि ✓स्मृ	गुआउणा	खोना	रावुन	विञाइणु, खोहिणु	हरविणे, गमावणे, गहाळ करणें
		2. असावधानी, दुर्घटना, मृत्यु आदि के कारण क्षतिग्रस्त होना	✓नश्	गुआउणा	–		–	हरविणे, वंचित होणे
खोल	पुं.	1. किसी चीज का ऊपरी आवरण	आवरणम्	खोल	ख़ोल, ढाँचा	मुॅसलुॅ, द्यल	पोशु, ढकु, खोलु	खोळ
		2. विशिष्ट प्रकार के कीड़े-मकोड़ों का प्राकृतिक आवरण	त्वक्	कुंज	–	–	खोपो	कात, कवच

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खोदवुं	खणप	खन्नु, खोस्रनु	खनन करा, गर्त्तकरा	खोदाइ कर, उत्किरण	तौबा	खोलिबा	त्रव्वुटॅ	तोण्ड	कुळिक्कुक	अगॅयुवुदु
खणवुं	उत्खनन	खनेर निकाल्नु, खोतल्नु	खोदाइ करा	खाँदि उलिया, खोचर	तौथोक्पा	खोलि-काढिबा, बाहार-करिबा	त्रव्वुटॅ	तोण्ड	कुळिक्कुक	अगॅयुवुदु
नकशी-काम करवुं	नक्षीकाम	कुँद्नु नक्कासी गर्नु	नकाशि करा, उत्किरण करा	खोदाइ कर उत्किरण कर	–	खोलिबा	चॅक्कुटॅ	नकासु वेलै	कॉत्तुवेल चॅय्युक	कॅत्तनॅय कॅलस माडुवुदु
खोवुं	वगडावप	हराउनु, गुमाउनु	हारानो	हेरुवा	माङबा	हजाइबा	मरचि-पोगोट्टुकु पोवुटॅ	इळक्क	कळयुक पोवुटॅ	कळॅदुकॉ-ळ्ळुवुदु
गुम थवुं, खोवाई जवुं	वंचीत	क्षतिग्रस्त हुनु	खोया, बंचित	क्षतिग्रस्त	माङ्जबा	क्षतिग्रस्त हेबा	पोगॉट्टु-कॉनुटॅ	नष्टप्पड	नष्टप्पॅटुक	नष्ट पडुवुदु
खोल, खोळ	आवरण	खोल	खोल	खोल, खोला	मकु, मयोम	खोल, आबरण	मुसुगु, पैकप्पु	उरै, मूडि	उर, पुरंतोटुॅ	आवरण
राफड़ो	कवच	बोक्रो, प्राकृतिक आवरण	खोलस	खोला	मखुम	खोल, आबरण	आवरणमु	चिल उयिरि-नंगाळिल् मेलुरै	उर	हुळ हुप्पटॅगळ हॉरमै

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
खोलना	स. क्रि.	1. अनावृत करना, आवरण हटाना	उद् +✓घाटय्	खोल्हणा	खोलना	मुच़रुन	उघाड़णु, आवरण हटाइणु	उघड़णें
		2. किसी बँधी हुई वस्तु को मुक्त करना	✓मुच्	–	–	मुच़रुन	छोड़णु	सोडणे
		3. मोड़ी या तह की हुई वस्तु को फैलाना	आ ✓स्तृ	–	–	वाहरावुन	खोलणु	दुमडलेली बस्तू पसरणें
खौलना	स. क्रि.	उबलना	उद् ✓वल्	उब्बलणा, खौलणा (खून)	खौलना	ग्रखयिन्य	टहिकणु	उतास येणे, उकळणे
ख्याति	स्त्री.	यश, प्रसिद्धि, कीर्ति	ख्यातिः, प्रसिद्धिः	जस, सोभा	शुहरत, नामवरी	महशूरी	नामूस, मशहूरी, जसु	प्रसिद्धी, कीर्ती
गंजा	वि., पुं.	जिसके सिर के बाल झड़ गए हों	खल्वाट	गंजा	गंजा	खोँर, त्रामुँ-कलुँ	गंजो	टकल्या

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खोलवुं	उघडप	उघार्नु, खोल्नु	खोला, उन्मोचन करा	खोल एरुवा, आबरण गुछोवा	हाङ्दोक्पा	खोलिबा	तॅरचुट	तिऱक्क	तुऱककुक, अटप्पु माट्टुक	तॅरॅयुवुदु
छोडवुं	सोडप	खोल्नु, फुक्का गर्नु, छाड्नु	खोला	खोल, मुकलि कर	हाङदोक्पा	मुक्त-करिबा, खोलिबा, खोला	विप्पुट	अविळ्क्क	कॅट्टळि-क्कुक	अनावरणमाडु, बिच्चुवुदु
घडी करेली चीज ने फेलाववी	उस्तप	फिँजाउनु, फैलाउनु	खोला	मेल, खोल	शंदोक्पा	मोड़, खोलिबा, खोल	विप्पुट	विरिक्क	विरिक्कुक	हासुवुदु
ऊकळवुं	उकडप	उम्लनु, छड्कनु	उथलान, फोटा	उतल, उतला	शौबा, लोन्बा	फुटिबा	मरुगुट, मसलुट	कॉदिक्क	तिळक्कुक	कुदियुवुदु
ख्याति, कीर्ति, शान	ख्याती	जस, ख्याति, कीर्ति	ख्याति, यश	ख्याति, यश	मिङ्चत्	ख्याति, जश, कीर्ति	ख्याति, प्रसिद्धि	पुगळ्, कियादि	प्रसिद्धि, ख्याति	यशस्सु, हॉगळिकॅ
माथे, तालवाळुं	खड्डो	खल्वाट, खुइले	टेको (टाक)	तपा मूरा, ताक परा रोग	कोक् ताङ्बा	चंदा	बंट्टतलगलॅ	वळुक्कै तलै	कषण्टियाय	बोळुतलॅयव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गंदा	वि.	1. अपवित्र, दूषित, बुरा	दूषित, अशुद्ध, अपवित्र	गंदा	गंदा	गंदुॅ, मॉलु, मोंकूर	गंदो, मेरो	घाणेरडा, दूषित, वाईट, अपवित्र
		2. धूल, मिट्टी आदि से युक्त, मैला	मलिन	–	–	–	–	धूल, मात्तीनी बरबटलेला, घाणेरडा
गंध	स्त्री.	1. कुछ पदार्थों से सूक्ष्म कणों का वायु के साथ मिलकर होने वाला प्रसार, जिसका अनुभव नाक से होता है, बास, दुर्गंध	गन्धः, वासः	बो, गंध	बू	मुशिख	बूइ, गंध	वास, दुर्गंध
		2. सुगंधित द्रव्य	सुगन्धिन्/ गन्धिन्	सुगंध	खुशबू	–	खुश्बूदार शइ	सुगंधित द्रव्य, सुवास
गंभीर	वि.	1. गहरा	गंभीर, गहन	गंभींर	अमीक़ (गहरा)	संजीदुॅ, सोर्न	गंभीर	गहन
		2. जटिल, गूढ़	गंभीर, गूढ़	–	पेचीदा	–	–	जटिल, गूढ
		3. शांत, धीर	शान्त, धीर	संजीदा	–	–	संजीदः	शांत, धीर, गंभीर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गंदुं	घाणेरडो	फोहोर, दूषित, अपवित्र्	अपबित्र, अशुद्ध, दूषित	अपबित्र, लेलेरा	अमोत्पा, इफूल तैबा	अपरिष्कार, दुषित, अशुध्ध, अपबित्र	चंडडॅ, मलिनमैनॅ	अळुक्कान	दुषिच्च, अळुक्काय	अपवित्र, अशुद्ध
अशुद्ध, मेलुं	धुळकट	मैलो	मयला	मयला, मलियन	–	मइला, आवर्जना	मुरिकि अयिनॅ	अशुद्दमान	अळुक्कुळ्ळ	कॉळ्याद
गंध	गंध	गंधु, दुर्गंधु	दुर्गंध	गोंध, बास	मनम्	गंध, दुर्गंध, बास	वासनॅ	वासनै	मणम्, गंधम्	वासनॅ
वास, सुगंध	वास, परमळ	बास्ना, सुगंधु	सुगंधित द्रब्य	सुगंधि बस्तु	मनम् नुङ्शिबा पोत्	सुगंधित-द्रव्य, सुबासित-द्रब्य	सुगंधॅ द्रव्यमु	वासनैप्पॉरुळ्	सुगंधद्रव्यम्	सुगंध
गंभीर	खोल, अगड	गंभीर, गहिरो	गभीर	गभीर, द	अरुबा	गॅभीर	लोतयिनॅ	आळ्ंद	आळ्माय	आळवाद
–	जटिल	जटिल, दुरुह	जटिल, गूढ़	जटिल, गूढ़	अथुप्पा, अरुबा	गूढ़, जटिल	गूढमयिनॅ	चिक्कलान	जटिलम्	गूढ, जटिल
शांत, धीर	शांत, धीर	शांतु, धीर	शांत, धीर	गहीन, गंभीर	चिङ् लेंबा	शांत, धीर, गंभीर	गंभीरॅ मयिनॅ	अमैदियान	शांतम्, धीरम्	शांत, धीर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गँवाना	स. क्रि.	1. खोना	✓क्षपय्	गुआउणा	गँवाना	रावुन	विञाइणु, खोहिणु	हरविणे
		2. नष्ट करना	✓नाशय्	—	ख़त्म करना	रावुँरावुन	गंवाइणु	नष्ट करणें, गमावणें
गँवार	वि./ पुं.	1. असभ्य, अशिष्ट	अशिष्ट, ग्राम्य	गवार	गँवार	बदतमीज़	गंवार, मूर्ख, बेवकूफ़	खेडवळ, अशिष्ट, असभ्य
		2. मूर्ख, अनाड़ी	अविमृश्यकारिन्, अविवेकिन्	—	बेवक़ूफ़	अनॉड्य, बेवकूफ़	—	मूर्ख, गांवठी, अडाणी
गगन	पुं.	आकाश, आसमान	गगनः	गगन, असमान	गगन, आसमान या अर्श	आकाश, असमान	गगनु, आकासु, उभु	गगन, आकाश, नभ, आभाळ
गज	पुं.	1. हाथी	गजः	हाथी, गज	हाथी	हॉस	हाथी, गज	हत्ती, गज
		2. लंबाई की एक माप, जो छत्तीस इंच के बराबर होती है	परिमाणविशेष	गज़	गज़	गज़	गजु, वालु	वार
		3. उक्त माप का उपकरण	मापोपकरणम्	गज़	गज़	गज़	गजु	गज

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुमाववुं	वगडावप	गुमाउनु, हराउनु	हारानो	हेरुवा	माङ्बा	हजाइ-देबा	पोगाॅट्टकाॅनुटॅ	इऴक्क	कळयुक	कळॅदु काॅळ्ळुवुदु
नाशकरवो	नश्ट करप	नष्ट् गर्नु	नष्ट करा	नष्ट कर	माङ्हन्बा	नष्ट-करिबा	चॅडगाॅट्टटॅ	नाशम् चॅय्य	नष्टप्पॅटुत्तुक	हाळुमाड्डुवुदु
गमार	गाँव-गिरो	गँवार, असभ्य्	गोंयार, असभ्य	अशिष्ट, असभ्य	चाओ-खत्तबा	अशिष्ट, असभ्य	माॅरटु-वाडु	नाट्टु-प्पुरत्तान्	परिष्कार-मिल्लात्त, अपरिष्कृतन्	असभ्य, तिळिगेडि
मूर्ख	मूर्ख	मूर्ख्	गोंयार, मूर्ख, आनाड़ी	मूर्ख, अबुज नजना	अपङ्पा, इपङ् पङ्बा	अनाडी, मूर्ख	मूर्खुडु, चेतगानिवाडु	मुट्टाळ्	मठयन्	मूर्ख, अड्नाडि
गगन	मळब, आकाश	आकाश, गगन, आसमान	गगन, आकाश	गगन, आकाश	अतिया, नोङ्दोल आकाश	गगन, आकाश	आकाशमु	आगायम्, वानम्	आकाशम्	आकाश
गज, हाथी	हत्ती	हात्ती	गज, हाती	गज, हाती	शामु	गज, हाती	एनुगु	यानै	गजम्, आन	आनॅ
गज (माप)	वार	गज (मापक उपकरण)	गज	गज (दीघर एक जोख)	गज़	गज	गजमु	गॅजम्	गजम, वार	गज
—	मापपट्टी, फूटपट्टी, तागडी, जोखणी	गज, नाप्ने डन्डी	गज मापार दन्ड़	गज़	गज़	गज	गजमु-बद्दॅ	गॅजक्कोल्	मुऴक्कोल्	गजकड्डि

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गजरा	पुं.	फूलों की घनी गुँथी हुई छोटी माला	स्रज्, माला	गजरा	गजरा, हार	गजरॅ	गुलनि जो हारु	गजरा
गड़बड़	पुं.	1. ऐसी अवस्था, जिसमें क्रम, व्यवस्था आदि का अभाव हो	अव्यवस्था	गड़बड़	गड़बड़	गड़बड़	गड़ॿड़	अस्ताव्यस्त
		2. असावधानी, भूल आदि से कुछ का कुछ कर देने की क्रिया या भाव	प्रमादः, सम्भ्रम	–	–	गड़बड़	भुलचुक	गडबड, गोंधळ
		3. उत्पात, उपद्रव	उत्पात, उपद्रव	–	–	गड़बड़	–	उत्पात, गडबड
गढ़	पुं.	1. किला, दुर्ग	कोट, दुर्ग	किला, गढ़	क़िला	किलॅ	क़िलो, ॻढु	किल्ला, गड
		2. केंद्र, मुख्य स्थान, अड्डा	केन्द्रम् , मुख्यपीठम्	–	गढ़, मरकज़	गड़	मर्कजु, मुख्य हंधु	केंद्र, स्थळ, मुख्य स्थान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गजरो	गजरो	पुष्पहार, गजरा	फुलेर माला	फुलर माला	लै परेङ् अङौबा, गजरा	गजरा, फुल-हार (माल)	पूलदंड	पू मालै	पूमाल	मालॅ
गडबड, गरबड	अस्ता-व्यस्त	गडबड	अब्यबस्था, गोलमाल	खेलिमेलि	बेरा	गड़बड़, अव्यबस्था	चिंदरवंदर, तारुमारु	आॅळुंगिन्मै	अव्यवस्थ	गडिबिडि
गडबड गोटाळो	गोंदळ, कोंफुसांव	गोलमाल	गोलमाल	बिश्रृंखला	थओइ-वाओइदबा	असाबधानता, गोलमाल, विश्रृंखला	पारपाटु	कुळप्पम्	कुळप्पम्	गडिबिडि
उत्पात	उत्पात	उत्पात, उपद्रो	उत्पात, उपद्रव	उत्पात, उपद्रव	–	उत्पात, उपद्रव	गडबिडि	कलगम्	बहळम्, कलहम्	उपद्रव
गढ़	किल्लो	किल्ला, दुर्ग	गड़, केल्ला, दुर्ग	गड़, दुर्ग	लालबन, पुन्फम्	गड़, किल्ला, दुर्ग	कोट	कोट्टै	कोट्ट	कोटॅ, दुर्ग
केंद्र-स्थान, मुख्य-स्थान	मुखेल स्थान, केंद्र	केन्द्र, अड्डा	केँद्र, मुख्य स्थान	केंद्र, आड्डा	केंद्र	आड्डा, केँद्र	केंद्रमु	तलैमै निलैयम्	केंद्रम्	केँद्र, मुख्यस्थान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गढ़ना	स.क्रि.	1. कोई नई चीज बनाने के लिए किसी स्थूल पदार्थ को काट, छील, ढाल कर तैयार करना	✓घट्, सज्जी ✓कृ	घॅड़ना	घड़ना	गरुन, बनावुन	घड़णु	बनविणे, तयार करणे
		2. कोई कल्पित बात बनाना या कोई बात नमक-मिर्च लगाकर सुंदर रूप में प्रस्तुत करना	परि+कल्प्	घॅड़ना	–	सोंबरावुन	–	बनवून सांगणे
गण	पुं.	समूह, झुंड, वर्ग	गण:	गण	गिरोह	ख्योॅल	मेड़ु, मज्मूओ, गिरोह	गण, समूह, समुदाय, वर्ग
गणतंत्र	पुं.	वह राज्य या राष्ट्र, जिसकी सत्ता जनसाधारण (विशेषत: मतदाताओं या निर्वाचकों) में निहित होती है	गणतन्त्रम्	गणतंतर	जुम्हूरियत	जमहूरिया	गणतंत्रु	प्रजासत्ताक, गणराज्य
गणना	स्त्री.	1. गिनती करने की क्रिया या भाव	गणना	गिणती	शुमार	ग्रंद	ग़ुणप	मोजणी, गणना
		2. गिनती, संख्या	संख्या	–	गिनती	–	अंगु, अदद, ग़ाणाटो	गणती, हिशेब, मोजदाद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घडवुं	घडप, बनवप	नयाँ वस्तुको निर्माण गर्नु	गड़ा	गढ़, साज, तैयार कर	हक्पा, शेंबा	गढ़िबा, तिआरि- करिबा, निर्माण- करिबा	चेक्कुट	उरुवाक्क	निर्मिक्कुक	रचिसु
उपसावी ने कहेवुं	अतीरंजित	गढ्नु	गनगड़ा कथा	साजि क मनेगढ़ा कथा, कल्पित कथा	शाजिन्बा	कल्पित- कथा	कल्पिंचुट	कदै कट्ट	केट्टिच्च- मक्कुक	कल्पिसुवुदु
गण	पंगड, गण, ग्रूप, टोळी	समूह, वर्ग, गण	गण, समूह	गण, समूह, बर्ग	शङ्गु, मपै, चबुल	गण, समूह, बर्ग	समूहमु, वर्गमु	कूट्टम्	समूहम्, गणम्	गुंपु, वर्ग, समूह
गणतंत्र	प्रजासत्ताक	गणतंत्र	गणतंत्र	गणतंत्र	गणतंत्र	गणतंत्र	प्रजा- प्रभुत्वमु	कुडियरशु	गणतंत्रम्, रिप्पब्लिक, जनाधित्यम्	प्रजातंत्र
गणना	मेजप	गनाइ, गणना	गणना, गोना	गणना	मशिङ् थिबा	गणना, गणति, गणिबा	लेक्क	एण्णिक्कै	एण्णल्	एणिके
अंदाज, गणत्री	मेजणी, गणीतकरप	गंती, गिंती	गुनति	संख्या	मशिङ्	गणति, संख्या- गणिबा	संख्य	एण्	एण्णम्	संख्ये

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गणित	पुं.	वह शास्त्र, जिसमें परिमाण, मात्रा, संख्या आदि निश्चित करने की रीतियों का विवेचन होता है, हिसाब	गणित, गणितशास्त्रम्	गणित, हिसाब	रियाज़ी (रियाज़ीयात)	हिसाब	हिसाब, हिसाबी इल्मु	गणित
गति	स्त्री.	1. चाल, रफ्तार	गतिः	गती	रफ़तार	रफ्तार	रफ़्तार, चाल, गती	गती, चाल, वेग
		2. हरकत, चेष्टा, हिलना-डुलना	गतिः	गती	हरकत	–	हालत, अवस्था	दशा, अवस्था
		3. दशा, अवस्था, हालत, स्थिति	गतिः	गती	गत (हालत)	–	हालत, अवस्था	दशा, अवस्था
गतिरोध	पुं.	1. चलते हुए काम का रुक जाना	गतिरोधः	अड़िक्का	तअत्तुल	क्रेछर	रुकावट, रंडक, रोक	गतिरोध, काम थांबणे
		2. झगड़े या बातचीत के समय की ऐसी स्थिति, जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़ जाते हैं और समझौते का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता	गतिरोधः, असामञ्जस्यम्	अड़िक्का	–	वॆंज़ाल	–	पेचप्रसंग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गणित	गणीत	गणित, अङ्क-गणित	गणित, अंकशास्त्र	गणित	अङ्क, मैथेमेटिक्स	गणित	गणितमु	कणक्कु	गणितम्, कणक्कुॅ	शुद्ध गणित
गति, चाल, झडप	गती, वेग	गति, चाल	गति, चाल	गति	खोङ्चत्, याङ्ना चत्पा	गति, बेग	नडकॅ, वेगमु	वेगम्	गति, काम्	वेग
प्रयत्न, हालचाल	प्रयत्न, घोळकावप	प्रयत्न्, चेष्टा	गति, चेष्टा	चेष्टा, आचरण	कार तरनबा	चेष्टा, प्रजत्न	कदलिकॅ	अशैदल्	अनक्कम्	गति
दशा, अवस्था	दशा, अवस्था	अवस्था, दशा, क्षमता	गति, अबस्था	दशा, अवस्था	फिबम	स्थिति, अबस्था, परिस्थिति	गति, दशॅ, अवस्थॅ	गदि, निलैमै	स्थिति, अवस्थ	स्थिति, दर्श
गति भंग	थांबप	बाधा-अडकाउ	गतिरोध	गतिरोध	अथिङ्बा, खांबा लेप्पा	गतिरोध, बंद	अड्डंकु	तडै-पडुदल्	तटस्सम्	तर्ड
गूंचवाळो मामलो	पेचप्रसंग	गतिरोध	गतिरोध	अचल अवस्था, बंध्य	मफम मराङ् खङ्दबा	नाराज, अबुझा	अवरोधमु	मुट्टुक्कट्टै	प्रतिसंधि	बिक्कट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गतिविधि	स्त्री.	1. कार्य-कलाप	व्यापारः, कार्यकलापः	तौर-तरीका, रंग-ढंग, सरगरमी	सरगर्मी	कॉम-कार	मश्ग़ूली, कमु कारि	रागरंग, कार्यकलाप, गतिविधी
		2. चेष्टा, हरकत	चेष्टा	–	हरकत	तुलुत्राव	चुरपुर	हालचाल, प्रयत्न
		3. आचरण-व्यवहार करने या रहने-सहने का रंग-ढंग	आचार-पद्धतिः	–	तर्ज़े-अमल, रफ़्तार	चाल	हालुचालु, वहिंवारु	पद्धत, रीती
गदराना	अ. क्रि.	1. फलों आदि का पकना शुरु होना	परि ✓पच्	गदराउणा	गदराना	पपुन	रंगु कढणु (मेवे वग़ैरह जों पचण शुरू थियणु)	पाडास येणें
		2. जवानी में शरीर के अंगों का भरना और सुडौल होना	यौवनेन कायः उप✓चि	–	गदराना	–	खुली पवणु, जवानीअ सबबि बुत जो सुडौल थियणु	तरुणपणांत हृष्ट-पुष्ठ होणे
गद्दा	पुं.	बिछाने की मोटी रूईदार भारी तोशक	तूलसंस्तरः	गद्दा	गद्दा	गॅदलुं, गबुॅं	गदेलो, गदेली, गदो	गादी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कार्यकलाप	कार्यकलाप	गतिविधि, क्रियाकलाप	गतिबिधि	कार्य-कलाप, गतिबिधि	थबक् थोओङ्	गतिविधि, कार्ज्यकलाप	कार्य-कलापमुलु, पनिपाटलु	नडैमुरै	प्रवर्तनम्	कार्यकलाप
चेष्टा	चेश्टा	चेष्टा, प्रयत्न	गतिबिधि	आचरण, चाल-चलन	होत्नबा	चेष्टा	चेष्ट, क्रियँ	मुयर्चि	प्रयत्नम्	चलनं, गति
चाल चलगत	पद्धत, रीति	रङ्गढङ्ग	गतिबिधि	गतिबिधि	शाजत्-लिचत्, युम्लै कैरे	आचरण, चालि-चलन	नडवडिकॅ	नडत्तै	प्रवर्तिकुन्न रीति	नडतॆ
पाकवुं (फल आदि)	अमूरपिंके, अंबुरपिंके	पाक्नु (फल आदि)	आधपाका हओया	पूरठ ह, पैनत ह	मुल्लक्पा	पाकल, पाचिला	पंडुटॅ, परिपक्वमुगुटॅ	कनिय	मूक्कुक, पळु-क्काराकुक	पक्ववागुवुदु
जुवानी मां शरीर भरावा लागवुं	आंग भरप	जवानीले गर्दा जीउ पोटिलो हुनु, फस्टाउनु	यौबन अंग पुष्ट हओया (जौ)	यौवन लाभ कर, यौवनत शरीर सुदोल होवा	इनखत्लक्पा	जौबनरे-शरीर-सुढल-हेबा	वळ्ळु निंडुटॅ	इळमैयिल् अंगंगळ् वाळिप्पडैय	यौवनक्कॊ-ळुप्पुण्टाकुक	मैतुंबिकॊळ्ळु
गादलुं	गादी	गद्दी, गद्दा, डसना	गदि	गादी	लशिङ्ना शेंबा फम्नबा फिदा	गदि	परुपु	मॆत्तै	मॆत्त	गादॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गबन	पुं.	सरकारी या संस्थागत धन की चोरी	न्यासहरणम्	गबन	ग़बन	गबन	अमानत जी रक़म फब॒ाए वञणु, ख़यानत	अफरातफर, अपहार
गमला	पुं.	फूल आदि के पौधे लगाने के लिए मिट्टी या धातु का पात्र	पुष्पधानी	गमला	गमला	गमलुॅ	कूंडी	कुंडी
गरजना	अ.क्रि	गंभीर तथा घोर शब्द करना, जोर से कड़क कर बोलना	✓गर्ज्	गरजणा	गरजना	ग्रज़ुन	गरिजणु, गजणु	गरजणें
गरम (गर्म)	वि.	1. सामान्य से अधिक तापमान वाला, उष्ण	उष्ण	गरम	गर्म	गरॅम	गर्म/गरम	कढत, गरम
		2. उग्र, आवेश प्रधान	उग्र, उत्कट	गरम	तेज़	तौंत	–	उग्र, उत्कट, आवेश प्रधान, गरम
गरिष्ठ	वि.	1. बहुत भारी	गरीयस्	भाँरी	सक़ील	स्यठाह गौंब	ग॒ौरो	जड, भारी
		2. (खाद्य पदार्थ) जो बहुत कठिनता से या देर में पचता हो	दुष्पाच्य	–	देर हज़्म	–	ग॒ौरो, देर-हज़म	पचावयास जड पदार्थ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बेईमानी करवी ते	अफरा तफरी	हिनामिना, मसौट, गडबडी	तहबिल तछरूप, धन आत्मसात् करण (न)	आत्मसात् करण	मत्पा	तोसरफ- करिबा, आत्मसात- करिबा	धनापहरणँ	पिरर् सौत्तै कैयाडल्	धनापहरणम्	हण तिंदुहाकुवुदु, दस्तुमाडुवुदु
कूंडुं	कुंडी	गमला	गामला	फुलर टाब, फुलदानी	गमला	कुण्ड़	पूलतोट्टि	पूत्तोट्टि	पूच्चट्टि	हूतोट्टि, हूविनकुंड
गरजवुं	आड्डेवप	गर्जनु, कुर्लनु	गर्जन करा	गर्जन करा, गर्जा	ङङ्बा	गर्जिबा, गर्जन- करिबा	गर्जिंचुट	गर्जिक्क	गर्जिक्कुक, अलरुक	गर्जिसुवुदु
गरम	उश्ण, ताप	गरम, तातो	गरम, उष्ण	गरम, उष्म	अशाबा	गरम, उष्म	वेंच्चनि, वेडि	चूडान	चूटाय	बिसि
उग्र, उत्कट, वेगीलु, गरम	उग्र	खरो, उग्र	उग्र	उग्र, खङाल	शाओगन्बा, अफिङ्बा	उग्र, उत्कट	उग्रमैन	तीविरमान	उग्रमाय, आवेशम् निरुञ्ञ	उग्र, उत्कट
गरिष्ठ	जड	धेरै गन्हौँ	गरिष्ठ	गरिष्ठ	याम्ना लुंबा	बहुत- भारी, गुरु	बरुवयिन	मिग गनमान	भारमुळ्ळ	बहळ भारवाद
पचावामां मुश्केल	जड पदार्थ	दुष्पाच्य, गरिष्ठ	गुरुपाक, दुष्पाच्य	गरिष्ठ	तुंबा ङम्दबा	वदहजम- पदार्थ, गुरुपाक- पदार्थ	बलमयिन (आहारमु)	सीक्किरम् जीरणमागाद	गुरुवाय, दहिक्कान् विषममुळ्ळ	बेग अरगद जीर्णवागद पदार्थ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गरी	स्त्री.	1. नारियल के अंदर का वह सफेद मुलायम गूदा जो खाया जाता है	नारिकेलसारः, फलमज्जा	गिरी, गरी	गरी	गूज	गोरो (नारेल जो), डूंघी	खोबरे
		2. किसी बड़े बीज के अंदर का मुलायम गूदा, गिरी	बीजम्	–	गिरी, मग़्ज़	गूज	गोरो, ग़ुभु	गीर, गर
गरीब	वि.	1. निर्धन, दरिद्र	निर्धन	ग़रीब	ग़रीब	ग़रीब	ग़रीब, निर्धन	गरीब
		2. दीन-हीन	दीन	–	मिस्कीन	–	–	दीन, व नम्र, गरीब
		3. निरुपाय, बेचारा	वराक, निरुपाय	–	लाचार	–	वेचारो, वेचारी	बिचारा, गरीब
गर्व	पुं.	1. अपने को दूसरों से बढ़कर समझने का भाव, अभिमान, घमंड	गर्वः, दम्भः	गरब	गुरूर, घमंड	फखुॅर, थ्यकुन	गर्बु, अभिमानु	गर्व, घमेंड
		2. अपने किसी श्रेष्ठ कार्य, बात, वस्तु आदि के संबंध में होने वाला न्यायोचित अभिमान	स्वाभिमानः	गरब	नाज़, फ़ख़्र	फखुॅर	गर्वु, फ़ख़ु	अभिमान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कोपरुं	खोबरे	गरी	नारिकेलेर शाँस	नारिकलर शाह	युबी, युबी मतोङ्	नडिआर-भीतर-अंश (नड़िआ-शस)	कॉब्बरि	कॉप्परै	नाळिकेर-त्तिंटं परिप्पुँ, कळंपुँ	तिरुळु
गर, गर्भ	गर	नरम गुदी, गरी	शाँस	भितरर शाह	मतोङ्	मंजिशस	पप्पु	विदैकळिन् परुप्पुँ, शदैप्पट्टुळ्ळ बागम्	परिप्पुँ	तिरुळु
गरीब	गरीब	गरिब, गरिप	गरीब, निर्धन	गरीब, दुखीया	लाइरबा, अनङ्बा	गरिब, दरिद्र	बीदवाडु	एळै	दरिद्रन्	बडव, दरिद्र
दीन, दयामणुं	दळिद्र, दळदिरो	दीनहीन, दु:खी, असहाय	दीन, नम्र	दीनदुखी	तोल्लबा	दीन, निर्धन, दरिद्र	दीनुडु	एँलिय	दीनन्, विनीतन्	दीन, नम्र
बिचारो	बाबडो	निर्धो, निर्धन	निरुपाय, बेचारा, दु:खी	निछला, निरुपाय	उपाइ लैजद्रबा	बिचारा, निरूपाय, नाचार	पापमु, निस्सहायुडु	पावप्पट्ट, एळैयान	पावप्पट्ट, पावम्	दीन, नम्र
गर्व, घमंड	घमेंड	गर्व, अहंभावना	गर्व, अहंकार	गर्ब, अभिमान	पोङ्बा, चाओथोक्चबा	गर्ब, अभिमान	गर्वमु	गर्वम्	गर्वु	अभिमान, गर्व
अभिमान	अभिमान	अभिमान, अहमत्याइँ	गर्व, अभिमान	गर्ब, अभिमान	पोङ्बा	अहं भावना, गर्ब, अभिमान	गर्वमु	पॅरुमिदम्	अभिमानम्	अभिमान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गलत	वि.	1. जो ठीक न हो, अशुद्ध	अयुक्त	गलत	ग़लत	अपुज़, गलत	ग़लत	चुकीचे
		2. मिथ्या, असत्य	मिथ्या, असत्य	–	झूठ	गलत	–	मिथ्या, असंत्य
		3. अनुचित	अयुक्त	–	–	–	गैर-वाजिब	अनुचित
गलती	स्त्री.	भूल, अशुद्धि, त्रुटि	त्रुटिः, च्युतिः	गलती	ग़लती	गलती	ग़लती	भूल, चूक
गलाना	स. क्रि.	1. किसी ठोस वस्तु को तरल बनाना, पिघलाना	✓क्लिद्	गालणा	गलाना	गालुन	ग॒ारणु, पघारणु	विरघळविणे
		2. किसी कड़ी चीज या कच्चे अन्न आदि को उबाल कर नरम करना	✓द्रावय्	गालणा	गलाना	गालुन	ग॒ारणु	विरघळविणे, वितळविणे
		3. घुलाना	✓क्लिद्	गालणा	घुलाना	गालुन	ग॒ारणु	विरघळविणे, वितळविणे
गली	स्त्री.	सड़क से कम चौड़ा, संकरा रास्ता	सरणिः, रथ्या, वीथिः	गली	गली	कोचि	घिटी, गली	बोळ, गल्ली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खोटुं, भूल भरेलुं	चुकीचे	गलत	गलद, अशुद्ध	भुल, अशुद्ध	अरान्बा	अशुद्ध, भुल, अनुचित	तप्पु	तवऱान	तॅट्टाय	तप्पाद, अशुद्ध
जूठुं	असत्य	असत्य, मिथ्या	मिथ्या, असत्य	मिछा, असत्य	चुम्दबा, मिर्नबा	मिथ्या, असत्य	अबद्धमु	पॉय्	असत्यम्	सुळ्ळाद, असत्य
अयोग्य	अनुचित	अनुचित, बेठीक	अनुचित	अनुचित	चानदबा	अनुचित	तप्पु	तगाद	अनुचितम्	अनुचित
गलती, भूल-चूक	चूक	गल्ती, भूलचूक	गलद, भुल, त्रुटि	भुल, त्रुटि, अशुद्धि	अरानबा, अशोइबा	भूल, त्रुटि, अशुद्धि	तप्पु, पॉरपाटु	पिळै, तवऱु	अशुद्धि, तॅट्टु	अशुद्धि, दोष, तप्पु
पिगळवुं	पिरगळ-वप, पिरगळप	पगाल्नु, गाल्नु	गलान, तरल करा	गला गलोवा	पेत्थोक-हन्बा	तरलेइबा	करिगिंचुटॅ	समैत्तु पक्कुव-माक्क	वॅविक्कुक	करगिसुवुदु
नरम करवुं	मोवकरप, शिजवप	गलाउनु	गलान, गलिये नरम करा	गुल, पनीया कर	शौदोक्-हन्बा	सिझाइबा	उडिकिंचुटॅ	समैत्तु पक्कुव-माक्क	वॅविक्कुक	करगिसुवुदु
ओगाळवुं	मिक्स करप	पग्लाउनु	गलान, गलिये नरम करा	गुल, पनीय कर	तुम्हन्बा	मिशेइबा	करिगिंचुटॅ	करैक्क	अलियिक्कुक	करगिसुवुदु
गली, शेरी	गल्ली	गल्ली	गलि	गली, रास्ता, सरु बाट	लैरक	गली	संदु	संदु	तॅरुवुॅ	ओणि, गल्लि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गवाह	पुं.	1. ऐसा व्यक्ति, जिसने कोई घटना स्वयं देखी हो अथवा जिसे किसी घटना, तथ्य, बात आदि की ठीक और पूरी जानकारी हो, साक्षी	साक्षिन्	गवाह	गवाह	गवाह	शाहिद, गवाह	साक्षीदार
		2. न्यायालय में तथ्य का सत्यापन या समर्थन करने वाला, साक्षी	साक्षिन्	गवाह, साखी	गवाह	गवाह	गवाह	साक्षीदार
		3. दो पक्षों में होने वाले लेन-देन, व्यवहार, समझौते आदि के लेख पर हस्ताक्षर करने वाला	साक्षिन्	गवाह	गवाह	गवाह	गवाह	साक्षीदार
गहन	वि.	1. घना, निविड़, गहरा	गहन	डूंघा	गहरा, घना	सोँन, गोँन	गहरो, ऊन्हो, घाटो	गहन, सघन, पाट, निबिड
		2. दुरूह, कठिन	दुरूह, जटिल	–	दुशवार	कठ्युन	डुखियो, दुर्गम	दुर्गम, कठीण, गहन
गहना	पुं.	आभूषण, जेवर	आभरणम्, अलङ्करणम्, भूषण	गहिणा	गहना, ज़ेवर	ज़ेवर, गहनुॅ	ग॒हणो, ज़ेवरु	दागिना
गहरा	वि.	1. जिसका तल चारों ओर के स्तर से नीचे की ओर अधिक दूरी तक हो	गंभीर, गहन	डूंघा, गंह्रा	गहरा	सोँन	गहरो, ऊन्हो	खोल
		2. (व्यक्ति या विषय) गूढ़, गहन, गंभीर	तलस्पर्शिन्, गंभीर	डूंघा, गंह्रा	अमीक़	सोँन	गंभीर	खोल, अथांग, गंभीर, गूढ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गवाह, साक्षी	गवाय	साक्षी, गवाह	साक्षी (क्ख)	साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी	साक्षी	प्रत्यक्षदर्शी	साक्षि	साट्चि	साक्षि	साक्षि
साक्षी पूरनार	साक्षीदार, गवाय	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षि	साट्चि अळिप्पवन्	साक्षि	साक्षि
साक्षी	साक्षीदार	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षी	साक्षि	साट्चियाग कैर्याप्पम् इडुबवन्	साक्षि	साक्षि
सघन, धट्ट	उपाट	बाक्लो, सघन	गहन, निबिड़	घन, निबिड़, गहीन	अशुक्पा	घन, गहन	दट्टमयिन॑	अडर्न्द	निबिडम्	निबिडवाद, दट्टवाद
दुर्गम, कठण, गहन	कठीण	दुर्लभ, कठिन, गम्भीर	गहन, दुर्गम, दुरुह	दुर्गम, कठिन, दुरुह	फङ्ङ-म्दबा	कठिन, दुर्गम, दुर्लभ	कठिनमु, दुर्गममु	कडक्क-मुडियाद	दुर्गम माय	कठिणवाद
धरेणुं	दागिने	गहना	गयना, गहना	गहना, आभूषण	लिक-कोन	गहणा, अलंकार	आभरणमु, नग॑	नगै, आबरणम्	आभरणम्, उरुप्पटि	आडवॅ
ऊंडुं अतल	खोल, अगड, गाड	गहिरो	गभीर, अतल	गभीर द, अथाह	अरुबा थेंदबा	गंभीर, गभिर	लोतयिन॑	आळ्मान	आळ्माय, अगाधमाय	आळवाद
गूढ़	गंभीर	गूढ, गम्भीर	गभीर	गुढ़ (बस्तु बा बिषय) गंभीर (व्यक्ति)	चिङ् लेंबा	गंभीर	गूढमयिन॑	गंबीरमान	गूढमाय	गूढवाद, गंभीरवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गाँव	पुं.	ऐसा स्थान, जहाँ लोग पीढ़ियों से रहते आए हों, ग्राम	ग्राम:	पिंड	गाँव	गाम	<u>गो</u>ठु	गाँव, खेडे
गाड़ना	स.क्रि.	1. गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढकना, दफनाना	नि+✓धा	गड्णा, दब्बणा	दफ़नाना	दफनावुन	पूरणु, दफ़नाइणु	पुरणें
		2. धरती या दीवार आदि में धँसाना	गर्ते ✓पातय्	गड्णा, दब्बणा	गाड़ना	वॅडरावुन	अंदर घेड़ुणु, खोड़ुणु, टंबणु	पुरणें
गाढ़ा	वि.	1. जो पतला न हो	सघन	गाढ़ा, संघणा	गाढ़ा	मोॅट	घाटो	घट्ट
		2. (रंग आदि) जो अधिक गहरा हो	अति पक्व	गूढ़ा	गाढ़ा	गोॅट, शोख	घाटो (रंगु)	गडद
		3. दृढ़, पक्का, घनिष्ठ	दृढ	गूढ़ा	पक्का	सख़्त	घाटो	दृढ़, पक्का, घनिष्ठ
गाना	स. क्रि.	लय, ताल के साथ पदों का उच्चारण करना	✓गै	गाउणा	गाना	ग्यवुन	<u>गा</u>इणु	गाइणें
	पुं.	गाई जाने वाली रचना, गीत	गीत	गाउण	गाना	ग्यवुन	रा<u>गु</u>, गानो	गीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गाम, गामडुं	गांव	गाउँ	ग्राम, गाँ	गाँओ	खुङ्गङ्	गों, ग्राम	ग्राममु, पल्लॅटूरु	गिरामम्	ग्रामम्, नाट्टिन् पुरम्	हळ्ळि, ग्राम
गाडवुं, खाड़ो करीने दाबवुं	पुरप	गाड्नु, पुर्नु	पोँता, गाड़ा	पोत, गाँर	फूंबा	पोतिबा	पूड्चुटॅ, पातुटॅ	पुदैक्क	कुळिक्कुक	हूळुवुदु
पूरवुं	–	गाड्नु, पुर्नु	पोँता, गाड़ा	पोत, गाँर	फूमजिनबा	भांगिबा	नाटुटॅ	नाट्ट, पुदैक्क	कुळिच्चिटुक	मुच्चिडुवुदु
गाढुं	घट्ट	बाक्लो	गाठ	गाठ, डाठ	अकुङ्बा	गाढ़, मोटा	दट्टमयिनॅ, चिक्कनि	गॅट्टियान	कट्टियाय	गट्टियागिरुव
घेरूं	गडद	गाढा, चम्किलो	गाठ	गाठ, डाठ	अयाक्पा	गाढ़	गाढमयिनॅ	आळ्न्द	कटुत्त	दप्पवाद, दट्टवाद
पाकुं, घनिष्ठ	गाढ, पक्को	घनिष्ठ, दृढ	गाठ, घनिष्ठ	दृढ़, पक्का, घनिष्ठ	अचेत्पा नक्शिन्नबा	दृढ़, गाढ़, घनिष्ठ	घनिष्ठ - मयिनॅ	अडर्न्द	दृढमाय	घनिष्ठ, गाढ़वाद
गावुं	गावप, पदम्हणप	गाउनु	गानकरा, गाओया	गा	शक्पा	गाइबा	पाडुटॅ	पाड	पाटुक	हाडुवुदु
गीत, गायन	गीत, पद	गीत, गाना	गान, गीत	गीत	इशै	गीत	पाटॅ	पाट्टु	पाट्टुॅ, गीतम्, गानम्	हाडु, गीत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गायक	पुं.	गाने वाला, गवैया	गायक:	गवइआ	गवैया, गुलूकार	ग्यवन वोल	गाइक, गवैयो, रागी	गायक, गाणारा गवैया, गवई
ग्राहक (गाहक)	पुं.	खरीदने वाला, खरीददार	क्रेतृ, ग्राहक:	गाह्क	ग्राहक, ख़रीदार	ग्राख, ह्यॅनु-वोल, खरीदार	ग्राहक, ख़रीदार	ग्राहक, गिर्हाइक
गिनती	स्त्री.	1. गिनने की क्रिया या भाव, गणना	गणना	गिणती	गिनती	ग्रंद	गुणप	मोजणी, गणना
		2. संख्या	संख्या	गिणती	अदद	ग्रंद	अंगु, अददु	संख्या
		3. एक से सौ तक की अंक माला	अङ्कमाला	गिणती	–	ग्रंद	अंग (हिक खां सौ ताईं)	अंक
गिनना	स. क्रि.	1. संख्या सूचक अंकों का नियमित क्रम से उच्चारण करना, गिनती करना	✓गण्	गिणना	गिनना	गंज़रुन	गुणणु	गणती करणे, मोजणे
		2. गणना करना	✓गण्, सम्✓कल्	गिणना	शुमार करना	गंज़रुन	गणप करणु	गणना करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गायक, गवैयो	गायक	गवैया, गायक	गायक	गायक	इशै शक्पा	गायक, गाइबा लोक	गायकुडु	पाडगर्	गायकन्	हाडुगार, गायक
ग्राहक, घराक	गिरायक	गाहक, गाहकी	ग्राहक, क्रेता	ग्राहक, क्रेता, किनोता	पोत् लैबा मी, अरैबा मी	ग्राहक, गराख	कॉनुगोलादारु	विलैक्कु वांगुबवर्, वाडिक्कै-क्कारर्	वाङ्ङुन्नवन्	गिराकि
गणतरी, गणत्री	मेजणी	गणना, गनाइ	गणना करा (न), गोना	गणना	मशिङ् थिबा	गणति, गणना	लॅक्किंपु, गणनॅ	ऍण्णिक्कै	ऍण्णम्, ऍण्णल्	ऍणिकॅ, गणनॅ
संख्या	संख्या	सङ्ख्या	संख्या	संख्या	मशिङ्	संख्या	संख्यॅ	ऍण्	संख्य, ऍण्णं	संख्य
अंक	अंक	गिन्ती	गुनति	एकर परा शलैके संख्या	अमदगी चामा फाओबगी मशिङ्	गणना	अंकॅलु	ऍण्गळ् ऍण्णिक्कै	ऍण्णम्	ऍणिकॅ
गणवुं	गणीत करप	गन्नु	गोना	गणना कर, गंति कर	मशिङ् थिबा	गणिबा	लॅक्कॅ-पॅट्टुटॅ, एंचुटॅ	ऍण्ण	ऍण्णुक	ऍणिसुवुदु
गणत्री करवी	मेजप	गन्ती गर्नु	गणना करा (न)	गणना करा	मशिङ्. थिबा	गणिबा	लॅक्कॅ-पॅट्टुटॅ	कणक्किड	ऍण्णुक	लॅक्क-माडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गिरजा	पुं.	ईसाइयों का प्रार्थना स्थल	खीष्टोपासना-स्थलम्	गिरजा	गिरजा	गिरजुॅ	देवलि, गिरजा-घरु	चर्च
गिरफ्तार	वि.	जो किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा पकड़ा गया हो	बद्ध, गृहीत, निरुद्ध	गिरफतार	गिरफ़्तार	गिरिफतार	गिरफ़्तार	बंदी, कैदी
गिरवी	स्त्री.	1. बंधक, रेहन	आहितक, आधिः	गँह्णे, रहण	गिरवी, रहन	गिरव, अमानथ	गिरवी	गहाण
		2. बंधक रखी हुई चीज	न्यासः, आधिः	–	गिरवी	बंद	गिरवी रखियल शइ	गहाण ठेवलेल वस्तू
गिराना	स. क्रि.	1. नीचे डालना, फेंकना	✓पातय्	डेगणा, ढाहुणा	गिराना	त्रावुन	केराइणु	पाडणें, खाली टाकणें
		2. ढहाना, जमीन पर लुढ़का देना	✓पातय्	डेगणा, ढाहुणा	ढहवाना	वालुन	केराइणु, डाहिणु	फेकणें, जमीन-दोस्त करणें
		3. किसी वस्तु या रचना को तोड़-फोड़ कर उसका नाश या ध्वंस करना	✓ध्वंस्	डेगणा, ढाँहुणा	–	लुहुॅरावुन	भञी-भोरे नासु करणु	ध्वंस करणें
गिरोह	पुं.	एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों का समूह, गुट या झुंड	गणः, दलम्	गुट	गिरोह	जमाथ	टोलो, गिरोहु	टोली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गिरजा, गिरजाघर	इगर्ज	गिर्जाघर	गिर्जा (चार्ज)	गीर्जा	चर्च	गीर्जा	चर्चि	माताकोविल्	क्रिस्त्यन् पळ्ळि	चर्चु, इगर्जी
गिरफ्तार	बंदी, कैदी	गिरफ्तार	ग्रेप्तार, धृत	ग्रेफ्तार करा, बंदी करा	फाबा	गिरफ, बंदी	कैदुचे-यबड्डि	कैदु चेय्यप्पट्ट	तटविलाय, बंधनस्थन्	दस्तगिरियाद, कैदी
गिरवी	घाणवट	बंधक, धितो	बंधक	बंधक	बंधोव थंबा	बंधा, बंधक	ताकट्टु, वस्तुवु	अडगु	पणयम्	गिरवि, अडवु
गिरो मूकेली वस्तु	घाण दवरलेली वस्त	धरोट, नासो	बंधकी द्रब्य	बंधकी बस्तु	बंधोव थंबा पोल	बंधक	ताकट्टु	अडगु वैत्त पोरुळ्	पणय वस्तु	अडवु
पाडवुं	सकयल उडोवप	फाल्नु, झार्नु	फेला, फेले देओआ	पेला, पेलोवा	थादबा, लङ्बा	तले-पकाइबा	पडवेयुट	कीळे पोड.	वीळ्त्तुक	बीळिसुवुदु
जमीन-दोस्त करवुं	भरवण करप	फ्याँक्नु	बओयानो	खहा	–	गड़िबा	पालिंचुट	वीळ्त्त	तळ्ळि वीळ्त्तुक	उरुळिसुवुदु
–	ध्वंस करप	ध्वस्त पार्नु, फोर्नु, तोड्नु	नष्ट, पण्ड अथबा ध्वंस करा	फालि चिरि पेला, ध्वंस करा	थुगाइ-खोकाइदुना माङ्हन-ताक्हनबा	नष्ट बा-ध्वंस करिबा	ध्वंसमु चेयुट	अळित्तुविड	तल्लिप्पोट्टि-क्कुक	ध्वंसमाडुवुदु
समूह-टोळुं	टोळी, पंगड	गुट, टोली	दल, समुह	एके लगे काम करा मानुहार दल बा समूह	काङ्लूप, काङ्बू	दल-समूह	गुंपु, मुठा	कूट्टम	संघम्	गुंपु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गीत	पुं.	छोटी पद्यात्मक रचना, जो गाए जाने के लिए बनी हो, गाना	गीतम्	गीत	गीत	बॉथ	गीतु	गीत
गीतकार	पुं.	गीत लिखने वाला	गीतकारः, गीतप्रणेतृ	गीतकार	गीतकार	बॉथ लेखन वोल	गीतकारु	गीतकार
गुंडा	वि., पुं.	बुरे चाल-चलन वाला, बदमाश	दुण्डुक	गुंडा	ग़ुंडा	गुंडुॅ, बदमाश	ग़ुंडो	गुंड, बदमाश, मवाली
गुंडागर्दी	स्त्री.	गुंडों का आचरण या व्यवहार, बदमाशी	शठाचारः	गुंडागरदी	ग़ुंडागर्दी	गुंडुॅगरी	ग़ुंडागर्दी	गुंडगिरी, बदमाशी, मवालीगिरी
गुंबद	पुं.	वास्तु रचना में वह शिखर, जो अर्द्धगोलाकार और अंदर पोला होता है, गुंबज	शृङ्ग, शिखरम्	गुंबद	गुंबद	गुंबद	ग़ुंबज़ु	घुमट
गुच्छा	पुं.	एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का समूह जो एक साथ गुँथा या उपजा हो	स्तबकः, गुच्छः	गुच्छा	गुच्छा	गुच्छुॅ	गुछो	गुच्छ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गीत, गायन	पद, गीत	गीत, गान	गीत, गान	गीत	इशै	गीत	पाट, गेयमु	पाट्टु, गीतम्	गीतम्, पाट्टुँ	हाडु, गीते
गीतकार	गीतकार	गीतकार	गीतकार	गीतिकार	इशै इबा	गीतिकार	गेय रचयित	पाडला- शिरियर्	गीतकारन्, गान- रचयितावुँ	गीतकार
गुंडो	मवाली, गुंडा	गुन्डा, गुन्डो, बदमास	गुण्डा, बदमायेस	गुण्डा, बदमाच	गुण्डा, बदमाश	गुंडा (गुण्ड़ा), बदमास	रौडी	गुण्डन्, पोक्किरि	गुण्ड	पोकरि, उडाळ, गुंडा
गुंडागीरी	गुंडागीरी	गुन्डागिरी	गुण्डामि, बदमासि	गुण्डामि	जोङ्- काङ् तौबा	गुण्डामि, बदमासि	रौडीतनमु	गुण्डात्तनम् पोक्कि- रित्तनम्	गुण्डा विळयाट्टम्, तंम्माटिन्त्तरम्	गुंडागिरि पोकरितन
गुंबज, घूमट	घुमटी	गुम्बज, गुमज	गुंबज गंबुज	गुंबज	चोंङा, बन	गंबुज	गुम्मटमु	कुविंन्द मण्डपम्, कुविंन्द गोपुरम्	ताळिक्क क्कुटम्	गुम्मट, गुंबज्
गुच्छो	गुच्छो	झुप्पा, गुच्छा, गुच्छक	गोछा (गुच्छ) तोड़ा	गुच्छ, समूह	चरोङ्	गोछा, तोड़ा	गुत्ति	कॉत्तु	कॉत्तु, कूट्टम्	गॉचंलु, गॉनं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गुजरना	अ. क्रि.	1. किसी स्थान से होते हुए आगे बढ़ना	✓लङ्घ्, अति ✓क्रम्	लंघणा	गुज़रना	नेरुन	गुज़िरणु, लंघणु	पुढे जाणें
		2. व्यतीत होना, बीतना	अति ✓इ	बीतणा	बीतना	गुज़ुॅरुन	गुज़िरणु	व्यतीत होणें, कालक्षेप होणें
गुट	पुं.	टोली, गिरोह, छोटा दल	दलम्	गुट	गिरोह	टूॅल्य, जमाथ, छोंख	टोलो, गुटु	गट, लहानदळ, टोळी
गुण	पुं.	1. वह लक्षण, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग करता है	गुणः	गुण	गुन, वस्फ़, सिफ़त	वसुॅफ़	गुणु	गुणधर्म
		2. किसी वस्तु का लाभदायक तत्व, स्वभाव	गुणः	–	ख़ासियत, ख़ूबी	–	–	गुण
		3. प्रशंसनीय बात	गुणः	–	–	–	–	प्रशंसनीय, गोष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुजरवुं, जवुं	मुजरत वचप	निस्कुनु, जानु	कोनो स्थानेर मध्य दिया पार हओया	आगुवाइ या आगबाढ़	चत्खिबा, लालखिबा, शिखिबा	चालिजिबा	गडचुट	कडंदु चॆल्ल	कटन्नुॅ पोकुक	होगुवुदु
व्यतीत थवुं, वीतवुं	तांतूत-ल्यान वचप	गुज्रनु, बित्नु	ब्यतीत हओया, अतीत हओया	पार ह, अतिवाहित ह	लेन्बा	बितिजिबा, पार हेबा, अतिबाहित हेबा	गडचुट	नाट्कळ् कळिय	कळियुक	कळॆदु होगुवुदु
टोळी	टोंळी, पंगड	समूह, दल	छोटदल	समूह, दल	काङ्लुप, दल, काङ्बु	छोट दल	दळमु, गुंपु	कुळु	चेरि, संघम्	तंड, पार्टि
गुण	गुणधर्म	गुण, विशेषता	गुण	गुण	गुण	गुण	गुणमु	गुणम्, इयल्बु	गुणम्	गुण
गुण	गुण	प्रभाव, उपयोगिता, सद्गुण	फलोत्पा-दिका शक्ति, प्रभाव	लाभजनक बा भाल कथा	गुण	प्रभाब	गुणमु	उपयोग-मुळ्ळ तत्तुवम्	मॆच्चम्	प्रभाव
वखाणेली वात	प्रशंसनीय	प्रशंसनीय कुरो	प्रशंसनीय गुण	प्रशंसनीय कथा, गुण	मगुण	प्रशंसनीय-कथा	गुणमु	मॆच्चत्तक्क विषयम्	वैशिष्ट्यम्	वैशिष्ठ्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गुणवान	वि.	गुणशाली, गुणी, गुणों से युक्त	गुणिन्	गुणवान	हुनरमंद, लाइक़	गॊनुवान	गुणवान	गुणवान
गुणा	पुं.	गणित में जोड़ने की एक संक्षिप्त रीति, जिसमें कोई संख्या कई बार जोड़ने की बजाए एक बार में ही उतनी गुनी बढ़ाई जा सकती है	गुणन	गुणा, जरब	ज़रब	ज़रुॅब	ज़र्ब	गुणिलेला
गुदगुदाना	स. क्रि.	हँसाने या छेड़ने के लिए किसी का तलुवा, बगली आदि सहलाना	✓कुतकुतूय्, ✓नोदय	कुतकुतारी करना	गुदगुदाना	कुॅतुॅ कुॅतुॅ करुन	कितकिताई/ कितकिंताई करणु	गुदगुल्या करणें
गुदगुदी	स्त्री.	गुदगुदाने की क्रिया या भाव	कुतकूत	कुतकुतारी	गुदगुदी	कुॅतुॅकुॅतुॅ	कितकिताड़ी/ कितकिताई	गुदगुली
गुनगुना	वि.	हल्का गरम	कवोष्ण, ईषदुष्ण	कोसा	गुनगुना/नीम गर्म	शीरगरुॅम	हल्को गरम, नंहं-सोसिड़ो	कोमट
गुनगुनाना	स. क्रि.	धीमे स्वर में अस्पष्ट शब्दोच्चारण करते हुए गाना	मन्द्र ✓गै ✓गुञ्ज्	गुणगुणाउणा	गुनगुनाना	गूँगॅराय-करुन्य	गुनगुनाइणु	गुणगुणणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुणवान	गुणवान	गुणशाली, गुणवान	गुणवान, गुणी	गुणवान्	मगुण लैबा	गुणबान, गुणी	गुणवँतुडु	नल्ल गुणमुडैय	गुणवान्	गुणवंत
गुणाकार	गुणाकार	गुणा, गुणन	गुणाकार	गुणा, गुणन	पुरिबा	गुणन	इंतलु	पॆरुक्कल्	मटङ्ङुँ, गुण	गुणिसुवुदु, गुणाकार
गलगलिया करवां, गलीष्यी	खाच कुल्यो करप, खात कुल्यो करप	काउकुती लाउनु, कुतकुती लाउनु	सुड़सुड़ि देओया, कातुकुतु देओया	कुटकुटा, भेकुटकटा	तिकि-तिकि होत्पा	कुतुकुतु करिबा	चक्किलिगिंतॆ-पॆट्टुटॆ	किचु किचु मूट्ट	इक्किळि-याक्कुक	कचगुळि-इडुवुदु
गलगली	खाच-कुल्यो, खात कुली	काउकुती, गुदगुदी	सुड़सुड़ि, कातुकुतु	कुटकुटनि, भेकटकुटनि	शौबिङ्-शौबिङ् लाओबा	कुतुकुतु करिबा	चक्किलिगिंतॆ	किळुकिळुप्पु	इक्किळि	कचगुळि
नवशेकुं	शेळ मोडें, मोर्न	मनतातो, मन्दोष्ण	ईष्दुष्ण, अल्पगरम	कुहुमीया	लुंबु-लुंबु शाबा	उषुम, अलप गरम	नुलिवॆच्चनि	वॆदुवॆदुप्पान, इळम्चूडान	इळम् चूटाय	उगुरु-बॆच्चगिन
गण-गणवुं	गुणगुणप	गुन-गुनाउनु	गुंजन करा	गुनगुना	इशै ङङ्बा	गुणुगुणु-करि गीत-गाइबा	कूनराग-मुतीयुटॆ	मॆदुवान कुरलिल् पाड	मूळुक	मॆल्लगॆ-हाडुवुदु, गुन गुनि वुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गुप्तचर	पुं.	जासूस, भेदिया	गुप्तचरः, प्रणिधि	जासूस, सूहीआ	जासूस, सुराग़रसां	जोसूस	जासूसु	गुप्त पोलिस, जासूद, गुप्तचर
गुफा	स्त्री.	जमीन अथवा पहाड़ के अंदर का गहरा तथा अँधेरा गड्ढा, कंदरा	गुहा, दरी	गुफा	गुफा, ग़ार	गोंफ	गुफ़ा	गुहा, गुफा
गुब्बारा	पुं.	बच्चों के खेलने की रबड़ की थैलीनुमा वस्तु, जिसमें हवा, गैस आदि भरी जाती है	ध्मात	गुबारा	ग़ुब्बारा	फोंकुबाल	फूकिणो	फुगा
गुमनाम	वि.	1. अप्रसिद्ध, अनजान, अज्ञात	अज्ञात	गुमनाम	गुमनाम	गुपित, गुमनाम	गुमनाम	अप्रसिद्ध
		2. बिना नाम का, जिसमें किसी का नाम न लिखा हो, अनाम	अदत्तनामन्	–	गुमनाम	गुमनाम	–	निनावी
गुरु	पुं.	विद्या देने वाला, शिक्षक	गुरुः	गुरु	गुरू, मुअल्लिम	ग्वर	गुरु	शिक्षक, गुरु
	वि.	1. भारी	गुरु	भाँरा, भाँरी	भारी, सक़ील	गोंब	ग़ुरो	भारी, वजनदार
		2. कठिन, मुश्किल	गुरु	कठन, ओखा	संगीन, दुश्वार	गोंब	डुखियो	कठीण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुप्तचर, जासूस	गुप्तचर	जासुस, गुप्तचर, सुराकी	गुप्तचर, गोयेंन्दा	गुप्तचर, चोशंचोवा	सि.आइ.डि.	गुप्तचर, गोइंदा	गूढचारि	ऑट्टन्, उळवाळि	चारन्	गुप्तचर, बेहुगार
गुफा	गुफा	ओडार, गुफा	गुफा, गुहा	गुहा	शुरुङ्	गुंफा, गुहा	गुहॅ	गुहै	गुह	गुहॆ
फुग्गो	फुग्गो	गुब्बारा	बेलुन	बेलुन	बोल अकांबी	बेलुन	बूरॅ, बॅलूनु	बलून्	बलूण्	बलूनु
गुमनाम, अप्रसिद्ध	अप्रसिद्ध	गुमनाम, अप्रसिद्ध	अप्रसिद्ध, अख्यात	अप्रसिद्ध, अख्यात	ममिङ् चत्तबा	अप्रसिद्ध, अख्यात	अनामकुडु	पुगळ् पेराद	अप्रसिद्ध-माय	अप्रसिद्ध
ननामुं	निनांवि	बेनामी	अनामा	अनामी	मिङ् लैतबा, मिङ् थोनदबा	अनाम, बेनामि	पेरुलेनि	पॅयरिल्लाद	पेरिल्लात्त	अनामधेय, हॆसरिल्लद
शिक्षक, गुरु	–	शिक्षक, गुरु	गुरु, शिक्षक	शिक्षागुरु, शिक्षक	गुरु, ओजा	शिक्षक, गुरु	गुरुवु	गुरु, अशिरियर्	गुरु	गुरु
गुरु, भारे, वजन-दार	शिक्षक	गुह्रुङ्गो	गुरु, भारी	गुरू, गघुर	अरुंबा	गुरू, भारी	बरुवयिन॑	गनत्त	भारमुळ्ळ	भारि, बहळ
कठण	कठीण	कठिन	कठिन	कठिन, मस्किल	अरीबा	कठिन	कष्टमयिन॑	कडिनमान	विषममाय	कष्टवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गुरुकुल	पुं.	1. गुरु का वास स्थान, जहाँ रह कर शिष्य विद्याध्ययन करते हों	गुरुकुलम्	गुरुकुल	गुरूकुल	ग्वरॅ कॉ॑ल, चा़टहाल	गुरूकुल	गुरुकूल
		2. प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ	विद्यापीठम्	–	तालीमगाह, दरसगाह, मद्रसा	गुरुकुल	–	प्राचीन पद्धतीचे विद्यापीठ
गुर्राना	अ. क्रि.	1. कुत्ते, बिल्ली आदि का क्रोध में मुँह बंद करके भारी आवाज निकालना	✓घुर्घुराय्	गुराउणा	गुर्राना	रौंख करुन	गुरगुराइणु (कुते, बि॒लीअ वग़ैरह जो गुसे में आवाजु करणु)	गुरगुरणें
		2. क्रोध में कर्कश स्वर से बोलना	✓गर्ज्	–	–	ग्रज़ुन	कावड़ि सबबि तिखो गा॒ल्हाइण	रागाने गुरकावणे
गुलाम	पुं.	1. मोल लिया हुआ व्यक्ति, दास	क्रीतदास:	गोला, गुलाम	ग़ुलाम	गॉ॑लाम	ग़ुलामु	गुलाम
		2. ताश का एक पत्ता, जिस पर गुलाम की आकृति होती है	दासपत्रकम्	–	ग़ुलाम	–	ग़ुलामु, गोलो	पत्यातील गुलाम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली.	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुरुकुल	गुरुकूल	गुरुकुल	गुरुकुल	गुरुकुल	गुरु खन्बा	गुरुकुल	गुरुकुलमु	गुरुकुलम्	गुरुगृहम्	गुरुकुल
प्राचीन पध्धतिनी विद्यापीठ	गुरुकुल	गुरुकुल	टोल	गुरुकुल, बिद्यापीठ	गुरुकुल	गुरुकुल, बिद्यापीठ	गुरुकुलमु	पंडै कालत्तिय कल्वि मुरै	गुरुकुल संप्रदायम्	गुरुकुल
घूरकणुं	गुरगुरप	गुर्राउनु	कुकुर बिडालादिर रागे गरगर करा	घेङा, गोरगोरा	खोङ्बा, ङङ्बा	गरगर-हेबा	गुर्रुमनुटॅ	उरुम	मुरळुक	गर्जिसुवुदु
घूरकवुं	भिरभिरप	कराउनु	–	गोरगोरा	याक्ना कन्ना ङाङ्बा	क्रोधरे-कहिबा, गालि-करिबा	गुर्रुमनुटॅ	कोबत्तिनाल् अडित्तोण्डै-याल् पेश	शकारिक्कुक	गुरुगुट्टुवुदु
गुलाम	गुलाम	कमारो, गुलाम	गोलाम, दास, चाकर	गोलाम, दास	मिनाइ	गोलाम, दास, चाकर	बानिसँ	अडिमै	अटिम, दासन्	गुलाम
पानां नो गुलाम	इस्पि-कातलो-गुलाम	गुलाम	गोलाम, दास, चाकर	गोलाम, दास	गुलाम (ताशकी चेना)	ताशर-गोलाम	जाकी	चीट्टाट्-टत्तिल् जाक्कि चीट्टु	जाक्कि, गुलान्	गुलाम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गुलाल	पुं.	रंगदार चूर्ण, जिसे होली के दिनों में एक-दूसरे पर डालते या मलते हैं	कुङ्कुमम्	गुलाल	गुलाल	गुलाल	गुलालु	गुलाल
गुल्लक (गोलक)	स्त्री.	अल्पबचत हेतु मिट्टी या धातु का बना पात्र	गोलकम्	गोलक	गोलक, गुल्लक	गलतानुॅ	भंडारो	गोलक, गल्ला
गूँगा	वि.	जो बोल न सके, मूक	मूक	गूंगा	गूँगा	कॉलॅ	गूंगो	मुका
गूँज	स्त्री.	टकरा कर लौटने वाली आवाज, प्रतिध्वनि	प्रतिरव:, प्रतिशब्द:	गूँज	गूँज, बाज़गश्त	गुंबद	गूंज, पड़ाडो	प्रतिध्वनी
गूँजना	अ. क्रि.	आवाज का टकराकर लौटना, किसी ध्वनि से किसी स्थान का व्याप्त होना, ध्वनि का देर तक सुनाई देते रहना	✓गुञ्ज्, प्रतिध्वनिम् ✓कृ	गूँजणा	गूँजना	गूंजुन	गूंजणु	घुमणें
गूँधना	स. क्रि.	किसी प्रकार के चूर्ण में थोड़ा पानी अथवा तरल पदार्थ मिलाकर हाथ से माँड़ना, सानना	✓मृद्, ✓रन्ध्	गुन्नहंणा	गूँधना	मांडुन	गोहिणु	मळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुलाल	गुलाल	अबिर, अबीर	आबीर	फाकु गुरि, आबीर	अबेर	फगु, अबीर	गुलालु	होलि पंडिगैयिल् उबयोगि-क्कुम् शिवप्पु पॉडि	(होळियिले) गुलाल् पौंटि	गुलाबि हुडि
गोलक	पेटी	खुत्रुके, गोलक	टाका पयसा राखार सिंदुक	धन रखा चंदुक	शेंफू	सिंदूक	गल्ला पॅट्टॅ	उंडियल्	भंडारप्पॅट्टि, गोळक	गोलक
मूंगु, गूंगो	मूक, मोनो	लाटो, मूक	बोबा, मूक	मूक, बोबा	मरोल थोक्तबा	घुंगा, मूक	मूगॅ	ऊमै	ऊम	मूक, मूग
गुंज, गुंजन	प्रतिध्वनी	गुँज	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि	ङङ्बा, निल्बा	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि	एँदिरोलि	मुळक्कम्, प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि
गुंजवुं	घुमप	गुँज्नु, प्रतिध्वनि हुनु	प्रतिध्वनि हओया	प्रतिध्वनि ह, अनुरणित ह	निल्बा	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनिंचुटॅ, मारुम्रोगुटॅ	एँदिरॉलिक्क, रींगारिक्क	मुळ‌ङ्ङुक प्रतिध्वनि-क्कुक	प्रतिध्वनि-सुवुदु
गूंदवुं	मळप	मुछ्नु, सालेमाले गर्नु	माखा, ठासा	सान, मार	नोइबा	चकटिबा	रंगरिंचुटॅ, पिसुकुटॅ	पिशैय	(मावुॅ) कुळक्कुक	कलसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गूढ	वि.	1. छिपा हुआ, गुप्त	गूढ	गूढ़	मख़्फ़ी	गुपिथ	गुझो	गूढ़ ल्पलेले
		2. समझने में कठिन, दुरूह	जटिल	–	दक़ीक़	गूड़	गूढ़ो	समाजण्यास· कठीण, गहन
गूँथना	स.क्रि.	1. धागों या बालों को समेट कर वेणी बनाना	✓गुम्फ्, ✓गुफ्	गुंदणा	गूंधना	(मस) पारुन	चोटी ठाहिणु, वेणी ठाहिणु	गुंफणे
		2. पिरोना	सूच्या सम्+✓श्लिष्, सूच्या+✓सूत्रय्	परोणा	पिरोना	(मस) पारुन	पूअणु/पोइणु	ओवणे
गूदा	पुं.	फल आदि के अंदर का कोमल और गुदगुदा सार भाग	गूढम्	गुद्दा, गुल्फा	गूदा	गूज	गोरो, गुरु	गर
गृहयुद्ध	पुं.	देश के भीतर चलने वाला आंतरिक कलह	गृहयुद्ध, गृहकलह:	ग्रिह युद्ध	ख़ाना जंगी	गरॅ ल्डॉय	घरू लड़ाई	गृहयुद्ध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गुप्त, गूढ़	लिपिल्लो	गूढ, गुप्त	गूठ, गुप्त	लुकाइ रखा, गुप्त	अथुप्पा, अरोन्बा	गूढ़, गुप्त	गुप्तमयिनॅ	मरैंद	गूढमाय	गुप्त, रहस्यवाद
समजवुं मुश्केल, गहन	अवघड	कठिन, दुरुह	दुरुह, गूढ़	गूढ़, दुरुह	अरुबा	कष्ट, कठिन	गूढ- मयिनॅ	पोरुळ् पोदिंन्द	दुरूहमाय	कठिण
गुंफवुं	गूंथप	बेर्नु, जेल्नु	गाँथा, बींधा	गुँथ	लेङ्बा, लोन्बा	गुंथिबा	अल्लुटॅ, गुच्चुटॅ	कूंदलै, चेर्त्तु अळ्गाह मुडिय	पिन्नुक	हेणॆयुवुदु
परोववुं	पोवप	उन्नु, गुँथ्नु	गाँथा.	बेजीत सूता भरा	लेङ्बा	माली- गुंथिबा	कूर्चुटॅ	पिन्न	कोर्क्कुक	पोणिसुवुदु
गर	गर	गुदी, गुदो	फलेर- शाँस	शाह, सार भाग	मतोङ्	शज, मंज	गुज्जु	पळंगळिन् सदैप्पट्टुळ्ळ बागम्	कांपुॅ, कळंपुॅ	तिरुळु
गृहयुद्ध	गृहयुद्ध	गृहयुद्ध	गृह- युद्ध	गृह युद्ध	लैबाक् अमगी मनुङ्दा लैबा मी मशेल अमदि राजनीति वालाशिङ् खत्नबा, सिविल वार	गृहजुद्ध	अंतर्युद्धमु, गृहयुद्धमु, गृहयुद्ध	उळ् नाट्टु कलहम्	गृहयुद्धम्, आभ्यंतर युद्धम्	गृहयुद्ध, सिविलवार्, शीत युद्ध, अंतर्युद्ध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गृहस्थी	स्त्री.	1. घर-बार और बाल-बच्चे	कुटुम्ब	घँरिसती	ख़ानादारी, गिरहस्ती	ग्रिहसथी, खानदॉरी	गृहस्ती, घर-बार वारो	संसार
		2. घर का सब सामान, माल-असबाब	गृहजन:	–	–	–	घर जो सामान-सड़ो	घरचे सामान-सुमान
गृहिणी	स्त्री.	घर की मालकिन, पत्नी	गृहिणी	घँरवाली	गिरहस्तन	खानुदार्रेन्य	घर-धियाणी	गृहिणी
गेरू	पुं.	लाल रंग का खनिज, जो रंगने और दवा के काम आता है	गैरिक	गेरी, गेरू	गेरू	ग्यूर	गेरू	गेरु
गोंद	पुं.	कुछ विशिष्ट पौधों तथा वृक्षों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ	श्लेषक:, वृक्षनिर्यास:	गोंद	गोंद	गोंद	खौंरु	डिंक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गृहस्थी, संसार	संवसार	गृहस्थी, घरबार	घर-संसार, घरोया	घर-संसार, परियाल गृहस्थी	इमुङ् मनुङ्, नुपी अङाङ्	गृह, घर-संसार	कुटुंबमु	कुडुंबम्	कुटुंबम्	संसार
घरेलुं सामान	घरचो सामान	घरायसी मालमत्ता	घरोया	गृहस्थी, घर-गृहस्थी	इमुङगी पोत्चै, माल चाङ्	घर-जिनिष	इंटिसामानु	कुडुंब सामान्गळ्	वीट्टु-सामान-ङ्ङळ्	मनॅय-सामानु, गृहवस्तु
गृहिणी	घरकान्न	गृहिणी, स्वास्नी	गृहिणी, गिन्नी	गृहिणी	युंबुरेंबी, नुपी	गृहिणी, पत्नी	गृहिणि	बीट्टु एजमानि, मनैवि	गृहिणि, वीट्टम्म	हॅण्डति, गृहिणि
गेरू	रोडमाती	गेरु	गौरिक, गेरिमाटि, गिरिमाटि	गेरुमाटि	खोनीदगी फङ्बा अङाङबा मचुगी लैबाक मचु शङ्बा, अमदि हिदाक कान्नबा	गेरुआ	ऍर्रमट्टि	काविक्कल्	कावि	काविमण्णु
गुंद	गोम	गुँद	गँद, आठा	एठा	गोम	अठा	बंक	गोंदु, पिसिन्	पश, कऱ्	गोंद, अण्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गोता	पुं.	शरीर को जल में इस प्रकार डुबाना, जिससे शरीर का कोई अंग बाहर न रह जाए, डुबकी	निमज्जनम्, अवगाहनम्	गोता	ग़ोता	गोंतु	ग़ोतो	बुडी
गोद	स्त्री.	जाँघों के ऊपर का भाग, जिस पर बच्चों आदि को बैठाया जाता है, अंक	अङ्कः, उत्सङ्गः	गोद	गोद	कोंछ	गोदि, हंज	मांडी
गोदाम	पुं.	वह बड़ा स्थान, जहाँ तिजारती माल जमा करके रखा जाता है।	भाण्डारम्	गुदाम	गोदाम	गुदाम	गुदामु	कोठार, वखार, गोदाम
गोधूलि	स्त्री.	सायंकाल का वह समय, जब जंगल से चरकर लौटती हुई गायों के खुरों से धूल उड़ती है और जो शुभ कार्यों के लिए अच्छा मुहूर्त्त माना जाता है	गोधूलिवेला	संझ, वग्गबेल	सरे-मग्रिब	संद्यावख	सांझी, संझा	गोरजवेळ
गोपनीय	वि.	जिसे सार्वजनिक न किया जा सके	गोपनीय	गुपत, गोपनी	खुफ़या	राज़, सिर	गुझो, गुप्तु, मुख़्फ़ी	गोपनीय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
डूबकी	उडकी, उडी	डुबुलकी, गोता	डुब	बुर, बुरण, डुब	इरुप्पा	बुड़िबा	मुनकॅ	मुळुक्कु	मुङ्डि-क्कुळि	मुळुगु, डुबकि
खोळो	मांडी	काख	क्रोड़, कोल, अंक	कोला, अंक	तंबाक्, मथा	कोल, अंक	ऑडि, अंकमु	मडि	मटि	तॉडॅ, मडिलु
गोदाम, गोडाउन, वखार	गुदांव	गोदाम	गुदाम, गोदाम	गुदाम, भँराल	गोदाम	गोदाम	गोडउनु	किडंगु	गुदाम्	भंडार, उग्राण
गोधूलि	आमोरी	गोधूली	गोधूलि, संध्यार पुर्बकाल	गोधूलि, गधूलि	नुङ्दाङ् वाइरम, शन् कारक्पा मतम	गोधुलि, संज, संध्या	संजवेळॅ, गोधूळि-वॅळ	माड्डुगळ् मेयंदु विट्टु मालै तिरुंबुम् नेरम्	गोधूळिवेळ, सायं संध्यावेळ	गोधूलि
गोपनीय	गोपनीय	गोपनीय	गोपनीय	गोपनीय, गोपन, अप्रकाशित	अरोन्बा	गोपनीय, गुप्त, अप्रकाशित, लुक्कायित, निभृत, निर्जन	गोप्यमु, दाचव-लसिनॅ	रगसियमान	गोप्यम्	गुट्टाद, गोप्यवाद, रहस्यवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गोबर	पुं.	गाय, भैंस आदि का मल जो लीपने-पोतने और सुखा कर जलाने के काम में आता हैं	गोमय:	गोहा	गोबर	गुह	छेणो	शेण
गोरा	वि.	श्वेत वर्ण वाला (व्यक्ति), गौर	गौर	गोरा	गोरा	प्रौंन	गोरो, अछो, सुहिणो	गोरा
गोल	वि.	मंडलाकार या वृत्ताकार	वर्तुल	गोल	दाएरा	गोल	गोलु	गोल
	पुं.	फुटबाल आदि खेलों का गोल	गोलम्	गोल	गोल	गोल	गोल (रांदि में)	फूटबॉल वगैरे खेळातला गोल
गोली	स्त्री.	1. शीशा, लोहा या अन्य किसी पदार्थ का छोटा गोलाकार पिंड	गुलिका, गोलिका	गोली	गोली	गूल्य	गोली	गोळी
		2. दवा की टिकिया	वटी, गुटिका	गोली	–	–	गोरी	–
गोष्ठी	स्त्री.	किसी विषय पर चर्चा करना, काव्यपाठ	गोष्ठी	गोशटी	मुज़ाकरा	सेमिनार	गड्जाणी, मेड्, सेमीनार	सभा, बैठक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गोबर	गोबर	गोबर	गोबर, नादि	गोबर	शँन्थी	गोबर	पेड	चाणम्	चाणकम्	सगणि
गोरुं, गौर	गोरो	गोरा, गोरे, गोरो	गौर, फरसा	गौर वर्णर, बगा	अङौबा	गोरा	तॅल्लवाडु	चिवप्पु निरुमान	वॅळुत्त	बिळिय
गोल	गोल	बाटुलो, गोल	गोल	गोल, घूरणीया	अकोइबा	गोल	गुंण्ड्रनि	वट्टव-डिवमान	उरुण्ट	गुंडगिरुव, वृत्ताकार
गोळ	फुटबॉल	गोल	खेलार बल	बल (खेलर)	गोल	पेण्डु	गोलु	विळैयाट्टिल् गोल्	गोळ्	गोलि गुंडु
गोली	गोळी	गोली	गोलि	गुली, बाटलु, गुटि	नोङ्मै-मरु	गुलि	गुण्डु	उरुण्डै	उण्ट	–
गोली	गोळी	गोली, चक्की	गोलि	–	मारबोल, मारबल	–	गुळिगॅ	–	–	गोलि गुंडु
गोष्ठि	सभा	गोष्ठी	गोष्ठी	गोष्ठी, संघ	सेमिनार	गोष्ठी, संघ	गोष्ठि, सभॅ	करुत्तरंगु	चर्च्चायोगम्	सभॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
गौना	पुं.	विवाह के कुछ समय बाद वधू का मायके से विदा होकर ससुराल जाना	द्विरागमनम्	मुकलावा	रुख़सती	सतुॅराथ	शादीअ खां पोइ जी हिक रसम, जंहिं में घोटु पहियों दफ़ो कुंआरि खे पाण सां गडु पंहिंजे घरि वठी वेंदो आहे, गौनो	द्विरागमन
गौरव	पुं.	1. आदर, प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा	गौरवम्	वडिआई, गौरव	ताज़ीम	यज़थ, बजर	गौरव, अभिमानु	गौरव, आदर
		2. बड़प्पन, महत्व	गौरवम्, महत्त्वम्	वडिआई	अज़्मत	–	महतु, वडाई	मोठेपण, महत्ता
ग्रंथ	पुं.	1. किताब, पुस्तक	ग्रन्थः	ग्रंथ, गरंथ	किताब	बॅड़ किताब, ग्रंथ	ग्रंथु, किताबु	ग्रंथ, पुस्तक
		2. धार्मिक या साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक	धर्मग्रन्थः	ग्रंथ, गरंथ	किताब, सहीफ़ा	ग्रंथ	ग्रंथु	ग्रंथ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कन्याने वळाववी ते, कन्याविदाय	–	गौना	द्विरागमन, पतिग्रहे गमन अनुष्ठान	बियार पिचत पोन प्रथम बार बरर सैते कइनार पतिगृहत गमन अनुष्ठान	–	पुआणि	मनुगड्डपु, शोभनमु	मणमगळै मणमगन् मुदल् मुद-लाग तन् वीट्टुक्कु अळैत्तुवरुम् मंगळ चडंगु	कुटिवटपु, वधुविन्टे नूनत गृहप्रवेशम्	शोभन, प्रथम रात्रि
गौरव	मानेस्त, आदर	गौरव, प्रतिष्ठा	मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान	गौरब मर्यादा, प्रतिष्ठा	लेम्जबा, इकाइखु-म्नबा	गौरब	गौरवमु	गौरवम्	मान्यत्वम्, आदरवुॅ	आदर, मर्यादे
वडाई, महत्व	व्हडपण	महत्व, महिमा	गौरव, महिमा	गौरव, महत्व	चाओ-थोक्चबा	–	प्रामुरव्यमु	पेरुंतन्मै	वलिप्पम्, महत्वम्	दोड्डतन, महत्व
ग्रंथ	पुस्तक	पुस्तक, किताब	ग्रंथ, बइ	किताप, ग्रंथ	लाइरिक	ग्रंथ, बहि	ग्रंथमु	नूल्	ग्रंथम्	पुस्तक
ग्रंथ	ग्रंथ	ग्रन्थ	पुस्तक, ग्रँथ	ग्रंथ, धर्मपुथि	अचौबा, धर्मगी ओइबा लाइरिक	धर्मग्रंथ	ग्रंथमु	नूल् पुत्तगम्	प्रमाण ग्रंथम्	ग्रंथ, पुस्तक, होळिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ग्रस्त	वि.	1. पकड़ा हुआ	ग्रस्त	ग्रस्सिआ	मुब्तला	हेंनुं आमुत	ग्रहण लगलु, जकड़ियलु	ग्रस्त
		2. पीड़ित	पीडित	पीड़त	गिरफ़तार	–	सतायलु	पीडित
ग्रह	पुं.	1. सौरमंडल में स्थित वह पिंड, जो सूर्य की परिक्रमा करता हो	ग्रह:	ग्रहि	सय्यार	ग्रह, ग्रुहुद	ग्रहु	ग्रह
		2. पकड़ने या वश में करने की क्रिया या भाव	ग्रह:, ग्रहणम्	–	गिरफ़्त	–	पकड़	पकड
ग्राम	पुं.	गाँव	ग्राम	पिंड	गाँव	गाम	गोठु	ग्राम, गाव
ग्रामीण	वि.	1. ग्राम-संबंधी	ग्राम्य	पेंडू	देही	गामुक	गोठ सां वास्तेदार, गोठाणो	खेडुत, ग्रामीण
		2. गाँव का	ग्रामीण	पेंडू	देहाती	गामुक	गोठाणो	गावाचा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ग्रस्त	ग्रस्त, ग्रास	ग्रस्त	ग्रस्त, ग्रास	ग्रस्त, ग्रास करा	फाजिन्ब, ऊमशिन्बा	ग्रासिबा, ग्रस्त, ग्रहण, निष्प्रभता, अबरोध	ग्रस्तमयिन॒	वलुवाग-प्पिडिक्कप्पट्ट	ग्रसिच्च	ग्रस्त
पीडित	पीडित	पीडित, ग्रसित	ग्रस्त, ग्रास करा	पीड़ित, ग्रस्त	अवाबा	पीडित	पट्टुकान्‌ बडिन॒	तुन्बत्तिल् चिक्किय	पीडितमाय	पीडित
ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रह	ग्रहमु	गिरहम्	ग्रहम्	ग्रह
–	पकडप	ग्रहण	ग्रहण	ग्रहण	फाबा	ग्रहण	वशपर॒ चुकानुट॒	पिडित्तु-क्कोळ्-ळल्	पिटिक्कल्	हिडित
ग्राम, गाभडुं	गांव	गाउँ, ग्राम	ग्राम, पाड़ागाँ	गाँओ	खुङ्गङ्	ग्राम, गाँ	पल्लटूरु, ग्राममु	गिरामम्, पट्टिटाट्टि	ग्रामम्	हळ्ळि
–	गांवगीरें	गाउँसित सम्बन्धित, गाउँले	ग्रामीण	ग्रामीण, गाँओट	खुङ्गङ्गी,	निबाशी, ग्रामबासी	पल्लटूरि	गिरामत्तान् वाडु	ग्रामीणन्	ह.ळ्ळियव
गामडियो	गांवचे	गाउँको	ग्राम्य, गाँओ	गाँवलीया	खुन, लावाइ	गाँर, ग्रामर	पल्लटूरि	नाट्टु-प्पुरत्तिय	ग्रामत्तिल	हळ्ळिय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ग्वाला	पुं.	अहीर, गोप	गोपः	गुआला	गवाला	गूर	गुवालो, खीर वारो	गवळी
घंटा	पुं.	1. दिन-रात का चौबीसवाँ भाग, जो 60 मिनट का होता है	कालखण्डः विशेषः, घण्टा	घँटा	घंटा	गंटुँ	कलाकु	तास
		2. पूजा-अर्चना आदि में स्त्रोतादि की संगति में बजाया जाने वाला वाद्य विशेष	घण्टा	घँटा	–	गंटा	घिंड़ु	घंटा
घंटी	स्त्री.	छोटा उपकरण, जिससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती हो, जैसे साइकिल की या मेज पर रखी घंटी	घण्टिका	घँटी	घंटी	गंटी	घिंडिणी, घंटी/ घिंटी	घंटा, घंटडी
घटना	अ. क्रि.	1. घटित होना	✓घट्	घँटणा	वुक़ूअ, वाक़े होना	हॉंदिसुँ	घटित थियणु, घटणु	घडणे
		2. कम होना	ह्रास/क्षरण	घँटणा	घटना (कम होना)	कम गछुन	घटिजणु	कमी होणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गोवाळ	गवळी	ग्वाला, अहिर	गयला, गोप	गुवाल, गरखीया	शङ्गोम योन्बा	गउड़, गोपाल	गॉल्लवाडु	माट्टिडैयन्	इटयन्	गवळि
कलाक	तास, वरां	घण्टा	घण्टा	घण्टा (समयर परिमाण घंटा)	पुङ्	घंटा	गँट	ओरुमणि नेरम्	मणिक्कूर्	गंटॆ
–	घांट	घण्ट, घण्टा	घण्टा	घण्टा, निर्धारित समय	काङ्शि	निर्धारित-समय, काल	गँट	मणि (अडिक्कुम्)	पूजामणि	गंटॆ, घंटॆ
घंटडी, चक्की	कांपिण, घंटी	घण्टी, सानो घण्ट	घंटि	घंटि	मंडिला मी कौन-नबा मण्डिला	घंटी, घण्टा	चिरु-गँट	सिरिय मणि	मणि	चिक्क-घंटॆ, गंटॆ
घटवुं, बनवुं	घडप	घटना हुनु, घट्नु	घटना, घटित हओया	घटना होवा	थोक्खबा, लोइखबा	घटणा, परिणाम, फल	घटिंचुटॆ	निगळ्	संभविक्कुक	संभविसु, घटिसुवुदु
घटवुं, ओछुं थवुं	कमी जावप	कम हुनु, घटी हुनु	घटना	कमा, कम होवा	हंथबा	कम हेबा, ह्रास हेबा	तग्गुटॆ	कुरैय	कुरयुक	कडिमें आगुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	स्त्री.	3. ऐसी बात या काम आदि, जो हो चुका हो	घटना	घँटना	वाक़िआ, हादेसा	–	थी गुज़िरणु	घटना
घटाना	स. क्रि.	1. कम करना	✓ह्रासय्	घँटाउणा	घटाना, कम करना	गटावुन, तफरीक करुन	घटाइणु	कमीकरणे
		2. गणित में किसी एक राशि में से कोई दूसरी राशि निकालना	✓शेषय्	–	बक़ाया निकालना, नफ़ी करना	–	बाकी कढणु, घटाइणु, कट करणु	वजा करणे, बाकी काढणे, वजाबाकी
घटिया	वि.	गुण, कर्म आदि की दृष्टि से औरों की तुलना में हीन	हीन, तुच्छ	घँटीआ	घटिया	वॅसिथ-दरजि	घटि किस्म जो; हल्के दर्जे जो	सामान्य, हलक्या दर्जाचा
घड़ा	पुं.	धातु, मिट्टी आदि का बना एक गोलाकार पात्र, जो प्रायः पानी भरने के काम आता है, मटका	घटः	घँड़ा	घड़ा	नॉटं, मठ	दिलो, घड़ो	मोठी घागर माठ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
–	सोपप	भइसकेको घटना	घटना	घटना	हंथबा	घटणा	संघटन॒	निगळ्च्चि	संभवं	घटने
ओछुं करवुं	उणे करप	घटाउनु, कम गर्नु	कम करा	कमा, घाटि करा, कमाइ दिया	हंथहन्बा	कमाइ देबा, कमिजिबा, ह्रास हेबा, न्युन हेबा	तग्गिंचुट॒	कुऱैक्क	कुऱक्कुक	कडिमॆ-माडुवुदु
बादबाकी	बाकी काडप बजा करप	शेष निकाल्नु, घटाउनु, घटाउने काम गर्नु	बाद देओया, अबशिष्ट	बियोग कर, बाद दिया	अरेम्बा लौथोकपा खाइदोक्पा	फेड़िबा, वियोग-करिबा	तीसिवेयुट॒	कऴिक्क	कुऱक्कुक	वजामाडु, कळॆयुवुदु
हलकुं	हलक्या दर्जाचो	कमसल, घटिया	निकृष्ट	सस्तीया, बेया	हंथबा	सामान्य,निम्न, निम्नगुण-बिशिष्ट, निकृष्ट	तग्गु-रकमयिन॒	मट्टरगमान	कुरञ्ञ, ताऴ्न्नतरम्	तुच्छ, नीच
घड़ो	कळसो	गाग्रो, जलपात्र, घडा, कलसी	घड़ा, घट, कलसी	कलह	चफू	घड़ा, गगरा, कलसी	कुण्ड॒	पानै	कुटम्	कोड, कोडपान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घनघोर	वि.	1. अत्यंत घना, घना	अतिसघन	संघंणा, घंनघौर	घनघोर	गटुज़ॉल	घाटो, गहरो	अधिक, दाट
		2. भीषण, विकट	भीषण, घोर	–	–	व्योंखुत	भयानक, घनघोर	घनघोर
घना	वि.	1. जिसके अवयव या अंश आस-पास सटे हों	सघन	संघंणा, घंणा	घना	गॉन	गुतियलु	दाट
		2. गहरा	गहन	संघंणा, घंणा	गहरा	गॅहरुँ	घाटो	गंभीर
		3. बहुत अधिक, अतिशय	अतीव	संघंणा, घंणा	निहायत	–	घणो, घणो वधीक	अतिशय, पुस्कळ
घनिष्ठ	वि.	जिसके साथ बहुत अधिक मित्रता या संबंध हो	घनिष्ठ	गूढ़ा	गहरा	टॉठ, अज़ीज़	घाटो, गहरो, वेझो	घनिष्ठ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घनघोर	खूब	धेरै बाक्लो, ज्यादै घना, घनघोर	घोर, खुब बेशी (झमाझम), घनघोर	डाठ, घन, बट बेछि	अमङ्बा	घमाघोट, भीषण, बिकट, भयाबह	दट्टमैन॑	अडन्र्द	घोरमाय, अत्यधिकम्	दट्टवाद, अत्यधिक
–	विकट	डरलाग्दो, भयङ्कर, भीषण	भीषण, बिकट	भीषण, भयानक, विकट	किनिङ्ङाइ ओइबा	भिषण, भयानक, बिकट, भयाबह	घोरमैन॑	बयंकरमान	भीषणमाय	दट्ट, भयंकर
घन	दाट	घना, सघन	घन, सघन	डाठ, घन	अकुङ्बा	घन, गहन, घन्य, संलग्न, पाखरे, निकट	दट्टमैन॑	नॅरुक्कमान	इटतिङ्ङिय	दट्टवाद
–	गडद	बाक्लो, इयाम्म परेको	गाढ़	गाढ़	अरुबा	निबिष्ट, गंभीर, अगाध, गुढ़, निगुढ़, निमग्न, घन	गाढमयिन॑	अडर्त्तियान	आळ्माय	निबिडवाद
–	अतिशय	प्रशस्त, छेलोखेलो	प्रशस्त, अधिक	बहुत, अतिबेछि, अतिशय	ङन्बा, हेनजिन्बा	अधिक, अत्यधिक, अतिशय	मिक्किलि	आळ्मान, मिग अदिग	वळ्येर्	अत्यधिक, अतिशय
घनिष्ठ	घनिश्ठ	घनिष्ठ, आत्मीय	घनिष्ठ, अंतरंग	घनिठ	हक्चिनबा, नक्शिन्नबा	घनिष्ठ, प्रगाढ़, अंतरंग	घनिष्ठमयिन॑	नॅरुंगिय	अट्ुत्त, उट्ट	गाढवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घबराना	अ. क्रि.	1. व्याकुल होना	आकुली+✓भू	घॅबरना, घॅबराउणा	घबराना	गाबरुन	घब़िराइणु	घाबिरणे, व्याकुल होणे
		2. हिचकना	सम्+✓कुच्	घॅबरना, घॅबराउणा	परेशान होना	गाबरुन	हब़िकणु	गडबडणे
		3. सकपकाना (आश्चर्य आदि से)	सम् + ✓भ्रम्	–	–	–	–	–
घमंडी	वि.	जिसे घमंड हो, अभिमानी	अहंकारिन्, दर्पिन्	घॅमंडी	मग़रूर	गमंड़ी	घमंडी, हठीलो	घमेंड खोर
घर	पुं.	मकान, गृह, निवास	गृहम्	घॅर	घर	गरॅ	घरु	घर
घरेलू	वि.	1. घर-संबंधी	गृह्य	घॅरोगी	घरेलू	गर्युक	घरू, घरेलू	घरगुती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गभरावुं	भिवप	व्याकुल हुनु	घाबड़ानो, ब्याकुल हओया	ब्याकल ह, ब्याकुल होवा	मीपाइबा	इतस्तत-हेबा, घाबरेइबा, व्याकुल-हेबा	भीति-चँदुट	तड्डुमार्	मटिक्कुक	हिंदु-मुंदु-नोडु
–	अनमनप	हच्कनु	इतस्तत: करा	इतस्तत: कर	निङ्हन्नबा	पछेइबा, पछघुंचा	संकोचिं-चुट	कलक्कमडैय	परिभ्रमिक्कुक	व्याकुल-गाळ्ळुवुदु, गाबरियागु
–	गडबडप	अकम-काउनु	थतमत खाओया	आश्चर्यान्वित, थतमत खोवा	पाखतपा, हथक्कत्बा	अबाक-हेबा, बिस्मित-हेबा, चमत्कृत-हेबा	बॅदरुट	कलवरप्पड	अंपरक्कुक	कक्का-बिक्कियागु
घमंडी	घमेंड खोर	घमंडी, तुजुकी	अहंकारी	अभिमानी, अहंकारी	नापल तोबा, पोङ्बा	गर्बी, अभिमानी, अहंकारी	पॉगरुबोतु	वीडु, इल्लम्	गर्विष्ठन्, अहंकारि	अहंकारि
घर	घर	घर, आवास	घर, बाड़ी	घर	युम	घर, गृह, आलय, आबास	इल्लु	वीडु, इल्लम्	वीडु, इल्लम्	गृह, मने
घरसंबंधे	घरगुती	घरेलु, घरायसी	घर, बाड़ी संबंधीय	घर	इमुङ् मनुङ्गी ओइबा	घर-संबंधीय, घरोइ	इंटि	वीट्टु	वीट्टिले	मनेय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पालतू	गृह्य	घरेलू	पालतू	–	घरू, पालतू	पाळीव
घसियारा	पुं.	घास छीलने या काटने वाला	घासहरः	घाही, घसिआरा	घसियारा	गॉस	गाही	गवत कापून विकणारा
घसीटना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु को इस प्रकार खींचना कि वह जमीन से रगड़ खाता हुआ आए	आ✓कष्, वि✓कृष्	घसीटणा, घड़ीसणा	घसीटना	लिथविथ-न्युन, खखुॅर दिन्य	गिहिलणु	फरफटणें
		2. जल्दी-जल्दी तथा अस्पष्ट लिखना	अस्पष्टं✓लिख्	घसीटणा	–	–	रहिड़णु, तकिड़ो ऐं अणचिटो लिखणु	घाईत
		3. किसी को किसी काम में जबरदस्ती शामिल करना	बलात् नि✓युज्	घसीटणा	–	–	गिहिलणु	जबरदस्तीने सम्मिलित करणें
घाट	पुं.	नदी, झील आदि के तट पर वह स्थान, जहाँ लोग नहाते-धोते और नावों पर चढ़ते-उतरते हैं	घट्टः	घाट	घाट	गाठ	घाटु	घाट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाळेलुं	घरगुती	घरपालुवा, पालतु	घरपोषा, गृहपालित	पोहनीया	युम्दा योक्पा	पालित, पोषा	पंपुडु	वळर्प्पु, वळर्क्क - प्पडुकिर्	वळर्त्तन्न	पळगिद, साकिद
घसियो	तण विकपी	घाँसी, घाँसे	घेसेड़ा	घाँह- बेचौंता	शजिक् फाल्लगा योन्बा	घास- बिकाली, घास- कटाली	गड्डिकोयुवाड्ड	पुल्- वेट्टुपवन्	पुल्लुकारन्	हुल्लुमारुवव, हुल्लुकोय्युवव
ठसरडवुं	ओडप	घिसार्नु, घसार्नु	घषटे चला, घषटे नेआ, घषटानो	तानिबा, चोचँराइ निया- कार्य	चिङ्बा, थ्रो-थ्रो चिङ्बा	घोषाड़िबा, टाणि- आणिबा	ईड्चटॅ	इऴ्क्क	वलिक्कुक	दरदर- एळेयुवुदु
घसेडवुं	बिरबिरावप	घसेट्नु, चाँडो- चाँडो लेख्नु	द्रुत टाना लेखा	खरखरकै लिखं	खो-खो खोतचिन्बा	दुष्पाठ्य, अपाठ्य, अस्पष्ट	गीकिवेयुटॅ	किरुक्क	कुत्तिवरक्कुक	गीचुवुदु
घसडवुं	मदीं हाडप	तान्नु, खिच्नु, घिस्स्याउनु	जोर करे काउके किछुते जड़ानो	भितरुवा- करिल, टानि-आन	याओशि- ल्लकपा, नपशि- ल्लकपा	जाहा- पढ़ि- हुए नाहिँ, जबरदस्त- भिड़िबा	लागुटॅ, ईड्चुटॅ	कट्टाय- पडुत्ति चेर्त्तक्कोळ्ळ	वलिच्चिटुक	एळेयुवुदु
घाट	घाट	घाट	घाट, जलेर घाट	घाट, पार- घाट	हिदेल, इशिङ् शोक्फम	घाट, तुठ	रेवु	पडित्तुरै	कटवुॅ	घट्ट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घाटा	पुं.	नुकसान, हानि, क्षति	हानि, क्षति	घाटा	घाटा, नुक़सान	गाटुँ	घाटो, नुकसानु	नुकसान, तोटा
घाटी	स्त्री.	पर्वतीय प्रदेशों के बीच का मैदानी या सँकरा मार्ग	उपत्यका	घाटी	घाटी, वादी	वादी नय	घाटी, माथिरी	खिंड
घातक	वि.	1. मार देने वाला	घातक	मारू, घातक	मुहलिक	मारन वोल	घातू, खूनी, हचारो	घातक, घात करणारा
		2. हानिकर	घातक	–	मुज़िर	नोंकसान देह	मौतमार, घातक	नुकसान कारक
घायल	वि.	जख्मी, आहत	आहत	फट्टड़, घाइल	ज़ख़्मी	ज़ख्मी	घायल	जख्मी, घायाळ
घास	स्त्री.	छोटी हरी वनस्पति, जिसे चौपाए खाते हैं	तृणम्	घाह	घास	गासुँ	गाहु	गवत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घट	तोटो, लुक्सान	नोक्सानी, टुट्टा, घाटा	लोकसान, क्षति, अर्थहानि	घाटि, हानि, लोकसान	अमाङ्बा	हानि, क्षति, नष्ट, क्षय, त्रुटि, लोकसान	नष्टमु	नष्टम्, इळप्पु	नष्टम्	हानि, नष्ट
खीण	घळ	उपत्यका, घाटी	उपत्यका	उपत्यका, गिरिपथ	तम्, तंपाक, चीङ् लंबी	घाटि, गिरिपथ	कनुमॅ, लोयॅ	पळ्ळत्ताक्कु	ताळ्वर, मलयिटुक्कॅु	कणिवॆ
घातक	घातक	घातक, हत्यारो	घातक, हत्याकारी, खुनी	घातक, बध-करोता, हत्याकारी	मीहात्पा	घातक, हत्याकारी	घातकमैनॅ	कॊलैयाळि	घातकन्	कॊलॆगार
–	लुक्सान करपी	हानिकारक, बिगार गर्ने	हानिकारक	हानिकर	माङ्हन्बा	हानिकारक, हानिकर, क्षतिकारक, अपकारक, अहितकर	हानि-कारकमैनॅ	कॆडुदल चॆरिगर्	हानिकरम्	हानिकारक
घायल	घायाळ	घाइते, घायल	आहत, घायेल	घाइल, आहत	अशोक्पा	घाइला, आहत, जखम	गायपडिनॅ	कायमडैंन्द	मुरिवेट्ट	गायगॊण्ड
घास	तण	घाँस	घास, तृण	घाँह	नापी	घास, तृण चारण	गड्डि	पुल्	पुल्लॅु	हुल्लु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घिसना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु को किसी वस्तु पर इस प्रकार रगड़ना कि वह छीजने लगे	✓घृष्	रगड़ना	घिसना	गॅहुन	गहणु, गसाइणु	रगडणें
		2. किसी बर्तन आदि पर जमी हुई मैल छुड़ाने के लिए उस पर कोई चीज रगड़ना, माँजना	✓मृज्	रगड़ना	–	मांजुन	मलणु, मंजणु	घासणें
	अ. क्रि.	3. रगड़ से कटना या छीजना	✓घृष्	रगड़ना	–	गसुॅ युन	गसणु	कापणे, झिजणे
घुँघराला	वि.	जिसमें छल्ले की तरह कई बल पड़े हों	कुटिल	घुंघराला, छल्लेदार	घुँघरियाला (घुंघराला)	काँकॅनि दार	घुंडीदार	कुरळे
घुंघरू	पुं.	प्रायः नृत्य के समय पैरों में पहने जाने वाले चाँदी, पीतल आदि का गोल पोला दाना, जिसके अंदर कंकड़ी रहती है	नूपुरम्	घंगुरु	घुँघरू	पांज़ेबु	घुंघरू	घुंगुरू, पैजण
घुटन	स्त्री.	1. दम घुटने की-सी अवस्था या भाव	श्वासावरोधनम्	घुटण	घुटन	दम	घुट-बूसाट	श्वास गुदमरणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घसवुं	रगडप	रगेड्नु, घोटनु	घषा	माज घँह	तक्पा	घषिबा, माजिबा, रगड़िबा	अरगदीयुट̄	तेय	उरयुक	तिक्कुवुदु
मांजवुं, ऊटकवुं	घासप	माझ्नु, घस्नु	माजा	माज, घहाँ	फेङ्बा	माजिबा, घषिबा, रगड़िबा	तोमुट̄	तेय्क्क	तेय्क्कुक	उज्जुवुदु
घसरको	झरोवप, झिजप	घस्ट्नु, रगेडिनु, घोटिनु	घसा	घँहा	खोतोक्पा	रगड़िबा, घषिबा	अरुगुट̄	तेय	तेयुक	सर्वयुवुदु
वांकडियां	कोंगरें	घुँगुरो, घुम्रेको, घुँगुरिएको	काँकड़ा	केँकोरा-केँकुरि	अखोइबा	कुंचकुंचिआ (बाल)	उंगरमुलु-तिरिगिनॅ	चुरुट्टैयान	चुरुण्ड	सुरळियाद, गुंगरु
झांझर	गेज्जे, घुंगरू	घुँगुरा, चाँप	घुँङ्र, नुपुर	जुनुका, घुगुरा	घुंघरु	घुंगुर, नुपुर	गज्जॅलु	सलंगै	कॉलुसुँ	गॅज्जॅ
घुटन (जीवनुं)	घुसमटणी, फुगारमार	निसास्याइ, अताल्याइ, अतालिने स्थिति	दमबॅंध हओयार् अबस्था	श्वास रोध, उशाह-बंध होवा	स्वर फुन्गत्-लक्पा	श्वास-रुद्ध, निश्वास-रोध	ऊपिरि आडक-पोवुट̄	मूच्चु-त्तिणरल्	श्वासम् मुट्टल्	उसिरु-कट्टुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. ऐसी अवस्था, जिसमें कर्तव्य न सूझने पर मन में बहुत घबराहट होती है	व्यथा	घुंटण	–	–	–	मन गुदमरणे
घुसना	अ. क्रि.	बलपूर्वक धँसना, प्रवेश करना या आगे बढ़ना	बलात् ✓प्रविश्	वड़ना	घुसना	अचुन	घिड़णु, घुसणु	शिरणें, घुसंणे
घुसपैठ	स्त्री.	1. प्रयत्न करके या बलपूर्वक कहीं पहुँचकर अपने लिए स्थान बनाने की क्रिया या भाव	अवैधप्रवेशः	घुंसबैठ, घुसपैठ	दरअंदाज़ी	दरंदॉज़ी	रे–मोकल दाख़िला, घुसपैठ	शिरकाव
		2. अनधिकृत रूप से छिपकर प्रवेश करने की क्रिया	सीमातिक्रमणम्	–	–	–	–	–
घूंघट	पुं.	स्त्रियों की चुँदरी, धोती, साड़ी आदि का वह भाग, जिसे वे सिर से कुछ नीचे खींच कर अपना मुँह ढँकती हैं	अवगुण्ठनम्	घुंड	घूँघट	चोंण्ड, नोंर	घूंघटु (कपड़े जो पलउ जँहिं सां मुंहं ढकिजे)	बुरखा
घूँट	पुं.	तरल पदार्थ की उतनी मात्रा, जितनी एक बार मुँह में भर कर गले के नीचे उतारी जाती है	गण्डूष	घुंट	घूंट	गोंल	ढुकु	घोट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गभरामण	घुसमटमार	अलल्याइ, अताल्याइ	हताशा	हताशा–अवस्था	फुङ्ब–ङ्नबा	श्वास–रोध, हताशा, निराशा	दिक्कु–तोचनि–स्थिति	मनम् कुळंबुदल्	विषमम्	पेचाट
घुसवुं	घुसप	पस्नु, छिर्नु, घुस्नु	ढोका, प्रवेश करा	जोर–करि–सोमा	चङ्बा, चङ्शिन्बा	पशिबा, प्रबेश–करिबा	दूरुट	नुळैय	नुळयुक	नुग्गुवुदु
घूषण	रिगप	अवैध प्रवेश, अतिक्रमण	क्रमे क्रमे ओ अलक्षिते बलपूर्वक अनुप्रबेश	अनुप्रबेश	नंफुदा चङ्लक्पा	अनुप्रबेश, गुप्तरे–प्रबेश–करिबा	चॉर–बडुट	ऊडुरुवुदल्	नुळञ्ञु कयट्टम्	अतिक्रमि–सुवुदु, आक्रमिसुवुदु
–	–	गैरकानुनी प्रवेश	बे आइनी अनुप्रबेश	अनैतिक	नंफुदा चङ्लक्पा	–	दॉगलवंटि प्रवेशमु	ऊडुरुवल्	–	–
घुंघट	बुरखो, घुंघट	घुम्टो	घोमटा	ओरणि	माइखुमफी	ओढ़णा	मुसुगु	मुट्टाक्कु	मूटुपटम्	बुरुकि, मुसुकु
घूंट, घूंटडो	घोंट	घुट्को, घुट्की	ढोक	ढोक, ढोका	याउम	ढ़ोक	गुक्क	ऑरु मडक्कु	कविळ्, इरक्कु	गुटुकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घूँसा	पुं.	बँधी हुई मुट्ठी का वह रूप, जिससे किसी पर प्रहार किया जाता है, मुक्का	मुष्टिः	मुक्का	घूंसा	मुकुँ	घूसो, ठौंशो, मुक	ठोसा
घूमना	अ.क्रि.	1. चक्कर लगाना	आ+✓वृत्	घुंमणा	घूमना	फेरुन	घुमणु, चकरु लगाइणुं	फिरणें, भटंकणें
		2. सैर करना	✓भ्रम्	–	–	–	घुमणु	सहल करणें, प्रवास करणें
		3. किसी ओर मुड़ना	परि + वृत्, परा + वृत्	–	–	–	मुड़णु	वळणें
घूरना	स. क्रि.	1. आँखें गड़ाकर देखना	निर्निमेषं ✓दृश्	घूंरणा	घूरना	मुदय गंड्डुंन्य	घूरणु	डोळे वटारून पाहुणें, टकला पाहुणें
		2. काम या क्रोध से एकटक देखना	सकाम्/सकोपम् दृश्	–	–	मुदय गंड्डुंन्य	घूरणु	रागाने रोखून पाहुणें
घूस	स्त्री.	1. रिश्वत	उत्कोच	वड्ढी, रिशवत	रिश्वत	कोँछ, रशवथ	रिश्वत	लांच

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ढिकको, घुस्सो, मुक्को	घुमो	मुक्का, घुस्सा, मुड्की	घुँषि	घाँचा	खुत्तुम्	मुथ, मुष्टि	गुद्दु	मुष्टियाल् कुत्तुवदु	मुष्टि इटि	मुष्टि- प्रहार
घूमवुं	फिरप	रिँग्नु, घुम्नु	घोरा	घूर	कोइबा	बुलिबा, घुरिबा	तिरुगुट	चुट्ट्	चुट्टुक	सुत्तुवुदु
सेरकरवी	घुंवप	टहल्नु	बेड़ान	फुरा, घूरिफुरा	कोइबा	घुरिबा	वाह्यालि, शिकारु पोवुट	उलाव	उलात्तुक	तिरुगाडुवुदु
वळवुं	वळप	मुड्नु	अन्य दिके घोरा	घूर, ओलट- घुरा	लैथोक्पा	बुलिबा, घुरिबा घुराइबा, बुलाइबा	तिरुगुट	तिरुंब	तिरियुक	तिरुगुवुदु
ताकी ताकीने जोवुं	तीख नदरेन पळोवप	एकटकले हेर्नु, एकसुरले हेर्नु	एकदृष्टे देखा, बाँकाचोखे देखा	चकु चा, बेया- चकुरे चा	मीत् शुक्तोक्ना येङ्बा	एक दृष्टिरे- चाह्बिा, आड़ बा- बक्रदृष्टिरे-देखिबा	गुड्लप्पि- गिंचि चूचट	उट्टुप्पार्क्क	तुरिच्चु नोक्कुक	दिट्टिसुवुदु
गुस्साथी जोई रहेवुं	विडकेन पळोवप	आँखा तर्नु	बिरक्त दृष्टिते देखा	सतृष्ण नयने चा, खङत चोवा	शाओर- ङनना येङ्बा, मुना-मुना येङ्बा	क्रोधरे- देखिबा, बिरक्त- दृष्टिरे- देखिबा	तदेक- दृष्ठितो- चूचुट	मुरैत्तुप्पार्क्क	चिरञ्चु नोक्कुक	दुरगुट्टुवुदु
रिश्वत, लांच	लांच	घूस, रिश्वत	घुष, उत्कोच	भेटि, उत्कोच, घोच	वानोम- शेल	घुस, उत्कोच, लांच, अन्याय बा- अबैध-पुरस्कार	लंचमु	लंजम्	कैक्कूलि, कोळ्	लंच, मेलु गळिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु, जो पृथ्वी के अंदर बिल खोद कर रहता है	मूषक: जाति विशेष:	घूंस	घूस	–	वडो कूओ, घुस	घूस
घूसखोरी	स्त्री.	रिश्वत लेने की क्रिया या भाव	उत्कोचग्राहिता	वड्ढी खोरी, रिशवतखोरी	रिश्वतख़ोरी	रशवत खूरी	रिश्वतख़ोरी	लांच-लुचतप
घेरना	स. क्रि.	1. चारों ओर से रोकना, अवरोध करना	✓वेष्ट, उप+✓रुध्	घेरना, बलगणा	घेरना	गेरुॅ करुन	घेरणु	घेरणें
		2. कोई जगह इस प्रकार भरना कि औरों के लिए स्थान न रह जाए	उप+✓रुध्	घेरना, बलगणा	–	–	–	जागा संपूर्ण अडविणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उंदर, कोळ	कोळिंदुर, घूस	मुसा-प्रजातिको एक जंतु, घूस	मेठो इंदुर	एबिध एंदुर	राबी	एण्डुअ	पंदिकोक्कु	पेरुच्चाळि	तुरप्पन्	हेग्गण
लांच खोरी, रिश्वत-खोरी	हात-भिजोवणी	घूसखोरी	घुष खाओया/ लओया	भेटि-खोबा, घोच लोवा	शेन्जा-थुमजा तौबगी	लांचुआपण, उत्कोचभाब	लंचगों-डितनमु	लंजम् वांगुदल्	कोळ् वाङ्ङल्	लंचखोरतन
घेरवुं	घेरो घालप	घेर्नु, छेक्नु	घेरा, अबरोध	घेर, अवरोधकर	कोइशिन्बा, कोइबा	घेरिबा, बेष्टन-करिबा, अबरोध-करिबा	चुट्टु-मुट्टुट	वळैत्तु-क्कोळ्ळ	वळयुक, तटयुक	सुत्तुग-ट्टुवुदु
जग्या पचावी पाडवी	घेरावप	ओगट्नु, रोक्नु	घिरे फेला	आबटि-धर	खाजिन्बा	अबरोध-करिबा, अधिकार-बा दखल-करिबा	आक्रमिं-चुकोनुट	इडत्तै अडैत्तु-क्कोळ्ळ	कैयेरुक	आवरिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घेरा	पुं.	1. लंबाई-चौड़ाई आदि का सारा विस्तार या फैलाव	विस्तार:	घेरा	घेरा	गेरुँ	घेरो	घेरा, विस्तार
		2. इस प्रकार घेर कर खड़े होने की स्थिति, जिससे उस स्थान से कोई बाहर न निकल सके	अवरोध:	–	हलक़ा	–	घेराओ	वेढा
घोंसला	पुं.	वृक्ष आदि पर तिनके, पत्ते आदि का बना हुआ स्थान, जिसमें पक्षी रहते तथा अंडे देते हैं	नीडम्	आल्हणा	घोंसला	ओल	आखेरो, घोंसलो	घरटे
घोंटना (घोटना)	स. क्रि.	1. गले को इस तरह दबाना कि साँस रुक जाए	✓मुट्	घुट्टणा	घोंटना	हॉटँ चीरुन	घुटणु, गलो दबाइणु	दाबणे
		2. मुँहजबानी याद रखना, रटना	✓रट्	रटणा, घोंटणा	मुँहज़बानी	–	रटणु	घोटणें, तोंडपाठ करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घेरो	घेरो	घेरो, वृत्ताकार परिधि	परिधि, घेर, माप	घेर, बिस्तार, परिधि	शंदोक्पा	घुरा, परिधि, बिस्तार	वैशाल्यमु	चुट्टळवु, विस्तारम्	चुट्टळवुँ, विस्तारम्	सुत्तु, विस्तार
घेरो	घेराव	घेरेर् रोक्ने क्रिया, घेराव	घेराव, अबरोध करा	अवरोध, आटक, बेरिधश्रा	खाजिन्बा	घेराउ, अबरोध, अटक	चुट्टुमु-ट्टुटॅ	मुट्टुगै गेरो	घेराव्, वळयुक	मुत्तिगॅ
माळो, पंखीनुं घर	घोंटेर	गुँड	पाखिर बासा, नीड़	चराइर-बाह	मकोल, महूम	चदेइ बसा, नीड़	गूडु	परवैगळिन् कूडु	(पक्षिक्कूटुँ) कूटुँ	गूडु
गळुं वधवुं	अडचुवप (गळो)	घाँटी थिच्नु	गला टेपा (साँस रोधकरा)	डिङि-चेपि धर, डिङि मुचर	मेत्पा, मेतखाइबा	गला-चिपिबा	कुत्तुक-पिसुकुटॅ	मूच्चू-त्तिणरच्चंय्य	कऴत्तु ञॅक्कुक	हिसुकुवुदु
गोखवुं	तोंडपाठ करप, बायपाठ-करप	घोक्नु	मुखस्त करा	मुखस्थ कर, आबृत्ति-कर	चिन्फा पुबा	मुखस्थ-करिबा, आबृत्ति करिबा	बट्टी पट्टुटॅ	उरु अडिक्क	काणाप्पाठम् पठिक्कुक	बायिपाठ, कंठपाठ-माडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
घोल	पुं.	किसी तरल पदार्थ में कोई दूसरी (घुलनशील) वस्तु मिलाकर तैयार किया हुआ मिश्रण	मिश्रणम्	घोल	मह्लूल	मिलुमिशि	काढ़ो, घोलु	द्रावण
घोलना	स. क्रि.	किसी तरल पदार्थ में कोई अन्य घुलनशील वस्तु मिलाना	✓मिश्र्	घोलणा	घोलना	मिलॅुनावुन	ग़ारणु, कंहिं पाणियठ में का जज़्ब थींदड़ शइ मिलाइणु	मिसळणें
घोषणा	स्त्री.	1. जन-साधारण को जानकारी देने के उद्देश्य से जोर से कही जाने वाली बात	घोषणा	ऐलान	ऐलान, मुनादी	येलान	ऐलान, पढ़ो, ढिंढोरो	घोषणा
		2. सार्वजनिक रूप से निकाली गई राजाज्ञा	राजाज्ञा	–	–	–	पधिराई, घोषणा	सार्वजनिक रूपांत निघाले की राजाज्ञा
चंगुल	पुं.	1. शिकारी पशु-पक्षियों का टेढ़ा पंजा	–	चंगुल	चुँगुल	पंजि	चंबो	पंजा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मिश्रण	मिश्रण	घोल, घोलिएको झोल पदार्थ, मिश्रण	घोल, लस्सि	घोल, मिहलोवा, मिहलिकरा	यानशिन्बा	मिशाइबा, मिश्रण- करिबा	द्रावकमु	करैसल्	लायनि	मिश्रण
घोळवुं	मिसळवप	घोल्नु, घालघुल गर्नु, मिसाउनु	गोला, गुले देआ	घोल, मिहलोवा	यान्बा	मिलेइबा, मिशाइबा, मिश्रण- करिबा	कलुपुटं	करैक्क	कलर्त्तुक	करगिसुवुदु
घोषणा, जाहेरात	घोशणा	घोषणा	घोषणा	घोषणा	लाओथोक्पा	घोषणा, ज्ञापन, बिज्ञप्ति	चाटिंपु	पादु अरिविप्पु	विळंबरम्	घोषणं
ढंढेरो	राजाज्ञा, फर्मान	राजाज्ञा, राजाको हुकुम	राज-हुकुम, घोषणा	प्रशसनीय घोषणा	पुन्नमक्की ओइबा सरकारगी याथङ्	घोषणा- पत्र	प्रकटुनं	अरसु- अरिक्कै	पातुंविज्ञापनम्	सूचनं, सूचनं- प्रकटणं
पंजो	पंजो	पन्जा (पक्षी- हरुको)	थाबा, पाखीर बाँका नख	हातोरा	लाङ	पंझा, पशु बा- पक्षीर नख	पंजा, पट्टु	विलङ्गिन् वळैनगम्	पिटि	पंजा, हस्त

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी व्यक्ति के प्रभाव या वश में होने की वह स्थिति, जिसमें से निकलना सहज न हो	वश	चंगुल	–	–	कब्ज़ो, चंबो	पंज्यात, ताव
चंचल	वि.	1. अस्थिर	चञ्चल	चंचल	चंचल	च़ंच़ल	चंचल	चंचल, अस्थिर
		2. नटखट, शरारती	चञ्चल	–	शोख़	–	खेचिलो	खोडकर.
		3. जो शांत न हो, विकल, उद्विग्न	चञ्चल	–	–	–	अशांत	अशांत
चंदन	पुं.	1. एक प्रसिद्ध पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है	चंदनम्	चंदन	संदल	च़ंदुन	चंदन	चंदन
		2. उक्त लकड़ी को जल में घिस या रगड़ कर बनाया हुआ गाढ़ा घोल या लेप, जिसका टीका आदि लगाया जाता है	चंदनम्	चंदन	चंदन	–	चंदन जो लेपु	चंदन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पंजो, कबजो	ताबो	चङ्गुल, कब्जामा परेको स्थिति	मुठोर मध्ये	कबलत, फांदत-परा	लाङदा थुबा	कबल, अक्तिआर	पंजा, पट्टु	बलुवान पिडिप्पु	पिटियिल् पंटल्	हिडित
चंचल (ळ)	चंचळ	चञ्चल, अस्थिर	चञ्चल, अस्थिर	चंचल, अस्थिर	अरेङ्बा	चंचल, अस्थिर, अधीर	चंचलॅ-मयिनॅ	निलैयिल्लाद	चंचलम्	अस्थिर, चंचल
चालाक	मस्ती	छुकछुके, उपद्र्याहा	छटफटे, चञ्चल, दुष्टु	दुष्ट, उत्पतीया	ङाओ-शिन्नबा, तथक्पा	बदमासि, दुष्ट	अल्लरि	कुरुंबु-त्तनमान	कुसृति	तुंट
अधीरुं	अशांत	चकचके, अशांत	चञ्चल, अशांत, उद्विग्न	अशांत, बिकल, उद्विग्न	शांति लैतबा, अराङ्बा	उदबिग्न, अशांत, चंचल, बिकल	व्याकुल-मैनॅ	अमैदियट्ट	अशांतमाय	अशांत, उद्विग्न
चंदन	चंदन (रुख)	चंदन, श्रीखण्ड	चंदन	चंदन	चंदोल पांबी, जा चँदोल	चंदन	चंदनमु	चंदनमरम्	चंदनम्	गंधदमर, चंदन
तिलक	चंदन	चंदन, लेपन	चंदन लेपन	घँहा-चंदन	चंदोन्	चंदन रस	चंदनमु	चंदनम्	चंदनम्	गंध, चंदन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चंदा	पुं.	1. चंद्रमा	चंद्रः	चन्न, चंदा	चाँद	चॖंदरमुॅ जून	चंडु	चंद्रमा
		2. किसी परोपकारी अथवा सार्वजनिक कार्य के लिए दी या ली जाने वाली व्यक्तिगत आर्थिक सहायता	अंशदानम्	चंदा	चँदा	चंदुॅ	चंदो	वर्गणी
		3. किसी संस्था/पत्रिका आदि को उसके सदस्य, ग्राहक आदि बने रहने के लिए दिया जाने वाला धन	अनुदानम्	चंदा	–	चंदुॅ	चंदो	वर्गणी
चंद्रमा	पुं.	पृथ्वी का एक प्रसिद्ध उपग्रह, चाँद	चन्द्रः	चंदरमा	चाँद	चॖंदरमुॅ जून	चंडु, चंद्रमा	चंद्र
चकबंदी	स्त्री.	1. जमीन का बड़े-बड़े टुकड़ों में बँटवारा	भूम्याबंटन	चकबंदी	चकबंदी	चकबँदी	चकबंदी	मोठया जमिन नीचे लहान लहान तुकडे करणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चंदा, चंद्र, चंद्रमा	चंद्रीम, चंद्र	चंद्रमा, चंद्र, जून	चाँद, चंद्रमा	जोन, चंद्र	था	चंद्र, चंद्रमा, चांद, जन्ह	चंद्रुडु	चंदिरन्	चंद्रन्	चंद्र
फाळो	धर्मादो, दाव	चंदा	चाँदा देआया	चांदा, बरङणि	पैसा खाइबा, चंदा	चांदा	चंदा	पण उदवि	संभावन	चंदा
लवाजम	वर्गणी	चंदा	चाँदा	चांदा, बरङणि	चंदा खाइबा	चांदा	चंदा	चंदाप्पणम्	वरिसंख्य	वंतिगं
चंद्रमा, चांदो	चंद्र	चंद्रमा, चंद्र, जून	चंद्रमा, चाँद	चंद्र, जोन	था	चंद्रमा, चंद्र, जन्ह	चंद्रुडु	चंदिरन्	चंद्रन्	चंद्र
जमीन ना भाग पटा नक्की करवां ते	मेर घालप	चकबंदी	जमि बा दालान छोटो छोटो टुक्राकराय भाग करा	चकबंदि	लम् येंथोक्पा	चकबंदी	पंद्द- भूखंडान्नि- विभागमु- चेयुट	वरप्पु पोड्डदल	(भूमि) अळन्नु- तिरिक्कल्	चकबंदि, सीमें, हददु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. छोटे-छोटे खेतों को एक में मिला कर उनके बड़े-बड़े चक या विभाग बनाने की क्रिया या भाव	भूम्याबंटन	चकबंदी	–	–	–	लहान-लहान शेताना एकत्र जोडून त्यांचे तुकडे किंवा विभाग करण क्रिया वा भाव
चकराना	अ.क्रि.	1. चकित होना	वि ✓स्मि	चकराउणा	चकराना	चर्कुरुन	चकिराइणु	चकित होणे
		2. सिर घूमना	✓भ्रम्, ✓घूर्ण	चकराउणा	–	–	–	–
	स. क्रि.	किसी को चक्कर या फेर में डालना, चकित करना	✓विप्रलम्भय्	चकराउणा	–	–	कंहिं खे चकर में विझणु; हैरान करणु	बुचकळ्यांत पाडणे
चकित	वि.	आश्चर्य में आया या पड़ा हुआ	चकित	हैरान	हैरान	हॉरान	हैरान	चकित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नानां नानां खेतरो ने जोडीने तेना मोटा भाग करवानी प्रक्रिया	शीम घालप	चकबंदी	चकबंदी	चकबंदि	लबुक् चाओवा-चाओना यात्पा, खाइदोक्पा	चकबंदि	भूमि एकीकरणमु	सिरिय वयल्गळै चेर्त्तु परिय वयलाक्कुदळ्	वरंपिटल्	चकबंदि, सीमे, हद्दु
आश्यर्च चकित थवुं	चकीत जावप	छक्क पर्नु, जिल्लिनु	चकित हओआ	बिमोरत पर, आचरित ह	ङक्पा	बिस्मित-हेबा, चकित हेबा, आश्च-र्यान्वित-हेबा	चकि-तुडगुटॅ	वियप्पडैय	अंबरन्नु पोवुक	चकित-नागुवुदु
चक्कर आववा	तकली घुंवप	रिँगटा लाग्नु	माथा घोरा	मूर धुरा, आचरित कर	कोक् ङाओबा	मुंड बा-मथा-घुराइबा, मुंड-बुलाइबा	तलॅ-तिरुगुटॅ	तलै चुट्ट	तल चुट्टुक	तलॅतिरुगुवुदु, तलॅसुत्तुवुदु
कोई ने आंटा खवराववा	गोंदळावप	सङ्कटमा पार्नु, चकित गर्नु	माथा घुरिए/ गुलिए देओआ	आचरित कर	उरु-उरु लैबा, ङक्पा	षड़जन्त्रे-पकाइबा, चक्रान्तरे-पकाइबा	भ्रांति-गॅालुपुटॅ	वियप्पूट्ट	चुट्टिक्कुक, परिभ्रमि-प्पिक्कुक	भ्रांति-उंटु-माडुवुदु
चकित	चकीत	चकित, विस्मित	चकित, चमकित, बिस्मित	चकित, बिमोर	अङकपा	चकित, बिभोर, बिस्मित	चकितुडयिनॅ	आच्चरि-यमडैंद, वियप्पुट्ट	आश्चर्य प्पॅट्ट	बॅरगाद, विस्मय गॉण्ड, चकित

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चक्की	स्त्री.	पीसने-कूटने व दलने की मशीन के लिए पत्थर का उपकरण	पेशनी, पेषिणी	चक्की	चक्की	ग्रटुँ	चकी	चक्की, जाते
चक्र	पुं.	1. गोलाकार वस्तु जैसे गाड़ी का पहिया आदि	चक्रम्	चक्का	पहिया (चक्कर)	ज़ख्रुंर	चकिरो, फीथो, चक्रु	चाक, गाडीचे चाक
		2. गोलाकार एक अस्त्र	चक्रम्	चक्कर	चक्र (चक्कर)	–	चक्रु	गोल चाकाच्या आकाराचे शस्त्र
		3. देश भक्ति या वीरता आदि के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला पदक या तमगा	पदकम्	चक्कर	तमग़ा (चक्र)	–	चक्रु	चक्र (पदक)
चखना	स.क्रि.	किसी खाद्य वस्तु का स्वाद जानने के लिए उसका थोड़ा अंश मुँह में रखना या खाना	✓स्वद्	चक्खणा	चखना	मज़्ुंवुछुन	चखणु	चाखणें
चटपटा	वि.	मिर्च-मसालेदार, तीक्ष्ण स्वाद का	सुतिक्त	चटपटा, करारा, तिक्खा	चटपटा	त्रोंश, टयोंठ	मसालेदार, तिखे सवादवारो	मसालेदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चक्की, घंटी	गिरण, दाते	घट्ट, जाँतो	जाँता	जाँत	चक्की	चकि, पेषणा, जंता	तिरुगलि, पिंडिमर॑	मावु अरैक्कुम् इयंदिरम्	तिरिकल्लुँ	बीसुवकल्लु
चक्र, पैडुं, चकरडुं	चक्र	पाङ्ग्रो, चक्का	चाका, चक्र	चका	चाका, काङ्खोङ	चक, गाडिर चक	चक्रमु	चक्करम्	चक्रम् (वण्डि)	गालि, चक्र
सुदर्शन-चक्र	च़ाक	चक्र (दाँती भएको हतियार)	चक्र	(अस्त्र) चक्र	चक्र	चक्र, भगबान-श्रीकृष्णंक-अस्त्र	चक्रमु	चक्रायुदम	चक्रायुधम्	चक्र
चंद्रक, चांद	पदक, तसरीप	चक्र, पदक	पदक	चक्र	मना	चक्र, पदक बा-पुरस्कार	चक्रमु	वीरत्तुक्कान वंगुमदि	वीर चक्रम्	पदक, चक्र
चाखवुं	च़ाखप	चाख्नु	चाखा, आस्वाद तेओया	चाकि चोवा	महाओ तङ्बा	चाखिबा, स्वाद, आस्वाद, आस्वादन, खाद परीक्षा-करिबा	रुचि-चूचुट॑, च़वि चूचुट॑	रुशि पार्क्क	रुचिच्चु नोक्कुक	रुचिनोड्वुदु
तीखुं, मसालेदार	मचमचीत	तिक्खर, चखिलो स्वाद भएको, स्वादिलो	झाल-मसलायुक्त, मुखरोचक स्वाद	चोका, जला	थुम्-मोरोक् याओबा	मरिच-मसलायुक्त	घाटयिन॑	कार-सारमान	एॅरिवुम् पुळियुम् उळ्ळ	कारवाद, रुचियाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चटाई	स्त्री.	फूस, सींक, पतली पट्टियों आदि का बिछावन	कटँ	चटाई	चटाई	वगुव	तड़ी, तौंरी, चटाई	चटई
चट्टान	स्त्री.	पत्थर का बहुत बड़ा और विशाल खंड	प्रस्तर:	चटान	चटान	कनि पल	चटान, छिप	खडक
चढ़ना	अ. क्रि.	1. ऊपर की ओर बढ़ना	उत् ✓गम्	चढ़ना	चढ़ना	खसुन	चढ़णु	चढणे
		2. सवार होना	आ ✓रुह्	चढ़ना	तरक़्क़ी	गुरि खसुन	सबार थियणु	सवार होणें
		3. उन्नति करना	उत् ✓नम्	चढ़ना	–	थज़र प्रावुन	तरक़्क़ी करणु	उन्नती करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चटाई, सादड़ी	शेंदरी, मांदरी	गुंद्री, सुकुल	मादुर, चाटाइ	कठ, ढारि, ढरा	फक्	चटाई, सप (मसिणा)	चाप	पाय्	पाय	चापे
चट्टान, मोटी पहोळी शिला, खडक	खडप	चट्टान	प्रस्तर-खण्ड, शिला	डाङर-शिलाखण्ड	नुङ्पाक	पथर-चटाण	बंडरायि	पारै	पार्	बण्डे, शिलॆ
चडवुं	चड़प	उक्लनु, चढ्नु	आरोहण्	चड़ा, ओपरलै ओठा	काखत्पा	आरोहण-करिबा, चढिबा, उपरकु-उठिबा	एक्कुट	एर्	कयरुक	हत्तुवुदु, ऐरुबुदु
सवार थवुं	वचून बसप, चड्डुन बसप	सवार हुनु	चड़ा, चापा	उठ, बगा	तोङ्बा	आरोहण-करिबा, चढिबा	एक्कुट	सवारि शंय्य	कयरुक	सवारि-माड्डुवुदु
उन्नति करवी	उन्नती करप	प्रगति गर्नु	उन्नति करा	उन्नति-कर	हायगत्पा चाओखत्पा	उन्नति. करिबा, साफल्य, बिकाश, बुद्धि, परिस्फुट करिबा	उन्नति पांदुट	मुन्नेरु	उयर्च्च प्रापिक्कुक	उन्नतिमाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		4. बही खाते आदि में नामों, रकमों आदि का अंकित होना	उत् ✓लिख्	–	–	–	–	नावें मांडणे
चढ़ाई	स्त्री.	1. ऊँचाई की ओर जाने वाला मार्ग	उत्तान	चढ़ाई	चढ़ाई	चडॉय	चढ़ाई	चढण
		2. आक्रमण	आक्रमण	हमला	हमला	–	हमलो	आक्रमण
चतुर	वि.	1. कार्य और व्यवहार में कुशल, प्रखर	प्रवीण, दक्ष	चतर, चातर	होशियार	चालाक	चतुर, होशियार	चतुर
		2. चालाक, धूर्त	चतुर	चलाक	–	चालाख	चतुर, चालाक	धूर्त, हुशार, चलाख
चपरासी	पुं.	1. कार्यालय के कागज-पत्र आदि लाने या ले जाने वाला कर्मचारी	प्रेष्य:	चपड़ासी	चपरासी	चपरॉस्य	चपरासी, पटेवालो	चपरासी, पट्टेवाला
		2. अरदली	आदेशपाल:	–	फ़रेबी	–	अरदली	अर्दली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खाते लखवुं	खात्यार मांडप	दर्ता हुनु	खाताय नाम ओठा	अंतर्मुक्त ह	इशिन्बा	पुस्तकरे-लेखिबा	एक्कुटे	कणक्किल् ऍळ्दप्पड	कणक्किल् कयट्टुक	लॅक्कद पुस्तकदल्लि हॅसरु, मॉबलगु नोंदिसुवुदु
चडावुं	चड़टे	उकालो	चड़ाइ	उजनीलै, उपरैलै उठा भाग	अङंबा	चढ़ाई, क्रमोन्नत-भूमि	ऍक्कुडु	एट्टम्	कयट्टम्	एरु, दिण्णॆ
चडाई, आक्रमण	आक्रमण	हमला, आक्रमण	चड़ाओ, आक्रमण	आक्रमण	लालदाबा	आक्रमण, चढ़उ	दाडि	पडैयॅडुप्पु	आक्रमणम्	दंडयात्रॆ, आक्रमण
चतुर	हुशार, शिटूक	सिपालु, कुशल	चतुर, पटु	चतुर, कुशल	है शिङ्बा	चतुर-कौशल	चतुरुडु, नेर्परि	तिरमैयुळ्ळ	मिटुक्कु-ळ्ळ	चतुर
चालाक	चालाख, धूर्त	चलाक, चतूरो, धूर्त	चालाक, चतुर, धूर्त	चालाक, धूर्त्त	चालाक लैबा, मरौ तौबा	धूर्त, चतुर, चालाक	मोसकारि	तंदिरशालि	कौशल-क्कारन्	धूर्त, बेरिकि
चपरासी, सेवक	प्यून, पायक	चप्रासी	चापरासी	पियन, चाप्रासी	चपरासी	चपरासी, पिअन	नौकरु, बंट्रोतु	कडैनिलै उळियर्, पियून	शिपायि	जवान, सिपाइ
पटावाळो	सेवेकार	अर्दली	चापरासी, आरदाली, पिओन	पियन	अरदली	अर्दली, चपरासी	बंट्रोतु	नेर्मुगसेवगर्, विल्लैच्चेवकर्	आर्डर्लि	पट्टेवाला, जवान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चपल	वि.	स्थिर न रहने वाला	चपल, चंचल	चंचल	चँचल	चंचल	चंचलु	चप़ळ
चबाना	स. क्रि.	खाद्य वस्तुओं को दाँतों से काटकर बारीक करना	चर्व्	चब्बाउणा, चब्बणा	चबाना	च़ापुन	चबाइणु	चावणें
चबूतरा	पुं.	मकान के अगले भाग में बैठने के लिए बनाई गई खुली चौकोर और चौरस जगह	वेदी	चबूतरा, थड़ा	चबूतरा	चबूतरुॅ	चबूतिड़ो, थल्हो	चबुतरा
चमक	स्त्री.	प्रकाश, कांति	प्रकाशः, कांतिः	चमक	चमक	चमख	चमक, चमको,	चमक, प्रकाश
चमकना	अ. क्रि.	प्रकाश या ज्योति से युक्त होना	/भास्	चमकणा	चमकना	चमुकुन	चमकणु	चमकणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चपळ	कांचवेल्लो	अस्थिर, चञ्चल	चपल, चञ्चल	चपल, चंचल, अस्थिर	अरेङ्बा, लैतादबा	चपल, अस्थिर, चंचल	चपलुडैनं	निलैयिल्लाद	स्थिरमल्लात्त	चंचल, चपल
चाववुं	चाबप	चपाउनु, मरमन्याउनु	चिबानो	चोबा, कामुरि खा; बा चोबोवा	शइबा	चोबाइबा, चर्बण-करिबा	नमलुटॅ	चवैत्तल्	चवय्क्कुक	जगियुवुदु
चबूतरो, चोतरो	आंगण, बरांडो	चौतारो	चबुतर, चत्वर, चाताल	घरर-समुखर-बारांदा, चोताल	माङ्गोल	चउतरा, अगणा, बारण्ड़ा, चउपाढ़ि	अरुगु	मेडै, तिण्णै	तिण्ण, वरांत, पूमुखम्	कट्टॅ
चमक	चमकप, लकलकप	टलक, चहक, प्रकाश	चमक, औज्ज्वल्य, झलकानि	जिलिकनि, कांति	अरङ्बा, मङाल	चमक, प्रकाश, कांति, दीप्ति	मॅरुपु, वॅलुतुरु	ऑळि	प्रकाशम्, तिळक्कम्	हॉळपु
चमकवुं	चकचकप	जगमगाउनु, चम्किनु	चमकानो, झलकानो	तिरविर, पोहर-चमकनि	लङ्बा ङानबा	ज्योतियुक्त-हेबा, आडंबर-बा अतिब सौंदर्ज्य, बिस्मित-करिबा	प्रकाशिंचुटॅ, मॅरयुटॅ	प्रकाशिक्क	मिन्नुक	प्रकाशिसुवुदु, हॉळॆयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. कांति या आभा से युक्त होना	/भास्	चमकणा	तरक़्क़ी	–	–	कांति किंवा आभा युक्त होणें
		3. उन्नति करना	उत् /नम्	चमकणा	–	–	तरक़्क़ी करणु	उन्नती करणें
चमड़ा	पुं.	मृत पशुओं की खाल का प्रसंस्कृत रूप	चर्मन्	चमड़ा	चमड़ा, जिल्द	दालुँ, चमरुँ	चमड़ो	चामडे, कातडे
चमत्कार	पुं.	1. अलौकिक-सा जान पड़ने वाला काम या बात, करामात	चमत्कार	चमतकार	करिश्मा, करामात	ज़मत्कार	चमत्कारु	चमत्कार
		2. आश्चर्यजनक कार्य	आश्चर्यम्	चमतकार	मोजिज़ा	–	करामत	विस्मय, आश्चर्य
चरण	पुं.	1. किसी पूज्य व्यक्ति के पाँव के लिए आदर-सूचक शब्द	चरण	चरन	क़दम	खोँर	चरणु, पेरु	पाय
		2. किसी छंद, श्लोक आदि की पूरी पंक्ति अथवा चौथाई भाग	पद	–	मिस्रा	–	चरणु, छंद जी पूरी सिट या अध सिट	चरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कांतिमान होवुं	–	टल्किनु, तेजिलो हुनु	आभायुक्त (जु)	पोहर	चाओखत्पा	–	मेरयुट	ऑळि वीश	प्रकाशि-क्कुक, तिळङ्ङुक	कांतियुत, मिरुगुवुदु
उन्नति करवी, चोंकवुं	–	बढिबढाउ हुनु, उन्नतिमा लाग्नु	उन्नति करा	उन्नति कर, विख्यात्	ऊन्शा	उन्नति करिबा	उन्नति पांदुट	मुन्नेरु	उयरुक	उन्नति हांदुवुदु
चामडुं	–	छाला	चामड़ा, त्वक	चामरा, छाल	लेदर	चमड़ा, लेदर	तोलु, चर्ममु	तोल्	तोल्	चर्म, तांगलु
चमत्कार	चमत्कार	चमत्कार, अचम्म	चमत्कार	चमत्कार, आचरित-कार्य	अङक्पा थौदोक	चमत्कार, अलौकिक, आश्चर्य्य	चमत्कारमु	वियत्तगु चेयल	चमत्कारम्	अदभुत कार्य, चमत्कार
आश्चर्य	आश्चर्य	आश्चर्य, विस्मय	आश्चर्य, अलौकिक, विस्मय	आश्चर्य, बिस्मय	अङक्पा	आश्चर्य्य, विस्मय	चमत्कारमु	वियप्पु	आश्चर्यम्	आश्चर्य, विस्मय
चरण, पग	पांय	चरण, पाउ	चरण, पा, पद	चरण, पाद, पद	खोङ्या थंबाल्	चरण, पाद, पाद-पद्म	चरणमु	पादम्, अडि	चरणम्, पादम्	चरण
चरण	चरण	श्लोक वा गीतको एक पङ्क्ति	चरण (कबिता/ श्लोकेर)	चरण, छंद	चरण	पंक्ति, पद, छंद, चरण	चरणमु	चेय्युळिल् ऑरु अडि	चरणम्, पादम्	पाद, चरण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चरना	स. क्रि.	पशुओं का खेतों आदि में उगी हुई घास, पौधे आदि खाना	चर्	चरना	चरना	गासुॅ ख्यॉन	चरणु	चरणें
चरबी (चर्बी)	स्त्री.	प्राणियों के शरीर में सफेद या हल्के पीले रंग का गाढ़ा, चिकना तथा लसीला पदार्थ	मेदस्	चरबी	चर्बी	चरबी	चर्ब़ी	चरबी
चरवाहा	पुं.	वह व्यक्ति जो दूसरों के पशुओं को चराकर अपनी जीविका चलाता हो	गोपालः	चरवाहा, वागी	चरवाहा	पोंहल	धनारु	गुराखी
चरस	स्त्री.	गाँजे के पौधों के डंठलों पर से उतारा हुआ एक प्रकार का हरा या हल्का पीला गोंद या चेप, जिसे लोग गाँजे या तंबाकू की तरह पीते हैं	मादकद्रव्य-भेदः	चरस	चरस	चरुॅस	चरस	चरस
चरागाह	पुं.	पशुओं के चरने का स्थान, जहाँ प्रायः घास आदि उगी रहती है	गोचरभूमिः	चरांद, चरागाह	चरागाह	चरागाह, गासुॅ-मॉदान, रख	चरागाहु	गायरान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चरवुं	चरप	चर्नु	चरा, गबादि पशुर घास खाओया	चर, घाँह-खा	शजिक् चाबा	चरिबा, घास-खाइबा	मेयुट	मेय	मेयुक	मेयुवुदु
चरबी, मद	चरबी	बोसो, मेद	चर्बि, मेद	मेद, तेल	हक्चाङ्गी थाओ	चर्बी, मेद	कोव्वु	कोळुप्पु	कोळुप्पु	कोब्बु
चरवैयो	राखणो, चरयतलो	चरुवा, गोठालो	राखाल, पशुचारक	गरखीया	शन्जेन्नहा	चराली, चराइबा-लोक, गोपाल	गोर्लकापरि	आडुमाडु मेय्प्पवन्	कन्नुकालि मेय्ककुन्नवन्	दन-मेयिसुवव, दनगहि
चरस	चरस	चरेस	चरस, गाँजा/ तामाक जातीय मादक	भाङर दरे एबिध निचालगा बस्तु	चरस, गंजादगी शेमा निशा माखल अमा	गंजाइगछर-अठापरि-रस, गंजेइ	गंजाइ	कञ्जा	चरस्	गांजा, अफीमु
गोचर, गौचर	चरवामळ	गौचर, गोचर	चारणभूमि, गोचर	चरणीया-पथार	शान्जाबुङ्	गोचर भूमि, चारण भूमि	पच्चिक-बयलु	मेय्च्चल निलम्	मेच्चिल स्थलम्	हुल्लुगावलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चरित्र	पुं.	1. व्यक्ति के आचरण या व्यवहार को दिखलाने वाले लक्षणों का समुच्चय, आचरण	चरित्र, शील	चरित्तर	अख़लाक़, किर्दार	चालुँ चलन	चरित्रु, इख़लाकु	चरित्र
		2. कहानी, नाटक आदि का कोई पात्र	चरित्र, पात्र	चरित्तर	किर्दार	–	पात्रु (कहाणी, नाटक वग़ैरह जो)	पात्र, किरदार
चर्चा	स्त्री.	1. बातचीत, वार्तालाप	वार्ता	चरचा	गुफ़्तुगू, बातचीत	कथ बाथ	ग़ाल्हि-ब़ोल्हि	वार्तालाप, चर्चा
		2. अफवाह	अपवाहः	–	अफ़वाह	–	अफ़वाहु	अफवा
चलचित्र	पुं.	सिनेमा (फिल्म)	चलचित्रम्	सिनेमा, चलचित्तर	सिनेमा, फ़िल्म	सेंनिमा	फ़िल्म, पिक्चर	चल चित्र, सिनेमा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चरित्र	चरित्र	चरित्र, चाल-चलन	चरित्र, चाल-चलन, आचरण	आचरण, ब्यबहार	लम्वत्	चरित्र, आचरण, ब्यबहार, आचार-ब्यबहार	शीलमु, नडवडि	नडत्तै, गुणादि-शयंगळ्	स्वभावम्	नडर्त, आचरणं
पात्र	पात्र	चरित्र, पात्र	चरित्र, पात्र (नाटक/ उपन्यासेर)	चरित्र, पात्र	चरित्र	नाटक-आदिर-पात्र, चरित्र	पात्रॆ	कदै अल्लदु नाडग पत्तिरम्	कथा पात्रम्	पात्र
चर्चा	चर्चा	कथन, छलफल, चर्चा	चर्चा, आलोचना, कथाबार्ता	चर्चा, आलोचना	नैनबा	चर्चा, बार्तालाप, आलोचना, आलाप, कथाबार्ता	चर्चे	उरैयाडल	चर्च्च	मातुकर्त, संभाषणं
अफवा	अफवा	अफवाह, उड्वा-कुरा	गुजब	गुजब, उरा-बातरि	तोक्ङा	अपबाद, दुर्नाम, निंदा, कलंक, कुत्सा	पुकारु	वदंति	किंवदंति ऐनिह्यस	जनश्रुति, सुद्दि
चलचित्र, सिनेमा	सिनेमा	बाइस्कोप, सिनेमा, चलचित्र	चलच्चित्र	चिनेमा चलचित्र	सिनेमा	चलचित्र	सिनिमा	तिरैप्पडम् सिनिमा	चलच्चित्रम्, सिनिम	सिनेमा चलचित्र, चित्रपट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चलना	अ. क्रि.	1. पैरों, पहियों आदि की सहायता से अथवा किसी प्रकार की गति से युक्त होकर आगे बढ़ना	चल्	चलणा	चलना	पकुन	हलणु	चालणें
		2. किसी चीज का ठीक तरह से उपयोग या व्यवहार में आते रहना	सम्यक् √चल्	चलणा	रिवाज पाना	चलुन	चलणु	योग्य वापर होणें
चलनी (छलनी)	स्त्री.	आटा, चाय आदि छानने का उपकरण	तितउ, पावनी पवित्रम्	छानणी	छलनी	पर्युन	छाणी	चाळणी
चश्मा	पुं.	1. ऐनक	उपनेत्रम्	ऐनक	ऐनक	ऑनख	चश्मो, ऐनक	चाळिशी, चश्मा
		2. जल-स्रोत, सोता	जलस्रोतस्	चश्मा	चश्मा	–	चश्मो, स्रोतु	झरा
चसका	पुं.	किसी वस्तु या कार्य से होने वाली तृप्ति को बार-बार पाने की लालसापूर्ण प्रवृत्ति, चाट, लत	व्यसनम्	चसका	चसका	चॅशकुॅं, मजु	चस्को	चटक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चालवुं	च़लप	हिँड्नु, गतिशील हुनु	चला	या, चला, फुरा	चत्पा	चलिबा, गति-करिबा	नडुचुटॅ	नडक्क	नटक्कुक	नर्डयुवुदु
योग्य उपयोग के वपराश	वापरप	चलनमा आइ राख्नु	चला	चला, चलन	शिजिन्नबा	चालना	नडुचुटॅ	उबयोगप्पड	उपयोग-प्पेटुक	चलावणेय
चाळणी	च़ाळणी, गाळणी	चालनी, चल्नी	चालुनि, चालनि	चालनी	चलोनी	चालुणी, चला	जल्लॅडॅ	चल्लडै	अरिप्प	जरडि
चश्मा	चश्मो	चस्मा	चशमा	चछमा, बित्चकु	आनोक्	चशमा	कळ्ळॅ जोडु	मूक्कु-क्कण्णाडि	मूक्कुकण्णट	कन्नडक, चाळीसु
चश्मो, पाणीनो झरो	झरो	सोतो	जलस्रोत, झरना	पानीर-सौँत, सुँति	इफूत्	जल स्रोत, पाणिर-धार	नीटिबुग्गॅ	नीर् ऊट्टु, चुनै	अरुवि	बुग्गे
चसको	चट	लत, आदत, लालसापूर्ण प्रवृत्ति	लालसा-पूर्ण प्रबृति	आसक्ति, लालसा	तौनिङ्बगी अपाँबा	लालसा, आसक्ति, प्रबृत्ति	व्यसनमु	नाट्टम्	कांति, आर्त्ति	गीळु, चट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चहकना	अ. क्रि.	1. पक्षियों का आनंदित होकर कूजना, चहचहाना	√कूज्,	कूक्णा, चहकणा	चहकना	बोल-बोश करुन	चह-चह करणु, तंवारणु	चिंवचिंवणे
		2. उमंग या प्रसन्नता से बढ़-चढ़ कर बोलना	प्रलाप, √उत्कूज्	–	–	–	खुशीअ में भरिजी ॿोलणु	किलाबेल करणें
चाँटा	पुं.	हथेली तथा हाथ की उंगलियों से किसी के गाल पर किया जाने वाला प्रहार, थप्पड़, तमाचा, झापड़	चपेटा	चपेड़, चंड, चांटा	तमाँचा	चपाथ	चमाट, थफ	चपराक, थप्पड
चाँदनी	स्त्री.	1. चाँद का प्रकाश	चंद्रिका, ज्योत्स्ना	चांनणी	चाँदनी	जूनुँ गाश	चांडोकी	चांदणे
		2. छत पर या ऊपर की ओर तानने का कपड़ा	छद:	चांनणी	–	–	चंदो	छतावर किवा छपरावर ताणले कपडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कलरव करवो	चिवचिवप	चिरबिराउनु, चहचहाउनु	चुँ चुँ शब्द करा, कूजन (पाखीर)	चिंचिया, कल्कला	उचेक्ना खोङ्बा	पक्षीमाने- आनंदरे- कूजन बा- कलरब करिबा	पक्षुल कल- रवमु	परवैयिन् किरीच्चॉलि	चिलक्कुक	चिलिपिल गुट्टुवुदु, कलरव माड्डुवुदु
किल-किलाट करवो	कुलबुलप	चहचहाउनु, प्रसन्न हुनु	आनंदे उत्साहे कलकल, कलरब करा	बरकै- कथा- क	हेन्जिन्ना ङाङबा	प्रसन्नता, उत्फुल्लता, आनंद	उल्लासंतो माट्लाडुट	चिलंबुदल्	(उत्साहम् कोण्डु) कूडुतल संसारिक्कुक	उत्साह- दिंद- माताडुवुदु
झापट	थापट	चड्कन, थप्पड, झापड	चड़, थाप्पड़, चाँटि	चर, थापर	खजाइ, खूत्पाक्ना थाबा	चापुड़ा, थापड़	चंपदेब्ब	अरै (अडि)	चंकिट्टत्तटि, प्रहरम्	कन्नं एटु, पेंट्टु
चांदनी	चान्नें	जून, ज्योत्स्ना	चाँदनि, ज्योत्स्ना	जोनाक ज्योत्सना	थाबल	चंद्रर- ज्योति, प्रकाश- बा किरण	वेन्नेल	निला	चंद्रिक, निलावुॅ	बेळुदिंगळु
चंदरवो	–	चँदुवा	चाँदोया, मण्डप	चंद्रातप, चंदोवा	थाखन	चांदुआ	वितानमु	पंदलिन् मेकर्कट्टि, वितानम्	मेल्क्कट्टि	वितान, मेल्कट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चाँदी	स्त्री.	सफेद रंग की एक चमकीली धातु, जो गहने, सिक्के आदि गढ़ने के काम आती है	रजत	चांदी	चाँदी	रौंफ	चांदी	चांदी
चाकू	पुं.	फल आदि काटने का छोटा औजार, छुरी	क्षुरिका	चक्कू, चाकू	चाकू	श्राकुँपुच	चाकू, कपु	चाकू
चाटना	स. क्रि.	जीभ लगाकर या जीभ से पोंछ कर खाना	जिह्वा-आस्वाद	चट्टणा	चाटना	ल्यवुन	चटणु	चाटणें
चापलूस	वि.	खुशामदी, चाटुकार	चाटुकारः	चापलूस, खुशामदी	खुशामदी	खोशामदी	चापलूस	खुशामत करणा चाटुकार
चाबी	स्त्री.	ताली, कुंजी	कुंजी	चाबी	चाबी	कुंज़	चाबी, कुंजी	चावी, किल्ली
चाबुंक	पुं.	कोड़ा	कशः	चाबक	चाबुक	कमुचि	चहबुक, चाबुक	चाबुक, हंटर
चारपाई	स्त्री.	खाट, छोटा पलंग	खट्वा	मंजी, चारपाई	चारपाई, पलंग	चारपाय	खट, मंजी	बान, खाट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चांदी	चांदी	चाँदी	रूपा, रूपो	रूप (धातु)	लुपा	चांदि, रूपा	वॆंडि	वॆळ्ळि	वॆळ्ळि	बॆळ्ळि
चाकु, चाकू, चप्पु	चाकू	चक्कु	चाकु, छुरि	कटारी, छुरि	हैज्राङ्	छुरि, कटुरी	चाकु, कत्ति	कत्ति	पिच्चात्ति, पेनाक्कत्ति	चाकु, चूरि
चाटवुं	चाटप	चाट्नु, चाटेर् खानु	चाटा	चेलेक, जुति-चा	लेक्पा	चाटिबा	नाकु͞ट	नक्क	नक्कुक	नॆक्कुवुदु
खुशामत-खोर	भाट, खुशामती	चापलुस, खुसामदी	तोषामुदे, चाटुकार	तोषामो-दकारी	चिरोल तौबा	तोषामदकारी, चाटुकार	मुखस्तुति-चेयुवाडु	मुगस्तुति सॆम्बवन्	मुखस्तुति-क्कारन्, सेवक्कारन्	मुखस्तुति हॊगळुभट्ट
चावी	चावी, चाई	साँचो	चाबि	चाबि सँचार काठी	शो	चाबि, कंचि	ताळपुचॆवि	चावि	ताक्कोल्	बीगदकै
चाबुक	चाबूक	कोर्रा	चाबुक, कोड़ा, कशा	एचारि, चाबुक	शाजै	चाबुक, कोरड़ा	कॊरडा	चाट्टै, चवुक्कु	चाट्ट	चावटि, बारुकोलु
चारपाई, खाटलो	खाट	खटिया, खाट, चारपाई	खाट, खाटिया, पालक	चारपाइ, खाट, खाटिया	काङ्थोल मचा	खट, खटिआ	मंचमु	कट्टिल्	कट्टिल्	मंच, हॊरसु, हग्गद मंच

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चारा	पुं.	1. पशुओं के खाने की घास, पत्ती, डंठल आदि	थवस:	चारा	चारा	चारॅ	चारो	चारा, गवत
		2. चिड़ियों, मछलियों आदि को फँसाने अथवा जीवित रखने के लिए खिलाई जाने वाली वस्तु	आहार:	चारा	–	दानुँ	चारो	चारा
		3. उपाय, इलाज, युक्ति	उपचार:	चारा	चारा, तदबीर	वॉपाय	चारो	उपाय, इलाज, युक्ती, अधिकार
चाल	स्त्री.	1. चलने की क्रिया या भाव	चलित	चाल	चाल	चाल	चालि	चाल
		2. गति	गति:	चाल	रफ़्तार	चाल	चालि	गती, पद्धत
		3. धूर्तता	धूर्तता	चाल	रविश	चाल	चालि	युक्ती, कावा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चारो	ऱ्चारो, ऱ्चख	चारा, आहारा	चारा	घाँह-बन,	शजिक्	चारा, दाना	मेत	काल् नडैत्तीवनम्	तीट्ट, कालित्तीट्ट	मेवु
चारो	आंयस	चारो, चारा	चार	टोप, आहार	मचिन्जाक्	माछ-अदिकु-आकृष्ट-करिबा-पाइँ-खाद्य वस्तु आहार, थोप	एर	परवै/ मीन् पिडिक्क उपयो-गिक्कुम इरै	तीट्ट	आहार, तिंडि
इलाज, उपाय	उपाय	उपाय, जुक्ति, चारा	चारा, उपाय, युक्ति	उपाय, प्रतिकार	उपाय, पांबै	प्रतिबिधान, प्रतिकार, उपाय	उपायमु, मार्गांतरमु	उपायम्, वळि़	वळि़, मार्गम्	उपाय, युक्ति
चाल	चाल	चाल, हिँडाइ	चाल	गति, खोज	चत्पगी मओङ्	गति, चलन	नडक	नडै	नटक्कल्	नर्ड
गति	गती	गति	चाल, गति	चाल, गति	खोङचत्	गति, बेग	नडक	वेगम्	गति	वेग
चाल	धूर्तता	धुर्त्याइँ, धूर्तता	चाल	धूर्त्तालि	मीनंबा	धूर्त्तता, प्रतारणा, शठता, असत-उपाय	एंत्तुगडं	तंदिरम्	वंचन	तंत्र, मोस

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		4. शतरंज, ताश आदि के खेल में अपनी बारी आने पर गोटी, पत्ता आदि आगे बढ़ाने या सामने लाने की क्रिया	चलित	चाल	फ़रेब	चाल	चालि	खेळांतली चाल
चालक	वि.	चलाने वाला (ड्राइवर)	चालकः	चालक	ड्राइवर	चलावन-वोल, ड्राइवर	हलाईंदड़ु, ड्राईवरु	चालक, ड्रायव्हर
चालाक	वि.	1. होशियार, व्यवहार-कुशल	चतुरः	चलाक	चालाक	चालाख, हुशार	चालाकु	चतुर, व्यवहारकुशल
		2. धूर्त	धूर्तः	चलाक	होशियार	–	धूर्तु	धूर्त, लबाड, चलाख
चालान (चलान)	पुं.	1. रवन्ना	अभियोगपत्रम्	चलान	चालान	चालानुँ	चालानु	चलान
		2. अभियोगारंभ	अभियोगारंभः	चलान	रसीदेज़र	–	चालानु	कोर्टातन्यायाधी-शासमोर उभेकरणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शतरंज के गंजीफानी रमतमां चाल	खेळांतली चाल	खेलमा चालिने चाल	चाल	पाशा-खेलर चाल	खोङचत्	चलाइबा-क्रिया	एंतु	चदुंरग, चीट्टु विळैयाट्टिल कायै नगर्त्तुदल्	करु नीक्कम्	नडसुविर्क
चालक	ड्रायवर	ड्राइभर, चालक	चालक, ड्राइभार	चालक, चलाँओता	गाड़ी थौबा, ड्राइवर	चालक	ड्राइवरु	ओट्टुनर्	ड्राइवर्	ड्राइवर्, चालक
चालाक	हुशार	चलाख, टाठो	चालाक, हुँशियार	निपुण, कुशल	हैशिङ्बा, चालाक लैबा	चालाक, कुशली, निपुण	नेर्परि	तंदिर शालियान	सूत्रशाली	जाण, चतुर
चालक, लबाड	धूर्त	बाठो, चङ्ख, धूर्त	चालाक, धूर्त	धूर्त, चतुर, टेंगर	नम्थाक, लौनम	धूर्त, चालाक, शठ, प्रतारक	मोसकारि	पोक्किरि	वंचकन्	धूर्त
दंड	तालांव	विवरण पत्र, चलानी	चालान	चालान	चलान	चालाण	चलान	वळक्कु तांडरल्	चंल्लान्	रवानगी चीटि
फोजदारी	अभियोगारंभ	अभियोग-पत्र	चालान, अभियोग पत्र	अभियोगर आरंभ	चलान	अभिजोगा-रंभ, फौजदारी, चालाण	चलान	वळक्कु तांडरल्	कुट्टपत्रम् कांडुक्कल् टुक्कल्	चलानु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चाहना	स.क्रि.	1. इच्छा करना	इष्	चाहुणा	ख़्वाहिश करना	यछुन	चाहिणु	इच्छाकरणें
		2. प्रेम करना	कामय्, स्निह्	चाहुणा	मोहब्बत करना	–	–	आवडणें, प्रेमकरणें
चिंघाड़ना	अ. क्रि.	हाथी का बोलना या जोर से चिल्लाना	गर्ज्	चिंघाड़णा	चिंघाड़ना	ग्रज़ुन	चिंघणु	हत्तीचा चीत्कार
चिंतन	पुं.	कोई बात समझने या सोचने के लिए मन में बार-बार किया जाने वाला उसका ध्यान या विचार, मनन	चिंतन, मनन	चिंतन	तफ़क्कुर, ग़ौरोफ़िक्र	खयाल, च्यथ	चिंतनु	चिंतन
चिंता	स्त्री.	1. सोच, फिक्र	चिंता	चिंता, फ़िकर	फ़िक्र	फिकिर	चिंता, फ़िक्रु	चिंता
		2. परवाह	चिंता	चिंता	परवाह	–	–	लक्ष, पर्वा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चाहवुं	इत्सा करप	चाहनु, चाहना गर्नु	चाओया, इच्छा करा	इच्छाकरा, हेपाहकरा	अपांबा	चाहिँबा, इच्छा-करिबा	कोरुट	विरुंब	आग्रहिक्कुक	बयसुवुदु, बयर्क
गमवुं	प्रेम करप, मोग करप	मन पराउनु, रुचाउनु, प्रेम गर्नु	प्रेम करा, भालबासा	भाल, मरमकरा	नुङ्शिबा	प्रेम-करिबा, स्नेह-करिबा, भल-पाइबा	प्रेमिंचुट	आशैप्पड	प्रेमिक्कुक	प्रीतिसु
हाथीगर्जना	हत्तीचे चिंघाडप	गर्जनु, चिघ्रनु	वृङहण, हातिर	(हातीये) चिञरा (चियँरा)	शामुना खोङ्बा	हस्तीर-गर्जन	घींकरिंचुट	(यानै) पिळिर्	चिन्नम् विळिक्कुक	घीळिडु
चिंतन	चिंतन	चिंतन, चिन्तना	चिंतन, मनन	चिंता, भावना, चिंताकरा कार्य	कूप्ना, खन्बा	चिंता, भाबना	आलोचिन	चिंतनै, चिंदित्तल्	चिंतनम्, मननम्	चिंतनं, विचारे
चिंता	चिंता	पीर, चिंता, फिक्री	चिंता	चिंता, भावना, भवाकथा	अवाबा वाखल्	चिंता, भाबना, बिचार	चिंत, विचारमु	कवलै	चिंत, विचारं	योजनं
परवा	पर्वा	परवाह, पर्वाह	चिंता, परोया	परोवा, केरेप	चिंता	उत्कण्ठा, उदबिघ्न	परवा	परवाय्	वकवय्पुं	चिंतं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चिकना	वि.	1. जो छूने में खुरदरा न हो	चिक्कण, मसृण	चीकणा, चिकना	चिकना	पिशुल	लसो	तुळतुळीत
		2. जिस पर पैर आदि फिसले	चिक्कण	तिलकवां	–	–	तिर्किणो	गुळगुळीत
		3. जिसमें तेल आदि कोई चिकना पदार्थ लगा हो	स्नेहिल	चिकना, चीकणा, थिंदा	–	–	सणिभो	चिकट, तेलकट, निसरडे
चिकित्सा	स्त्री.	रोग-निवारण का उपाय, इलाज	चिकित्सा, उपचार:	इलाज, चिकितसा	इ़लाज	यलाज	इलाजु	चिकित्सा, औषधोपचार
चिट्ठी	स्त्री.	पत्र, खत	पत्रम्	चिट्ठी	ख़त	चिठ्य, खत	चिट्ठी	चिट्ठी, पत्र
चिड़ियाघर	पुं.	वह स्थान, जहाँ अनेक प्रकार के पशु-पक्षी आदि जन-साधारण को प्रदर्शित करने के लिए एकत्र करके रखे जाते हैं	जन्तुशाला	चिड़ीआघॅर	चिड़ियाघर	चेडियागर	जानवारनि जो बाग़ु, चिड़ियाघर	प्राणि संग्रहालय
चिढ़ाना	स. क्रि.	1. नाराज करना	उत् +तेज्	चिड़ाउणा	चिढ़ाना	फोति-तुलुन, लागुन	चेड़ाइणु	चिडविणे, नाराज करणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चीकणुं	गुबगुबीत	सम्म्र चिप्लो	मसृण	मिट्‌टि, चकचकीया, चिकन	अनान्बा	चिक्कण, स्निग्ध	नुनुपैन, नुन्ननि	पळपळप्पान	मिनुसमाय	नुणुपाद
चीकाश	निसराट	चिप्लो	चिक्कण, चिकन	पिछल	नांथुबा याबा	पिच्छिल, चिक्कण	जारुडु	चरुक्कुगिर	वळ्क्कुन्न	जारुव
चीकाश-वाळुं	तेलकट, चिकट	चिल्लो	तेला, तैलाक्त	तेलीया, तेलतीया	नान्-नान् लाओबा	तेलिआ, तैलाक्त	नुनुपैन, स्निग्धमैन	एण्णैप्प-शैयुळ्ळ	मेंळुक्कुळ्ळ	जिड्डाद
चिकित्सा, उपचार, इलाज	वेजकी उपचार	चिकित्सा, उपचार	चिकित्सा, निरामयकरा कार्य	चिकित्सा, निरामयकरा	लायेङ्बा	चिकित्सा	चिकित्से	चिकिच्चै	चिकित्स	चिकित्से
चीठ्ठी, नानो कागळ	पत्र, टपाल	चिठी, पत्र	चिठि, पत्र	चिठि, पत्र	चिट्‌ठी	चिठि, पत्र	उत्तरमु, जाबु	कडिदम्	एळ्त्तु	पत्र
प्राणीघर	पक्षीघर	चिडिया-खाना, चिडियाघर	चिड़िया खाना	चिरिया-खाना	शा-उचेक्की योक्फम् जू	चिड़िआ-खाना	जंतु-प्रदर्शन-शाल	मिरुगक्काट्‌चि शालै	मृगशाल	मृगालय
चीडववुं, खीजववुं	चिडावप	चिढ्याउनु, जङ्ग्याउनु	रागान, चटान, क्रुद्ध करा	खं-तोला, बिरक्तकरा, जोका	शाओहन्बा, लक्नबा	चिड़ाइबा, रगाइबा, बिरक्त-करिबा	कोपमु तेप्पिंचुट	एरिच्च-लूट्‌ट	देष्यप्पॅटुत्तुक	रेगिसु, सिट्‌टिगेबिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. नकल उतारना	विदूषय्	–	छेड़ निकालना	–	वेचारा ड्रियणु	वेडावणे, खिजविणे
चितकबरा	वि.	सफेद रंग पर काले, लाल या पीले दागों वाला	चित्रकर्बुर, कर्बुर	डब्बखड्ब्बा	चितकबरा, अब्लक़	टेंचिहोंर	चिटकमरो, चितकबरो	ठिपकेदार
चिता	स्त्री.	चुनकर रखी हुई लकड़ियों का ढेर, जिस पर मुर्दा जलाया जाता है	चिता	चिखा, चिता	चिता	च़्यंता	चिता, चिख्या	चिता
चित्त	पुं.	मन की एक अवस्था, अंतःकरण	चित्तम्	चित्त	जी, ज़मीर, दिल	च़्यथ	चितु, अंदर वारो	चित्त
चित्र	पुं.	1. तस्वीर (फोटो)	चित्रम्	चित्तर	तस्वीर	तस्वीर, फोटू	चित्रु, फ़ोटो, तस्वीर	चित्र, फोटो
		2. पेंटिंग	चित्रम्	–	नक़्श	मुर्त्तुगोंर	पेंटिंग, चित्रु	पेंटिंगस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चीडववु	नकल करप	गिज्याउनु	भेङचानो	मुख- भेङुचिया	मतौ तंबा	नकल- करिबा, प्रतिलिपि	वंक्कि- रिंचुटॅ	परिगसिक्क	अरिशम् काळ्ळि- क्कुक	अणकिसु
काबर- चीतरूं	तिबके, टिब्बे, ठिपके	टाटेपाङ्ग्रे	नाना रंङ्गेर, चित्रत	फुटुका- फुटुकी	अङौबदा लाङ्बा	चित्रविचित्र, बिभिन्न- रंगर	पलुवर्न्नलॅ	वंळ्ळै निऱत्तिल् करुप्पु पुळ्ळि उळ्ळ	चित्रवर्ण- मुळ्ळ	चुक्कॅ युऴळ, रंगुरंगिन
चिता	चिता	चिता, चितिका	चिता	चिता	पोत्तलोइ- नबगी पैखत्तपा शीङ्, चिता	चिता	चिति	चिदै	चित	चितॅ
चित्त, मन, हृदय	मन, अंत: करण	चित्त, हृदय	चित्त, अंत: करण	अंत:- करण, चित्त, मन	थमोइ, थमोइनुङ्	चित्त, अंतकरणर- छबि	चित्तमु	चित्तम्	चित्तं	चैतन्य, आत्म, मन
चित्र,. फोटा	चित्र, फोटो	तसबिर, फोटो, चित्र	छबि, फोटो, चित्र	छबि, चित्र	लाइ, फोटो	फोटो	फोटो	चित्तिरम्	चित्रं	चित्रम्, फोटो
छवि	पेंटिंग	चित्राकृति, चित्र	छबि, पेंटिंग, चित्र	चित्र, छबि	अयेक्पा लाइ	छबि, (पेंटिंग) चित्र	चित्रमु, बॉम्मॅ	ओवियम्	पॅयिंटिङ्	चित्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चित्रकार	पुं.	चित्र बनाने वाला	चित्रकार:	चित्तरकार	मुसव्विर	तस्वीर बनावन-वोल	चित्रकारु	चित्रकार
चिनगारी	स्त्री.	1. आग का छोटा कण	स्फुलिङ्ग	चिंगिआड़ी	चिंगारी	त्यंबुॅर	चिणिंग	ठिणगी
		2. कोई ऐसी छोटी बात जिसका आगे चलकर बहुत उग्र या भीषण प्रभाव हो सकता हो (लाक्षणिक)	स्फुलिङ्ग	चिंगिआड़ी	शरारा	–	–	क्षुलक गोष्ट ठिणगी (लाक्षणिक)
चिपकना	अ. क्रि.	1. किसी लसीली वस्तु के कारण दो वस्तुओं का परस्पर जुड़ना	लग्	चंमड़ना	चिपकना, जुड़ना	लॅगिथ गछ़ुन,	चंबुड़णु, चिंबिड़णु	चिकटणें
		2. व्यक्तियों या वस्तुओं का पास-पास सटना	श्लिष्	चंमड़ना	लिपट जाना	लॉरिथ गछ़ुन	–	परस्पर जवळ येणें
चिमनी	स्त्री.	मकान या कारखाने आदि का धुआँ बाहर निकालने वाली विशेष नली, लैंप या लालटेन के काँच का आवरण	धूम्रनिक्षेपिका	चिमनी	चिमनी, दूदकश	चिमुॅन्य	चिमनी	धुराडे, चिमणी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चित्रकार	चित्रकार	चित्रकार, चित्रशिल्पि	चित्रकर, चित्रकार	चित्रकार	लाइ येक्पा	चित्रकार, चित्रशिल्पी	चित्रकारुडु	ओवियर्	चित्रकारन्	चित्रकार
नजीवी वात	कीट, केण	फिलिङ्गो	अग्नि- स्फुलिंग	फिरिङनि	मैरिक्तगी मैजाओबी हौबा	निआँ-खुँटा, स्फुलिंग	निप्पुरव्व	–	–	बेंकिकिडि
चिनगारी	उज्याची कीट	स्फुलिङ्ग	स्फुलिंग	फिरिङनि	मैरिक्	अग्निकणा, स्फुलिंग	निप्पुरव्व	नॆरुप्पु पॊरि	तीप्पॊरि	किडि
चोंटवुं	चिकटप	टाँसिनु, टालिनु, गाँसिनु	आँटिआ जाओआ, जुड़िआ जाओआ	लागि- धर	नप्शिन्बा, नप्पा	जोडि- हेबा, लागि- जिबा	अतु- क्कॊनुट	ऒट्टि- क्कॊळ्ळ	ऒट्टि- पिटिक्कुक	अंटिकॊळ्ळु- वुदु
एक- बीजानी नजीक आववुं	चिकटून बसप	टाँसिएर बस्नु, सँगसँगै हुनु	घेँषाघेँषि थाका वा राखा	लागि- धर	नक्नबा, थेङ्नबा	जोडि- हेबा, लागिबा	अतु- क्कोनुट	नॆरुंगि इरुक्क	वळर्र अटुत्तु चेर्न्नि- रिक्कुक	हत्तिरहरुवुदु
चीमनी	चिमणी	चिम	चिमनि	धौंबा- नली, चिमनि	मैखु थोक्फम	चिमिनी, धुआँ- नली	पॊगगॊट्टमु	पुगैपोक्कि, विळक्किन् कण्णाडि, चिमिनि	चिम्मिनि	चिमणि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चिल्लाना	अ. क्रि.	जोर से बोलना, शोर करना, हल्ला करना	क्रुश्	चीक्णा	चिल्लाना	शोर करुन	चिलाइणु, रड़ियूं करणु, डाढियां गाल्हाइणु	ओरडणें
चिह्न	पुं.	1. दाग, धब्बा, निशानी	चिह्न	निशान	निशान, दाग़	–	दाग़ु, चिटो, निशानु	डाग, खूण
		2. वह शब्द, बात या छाप, जिससे किसी चीज की पहचान हो	चिह्न	चिन्ह	निशानी	निशानुँ	निशानु	चिन्ह, खूण
चीखना	अ. क्रि.	1. भावावेश में जोर से चिल्लाना	चीत्+कृ	चीक्णा	चीख़ना	चिख दिन्य	चीख़णु, दांहं करणु	किंचाळणें
		2. बहुत जोर से बोलना या कर्ण-कटु शब्द निकालना	उच्चैः क्रुश्	चीक्णा	चिल्लाना	–	डाढियां गाल्हाइणु	ओरडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चीस पाडवी	वदरप, हुयेलीमारप	कराउनु, चिच्च्याउनु	चेँचानो, चीत्कार करा	चिञर, आटाह-पार	लाऔबा, लाङ्बा	चिलाइबा, पाटि-करिबा, हल्ला-करिबा	अरुचुट̄	उरक्क कत्त, कूच्चलिड	निलविळि-क्कुक	वदरुउदु, चीरुवुदु
चिह्न	चिन्न	चिह्न, चिनु, चिनो, निसाना	चिह्न, सील मोहर	चिन, लक्षण	खुदम, मारका	लक्षण, चिन्ह, निदर्शन	चिह्नमु	अडैयाळम्	चिह्नम्	चिह्नं, गुरुतु
निशानी, डाघ, धब्बो	खूण	दाग, टाटो	चिह्न, दाग, लक्षण	दाग, चिन	दाग	चिन्ह, दाग, लक्षण, संकेत	गुरुतु, मरक̄	कुऱि	पाट्टु	कले
चीस पाडवी	किळचो-मारप	चिच्च्याउनु, चिहिरिनु	चेँचानो, चीत्कार करा	चिञर	खङ्लाओ लाओबा	चित्कार-करिबा, जोररे-पाटि-करिबा	अरचुट̄	वीरिट्टुक्कत्त	निलवि-ळिक्कुक	चीरुवुदु
बूमबराड़ा पाडवा	आरडप	चीत्कार गर्नु, कराउनु	गलाबाजि करा, कर्कश स्वरे चेँचानो	टानकै-क	याक्ना ङाङ्बा	कर्कश-शब्द, गला-फटाइ-कहिबा	केकलु-वेयुट̄	कीच्चुक्कत्तल्	मुऱविळि-कूट्टुक	बॉब्बे-हाकुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चीरना	स. क्रि.	किसी चीज को धारदार उपकरण द्वारा काट या फाड़ कर अलग या टुकड़े करना	छिद्	चीरना	चीरना	चीरुन	चीरणु	फाडणें, चिरणें
चुंगी	स्त्री.	स्थानीय शासन द्वारा बाहर से आने वाले माल पर वसूल किया जाने वाला कर	शुल्क	चुंगी	चुंगी	चुंगी, गुज़र	चुंगी, नाको	जकात
चुंबक	पुं.	एक प्रकार का पत्थर या धातु, जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है	चुंबक	चुंबक	मक़नातीस	म्यकनातीस	चक्मक, मक़नातीस	लोल-चुंबक
चुगना	स. क्रि.	पक्षियों का अपनी चोंच से अनाज के कण, कीड़े-मकोड़े आदि उठा-उठा कर खाना	आहारम् +/चि	चुगणा	चुगना	तुलुन, ख्यौंन	चुगणु	टिपणें
चुगलखोर	वि.	किसी की हानि करने के उद्देश्य से पीठ पीछे उसकी बुराई करने वाला	पिशुन	चुगलखोर	चुग़लख़ोर	चौंगुलखोंर	चुग़लुखोर	चहाडखोर, चुगलखोर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चीरवुं	चिरप	चिर्नु	चेरा	फाल, छिट-फला	शेगाइबा	चिरिबा, काटिबा	चील्चुट	नरुक्क	कीरुक	सीळुवुदु
दाण	जकात	चुँगी, स्थानीयकर	चुंगिकर, आमदानी कर	आमदानि कर	लंबीगी खाजना	पण्यकर, आमदानि कर	सुंकमु	चुंग वरि	चुंगम्	सुंक
लोह चुंबक	लोह चुंबक	चुंबक	चुंबक	चुंबक	योत्चाबी	चुंबक, एक धातु-जाहा लौह-जातिय धातुकु-आकर्षण करे	सूदंटुराइ	कांदक्कल्, कांदइरुंबु	कांतं	सूजिगल्लु
चुटवुं, वीणीने खावुं	टिपप, चोंच मारप	चराचुरु-ङ्गीले आहार टिपेर् खानु	पाखीर ठोंट दिया खुँटिआ खाओआ	खुटि-खा	खुन्बा	खुंटिबा, खुण्टि-खाइबा	मुक्कुतो गिंजल-नेरितिनुट	कोत्ति - तिन्न	कोत्तुक, कोरिककुक	हेक्कुवुदु
चुगलखोर, चुगलीखोर	चाड्यो-करपी	छुल्याहा, चुक्लीखोर	चुकलिखोर, दो-लागाने	टुटकीया लगनीया	हुंदुना ङाङ्बा	तोषामद-कारी, दोमुंहा-ब्यक्ति, भंड, प्रतारक, शठ	चाडीलु चेप्पुवाडु	कोळ् शोल्लि	एषणि-क्कारन्	चाडिकोर, किवि कडियुवव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चुटकुला	पुं.	चमत्कारपूर्ण और विलक्षण उक्ति अथवा बात, जिसको सुन कर हँसी आए	नर्मोक्तिः, परिहासोक्तिः	लतीफा, चुटकला	लतीफ़ा	चुटकलुँ	चर्चो, टोटिको, लतीफ़ो	चुटका
चुनना	स. क्रि.	1. बहुत में से कुछ को पसंद करके लेना	√चि	चुणणा	चुनना	च़ारुन	चूंडणु	निवडणें
		2. छोटी वस्तुओं को हाथ, चोंच आदि से एक-एक करके उठाना	√चि	चुणणा, चुगणा	चुगना	–	–	टिपणे, उचळणे
चुनरी	स्त्री.	वह रंगीन विशेषतः लाल कपड़ा, जिसके बीच-बीच में बुंदकियाँ होती हैं	चुनरी इति आवरणभेदः	चुन्नी	चुनरी	सॉड्य	चुनी, चुनड़ी	चुनडी
चुनाव	पुं.	1. चुनने की क्रिया या भाव	चयनम्	चोण	इंतिख़ाब	चुनाव	चूंड	निवडणूक
		2. निर्वाचन	निर्वाचनम्	–	–	चुनाव	–	निर्वाचन
चुनौती	स्त्री.	अपनी बात मनवाने के लिए किसी को उत्तेजित करते हुए सामना करने के लिए कहना, ललकार	आह्वानम्	वंगार, चुनौती	दावते-मुक़ाबला, चेलैंज	चेंलेंज	ललकार	आव्हान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मजेदार वात	ज्योक, चुटकुलो	चुट्किलो	हास्य, कौतुक	हाँहि-उठा-कथा	फागी जुगाइ तौबा	हास्य, हस-कौतुक, आमोद-प्रमोद	चॆणुकु, जोकु	तुणुक्कु, चिरिप्पु	फलितम्, हास्यशकलम्	चुटुकु
चुंटी काढवुं	निवडप	रोज्नु, छान्नु	बाछा	बाछा	खन्बा, मन्बा	पसंद करिबा	एरुट॒, ऍंपिक॒ चॆयुट॒	पा॑रुक्कि	तिरञ्ञॆ-टुक्कुक	आरिसु
वीणवुं	वेंचप	टिप्नु	खुँटिया तोला	बोटला	खन्गत्पा, लै हेक्पा	बाछिबा, चयन-करिबा	एरुट॒	पा॑रुक्क, परिक्क	पॆरुक्कुक	आरिसुवुदु
चूंदड़ी	चुन्नी	चुँदुरी	चुनुरी, औड़ना	फुल-तोला कापोर बा ओढ़नीर	अपाबा इनफी, चुन्नी	रंगीन-ओढणी (ओढन्नी)	कलंकारी-चीर॒	चुंगडिप्पुडवै	पुळ्ळि सारि	चुक्कॆगळुळ्ळ बट्टे
चूंटणी	निवडणूक	रोजाइ, चयन	बाछा	बाछनि, निर्बाचन	खन्बा	भोट, मनोनयन	ऍन्निक॒	तेर्दल्	तिरियल्	आय्कॆ, आरिसु
–	निर्वाचन	चुनाउ, निर्वाचन	निर्वाचन, भोट	निर्बाचन	मीखंल	भोट, मनोनयन	ऍन्निक॒	तेर्दल	तॆरञ्ञॆटुप्पु	चुनावणॆ
ललकार, आह्वान	आह्वान	हाँक, चुनौती, ललकार	प्रतिद्वं-दिताय आव्हान करा	प्रत्याह्वान, आह्वान	शिङ्नबा	उत्तेजित-करिबा, आह्वान-करिबा	पंदेमु, पंतमु, सवालु	चूळुरै	वॆल्लुविळि	आवाहन, सवालु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चुप	वि.	मौन, खामोश	मौनिन्	चुप्प	ख़ामोश	छ्‌ोंपुँ	चुप, ख़ामोशु	गप्प
चुपड़ना	स. क्रि.	किसी गीली या चिपचिपी वस्तु का लेप करना	उप+√लिप्	चोपड़ना	चुपड़ना	चुपडुन, मथुन	मखणु थफणु, लिंबणु	चोपडणें
चुभन	स्त्री.	1. किसी नुकीली वस्तु का दबाव पाकर किसी नरम वस्तु में धँसने की क्रिया या भाव	वेधनम्	चोभ, गड्डणा	चुभन	त्रुस	चुभणि	बोच
		2. उक्त क्रिया के कारण होने वाली टीस या पीड़ा	वेदना, पीडा	–	दर्द	दग	चुभणि जो दर्दु	पीडा, वेदना
चुभाना	स. क्रि.	कोई नुकीली चीज गड़ाना या धँसाना	निर्विध्य्	चोभणा	चुभाना	त्रुस-द्‌युन	चुभाइणु, टुंबणु	किंवा घुसविणें
चुराना	स. क्रि.	1. छलपूर्वक परायी वस्तु हरण करना	√चुर्	चुराउणा	चुराना	चूरि-न्युन	चोराइणु	चोरणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चूप	ओगी, गप्प	चुप, मौन	चुप, मौन	मौन, निमात, चुप	तुमिन्ना लैबा	चुप, मौन, निरब	निश्शब्दमु, मौनमु	पेशाद, मौनमान	मौनमाय	मौन, नि:शब्द
चोपडवुं	च़ोपडप	चिल्ल्याउनु	माखानो, प्रलेप देऔया	घँह, मालिच-कर	तैबा	लेपिबा, प्रलेप	नेयि राचुट	तडव, पूश	पुरट्टुक	हच्चुवुदु
भोंकावुं	तोपण, विंधण	घोचाइ	फोटा, बिद्ध हओआ	बिंधा, बिंधन	युबा	फोडि-होइजिबा, विघ्घ-हेबा	ग्रुच्चुकांनुट	कुत्तुदल	कुत्तुक, तरुय्क्कुक	चुच्चु
पीड़ा, वेदना	इजा, दूख	चसक	फोटार यंत्रणा, वेदना	बिंधार, बिह	चैना (युबगी)	फोड़िबा-कष्ट, जंत्रणा, बेदना	नांप्पि	कुत्तुवलि	कुत्तल्, वेदन	नोवु
घोंचवुं, भोंकवुं	तोंपप	घोप्नु, घोच्नु	फोटानो	बिंधा	युहन्बा, फुम्जन्बा	फोडिबा, भिडिबा	ग्रुच्चुट	कुत्त	कुत्ति-यिरुक्कुक	चुच्चुवुदु
चोरवुं	च़ोरप	चोर्नु, चोरी गर्नु	चुरि करा	चुर कर, हरण-कर	हुबा	चोराइबा, हरण-करिबा, चोरि-करिबा	दांगिलिंचुट	तिरुड	मोष्टिक्कुक	कदियुवुदु, कळवुमाडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. भय, संकोच आदि के कारण कोई चीज या बात दबा रखना या दूसरों के सम्मुख न लाना	√गुप्	चुराउणा	–	–	लिक-लिकाउ करणु	दडपून ठेवणें
चुस्त	वि.	1. फुर्तीला	स्फूर्तिमत्	चुसत	चुस्त, फुर्तीला	चुस	चुस्तु	तरतरीत, चलाख
		2. खूब कसा हुआ	सुघटित	–	तँग	–	–	घट्ट, मजबूत
चूकना	अ.क्रि.	1. भूल करना	√स्खल्	भुलणा, चुकणा	चूकना	मोकुँ रावुरुन	चुक करणु	चूक करणें
		2. सुअवसर खो देना	अवसर, अतिवाहय्	चुकणा	–	–	मौक़ो विञाइणु	योग्य संधी घालविणें
चूड़ी	स्त्री.	1. सोने, चाँदी, काँच, हाथीदाँत आदि से निर्मित स्त्रियों का हाथ में पहनने का एक वृत्ताकार गहना	कङ्कणम्	चूड़ी	चूड़ी	बुंगुॅर	चूड़ी, कंगिणी	बांगड़ी
		2. किसी पेंच के वृत्ताकार खाँचे	वलय:	चूड़ी	चूड़ी	बुंगुॅर	चूड़ी	एखाद्यास्क्रूचे वृत्ताकार खाँचें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संताडी राखवुं	लिपोवन दवरप, न्हिपोवन दवरप	दबाउनु, लुकाउनु	लुकानो	लुकुवा, गोपन-कर	लोतशिन्बा	लुचाइबा, गोपन-करिबा, लुक्कायित करिबा	दाचुट	बयत्तिनाल् मनदिल् मऱैत्तु वेक्क	अमर्त्ति वॅक्कुक	मुच्चिडुवुदु
स्फूर्तिलुं	तरतरीत	जाँगरिलो, फुर्तिलो	चटपटे	फुर्त्तियाल, रङियाल	खिङ्बा	फूर्ति-बाज, चालाक	चुरुकयिन	शुरु शुरुप्पान	चॉटियुळ्ळ	चुरुकाद
घट्ट, मजबूत	टट्टित	गठिलो, कसिएको	आँटोसाटो	बरटान, आटिल	अचिन्बा	खुब टाण-होइथिबा	बिगिसिन	इरुक्कमान	मुरुकिय	बिगियाद
चूकवुं, मूलवुं	चूक करप	बिराउनु, गल्ती गर्नु	भुल करा	भुल-कर	काओबा	भुल करिबा, भ्रमरे पड़िबा	पॉरबडुट	पिळै सॅय्य	तॅट्टु चॅय्युक	तप्पु माडुवुदु
तकगूमाववी	चुकप	मौका गुमाउनु, चुक्नु	सुयोग हारानो	सुयोग-हेरुवा	तान्जा माङ्हन्बा	सुजोग-छाडि-देबा बा-हातछड़ा करिबा	अवकाशमु, जारविडचुट	नल् वाय्प्पै इळक्क	अवसरम् नष्टप्पॅटुत्तुक	अवसर कळॅदुकॉळ्ळुवु
चूडी	कांकण	चुरो, बाला	चुड़ि, बाला	खारु	खुजि	चूड़ी, काच	गाजु	कळैयल्	वळ	बळॆ
स्क्रुवगेरेना आंटा	वळे	चुडी, ढिम्री	स्क्रुर पेंचालो अंश	पेंच	–	कौणासि-पेचर-वृत्ताकार-खोप, पेच	मर-थ्रेड्डु	तिरुगा-णियिन् मरै (स्क्रू)	पिरि	तिरुपिन दार, सुत्तु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चूना	पुं.	कुछ विशिष्ट प्रकार के कंकड़-पत्थरों, शंख, सीप आदि को फूँक कर बनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध तीक्ष्ण और सफेद क्षार, जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने और पान आदि के साथ खाने के लिए किया जाता है	सुधा	चूना	चूना (गच)	चूनुँ	चूनो, सफ़ेदी	चुना
	अ. क्रि.	किसी तरल पदार्थ का किसी छेद या संधि में से टपकना या बाहर निकलना	स्रु	चोणा	चूना, टपकना	पशपुन	सिमणु, टिमणु	झिरपणें, गळणें
चूमना	स. क्रि.	होठों से होंठ, हाथ, गाल, मस्तक आदि अंगों का अथवा किसी पदार्थ का स्पर्श करना	चुम्ब्	चुंमणा	चूमना	माह करुन	चुमणु	मुका घिणें, चुंबणें
चूरन (चूर्ण)	पुं.	खूब महीन पीसी हुई बुकनी (पाउडर)	चूर्णम्	चूरन	चूरन	च़ॉन, चूरन	चूरणु	चूरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चूनो	चुनो	चून	चूण, चुणापाथर	चूण	शुनु	चून	सुन्नमु	चुण्णांबु	चुण्णांबु, कुम्मायम्	सुण्ण
चूवुं	गळप, पाजेवप	चुहुनु, रसाउनु	चुँइए पड़ा	नियर, टोप-टोप कै पर, बा परा	थुबा	टोपा टोपा-पडिबा, बिंदु-बिंदु पड़िबा	कारुट	ऑळुग	इट्टु वीळुक	सोरुवुदु
चूमवुं, चुंबवुं, चुंबन-बच्ची करवी	उमो घेवप	म्वाइँ खानु, चुम्नु, चुप्पा लिनु	चुमु खाऔया	चुमा-खा चुंबन	चुप्पा	चुंबन-देबा	मुद्दु पे-ट्टुकांनुट	मुत्तम् इड	चुंबिक्कुक	मुत्तिडुवुदु मुद्दिसुवुदु
चूरण	चुन्न, चूर्ण	धूलोपीठो, चूर्ण	चूर्ण, गुँड़ा	चूर्ण, गुरि, पाउडार	पाउडर, मकूप	चूर्ण, गुंड	चूर्णमु	पॉडि, तूळ्, चूरणम्	चूर्णम्, मिनुसप्पॉटि	पुडि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चूल्हा	पुं.	मिट्टी, लोहे आदि का वह उपकरण जिसमें चीजें पकाने या गरम करने के लिए कोयला, लकड़ी आदि जलाई जाती हैं	चुह्लिका	चुल्ला	चूल्हा	दान	चुल्हि, चुल्हो	चूल
चूसना	स. क्रि.	1. जीभ और होंठ के संयोग से किसी वस्तु (विशेषत: फल) का रस अंदर खींचना	✓चुष्	चुंघणा, चूसणा	चूसना	चुँह द्युन	चूसणु, चूपणु	चोखणें
		2. किसी गीली वस्तु की आर्द्रता सोख लेना	✓शोषय् (प्रेरणार्थक)	चुंघणा, चूसणा	–	चुँह द्युन	चुहाइणु	शोषून घेणे
		3. किसी का सत्व या सर्वस्व बलपूर्वक या अनुचित रूप से हड़प लेना	✓हृ	चुंघणा, चूसणा	–	चुँह द्युन	चूसणु	लुबाडणें
चेहरा	पुं.	1. गर्दन के ऊपर का अगला भाग, जिसमें मुँह, आँख, नाक, कान, मस्तक आदि होते हैं, मुखड़ा	मुखम्	चेह्रा	चेहरा	बुथ	चेहरो, मुंहुं	हरा, तोंड
		2. मुखौटा	मुखाकृति:	–	मुखड़ा	–	मुखौटो, मुंहुं टोपु, नकाबु	मुखवटा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चूलो	चूल, रानन	चुलो, चुल्हो	चुलो, चुला, उनुन	चौका	लैरङ्	चूलि, चुला	कुंपटि, पॉय्यि	अडुप्पु	अडुप्पॅ	ओले
चूसवुं	चिंवप	चुस्नु	चोषा	शोह, रस-टान	चुप्पा	शोषिबा, पिइबा	पील्चुट	उरिंज	उरुंचुक	हीरुवुदु
शोषवुं	चिटून घेवप	सोस्नु	शोषा	शुहिल, शोह	चिङ्बा	शोषि-नेबा (शोषि-नबा)	पील्चुट	उलर्त्त	उणक्कुक	हीरुवुदु
नि:सत्व करवुं	लुबाडप	शोषण गर्नु	शुषे नेओआ, शोषण करा	शोषण कर, अन्याय-भावे-दखलकरा.	चुप्पा	अन्यायरे-आत्मसात्-करिबा, शोषण-करिबा	पील्चुट	पिर्र् सांत्तै अपहरित्तल्	चूषणम् चंय्युक	नुंगुवुदु, शोषणे
चहेरौ	चेहरो	अनुहार, मुखमण्डल	मुखाकृति	मुखमंडल, चेहरा	माइ	चेहेरा, मुखमंडल	मुखमु	मुहम्, मुन् पुरम	मुखम्	मुख
महोरूं	मुखवटो	मखुण्डो, मखुण्डी	मुखोश, निर्मोक	मुखा	माइखूम	मुख, मुख-मंडल	मुखमु, मास्कु	मुगमूडि	मुखंमूटि	मुखवाड

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चोंच	स्त्री.	पक्षियों के मुँह का नुकीला और आगे की ओर निकला हुआ भाग	चंचुः	चुंझ	चोंच	तोंथ	चुहिंब	चोंच
चोट	स्त्री.	1. किसी वस्तु के आघात से शरीर पर होने वाला घाव	आघातः, व्रण	सट्ट, चोट	चोट	चोट	चोट, धकु	जखम
		2. वार	आघातः	–	–	–	–	वार
चोटी	स्त्री.	1. सबसे ऊपर का भाग	शिखरम्	सिखर, चोटी	चोटी	तेंतौल	चोटी	शिखर
		2. स्त्रियों के गुँथे हुए सिर के बाल, वेणी	वेणी	गुत्त	–	लटुर	चोटी, गुत्त, वेणी	वेणी
		3. हिंदू पुरुषों के सिर के पिछले भाग के मध्य के थोड़े से लंबे बाल, जिन्हें कटवाया नहीं जाता	शिखा	बोदी	–	छोग	चोटी, शिखा	शेंडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चांच	चोंच़	चुच्चो, ठुँड	पाखिर चंचु, चोच, ठोँट	ठोँट	उचेक मचिन	चंचू, थण्ट	मुक्कु (पक्षि)	अलहु	कॉक्कु, चुण्टुॅ (पक्षियुटे)	कॉक्कु
चोट	घाय	घाउ, चोट	चोट, आघात	घा, आघात	अशोक्पा	चोट, आघात, जखम	दॅब्ब	कायम्	मुरि़वुॅ	गाय
वार	पेट, इजा, दुखापट	प्रहार, पिटाइ, आघात	चोट, आघात करा	मार, कोब	यान्बा	आघात, चोट	दॅब्ब	अडि	वॅट्टु	पॅट्टु, हॉडॅत
शिखर;	तेंमूक	टुप्पो, शिर्ष	चूड़ा, शिखर	एकेबारे ओपरर-भाग, शिखर	मतोल, चीङदोल	चुटि, बाल	शिखरमु	उच्चि	शिखरम्	तुदि, शिखर
चोटलो	फाती, वेणी	जुरो	बिनुनी, बेणी	बेणी	बेणी	बेणी	जुट्टु मुडि, जडॅ	कॉण्डै, पिन्नल्	पिन्नियमुटि	जडॅ
चोटली, शिखा	शेंडी	टुपी, शिखा	टिकि, शिखा	टिकनि, बेणी	शिखा	चुटि, जटा	पिलकॅ	शिगै, कुडुमि	कुटुम	जुट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चोर-बाजार	पुं.	व्यापार का वह क्षेत्र, जहाँ चीजें चोरी से और/या अधिक ऊँचे दाम पर खरीदी या बेची जाती हैं	चोरविपणि:	चोर बजार	चोर बाज़ार	चूरुँ बाज़र	चोर बाज़ार	चोर-बाजार
चोरी	स्त्री.	1. चुराने की क्रिया या भाव	चौर्यम्	चोरी	चोरी	चूर	चोरी	चोरी
		2. दूसरों से कोई बात छिपाने की क्रिया या भाव	उपगूहनम्	–	–	–	लिक-चोरी	गोष्ट लपविणें
चौंकना	अ. क्रि.	1. एकाएक किसी प्रकार की आहट, ध्वनि या शब्द सुनकर कुछ उत्तेजित अथवा विकल हो उठना	उत्कम्प्, विकम्प्	चौकणा	चौंकना	वोंठ कड़ुंन्य	छिरिकणु, छिरिकु भरणु	दचकणें
		2. चकित होना	वि √स्मि	हैरान होणा	हैरान होना	–	हैरान थियणु	चकित होणे
चौक	पुं.	1. आँगन, सहन	अंगणम्	वेहड़ा	चौक	च़ुवौंत	अंङणु, वेढ़ो	आंगण, चौक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चोर बजार	च़ोर बाजार	चोर बजार	कालो-बाजार, चोरा बाजार	चोरां-बजार	हुरान पोत् योन्फम	चोरा-बजार, जेउंठारे-चोरा-जिनिष-बिक्रय हुए	दोंग व्यापारमु	कळ्ळ मार्कट्टु	कळळ-क्वंपोळं	कळ्ळ, काळ संते
चोरी	च़ोरप	चोरी, चोर्ने काम	चुरि	चुरि	हुरान्बा	चोरि	दोंगतनमु	तिरुट्टु	मोषणम्	कळवु
छुपाववुं	लिपोवणे, न्हिपोवणे	ढाकछोप गर्ने वा लुकाउने क्रिया	लुकानो, गोपन करा	गोपन करा कार्य बा भाव	अरोन्बा	चोरि	दापरिकमु	तिरुट्टुत्तनम्	कार्यं ऑळिक्कल्	मुच्चिडुवुदु
चोंकवुं	कच्व जावप	झसङ्ग हुनु, झस्कनु	चमकानो, स्तंभित हओया	उचप-खा, चमकि-उठा	खङबा	चमकिबा, उत्तेजित-हेबा, भयभीत-हेबा	उलिक्कि-पडुट	दिडुक्किड	ञेट्टुक	बेंच्चि बीळुवुदु
चकित थवुं	अजाप जावप	चकित हनु, भयभीत हुनु	चकित हओया	चकखा, चकितह	ङक्पा	चकित-हेबा, आश्चर्य-हेवा	चकितुडगुट	वियप्पडैय	परिभ्र-मिक्कुक	चकित-नागुवुदु
चोक	आंगण	चोक, आँगन	प्रांगण, उठान	चोताल, खोला	शुमाङ्	अगणा, प्रांगण, खोला-जागा	मुंगिलि	मुट्टम्	मुट्टम्	अंगळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. चबूतरा	वेदिका	थड़ा	चबूतरा	चबूतरॅ	चबूतिरो	ओटा
		3. चौराहा	चतुष्पथ	चौंक	चौराहा	च्चुवाँत	चौकु, चौराहो	चौक
चौकड़ी	स्त्री.	हिरन की वह दौड़, जिसमें वह चारों पैर एक साथ उठा कर छलाँग मारता हुआ आगे बढ़ता है	प्लुतिः	चौकड़ी	चौकड़ी	च़ोंपंजल	छालु, ठेंगु	हरणाची धाव
चौकस	वि.	1. जो अपनी अथवा किसी की रक्षा के लिए पूर्णतः सचेत हो	सावधान	चौकस	चौकस	हुशार, खबरदार	सुचेत, ख़बरदार	सावध,जागरूक
		2. ठीक, दुरुस्त, संपूर्ण	सुश्लिष्ट	–	ठीक, दुरुस्त	–	दुरुस्त, ठीक	ठीक, बरोबर
चौकीदार	पुं.	किसी स्थान पर पहरे का काम करने वाला कर्मचारी	प्रहरिन्	चौकीदार	चौकीदार	चूक्यदर	चौकीदारु	पहारेकरी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ओटलो	वरांडो	चौकी, चौतारो	चत्वर, चबुतरा	डाङर- बेदी वा मंच	माङ्गोल	चउतरा, अगणा, प्रांगण, मंच	अरुगु	मेडै	तिण्ण, पूमुखम्	जगुलि
चोक	चौक	चौबाटो, चोक	चौरास्ता, चौमाथा	चारि- आलि; चौक	लम्लोङ् मरि फाङ्बा	छक, चौरास्ता	चौरस्ता, कूडलि	चदुक्कम्	नाल्क्कवल	चौक
हरणनी छलाँग- फाळ	उडकी	बुर्कुसी, चौकडा	हरिणेर मतो तिड़िं तिड़िं लाफिए दौड़	हरिणार- दौर	शजिना चोङ्बा	हरिणर- ड़िआँ- मारिबा, कुदिबा	गंतु	नालुकाल् पाय्च्चल्	मानिन्टे ओट्टम्	नागालोट
चोक्कस	सावध	सतर्क, सचेत	चौकस, सतर्क	साणुं, सावधान, सष्टम, साजू	ममित मना शिङ्बा	सचेत, सावधान, सतर्क	जाग्रत्त- गले	एंच्चरिक्कै- याग	जाग्रतयाय	जागरूक
ठीक, बरोबर	साबाळून	संपूर्ण, ठीक	चौकस, ठिक	उत्तम, संपूर्ण, पूरा	चूमे	दुरुस्त, संपूर्ण, उत्तम	बागा, सरिगा	नल्ल- निलैयल् उळ्ळ	शरियाय, संपूर्णमाय	सरियाद, संपूर्ण
रखेवाळ, चोकीदार	चौकीदार, वॉचमन	पाले, चौकीदार	चौकिदार	चौकीदार, चकीदार, दुवरी, प्रहरी	चौकीदार	चौकिदार, प्रहरी	पहरावाड्डु, कावलिवाड्डु	कावल् कारन्, पाराक्कारन्	चौकीदार्, पाराुवुकारन्	कावलुगार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
चौखटा	पुं.	चौखट के आकार का ढाँचा, जिसमें शीशा या तस्वीर आदि को मढ़ा जाता है	वेष्टनम्	चौखटा	चौखटा	चोकाठ	फ़्रेमु, चौखटो	चौकट
चौड़ा	वि.	जिसके दोनों पार्श्वों के बीच में अधिक विस्तार हो, जो सँकरा न हो	विस्तृत	चौड़ा	चौड़ा	खोंल	वेकिरो, मोकिरो	रूंद
चौराहा	पुं.	वह स्थान, जहाँ चारों दिशाओं से आने वाले मार्ग मिलते हों, चौरस्ता	चतुष्पथ	चुराहा	चौराहा	चु वोंत	चौकु, चौराहो	चार-रस्ता, चोक
छँटनी	स्त्री.	1. छाँटने की क्रिया	चयनम्	छांट	छंटाव	च़ारुन, छ्टुन	छांट, छटिणी	कपात
		2. आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को सेवा से हटाने का काम	निवर्तनम्	छांटी	तख़फ़ीफ़	–	–	कमीकरण्याची क्रिया
छड़ी	स्त्री.	बाँस, बेंत, लकड़ी आदि की पतली लाठी	यष्टिका	सोटी	छड़ी	लूर	छड़ी, लकड़ी	छडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फ्रेम	फासकी	चौखुट ढाँचा, फ्रेम	आयना, छबिर फ्रेम	चौकठि, फ्रेम	फ्रेम	चौकाठ- आकार, ढांचा, फ्रेम	चट्रमु	मरच्चट्टम्	चट्टक्कूट्टुं, फ्रेयिम्	चौकट्टु
पहोळुं	रुंद	चाक्लो, फराकिलो, चौडा	चओड़ा, प्रशस्त	बहल, बिस्तृत	अपाक्पा, पाक्- चाओबा	चौकाठ- आकार, ढांचा, फ्रेम	वॆडल्पै न॒	अगलमान	वीतियुळ्ळ	अगलवाद
चार- रस्ता, चोक	चारमार्ग	चौबाटो, चौरस्ता	चौरास्ता, चौमाथा	चारि- आलि, चौपथ	लमलोङ् मरि फाङ्बा	छक (चौक)	कूडलि, चौरस्ता	नार्चंदि	नाल्क्कवल	चौक
छटणी	कपात, खचींत काटकसर	छँटनी, छँटाइ	छाँटा	बाछनि	चुमथोक्पा, खंदोक्पा	बाछिबा	एरुट	पॊरुक्कि तनिया- क्कुदल्	तिरियल्	आयुविर्क
वधाराना माणसो ने छूटाक- रवानी प्रक्रिया	खर्च उणो जावचो म्हणून नोकर- कपात	पजनी, छँटनी	छाँटाइ	छाटाइ	लौथोक्पा	छटेइ- करिबा	वेर्पाटु, तीसिवेत	आळ् कुरै़प्पु	पिरिच्चु- विटल्	तॆगॆदुहाकु
लाकड़ी	बडी	छडी	छडि़	लाखुटि, लाठी	चैशु	छड़ी, बाड़ि	बॆत्तमु	कुच्चि, पिरंबु	वटि	कोलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छत	स्त्री.	चूने, कंकड़ आदि से बनी हुई घर की छाजन, पाटन	छदि, पटलम्	छत्त	छत	छत, तालव, पश	छिति	छत, चांदवा
छतरी	स्त्री.	1. लोहे की तीलियों पर कपड़ा चढ़ाकर धूप, वर्षा आदि से बचाव के लिए बनाया हुआ आच्छादन, छाता	छत्रम्	छतरी	छतरी	छतुॅर्य	छटी	छत्री
		2. ऊपर का ढका भाग	मंडपम्	छतरी	–	–	छटी, मंडपु	मांडवा या मंडप
		3. किसी की समाधि के स्थान पर बना हुआ मंडप	मण्डपम्	छतरी	छतरी	–	कंहिं जी समाधीअ ते ठहियलु मंडपु	समाधिवर बांधलेली छत्री
		4. पैराशूट	छत्रम्	छतरी	छतरी	–	विमाणी छटी	पॅराशूट, हवाईछत्री
छल	पुं.	कपट, धोखेबाजी	छलम्	छल	फ़रेब	छ़ल	छलु	कपट, फसवाफसवी
छलकाना	स. क्रि.	बरतन में भरे हुए जल आदि को हिलाकर गिराना	क्षेपय्	छलकाउणा	छलकाना	ग्राय दिन्य	छलिकाइणु	हिंदकाळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छत	पांखें, पाश्ट	छानु, छत, छाना	छात	पका, घरर चाल; चिलिं, चिलिङ	युम्थक्	छात	पैकप्पु	मेल् तळम्	तट्टुं	माळिगं
छत्री	सतरी	छाता, छत्र	छाता	छाति	छातिन	छता	गांडुगु	कुडै	कुट	कोडॆ
मांडवो, मंडप	सतरी	छाता, मण्डप	मण्डप	खोला-मंडप	मण्डप	चांदुआ	मंडपमु, पंदिरि	पंदल्	पंदल्	मंटप
समाधि पर बांधेली छत्री	सतरी	मण्डप (समाधि-मण्डप)	समाधि-मण्डप	चंदोवा	मण्डप	समाधि-मंडप	मंडपमु	समादि-यिन्मेल् मंडपम्	समाधि मंडपम्	मंटप
पेरेशूट, हवाई छत्री	पैराशुट	प्यारासुट	प्याराशुट, अबतरण-छत्र	पेराछुट	पेराशूट	पाराचूट, आकाश-छता	पैराशूट्ु	वान्कुडै मिदवै, पारचूट्टु	पारच्चूट्टुं	प्याराशूट
छळ	नाडप, फटोवप	छल, कपट	छल, प्रतारणा	छल, कपट	नम्थाक्	छल, कपटन, प्रतारणा	कपटमु	मोशम्, वंचनै	वंचन, चति	मोस, कपट
छल-काववुं	रकप	छचुल्क्याउनु	उच्छलित करा, चलकानो, उछलानो	ओफनदाइ-बागरि-परिब लगा कर	निक्थोक्पा	चहलेइबा	तॊणिकिंचुट	तळुंबच्चंय्य	तुळुंपिक्कुक	तुळुकिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छलना	स. क्रि.	धोखा देना, ठगना, भुलावे में डालना	छल्	छलणा	छलना	छ़ल करुन	छलु करणु, ठग॒णु	ठगणें, फसविणें
	स्त्री.	धोखा, वंचना	छलम्	–	छल, धोखा, फ़रेब	छ़ल करुन	ॻोखो, कपटु	वंचना
छल्ला	पुं.	1. सोने-चाँदी आदि के तार को मोड़कर बनाई हुई अँगूठी	मुद्रा	छल्ला	छल्ला	वॉज	छलो	वेढें, वलय
		2. उक्त प्रकार की कोई गोलाकार आकृति	वृत्ताकार	–	कड़ा	कोंर	गोलाई	गोलकार आकृती
छाँटना	स. क्रि.	1. अनावश्यक अंश अलग करना	परिष्कृ	छांटणा	छाँटना	च़ारुन	छांटणु	निवडणें
		2. चुनना	√चि	छांटणा	चुनना	च़ारुन	चूंडणु	निवडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छळवुं	फसोवप	छल्नु	छलनाकरा, रंग करा, धाँका देओआ	छल कर फाकि दे	नम्थाक तौबा, लाल्ना ताक्पा	ठकेइबा, कपट-करिबा, प्रतारणा करिबा	मोसमु चेयुट	एमाट्ट, बंचिक्क	चतिक्कुक	वंचिसुवुदु
छलना	नाडप, फटोवप	धोखा, छल	छलना धोका, ठकानो	ठगन् प्रतारणा, फाकि	नम्थाक	ठकामि, प्रतारणा, बंचिबा, रक्षा पाइबा	मोसमु, वंचन	मोशम्, वंचनै	चति, वंचन	मोस
छल्लो	मुदी	औंठी	आङटि (आं)	आङुठि	खुदोप	तारकसि	उंगरमु	वळैयम्, मोदिरम्	कंपि मोतिरम्	उंगुर
गोलाकार आकृति	भोंवरी	मुंद्रो, कुण्डलाकार आकृति	–	आङुठि, घेर, गोलाकार	अकोन्बा (सना, लुपा, कोरीगी)	मुदि	उंगरमु	मोदिरम्	वळयं	वलय
कापीने जुदुं करवुं, अलग करवुं	विंचप	छाँटनु, केलाउनु	छाँटा, छाँटाई, बाछोद्	बाछ, बाछनि	खंदोक्पा	बाछिबा	एरुट तीसिवेयुट	वेण्डाद पहुदियै नीक्क	तिरञ्ञु नोक्कुक	बेर्पडिसुवुदु
वीणवुं, जुदुं पाडवुं	वेगळावप	रोज्नु, चयन गर्नु	छाँटाई, बाछा	बाछ	खन्बा	चयन-करिबा, निरुपण करिबा, बाछिबा	एंपिक चेयुट	पारुक्कि एंडुक्क	तिरयुक	आरिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छाज	पुं.	1. सरकंडों, सींकों आदि का बना हुआ वह उपकरण जिससे अनाज फटका जाता है, सूप	शूर्पः	छज्ज	छाज	शुप	छजु	सूप
		2. छप्पर	छदिः	छज्जा	छप्पर	छपर	छपरु	छप्पर
छात्र	पुं.	विद्यार्थी	छात्र	विदिआरथी	तालिबे-इल्म	चाठ, परन-शुर्य	शागिर्दु, विद्यार्थी	छात्र, विद्यार्थी
छात्रवृति	स्त्री.	विद्यार्थी को विद्याभ्यास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता	छात्रवृत्तिः	वज़ीफा	वज़ीफ़ा	वज़ीफ़ुॅ	स्कालरशिप, वज़ीफ़ो	छात्रवृती
छात्रावास	पुं.	किसी स्कूल, कॉलेज के अंतर्गत वह स्थान, जहाँ विद्यार्थी रहते हैं	छात्रावासः	होस्टल	दारुलइक़ामा	होस्टल	हास्टल, छात्रावासु	छात्रावास
छानना	स. क्रि.	1. आटे आदि को या तरल पदार्थ को चलनी या कपड़े से इस प्रकार निकालना, जिसमें मोटा अंश रह जाए और महीन अंश नीचे गिर जाए	परिष्कृ	छानणा	छानना	छानुन	छाणणु	गाळणें, चालणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सूपडुं	सूप	नाङ्ग्लो	कुला	डला, कूला	याङ्कोक्	कुला, डाला	चेट	मुरम्	मुरम्	नविलु
छापरूं	पाश्ट	छानु, छानो	चाल, छापरा	चालि, चाल	युम्थक्	छपर, चाल	पैकप्पु	कूरै	मेल्क्कूर	चप्पर
छात्र, विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी, छात्र	छात्र	छात्र, विद्यार्थी	छात्र	छात्र-छात्रि, विद्यार्थी	विद्यार्थि	माणवन्	विद्यार्थि	विद्यार्थि
छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति	शिश्यवृत्ती	छात्रवृत्ति	छात्रबृत्ति	बृत्ति, जलपानी, छात्रबृत्ति	छात्रवृत्ति	छात्रबृत्ति, बृत्ति	विद्यार्थि-वेतनमु	कल्वि उदवि-च्चंबळम्	विद्यार्थि-वेतनम्, स्कोळर बिप्पु	विद्यार्थि-वेतन
छात्रालय	वस्तीगृह	छात्रावास, छात्रालय	छात्राबास	छात्राबास	छात्रशि-ङ्गी लैफम, होस्टेल	छात्राबास	हास्टलु	माणवर् विडुदि	होस्टल्	विद्यार्थि-निलय
चाळवुं	च्चाळप	छान्नु, चाल्नु	छाँका, चाला	चाल, छेक	चुम्थोक्पा	छाणिबा, छांकिबा	वडपोयुट, जल्लिंचुट	वडि कट्ट	अरिक्कुक	सोसुवुदु, जरडे, आडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. खोज, जाँचना	अन्विष्	छानणा	परखना	च़ारुन	गोलणु/ गोल्हणु	शोधणें, पडतालणे
छान-बीन	स्त्री.	जाँच-पड़ताल, खोजबीन	अन्वेषणम्	छाणबीण	छान-बीन	छानबीन	जाच-पड़ताल/ छंड-छाण/ तपास	तपास, चौक़शी
छाप	स्त्री.	1. वह ठप्पा या साँचा, जिससे कोई चीज छापी जाए, ठप्पा	मुद्रा	छाप	छाप	छाप	छापो, ठपो	छाप
		2. प्रभाव, असर	प्रभाव:	छाप	अलामत	असर	छाप, असरु	प्रभाव, परिणाम
छापना	स. क्रि.	1. यंत्रों, ठप्पों आदि की सहायता से अक्षर, चित्र आदि की छपाई करना	मुद्रय्	छापणा	छापना	छापुन	छापणु / छपणु	छापणें
		2. पुस्तक, लेख, समाचार-पत्र आदि प्रकाशित करना	प्रकाशय्	छापा	शाए करना	छापुन	–	प्रकाशित करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छणवुं गाळणुं	—	खोज्नु, जाँच्नु	खोंज करा, याचाइ करा	बिचार, परीक्षा कर	थिबा	परीक्षा-करिबा, जांच-करिबा	वेंदकुट	तेड, चोदिक्क	अन्वे-षिक्कुक, परिशोधि-क्कुक	हुडुकुवुदु, शोधिसुवुदु
शोधखोळ, तपास	तपासप	छानबिन, जाँचबुझ	याचाइ, अनुसंधान	अनुसंधान, बिंचार-खोचार	थिजिन्बा	अनुसंधान-करिबा, जांच-करिबा, खोजिबा, परीक्षा करिबा	परीक्षि, गालिंपु	आराय्च्चि	अन्वेषणम्, परिशोधन	तनिखे
छाप	छाप	छाप	छाप, मोहर	छाप, साँच, मोहर	नंबा	छाप, मोहर	मुद्रे	मुत्तिरै, अच्चु	मुद्र	अच्चु
प्रभाव, असर	प्रभाव	असर, प्रभाव	छाप, मोहर	छाप, साँच, मोहर	ममि ताबा	प्रभाव, प्रतिपत्ति	प्रभावमु	ताक्कम्	स्वाधीनम्	प्रभाव
छापवुं	छापप	छाप्नु	छापा, छापाइ करा	छपा, छापा करा	नंम्बा	छापिबा, मुद्रण-करिबा	मुद्रिंचुट	अच्चिड	अच्चटिक्कुक	अच्चु-हाकुवुदु
प्रकाशित करवुं	प्रकाशीत करप, उजवाडप	मुद्रण कार्य गर्नु	छापा	छपाइ-उलिया, प्रकाश कर	लाइरिक नंबा, फोङ्बा	छापिबा, प्रकाश-करिबा	प्रचुरिंचुट, अच्चुवेयुट	पदिप्पिक्क	प्रसाधनम् चेय्युक, प्रकाशिप्पि क्कुक	प्रकटिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छापा	पुं.	1. ठप्पा	मुद्राङ्कः	छापा	छापा	ठप्पुॅ	छापो, ठपो	ठसा
	क्रि.	2. कुछ विशिष्ट वस्तुएँ पकड़ने के लिए पुलिस का अचानक धावा	परीक्ष्, अन्विष्	छापा	छापा	छापुॅ मारुन	पुलिस वग़ैरह जी ओचिती चढ़ाई, छापो	छापा घालणें
छाया	स्त्री.	1. प्रकाश के अवरोध से उत्पन्न हलका अंधेरा	छाया	छां, साइआ, छाओं	साया	छ़ाय	छाया, छांव	छाया, सावली
		2. परछाईं, प्रतिबिंब	प्रतिबिम्बम्	परछावां	अक्स	–	पाछो, अक्सु	पडछाया, प्रतिबिंब
		3. सादृश्य, प्रतिकृति	सादृश्यम्	छां	चरबा	–	हिकजहिड़ाई, समानता	सादृश्य, प्रतिकृती
छाल	स्त्री.	वृक्षों आदि के तने पर का कड़ा, खुरदरा और मोटा छिलका	वल्कल	छिल्ल	छाल	छलुर	छोडो॒, छिलको	साल
छाला	पुं.	शरीर के किसी अंग पर गरम पानी आदि पड़ने अथवा लगातार रगड़ के कारण होने वाला मांस का कोमल और नरम उभार, फफोला	स्फोट, गण्ड	छाला	आबला	बसतुॅ	लिफ़, फोफींडो	फोड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छापा	छप्पो, ठसो	छाप	छाप, मोहर	छाप, छाब, प्रभाव	नंबा	छाप, मोहर	अच्चु	मुत्तिरै, अच्चु	मुद्र	अच्चु
छापा मारबो	छापो मारप	छापा मार्नु, खान-तलासी लिनु	–	पुलिच आदिर अभियान, हठात् अभियान-चलोवा	इकङ्-खङ्हौदना लालदाबा, रेड चङ्बा	अतर्कित-आक्रमण, चढाउ, तलास	दाडि	दिडीर् ताक्कुदल्	मिन्नल् परिशोधन	दाळि
छाया	सावळी	छाया, छायाँ	छाया	छाँ, छाया	उरुम	छाया, छाइ	नीडॅ, छायॅ	निऴल्	निऴल्	नॅरळु
पडछायो, प्रतिबिंब	प्रतिबिंब	प्रतिबिंब्, प्रतिच्छाया	छाया, प्रतिबिंब	प्रतिबिंब	ममि	प्रतिबिंब, परछाइ	नीडॅ, प्रति बिंबमु	प्रतिबिंबम्	प्रतिबिंबम्, निळल्	प्रतिबिंब
प्रतिकृति	प्रतिकृती	प्रतिकृति, अनुकृति	छाया, सादृश्य, प्रतिकृति	सादृश्य, प्रतिकृति	चप् मान्नबा	सादृश्य, सामंजस्य, प्रतिकृति	प्रतिकृति	उरुवम्	सादृश्यम्	सादृश्य
छाल	साल	बोक्रो, छाल, छाला	गाछेर छाल, बाकल	छाल, बाकलि	मकू	छेलि, बकल, वल्कल	चॅट्टुपट्टॅ	मरप्पट्टै	मरवुरि, मरप्पट्ट	तॉगटॅ
छालुं, फोल्लो	फ़ोड	फोको, फुकुन्डो	फोसका, फोस्का	जोला	पोक्थोक्पा	फोटका	बॉब्बॅ	कॉप्पुळम्	पोॅळ्ळल्, पोळन्	गुळ्ळॅ

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छावनी	स्त्री.	वह स्थान, जहाँ सेना रहती हो, सैनिकों की बस्ती	कटकः, स्कन्धावारः	छाउणी	छावनी, लश्करगाह	छावॅुन्य	छांवणी	छावणी
छिड़कना	स. क्रि.	जल या कोई तरल पदार्थ इस प्रकार फेंकना कि उसके छींटे बिखर कर चारों ओर पड़ें	सिञ्च्	छिड़कणा	छिड़कना	छिरकावुन	छटणु, छिणिकाइणु	शिपडणें
छिड़काव	पुं.	छिड़कने की क्रिया या भाव	सेक	छिड़काओ	छिड़काव	छिरकाव	छिणकारु, छट	शिडकाव
छिपाना	स. क्रि.	1. किसी प्राणी या वस्तु को ऐसी जगह या स्थिति में रखना, जहाँ कोई देख न सके, आवरण या ओट में रखना, ढाँकना	√गुप्त्	लुकाउणा, छिपाउणा	छुपाना	चूरि थावुन, खटुन	लिकाइणु, छिपाइणु	लपविणें, छपविणें
		2. किसी को किसी बात की जानकारी न कराना या न होने देना	√गुप्	–	पोशीदा रखना	चूरि थावुन	पोशीदा रखणु	लपविणें
छींकना	अ. क्रि.	शारीरिक क्रिया जिसमें नाक से वायु बहुत जोर से शब्द करते हुए निकलती है	–	निच्छणा	छींकना	पोंद-त्रावॅुन्य	छींकणु	शिकणें (शिंकयणें)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छावणी	छावणी	छाउनी, सैनिक शिविर	छाउनि, सेना-निवास	छाउनि (कंटोनमेन्ट), सेना निबास	सिपाई थंफम लालमी शङ्	छाउणी	कंटोन्मेंटु	पाशरै	पाळयम्	दंडु
छांटवुं	शिंपडप	छर्कनु, छर्किनु	छिटानो	छटिया	खिक्पा, चाइबा	छिटिकिबा	चल्लुट	तेळिक्क	तळिक्कुक	चिमुकिसुवुदु; सिंपडिसुवुदु
छांटणी, छाँटणुं	शितोडो	छर्काइ	सिंचन	छटिया	चाइबा	छिंचिबा	चल्लिक	तेळित्तल्	तळिक्कल्	चिमुसुविक
छुपाववुं, गुप्त राखवुं	लिपवप, न्हिपवप	लुकाउनु, छिपाउनु	लुकानो	लुकुवा	लोत्पा, कुप्पा	लुचाइबा, छपाइबा, गुप्त-रखिबा	दाचुट	ऑळिक्क	ऑळिक्कुक	मुच्चिडुवुदु, मरेमाडुवुदु
छुपाववुं	लिपून-दवरप, न्हिपून दवरप	गोपनीय राख्नु, कुरा लुकाउनु	गोपन करा	लुकुवा, गोपन-करा	लोतशिन्बा, खङ्हंदबा	प्रकाशित-न करिबा, गोपन-रखिबा	दाचुट	मरैक्क	अरियिक्का तिरिक्कुक	गुट्टागिडुवुदु
छींकवुं	शिंकप	छिँक्नु, हाच्छिउँ गर्नु	हाँचि, हाँचा	हॉचि मार	हाक्थी खन्बा	छिंकिबा, हाइ-मारिबा	तुम्मुट	तुम्म	तुम्मुक	सीनुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छीनना	स. क्रि.	किसी से कोई वस्तु आदि जबरदस्ती ले लेना	अप /हृ	खोहणा	छीनना	थपि न्युन	फुरणु, खसणु	हिसकावून घेणें
छीलना	स. क्रि.	किसी चीज के ऊपर की परत को खींच कर या खुरचकर उससे अलग करना	अप् + व्या + मृज्, तनू + कृ, त्वक्ष ; तक्ष्	छिल्लणा	छीलना	ज़ुंलुन	छिलणु	सोलणें, तासणें
छुट्टी	स्त्री.	1. काम बंद रहने का दिन	अवकाश:	छुट्टी	छुट्टी, तातील	छुटी	मोकल	सुट्टी
		2. जाने की अनुमति	अनुमति	–	रुख़्सत	छुटी	मोकल, इजाज़त	परवानगी
		3. छुटकारा	मुक्ति:	छुट्टी	रिहाई	छुटी	छोटकारो	सुटका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छीनववुं, आंचकी लेवुं	झोंपप, झोंपून घेवप	खोस्नु, झम्टेर् तान्नु	छिनताइ, काड़ा, छिनिये नेओआ	काढ़	मुन्बा	काढ़ि-नेवा, पृथक-करिबा, अलग़ा-करिबा, भिन्न-करिबा	लागुकॉनुट	पिडुंगिक् कॉळ्ळ	नट्टि-प्परिक्कुक	कित्तुकों-ळ्ळुवुदु
छोलवुं	तासप, सोलप	छिल्कनु, छोडाउनु, ताछ्नु	छोला, छिलका छाड़ानो	बखलिया, चेला	खोक्पा	छेलिबा	चॅक्कुतीयुट, वलुचुट	तोल् उरिक्क	चींतुक, पॉळिक्कुक	सुलियुवुदु
रजा, छुट्टी	सुट्टी, रज़ा	बिदा, छुट्टी	छुटि	छूटी, अवकाश	छुट्टी, छुटी	बिश्राम-दिन, छुटि दिन, अबसर दिन	सॅलवु	विडुमुरै	ऑळिवुॅ	रजॅ
परवानगी	परवानगी	तातिल, अनुमति	छुटिर मञ्जुरि, छाड़	बिदाय-योवार अनुमति	छुट्टी	अनुमति, स्विकृति	सॅलवु	अनुमदि	अनुवादम्	अनुमति
छुटकारो	सुटकारो	छुटकारा, मुक्ति	छुटि, मुक्ति, निष्कृति	अवकाश	नांथोक्पा	अबकाश, निष्कृति, मुक्ति, छुटि	मुक्ति	विडुदलै	मोचनम्	बिडुगडॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छुरा	पुं.	लंबे फलवाला बड़ा चाकू	क्षुरः	छुरा	छुरा	श्राख, छुर्य	छुरो, खंजरु	सुरा
छूट	स्त्री.	1. बंधन आदि से मुक्ति, छुटकारा	मुक्तिः	छुट्ट	छुटकारा, रिहाई	मौंकुँजार	छोटकारो	सुटका, सोडवणुक
		2. रियायत, सुविधा	परिहारः	छोट	रिआयत	मौंकुँजार	लाथि, छूट	सोय, सूट
		3. कुछ करने की आजादी	स्वतंत्रता	खुल्ह	छूट	मौंकुँजार	छूट	सूट
छूत	स्त्री.	1. गंदी, अशुचि या रोग संवाहक वस्तु का स्पर्श या संसर्ग	संसर्गः	छूत	आलूदगी	लाग	छूत	विटाळ
		2. अपवित्र वस्तु को छूने से होने वाला दोष	संसर्गजन्य	भिट्ट	नजासत	लाग	छूत, भिट्टणु	सांसर्गिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छरो	सुरो, सुरी	छुरा	छोरा	कटारि, छुरि	हैज्राङ्, छुरी	छुरा, कटुरि	कत्ति	पॅरिय कत्ति	वलिय कत्ति	बाकु
छूट	सुटको	छुटकारा, मुक्ति	छाड़, मुक्ति	मुक्ति	नांथोक्पा	मुक्ति, छाड	मुक्ति	विडुदलै	इळवॅु, मोचनम्	बिडुगर्ड
मोकळाश	सोय	छुट, सुविधा	छाड़, विशेष सुबिधा	सुबिधा, रेहाइ	खुदोङ् चाबा	रिहाति, सुविधा, छाड़	सौकर्यमु	विलक्कु, विट्टु- क्कोडुत्तल	सौजन्यम्, किळिवॅु	रियायति
स्वतंत्रता	सवलत	आजादी	छाड़, छूट	सुबिधा	तौनिङ्बा खर तौहन्बा	स्वतंत्रता, सुबिधा	स्वातं- त्र्यमु	चॅयल उरिमै	प्रवर्तन, स्वातंत्र्यम्	स्वांतत्र्य
छूट	आपड, बशाचे	छुइ, छुइछाइ, संसर्ग	छुत, छोंयाच	चुवा, अशुचि	अमोत अकाइ पाइबा	छुआँ, अशुद्ध, अशुचि	अंटु	(तॉड - क्कूडाद पॉरुळै) तीण्डुदळ्	तॉटील	स्पर्श
अपवित्र वस्तुने स्पर्शवाथी लागतो दोष	भष्ट, बादता तसली	छूत	छुत	चुवा- होवा- कार्य, अशुचि- होवा	अमाङ्बा, अमोत्पा, अवाबा, फतबा पाइरुबदगी ओइरक्पा मओङ् (लौनरक्पा)	अपबित्र- बस्तु- स्पर्श- जनित- दोष, अशुचि, अशुद्धि, अपबित्र- हेबा	अंटु	तीण्डल्	तीण्डल्	अशौच, मैलिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छूना	स. क्रि.	किसी वस्तु का शरीर के किसी अंग अथवा पहने हुए वस्त्र से लगाना या स्पर्श होना	स्पृश्	छुह्ण	छूना	अथुॅलागुन	छुहणु	स्पर्श करणे
छेड़ना	स. क्रि.	1. किसी को उत्तेजित करने के लिए कुछ कहना या करना, चिढ़ाना	उत्तेजय्	छेड़ना	छेड़ना	त्रुस द्युन	छेड़णु, चेड़ाइणु	खोडी काढणें, चिडविणें
		2. किसी वस्तु को इस प्रकार छूना या स्पर्श करना कि उसके फलस्वरूप कोई क्रिया या व्यापार घटित हो	स्पृश्	–	–	छेड्डुन	छेड़णु	सुरूवात करणें, हाती घेणें
छेदना	स. क्रि.	छेद अथवा सुराख करना	√छिद्	छेक पाउणा	छेदना	ज़ोॅंद करुन	टुंगु करणु, सलणु, छेदणु	भोक पाडणें
छोटा	वि.	1. मान, विस्तार आदि में अपेक्षाकृत कम या थोड़ा	लघु	छोटा	छोटा	लोॅकुट, छोॅट	नंढो, घटि	लहान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अडवुं, स्पर्शकरवो	आपुडप, स्पर्श-करप	छुनु, स्पर्श-हुनु	छोँया, छोँयानो	चो, छो, छुवा	थेङ्बा	छुइँबा, स्पर्श-करिबा	ताकुट	तांड	तांटुक	मुट्टुवुदु
छेडवुं, अटकचाळो करवो	चिडावप	छेड्नु, जिस्क्याउनु	चटानों, रागानो, ज्वालातन करा	जोका, खङ-तोला	लक्नबा, कक् काक् तौबा	चिड़ेइबा, उत्तेजित-करिबा (चिढ़ाइबा)	रेकेत्तिंचुट	वंबुक्कि-ळुक्क, चीण्ड	शुंठि पिटि-प्पिक्कुक	रेगिसुवुदु, कंणकुवुदु
ट्कोरवुं	काम हातार घेवप, हातांत धारप	उस्काउनु, उडाउनु, चलाउनु	छुँए, गण्डगोल बाधानो	चो, छो	थेङ्बा	उत्तेजक, प्रदाह-जनक, उद्दीपना	रेच्च-कोट्टुट	चीण्ड	–	मुट्टुवुदु
छेदवुं, कापवुं, छिद्र काणुं पाडवुं	बोतो करप	छेड्नु, प्वाल पार्नु	छेदा करा, बिंध	बिंध	होहन्बा, हुत्पा	कणा-करिबा, रंध्र-करिबा	रंध्रमु चेयुट	तुळै पोड	तुळय्क्कुक	तूतु माडुवुदु
नानुं	थोडे	सानो, छोटो	छोटो	अल्प-वयस्क	अपिक्पा	छोट, निम्न, निच्च, तलिआ	चिन्न	चिरिय	चेरिय	चिक्क, सण्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उम्र में कम	कनीयस्	छोटा, निक्का	खुर्द	लोॅकुट, छोॅट	नंढो	वयाने लहान
		3. तुच्छ, हीन	हीन, लघु	–	अद्ना	लोॅकुट, छोॅट	नंढो, ख़सीस	तुच्छ, हीन
छोड़ना	स.	1. बंधन से मुक्त करना, स्वतंत्र करना	उत्सृज्	छड्डणा	छोड़ना	त्रावुन	छड्डणु	सोडणें, स्वतंत्र करणें
		2. माफ करना	क्षम्	छड्डणा	बख़्शना	माफ करुन	माफ़ करणु	माफ करणें
		3. त्याग देना	त्यज्	छड्डणा	रिहा करना	त्रावुन	त्यागु डियणु	त्यागणें
		4. चलाना, फेंकना	क्षिप्	छड्डणा	तर्क करना	दॉरिथ द्युन	हलाइणु, उछिलाइणु	चलविणें, फेंकणें
		5. किसी कार्य या उसके अंग को न करना या भूल से छोड़ देना	अनवधानतया शेषीकृ	–	रद्द करना	मॅशिथ-ग़छुन	अपूरन करणु	अपुरे सोडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उमरमां नानुं	ल्हान	सानो, सानु	बयसे छोटो	सरु	चहि नौरिबा	बयसरे- कम, सान, कनिष्ठ	चिन्न	इळैय	इळय	किरिय
हलकुं	ल्हान	छोटो, छुद्र, नीच	(माने) छोटो	तुच्छ, हीन	हंथबा	तुछ, हीन, नगण्य	चिन्न	अर्पमान	तुच्छमाय	तुच्छ, तीर, अल्प
छोडवुं, मुक्त करवुं	सोडप	फुकाउनु, छाड्नु	छाड़ा	एरि दे, मुक्त- कर	थादोक्पा	छाड़िबा, मुक्ति देबा, स्वतंत्र- करिबा	विडुदल- चेयुट	विट्टु विड	विटुक, क्षमिक्कुक	बिडुगर्ड- माडुवुदु, बिट्टुबिडुवुदु
माफ करवुं, दरगुजर करवुं	माफ करप	माफ गर्नु	छाड़ा, क्षमा करा	क्षमा- कर, एरि-दे	ङाक्पिबा	माफ- करिबा, दोष- मुक्त- करिबा	क्षमिंचुट	मन्निक्क	क्षमिक्कुक	मन्निसुवुदु
तजवुं	त्याग करप	छोड्नु, त्याग्नु	छाड़ा	त्याग- कर	कत्थोक्पा	त्याग- करिबा, छाड़िबा, परित्याग- करिबा	त्यजिंचुट, वदलुट	विट्टुविड	उपेक्षिक्कुक	त्यजिसुवुदु
फेंकवुं	–	चलाउनु, प्रक्षेपण गर्नु	चालानो, छौंड़ा	पेला, पेलोवा	काप्थोक्पा, लङ्थोक्पा	फोपड़ि- देबा	विसरुट	संलुत्त, एय्य	विटुक, एरियुक	एसेयुवुदु, बिडुवुदु
अधूरूं छोडवुं	अर्धवट करप	छाडी दिनु	छेड़े जाओआ	आधरुवा कर	हुंदोक्- लंबा	छाड़ि- देबा	वदलि पेट्टुट	विडुदल्	विट्टुकळयुक	बिडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
छोर	पुं.	अंतिम सिरा, किनारा	कूलम्	सिरा	किनारा (कनारा)	किनारुँ	छेड़ो, सिरो	टोक, शेवट, सीमा, कांठ
जंग	पुं.	1. युद्ध	युद्धम्	जंग	जँग	जंग	जंग	युद्ध, लढाई
		2. वायु और नमी के प्रभाव से उत्पन्न होकर लोहे पर जमने वाली मटमैली परत	मण्डूरम्	जंगाल, जंग	ज़ंग	ज़ंगारुँ, ज़ंग	कटु, जंगार	गंज
जंगल	पुं.	1. वन	वनम्	जंगल	जंगल	जंगल, वन	झंगलु	अरण्य, वन, जंगल
		2. निर्जन स्थान	विजन	–	–	–	निर्जन स्थानु	निर्जन स्थान
जंगला	पुं.	बरामदे, छज्जे आदि के किनारे-किनारे की गई रचना, जिसमें लोहे या लकड़ी की छड़ें या जाली लगी हो	वारणम्, वितर्दि:	जंगला	जंगला	काठकर, जंगलुँ	झंगलो, कटहिड़ो	कठडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छेडो	तोंक, शेवट	किनार, पारि	खुटे, प्रांत, किनारा	पारि, किनार, मूर	मतोल्, मताइ, मपाल्	किनारा, प्रांत, धार, पार्श्व	अंचु	ओरम्, करै	तीरम्, अट्टम्	तुदि, दड
युद्ध	झूज, युद्ध	जुद्ध, युद्ध, लडाइँ	युद्ध	युद्ध	लाल	जुद्ध, समर, संग्राम	युद्धमु, पोराटमु	युत्तम् पोर्	युद्धम्	युद्ध
काट (लोखंड उपर लागेते)	कळमेवप	खिया, खई, कस	मरिचा, मरचे	समर	कोल्हिङ्	जंक	तुप्पु	तुरु	तुरुंबुँ	तुक्कु
वन, जंगल	रान	जङ्गल, वन	जंगल, बन	हाबि, जंघल	ऊमङ्, जंगल	जंगल, बन, बण, अरण्य	अडवि	काडु	काटुँ	काडु
निर्जन स्थान	जंगल	निर्जन स्थल, सुनसान ठाउँ	निर्जन स्थान	निजान-ठाइ, निर्जन-ठाइ	मी तादबा मफम	निर्जन-स्थान, एकाँत-स्थल	निर्जन स्थानमु	जननडमाट्ट मट्ट इडम्	विजन स्थलम्	निर्जन स्थान
जाळी, कठेडो	कटांजन	जाली, छेकाबार	जानाला	खिरिकि सुरुङा	फैरेल, रेलिङ्	घेरेइ-होइथिबा-तार जालि अथवा-काठ-जालि	कटकटालु	किरादि	जनल्-अळि	कटकटं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जंजीर	स्त्री.	धातु की बहुत-सी कड़ियों को एक-दूसरे में पहनाकर बनाई जाने वाली लड़ी, साँकल, शृंखला	शृङ्खला	जंजीर	ज़ँजीर	ज़ंजीर, हाँकल	ज़ंजीर	साखळी, शृंखला
जंतु	पुं.	प्राणी, जीव	जन्तुः	जंतू	जानदार	जानदार, ज़ीव	जंतू, जीवु	जंतु
जकड़ना	स. क्रि.	1. कोई चीज इस प्रकार कसकर पकड़ना या बाँधना कि वह हिल-डुल न सके	दृढं बध्	जक्ड़णा	जकड़ना	चीरुँ रटुन	जकड़िणु	जखडणें
		2. शीत आदि के कोप से शरीर का ऐंठना या तन जाना, अकड़ना	कड	आकड़णा	–	कावरुन	सीटिजणु, आकिड़जणु	आखडणें
जगत	पुं.	संसार, विश्व	जगत्	जगत	आलम, दुनिया	ज़गथ, समसार, दुनियाह	जगत, संसारु	जग, विश्व

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जंजीर, सांकळ	सांखळ, सरपळी	जन्जीर, साङ्लो	शिकल, शृंखल	शिकलि	योत्हौ-कोल्हौ, योत्ली	जंजीर, शिकुलि, शृंखल	गॉलुसु	चंगिलि	चङ्ङल	सरपलि
जंतु, नानु जीवडुं	जीव	जंतु, प्राणी	जंतु, प्राणी, जीब	जंतु, प्राणी, जीव	जीव	जंतु, प्राणी, मनुष्य एवं अन्यान्य-प्राणी	जंतुवु, प्राणि	पिराणि	जीवि, जीव जंतु	जंतु
जकडवुं	घट्ट बांधप	जकुड्नु	शक्त करे धरा वा बांधा	टानकै-बांध	फाजिन्बा, पुनसिन्बा	जाबुड़िबा, बंधिबा, बंधन-करिबा	बिगिंचुट	इरुक्कि-क्कट्ट	कुरुक्कुक	बिगिदु-कट्टुवुदु
सांधानुं-अंगनु झलाई जवुं	मुंयेवप	अर्‌रिनु, कठ्या-ङ्ग्रिनु	ठाण्डाय देहेर असाड़ हओया	ठँटुवा-लाग, ठेटुवैधर, असाड-होवा/थं	ऊचेक् खोङ् होबा (शाबा) इङ्मंदुना फाजिल्-लकपा	शीतरे-शरीर असाड़-हेबा, शीतल, नीरस, निर्जीब, निस्तेज-बा कठिन-हेबा	बिगिसि-पोवुट	विरैत्तुप्पोग	विर्‌ङ्ङलि-क्कुक	हिडिदु-कॉळ्ळुवुदु, जोमु-हिडियुवुदु
जगत	संवसार	जगत, विश्‌व, संसार	जगत, संसार, बिश्व	जगत, संसार, बिश्व	संसार, ताइबङ्, मालेम्	जगत, संसार, विश्व	जगत्तु, प्रपंचमु	उलगम्	लोकम्	प्रपंच

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	स्त्री.	कुएँ के चारों ओर बना हुआ चबूतरा, जिस पर खड़े होकर पानी खींचा जाता है	वेदिका	थड़ा, मंड	जगत, कुँए की मेंड	क्रीरिस-अँद्य अॅद्य-प्यंड/ थरॅ	खूह जो चबूतरो	विहिरी भोवतीचा चबुतरा
जगमगाना	अ. क्रि.	अपने या दूसरे के प्रकाश से चमकने लगना	प्रकाश्	जगमगाउणा	जगमगाना	चमुॅकुन, नपुॅनपुॅ करुन	ब॒हिकणु, चमकणु	लखलखणें
जटिल	वि.	कठिन, पेचीदा	जटिल	गुंझलदार	पेचीदा, मुश्किल	पीचीदुॅ	डु॒खियो, पेचीदो	अवघड
जड़	वि.	1. जिसमें जीवन अथवा चेतना न हो, निर्जीव, अचेतन	जड	जड़	जामिद	ज़ड़, बेजान	जड़ु	निर्जीव, अचेतन, जड
	स्त्री.	2. पेड़-पौधों आदि का नीचे वाला भाग जो जमीन के अंदर हो, मूल	मूलम्	जड़	मूल, जड़	मूल	पाड़/जड़	मूळ
जनगणना	स्त्री.	किसी देश या राज्य के निवासियों की गिनती	जनगणना	मरदमशुमारी	मर्दुमशुमारी	मोॅरँदुम शुमॉरी	आदमशुमारी	खानेसुमारी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
थाळुं	बांयचे कट्टे	पेटी, चौतारो	कुयार पाड़	जगत, रिं	गुहादगी इशिङ् चिङ्खत्फम	कुअ नंद	नूतिगट्टु	किणट्टु मेडै	किणट्टुकर	बावि-कट्टे
झगमगवुं	लक-लकप	जगमगाउनु, चम्किनु	निजेर बा अन्येर आलोय झलमल करा	जकमका, जकमकोवा	कुप्फेत् काफेत् ङान्बा	झलमल-हेबा, चकचक्-हेबा, झलसिबा	प्रकाशिंचुट मेरयुट	जॊलिक्क	प्रकाशिक्कुक, तिळङ्ङुक	थळथळिसुवुदु
जटिल, अटपटुं	कठीण	अत्यंत कठिन, जटिल	जटिल, कठिन, जट-पाकान	जटिल, कठिन	अरुबा, चयेत्लबा	जटिल, कठिन, दुर्बोध	जटिलमयिन	चिक्कलान	जटिलमाय, विषमम् पिटिच्च	जटिल
जड, स्थूल (ळ)	निर्जीव	जड, निर्जीव	जड़	जड़, निर्जीव	थवाइ पांदबा	जटिल, कठिन, दुर्बोध	जडमु	उण्रवट्ट	जडं, जीवनिल्लात्तु	निर्जीव, जड
जडमूळ	मूळ	जरो, कंदु	शिकड़	शिपा, शिया	मरु, मरा	चेर, मूल	व्रेळ्ळु	वेर्	वेरुँ	बेरु
वसति (ती) गणतरी	जनगणना	जनगणना	लोकगणना, आदम-शुमारि	जनगणना	मीकोक् थिबा	सरकारी-लोकसंक्षा-निरूपण, जनगणना, जनसुमारि	जनाभा लेक्क	मक्कळ् तॊगै-कणक्कु	जनसंख्य एंटुक्कल, कानेषुमारि	जनगणने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जनजाति	स्त्री.	जंगलों, पहाड़ों आदि पर रहने वाली आदिम जाति, जो साधारणत: एक ही पूर्वज की वंशज हो और जिसका प्राय: एक ही पेशा, रहन-सहन और विचार आदि हों	वन्यजाति:	जनजाती	क़बीला	कबीलुॅ	क़बीलो, जन-जाती	वन्य जमाती
जनतंत्र	पुं.	ऐसी शासन प्रणाली, जिसमें देश या राज्य का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता हो	जनतंत्रम्	लोकतंतर, जनतंतर	जुम्हूरियत	जॊम्हूर्ययथ	रैयती राज़ु, जनतंत्रु	लोकशाही
जनता	स्त्री.	किसी देश या राज्य में रहने वाले व्यक्ति, जनसाधारण, प्रजा	प्रजा	जनता	अवाम	जनता, अवाम	जनता, रिआया	जनता
जनेऊ	पुं.	1. हिंदुओं में बालकों का यज्ञोपवीत नामक संस्कार, जिसमें सूत की तिहरी माला पहनाई जाती है	यज्ञोपवीत-संस्कार:	जंजू, जनेऊ, जंझू	जुन्नार बंदी	योनि	जणियो, जणियो पाइण जो संस्कारु	जानवें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आदिवासी	जनजाती	जनजाति	आदिबासी	जनजाति, आदिबासी	आदिवासी, हाओ, चीङ्मी	गिरिजन, जंगली, आदिबासी, जनजाति	आदिमजाति	पळ्ंकुडि मक्कळ्	गोत्रजाति	बुडकट्टु
प्रजा-सत्ताक, राज्यतंत्र, रिपब्लिक	लोकशाय	लोकतंत्र, प्रजातंत्र	गणतंत्र, जनतंत्र	गणतंत्र	प्रज़ाना मीहुत् खल्लगा वायेल थौदाबा गणतंत्र, जनतंत्र	साधारण-तंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र	प्रजा-प्रभुत्वमु	कुडि आट्चि	प्रजा-यत्तभरणम्, जनाधिपन्यम्	प्रजातंत्र
जनता	जनता	जनता, प्रजा, रैती	जनता, जन-साधारण	जनता, प्रजा, राइज	प्रजा	जनता, जन-साधारण	प्रजलु	पिरजैगळ्, पॉदु मक्कळ्	जनत	प्रजॅ
जनोई	जानवे	बर्तमन, व्रतबंध	यज्ञोपबीत, उपनयन संस्कार-क्रिया	लगुण, उपनयन	लुगून	उपबीत, उपनयन संस्कार (यज्ञोपबीत)	जंदॅमु	उपनयनम्, पूणूल् पोड्डुदल्	उपनयनम्, पूणूकल्-याणंम्	मुंजिवॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र	यज्ञोपवीतम्	जंजू	ज़ुन्नार	योनि	जणियो	ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत
जन्मकुंडली	स्त्री.	वह चक्र, जिसमें जन्म-काल के ग्रहों की स्थिति बताई गई हो	जन्मकुण्डली	जनम कुंडली	ज़ाइचा	टैंकिन्य	जनमकुंडली	जन्म पत्रिका
जन्म-दिन	पुं.	वह दिन जब किसी ने जन्म लिया हो	जन्मदिनम्	जनमदिन	यौमे-पैदाइश	वाहेरॅ वोद, ज़ादोह	जनम जो ड॒ींहुं, जनम-दिन	वाढदिवस
जन्म-भूमि	स्त्री.	वह देश, राज्य या स्थान, जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, जन्म स्थान	जन्मभूमिः	जम्मण-भों, जनम-भूमी	मौलिद (जाए पैदाइश)	ज़्यनुॅ जाय मादरि वतन	जनम भूमी	मातृभूमी
जपना	स. क्रि.	फल-प्राप्ति के लिए किसी शब्द, पद, वाक्य आदि को श्रद्धापूर्वक मन ही मन बार-बार कहना	जप्	जपणा	जपना, विर्द करना	ज़पुन	जपणु	जपकरणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
यज्ञोपवीत	यज्ञोपवीत	जनै, यज्ञोपवीत	उपवीत, पइता	उपनयन यज्ञसूत्र, लगुण	लुगून थंबा	पइता, जज्ञोपवीत, उपबीत	यज्ञो-पवीतमु	पूणूल्	यज्ञोपवीतम्, पूणुनल्	जनिवार, यज्ञोपवीत
जन्म-कुंडली (ळी)	जातक	चिना, टिपन, जन्म-पत्रिका	जन्म-पत्रिका, कोष्ठी, ठिकुजि	सौँवरणी, जन्म-पत्रिका, कोष्ठी	कुठी	जातक, कोष्ठी, जन्म-कुण्डली, जन्म पत्रिका	जातकमु	जादगम्	जातकम्	जातक
जन्मदिन	वाढ्ढ दिवस	जन्मदिन, जन्म दिवस	जन्मदिन	जन्मदिन, जन्म-दिवस	मपोक नुमित्	जन्मदिन, जन्म-दिबस	जन्मदिनमु, पुट्टिनरोजु	पिरंद नाळ्	पिरन्नाळ्	हुट्टिद-दिन, जन्मदिन
जन्मभूमि	मातृभूंय	जन्मभूमि, जन्मस्थान, जन्मथलो	जन्मभूमि	जन्मभूमि, मातृभूमि	पोक्नफम्, इरम्दम्	जन्मभूमि, मातृभूमि	जन्म भूमि	पिरंद नाडु	जन्म भूमि	जन्मभूमि
जपवुं, रटवुं	जाप करप	जप्नु, मन्त्रोच्चारण गर्नु	जपा, जप करा	जप, नाम ल	जोप् तौबा, थोन्बा हन्ना-हन्ना शोन्बा	जपिबा, नाम नेबा, भोजन करिबा	जपिंचुट	जबिक्क	जपिक्कुक, उरुविटुक	जपिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जबरदस्त	वि.	प्रबल अथवा स्वभाव से कठोर घटना या प्रतिक्रिया	प्रबल	जबरदसत	ज़बरदस्त	ज़बर्दस्त	ज़बरदस्त	जबरदस्त, बळकट (व्यक्ती)
जमा	वि.	बचाकर या जोड़कर रखा हुआ	सञ्चित	जमां	जमाशुदा	जमाह	जमा	जमा, जमा केलेले
	स्त्री.	1. मूलधन, पूँजी	मूलधनम्	जमां	सरमाया	जमाह	मूड़ी	भांडवल
		2. जोड़ (गणित)	योगः	जमां	मीज़ान	जमाह	जोड़ु	बेरीज (गणित)
		3. खाते या बही का वह भाग या कोष्ठक, जिसमें प्राप्त हुए धन का ब्यौरा दिया जाता है	आयवर्गः	–	जमा	जमाह	आगुति, जमा	खात्यातील जमेची बाजू
जमानत	स्त्री.	1. वह जिम्मेदारी, जो किसी न्यायालय द्वारा इस रूप में दी जाती है कि बुलाने पर न्यायालय में उपस्थित न होने की स्थिति में जमा की गई धनराशि हरजाने के तौर पर जब्त कर ली जाती है	प्रतिभूतिः	जमानत	ज़मानत	ज़मानथ	ज़मानत	जामीन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जबरजस्त	ज़बरदस्त.	जबरजस्त्, कडा, चपुर्चन्ड्	जबरदस्त, दुर्दांत, प्रबल	जोर-जुलुम, कठोर, दृढ़, सबल	नमफु-शाफु तौबा	जबरदस्त, दृढ़-निश्चित	बलमयिनँ	वलुवान	प्रबलनाय	जोराद, बलिष्ठ
जमा	ज़मा	जम्मा, एकत्रित	जमा	जमा	तुङ्शिन्बा	जमा	जमकट्टिनँ	चेर्क्कप्पट्ट	संपादिच्च, चेर्त्तु वॅच्च	माॅत्त, आॅट्टुगूडिसिद
मुदल	मूळ रकम	बटुलिएको मूलधन	जमा, मूलधन	मूलधन	तुङ्शिन्जबा लल	मूलधन, जमा, पूंजि	पॅट्टुबडि	मुदल्	निक्षेपम्, मूलधनम्	बंडवाळ, मूलधन
सरवाळो	बेरीज़	जोड (गणितको एक हिसाब)	समष्टि, जोग	योग	तिनशिन्बा	मिशाण, मिशाइबा	कूडिकँ	कूट्टुत्ताॅगै	कूट्टल्	कूडुवुदु
जमा बाजुनुं खातुं	खात्याची जमाबाजु	धनको बेहोरा लेखिने कोष्ठक, जम्माखर्च्, बही	जमा हिसाब, जमाखाता	जमा	पैसागी हिसाब थंबा बोइ	हिसाब-खाता, जमा-खाता	जमँ	वरवु वैत्तल्	वरवु कोळम्	जमा
जामीन	जामीनकी	जमानत	जामिन, जमानत	जामिन	जमानत, बेल	जामिन, जमानत	जामीनु	जामीन	जाम्यम्	जामीनु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी व्यक्ति विशेष के लिए दी गई मौखिक या लिखित जानकारी	प्रतिभाव्यम्	–	–	ज़मानथ	ज़मानत	जामीन
जमाना	स. क्रि.	1. किसी तरल पदार्थ को शीत अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से ठोस बनाना	घनीकृ	जमाउणा	जमाना	ज़्जवुरावुन, जमावुन	ॼमाइणु	घट्ट करणे
		2. एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर दृढ़तापूर्वक स्थित करना या बैठाना	स्थिरीकृ	जमाउणा	–	बेंहनावुन	खुपाइणु	घट्ट बसविणे
ज़माना	पुं.	काल, समय	कालः, युगम्	ज़माना	ज़माना, वक़्त	ज़मानुँ	ज़मानो	काळ, समय, जग
जमींदार	पुं.	जमीन का मालिक, भूमि का स्वामी	भूपतिः	जिमिंदार	ज़मींदार	ज़मीनदार	ज़मींदार	जमीनदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जामिन गीरी	जामीन	धरौटी, धितो	जामिन स्वरूप प्रदत्त अर्थ, जामानत	आमानत, जामिनर- बाबद- दिया धन	सिक्योरिटी, जामिन पीबा	जामिन- टंका, अमानत- टंका	सॅक्यूरिटी	पिणैयम्	सॅक्यूरिट्टि, जाम्यत्तुक	आधार, जामीनु
जमाववुं	घट्ट करप	जमाउनु	जमानो, जमाट करा	डाठ कर, जमा, गोट मरा	फमहन्बा	जमा- करिबा, घनीभूत- करिबा, एकाठि बा- एकत्र- करिबा	गड्ड- कट्टिंचुट	उरैयच्चेय्य	कट्टियाक्कुक	गट्टिमाडुवुदु
स्थिर के दृढ़ करवुं	घट्ट करप	अड्याउनु, जमाउनु	शक्त करे प्रतिष्ठित करा	खाप- खुवाइ- थ	हापचिन्बा, थमजिन्बा	खाप- खोइबा, प्रतिष्ठित- करिबा, ठिक भाबरे- रखिबा	स्थापिंचुट	नन्गु पारुत्ति वैक्क	उरप्पिक्कुक	कूड्रिसुवुदु
जमानो	काळ	समय, काल, जमाना	युग, काल, समय	काल, समय	मतम	काल, समय, जुग	कालमु	कालम्	कालम्	काल, समय
जमीनदार, मालिक	जमीनदार, भाटकार, मालक	जमिनदार	जमिदार, प्रभू	जमींदार, माटिर- गराकी	जमीदार, जामिन मपू	जमिदार	जमींदारु	जमींदार, निल- क्किळार्	जमींदार्, भूस्वामि जन्मि	जमीनुदार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जम्हाई	स्त्री.	एक शारीरिक क्रिया, जिसमें मनुष्य अपनी तंद्रा व सुस्ती भगाने के लिए पूरा मुँह खोलता है	जृम्भा	उबासी	जमाही, जमाई	ज़ामन	उबासी	जांभई
जयंती	स्त्री.	1. जन्मतिथि पर मनाया जाने वाला उत्सव	जन्मोत्सव:, जयन्ती	जयंती, वरेहगंढ	जश्ने-सालगिरह	जयंती	जयंती, जश्ने सालगिरह	जयंती
		2. किसी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ होने की वार्षिक तिथि पर होने वाला उत्सव	वार्षिकोत्सव:	वारशक उतसव	सालाना जश्न, जुबली	जयंती	सालियानो उत्सउ/जल्सो	वाढदिवस
जयमाला	स्त्री.	1. विजेता को पहनाई जाने वाली माला	जयमाला	जैमाला	जयमाला	जय-माल	जय-माला	जयमाळ
		2. विवाह के समय फूलों आदि की वह माला, जो कन्या अपने भावी पति के गले में डालती है	माला, वरमाला	जैमाला	–	जय-माल	वरमाला	वरमाळा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बगासुं	जांबय	हाई, जृम्भा	हाइ	हामि	हकाम् चन्बा,	हाइ- मारिबा	आवुलिंत	कोट्टावि	कोट्टुवा	आकळिकं
जयंती	जल्म- दिवस, जयंती	जयंती, जयन्तिका	जन्मोत्सब	जन्मोत्सव	मपोक नुमित्ता पाङ्थोकपा	जन्मदिन, जन्मोत्सब	जयंति	पिरंद नाळ् विळा	जन्म दिनोत्सवम् पिरन्नाळ्	जयंति
जन्म दिवस	जल्म- दिवस	वार्षिकोत्सव	जयंती	जयंती	उत्सव, जयन्ती, पोक्पा नुमित्ता नत्रगा हौदोक्खिबा नुमित्ता पाङ्थोक्पा चहिगी, लाक्पा कुम्है	जयंती, बार्षिकी	जयंति	आण्डु विळा	वार्षिकोत्सवम्	वार्षिकोत्सव
जयमाल (ळ)	जयमाळा	जयमाला, विजयमाला	जयमाल्य, बिजयमाला	जयमाला	माइ पाक्लबा मीदा शिबिनबा	जयमाला, बिजयमाल्य- बा माल	जायमाल	वंट्टि वाहै	जयमाल्यम्, जयमाल	जयमालं
जयमाला	वरमाळा	वरमाला	माला- बदलेर माला	बरमाल्य	लै परेङ् लुहोङ्बा नुमित्ता शिनबा लै परेङ	बरमाला, बरमाल्य	वरमाल	मणमालै	वरणमाल्यम्	मालं, वरमालं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जरी	स्त्री.	सोने के वे तार, जिनसे कपड़ों पर बेल-बूटे आदि बनाए जाते हैं	सौवर्णतन्तुः	जरी	ज़री	ज़री	ज़री	जर
जरूर	क्रि.वि.	अवश्य	अवश्यम्	जरूर	ज़रूर	ज़रूर	ज़रूर	अवश्य, जरूर
जर्जर	वि.	1. जीर्ण-शीर्ण, कमजोर, बेकाम	जीर्ण	जरजरा	बोसीदा, ख़स्ता	ज़ॉजुर	कमज़ोर	जर्जर
		2. टूटा-फूटा	भग्न	–	–	ज़ॅजुयोंमुत	भगलु, भुरियलु	जीर्ण, तुटलेली
जलचर	पुं.	जल में रहने वाले जीव-जंतु	जलचरः	जलचर	आबी जानवर	पान्युक-जानवर, ऑबी जानवर	जल-चर, जल-जीव	जलचर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
– सोनानो तार	ज़र	जरी	सोनाली जरि	गुना, सोणाली- जरि	फीदा लोलननबा सनागी नत्रगा सना मचुगी तारा	सुना जरि	जरी	जरिगै	जरिककंपि, कसवुँ	जरतारि
जरूर	ज़रूर	अवश्य, पक्का, निश्चय	अबश्य, निश्चय	अवश्ये, निश्चय	सोइदवा, सोइद- नमक	जरूर, अबश्य, निश्चय, निश्चित	तप्पकुंड	अवसियम्, कट्टायम्	तीर्च्चयायुम्	खंडित, अगत्य
जर्जर	जर्जर	जर्जर, बेकामी	जर्जर, अकेजो	जर्जर, दुर्बल	अमन्बा, मपाङ्गन याओद्रबा	जर्जर, जर्जरित, कमजोर, दुर्बल, अकर्मण्य, अकामी	जर्जरमयिन	उबयोग- मट्ट	जर्जरमाय, बलहीनमाय	जीर्ण, सवेद
जिर्ण, तूटेलुं	जीर्ण	जीर्ण, खण्डित	जीर्ण, जराजीर्ण	भङा- छिङा, जराजीर्ण	तेक्ल- काइरबा, अकाइबा अतोइबा, मल्लबा	भंगा, जराजीर्ण, भंग्न	शिथिल मयिन	उबयोगमट्ट	जर्जरमाय, बलहीनमाय	भग्नवाद, पाळुबिद्द
जलचर	जलचर	जलजंतु, जलचर	जलचर, जलजंतु	जलचर, पानीत- चलिफुरा, जलजंतु	ईशिङ् दा लैबा जीव	जलचर, पाणि बा- जलरे- बासकरुथिबा जीव	जलचरमु	नीर- वाळ्वन	जलजीवि	जलचर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जलना	अ. क्रि.	1. आग का संयोग होने पर किसी वस्तु से लपट, प्रकाश, ताप या धुआँ आदि निकलने की स्थिति	दह्, ज्वल्	सड़ना	जलना	दज़ुन	ब़रणु	जळणें
		2. उक्त प्रकार के संयोग से विकृत होना, झुलसना या भस्म होना	दह्, भस्मीभू	सड़ना	झुलसना	–	सड़णु	जळणें
		3. ईर्ष्या, द्वेष आदि से कुढ़ना, संतृप्त होना	दिष्	सड़ना	हसद करना	रेह गंडुॅन्य	सड़णु, हसद करणु	जळफळणें
जलपान	पुं.	कलेवा, नाश्ता	उपाहार:	पाणी-धाणी, जलपान	नाश्ता	नाश्तुॅ, चाय-पोन्य	चपो-चूरो, नाश्तो	न्याहारी, फराळ, नाश्ता
जलप्रपात	पुं.	ऊँचाई से गिरने वाला जलप्रवाह, झरना	जलप्रपात:	झरना	आबशार	आबशार	झरणो, आबशारु	धबधबा, झरा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बळवुं, सळगवुं	जळप	बल्नु, दन्कनु	ज्वला, पोड़ा	जला, पोरा	चाक्पा	जलिबा, पोडिबा, पोड़िजिबा	कालुट, मंडुट	एंरिय	कत्तुक	उरियुवुदु
भस्म थई जवुं	जळप	आगोमा पोलिएर विकृत रूप हुनु, जल्नु	पुड़े जाओआ	जलि-नष्ट-ह	उत् ओन्बा, तुंबा	जलि-नष्ट-भ्रष्ट हेबा	कालुट	एंरिंदु चांबलाग	कत्तिप्पोकुक, चारमाकुक	सुट्टुहोगुवुदु भस्मवागुवुदु
ईर्षा करवी	जळप	चिढिनु, जल्नु, जलन हुनु	ज्वला, ज्वलन हओआ	जलि उठ, ईर्षा, द्वेष आदित जला	चाक्पा	कष्ट-पाइबा, परश्रीकातर हेबा	कालुट	पारामैप्पड	असूयप्पेटुक	हॉट्टेकिच्चु पडुवुदु
नास्तो	नाश्तो	चमेना, खाजा	जलयोग, जलखाबार	जलखाबा	अचा-अथक, रिफ्रेशमेंट	जलखया	अल्पाहारमु	चिट्टुण्डि, नाश्ता	लघु भक्षणम्	उपाहार, फलाहार, नाश्ता, तिंडी
पाणीनो धोध, जलप्रपात	धबधबो	छहरो, जलप्रपात, प्राकृतिक झरना	जलप्रपात, झरना	जलप्रपात, झरना	अवाङ् बदगी तारक्पा ईशिङ् चाइबी, वाटर फॉल	जलप्रपात	जलपातमु	नीर् वीऴ्च्चि	वेळ्ळच्चाट्टम्	जलपात

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जलयान	पुं.	वह यान या सवारी, जो जल में चलती हो	जलयानम्	जहाज	बहरी जहाज़ (जहाज़)	समंदरी जहाज़	पाणीअ में हलंदड़ु (बेड़ी, जहाज़ु वग़ैरह)	जहाज
जलवायु	पुं.	किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण (गर्मी, ठंड, वर्षा आदि) जिसका विशेष प्रभाव जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों आदि की उपज, विकास तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है	जलवायु, ऋतुः	पैण-पाणी, आबो-हवा	आबो-हवा	आबुॅ हवा	आब-हवा	हवामान
जलसा	पुं.	उत्सव, समारोह, अधिवेशन, बैठक	समारोहः	जलसा	जलसा	जलसुॅ	जल्सो, समारोह	सभा-समारंभ, उत्सव, जलसा
जलाशय	पुं.	तालाब, झील	जलाशयः	तलाअ	तालाब	तलाव	तलाउ, ढंढ वग़ैरह	तलाव, सरोवर
जलूस (जुलूस)	पुं.	गलियों, बाजारों, सड़कों आदि पर प्रचार, प्रदर्शन आदि के लिए निकलने वाला लोगों का समूह	प्रदर्शनम्	जलूस	जुलूस	जोॅलूस	जलूस	मिरवणूक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जलयान, होडी	नौका	जलयान (पानी-जहाज, डुङ्गा आदि)	जलयान	जलयान, नाओ जाहाज-आदि	जहाज	जलजान, जल-जाहाज	नावँ, ओडँ	पडगु, कप्पल्	तोणि, वळ्ळम्, कप्पल्	हडगु
आबोहवा, हवापाणी	हवामान	हावापानी, जलवायु	जलवायु, आबहाओआ	जलवायु, बतर, बतर-जनित अवस्था	ईशिङ्-नुङ्शित्, अईङ्-अशा, क्लाइमेट	जलबायु, पाग, पाणिपाग, बायु-मंड़लर-अबस्था	शीतोष्ण-स्थिति	तट्प-वेट्प निलै	शीतोष्णा-वस्थ, कालावस्थ	वायुगुण
जलसो	उत्सव	उत्सव, समारोह	जलसा, उत्सव, समारोह	उत्सव, अधिबेशन, बैठक, समारोह	उत्सव, समारोह, मीफम	उत्सव, समारोह, अधिबेशन, बैठक	उत्सवमु	विळा	उत्सवम्, सम्मेलनम्	उत्सव, अधिवेशन
जलाशय	जलाशय	जलाशय (पोखरी, ताल आदि)	जलाशय, पुकुर, बिल	जलाशय, बिल, पुखुरी	पुख्रि, पात्	जलाशय, ह्रद, पोखरी, गाडिआ, जलभंडार	जलाशयमु	कुळम्, एरि	जलाशयम्	केरे
सरघस	मिरवणूक	जुलुस	मिछिल, शोभायात्रा	शोभायात्रा	शोभा-यात्रा चत्पा	पटुआर, जन-समारोह (शोभा-यात्रा)	ऊरेगिंपु, उत्सवमु	ऊरुर्वलम्	जाथ, घोषयात्र	मेरवणिगे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जल्दी	स्त्री.	शीघ्रता, तेजी, उतावलापन	शीघ्रम्	जल्दी	जल्दी	जलदी	जल्दी	घाई, तांतडी, लवकर जलदी
जहाँ	क्रि. वि.	जिस जगह, जिस स्थान पर	यत्र	जित्थे	जहाँ	येंति	जिते	जेंथे, ज्याठिकाण
जहाज	पुं.	जलपोत	जलयानम्	जहाज	जहाज़	जहाज़	जहाजु	जहाज
जाँच	स्त्री.	छान-बीन, परख, तहकीकात	परीक्ष्	जांच	तहक़ीक़ात (जांच)	जाँच, तहकीकात	जाच, तहक़ीक़ात	तपासणी, चौकशी
जाँचना	स. क्रि.	1. किसी प्रक्रिया, प्रयोग आदि के द्वारा किसी वस्तु की प्रामाणिकता, शुद्धता आदि का पता लगाना	परीक्ष्	जाचणा	जांचना, परखना	परखुन, जाँचुन, दॉन्यरुन	जाचणु	तपासणें
		2. किसी बात, सिद्धांत आदि की उपयुक्तता, सत्यता का पता लगाना	निरीक्ष्	जाचणा	–	परखुन, जाँचुन	परीख्या	तपासणें, चौकशी करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जलदी	बेगीन	छिटो, चाँडो	शीघ्रता, ताड़ा, जल्दी, ताड़ाताड़ि	द्रुतगति, बेग	थुना	जल्दी, शीघ्र, द्रुतबेगरे	त्वरगा	जल्दी, शक्किरम्	तिरक्कुं, धृति	अवसर, गडिबिडि
ज्यां	ज्या	जुन ठाउँमा, जहाँ	जेखाने, जे स्थाने	जि ठाइत, यँत	मफम अदुदा	जेउंठारे	एंक्कडयिते	एंङ्गु	ऍविटं	ऍल्लि, एल्लि
जहाज	बोट, नौका	पानी जहाज, जहाज	जाहाज	जाहाज	जहाज	जल-जाहाज	ओडॅ	कप्पल्	कप्पल्	हडगु
तपास	तपास	छानबिन, जाँच, तहकिकात	याचाइ, परख	परीक्षा, अनुसंधान	थिजिन-खोतचिन्बा थिजिन्बा	जांच, परीक्षा, अनुसंधान	परीक्ष, विचारणॅ	आद्वु सोदनै.	अन्वेषणम्, परिशोधनम्	परीक्षे, विचारणे, शोधनॅ
तपास	तपासप	जाँच्नु, पारख गर्नु	याचाइ करा, सत्यासत्य बिचार	परीक्षा-करि-चा, बा देखा	चान्नबा चान्नदबा	जांच-करिबा, परीक्षा-करिबा, परखिबा	परीक्षिंचुटॅ	परीक्षिक्क, स्पोदिक्क	परीक्षिक्कुक, परिशोधि-क्कुक	शोधनॅ-माडुवुदु, परीक्षिसुवुदु
तपासवुं	चवकशी करप	जाँच्नु, जाँचबुझ गर्नु	याचाइ करा	अनुसंधान-कर	येङ्बा	अनुसंधान-करिबा, प्रमाण-करिबा, जांच-करिबा	परिशो-धिंचुटॅ, विचारणॅ सल्पुटॅ	उण्मैयै आराय	सत्य स्थिति अन्वेषिक्कुक	विमर्शिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जागरण	पुं.	1. जागते रहने की अवस्था या भाव	जागरणम्	जगराता	बेदारी	हुशयॉरी	जागरणु	जाग्रण
		2. किसी उत्सव, पर्व आदि के उपलक्ष्य में रात को जागते रहने की स्थिति	जागरणम्	जगराता	शब बेदारी (शबीना)	ज़ागरथ, शब करुन	जग्रातो	जाग्रण
जाड़ा	पुं.	1. सरदी, शीत	शीतर्तुः	पाला, सरदी	सर्दी	सरदी, शिशुर	थधि	थंडी
		2. शीतकाल	शीतकालः	सिआल	सर्मा	वंदुँ	सियारो	हिवाळा, शीत
जाति	स्त्री.	1. जात, संप्रदाय, नस्ल	वर्णः	जात	ज़ात	ज़ाथ	जाती, नसुलु	जात, जमात
		2. पदार्थों या जीव-जंतुओं की आकृति, गुण, धर्म आदि की समानता के विचार से किया हुआ विभाजन, वर्ग	वर्गः	जाती	जिंस, नौ	ज़ाथ	क़िस्म, जाती, नसुलु	वर्ग, प्रकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जागरण	जाग्रण	जागरण, जागा रहने काम	जागिया थाका, जाग्रत अबस्था	जागरण, जाग्रत- अबस्था	मित्कप थोरक्पा, तुम्दबा	जागरण, जाग्रत, जगेइबा	मॅलकुव	विळि़- त्तिरुत्तल्	जागृति, जाग्रदवस्थ	एॅच्चर
उजागरो	जागरण	जागरान, जाग्राम	जागरण्	उजागरे- थका- भाव	अहिङ् मीत् रोङ् खाङ्बा	उजागर- रहिबा, जाग्रत- रहिबा	जागरणॅ	कण् विळि़त्तल, (विरदत्तिल्)	उरक्क- मिळप्पुॅ	जागरणॅ
शरदी, ठंड़ी	थंडी, शींय	जाडो, चिसो	शीत, ठाण्डा	जार, ठांडा	इङ्बा	जाड़, शीत, थंड़ा	च़लि	कुळिर्	तणुप्पुॅ	चळि, शीत
शीतकाळ	शियाळो, हिंवाळो	ठण्डा मौसम, शीतकाल	शीतकाल	शीतकाल, जारकालि	निङ्थम् था	शीतकाल, थंड़ा- दिन	च़लि- कालमु	कुळिर् कालम्	शीतकालम्	चळिगाल
जाति	ज़ात	जात, संप्रदाय, नसुल	जाति, संप्रदाय, वंश	जाति, संप्रदाय, बंश बिध प्रकार	ज़ाति, मखल	जाति, बर्ण, संप्रदाय, गोष्ठी	जाति	जाति	जाति	जाति
वर्ग प्रकार	प्रकार, वर्ग	जाति, थरी, वर्ग्	सम लक्षण् अनुयायी विभाग, श्रेणी विभाग	श्रेणी, भाग, बर्ग	काङ्लुप्	श्रेणी, बर्ग, गोष्ठी, संप्रदाय	वर्गमु	इनम्	वर्गम्	वर्ग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जादू	पुं.	1. बुद्धि के कौशल और हाथ की सफाई से दिखाया जाने वाला कोई खेल, जिसका रहस्य न समझने के कारण उसे अलौकिक कृत्य समझा जाए	इन्द्रजालम्, यातुः, माया	जादू	जादू, सेहर, तिलस्म	जोदू	जादू	जादू
		2. किसी वस्तु का वह गुण या शक्ति, जिसके कारण उस वस्तु की ओर लोग बरबस आकृष्ट हो जाते हैं, वशीकरण	वशीकरणम्	–	–	जोद	वशीकरणु	वशीकरण
जादूगर	पुं.	1. जादू के खेल दिखाने वाला व्यक्ति	यातुकारः, मायिकः	जादूगर	जादूगर	जोदूगर	जादूगर	जादुगार
		2. आश्चर्यजनक रीति से विलक्षण कार्य करने वाला	ऐन्द्रजालिकः	–	–	जोदूगर	जादूगर	जादुगार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जादु, (दू), मंत्र-तंत्र के हाथ चालीकीनुं काम, चमत्कार	जादू	जादु, चटक	जादु, यादु, वशीकरण	यादु, इंद्रजाल	मैजिक, मित्रङ्	माया जाल, भोज विद्या, इंद्र जाल	गारडि, इंद्रजालमु, मायँ	जालविद्दै, इंद्रजालम्	इंद्रजालम्, मायाजालम्	मंत्र-तंत्र, इंद्रजाल, यक्षिणिविद्ये
वशीकरण, मोहिनी	वशीकरण	टुनामुना, वशीकरण	यादु, वशीकरण, मोहिणी बिद्या	बशीकरण, वश करा मंत्र बा औषधि	जादू-मंत्र	जादु, बशिभूत, बशीकरण	वशी-करणमु	माया जालम्, वशियम्	वशीकरणम्	वशीकरण
जादु (दू) गर	जादूगार	जादुगर, चट्की	जादुकर/ यादुकर	यादुकर	मित्रङ् तौबा मी	कुहुक-बिशारद, ऐंद्र-जालिक	गारडिवाडु	जाल विद्दैक्-कारन्	ऐंद्र जालिकन्	मोडिकार, मंत्रगार, गारुडिग
आश्चर्य-जनक रीते विलक्षण काम करवा वाळी व्यक्ति, जादु (दू) करनार	इंद्रजाळ करपी, मायाजाळ करपी	इंद्रजाली	जादुकर, बाजिकर	यादुकर, ऐंद्रजालिक	जादू तौबा मी	बिलख्यण-कार्य-करिबा-बाला-जादुकर	ऐंद्र जालिकुडु	अर्बुदच्चॅयल् सॅय्बवन्	अद्भुत कृत्यङ्ङळ् चॅच्युन्नवन्	माटगार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	क़श्मीरी	सिंधी	मराठी
जानकारी	स्त्री.	जानकार होने की अवस्था, गुण या भाव का परिचय	ज्ञानम्	जाणकारी	वाक़फ़ीयत, आगाही, इत्तिला	ज़ॉन्यकॉरी	ज़ाण	माहिती
जानना	स. क्रि.	किसी बात, वस्तु, विषय आदि के संबंध की वस्तुस्थिति से अवगत होना	अवगम्, बुध्	जानणा	जानना	ज़ानुन	ज़ाणणु	जाणणें, समजणें
जाना	अ. क्रि.	एक स्थान से चलकर अथवा और किसी प्रकार की गति में होकर दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए आगे या उसकी ओर बढ़ना, गमन या प्रस्थान करना	√गम्	जाणा	जाना	ग़छुन	वञणु	जाणें
जाल	पुं.	1. धागे, सुतली आदि की विरल बुनी हुई रचना, जो किसी वस्तु या प्राणी आदि को फँसाने के काम आती है	जालम्	जाल	जाल	ज़ाल	ज़ारु, ज़ारी	जाळे
		2. फँसाने की युक्ति या फंदा	बन्धः	जाल	दाम	ज़ाल	फंदो	फसविण्याची युक्ती, जाळे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जाणकारी, निपुणता	माहिती	ज्ञान, जानकारी	अबगति	ज्ञान, परिचय	खङ्बा, खङ्हैबा	ज्ञान, परिचय	परिचयमु, एंरुकँ	अऱिवु, तॅरिदल्	अऱिवॅ	परिचय, तिळिवळिकॅ
जाणवुं, समजवुं	जाणप	चाल पाउनु, थाहा पाउनु, बुझ्नु	जाना, अबगत हओया	जान, जना	खङ्बा	जाणिबा, अबगत-हेबा	तॅलिसिकॉनुट	अऱिय, तॅरिंदु-कॉळ्ळ	अऱियुक, मनास्सि-लाक्कुक	तिळिदुको-ळ्ळुवुदु
जवुं	वचप	हिँड्नु, पैदल जानु	याओया (ज)	या, गमन, प्रस्थान	चत्पा	जिबा	वॅळ्ळुट पोवुट	पोग	पोकुक	हॉरडु, होगु
जाल (ळ), जाळुं	ज़ाळें	पासो, जाल	जाल, फाँद	जाल, फाँद, फाकि	लाङ्	जाल, फाश, फांद	वलॅ	वलै	वल	बलॅ, जाल
फांदो	फंसोवपाची युक्ती	जालझेल, पासो	फांद, चक्रांत	जाल, फंदी नकल, कृत्रिम	लाङ्	फांद, जाल	वलॅ	वलै	कुरुक्कुॅ	पिटि, कुतंत्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जालसाज़	पुं.	धोखाधड़ी करने वाला, धूर्त्त	मायिकः, धूर्तः	धोखेबाज़	जालसाज़	जालसाज़	जालसाजु	धूर्त्त
जाला	पुं.	1. मकड़ी द्वारा बुना हुआ जाला	जालम्	जाला	जाला	ज़ॅलुर्य-ज़ाल	ज़ारो (कोरीअड़े वारो ज़ार)	जाळे (कोळ्याचे)
		2. आँख का एक रोग, जिसमें पुतली पर झिल्ली-सी आ जाती है	नेत्रजालम्, तिमिरम्	–	–	पोंह, ठ्यूर	ज़ारो (अखियुनि-जी बीमारी)	डोळयांचा एक रोग
जाली	स्त्री.	1. लोहे, प्लास्टिक, कपड़े आदि की कोई वस्तु, जिसमें प्रायः नियत और नियमित रूप से छेद या कटाव हों	जालकम्	जाली	जाली	जॉल्य	ज़ारी	जाळी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कपटी, धूर्त, दगाबाज	नाडोवपी	जालसाज, कपटी, जाली	प्रतारक, शठ, धोकाबाज	धूर्त, बदमाच, प्रबंधक फाकिबाज, जालियात	लाङ्-थाक्पा, लौनम् तौबा	धूर्त्त, शठ, प्रतारक, कपटि	मोसगाडु	मोशडि संय्बवन्	वंचकन्, चतियन्	मोसगार
करोळि-यानुं जाळुं	मावलेचें जाळें	जालो	जाल (माकड़-सार)	मकरा-जाल	मिराङ्	बुढिआणि-जाल	सालेगूडु	शिलंदि वलै	एट्टुकालि वल	बले
आंखनी छारी, आंख पर बाझतुं जाळुं (एक रोग)	मोती-बिंदू	जालो, जाल, नेत्रजाल	छानि	जाल, चलिहा	ङौदोङ्	परल माड़िबा (आखि-रोग), चालिशा	शुक्लमु	कण् नोय्	पाटरोगं (कण्णिले)	कण्णिन-पोरे
जाळी	जाळीदार	जाली, जाल	जालि	जालि गढ़, गठन	जाली	जाली	जालि	जालि, वलैप्-पिन्नल्	कंबिवल	जालि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	वि.	झूठा, नकली या बनावटी	कृत्रिम	जाह्ली	जाली, मसनूई, नक़ली	जॉली	जाली, नकुली	खोटे, नकली, बनावटी
जासूस	पुं.	वह व्यक्ति, जो गुप्त रूप से अपराधियों, प्रतिपक्षियों आदि का भेद लेता हो, गुप्तचर, भेदिया	चारः, प्रणिधिः	जसूस, जासूस	जासूस, सुरागरसाँ	जोसूस	जासूसु	हेर, गुप्त पोलिस
जासूसी	स्त्री.	जासूस का काम, पद या विद्या	चारवृत्तिः	जसूसी, जासूसी	जासूसी	जोसूसी	जासूसी	हेरगिरी
	वि.	जासूस-संबंधी	कूट	जसूसी	जासूसी	जोसूसी	जासूसी	हेरगिरी, विषयक
जिज्ञासा	स्त्री.	जानने की इच्छा	जिज्ञासा	जगिआसा	तजस्सुस	ज़ानुँनुँच यछ़	जिग्यासा	जिज्ञासा
जितना	क्रि. वि.	जिस मात्रा या परिमाण में	यावत्	जिन्ना	जितना	यूत	जेतिरो	जितका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तरकटी	खोटीं	नकली, खोटो	जालि, मेकि	नकली, सजोवा, फुटाबस्तु	तौशिन्नबा, ओइदबा	नकली	नकली	पोलि	कृत्रिममाय	नकलि, कृतक दस्तावेज आदि
जासूस, छूपो बात-मीदार	गुप्ताचारी	जासुस, गुप्तचर	गोयंदा, गुप्तचर	गुप्तचर, चोरांचोवा	गुप्तचर, सी.आई.डी., अरोन्बा पाओ लौब मी	गुप्तचर	गूढचारि	ऑट्टन्, उळवाळि	चारन्	पत्तेदार, गूढ़चार, बेहुगार
जासूसी	गुप्ताचार	जासुसी	गोयंदा-गिरि	चोरांचोवा पुलिस	अरोन्बा पाओ लौबगी थबक्	गुप्तचर-काम, गोइंदा	गूढचारिवृत्ति	उळवरिदल्	चारवृत्ति	पत्तेदारि, बेहुगारिकं
–	गुप्ताचार संबंदी	जासुसी संबंधी, गुप्तचरीय	गोयेंदा संबंधीय	गुप्त अनुसंधान-कारी	असेनना पाओलौबगी थबक्	गुप्तचर-कार्य्य	गूढचरि संबंधमयिन	मर्म (उळवु संबंदमान)	कुट्टान्वेषण परमाय	पत्तेदारिय
जिज्ञासा	जिज्ञासू	जिज्ञासा	जिज्ञासा (ग्याँ)	जिज्ञासा, जनार आग्रह	अरोन्बा पाओ लौबगा मरि लैनबा	जिज्ञासा, जाणिबार-इच्छा	जिज्ञास	(अरियुम्) आवल्	जिज्ञास	कुतूहल, जिज्ञासं
जेटलुं	जितलें	जति, जतिसुकै	यत (ज)	यिमान, यत	खङ्निङ्बगी	जेतिकि	एंतयिते	एंद अळविल्, एंत्तनै	एंत्र	एंष्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जिम्मेदार	पुं.	वह, जिस पर किसी कार्य, वस्तु अथवा किसी बात की जवाबदेही हो	अधिकृत	जुम्मेवार	ज़िम्मेदार	ज़िमुॅवार	ज़िम्मेदारु, जवाबदारु	होणेगार, जबाबदार
जिला	पुं.	किसी राज्य का वह छोटा विभाग, जो किसी एक प्रधान अधिकारी की देख-रेख में हो और जिसमें कई तहसीलें हों	मण्डलम्, जनपदः	जिला	ज़िला	ज़िलुॅ	ज़िलो	जिल्हा
जीतना	स. क्रि.	1. युद्ध, मुकदमा, खेल आदि में विपक्षी के विरुद्ध सफल होना	√जि	जित्तणा	जीतना	ज़ेनुन	जीतणु, खटणु	जिंकणें
		2. दमन करना, वश में करना	√जि	–	–	ज़ेनुन	वस में करणु	दमन करणें, वश करणें
जीना	स. क्रि.	जीवित रहना, जीवन के दिन बिताना	√जीव्	जिउणा	जीना	ज़िंदुॅ रोज़ुन	जीअणु, ज़िंदा रहणु	जिवंत राहणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जवाबदार	जवाबदार	जवाफदेह, जिम्मेदार	दायी, जिम्मादार	उत्तरदायी, जबाबदेह	दाय	दायित्व-नेबा-व्यक्ति, उत्तरदायी	बाध्यतगलॅ, जवाबुदारु	पॅारुप्पुळ्ळ	चुमतल-क्कारन्	जवाबदार
जिलो, जिल्लो	जिल्लो	जिल्ला	जेला (डिस्ट्रिक्ट)	जिला	जिला	जिला	जिल्ला	जिल्ला, मावट्टम्	जिल्ल	जिल्लॅ
जीतवुं, फतेह पामवुं	जिकप	जित्नु	जेता, जय करा	जयलाभ-कर, दमन कर, बश कर	माइ पाकपा	जितिबा, जयलाभ-करिबा	गॅलुचुटॅ, जयिंचुटॅ	वॅल्ल	जयिक्कुक	गॅल्लु, जयिसु
वश करवुं	वश करप	अधीनमा पार्नु, दमन गर्नु	बाँचा, जीवित थाका	जीवन अतिवाहित कर	जय तौबा खुदुमदा थंबा	जीइबा, जीबन-बिताइबा-बा अतिबाहित-करिबा	वशपरचु-कॅानुटॅ	उयिर् वाळ्	जीविक्कुक	दमन माडुवदु, वशपडिसि-कोळ्ळु
जीववुं	जिते रावप जियेवप	जिउनु, बाँच्नु	सिंड़ि	चिरि, जखला	हिङ्बा	सिड़ि	जीविंचुटॅ	माडिप्पडि	पटि, कोणिप्पटि	बदुकुवुदु, बाळु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ज़ीना	पुं.	सीढ़ी	सोपानम्	पौड़ी	सीढ़ी	हेर	ड़ाकणि	जिना, शिडी, पावड़ी
जीव	पुं.	1. जिसमें जीवन है, प्राणी	जीव:	जीअ, जीव	जानदार (ज़ीरूह)	ज़ीव, जानदार	जीवु, जीउ	प्राणी, जीव
		2. प्राणियों में रहने वाला चेतन तत्व, जीवात्मा	जीवात्मन्	जीअ	रूहे-हेवानी (रूह)	ज़ीवात्मा	–	जीवात्मा
जीव-विज्ञान	पुं.	वह विज्ञान, जिसमें जीव-जंतुओं, वनस्पतियों आदि की उत्पत्ति, विकास, शारीरिक रचना तथा उनके रहन-सहन के संबंध में विचार किया जाता है	जीवविज्ञानम्, प्राणिविज्ञान	जीव-विगिआन	हयातीयात इल्मुल हयात	जानदारन-हुंद-सायनस	जीव-विज्ञानु, इलम-हयात, जीव-विद्या	प्राणी-शास्त्र
जीवाणु	पुं.	अतिसूक्ष्म जीव रूप, जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता	जीवाणुः	जीवाणू	जुर्सूमा, जरासीम	ज़ीव-अणु	जीविड़ो	सूक्ष्मजंतु

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जीनो, दादरबारी, अलग काढेली सीड़ी	मजलो, जीनो	भ्याङ, सिँढी	–	जखला ऊपर लै लै जोवा यंत्र	कैराक्, थाक्	–	निच्चेन, मंट्लु	–	–	मंट्टलु
जीव, प्राणी	जीव, प्राणी	जीव, प्राणी	जीब, प्राणी	जीव, प्राणी	थवाइ पान्बा	जीब, प्राणी, जीबजंतु	जीवमु, प्राणि	उयिरिनम्, पिराणि	जीवि, प्राणि	जीव, प्राणि
जीवात्मा	जीवात्मा	जीवात्मा	जीब, जीबात्मा	जीब, जीबात्मा	जीव, थवाइ	जीब, जीबात्मा	जीवात्म	उयिर्, जीवात्मा	चैतन्यम्, जीवात्मावुँ	जीवात्म, प्राणतत्व
जीव-विद्या	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान	जीबबिद्या, प्राणीबिद्या	जीव-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान	थवाइ पान्-बशिङगी मरमदा नैनबा	प्राणि-विज्ञान, जीब-बिज्ञान	जीवशास्त्रमु	उयिर् इयल्	जंतु-शास्त्रम्	प्राणिशास्त्र
जीवडुं	जीवाणू	जीवाणु	जीबाणु	जीवाणु, कीटाणु	निपागी फांबी, अङाङ् ओइहल्ल-कनब	जीबाणु, कीटाणु	जीवाणुवु, सूक्ष्मजीवि	जीव-अणु	जीवाणु	जीवाणु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जुआ (जूआ)	पुं.	1. गाड़ी, हल आदि के आगे की वह लकड़ी, जो जोते जाने वाले पशुओं के कंधों पर रखी जाती है	धुर्	जूआ	जुआ	अलुँबॉन्य	पाञारी	जोखड, जूं
		2. धन आदि की बाजी लगाकर खेला जाने वाला खेल	द्यूतम्	जूआ	क़िमारबाज़ी	ज़ार	जूआ	द्यूत, जुगार
जुआरी	पुं.	जिसे जुआ खेलने का व्यसन हो	द्यूतकरः	जुआरी	जुएबाज़ (जुवारी)	ज़ॉर्य	जूआरी	जुगारी
जुटना	अ. क्रि.	1. चीजों, व्यक्तियों आदि का इकट्ठा होना	सम्अव+ √इ	जुड़ना	जुटना	तनुॅमनुॅ लगुन	जुड़णु, गडु थियणु	गोळा होणें
		2. किसी काम में जी लगाकर योग देना	अभि+√युज्	जुटणा	–	जुटुन	जुंबणु	जुंपणें
जुड़ना	अ. क्रि.	1. संबंध होना	√युज्	जुड़ना	जुड़ना	जुडुन, मेलुन	जुड़णु	जोडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धूंसरी	जूं	जुवा	जोयाल	युँवलि	जुवाल, शलगी पोत्पु	जुआली	काडिमानु	नुगत्तडि	नुकम्	नोग
जुगार, जुवा	जुगारी	जुवा, जूवा	जुया	जुवा	जुवा	पशा खेल, द्युतक्रीड़ा, जुआ खेल	जूदमु	चूदाट्टम्	चूत्तुॅं	जूजु
जुगारी	जुगारी	जुवाडी, जुवाडे	जुयाड़ी जुयाखेला	जुवारि, जुवारी पाशा- बाज	जुवारी, जुवा शान्नबा मी	जुआड़ि	जूदरि	चूदाडुबवन्	चूताटि, चूतुकळि- क्कारन्	जूजुकोर
जोडावुं, मळवुं, एकत्रथवुं	एकठांय जावप	जम्मा हुनु, जुर्नु	जोटा, एकत्र हओया	गोट खा, एकत्र- होवा	खोमजिन्बा	जुटिबा, एकत्र- हेबा	जमॆ अगुटॆ	ऑन्रु सेर	ऑन्निच्चु- चेरुक	सेरुवुदु, वंदागु, कूडुवुदु
जूंटवुं	जोमून दिवप	लाग्नु, तल्लीन हुनु	–	मनपुति- लाग	थबक्ता लुपशिन्बा	मनदेइ- काम- करिबा	लीनॆ मगुटॆ	वेलैयिल् ईडुपड	मनस्सुॅ लयिक्कुक	तल्लीन- नागुवुदु
जोडावुं	जोडप	जोडिनु, जोरिनु	संयुक्त हओया (ज)	मेर खाइ थाक, साङोर खा	मरि थंबा	जोड़िबा, संयुक्त- करिबा	कलियुटॆ	इणैय	बंधप्प्टुक	सेरु. कले,

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. इकट्ठा होना	सम्+अव्+इ	जुड़ना	जमा होना	मेलुन	गडु थियणु	एकत्र होणें
जुड़वाँ	वि.	1. जिनका जन्म एक साथ हुआ हो	यमल	जुड़वां	जुड़वाँ	दुकुँवेरि	जाड़ा (बार)	जुळी मुलें
		2. (कोई ऐसे दो या अधिक पदार्थ) जो आपस में एक साथ जुड़े, लगे या सटे हों	सम्पृक्त	जुड़वां	–	दुकुँवेरि	जुड़ियल	जुळें
जुताई (जोताई)	स्त्री.	जुतने या जोते जाने की क्रिया, भाव या मजदूरी	कर्षणम्	वाही	जुताई	वायुन	जोटाणी	जुंपणें जाणें, मजुरी
जुरमाना (जुर्माना)	पुं.	किसी अपराध, दोष या भूल के दंड के रूप में ली जाने वाली धनराशि, अर्थ दंड	अर्थदण्ड:	जुरमाना	जुर्माना	जुरमानुँ	डंडु, जुरमानो	दंड
जूझना	अ. क्रि.	शारीरिक बल लगाते हुए प्रयत्न करना, संघर्ष करना, लड़ना	सम् +घट्ट, सम् आ+गम्	जूझणा	लड़ना, जंग करना	मुकाबलुँ	जुटणु, विढ़णु, संघर्ष करणु	झगडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एकठा थवुं	एकठांय येवप	जुट्नु, एकत्र हुनु	एकत्र हओया, जोटा	एकत्रित-ह	खोमजिन्बा	एकत्रित-बा एकाठि करिबा, जोड़िबा,	कूड्डु	ऑन्रु शेर	ओन्निच्चु चेरुक	सेरुवुदु वट्टुगूडु
जोड़ियुं	जुवळें	जमल्याहा	यमज (ज)	यँज़ा, यमज	फाइबोक्	जांआला, जमज	कवल-पिल्ललु	इरट्टैयान	इरट्ट पेट्ट	अवळि, जोडि
जोड़कुं	ज़ोडिल्ले	जोल्टो, जोल्ठो	युक्त युग्म, जोड़ा	साङोर-खाइ-थका	फाइबोक्	जुक्त, जुग्म, जोडा, जुगल	कवल	इणै	इरट्ट	सेरिकोंड़िरुव
हळ के गाडिए जोतरावुं-जोतावुं	जुपप	जोताइ	चाष, कृषिकर्म, चाषेर मजुरी	जोत, यह करा, नाङल चलोवा	शन्पोत् खोइबा	चाष, कृषिकार्य्य, हलकरिबा	दुन्नु	उळवु, उळवुकूलि	उळवु, उळवुकूलि	उळुविकें
दंड	दंड	जरिमाना	जरिमाना	जरिमना, अर्थदण्ड	फाइल ताबा	ज़ेरिमाना	जुर्माना	अपरादम्	पिळ	जुल्मानं, दंड
झूझवुं	जूझप	जुझ्नु, सङ्घर्ष गर्नु	युझा/ योझा (ज)	युँज, संघर्ष-करा	पाङ्गल थौना याऔना थबक तौबा मरिल याओना थबक् तौबा	जुझिबा, संघर्ष-करिबा, लढ़िबा	कलियबड्डु, पोराड्डु	मुळु बलत्तुडन् मुय चिक्क, पोराड	एंतिरिट्टुक	होराडुवुदु, होडेदाडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जूड़ा	पुं.	सिर के बालों को लपेट कर बनाया हुआ आकार-विशेष	जूटकम्, जूटः	जूड़ा	जूड़ा	जूड़ॅ	चोटो, जूड़ो	अंबाडा, बुचडा
जेब	पुं.	कुरते, कमीज आदि में रुपए-पैसे आदि रखने के लिए बनी हुई छोटी थैली	कोशः	खीसा, जेब बोझ़ा	जेब	चदुॅ	खीसो, जेबु	खिसा
जेबकतरा	पुं.	दूसरों की जेब से रुपए-पैसे उड़ाने वाला	ग्रन्थिभेदक	जेब कतरा	जेबकतरा, गिरहकट	चंदुॅचूर	गुंढी-छोड़ु, खीसेकपु, जेबकतरो	खिसेकापू
जेल	पुं.	कारा, कारागार	कारा	जेल	जेल, जेलख़ाना, क़ैदख़ाना	जेल	जेल	तुरुंग
जैसा	वि.	1. जिस आकार-प्रकार या रूप-रंग का, जिस तरह का	यादृश	जिहा	जैसा	युथ	जहिड़ो	जसा, जसे, ज्याप्रकारे
		2. समान, सदृश	सदृश	–	जिस तरीक़े का	ह्यू	सगि़यो, अहिड़ो	समान, सदृश
जोंक	स्त्री.	पानी में रहने वाला एक कीड़ा, जो अन्य जीवों के शरीर से चिपक कर उनका रक्त चूसता है	जलौका	जोक	जोंक	दुॅख	ज़ौर	जळूं

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंबोडो	आंबाडो	जुरो	खोँपा, कबरी	खोपा, कबरी	शंबुल्	जूड़ा, खोषा	कॉप्पु	कॉण्डै	तलमुटि- क्केट्टुॅ	तुरुबु, जडे, हॅरळु
जेब, खीसुं, गजवुं, खिस्सुं	बॉल्स, खिसो	जेप, गोजी, खल्ती	पकेट	जेप, पकेट, सरु-मोना	फुरितखाओ, पाकेट	पकेट	जेबु	जेबि, चट्टैप्पै	पोक्कट्टॅ	जेबु, किसॅ
खीसा कातरु	पाकीट मार	बगली मारा	पकेटमार, गाँटकाटा	पकेटमार, जेप- लुरुका, गाँठिकाटा	फुरितखाओ चप्पा	पकेट- मारु	जेबुदॉगॅ	जेबडित् तिरुडन्	पोक्कट्ट्- टिक्कारन्	जेबुगळ्ळ
जेल, केदखानुं	बंदखण	झ्यालखान, जेलखान	जेल, कारागार	जेल, कारागार, बंदीशाल	जेल	जेल, कारागार	जैलु	जॅयिल्, चिरैच्चालै	जयिल्	जैलु, सेरेमने
जेवुं	जशें	जस्तो, जुन किसिमको	येमन (ज)	येनेकुवा	असुंबा	जेषा (जेसा), जेमिति	ऍलागयिते	ऍप्पडि- प्पपट्ट	यातॉरु प्रकारमुळ्ळ	ऍंतह
समान, सरखुं	सारको	उस्तै, समान	मतन, सदृश	समान, निचिना	मान्नबा	समान, सदृश	समानमु, मादिरि	पोन्ऱ	पोलुळ्ळ	अंतह समान
जळो	ज़ळू	जुको, जुका	जोँक	जोक	तिन्फा	जोक	जलगॅ	अट्टै	अट्ट, कुळयट्ट	जिगणॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जो	सर्व.	संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण	यत्	जेह्ड़ा, जो	जो	युस	जो, जेको	जो, जर, जरी
जोखिम	स्त्री.	हानि, अनिष्ट, घाटे की संभावना, खतरा	भयम्, अनिष्टाशङ्का	जोखम	ख़तरा	खतरॅ	जोखिमु, ख़तरो	जोखिम, भय
जोड़ना	स. क्रि.	1. दो वस्तुओं या टुकड़ों को एक-दूसरे के साथ चिपकाना, सीना, मिलाना आदि	√यु	जोड़ना, चेवणा	जोड़ना	जोडुन	ग॒ंढणु, जोड़णु	जोडणें
		2. अपनी ओर से कुछ मिलाना	√प्रक्षिप्, आत्मना विमृश्य वद्	मिलाणा	मीज़ान	जोडुन	ग॒ंढणु	वृद्धी करणें
		3. गणित में संख्याओं का योग करना	√युज्	जोड़ना	जमा	जोडुन	जोड़णु	बेरीज
जोड़ा	पुं.	1. एक-सी या एक साथ काम में आने वाली दो वस्तुएँ	युग्मः	जोड़ा	जोड़ा	जूर्य	जोड़ो, जोड़ी	जोडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कोई	--	जे, जुन	ये, याहा (ज)	यि	अदुगुंबा	अज्ञात बा- अनिश्चितता- सूचक	एदयिते	एदो	यातान्नो	याव
जोखम्, खतरा, भय	जोखीम	खतरा, जोखिम	झुँकि, हानिर संभावना	लोकचान, बिपद, अनिष्टकर संभाबना, अनिष्ट	खुदोङ्थिबा	हानि, अनिष्ट, क्षति, नष्ट	अपायमु, प्रमादमु	आपत्तु, अपायम्	नष्टसाध्यत	अपाय, गंडांतर
जोडवुं, सांधवुं	ज़ोडप	गाँस्नु, जोर्नु, टाँस्नु	जोड़ा, साँटा	जोड़ा लगा	पुन्सिनबा, तिनशिन्बा नश्शिन्बा	लगाइबा, जोड़िबा, संजोग- करिबा	जतपरचुट	इणैक्क	कूट्टि- च्चेर्क्कुक	जोडिसु अंटिसु
उमेरवुं	वाडवप	थप्नु, थप गर्नु	जुड़े देओया, मन थेके बानानो	योग दे	यानशिन्बा	जोग- करिबा, मिशाइबा	चेर्चुट	कूट्ट	कूट्टिच्चेर्क्कुक	कूडिसुवुदु
सरवाळो करवो	बेरीज	जोड्नु	योग करा (ज)	योग दे	तिनशिन्बा	जोग- करिबा	कूडुट	कूट्ट	कूट्टुक	कूडिसु
जोड़ी, जोडुं	ज़ोडी	जोडा, जोर	जोड़ा, जुड़ी/ जुड़ि	जोड़ा, हाल	जुरा	जोड़ा- जोडि, एकाठि- मिशि	जत	जोडि, इणै	इरट्ट, जोडि	जोडि, जोर्ति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. एक ही प्रकार के जीवों का नर-मादा का युग्म	मिथुनम्	जोड़ा	–	जूर्य	जोड़ो	जोडपें
जोतना	स. क्रि.	1. कोई चीज घुमाने या चलाने के लिए उसके आगे कोई पशु बाँधना	/युज्	जोणा	जोतना	लागुन	जोटणु	जुंपणें
		2. खेत को बोए जाने के योग्य बनाने के लिए उसमें हल चलाना	/कृष् , /हल्	वाहुणा	–	लागुन	–	नांगरणें
जोरदार	वि.	1. (व्यक्ति) जिसमें जोर अर्थात् बल हो	बलवत्, बलशालिन्, प्रभावक	जोरावर	ज़ोरदार	ज़ोरदार	ज़ोरदार	ज़ोरदार, बळकट
		2. (बात) जो तत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो	प्रभावपूर्ण	जोरदार	–	ज़ोरदार	ज़ोरदार	महत्वपूर्ण, युक्तीसंगत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जोडुं	ज़ोडपें	जोडी, युगल	जोड़ा, युग्म (ज)	हाल, युग्म	लाबा-अमोम	जोड़ा, जुग्म, जुगल	जट्ट	आॅरे इनत्तै चेर्ंद आण्-पेण् जोडि	स्त्रीपुरुष जोडि	जोडि, दंपति, गंडु-हॆण्णु
जोतरवुं, खेडवुं	जुंपणे	नार्नु	जोता	जोत	खोइबा, चत्हन्बा	जुआलीरे-जोचिबा	पून्चुट	वण्डियिल् पूट्ट, एरिल् पूट्ट	नुकत्तिल् कॆट्टुक	हूडु कट्टु
नांगरवुं	नांगरप	जोत्नु	चषा, लांगल देओया	चाह करा, हालबाइ-खेतीकरण	लौ खोइबा, शन्पोत् खोइबा	हल-करिबा	दुन्नुट	उऴ	उळुक	उळु
जोरदार	नेटान	बलियो, शक्तिशाली	जोरालो, शक्तिशाली	बलवान्, बली, शक्तिशाली	कन्बा, हौबा	बलबान, शक्तिशाली	बलमुगलॆ	बलत्त	शक्तियुळ्ळ	बलिष्ठ, गट्टि
महत्त्व-पूर्ण	कर्तृत्वी	जोरदार, प्रभाव-शाली	गुरुत्वपूर्ण	युक्तिपूर्ण, युक्तिसंगत	मरिक् चुंबा	तत्त्वपूर्ण-कथा, जुक्तिजुक्त, जुक्तिसंगत, नीतिगत	बलमैनॆ	उरुदियान, शक्ति-वाय्न्द	सारमुळ्ळ	जोराद, प्रभावपूर्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
जोर-शोर	पुं.	किसी काम को पूरा करने के लिए लगाया जाने वाला बहुत अधिक जोर और दिलाया जाने वाला अधिक उत्साह तथा प्रयास	उत्साहः	जोर-शोर	ज़ोरो-शोर	ज़ोरशोर	ज़ोरु-शोरु	धूम-धड़ाका, धामधूम
जोश	पुं.	1. उबाल	उद्वालः	जोश	जोश	जोश	उभामणु	आवेग
		2. आवेश, मनोवेग, उत्साह	उत्साहः	–	हयजान, वलवला	जोश	जोशु	आवेश, उत्साह
जौहरी	पुं.	हीरा, लाल आदि बहुमूल्य रत्न परखने और बेचने वाला व्यापारी	रत्नपरीक्षकः	जौह्री	जौहरी	लाल फरोश	जौहरी	जवाहिर्‍या
ज्ञान	पुं.	जानकारी, बोध	ज्ञानम्, बोधः	गिआन	इल्म, मारेफ़त	ज्ञान	ज्ञानु, ज्ञाण	ज्ञान, बोध, माहिती
ज्ञापन	पुं.	जताने या बताने का कार्य	ज्ञापनम्	गिआपन	याददाश्त	नोटस	पधरनामो, निवेदन	स्मरणपत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जोर-शोर	धूम धडाको	जोरसोर	पूर्ण उत्साह	हात-उजान-दिया-कार्य	थवाई याओना हैनिङ्बा	जोरसोर, धूमधाम	संरंभमु, आर्भाटमु	दडबुडल्, अट्टहासम्	उत्साहवुम्, आवेशवुम्	हुम्मस्सु, संभ्रम
जोश	खुबाळ	जोस	उथलानो, उपचानो	गरम, उतल, उत्साह	पाखत्पा, शौगत्लक्पा	उत्तेजना, उष्मता, उत्साह	पोंगु	आवेशम्	आवेशम्	कुदि, उक्कुविर्के
जुस्सो, जोस	हुकी	मनोद्वेग, उत्साह	आबेश, आबेग, उत्साह	उत्साह	इथिल	उत्साह, आबेग	आवेशमु, उत्साहमु	उर्चाहम्	उत्साहम्	आवेश, उत्साह
झवेरी	जवेरी	जौहरी	जहुरी, स्वर्णकार	जहरी, सोनारि	सना योन्बा	हीरा-रत्नादिर-बिक्रेता	रत्नाल व्यापारि	रत्तिन वियापारि	रत्न व्यापारि	रत्न परीक्षक/ व्यापारि
ज्ञान	गिन्यान	ज्ञान, जानकारी	ज्ञान, बोध	ज्ञान, बोध, बुजिबर-व्यक्ति	ज्ञान, लैशिङ्	ज्ञान, बोध	ज्ञानमु, तेलिवि	अऱिवु, ञानम्	ज्ञानम्	तिळिवळिके, ज्ञान, बुद्धि
जणाववुं ते, जाहेरात	सुचिका	ज्ञापन, विज्ञप्ति	ज्ञापन, बिज्ञप्ति	ज्ञापन, स्मारक-पत्र	मेमोरांडम्	स्मारक पत्र, ज्ञापन, निबेदन-पत्र	प्रकटन	निनैवूट्टु कडिदम्	अऱियिप्पु	स्मरण पत्र, ज्ञापक पत्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ज्यादा	वि.	अधिक, अतिरिक्त, बहुत	अधिक	जिआदा	ज़ियादा	ज़्यादुँ	वधीक, ज़्यादा	अधिक, जास्त
ज्योति	स्त्री.	1. प्रकाश, उजाला	ज्योतिस्	जोत, जोती	रौशनी	जूत्य	जोति, ज्योति	प्रकाश, उजेड
		2. लपट, लौ	शिखा	–	लौ	रैंह	लौ	ज्वाला, ज्योत
ज्योतिष	पुं.	ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि से उत्पन्न प्रभावों का विचार करने वाला शास्त्र	ज्योतिषशास्त्रम्	जोतिश	नुजूम	जोतुॅश	ज्योतिष	ज्योतिष
ज्वर	पुं.	शरीर की वह गर्मी, जो अस्वस्थता प्रकट करे, ताप, बुखार	ज्वरः	बुखार	बुख़ार	तफ	बुख़ार, तपु	ताप
ज्वारभाटा	पुं.	चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से समुद्र की जलराशि का चढ़ाव और उतार	वेलावृद्धिक्षयः	जवार भाटा	मद्दोजज़र	ज्वारबाटुॅ	वीर चढ़णु-लहणु	भरती-ओहोटी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खूब, वधारे	जास्त	धेरै, अधिक	बेशी, अधिक, अतिरिक्त, प्रचुर	अधिक, बेछि	अहेन्बा	बेशी, अधिक, प्रचुर, अतिरिक्त	ऍक्कुवॅ	अदिगमान्, निऱैय	अधिकम्, कूट्टुतल्	हॅच्चु, बहळ, अधिक
ज्योति	उज़वाड	ज्योति, प्रकाश	ज्योति, दीप्ति, आलो	ज्योति, प्रकट	मङाल	ज्योति, आभा, दिप्ति	ज्योति, वॅलुगु	ऑळि, जोति	ज्योतिस्	बॅळकु, प्रकाश
ज्वाळा, ज्योत, जोत	जोत	लप्को, राँको, लपुट	झलक, शिखा	झलक, अग्निशिखा, जुइर आग	मैरि	शिखा, झलक, घास	दीपॅ शिखॅ	तीप्पिपिऴंबु	ज्वाल	ज्वालॅ, बॅंकि, अग्नि
ज्योतिष	ज्योतीश	ज्योतिष	ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्र बिद्या	ज्योतिष, ज्योतिष-शास्त्रा	पान्जी, ज्यातिष	ज्योतिष	ज्योतिष्यमु	जोदिडम्	जयोतिषम्	ज्योतिष्य
ताव	ज़ोर	जरो, ज्वरो	ज्वर, शरीरेर उत्ताप	ज्वर, जर, शरीर उत्ताप	लाइहौ, फीवर	ज्वर	ज्वरमु	जुरम्, काय्च्चल्	ज्वरं	ज्वर
भरती ओट	भरती-सूक्ती	ज्वारभाटा	जोयार भाटा	जोवार-भाटा	ज्वार काबा	जुआर-भटा	आटुपोटु	कडल्, पॉंगुदलुम् ताऴ्दलुम्	वेलियेट्टवुमं, इऱक्कवुम्	समुद्रद-उब्बर-इळित

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ज्वाला	स्त्री.	आग की लपट या लौ, अग्निशिखा	ज्वाला	जुआला	शोला, लौ	नारुँ-ब्रेह, रैह	ज़िभी, ज्वाला	ज्वाळा, अग्निशिखा, ज्योत
ज्वालामुखी	पुं.	वे पर्वत, जिनकी चोटी में से धुआँ, राख तथा पिघले या जले हुए पदार्थ बराबर अथवा समय-समय पर निकलते रहते हैं	ज्वालामुख	जुआलामुखी	आतिशफ़िशाँ	आतश-फिशान	ज्वालामुखी, बुरंदड़ु जबलु	ज्वालामुखी
झंकार	स्त्री.	धातु के किसी पात्र अथवा तार पर आघात होने से निकलने वाली झनझनाहट की ध्वनि	झङ्कृतिः	झंकार	झंकार	ठसराय	झंकार	झंकार
झंडा	पुं.	पताका, निशान	ध्वजः	झंडा	अलम, झंडा	जंडुँ, अलम	झंडो	झेंडा, निशाण
झगड़ा	पुं.	दो पक्षों में होने वाली कहासुनी या विवाद, लड़ाई	कलहः	झंगड़ा	झगड़ा, निफ़ाक़	जॅगरुँ, लडॉय	झग़ड़ो	भांडण, झगड़ा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ज्वाला (ळा)	ज्वाला	ज्वाला, मुस्लो	जाला-जंत्रॅणा, आगुनेर झलक, अग्निशिखा	जुइर आग, अग्निशिखा	मैरि	ज्वाला, शिखा, घास, झलक	ज्वाले, मँट	जुवालै	ज्वाल	उरि, ज्वाले
ज्वाला-मुखी	ज्वालामुखी	ज्वालामुखी	आग्नेय-गिरि	ज्वालामुखी, अग्नेय-गिरि	मैगी चीङ्	ज्वालामुखी, आग्नेयगिरि	अग्निपर्वतमु	एरिमलै	अग्निपर्वतम्	ज्वालामुखि
झंकार	झंकार, झणझण	झङ्कार, झनझनाहट	झङ्कार	जनजननि	कोन्गी श्रेंङ्-श्रेंङ् लाओबा मखोल	झंकार, शब्द, स्वर	झंकृति	'गणीर्' एॅन्र ऑलि	झंकारम्	झेंकार
झंडो, धवज, धजा	झेंडो	झण्डा	पताका, ध्वजा, झण्डा, निशान	पताका, निचान, ध्वजा	फिराल	पताका, ध्वजा	जंडा	कॉडि	कॉटि, चिह्नम्	बाउट, ध्वज
झगडो, टंटो	झगडें	झगडा, कलह, भनावैरी	झगड़ा	काजिया, दंद	खत्लबा	झगड़ा, कजिआ, कलि, गंडगोल	तगुलाटॅ, जगडमु	चण्डै	कलहम्, वळक्कुॅ	जगळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झगड़ालू	वि.	जो प्रायः दूसरों से झगड़ा करता हो	कलहशील	झंगड़ालू	झगड़ालू	लडायि गॊरि	झगड़ालू, झेड़ाकारु	भांडकुदळ
झटकना	स. क्रि.	किसी चीज को एकाएक जोर से हिलाना, झटका देना	अव √धू	छंडणा	झटकना	दुँनुन, दकुँ-द्युन	झटको ड्रियणु, ज़ोर सां लोडणु, धोडणु	झाडणें, झटका देणें
झटका	पुं.	हलका धक्का, झोंका, आघात	अवधूननम्	झंटका	झटका	द्रसुँ	झटको, धोडो	झटका, धक्का
झटपट	क्रि.वि.	अति शीघ्र, तुरंत ही, एकदम	झटिति	झंटपट	फ़ौरन	जटोपठ	झटपट	झटकन्, लगेच
झड़प	स्त्री.	कहासुनी, तकरार	कलहः	झंड़प	झड़प	जॅफ्य	झड़प, झेड़ो	झड़प

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झगडाळुं, झगडाखोर, टंटाखोर	झगडपी	झगडालु, कलहप्रिय	झगड़ाटे	काजियाखोर, दंदुरा	खत्लगन्बा	कलिआ	जगडालमारि	चण्डैक्कारन्, वळक्काळि	कलहप्रियन्, वळक्काळि	जगळगंट
झटकवुं	झाडप	झट्कनु, हल्लाउनु	झटका देओया, झटकानि देओया	जोकारि-दे	कंथबा, यैथबा	झटकाइबा, झुंकेइबा, हलेइबा, नुआंइबा	विदिलिंचुट	उदर्	कुटयुक	कांडवु, जाड़िसु
झटको	हिसडो, धसको, गच्को	हलुको धक्का, आघात	झटका, झापटा, आचमका आघात	ठेला, गता	कन्ना शित्पा नुङ्शित् इन्बा, नुङ्शित्की शहुम	झींकिबा, आघात-करिबा, ठेलिबा	ऊपु, विदिलिंपु	उदरुदल्, तळ्ळुदल्	आघातम्	कुलकाट, तळ्ळु
झटपट, झटझट	पटकन्न	झटाझट, झटपट	झटपट, चटपट	सोनकाले, एतियाइ	याम्ना थुना	शीघ्र, संगे-संगे, चटपट	चकचका	तुरिदमाग, उडने	पॅट्टुन्नुं, अतिवेगम्	बेगनं, कूडलं
झड़प	कलकलाट	भिडंत, टक्कर	दुटि प्राणीर झगड़ार समय, परष्पर आक्रमण	किलाकिलि, मराकटा	चिक्नबा	रहिरहि-झगडिबा-बा कलि-करिबा	तगुवु, दॅब्बलाट	कै कलप्पु, चच्चरवु	एट्टुमुट्टल्, उरसल्	कॉदाट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झड़ी	स्त्री.	कुछ दिनों तक लगातार होने वाली वर्षा	सततवृष्टिः	झंडी	झड़ी	जॅर्‌य (जॅर्य)	झड़ी, लग़ातार वसं	झड़, सततधार
झपकी	स्त्री.	हलकी नींद	तन्द्रा	झाँक, झपकी	झपकी	ज़िफ	झूटो	डुलकी, झापड़
झपटना	अ. क्रि.	तेजी से लपकना	वि √क्रम्	झंपटणा	झपटना	थफ दिन्य	झटु हणणु	झपटणें
झरना	पुं.	1. ऊँचे स्थान से नीचे गिरने वाला जल-प्रवाह, प्रपात	प्रपात/निर्झरः	झंरना	आबशार	नागुॅं राद	झंरणो, आबशारु	धबधबा
		2. चश्मा, सोता	उत्सः	–	चश्मा	–	चश्मो, स्रोतु	पाण्याचा झरा, स्रोत
	अ. क्रि.	ऊँचे स्थान से पानी या किसी चीज का लगातार नीचे गिरना	√झ्रु	–	झरना	आबशार	मथां किरणु (मथां खां हेठि पाणी वग़ैरह)	कोसळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झड़ी	झड	झरी	एकनागाड़े प्रबल वर्षन	नेरा-नेपेरा, बरषुण	लेप्तना चुबा नोङ्	निरंतर-बर्षा, लगाण वर्षा, झड़ी	जड़िवान	विडादु पय्दल्	तुटर्च्चयाय मऴ्	जडि-मळॆ
झोकुं, डोलुं	झेम, लकणी	झप्की, झप्को	तंद्रा, ढुल/न/ ढुलुनि	कलाघुमटि, चिलमिल-टोपनि	उइबा, उइरोन तौबा ङहाक्तङ् तुम्लुबा	ढुलाइबा-छाइ-निद	कुनिकिपाटु	कण् अयर्वु	मयक्कम्	तूकडिक, अरॆनिद्रॆ
झपटवूं	झोपून काडप	झम्ट्नु, झम्टिनु	झापटा मारा	जँपियाइ पर	लाकपा, चोङशिंदुना लाकपा	झींकी-आणिबा, टाणि-आणिबा	दुमुकुट	वेगमाय् पाय	चाटि वीऴुक	एरगु
झरणुं	झरो	झरना, छहरा, जलप्रपात	झरना, झर्णा	झरणा, जुरि, जल-प्रपात	मथक्तगी मखादा चेंथरक्पा इचेल	झरणा, झर	सॅलयेरु	नीर् वीऴ्च्चि	वॆळ्ळच्चाट्टम्	झरि, प्रपात
झरणुं	झर	सोतो, स्रोत	स्रोत, सौंता	चष्मा	इशिंङ् चाइबी	झरिबा, निर्झर, स्रोत	सॅलयेरु	नीर् ऊट्टु	अरुवि	बुग्गॆ
टपकवुं	झरप	झर्नु, गिर्नु	झरा, बओया	अहरह-पानी-तललै-बागरि-अहा	चीङदगी चेंथरक्पा इचैल	बहिबा, गड़िबा	कारुट	उदिर, पाय	पॉळियुक	सुरियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झरोखा	पुं.	दीवार में बनी हुई जालीदार छोटी खिड़की, गवाक्ष	गवाक्षः,वाताक्षः, जालाक्ष	झरोखा, बारी	झरोका (दरीचा)	दॉर, पंजरॅ	झरोखो, ग़िड़िखी	झरोका, गवाक्ष
झलक	स्त्री.	1. थोड़े समय के लिए होने वाला दर्शन	ईषद् दर्शनम्	झलक	झलक	चमख	झलक	ओझरते दर्शन, झलक, चमक, आभा
		2. प्रतिबिंब		नज़ारा	–	–	अक्सु	प्रतिबिंब
झाँकी	स्त्री.	1. किसी पूज्य या प्रिय वस्तु, घटना या व्यक्ति का सुखद अवलोकन, दर्शन	दर्शनम्	झांक्की	ज़ियारत	जांकी	झांकी	दर्शन
		2. सजीव दृश्य, नाटकीय दृश्य, मनोहर दृश्य	परिदृश्यम्	–	मंज़र, नज़्ज़ारा	–	मंज़रु	नाटकीय दृश्य, मनोहर दृश्य
झाग	पुं.	किसी तरल पदार्थ के फेंटने या बिलोने से निकलने वाला फेन	फेनः, फेण	झग्ग	झाग, कफ़	पा'स	गजि, गजी, फेणु	फेस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झरूखो	झरोको	आँखी-झ्याल, गवाक्ष	झरोखा, गवाक्ष	चमक, आभा	थोङ्नाओ मचा	झरका, गबाक्ष	किटिकी, गवाक्षमु	शाळरम्	किळिवातिल्	किटकि, बेळकिंडि
झलक	झळक	झलक, चमक	झलक, दमक, आभा	चमक, आभा	अरङ्बा, मङाल	झलक, चमक, आभा	मेरुपु	पळपळप्पु, मिन्नल्	शोभ, मिन्नल्	होळपु कांति
प्रतिबिंब	पडबिंब	प्रतिबिंब	झलक	आभाष	मओङ्, ममि	झलक, आभास	प्रतिबिंबमु	तोट्टम्	मिन्नाट्टम्	प्रतिबिंब
झांखी	झलक, झळक	झाँकी, दर्शन	झाँकि-दर्शन, एक झलक	दर्शन	उबा	दर्शन, झलक	दर्शनमु	दरिशनम्	काळूच्च, दर्शनम्	दर्शन
नाटकीय दृश्य	देखाव	सजीव दृश्य, नाटकीय दृश्य	नाटकीय/ मनोरम दृश्य	मनोरम-दृश्य, सजीब दृश्य, नाटकीय-दृश्य	पुक्निङ् हुबा दृश्य	नाटकीय-दृश्य, सजीब-दृश्य, मनोरम-दृश्य	मनोहर दृश्यमु	मनम् कवरुम् काट्चि	केट्टुकाळ्च	नोट, दृश्य, नाटकीय दृश्य
फीण, माज	फेंस	फीँज, गाज, फेन	फेना	फेन बुरबुरनिर-समष्टि	कोङ्गोल	फेण	नुरुगु	नुरै	नुर, पत	नोरे, बुरुगु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झाड़ना	स. क्रि.	1. फटकार कर धूल-गर्द साफ करना, बुहारना	अप √ मृज्	झाँड़ना	झाड़ना	दुँनुन	छंडणु	झाड़झूड करणें
		2. फटकारना	भर्त्स्	–	–	जाडुन	छंडणु	फटकारणें, खडरपट्टी काढणें
झाड़ी	स्त्री.	1. छोटा झाड़ या पौधा	क्षुपः	झाँड़ी	झाड़ी	कँड्य दौंफ	बूटो	झाड़ी
		2. कँटीले पौधों या झाड़ों का समूह	–	–	झढ़बेरी	कँड्य कुल	कंडियाड़ो	काटेरी झाड़ी, जाळी
झाड़ू	पुं.	लंबी सींकों अथवा ताड़ या खजूर के पत्तों आदि का वह मुट्ठा, जिससे कूड़ा-करकट, धूल आदि साफ की जाती है	मार्जनी	बुहारी, झाँड़ू	झाड़, जारोब	लछुल	बुहारो	केरसुणी
झिझक	स्त्री.	किसी काम को करने में होने वाला संकोच, हिचक	सङ्कोच	झिंजक	झिझक, शर्म	मंदछ	हटक, हबक, झिझक	संकोच, बुजरेपणा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झाडवुं, कचरो काढवो	झाडप	धुलोमैलो झार्नु, टकटक्याउनु, बढार्नु	झाड़ा, धमक	सार	खथोक्पा	झाडिबा	विदि-लिंचुट	तट्टि पेरुक्क	पॉटि तट्टुक, तूत्तु वारुक	झाडिसु
ठपको आपवो	फटकावप	झाँट्नु, हपार्नु	भर्त्सना करा, धमकानो	धमक दे	शित्ततोक्पा	गालि देबा, भर्त्सना-करिबा	चीवाट्लु-पेट्टुट	कंडिक्क	शकॉरिक्कुक	गदरिसु
झाड, वेला, घास इत्यादिनो भरावो	झाडी	झार, झाडी	झाड़ गुच्छो	जोपोहा, पुलि	मोङ्शोङ्	बुदा	मॉक्क	चिरिय मरम, चेंडि	कुट्टिच्च्येटि	पोंदे, पोंदरु
कांटाळी झाड़ी	कांटयारे	काँडे झाट	झोप-झाड़, काँटा झोप	जोपोहा	तिङ्खङ्-पांबा पांबी चबुल्	कंटाबुदा-समृह	पोंद	पुदर्	कुट्टिक्काटुं	मुळ्ळु पोंदे, पोंदरु, पोंदे
झाड़ु, सावरणी	सान्न, झाडू	कूचो	झाँटा, झाडु	शोटा, बाढ़नी, जारु	शुमजित्	झाडु, छान्चुणि	चीपुरु, पोरक	तुडैप्पम्	चूल्	पोरक
आनाकानी	अनमनप भिवकुरप भिजूडवँप	धक, सङ्कोच	द्विधा, संकोच	संकोच, द्विधा	खौदक् तौबा, निङ्हेन्नबा	थंग थंग-हेबा, संकोच बा-द्विधा करिबा	संकोचमु	तयक्कम्	मटि, संकोचम्	संकोच

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झिड़कना	स. क्रि.	अवज्ञा या तिरस्कारपूर्वक बिगड़ कर कोई बात कहना	√भर्त्स	झिंड़कणा	झिड़कना	ब्यवॉरी-करुॅन्य	छींभणु, छिंभणु दॿ कढणु	झिडकारणें
झील	स्त्री.	लंबा-चौड़ा प्राकृतिक जलाशय	ह्रद, सरस्	झील	झील	जील, सर	ढंढ	नैसर्गिक सरोवर, मोठा तालाब तळे
झुँझलाना	अ. क्रि.	झल्लाना, खिझलाना, चिड़चिड़ाना	√क्षुभ्	खिझ़णा	झुंझलाना	वदनस खसुन	ख़फ़ थियणु, चिड़णु	चिडणें, रागावणे कावणें
झुँझलाहट	स्त्री.	झल्लाहट	क्षोभः	खिझ़	झुंझलाहट	ड्यकॅुगॅुहन	खीझ़, नाराज़िपो	चीड, त्रागा
झुंड	पुं.	1. समूह	गणः	झुंड	झुंड	जब	झुंडु	थवा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झाटकवुं, वढ़वुं	उज़रावन काडप	झाँट्नु, हपार्नु	भर्त्सना करा, तिरस्कार करा	चकु-पोंदोहा-कै-कथा क	थैथत्पा	सोधिबा, तिरस्कार-करिबा, भर्त्सना-करिबा	कसुरुट	अदट्ट, तिट्ट	शकारिक्कुक	गदरिसु जबरिसु
तलाव,सरोवर ऊंडा पाणी वाळी प्राकृतिक जग्या	तळें, वुंड	ताल, झील	हृद, झील, प्राकृतिक जलाशय	बिल, हूद, खाल पुष्करणी	पात्	हृद	सरस्सु	एरि	तटाकम्, कायल्	कॅरॆ, सरोवर
धूंधवावुं, चिडावुं	गुरगुरप, भिरभिरप	जङ्गिनु, झोकिनु, चिढ्नु	बिरक्त हओया, खिटखिट करा	खिंखिङाइ उठ, खिंखिङा	खोइराङ् खोइशाओनबा	चिड़चिड़ हेबा, बिरक्त-हेबा	विसुगुकॊनुट	चिडुचिडुक्क	देष्यप्प्टुक	रंगु, शिट्टागु
धूंधवाट, खीज	तीड, भिरें	झोक्याइ, चिढ्याइ	बिरक्ति, राग	क्रोध, खंकरा	खोइराङ् खोइ-शाओनबा	चिड़चिड़ा-पण, बिरक्ति भाब, राग, क्रोध	विसुगु	चिडुचिडुप्पु	अरिशम्/ पिणक्कम्	सिडुकु, सिट्टु
झुंड, टोळुं	हिंड	झुन्ड	दल, झाँक (पशु पाखीर)	जाक, दल, जूम	शङ्गु	दल, समूह, मेल	गुंपु, मंद	मंदै, कूट्टम्	कूट्टम्	हिंडु, समूह

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. व्यक्तियों या जीवों का समूह	दल	–	गिरोह, लशकर	लशकर	–	समूह
झुकना	अ.क्रि.	1. टेढ़ा होना, मुड़ना	√नम्	मुड़ना	झुकना	नमुन, हेलि-गछुन	झुकणु	झुकणें, लंवणें, वांकणें
		2. नमित होना	√नम्	निऊणा	–	नमुन	झुकणु	खाली झुकणें
झुग्गी	स्त्री.	झोंपड़ी या कुटी	उटजः, कुटीरः	झुग्गी	झोंपड़ी	पॅहॅर, खोंफुॅर	झुगी, झूपिड़ी	खोपी
झुठलाना	स. क्रि.	किसी को झूठा ठहराना	√मिथ्यापय्	झुठाउणा	झुठलाना	अपज़ावुन	कूड़ो साबित करणु	खोटे ठरविणे
झुर्री	स्त्री.	त्वचा पर पड़ने वाली शिकन	वलिः	झुर्री	शिकन	गॅन्य	घुंजु (चमड़ी वग़ैरह में)	सुरकुती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समूह	ज़मो	हूल, समूह	दल	दल, समूह, जूम	मपै, काङ्बु	दल, मेल	गुंपु, मंद	कूट्टम्	कूट्टम्	तंड
झूकवुं	लकणवप	बाङ्गिनु	हेले दाँड़ानो, बाँका हओया, झूँके दाँड़ानो	हला, एफाल लै दोंवा	नोंथबा	मोडिबा, तेढ़ा-करिबा	वंगुट	कुनिय	कुनियुक	बग्गु, मणि
आदर शरम वगेरेने कारणे नमवुं	नमळायेन	निहुरनु, झुक्नु	झाँका/ झुका	मूर-तललै-ह	लुक्थबा	नइंबा	वंगुट	तलै वणंग	ताणुवण-ङ्ङुक	बग्गुवुदु, विनीतनागुवुदु
झूंपडी, कुटिर	खोपी	छाप्रो, झुपडी	कुँडेघर, जुपुरि, बस्तिघर	जुपुरि, कुटिर, चापरघर	खङ्पोक्, शङ्.	कुटीर, कुड़िआ	पूरिल्लु	कुडिशै	चट्टक्कुटिल्	गुडिसलु
झूठुं ठराववुं	फटोवप	झुट्टो साबित गर्नु	भोलानो/ भुलानो	फॉकि-दे, असत्य साब्यस्त कर	मराल थङ्शिन्बा, ओइदबा ताहन्बा	काहाकु-मिछुआ वा मिथ्यावादी-करिबा	दगा चेयुट, मोस पुच्चुट	पॉय्पिक्क, एमाट्ट	कळ्ळ-माक्कुक	सुळ्ळु एँदु तोरिसुवुदु
चामडीनी, करचली	सुरकुती, मिर्‍यो	चाउरी	क्षुद्र, बलिरेखा, भोज	शोटोरा	उनशा खुइबा	क्षुटि	मुडत	तोलिल् उंडागुम् चुरुक्कम्	चुळिवुॅ	सुक्कु, निरिगं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झूठ	पुं., वि.	असत्य, मिथ्या	मिथ्या	झूट्ठ	झूठ, किज़्ब	अपुज़	कूडु	असत्य, खोट, मिथ्या
झूमना	अ. क्रि.	1. हलकी गति में झोंके खाना	√दुल्, √नृत्	झूमणा	झूमना	नच्चुन	झूमणु, लुडणु	झुलणें, डुलणें
		2. नशे, नींद, प्रसन्नता या मस्ती में शरीर को धीरे-धीरे हिलाना	√कम्पय्	–	लहराना	–	–	डुळणें
झूलना	अ. क्रि.	1. किसी लटकी हुई चीज का बार-बार आगे-पीछे होना	√दुल्	झूटणा, झूलणा	झूलना	जूलुन	लुडणु	झुलणें
		2. झूले पर बैठ कर पेंग लेना	√क्रीड्	–	–	ग्रायि मारनि	झुलणु	झोका घेणें
झूला	पुं.	किसी ऊँचे स्थान से बाधँकर लटकाई गई जंजीरों या रस्सियों पर लगा तख्ता आदि (झूलने का साधन)	दोला, दोलिका	पींघ	झूला	जूलुँ	झूलो, पींघ	झोका, हिंदोळा, झोपाळा, पाळणा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जूठुं	फालस	असत्य, झुटो	असत्य, मिथ्या	मित्था, मिछा, असत्य, अशुद्ध	ओइदबा	असत्य, मिथ्या	अबद्धमु	पॉय्	असत्यम्, कळ्ळम्	सुळ्ळु
झूमवुं	धोलप	झुम्नु, हल्लनु	दोला, दोल खाओया, झोला	हालि-जालि थाक्	हायबा	टलिबा, झुलिबा, दोलायित-हेबा	ऊगुट	ऊंजलाड	आटुक	होइदाडु
डोलवुं	डुलप	झुम्नु, झुल्नु	ढोला, दोला	दुलि-थाक	हायबा, नोंबा	हलाइबा	तूलुट	उल्लासमाह आड	आटुक	तूराडु, तूगाडु
झूलवुं, लटकवुं	झुलप	हल्लनु, झुल्नु	झोला, दोला	दुलि-थाक	हायबा	झुलिबा	ऊगुट	असैंदाड	चांचाटुक	नेताडु जोलाडु
हींचवुं	झोको घेवप	पीङ खेल्नु, झुलना झुल्नु	दोला, दोल खाओया	दोलना-खेला	नोंबा	दोलि-उपरे-वसि-झुलिबा	ऊगुट	ऊंजलिल् आड	ऊञ्आलाटुक	उय्यालॅ आडुवुदु
झूलो, हींचको, हिंडोळो, खाट	झोपाळो	पिङ, पीङ	दोलना	दोलना	झूला, अहायबी स्विंग	झुला, दोलि	उय्यालॅ	ऊंजल्	ऊञ्आल्	जोकालि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
झेंप	स्त्री.	लज्जा का अहसास, संकोच, शर्म	लज्जाः, सङ्कोचः	संग, संङ	शर्मिंदगी (झेंप)	मंदछ	लज़	लज्जा, शरम, लाज, संकोच
झेंपना	अ. क्रि.	लज्जित होना, शर्माना	√लज्ज्	संगाउणा	शर्माना (झेंपना)	मंदछुन	शर्माइणु, लज़ी थियणु	खजिल होणें
झेलना	स. क्रि.	अपने ऊपर लेना, सहना	√मृष्, √सह्	झल्लणा	बर्दाश्त करना, सहना	बरदाश करुन	सहणु	सहन करणें
झोंकना	स. क्र.	1. किसी वस्तु को आग में फेंकना	अग्निसात् √कृ	झोंकणा	झोंकना	नारस बॅरिथ-दि्युन	विझणु (का शइ बाहि में)	झोकणें, झुगारणे
		2. वेग से किसी चीज को डालना या फेंकना	सवेगं √क्षिप्	–	–	हुॅकुॅ दॉरिथ दि्युन	फिटी करणु, उछिलाइणु	फेकणें
झोंका	पुं.	1. वायु-लहरी	पवनाघातः	बुल्ला	झोंका	हवा दकुॅ	झूटो	झुळूक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लाज, शरम	लज, मर्याद	सङ्कोच, धक, लाज	लज्जा, संकोच, शरम	लाज, संकोच, लज्जा, ब्रीड़ा	इकाइबा, हङ्गोइबा	लज्जा, संकोच, शरम	सिग्गु, बिडियमु	नाणम्, वेट्कम्	नाणम्	नाचिके, संकोच
शरमावुं	लजेवप	लजाउनु, धक लाग्नु	लज्जित हओया, संकोच करा	लज्जित ह, संकुचित-ह	इकाइबा	लज्जित-हेबा, संकोच-करिबा	सिग्गुपडुट	नाण	लज्जिक्कुक, नाणिक्कुक	नाचु
सही लेवुं, सहन करवुं	सोंसप	झेल्नु	सह्य करा, सओया	सह, सहन कर, सह्य-कर	खाङ्बा	सहिबा, सहन-बा सज्य-करिबा	ओर्चुकोनुट, सहिंचुट	अनुबविक्क	सहिक्कुक, पोरुक्कुक	सहिसु, ताळु
झोंकवुं, पटकवुं	उज्यात उडोवप	होम्नु, आगोमा फाल्नु	आगुने निक्षिप्त करा	जुइ-लगा	ङौबा, मैदा लङ्शिनबा	निंआरे-फिंगिबा	अग्निलो पडवेयुट	तीयिल् पोड	तीयिल् इटुक	बेंकिगे-हाकुवुदु, एसेयुवुदु
नाखवुं	शेवटप	हुत्याउनु, हुर्याउनु	बिक्षेप करा	दलियाइ दे	लङथोक्पा	निक्षेप-करिबा, पकाइबा	विसुरुट	वेगमाय् तळ्ळ	वेगत्तिल् इटुक	बिसाडुवुदु
थोड़ा समय माटे, एकाएक वेग-पूर्वक आवती हवा	झुळकी	झोक्का, कडा वेग	झापट (वातासेर)	बताहर-एको-एकोटा-कोब	अकन्बा नुङशित्गी शहुम, शफू	सहसा, सबेग-बायु लहरी, पबनर-झुंक	ईदुरु गालि	काट्टिन् अडि	काट्टटि	हाय्गाळि, अले

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. थोड़े समय के लिए सहसा आने वाली नींद	निद्रावेगः	झौंक	झपकी	ज़िफ	झूटो	डुलकी
झोंपड़ी	स्त्री.	घास-फूस की कुटी, झुग्गी	कुटीरः, उटजः	झौंपड़ी	झोंपड़ी	पॅहॅर	झूपिड़ी	झोपडी
झोला	पुं.	चीजें रखने के लिए कपड़े का थैला	स्यूतः	झौला	थैला	जोलनुॅ	झोलो, थेल्हो (कपड़े जो)	पिशवी
टंकार	स्त्री.	1. धनुष की प्रत्यंचा तान कर सहसा छोड़ने पर होने वाली ध्वनि	टङ्कारः, प्रत्यञ्चारवः	टंकार	टनटनाहट	टनकार	टंकार	धनुष्याचा टंकार
		2. धातु खंड, तार पर आघात लगने से होने वाली टन-टन ध्वनि	टङ्कारः	–	टनटनाहट	टनकार	टन् जो आवाज़ु	टंकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झोकुं, डोलुं	डुलकी	आँखा झिमिक्क लाग्ने स्थिति	घुमेर ढुलुनि	चिलमिल, टोपनि	तुमनिङ्बा, उइबा	सहसा-आसिथिबा-निद, निद-झांकिबा	कुनि-कि पाटु	कण् अयर्वु	मयक्कम्	तूकडिसु
झूंपडी, झूंपडुं, घास, सांठी, छाण वगेरे थी बनावेलुं घर	झोपडी	झुपडी, छाप्रो	कुँड़ेघर, झुपड़ी	जुपुरि, सरु-चापरि-घर, कुटिर	खाङ्पोक्, शङ्	कुड़िआ, कुटिर, कच्चाघर	पूरिल्लु, गुडिसे	कुडिशै	कुटिल्	गुडिसलु
झोलो, झोली	पिशवी	झोला, थैलो, नाम्जो	झोला, थले	मोना	खाओ	झुला, मुणि, थलि	संचि	पॅरिय पै (जोल्ना पै)	संचि	चील
टंकार	टणकारु	टङ्कार	टंकार, धनूकेर छिलार आओयाज	टंकार	लिरुङ चीङ्बगी मखोल	टंकार	टंकारनादमु	नाण् ऑलि	ठंकारम्	टंकार, झेंकार
टंकार	टणकार	टङ्कार	झङ्कार	झंकार, शब्द ध्वनि झंकृत	टन-टन लाओबा मखोल, तेङ्-तेङ् लाओबा मखोल	झंकार	टंकारमु	'टन' एन्नुम् ऑलि	झणत्कारम्	ठण्ठण-शब्द

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
टंकी	स्त्री.	पानी भरने का एक पात्र, हौज, कुंड	जलाधानी	टंकी	टंकी	टंकी	टांकी	टांकी, हौद, कुंड
टकराना	अ. क्रि.	1. जोर से भिड़ना	सम् √घट्ट	टकराउणा	टकराना	टकरावुन, ठासुनु युन	टर्किजणु	भिडणें
		2. मार्ग में बाधक होना, मुकाबला या सामना करना, संघर्ष होना	अभिमुखी √भू	टाकरा करना	मुक़ाबला करना	–	सामनो करणु	संघर्ष हाणें, सामना करणें
टकसाल	स्त्री.	वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं	टङ्कशाला	टकसाल	टक्साल	टूँक्य गरन-जाय, टकसाल, ज़रब खानुँ	ज़र्बख़ानो, टकसाल	टांकसाल
टक्कर	स्त्री.	1. वेग के साथ आपस में भिड़ जाना	सङ्घट्टः, सङ्घट्टनम्	टक्कर	टक्कर	टकर	टकरु	टक्कर
		2. संघर्ष, मुकाबला	सङ्घट्टः	–	तसादुम	–	मुक़ाबलो	संघर्ष, मुकाबला, सामना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टांकी	टांकी	टङ्की, कुण्ड्, हौज	चौबाच्चा, ट्यांक (जलेर)	टेंकी	टेंकी	टांकी, कुण्ड	तॊट्टि	तण्णीर्-तोट्टि	जलसंभरणि	तॊट्टि, हौदु
टकरावुं, अफळावुं	आपटप	भिडिनु, जुध्नु	टक्कर, धाक्का लागा	काजिया-लाग	थेङ्गाइनबा	धक्का	गुद्दु कॊनुट	मोद	इटयुक	डिक्कि-हॊडॆयुवुदु
अथडावुं	आदळप	टकराउनु, ठक्कर खानु, ठोकिनु	बाधक हओया, बाधार सम्मुखीन हओया, सङ्घर्ष हओया	संघर्ष-ह	थेङ्गाइनबा, तक्खाइनबा	मुहाँमुहिँ-हेबा, मुकाबिला-करिबा, सम्मुखिन-हेबा	ढीकॊनुट	तडुक्क	एट्टुमुट्टुक	बाधॆयागुवुदु, ऎदुरिसुवुदु
टंकशाळ	टांक शाळ	टकसार	टॉकशाल	टकाशाल	पैसा शाफम	टंका-शाला, मुद्रा-शाला	टंकशालॆ	(नाणयंगळ तयारिक्कुम्) तंगशालै, अक्कशाल	कम्मट्टम्	टंकशालॆ
टक्कर	टक्कर	ठक्कर, धक्का	टक्कर	ठेका खा	पोत अनि थेङ्गाइनबा	धक्का	संघर्षण	मुट्टिक्-कॊळ्ळल्	कूट्टिमुट्टल्	डिक्कि-होडॆ
सामनो, प्रहार	संघर्ष, मुकाबलो	सङ्घर्ष, भिडिने काम	संघर्ष, मोकाबिला	काजिया, दंद	मुक्नबा	संघर्ष, सम्मुखिन	पोटी	मोदल्	संघट्टनम्	ऎदुरिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
टटोलना	स. क्रि.	उंगलियों से छूकर वस्तु का अनुमान करना	अनु+ √इष्	टोहणा	टटोलना	सारुन	हथोराड़ियूं हणणु	चांचपडणें
टपकना	अ. क्रि.	बूँद-बूँद करके रिसना या फलों आदि का गिरना	निस् √स्यन्द्, निस् √च्योत्	चोणा	टपकना	दौंशुन	टपिकणु, टिमणु	ठिबकणें, टपकणें, गळणें
टहनी	स्त्री.	वृक्ष की शाखा, डाल, डाली	शाखा	टॅह्णी	शाख़, टहनी	लँड	टारी	वृक्षाची फांदी, डळी
टहलना	अ. क्रि.	स्वास्थ्य के लिए चलना-फिरना, घूमना	√भ्रम्	टह्लणा	टहलना	चकर करुन	टहिलणु, सैर करणु	हिंडणें, फिरणें, हवा खाणें
टाँकना	स. क्रि.	सूई, डोरे आदि से कोई चीज कपड़ों पर लगाना	√टङ्क	टांकणा	टाँकना	त्रोंप दयुन	टाकणु	टाका, घालणें
टाँका	पुं.	1. धागे आदि से दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना	टङ्कः, सीवनम्	टांका	टाँका	टेब	टांको	शिवण, ठिगळ (स्टिच)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टटोळवुं, मसोळवुं	सांसपप	छाम्नु, छामछाम-छुमछुम गर्नु	हातड़ानो	चुइ-चाइ जान	माबा, हुंबा	अंडालिबा, एरुन्डिबा	तडवुट	तक़ाव, तेड	तप्पिनोक्कुक	तडकाडु
टपकवुं, चूवुं	पातेवप, थेंब्यांनी सवकास पडप	टप्क़नु, टप्किनु	चौंया, टपटप कोरे पड़ा	टप-टप कै पऱ्	युरक्पा, तारक्पा केल्लक्पा	टप् टप्-पाणि-पड़िबा	कारुट	चॉट्ट	इट्टुवीळुक	सोरु
वृक्षनी डाळी	खांदो	डाली, हाँगो	डाल, शाखा	डाल, डाली	ऊगी मशा	डाल, शाखा	कॉम्म, रॅम्म	चिरु किळै	चिल्ल, कॉपुं	कॉंबॆ, रॅंबॆ
टहेलवुं	वारोखावप, फिरप	टहल्नु, डुल्नु, घुमफिर गर्नु	बेड़ानो, हाँटा	फुर	कोइबा, हवा चाबा, वाकिंग चत्पा	टहलिबा	पचार्लु चेयुट	उलाव	उलात्तुक	तिरुगाडु
टांकवुं	टांकप	टाँक्नु, गाँस्नु	शेलाई करा	ढापलि-माऱ्	फोत्पा, पान्बा	टांकिबा, सिलाइ-करिबा	कुट्टुट	तुणियिन् मेल् तैक्क	तुन्निच्चे-र्क्कुक	हॉलियुवुदु
टांको, बखियो	टांको	टाँका	सेलाई	चिलाइ करा	फोत्पा, खुत्ला टुबा, स्टिच	टांक, सिलाइ	कुट्टु	तैयल्	तय्यल्	हॉलिगॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. धातुओं को जोड़ने या सटाने के लिए लगाया गया जोड़	सन्धानम्	–	–	वाठ	टांको	टाका
टाँगना	स. क्रि.	लटकाना	√लम्बय्	टंगणा	लटकाना, आवेज़ाँ करना	अवेज़ान थवुन, अलोंद त्रावुन	टंगणु	टांगणे
टाट	पुं.	सन या पटसन का मोटा कपड़ा	शाणः	टाट	टाट	टाठ	टाटु, पालु	तरट
टापू	पुं.	चारों ओर से जल से घिरा स्थान, द्वीप	द्वीप	टापू	जज़ीरा	शाठ	बे॒टु, टापू	बेट
टालना	स. क्रि.	1. स्थगित करना	√स्थगय्	टालणा	टालना	पथकुन त्रावुन	टारणु	स्थगित करणें
		2. बहाना करके पीछा छुड़ाना, टरकाना	मिषेणात्मानं √मोचय्	–	–	मॅशरावुन	टारणु	टाळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रेण	टाकी	टाँका	झालाइ करे धातु द्रव्य जोड़ा	मोध्, जोन्	मुक्पा	जोड़, संजोग	अतुकु, वॅल्डिंग	पट्ट वैत्तल्	वॅल्डिंग	बॅसुगॅ
टांगवुं, लटकाववुं	लांबोवप	झुन्ड्याउनु, लटकाउनु	टांगानो, झोलानो	उलमा	यान्बा	टांगिबा, लटकाइबा	तगिलिंचुटॅ	ताँगविड, माट्टॅ	तूक्कियिटुक	नेतुहाकु
शजियुं, शणनी दोरीओनौं वणाटनुं जाडुं कपडुं	साग, साकाटो	टाट	चट	शन तथा मरापाटर डाठ कापोर	बोरा	चटाइ, आसन	गोनॅ– पट्टॅ	कित्तान्	चाक्कुतुणि	गोणितट्टु
टापु, बेट, द्वीप	जुंवो, बेट	टापु, द्वीप	द्वीप	बालिचर, टापु, द्वीप	द्वीप	टापु, बालिचर, द्वीप	द्वीपमु	तीवु	द्वीपॅु	द्वीप
टाळवुं	रद्द करप	स्थगित गर्नु	स्थगित राखा, मुलतबी राखा	स्थगित कर	यैथोक्पा	टालिबा, स्थगित– करिबा, बंद– करिबा	निलिपि- वेयुटॅ	ऑत्तिप् पोड	माट्टि वॅक्कुकु	मुंदक्कॅ- हाकु
दूर करवुं	टाळप	पन्छाउनु	टाला, बहाना करा	मूर पुलुका मार	यैथोक्पा	स्थगित, आल बा बाहाना– करिबा	साकु चॅप्पुटॅ	तट्टि– क्कळिक्क	ऑळिवु कळिवॅु परुयुक	नॅवमाडि- मुंदक्कॅ- हाकुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. निवारण करना, घटित न होने देना	नि √वारय्	–	–	मॅशरावुन	टारणु	निवारण करणें
टिकना	अ. क्रि.	1. किसी आधार पर स्थित होना	आ √श्रि	टिकणा	टिकना	टिकुन, टीकुँरुन	टिकणु	टिकणें
		2. यात्रा के समय विश्राम के लिए कहीं ठहरना	अव √स्था	–	–	–	टिकणु	–
टिकाऊ	वि.	मज़बूत	स्थिरः, दृढ़ः	टिकांऊ	पाएदार, मज़्बूत	पायदार	टिकाऊ	टिकणारा, मजबूत
टिकिया	स्त्री.	गोल और चपटा छोटा टुकड़ा	गुटिका, वटी	टिक्की, गाची	टिकिया, क़ुर्स	टिक्य, पिल, चॉट्य, टिकी	टिकी, चकी, गोरी	चकती, वडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निवारवुं	निवारप	टार्नु, निवारण गर्नु	निबारण करा	बाधा-दे, हाक-लगा	थोक्हं-दबा	निबारण-करिबा, बाधा-देबा	निवारिंचुट	तडुक्क	ऑळिवा-क्कुक	निवारिसुवुदु
टकवुं	टिकप	अडिनु, टिक्नु	टैंका, टेंकसइ	थाक, निर्भर कर	थुङशिन्बा	भरादेइ-ठिआ हेबा, आउजिबा, निर्भर-करिबा	निलुचुट	निलैत्तुनिर्क	उऱ्च्चुॅ निल्क्कुक	निल्लु, इरु
–	थांबप	बस्नु, रहनु	–	क्षंतेक लै क्लांति-दूर कर, जीरनि ल	लेङ्हंदना थंबा	बिश्राम-करिबा, क्लांति-मेंटाइबा	बस चेयुट	वळि़त्तंग	तङ्ङुक	तंगु
टकाउ	टिकपी	टिकाउ, बलियो	टेकसइ, मजबूत	स्थायी, दीर्घायु	कुइना चत्पा, कन्बा	मज़भूत, स्थायी, दीर्घायु	मन्निकगल	उरुदियान, नंडुनाळ् उळैक्किऱ्	ईटुळ्ळ	बाळिर्क बरुव
गोटी	वडी	चक्की	खण्ड, टुकरो	सरु टुकुरा	मकक् (चुथेक नाइबा, अकोइबा, मतुम)	खण्ड, टुकुड़ा	बिळ्ळ, गुळिगं	विल्लै	कट्ट	बिल्ल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
टीका	पुं.	तिलक, बिंदी	तिलकम्, बिन्दुः	टिक्का	टीका	ट्यॉक	तिलकु, टिको	टिळा, कुंकवाची टिकली
	स्त्री.	किसी ग्रंथ, पद आदि का अर्थ स्पष्ट करने वाला कथन, व्याख्या	टीका	टीका	शरह	टीका, तशरीह	टीका, समुझाणी	व्याख्या
टीका-टिप्पणी	स्त्री.	किसी प्रसंग के गुण-दोषों आदि के संबंध में प्रकट किए जाने वाले विचार	गुणदोषविमर्शः, टीका	टीका-टिप्पणी	हाशिया	व्यछुॅन्यार	टीका-टिपणी	आलोचना, समीक्षा, टीका
टीला	पुं.	छोटी पहाड़ी की तरह का ऊँचा भूखंड, ढूह	वप्रः	टिब्बा, टिल्ला	टीला	टेंग, लबुर	दड़ो, टीलो	टेकडी, टेकाड
टुकड़ा	पुं.	अंश, खंड, भाग	खण्ड	टुकड़ा	टुकड़ा	टुकरॅ	टुकरो, टुकरु	तुकडा
टेक	पुं.	1. सहारा, आधार	आधारः, आश्रयः	टेक	टेक	डोंख	टेक, सहारो	टेकू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टिक्को, चांल्लो, मोटुंटीकुं	तिकळी	टिको, टिकी	टिका, तिलक, टिप	फोंट, तिलक	बिंदी, टीका	टीका, तिलक	बॉट्टु, तिलकमु	नॆट्टिप् पॉट्टु	पॉट्टु, कुऱि	तिलक, बॊट्टु
समजूती आपवा करेलुं विवरण	व्याख्या	टीका, टिप्पणी	टीका	ब्याख्या	लाइरिक, शैरेङ नचिङ्बगी अर्थ ताकपा लाइरिक्	व्याख्या, टीका	व्याख्यॆ, टीकॆ	विळक्क उरै	व्याख्यानम्	टीकॆ, व्याख्यॆ
टीका-टीपणी, गुणदोषनी समालोचना	टीका टीप्पण	टीका-टिप्पणी	टिप्पणी, आलोचना	टीका-टिप्पणी, टीका	नैनबा	टीका-टिप्पणी, आलोचना, समीक्षा	विमर्शे	कुट्टम् कुऱैगळै एडुत्तुक्-काट्टुदल्	अभिप्रायम्, विमर्शनम्	भाष्य, टीकॆ, टिप्पणि
टीलो, टिंबो, टेकरो	दोंगुल्ली	थुम्को, ढिस्को, टिल्लो	टिला	टिला, ढाप	लैतोङ्, लैपुङ्	छोट-मुड़िंआ, ड़िह, ढिप	दिब्बॆ, मिट्ट	मणल्मेडु, चिऱुकुन्ऱु	पाऱ, कुन्नु	दिण्णॆ
टुकड़ो, ककड़ो	कुडको, तुकडो	टुक्रा, खण्ड	टुकरो/ टुकरा	टुकरा, चपरा	मचेत्, शरुक्	खंड	मुक्कॆ, तुनकॆ	तुण्डु	कषणम्, तुण्टु	चूरु, तुण्डु
टेक	तेको	सहारा, टेक	हेलाण बा ठेस, ठेस दीए थाका	सहाय, भेटि	मतेङ्	ठेक, ठेस, प्रतिज्ञा, जिद	पोटु, आधारमु	मुट्टु	आश्रयम्, ऊन्नु	आधार, बेंबल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. हठ, आग्रह, संकल्प	आग्रहः	आग्रह	ज़िद	हठ	ज़िदु	हट्ट, आग्रह, संकल्प
		3. गाने की प्रथम पंक्ति, जो बार-बार दोहराई जाती है, मुखड़ा	ध्रुवपदम्	ध्रुवपद	–	–	टेक	पालुपद
टेकना	स. क्रि.	अपने शरीर को अथवा किसी वस्तु को किसी दूसरी चीज के सहारे खड़ा करना या बैठाना, टिकाना	आ +श्रि	टेकणा, टिकाउणा	टेकना, सहारा देना	ठीकुॅरावुन	टेकणु, टेक डियणु	टेकणें
टेढ़ा	वि.	1. जो बीच में इधर-उधर मुड़ा हो, वक्र	वक्र, कुटिल	विंगा, टेढ़ा	टेढ़ा	हॉल	ङिंगो, फिडो	वाकडा
		2. कुटिल, धूर्त	जिह्म	टेढ़ा	ख़मदार	हॉल	ङिंगो, लुचो	कुटिल, धूर्त्त
		3. मुश्किल, कठिन, उलझनपूर्ण	जटिल, दुष्कर	टेढ़ा	बदमिज़ाज	कठ्युन	डुखियो	अवघड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पण	हट्ट	हठ, ढिपी, आग्रह	जिद, दृढ़सङ्-कल्प	प्रतिज्ञा, संकल्प	वारेप्	आग्रह, संकल्प	मॉडितनमु, संकल्पमु	अडम्	निर्बंधम्	हट, निश्चय
कवितानुं ध्रुवपद	धुलपद	गीतको स्थायी बोल, टेक	धुया	गीतर दोहोर घोषा	हन्ना शक्कदबा इशैगी अहान्बा परेङ्	घोषा	पल्लवि	पल्लवि	पल्लवि	पल्लवि
टेकवुं, टेकववुं	तेकून दवरप	टेक्नु, अडाउनु, कसैको आधार लिनु	हेलान देआया	ठेका दे, ढोका दे	ङाबा	टेकिबा	पोटीर्पट्टि निलुपुट	चाय्न्दु कॉळळ, चाय्त्तु वैक्क	ऊन्नुक	ऊरु आनिसु
टेढुं, वांकुं, आडुं	वांकडे, वांकडी, वांकडो	बाङ्गो	बाँका, तैरछा	बँका	अखोइबा	टेढ़ा, बक्र, बंका	वक्रमयिन, वंकर	कोणलान	वळञ्ञ	वक्र, सॉट्ट
कुटिल, धूर्त	वांकडो, (डे,डी) समा न्ही	कुटिल, धूर्त	कुटिल, धूर्त	कुटिल	अरुबा, फत्तबा	कुटिल, धूर्त	कुटिल मयिन, धूर्तुडयिन	पोक्किरि	वक्रबुद्धियाय	कुटिल, धूर्त
मुश्केल	कठीण	मुस्किल, अपठ्यारो	कठिन, मूस्किल	कठिन, कष्टकर	चयेत्लबा	मुस्किल, कठिन, कष्टकर, प्रतिरोध-करिबा	कष्टमु	चिक्कलान	विषमम् पिटिच्च	कष्ट, डोंकाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
टोकना	स. क्रि.	रोकना, बाधा डालना	√बाध्, √रुध्	टोकणा	टोकना	नस डालुॅन्य	टोकणु	हटकणें
टोकरी	स्त्री.	बाँस की खमचियों या तीलियों अथवा बेंत, सरकंडे आदि का बना हुआ खुले तथा चौड़े मुँह वाला बड़ा आधान	करण्ड:, कण्डोल:	टोकरी	टोकरी	टूकुॅर	टोकरी	टोपली
टोली	स्त्री.	छोटा समूह, मंडली या दल	दलम्, मण्डलम्	टोली	टोली, गिरोह	छोँख, जमाथ	टोली	टोळी
टोह	स्त्री.	1. खोज, जाँच, तलाशी	गवेषणम्	टोह	तलाश, जुस्तुजू	छ़ाँडव	टोह, खोज	तपास, चौक़शी
		2. किसी अज्ञात बात का पता लगाने की क्रिया अथवा उससे प्राप्त होने वाली जानकारी	शोध:, तत्वान्वेषणम्	–	–	पय	खोज	माहिती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टोकवुं	बादा, आडखळप	रोक्नु, छेक्नु	बाधा देओया, टोका	राख, बाधा-दे	थिङ्बा, अयेत्पा पीबा	बाधा-देबा, बंद करिबा	आटंकं-पट्टुटॅ	तड़ुक्क	तटयुक	तडे, अड्डिमाडु
टोकरी, छाबड़ी, टोपली	बुट्टी, टोपली	टोकरी, डालो, पेटारी	झुड़ि, टुकरि	पाचि, खराहि	थुमोक्, बास्केट	टोकेइ, झुड़ि	अड्डगिंचुटॅ बुट्टॅ	कूडै	कॉट्ट	बुट्टि, कुट्ट
टोळी, समूह	टोळी	टोली, दल	दल, गोष्ठी	गोट, समूह, दल, जूम	काङ्लुप्, काङ्बु, दोल	मंडली, गोष्ठी, दल, समूह	दळमु, गुंपु	कुळु	संघम्	समूह, गुंपु
तपास, खोळ	तपास	खोज, खोजी, तलाशी	खौँज, तल्लाश	परीक्षा, अनुसंधान	थिबा	खोज, तलाशी, जांच, अनुसंधान, परीक्षा	वॅतकुटॅ, सोदा	तेडुदल्, आय्वु	अन्वेषणम्, तेटल्	तडकाट, शोधन
माहिती	चवकशी	खोजीनिती, खोजीनिधी	खौँज, सूचना	अनुसंधान	थिजिन्बा	अज्ञात-वस्तु-संबंधीय-ज्ञान, अनुसंधान, खोजिबा, सूचना	अन्वेषणॅ	आय्न्दु अरिदल्	अन्वेषणम्	पत्तॆ, हुडुकु, शोधन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ठंडक	स्त्री.	1. शीत, सर्दी, जाड़ा	शैत्यम्	ठंड, सरदी	खुनकी	ठँड़ी, सरदी	सर्दी, सियारो	गारवा, गारठा
		2. जलन की कमी, चैन	निस्तापनम्	–	चैन, तसल्ली	–	थधिकारु	थंडावा, आराम
ठंडा	वि.	उष्णता या ताप से रहित	अनुष्ण	ठंडा	ठंडा, सर्द	तुरुन, यख	थधो	थंड़गार, थंड
ठग	पुं.	वह जो धोखा देकर दूसरे का धन या सामान हड़प ले, कपटी, धूर्त	शठः, धूर्तः	ठग्ग	ठग, अय्यार, मक्कार	ठग	ठ॒गु	ठग
ठगना	स. क्रि.	धोखा देना, छलना	√छल्, √वञ्च्	ठग्गणा	ठगना	ठगुन	ठ॒गणु	फसविणें, ठगविणें
ठप्पा	पुं.	1. धातु, लकड़ी आदि की छाप या मुहर	मुद्रा	ठप्पा	छाप, ठप्पा	ठपुँ	ठपो	शिक्का
		2. ठप्पे का छापा या चिह्न	मुद्राङ्कः	–	–	–	छाप	छाप अथवा चिह्न

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ठंडक, शीतळता	थंडाय	चिसोपन, ठण्डापन	ठाण्डा, फुरफुरि (अल्पशीत)	चैंचा, ठांडा	इङ्यबा	हालुका, सुखद, अल्पशीत, अल्प थंडा	चल्लदनमु	कुळिर्च्चि	तणुप्पुॅ	तंपु, चळि
निरांत, शांति	शांत	शीतलता, सन्चो	आराम	शांति	पोत्याबा	आराम, शांति	शांति	आरुदल्	कुळुर्म	आराम
ठंडुं, टाढुं	थंड	चिसो, शीतल	ठाण्डा	चैंचाँ, ठांडा, जुर	अइङबा, मैशा याओदबा	थंडा	चल्लनि	कुळिंर्द	तणुत्तु	तण्णगाद, तण्णगिरुव
ठग, प्रपंची, धुतारो	फटोवपी	ठग, धूर्त	ठग, धूर्त	ठगौंता, धूर्त	नम्थाक	ठक, धूर्त	मोसगाडु, टक्करि	एमाट्टुक्-कारन्, पोक्किरि	वंचकन्, तट्टिप्पुकारन्	ठक्क, धूर्त
ठगवुं, भोळवीने, छेतरवुं	फटोवप	ठग्नु, छकाउनु	ठकानो, धौका देओया	ठगा	नम्थाक तौबा	ठकिबा, धोका-देबा	मोसगिंचुट	एमाट्ट	चतिक्कुक, वंचिक्कुक	मोसमाडुवु, वंचिसुवु
सिक्को, छाप, महोर	छाप	टक, छाप, मोहर	मोहर/ सील, मोहर, छाप	मोहर, छाप	छापा नंबा	छापा, मोहर	मुद्र	मुत्तिरै	मुद्र	मुद्रय चिह्न
चिह्न, थप्पो	शिक्को	छापा, छाप	सील मोहर वा ताहार छाप	मोहर	छापा, मयेक	छापा	मुद्र	मुत्तिरै	मुद्र	मुद्रय चिह्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ठहरना	अ.क्रि.	1. रुकना	√स्थगय	रुकणा	ठहरना	ठहरुन	तरिसणु	थांबणें
		2. किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रहने के लिए रुकना	वि √रम्	ठहिरना	क़याम करना	–	रुकणु	मुक्काम करणें
ठहाका	पुं.	जोर से हँसने का शब्द, कहकहा, अट्टहास	अट्टहासः	ठहाका	क़हक़हा	ज़ोरॅ-ज़ोरॅ-असुन, असन खंगाल	टहकु	अट्टहास्य
ठाट-बाट	पुं.	आडंबर, तड़क-भड़क, शान-शौकत	प्रदर्शनम्	ठाठ-बाठ	ठाट-बाट, शानोशौकत	ठाठ-बाठ	ठाठ-बाठु	थाटमाट, अवडंबर
ठिकाना	पुं.	रहने या ठहरने का स्थान	आवासः, स्थानम्	टिकाणा	ठिकाना	रोज़न जाय	ठिकाणो, रहण जी जाइ	राहण्याचें ठिकाण
ठीक	वि., क्रि.वि.	उपयुक्त	उपयुक्त	ठीक	सही	ठीख	ठीक	ठीक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ठेरवुं, रहेवुं, थोभवुं	थांबप, रावप	अड्नु, ठहर्नु	थामा	र जोवा	पन्बा, लेप्पा	रोकिबा, बंद- करिबा	आगुट	तंग	निल्क्कुक, तङ्ङुक	निल्लु
मुकाम करवो	मुक्काम करप, रावप	बस्नु, रहनु	थामा	जिरणि ल, बिरति ल	पन्बा, लेप्पा	किछि- समय- पाइं- रहिबा, बंद हेबा	बास चेयुट आगुट	वळित्तंग	तङ्ङुक	तंगु
अट्टहास्य, खड- खडाट हसवुं ते	खळखळून हांसप	खित्का, अट्टहास	अट्टहास	अट्टहास्य, ढेकढेकनि	फाक्- फाक् नोकपगी मखोल	अट्टहास्य, जोररे- हासिबा	अट्टहासमु	उरत्त चिरिप्पु	अट्टहासम्, पाट्टिच्चिरि	अट्टहास
ठाठमाठ	थातो मातो	ठाँट- बाट, सजधज	ठाटबाट, जाँक- जमक	आड्ंबर, जाक- जमक	केजब- मौजबा शो तौबा	आडंबर	आडंबरमु	आडंबरम्, विमरिसै	आडंबरम्	ठीवि, आडंबर
ठेकाणुं	राबितो, ठिकाणो	ठेगाना, टुङ्गो	ठिकाना	ठिकना, थका-ठाइ	पन्फम, लैफम	ठिकणा	चोटु, आश्रयमु	तंगुमिडम्	तावळम्	निवास- स्थान
ठीक	बरोबर	ठीक, उचित	ठिक	उपयुक्त, ठीक, प्रकृत सँचा	चान्नबा चान्नना	ठिक, उपजुक्त	सरि अयिन	सरियान	योजिच्च, शरियाय	सरियाद, योग्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	पुं.	शुद्ध, सत्य	शुद्धम्, सत्यम्	–	दुरूस्त	पोंज़, सही	सही	शुद्ध, सत्य
ठुकराना	स. क्रि.	1. पैर से ठोकर लगाना	पादेन √हन्	ठोकर मारना, ठुकराउणा	ठुकराना	ठूकरॅ दिन्य	ठुकिराइणु	ठोकर मारणें, लाथाडणें
		2. उपेक्षा या तिरस्कार-पूर्वक अस्वीकार करना	तिरस् √कृ, न्यक् +कृ	–	इनकार करना	ठूँठ दिन्य	ठोकर हणणु	धुड़कावून लावणें
ठूँठ	पुं.	वह पेड़ जिसकी डालें, पत्तियाँ आदि न रह गई हों, सूखा पेड़	स्थाणुः	रुंड-मुंड	ठूंठा	लंडुर	ठूंठो (वणु), बिना टार्युनि वारो	बठलेला
ठूँसना	स. क्रि	कोई चीज किसी में जबरदस्ती डालना या भरना	अनु √पूरय्, बलात्	ठूसणा, ठोसणा	ठूंसना	सुॅतुन	दूसणु, ठूंसणु	ठासून भरणें, कोंबणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शुद्ध, सत्य	सारकें	योग्य, शुद्ध	–	सत्य, निश्चयता, सँचा, उपयुक्त	अचुंबा	शुद्ध, सत, सत्य	निजमु	सरि, नल्लदु	शरि	निजवाद, सत्यवाद
ठोकर मारवी	लात मारप	लत्याउनु, गोद्नु	पदाघात करा	गोर- मारि दे, गोर मार	काउबा	गोइठा- मारिबा, पदाघात- करिबा	तन्निवेयुट	उदैत्तुत्तळ्ळ	चविट्टक, तट्टक	ऑदॅयुवुदु
–	उपेक्षा करप	तिरस्कार गर्नु, ठुक्राउनु	अग्राह्य करा, उपेक्षा करा, अबज्ञा करा	उपेक्षा कर, अबहेला कर	थओइदबा	उपेख्या- करिबा, अबहेला- करिबा, अबज्ञा- करिबा	तिरस्क- रिंचुट	अवमदिक्क	चविट्टि- त्तळ्ळुक	तिरस्करिसु, उपेक्षिसु
ठूंठ, ठूंठुं, झाडनुं थडियुं	सुकेड रुख	ठुटो, ठुँडो	ठुंटा गाछ	गछर- मूढ़ा	मशा तेक्खबा ऊ, मशा थारबा ऊ	थुंटा, शुष्क- बृख्यर- गंडि	मोड्डु	मॉट्टै मरम्	कुट्टि	बोळु मर, मोटुमर
ठोंसवुं, ठांसवुं	कोंबप, चेपप	कोच्नु, कोचर्नु	ठुसा/ ठोसा	हेंचि- हेँचि- भरा	युङशिनबा, हाम्चिन्बा	खुंदि- भरति- करिबा, ठेसि- पुराइबा- बा भर्त्ति- करिबा	कूरुट, कुक्कुट	तिणिक्क	तिरुकि- निरक्कुक	तुरुकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ठेकेदार	पुं.	वह व्यक्ति, जो ठेके पर दूसरों के काम करता या करवाता है	अनुज्ञापिन्	ठेकेदार	ठेकेदार	ठेकुॅंदर	ठीकेदार	भक्तेदार, ठेकेदार
ठोंकना	स.क्रि.	1. किसी चीज को धँसाने के लिए उसके सिरे पर जोर से आघात करना	प्र √हन्	ठोकणा	मारना, गाड़ना	ठुकुन	ठोकणु	ठोकणें
		2. अच्छी तरह पीटना	प्र √हन्	ठोकणा	ठोंकना	ठासुन	ठोकणु	ठोकणें, मारणें
ठोकर	स्त्री.	1. आघात, जो चलने में कंकड़, पत्थर आदि के धक्के से पैर में लगे	पादाघातः	ठोकर	ठोकर	ठूँकुॅरुॅ	ठोकर	पदाघात
		2. पदाघात	पादाघातः	–	लात	ठूँकुरुॅ	लत	पदाघात
ठोस	वि.	1. जिसकी रचना में अंदर कहीं खोखलापन न हो, भरपूर	ससार, दृढ	निग्गर, ठोस	ठोस	ठोस	निहुरो, ठोस	भरीव, मजबूत, बळकट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ठेकेदार, इजारदार	ठेकेदार	ठेकदार	ठिकादार	ठिकादार	ठिका तौबा मी, ठिकादार, कंट्रक्टर	ठिकादार	कान्ट्रेक्टरु	ऑप्पंक्-कारर्	करारुकारन्, कोंट्राक्टर	गुत्तिगंदार
ठोकवुं, पीटवुं, मारवुं	ठोकप	कुट्नु, हिर्काउनु	ठोका	मरिया	यैबा	ठुंकिबा, भल-करि-पिटिबा	बादुट, तट्टुट	नन्नु तट्ट	आञ्ञटि-क्कुक	होंडे, बडि
ठोकवुं	–	पिट्नु, ठोक्नु, हान्नु	ठोका	मरियाह मरियाइ, सुमा	यैथोक्पा	गड़ाइबा	कॉट्टुट	तट्टि इरुक्क	तरुक्कुक	पेट्टु हाकु
ठोकर, ठेस	ठोकर	ठेस, ठक्कर	ठक्कर/ ठोक्कर	उजुटि	खुदि थिबा	ठोकर, धक्का, आघात	दॆब्ब ऍदुरु	इडरुदल्	तट्टुॅ	ऍडवु, मुग्गरिसु
लात मारवी	–	पदाघात, लात्ती	पदाघात, लाथि	गोर, पदाघात	खुदि थिबा	पदाघात, नातमारिबा	कालि-तन्नु	कालाल् उदैत्तल्	चविट्टुॅ	ऑर्द
मज़बूत	भरिल्लो, घट	ठोस, भरिलो	निरेट	परिपूर्ण	मपुम, मनुङ्-होदबा	निंदा, परिपूर्ण, भरपुर	गट्टि	दिडमान	कट्टियाय	गट्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. तथ्यपूर्ण, दृढ़, प्रामाणिक	प्रामाणिक	–	भारी, भरा हुआ	ठोस	सही, प्रमाणिक	प्रामाणिक, दृढ़, तथ्यपूर्ण
डंक	पुं.	बिच्छू, मधुमक्खी आदि में पीछे का जहरीला काँटा	दंशः	डंग	डंक, नेश	टॉंफ	डंगु	दंश
डंडा	पुं.	लकड़ी का मोटा सीधा टुकड़ा	दण्डः	डंडा	डंडा	डंडुॅ, लूर	ड॒ंडो	सोटा, दंडा
डकार	स्त्री.	भोजन करने के पश्चात् पेट में भरी वायु का कंठ से शब्द के साथ निकल पड़ने का शारीरिक व्यापार	उद्गारः	डकार	डकार	डाकुर	ओगि॒राई	ढेकर
डकैती	स्त्री.	डाका, लूट-मार	लुण्ठनम्	डाका, डकैती	डाका, डकैती	डाकुॅ	धाड़ो, डाको	दरवड़ा, डाका
डग	पुं.	कदम	पदम्	पलांघ, डग	क़दम	कदम	कदमु, विख	पाऊल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दृढ़	प्रामाणिक, थीर	तथ्यपूर्ण, प्रामाणिक, दृढ	दृढ़, निरेट	तथ्यपूर्ण, सारुवा, दृढ़, प्रामाणिक	प्रमाण चाबा	तथ्यपूर्ण, दृढ़, प्रामाणिक	दृढ़मयिनॅ, प्रामाणिक-मयिनॅ	उण्मैयान	उऱ्च्च	तथ्यपूर्ण, प्रामाणिक, गट्टियाद
डंख, दंश	दंश	डङ्क, खील	हुल (मौमाछिर)	शुं, जोला-हूल	ममू, महु	नाहुड, कण्टा, शंकु, आंशु	कॉडि	कॉडुंक्कु	कुत्तुॅ, मुऴळु	को, मुळ्ळुडि
डंडो	बडी	डन्डा, डण्ठा, लाठो	लाठि, डाण्डा	टोकोन, लाखुटि, लाठी, लाठि	चै	बाड़ी, दंड, लाठि	कर्र	तडि	वटि	दोण्णॆ
ओड़कार	ढेकर	डकार	ढेकुर, उद्गार	उगार	थगोक्पा	एउडि, ढ़कार	तेपु	एप्पम्	एँबक्कम्	तेगु
डाकोटी, धाड़ लूंटफाट	लूटप	डकैती	डाकाति, लुटमार	डकाइति, लुटमार	लूट तौबा	ड़कायति, लुटमार	दोपिडि	कॉळ्ळै	कॉळ्ळ	दरोडॆ, कोळ्ळॆहॊडॆ
डग	पाऊल	पाइलो, फड्को, डेग	पदक्षेप, कदम (क्ख), पा फेला	खोज, कदम	खोङ्थाङ्	पदक्षेप	अडुगु	कालडि	अटि, काल् वॆप्पु	हॆज्जॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
डगमगाना	अ. क्रि.	लड़खड़ाना, डिगना, विचलित होना या करना	√कम्प्, वि √चल्	डगमगाउणा	डगमगाना, काँपना, लरज़ना,	व्यसरुन, डगमगावुन	लुडणु, धुडणु	डगमकणें, हलणें, विचलित होणें वा करणें
डरना	अ.क्रि.	भयभीत होना	√भी, त्रस्	डरना	डरना	खोचुन	डिजणु	घाबरणें
डरपोक	वि.	कायर, भीरु	भीरु	डरपोक	डरपोक, बुज़दिल	डरपोक, खोचुंबुड	डिजिणो, डरपोक	भित्रा, म्याड
डराना	स. क्रि.	किसी के मन में डर उत्पन्न करना, धमकाना	√त्रस्, √तर्ज	डराउणा	डराना	खोचुंनावुन	डेजारणु	घाबरविणें, भिवविणें
डरावना	वि.	भयानक	भयङ्कर	डराउणा, डराओ	ख़ौफ़नाक, दहशतनाक	खोच़ंवुन	डेजारींदड़ु, भयानक	भयानक, भयंकर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
डगमगवुं, विचलित थवुं या करवुं	लडखडप, विचलित जावप	डगम-गाउनु, डगड-गाउनु, विचलित हुनु	टलमल करा, बिचलित करा बा हओया	थरक-बरक ह, विचलित कर	तुरोइ ङाम्लोइ चत्पा, हायबा पल्लेप्फम् खङ्दना तौबा	टलमल-हेबा, बिचलित-हेबा, अस्तब्यस्त-हेबा, इतस्तत हेबा	चलिंचुट, तप्पटडुगुलु वेयुट, चलिंचुट	तळ्ळाड, संचलप्पड	इटरुक, इळकुक	अलुगाडु होयदाडु, विचलित-नागु
डरवुं, बीवुं	भियेवप	डराउनु	भय पाओया, डरा	भयभीत ह	किबा	डरिबा, भयभीत-हेबा	भयपडुट	बयप्पड, अञ्ज	पेटिक्कुक	हेदरु
डरपोक, बीकण	भितरो	काँथर, भीरु	भीरु, भीतु	भयात्तुर, भीरु	मीकिथी, मीचेन	भीरु, डरुआ, भयातुर, कापुरुष	पिरिकिवाडु	कोळै	भीरु	अंजुबुरक, पुक्क, हेडि
डरावvuं, बिवरावvuं	भिवोवप	धम्काउनु, तर्साउनु	भय देखानो, धमकानो	धमकि दे, भय खुवा	किह्नबा	डराइबा, भय-देखाइबा, धमक	भयपेट्टुट	बयमुरुत्त	पेटिप्पि-क्कुक, भयप्पे-टुत्तुक	हेदरिसु
डरामणुं, डर लागे एवुं, बिहामणुं	भयंकर	भयानक, भयङ्कर	भयानक, भयंकर, भयावह	भयानक, भयंकर, भयाबह	किनिङ्ङाई ओइबा	भयानक, भयंकर, भयाबह	भयंकरमयिन	बयंगरमान	भयानकमाय	भयंकर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
डसना	स. क्रि.	जहरीले कीड़े का काटना	√दंश्	डसणा	डसना	टोंफ दिन्य	ड॒ंगणु	डसणें
डाँट	स्त्री.	किसी को सचेत करने के लिए कड़ी बात कहना	तर्जनम्	डाट	डाँट, सरज़निश	ग्रिंजकरुन, बुथ-फिरुन	द॒ब, छिड़ि॒ब	धमकी, वटावणी
डाँवाडोल	वि.	1. जो सहसा किसी आघात से हिलने-डुलने लगे	दोलायमान	डावांडोल	डाँवाँडोल, सरर्गदाँ	डांवा-डोल	डांवाडोल	डळमळीत, अस्थिर
		2. अनिश्चित (व्यक्ति अथवा स्थिति)	संशयग्रस्त	–	आवारा	डांवा-डोल	–	अनिश्चित
डाक	स्त्री.	1. पत्रों, बंडलों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की सरकारी व्यवस्था	प्रैषतन्त्रम्	डाक	डाक	डाक, डाख	टपाल, डाक	टपाल, पोस्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
डसवुं, दंश देवो	घास मारप	डस्नु	दंशन करा, कामडानो	खोट, कामोर	मडु पान्बा जीवना चिक्पा	कामुड़िबा, दंशिबा	करुचुट	विष जंतु, तीण्ड	कटिक्कुक, दंशिक्कुक	कुटुकु, कच्चु
ठपको	तापोवप	हप्की, हप्काइ, खप्की, झपार	धमक, बकुनि	धमकि	चैबा	धमक-देबा, चेतेइ-देबा	मंदलिंपु	अदट्टल्	शकारिक्कुक	गदरिकें
डामाडोळ	लकत लकत, डळमळीत	डाँवाडोल, अस्थिर	दोलायमान	थरक-बरक	हाइरङ् तुरङ्बा	चेतेइ-देबा, टलमल, दोलायित, दोदुल्यमान	अस्त-व्यस्तमु	आट्टम् कंड	आटुन्न, इळकुन्न	अल्लाडुव
अनिश्चित	–	अनिश्चित	संशयापन्न, अस्थिर, डामाडोल	अनिश्चित, अस्थिर	–	अस्थिर, अनिश्चित, संशयापन्न	अनिश्चित-मैन	निलैयट्ट	अनिश्चितम्	अस्थिर, चंचल
पोस्ट	पोस्ट, टपाल	डाँक	डाक	डाक, पस्ट	डाक	डाक	तपाला	तपाल्, अञ्जल्	तपाल्	अंचे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उक्त व्यवस्था द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाने वाला पत्र या सामग्री	–	–	–	–	डाक	डाक
डाकघर	पुं.	डाकखाना	पत्रालय:	डाकखाना	डाकख़ाना	डाकखानुँ	टपाल आफ़ीस, पोस्ट आफ़ीस	टपालघर, डाकखाना
डाका	पुं.	डकैती, लूट-मार	लुण्ठनम्	डाका, धाड़ा	डाका	डाकुँ	धाड़ो, डाको	दरवडा
डाकू	पुं.	डाका डालने वाला	लुण्ठक:	डाकू, डकैत	डाकू, लुटेरा	डाकू	धाड़ेलु, डाकू	दरवडेखोर, लुटारु, डाकू
डांल	स्त्री.	पेड़-पौधे आदि की टहनी या शाखा	शाखा	डाल	शाख़	लँड	टारी	फांदी, डहाळी
डालना	स. क्रि.	किसी आधान या पात्र में कोई चीज कुछ ऊँचाई से गिराना, छोड़ना या रखना	√पूरय्, √पातय्	पाउणा, रखणा	डालना	त्रावुन	विझणु	घालणें, टाकणें, सोडणें, ओतणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टपाल, कागळ	टपाल	हुलाक-वस्तु, चिठी-पत्रहरु	डाक, चिठि-पत्रादि	डाक	चिट्ठी, पार्सन	डाकद्वारा- प्रेरित सामग्री (चिठि पत्र)	टपालु	अञ्जल्	तपाल् उरुप्पटि	टपालु
टपाल ओफिस	पोस्ट ऑफीस, टपाल घर	हुलाकघर, डाँकखाना	डाकघर	डाकघर	डाकघर, पोस्ट ऑफिस	डाकघर	तपालाफीसु	अंजल-गम्, तपाल् आपीस्	पोस्टाफीस, तपालाफीस्	अंचे कचेरि, पोस्ट् आफीसु
डाको, धाड़	लूट	डकैती, लुटमार	डाकाति, लुटमार	डकाइति	लूट तौबा	डकैति, चोरि, लुटमार	दोपिडि	कॉळ्ळै	कॉळ्ळ	डकायिति, दरोडे
डाकु	डाकू	डाँका	डाकात	डकाइत, डाकु	डाकू	डाकु, ड़कायन	दोपिडिदाॅंग	कॉळ्ळैक्-कारन	कॉळ्ळ-क्कारन	दरोडेगार, डकायित
डाळं	ताळी, खांदो	हाँगो, हाँगा,	शाखा-प्रशाखा	डाल, डाली	मशा	शाखा, डाल	कॉम्म॒	मरक्किळै	कॉपु, शाख	टोंगे
नाखवुं	उडोवय	हाल्नु, राख्नु	ढाला, छड़ा राखा	बाक, बोवाइ-दे	थादबा	छाडिबा, पकाइबा, तलकु-पकाइबा	वेयुट	पोड	इटुक	इडु, हाकु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
डाह	स्त्री.	ईर्ष्या, जलन, कुढ़न	ईर्ष्या, द्वेषः	साड़ा	जलन, हसद	दज़ुन, दाह	साड़ु, हसदु	ईर्ष्या, मत्सर
डिबिया	स्त्री.	किसी वस्तु को रखने का ढक्कनदार बहुत छोटा आधान, बहुत छोटा डिब्बा	मञ्जूषा, पेटिका	डब्बी	डिबिया	डॅब्य	दबुली, दब्बी	डबी
डिब्बा	पुं.	1. सामान रखने का बड़ा ढक्कनदार आधान, जो धातु, लकड़ी आदि का बना होता है	धानकम्	डब्बा	डिब्बा	डबुँ	दबुलो, दब्बो	डबा
		2. यात्रियों एवं माल आदि के लिए रेलगाड़ी का कक्ष	रेलकक्षः	–	–	–	दबो, गाडो	आगगाडीचा डबा
डींग	स्त्री.	अपने बल, योग्यता या साहस के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बात करना, शेखी	आत्मश्लाघा	फड़, डींग	शेख़ी	थ्यकुन	बटाक, वड़ाई, शेख़ी	फुशारकी, बढाई

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ईर्षा	जाळकुट-पणा, दुस्वाशी	डाहा, डाह, दाहा	ईर्षा/ ईर्ष्या, परश्री-कातरता	ईर्षा, दाह	कल्कनबा, खंबन्नबा, चाक्नबा	ज्वलन, ईर्षा, हिंसा, परश्री-कातरता	ईर्ष्ये, कुळ्ळु	पॉरामै	असूय	होट्टेयुरि, होट्टेकिच्चु
डबी, दाबड़ी	डबी	बट्टा	डिबा, कौटा	टेमा, टेमि	डिब्बा मचा, कौता मचा	छोट-ड़िबा	चिन्न डब्बा, भरिणि	डब्बि	डप्पि	चिक्क डब्बि
डब्बो	डब्बो, डबो	डिब्बा, बट्टा	डिबा/ डिबे, कामरा	डबा	डिब्बा, कौता	डबा	डब्बा	डब्बा	डप्प, टिन्नु	डब्बि
रेलगाडीनो डब्बो	गाडीचो डब्बो, डबो	डब्बा (रेलको)	डिबा/ कामरा गाड़ीर	डबा	रेल डब्बा	रेलगाड़िर ड़बा	पेट्टे	रयिल् पेट्टि	कंपार्टमेंटुं, तीवण्डि पेट्टि	डब्बि (रेलु) गाडि
डिंगु, शेखी	बडाय मारप	सेखी, तुजुक, फुइँ	चालियाति	डांकोप	मशाबु यागतचबा गप तौबा	बाहापिआ-कथा, जालिआति, मिछकथा	बडाइ, प्रगल्भमु	तर्पेरुमै	पॉङ्ङच्चम् परयल्	जंभ, बडायि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
डुबाना	स. क्रि.	ऐसा काम करना, जिससे कोई चीज डूब जाए	नि√मज्जय्	डोबणा	डुबाना	फाटवुन	ब॒ोड़णु	बुडविणें
डेढ़	वि.	मान, मात्रा, संख्या आदि की किसी एक इकाई और उसकी आधी इकाई के योग का सूचक विशेषण	सार्द्धैक	डेड, डेढ़	डेढ़	डॉड	ड॒ेढु	दीड
डेरा	पुं.	पैदल यात्रा आदि के समय अस्थायी रूप से बीच में ठहरने का स्थान, पड़ाव	पटनिवासः, विश्रामस्थलम्	डेरा	ख़ेमा	डेरुॅ	ड॒ेरो, पड़ाउ	तंबू, पडाव
डोंगी	स्त्री.	एक प्रकार की छोटी खुली नाव	लघु नौ	बेड़ी	डोंगी	नाव, डूँगुॅ	डूंडी, नंढी ब॒ेड़ी	लहान होडी
डोर	स्त्री.	1. सूत आदि का बटा हुआ पतला मजबूत धागा	सूत्रम्, रज्जुः	डोरी	डोर, धागा	पन, सुथुॅर	ड॒ोरि	जाडदोरा, धागा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
डुबाडवुं	बुडवप	डुबाउनु	डुबानो	बुरा, जोबोरा, पानीर तललै सर	लुप्शिन्बा	डुबाइबा, बुड़ाइ देबा	मुंचुटॅ	मूऴ्गडिक्क	मुक्कुक	मुळुगिसु
दोढ़	देड	साढे एक, डेढ	देड़ (र)	डेर	अमा मखाय	देढ़	ऑकटिन्नुऱ	ऑन्ऱै	ऑन्नर	ओंदूवरे
डेरो, पडाव	तंबू	डेरा, भाडाको घर, अस्थायी वासस्थान	डेरा, बिश्राम-स्थल	बाहर-विश्राम-स्थल	पन्फम, थुङ्फम	डेरा, शिबिर, बिश्राम-स्थान, बिश्रामागार	डेरा, गुडारमु	वळित्तंगु-मिडम्, तावळम्	पाळयम्, तावळम्	डेरे
उघाडी नावडी अथवा होडी	व्हडें	डुङ्गा, नाउ	डिङ्गी, नौका	सरु-नाओ	हिनाओ	डंगा, डिंगि, नाआ	चिन्नॅ पडवॅ	तोणि	वंचि	चिक्क-दोणि
दोरो	दोरो, धागो	धागो	सुता, डोर	रछि, जरि	लङ्	ड़ोर, सुता	दारमु	कयिऱु, नूल् कयिऱु	चरटुॅ	हुरि, हग्ग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पतंग आदि उड़ाने के लिए वह धागा जिस पर मांझा लगा होता है	सूत्रम्	डोर	तार	पन	ड॒ोरि	मांजा
डोल	पुं.	कुएँ से पानी खींचने का बरतन	दोलः	डोल	डोल	डोल	ड॒ोलु (खूह मां पाणी कढण जो बर्तणु)	पोहरा
डोली	स्त्री.	1. पालकी की तरह की एक प्रसिद्ध सवारी, जिसे दो कहार कंधे पर उठाकर चलते हैं	शिविका	डोली	डोली, पालकी	डूल्य	ड॒ोली, पालकी	पालखी, डोली
		2. विवाह के समय मायके से विदा होते हुए वधू पहले-पहल ससुराल जाती है	शिविका	डोली	डोली	डूलूय़ जॉपानॅ	ड॒ोली	डोली
ड्योढ़ी	स्त्री.	1. किसी भवन या मकान के मुख्य प्रवेश द्वार के आस-पास की भूमि या स्थान	गृहावग्रहणी	डिओढ़ी	डियोढ़ी	डीड्य	ड॒ेढ़ी, डिओढ़ी	उंबरठा
		2. घर के मुख्य द्वार के अंदर का वह भाग, जिसमें से होकर घर के कमरों, आँगन आदि में जाया जाता है	देहरी	–	डेवढ़ी	डीड्य	चाउंठि	देवडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मांजो	मांजो	डोरो	सुता, डोर	रछि	लङ्	ड़ोर, सुता	दारमु	नूल् (मांजा)	चरटुॅ	दार
डोल, बालटी	बालदी	डोल	कुओर बालति, बाल्टि	कुँवार पानी तोला पात्र, बाल्टि	बालटिन	बालटि	चेद॑	वाळि	पाळ, तोट्टि	बाने
पालखी, डोळी, सुखपाल	डोली	डोला, डोली	डोली, पालकी	डोला, डोली	दोलाइ	सबारि	पल्लकी	मूडु पल्लक्कु	मंचल्, पल्लक्कुॅ	मेणे, मेने पल्लक्कि
–	–	डोला, डोली	–	–	–	–	बधुवु पतिगृहनिकि वॆळ्ळुट॑	–	–	–
दोढी, देवडी, मांडवी	देवडी	डेउढी	देउड़ी, देहली, देहलि	घरर आग दुवार-मुखर, आश-पाशर ठाइ	थोङ्जिन	दांड	मुंगिलि	निलैप्पडि	वीट्टुमुट्टम्	अंगळ
चोकी, चबूतरो	वरांडो	डेउढी, खँड्गेली	देहली, देउल	घरर आगर मुकलि बारांडा	थोङ्खोङ्	प्रबेश-द्वार	वाकिलि, गडप॑	निलैवायिल्	निलप्पटि	होस्तिलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ढंग	पुं	कोई काम करने की रीति	रीतिः, कार्यपद्धतिः	ढब्ब, ढंग	तौर, तर्ज़, तरीक़ा	वतीरुँ	ढंगु	ढब, पद्धत
ढकना	स. क्रि.	किसी पर आवरण डालना, ताकि वह दिखाई न पड़े	आ √वृ	ढक्कणा	ढकना	डकुनुँ, ठानु थवुन	ढकणु	झाकणें
	पुं.	वह चीज या रचना, जिससे कोई चीज ढकी रहती है, ढक्कन	पिधानम्, छदः	ढक्कण	ढक्कन	डकनुँ	–	झांकण
ढकेलना	स. क्रि.	धक्का देकर आगे बढ़ना	प्र √नुद्	धक्कणा	धकेलना	दकुँ द्युन	धिकणु	ढकलणें
ढकोसला	पुं.	स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपनाया हुआ झूठा रूप, दिखावा	पाखण्डः	ढकौसला	ढकोसला, रियाकारी	डोंग	ढोंगु, पाखंडु	देखावा
ढक्कन	पुं.	ढाँकने की वस्तु	छदः, आवरणम्,	ढक्कण	ढक्कन (सरपोश)	डकनुँ	ढकणु	झांकण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ढंग	रीत	ढ ङ्ग	रीति, ढङ्	कामर नीति- नियम	मओङ्	ढंग, रीति, नियम	पद्धति	मुरै्	मट्टुॅ	रीति
ढांकवुं	धांपप	ढाक्नु, छोप्नु	ढाका	ढाक , लुकुओग	खुमजिनबा	ढांकिबा, धोडेइबा	मूयुटॅ	मूड	मूटुक	मुच्चुवुदु
ढांकण	धांकणे	ढक्कन, बिर्को	ढाकना	ढाकोन, ढाकनि, साँफर	मखुम	ढांकुणी, धोङणी	मूतॅ	मूडि	अटप्पुॅ	मुच्चळ
धकेलवुं, हडसेलवुं	धुकळप	धकेल्नु, घचेट्नु	ठेला, धाक्का देओया	खुंदा मारि आगलै करि दे	इन्बा	धक्का-देबा, पेलिदेबा, ठेलिदेबा	तोयुटॅ, नेट्टुटॅ	मुन्ने तळ्ळ	तळ्ळि-नीक्कुक	तळ्ळु
ढोंग, पाखंड्	प्रदर्शन, आडंबर	पाखण्ड, आडंबर	बुजरुकि, भण्डामि, भण्ड	फाँकि, भाओ	तात् तौबा	देखाइ-हेबा, भंडेइबा	बूटकमु, कपटमु	वेंळिवेषम्	कपटम्	बूटाटिके, सोगु
ढांकणुं	धांकणे	बिर्को, ढक्कन, ढकना	ढाकना	ढाकोन, ढाकनी	मखूम	घोडणी, ढांकणा	मूतॅ	मूडि	अटप्पुॅ	मुच्चळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ढलाई	स्त्री.	1. ढालने की क्रिया या भाव	√घट्	ढलाई, ढलवाई	ढलाई	डलॉय	ढलाई, ओताणी	ओतकॉम, ओतणी
		2. पिघली हुई धातु को साँचे में ढालकर बरतन, मूर्तियाँ आदि बनाने की क्रिया, भाव और मजदूरी	भृति	ढलवाई	ढलवाने की उज्रत	डलॉय	पलटाणी, ढलाई	ओतकामाची मजुरी
ढलान	स्त्री.	कोई ऐसा भूखंड, जो चपटा और समतल न हो, बल्कि तिरछा हो जिसमें नीचे की ओर ढाल हो	प्रवतणम्	ढलाण	नशेब, ढलान	वसवुन	लाही, लाहु	उतार
ढाँचा	पुं.	1. कोई वस्तु या रचना बनाते समय उसके विभिन्न मुख्य अंगों को जोड़ या बाँध कर खड़ा किया हुआ आरंभिक रूप	संरचना, आबन्धः	ढाँचा	ढाँचा, फ्रेम	डाँचुं	ढांचो	सांगाडा, सांपळा
		2. ठठरी या पंजर	अस्थिपञ्जरः	पिंजर	क़ालिब	क्रंज़	हड्डाओं, पिञिरो	अस्थिपंजर, कंकाल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ढळाई, ढाळवुं ते	व्हांवप	ढलाइ	ढाला	ढला कार्य बा भाव	अङंबा	ढलाइ	पोयुट	वार्प्पु	वार्प्पुॅ	ऐरक
ढाळवानी मजूरी	आयटींत घालून घडवचे काम, कामांक दिवची मजूरी	ढलाइ	ढालाइ वा तार पारिश्रमिक	गलित धातु साँचत ढला कार्य वा भाव, आरु मजूरी	हैबा	छांच, मूल, पारिश्रमिक, मजूरी	पोतपोयुट, पोतपोयुटकु, इच्चेकूलि	वार्प्पुक्कूलि	वार्प्पुकूलि	ऐरक, होय्युविके
ढाळ, ढोळाव	उतार, देंवती	ओरालो, भिरालो ठाउँ	ढालु, गड़ाने	एढलीया ठाइ	अङंबा, ङंबा, लोइरोइनबा	ढालु, गड़ाणिआं	एटवालु	चरिवु	चरिवुॅ	इळिजारू
ढांचो, आकार, बीबुं	फासकी	ढाँचा	काठामो	जकाँ	फ्रेम, साचा	आकार, आकृति	चट्रमु	एलुंबुक्कूडु	चट्टम्	चौकट्टु
कोई वस्तुनुं खोखुं	सांगाडो	अस्थि-पञ्जर, कङ्काल	अस्थि-पञ्जर, कङ्काल	फ्रेम, साज	साचा	ढ़ांचा, साज, आकृति	अस्थि-पंजरमु	वडिवम्	एल्लिंकूटुं, अस्थिपंजरम्	अस्थिपंजर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ढाई	वि.	दो और आधा का मान	सार्द्धद्वय	ढ॑ाई	अढ़ाई	डाय	अढाई	अडीच
ढाढ़स	पुं.	तसल्ली, सांत्वना, धीरज	सान्त्वना, धैर्यम्	धारस, दिलासा	दिलासा, तसल्ली, ढारस	तसली	दिलासो, तसल्ली	धीर, सांत्वना
ढाबा	पुं.	वह स्थान, जहाँ रोटी, दाल आदि बिकते हैं, एक़ प्रकार का कच्चा और अस्थायी भोजनालय	भोजनालयः	ढ॑ाबा	ढाबा	टाबुॅ, बतॉय-वान	ढाबो	गावठी खाणावळ
ढाल	स्त्री.	1. चमड़े, धातु आदि का बना हुआ वह गोलाकार उपकरण, जिसे युद्ध क्षेत्र में सैनिक लोग तलवार, भाले आदि का वार रोकने के लिए अपने बाएँ हाथ में रखते थे	चर्मन्	ढ॑ाल	ढाल (सिपर)	डाल	ढाल	ढाल
		2. किसी भूखंड का ऐसा तल, जो क्षितिज के समतल न हो, बल्कि तिरछा या नीचे की ओर झुका हो, ढलान	प्रवतणम्	ढ॑लाण	ढलान	वसुॅवुन, वुतरॉय	लाही, ढारु	उतार, उतरणी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अढ़ी	अडेज, अडेच	अढाई, साढे दुई	आड़ाइ (2½)	आढ़ै	अनि मखाइ	अढ़ाइ (2½)	रंडुन्नर	इरण्डरै	रण्टर	ऐरडुवरे
सांत्वना, शांति, आश्वासन	धाडशी	ढाडस, सांत्वना	भरसा, सांतवना	धैर्य, सांत्वना, भरसा	थेमजिन्बा	आस्वाशना, सांत्वना, भरसा	धैर्यमु, ओदार्पु	आरुदल्, मनो दैरियम्	समाधानम्, सांत्वनम्	समाधान, धैर्य
लोज भोजनालय	ढाबो	ढाबा, भोजनालय	ढाबा, भोजनालय, होढेल	रुटि आदि बनोबा दोकान, चाह-दोकान, ढाबा	होटल मचा	ढाबा, भोजनालय	फलहारशाले, ढाबा	चिरिय उणवु विडुदि, तट्टु-क्कडै	तट्टुकट	ढाबा
ढाल	ढाल	ढाल	ढाल	ढाल, एफाललै तल लै पेला, फाल	चुङ्गोइ	ढाल	डालु	केडयम्	परिच	गुराणि, ढालु
ढाळ	देंवती	भिरालो ठाउँ	ढाल	अवबाहिका, एढलीया-ठाइ	अङंबा	ढालु	एटवालु	इरक्कम्, चरिवु निलम्	चरिवुँ	इळुकलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ढिंढोरा (ढँढोरा)	पुं.	1. वह डुग्गी या ढोल, जिसे बजा कर किसी बात की सार्वजनिक घोषणा की जाती है	डिमडिमघोषः	डौंडी, ढँढोरा	ढिंढोरा	डोंडूरुँ	पढ़ो, ढिंढोरो	डांगोरा, ढोल
		2. उक्त प्रकार से की हुई घोषणा	आघोषः	–	–	डोंडूरुँ	–	दवंडी
ढीठ	वि.	1. जो जल्दी किसी से डरता न हो और जो भय या संकट के समय भी अपने हठ पर अड़ा रहता हो, धृष्ट	धृष्ट	ढीठ	ढीट, ज़िददी	डीठ, हठी	ढीठ, होडी	धीट, धाडशी, निर्भय
		2. जो प्रायः ऐसे अवसरों पर भी संकोच न करता हो, जहाँ बड़ों की मान-मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक हो	अविनीत	ढीठ	गुस्ताख़	डीठ, हठी	निर्लजु	गर्विष्ठ, उद्दाभ
ढीला	वि.	1. शिथिल	शिथिल	ढिल्ला	ढीला	ड्यॉल	सुस्तु	सैल, ढिला
		2. जिसमें उचित कसाव-खिंचाव या तनाव का अभाव हो	शिथिल	–	–	ड्यॉल	ढिलो	सैल
		3. जो नाप में आवश्यकता से अधिक गहरा, लंबा या चौड़ा हो	शिथिल	–	–	ड्यॉल	ढिलो, वडो, वेकिरो	मोठा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ढंढेरो के ते पीटवानो ढोल.	फर्मान	डुगडुगी, ढोल, डमरु	ढेंटरा, डुगडुगि	ढोल	पुङ्जाओ थिंदुना पाओ-चेन्बा	डेंगुरा	दंडोरा	दण्डोरा	चण्ड कॉट्टुक	डंगुर
ज़हेरनामुं	घोशणा	डुगडुगी	तद्दारा घोषणा करा	ढोल-कोबाई-शुनोवा-बातरि	–	डेंगुरा	चाटिंपु	दण्डोरा पोट्टु अरिविप्पु	कॉट्टि अरियिप्पुँ	डंगुरसारु घोषणे
धृष्ट	धीट	ढिठो, धृष्ट	ढेटा, अबाध्य, ढीट	धृष्ट	मरिल् याओबा	जिदिआ, तेढ़ा, अबाध्य, धृष्ट	मॉंडि	पिडिवादमान	दुर्वाशि-क्कारन्	दिट्ट
गर्विष्ठ	उद्दंड	ढिठो, उच्छृ-ङ्खल, उत्ताउलो	धृष्ट, उद्धत	गर्बी, अभिमानी	इचङ् थौबा	धृष्ट, उद्धत, गर्बी	उद्दंडमैनॅ	तुडुक्कान	धिक्कारि, अहंकारि	उद्धट
ढीलुं	धील	शिथिल, लस्त	ढिला/ ढिले	ढिला, शिथिल	चोक्थबा कोम्थबा, कोंबा,	ढ़िला, शिथिल	सडलिनॅ	तळर्न्द	शिथिलमाय	शिथिल
जेमां खेंचताणनो अभाव होय	सदळ, सैल	खुकुलो	ढिला; आलगा	ढिला, उजू, सहज	इकोम कोंबा	ढिला, अलगा, भिन्न	वदुलु	तॉय्न्द	अयञ्ञ	अळ्ळक
मोटुं	गळगळीत	खुकुलो	ढिला/ढिले, ढिलेढाला	ढिला, शिथिल	कोंबा	ढिला	वदुलु	तॉळतॉळत्त	अयञ्ञ	सडिल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ढुलाई	स्त्री.	ढोने की क्रिया, भाव या मजदूरी	वहनम्, वहनभृति:	ढुआई	ढुलाई	डुलॉय	ढोआणी	ओझे वाहण्याचें काम किंवा मजुरी
ढूँढ़ना	स. क्रि.	कोई छिपी या इधर-उधर पड़ी हुई वस्तु या आँख से ओझल व्यक्ति का पता लगाना, खोजना	√मार्ग्, √मृग्	ढुंडणा	ढूँढना, तलाश करना	छाँड़ुन, छ़ारुन	ग॒ोलणु, ग॒ोल्हणु	शोधणे
ढेर	पुं.	एक स्थान पर विशेषत: एक-दूसरे पर रखी हुई बहुत-सी वस्तुओं का ऊँचा समूह	राशि:, चय:	ढेर	अंबार, ढेर	डेर	ढेरू, अंबारु	ढीग
ढेला	पुं.	मिट्‌टी या पत्थर का कड़ा टुकड़ा	लोष्ठ:	ढीम,ढेला, ढैम	डला, ढेला	टुल	भितरू	गोटा, लहान दगड, मातीचे ढेकूळ
ढोंगी	वि.	झूठा आडंबर खड़ा करने वाला धोखेबाज, पाखंडी	पाषण्डिन्	पखंडी	रियाकार, ढोंगी	पाखँडी, मकार	ढोंगी	ढोंगी
ढोना	स. क्रि.	पीठ या सिर पर रखकर कोई भारी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना	√वह्	ढोणा	ढोना	सारुन, नॅख्य-सारुन	ढोइणु	ओझे वाहणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वज़न ऊंचकवुं, के तेनी मजूरी	पावोपाचे काम, मजूरी	ढुवानी, ज्याला	ढोलाई	ढोवा कार्य वा भाव बा मज़ूरी	शुबा	मेहेनत, परिश्रम, मूल, मजुरि	मोतँ, मोतकूलि	चुमै कूलि	चुमक्कल्, चुमट्टकूलि	होरुविके, होरुव कूलि
शोधवुं, गोतवुं	सोदप	ढुँड्नु, खोज्नु	खोंजा	बिचार, बिचरा, खुजा	थिबा	खोजिबा	वॅदकुट	तेड	अन्वेषि-क्कुक, तिरयुक	हुडुकु
ढेर, ढगलो	रास	थुप्रो, रास, खात	ढेर, ढेरी	दम, बेचि	पैखत्पा, पैबा, मपै	गदा, राशि	कुप्पॅ, राशि	कुवियल्	कूंपारम्	राशि, गुड्डे
ढेफुं, ढीली	दिफळ	ढेलो, चोइलो	ढेला, ढिल	दलि चपरा	लैतुम, नुङ्दुम	ढेला, पथर	पॅळ्ळॅ	मण-कट्टि	मण्णांकट्ट्	मण्णिन-हेंटे, कल्लिन तुंडु
ढोंगी.	ढोंगी	ढोङी, ढोँगी, पाखण्डी	भण्ड, बुजरुक	कपटी, प्रतारक, शठ	तात् तौबा, नम्थाक् तौबा	धोखाबाज, पाखंडी, भंड, कपटि	मोसगाडु, कपटि	नय वंचगन्	कपटन् वॅकिवेषकारन्	आषाढभूति
भार वहवो	वहांवोवप	ओसार्नु	भार बओया	बैनि बोवा	पोबा, पोत्लूम पुबा	बोहिबा	मोयुटॅ	चुमंदु सेल्ल	चुमक्कुक	होरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तंग	वि.	1. संकरा, संकीर्ण	सङ्कीर्ण	भीड़ा, तंग	तंग	तंग	सोढ़ो, तंग	संकुचित, घट्ट, आवळलेला
		2. आवश्यकता से अधिक कसा हुआ और कुछ छोटा, चुस्त	दृढ़बन्ध	भीड़ा, तंग	कसा हुआ	तंग	–	घट्ट व तंग
		3. परेशान, हैरान, कमी	व्याकुल	तंग	परेशान	तंग	तंग	हैराण, बेचैन
तंतु	पुं.	ऊन, रेशम, सूत आदि का बटा हुआ डोरा, तागा	तन्तुः	तंद	तागा	तार	तागो, धागो	धागा
तंदूर	पुं.	एक तरह का चूल्हा, जिसकी ऊँची गोलाकार दीवार के भीतरी भाग में रोटियाँ चिपका कर बनाई जाती है	बृहच्चुल्ली	तंदूर	तंदूर (तन्नूर)	तोंन्दूर	तंदूरु	चूळ, तंदूर (ओवन)
तंद्रा	स्त्री.	हलकी नींद, ऊँघ	तन्द्रा	ऊंघ, झींक	झपकी (गुनूदगी)	ज़िफ	निंडाखिराई	तंद्रा
तंबाकू	पुं.	एक प्रसिद्ध पौधा और उसके पत्ते जो नशे के लिए अनेक रूपों में काम में लाए जाते हैं	तमाखुः	तमाकू	तंबाकू	तमोक	तमाकु	तंबाखू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तंग	अरुंद, अशीर	साङ्ग्रो, साँघुरो	सङ्कीर्ण, सरू (न)	संकीर्ण, ठेक	अखुबा, अचिन्बा	संकीर्ण, अप्रशश्त	इरुकयिन	कुरुगलान	इटुङ्ङिय	इक्कट्टाद
ताणेलुं, चुस्त	घट्ट	कसिएको	आँट, कसा	अधिक टानि बंधा	–	आण्ट, कसा	बिगुवयिन	इरुगिय	मुरुकिय	बिगियाद
कंटाळेलुं त्रस्त	ताण	हैरान, आजित	हयरान	आमनिकर	–	हइराण, असुबिधा	विसुगत्तिन	ताल्लै- क्कुळ्ळान	विषमिच्च	व्याकुल, पेचाडुव
तंतु, तांतणो	दोरो	धागो, तंतु	तंतु, सुतो	तंतु, सूता, ताँत	अचिन्बा अपिकपा ओत्पगी	तंतु, सुता	दारमु	इळै	नूलॅं, तंतु	दार, नूलु
तंदूर, एक जातनो भठ्ठा जेवो चूलो	तंदूर	तंदुर	तंदुर	रुटि सेका एबिध विशेष चौका	लङला	एक- प्रकार- चूलि	तंदूरु	तंदूर्, रोट्टि अडुप्पु	तंदूर, अटुप्पॅं	मण्णिन ओले कुंपटे
तंद्रा	झेम	तंद्रा, उँघ	तंद्रा, आधो निद्रा	तंद्रा, चिलमिल- टोपनि	अवाङ्बा लैरङ मखल अमा	तंद्रा, हाल्का- निद, छाइ- निद	निद्रमत्तु, तूगु	तूक्क- मयक्कम्	तंद्र अयक्कम्	तूकडिके
तंबाकु (कू), तमाकु	तंबाकू	तमाखु, सुर्ती	तामाक	धँपात	उइबा	तमाखु, दोकता, धुआंपत्र	पोगाकु	पुगैयिलै	पुकयिल	होगेसोप्पु, तंबाकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तंबू	पुं.	शामियाना, खेमा	पटगृहम्	तंबू	शामियाना (ख़ैमा)	शॉमियानुं, खूॅमु	तंबू, शामियानो	डेरा, तंबू
तंबोली (तमोली)	पुं.	पान लगाकर बेचने अथवा पान का व्यवसाय करने वाला	ताम्बूलिक:	तमोली	पानफ़रोश, पनवाड़ी	पानुंवोल	पानवारो	तांबोळी
तकनीक	स्त्री.	शिल्प, पद्धति	विधि:	तकनीक	तकनीक	हॊनर, तकनीक (टेकनीक)	टेक्नीक, तकनीक	तंत्र
तकला	पुं.	सूत कातने और लपेटने के काम आने वाली चरखे से लगी लोहे की सलाई, टेकुआ	तर्कु:	तकला	तकला	यंदरॅतुल, तकली	टकुली	चाती
तकलीफ़	स्त्री.	1. कष्ट, दुख, पीड़ा	व्यथा	तकलीफ	तक्लीफ़	तकुलीफ	तकलीफ़	कष्ट, क्लेश, दु:ख
		2. विपत्ति, संकट	विपत्ति:	–	मुसीबत	तकुलीफ	मुसीबत	संकट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तंबु (बू), डेरो	तंबू	तंबू, पाल, सामियाना	ताँबु	तंबु	छिदाक् मना	तंबू, शामिआना	डेरा, गुडारमु	कूडारम्	कूटारम्	गुडार, डेरे
तंबोळी	पानकार	तमोली, पानपसुले बरही	पान विक्रेता, ताम्ली, बारुइ	तामोल-पाणर-दोकानी	पाना मतप्	पानरा, पान-बिक्रेता (बिकाली)	तमलपाकुलै-नम्मुवाडु	बीडा विर्पवन्	वेंट्टिल-क्कारन्, मुरुक्कान् कटक्कारब्	वीळ्यदेले व्यापारी
तकनिक, टेकनिक, तंत्रविज्ञान	टेक्नीक	सीप, पद्धति, ढङ्ग	टेकनिक, प्रयुक्ति	पद्धति, प्रणाली	थौउङ्, तेकनीक	पद्धति, प्रणाली	पद्धति, टेंकिनिक्कु	तोंळिल् नुट्पम्	टेंक्निक	शिल्प पद्धति
तकलो	चाती	कतुवा	टाकु, टेको, माकु	टाकुरि	तरेङ् मयोत्	तकली	कदुरु	राट्टैक्कदिर्, तक्किळि	चर्खयिल कंपि, स्पिंडिल्	कदिरु
तकलीफ	दुख, पीडा	तकलिफ, दुःख, कष्ट	कष्ट, पीड़ा	कष्ट, दुख, बेयालगा	अवाबा	कष्ट, पीड़ा, दुःख, जंत्रणा (यंत्रणा)	कष्टमु, इब्बंदि	कष्टम्, तोंदरवु	कष्टप्पाटुं	तोंदरे
संकट	कष्ट	सङ्कट, विपत्ति	बिपद, सङ्कट	बिपद, संकट	खुदोङ् थिबा	बिपत्ति, बिपद, संकट, असुबिधा	संकटमु	संगड़म्	आपत्तुं	संकट, विपत्तु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तख्त	पुं.	1. राजसिंहासन	राजसिंहासनम्	तख़्त	तख़्त	तखतुँ, चूक्य	तख़्तु	राजसिंहासन
		2. लकड़ी की बनी बड़ी चौकी	काष्ठपीठम्	चौकी	चौकी	तखतुँ	तख़्तु, संदुलु	लकडी चोकी
तख्ता	पुं.	लकड़ी या आयताकार बड़ा तथा समतल टुकड़ा	काष्ठपट्टः, फलकम्	तखता	तख़्ता	तखतुँ	तख़्तो	तख्तपोशी, लकडी पळा
तट	पुं.	कूल, किनारा, तीर	तटः, तीरम्	कंढा, बन्ना	किनारा (कनारा)	बोंठ	किनारो	किनारा, तट
तटस्थ	वि.	विरोध, विवाद आदि के प्रसंगों में दोनों दलों से अलग और निर्लिप्त रहने वाला, निरपेक्ष	तटस्थ, निरपेक्ष	निरपक्ख	ग़ैरजानिबदार, लातअल्लुक़	लोंब कुन	निरपख, ग़ैरजानिबदार	तटस्थ
तड़पना	अ. क्रि.	1. अत्यंत दुखी होना, छटपटाना, तिलमिलाना	आकुली √भू	तड़फणा	तड़पना	तडपुन	तड़िफणु	तडफडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तख्त, सिंहासन	राज़ शिंवासन	त<u>ख</u>त, राज-सिंहासन	सिंहासन, राजसिंहासन	राज-सिंहासन	निङ्थौगी सिंहासन	सिंहासन, राज-सिंहासन	सिंहासनमु	अरियणै	सिंहासनम्	सिंहासन
पाट	तख्त	खाट, चौकी	बडो चौकि	तक्ता-पोछ, पाट	ऊगी चौकी	पटा, तक्ता	बल्ल॑	उट्कारुम् पलगै	पीठम् इरुप्पिटम्	गद्दुगे
पाटियुं	लाकडाचो तख्तो	फल्याक, फलेक, त<u>ख</u>ता	तख्ता, काठ इत्यादिर पाटा	तक्ता	ऊबाक	तक्ता, पटा	कॉय्यपलक॑, बल्ल॑	पलगै	पलक	मरद-हलगे
तट	किनारो, तड	तट, किनार	तीर, पाड़, तट	पार, किनार	तोरबाल्	कूल, तट, धार	तटमु, ऑडडु	करै	कर, तीरम् तटं	दड, तट, दंडॆ
तटस्थ	तटस्थ	तटस्<u>थ</u>, निष्प<u>क्ष</u>, निरपे<u>क्ष</u>	तटस्थ, निरपेक्ष	निरपेक्ष, तीरवर्त्ती, उदासीन	थैदोक्पा, लाप्थोकपा, याओदबा	निरपेक्ष	तटस्थ॑-मयिन॑	नडुनिलै चार्न्द	तटस्थन्, मध्यस्थन्	तटस्थ, निर्लिप्त
तडफवुं, आतुरताथी तरफड़वुं	तडफडप	तडप्नु, छटपटाउनु	छटपट करा, आकुल हओया	दुखित ह छटपटनि-उठ, अस्थिर ह	चाक्पा, पोरोक् पोरोक् चाक्पा	अस्थिर हेबा, ब्याकुल हेबा, छटपट हेबा, ब्यति-ब्यस्त हेबा	तपिंचुट॑, तनकलाडुट॑	तुडिक्क	पिटयुक	तळमळिसुवुदु, वद्दाडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी वस्तु के लिए बेचैन होना	–	–	बेचैन होना	तडपुन	फथिकणु	तळमळणे
तत्परता	स्त्री.	1. उद्यत होने की अवस्था, गुण या भाव, सन्नद्धता	तत्परता, सन्नद्धता	ततपरता	मुस्तइदी	तनदिथ	चुस्ती, मुस्तइदी, तत्परता	तत्परता
		2. मनोयोगपूर्वक काम करने का भाव, तल्लीनता	तन्मयत्वम्	ततपरता	यकसूई	दिलदिथ	तलीनता	तल्लीनता
तथा	अव्य.	1. दो चीजों, बातों आदि में योग या संगति स्थापित करने वाला एक योजक अव्यय, और	एवम्	ते	और, व, नीज़	तुॅं	ऐं	तथा
		2. किसी के अनुरूप या अनुसार, वैसा ही	तथा	उहोजेहा	वैसा	त्युथुय	उन जहिड़ो	तसाच

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तडपवुं	तळमळप	बेचैन हुनु	अस्थिर हओया, आकुल हओया	आशा पालि र	मीपाइबा	कोणसि- बस्तु पाइं- व्यस्त हेबा, अधिर, आतुर बा- ब्यग्र हेबा	तपिंचुट	तुडिक्क	अस्वस्थ- नाकुक	व्याकुल- नागुवुदु
तत्परता	उमळशीक	तत्परता, मुस्तैदी	तत्परता, उद्यम	तत्परता, शीघ्रता	हैनिङ्बा	तत्परता, उद्यम, शीघ्रता	तत्परत	मुनैप्पु	तत्परत	तत्परते
सज्जता	तल्लीन	तल्लीनता	तत्परता, चेष्टा, तत्परायणता	मनोयोगिता, मनयोग	पुक्निङ् चङ्बा	मनजोग, तत्परता	मनसुं- चि पनि- चेयुट	ईडुपाडु	श्रद्ध, तल्लीनत	तल्लीनते
तथा, अने	आनी	एवम्, एवं, र,	तथा, ओ	आरु, तथा	अमदि, अदुगा, अमसुङ्	तथा, एवं, ओ	मरियु	मेलुम, मट्टुम्	उम्	हागू, मत्तु
ते प्रमाणे, तेम	तशेंच	त्यो जस्तो, त्यस्तै किसिमले	तथा, सत्यता, यथार्थता	सत्यता, तथ्य, यथार्थ, प्रकृत	अदुम्ना	सेहिपरि, तथा	आविधमुगा	अदु पोलवे	अतुपोले	हागे, हगेये

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तथ्य	पुं.	सत्यता, यथार्थता	यथार्थ्यम्	तत्थ	हक़ीक़त	पज़र	सचाई,हक़ीक़त	तथ्य
तन	पुं.	शरीर, देह, जिस्म	देहः, शरीरम्	तन	जिस्म, बदन	तन, शरीर, जिसुॅम	तनु, सरीरु	देह, तन
तनखाह (तनख़्वाह)	स्त्री.	वेतन	वेतनम्	तनख़ाह	तन्ख़्वाह	तनुखा	पघार, तनख़्वाह	वेतन, पगार
तना	पुं.	पेड़-पौधों का जमीन से ऊपर निकला हुआ वह मोटा भाग, जिसके ऊपरी सिरे पर डालियाँ निकली होती हैं, धड़	काण्डः	तणा	तना	गोंड	थुडु	वृक्षाचे खोड
तन्मयता	स्त्री.	मग्न अथवा दत्तचित होने की अवस्था, गुण या भाव	तन्मयत्वम्	मगन	इन्हिमाक, तनदेही	दिलदिथ	तलीनता, एकाग्रता	तन्मयता
तपस्या	स्त्री.	1. मन की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, पाप के प्रायश्चित आदि के लिए स्वेच्छा से किया जाने वाला कठोर आचरण और नियम- पालन, तप	तपस्	तपसिआ	रियाज़त	तपस्या	तपस्या	तपश्चर्या

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तथ्य	सत्य, तथ्य	तथ्य, यथार्थता	तथ्य, सत्यता, यथार्थता	सत्यता, तथ्य	अचुंबा मतौ, अशेङ्बा मतौ	तथ्य, सत्यता, जथार्थता, प्रजुज्यता	यथार्थमु, तथ्यमु	उण्मै	सत्यम्, यथार्थम्	निज, तथ्य
शरीर, देह, तन	कूड, देह	जीउ, शरीर, चोला	तनु, शरीर, देह	शरीर, देह	हक्चाङ्	तन (तनु), शरीर, देह	शरीरमु, तनुवु	उडल्	शरीरम्	शरीर
पगार, वेतन, तनखो	पगार	तलब, महिनाबारी, दरमाहा	बेतन	दरमहा	तोलोप्	बेतन, दरमा	जीतमु	संबळम्	शंपळम्	संबळ, वेतन, पगार
झाडनुं थड	रुखाचें कांड	तना	काण्ड, गुँडि	गा गछ	मऊ	गंडी (बृख्यर)	बोदॅ	अड़िमरम्, तण्डु	तटि	मरद मोटु कांड
तन्मयता, एकाग्रता	तन्मय	तल्लीनता, तन्मयता	तन्मयता	तन्मयता, मग्न, एकाग्रता	पुक्निङ् चङ्बा	एकाग्रता, तन्मयता, मग्न, मज्निबा	तन्मयत्वमु	ऑन्रि-प्पोदल्	तन्मयत	तल्लीनते
तपस्या	तपश्चर्या	तपस्या, तप	तपस्या	तपस्या	तोप् तौबा, तपस्या	तपस्या	तपस्सु	तवम्	तपस्सुॅ	तपस्सु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. कष्ट-सहन	तपस्	–	मशक़्क़त	तपस्या	तसा कढणु, कष्ट सहना	कष्ट सहन करण्याची क्षमता
तब	क्रि. वि.	1. उस समय	तदा	तद, तदों, तां	तब	त्यैंलि	तड॒हिं, तड॒हीं	त्योवेळी, तेव्हां
		2. बाद में	ततः	तदों	उस वक़्त	पतुँ	पोइ, तड॒हिं	नंतर
		3. उस कारण	ततः	तां	इसलिए	तमिकिन्य	तँहिं करे	त्यामुळे
तबीयत	स्त्री.	1. स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी की शारीरिक या मानसिक स्थिति, मिजाज	स्वास्थ्यम्	तबीअत	तबीअत	तबियथ	तबीयत	स्वभाव, तब्येत
		2. मन का रुझान, प्रवृत्ति	मनःस्थितिः	–	मिज़ाज	तबियथ	रुझान	वृत्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कष्ट सहन करवानी शक्ति	सोंसपाची तांक	तप, कष्टसहन	तपस्या, कष्ट-सहन	तपस्या, कष्ट-सहन	अवाबा खाङ्बा	कष्ट-साहिबा, सहनशीलता	तपस्सु	कष्टत्तै मेरुकॉळ्ळल्	कष्टम् सहिक्कल्	कष्ट सहनॆ
त्यारे, ते वखते	तेन्ना, तेदोळ	त्यसै बेला, तबै	तखन, सेइ समय	तेतिया, सेइ-समयत	मतम् अदुदा	तेबे, सेतेबेले, सेहि-समयरे	अप्पुडु	अप्पॉऴुदु	अप्पोळ्	आग, आसमय
पछी	मागीर	पछि, त्यसपछि	परे	पाछत	मतुङदा	मागीर, एक प्रकार पक्षी	तरुवातॆ	पिरगु	पिन्नीटुॅ	आमेले
तेथी	ताका लागून	तब, त्यसकारण	सेइ जन्ये	सेइ कारणे	मरम अदुना	सेहि, से कारणरु	अंदु वलनॆ	आदलाल्	अतुकॉण्टुॅ	आकारण
तबियत, शरीर नी हालत, मननी स्थिति	आरोग्य, भलायकी	स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति	स्वास्थ्य, मेजाज	स्वास्थ्य, शारीरिक वा मानसिक स्थिति	हक्चाङ्गी फिबम्	शारीरिक/ मानसिक स्थिति-बा अबस्था	ऑरोग्यमु	उडल्निलै, मननिले	शरीर-स्थिति	देहस्थिति, आरोग्य, मनस्थिति
वृत्ति	वृत्ती, परिस्थिती	मनस्थिति	रुचि, प्रबृति	प्रबृति, स्वभाव	क्निङ् चङ्बा	मानसिक-प्रबृत्ति, रुचि, स्वभाब	मनस्थिति	मनप्पोक्कु	मन: स्थिति	इच्छॆ, मनस्सु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तमगा	पुं.	पदक	पदकम्	तमगा	तमग़ा	तोंगमुं	ब़िलो, तमग़ो	पदक, बिल्ला
तमाचा	पुं.	थप्पड़, झापड़, चाँटा	चपेट:	चपेड़, चंड	तमाँचा	थापुॅर	थफड़, चमाट	थप्पड, चपराक
तमाशा	पुं.	1. मनोरंजक दृश्य	हेला	तमाशा	तमाशा	तमाशुं	तमाशो	करमणूक, मनोरंजक दृश्य, तमाशा
		2. अद्‌भुत बात	कौतुकम्	–	अजीब बात	तमाशुं	अजीब ग़ाल्हि	अद्‌भुत गोष्ट
तय करना		1.फैसला या निर्णय अथवा निश्चित करना	वि + निर् + चि	तै करना	तय करना	अँज़रावुन	तइ करणु	ठरविणें, निर्णय, निर्णित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चंद्रक, पुरस्कार, श्वोर्ड	पदक	तक्मा, पदक	तक्मा, पदक	पदक	मेडल, तकमाल	पदक, पुरस्कार	पदकमु	पदक्कम्	मेडल्, पतक्कम्	बिल्ले, पदक, मेडलु
तमाचो, थप्पड़, लपडाक	थापट	चड्कन, झापड, थप्पड	थाप्पड़, चड़	थापर, घोचा, खकरा मुकुटि	खुबाक्ना थाबा, खुपाक्ना थाबा	चापुड़ा	चंपदॆब्ब	कन्नत्तिल् अऱै	अटि, प्रहरम्	केन्ने एटु
तमाशो (सो)	तमासो	तमासा, रमिता	तामाशा	खेल, हास्यपूर्ण नाटक आदि मनोरजंक दृश्य	कूम्है	तामसा, हास्यपूर्ण मनोरंजक-दृश्य	तमाषा	वेडिक्कै	नेरम् पोक्कुं, कळि तमाश	तमाशे, मोजु
अदभुत वात	अद्भूत गज़ाल	अनौठो खेल, अनौठो कुरा	तामाशा	आचरित कथा	अङ्कपा कूम्है	अदभूत-कथा, आश्चर्ज्य-कथा	विनोदमु	वेडिक्कै	अद्भुत कार्यम्	अद्भुत संगति
निश्चय करवो	थारावप, ठरोवप	निधो गर्नु, फैसला गर्नु	निश्चय करा, मीमाङ्शा करा	समाधान करा, पूर्ण करा, निर्धारण	पुक्निङ्ना लेप्पा	निर्णय-करिबा, निश्चय बा-निश्चित-करिबा, समाधान-करिबा	निर्णयिंचुट	तीर्मानिक्क	निश्चयि-क्कुक	तीर्मानिसुवुदु, निश्चय-माडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. (रास्ता आदि) पूरा या समाप्त करना	लङ्घनम्	–	ख़त्म करना	तय करुन	–	संपविणें
तरंग	स्त्री.	1. पानी की लहर, हिलोर	तरङ्गः	तरंग	लहर	तरंग, लॅहर	तरंग, लहर	लाट, तरंग
		2. उमंग	उत्साहः	उछाह	मौज	तरंग, लॅहर	तरंग, लहर	उत्साह
		3. स्वरलहरी	स्वरलहरी	–	तरंग	तरंग, लॅहर	सुर–लहर	स्वरलहरी
तरकीब	स्त्री.	1. उपाय, युक्ति	युक्तिः	उपा	तर्कीब, बनावट	तरकीब, वथ, वोंपाय	तरकीब	युक्ती, उपाय
		2. ढंग, तरीका	उपायः	तरीका	ढंग	तरकीब, वथ, वोंपाय	तरीक़ो	रीत, पद्धत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
(रस्तो) पूरो करवो	सोंपवप	समाप्त गर्नु, पार गर्नु	फुरानो/ पुरनो	शेष करा, संपूर्ण कर	चत्लुबा	पूरा- करिबा, शेष- करिबा, संपूर्ण- करिबा	दाटुट	कडक्क	कटक्कुक, ताण्टुक	सागुवुदु
तरंग	ल्हार	छाल, तरङ्ग	तरङ्ग, ढेउ	ढौ, तरंग	इथक्	तरंग, ढेउ, लहरि	तरंगमु, अल	अलै	तिर	अले
उमंग	उत्साह	उमङ्ग	मनेर आबेग	उत्साह	इपोम्	उत्साह, आबेग, उद्विग्ना	उल्लासमु	उर्चाहम्	उत्साहम्	हुरुपु
स्वरलहरी	सूरा ची तरंगा	स्वर- लहरी, सुर- तरंग	लहरी, सुर- तरंग	स्वर- लहरी, सुर तरंग	स्वर इपोम्	स्वर- लहरी, स्वरर लय, ताल, सावलील भंगि	स्वर लहरि	नदि अलै	स्वर लहरि	स्वरलहरि
तरक़ीब युक्ति	उपाय, युक्ती	तरकिब, तरकिप, जुक्ति	उपाय	उपाय, पथ	उपाय, पांबै	उपाय, पथ, रास्ता	उपायमु	वऴि, उक्ति	उपायम्, वऴि	उपाय, युक्ति
ढंग, रीत, मार्ग	रीत, पद्धत	ढङ्ग, तरिका	ढंग, रीति पद्धति, प्रणाली	उपाय, प्रणाली	मओङ्	ढंग, उपाय, प्रणाली, पद्धति	पद्धति	मुरै, वगै	मट्टु, रीति	रीति, बगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तरक्की	स्त्री.	1. प्रगति, बढ़ोतरी, उन्नति	उत्कर्षः	तरक्की	तरक़्क़ी, बरतरी	तरकी	तरक़्क़ी	उन्नती, प्रगती
		2. पदवृद्धि, पदोन्नति	पदोन्नतिः	तरक्की	बुलंदी	–	–	पदोन्नती, बढती
तरह	स्त्री.	ढंग, प्रकार, तरीका, किस्म	प्रकारः	तरां	तरह	पॉठ्य	तरह	प्रकार
तरीका	पुं.	1. रीति, ढंग	विधिः	तरीका	तरीक़ा	तरीकुॅ	तरीक़ो	रीत, पद्धत
		2. उपाय, युक्ति	उपायः	उपा	हल	तरीकुॅ	–	उपाय, युक्ती
तरुण	वि.	जवान	तरुण	जवान	नौजवान	जवान	जवानु	तरुण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रगति, उन्नति, आबादी	प्रगती, उन्नती	तरक्की, उन्नति, प्रगति	प्रगति, उन्नति	उन्नति	चाओखत्पा, हायगत्-लक्पा	प्रगति, उन्नति, अग्रगति	पॅरुगुदल	मुन्नेट्ट्म्	उन्नति	प्रगति, उन्नति
चडती	पदोन्नती	बढुवा, पदोन्नति	पदोन्नति	पदोन्नति, प्रगति	फम् काबा	पदवृद्धि, पदोन्नति	उन्नति	पदवि उयर्वु	स्थान-क्कयट्टम्	पदोन्नति
प्रकार	प्रकार	प्रकार, भाँति, तरिका, सरह	प्रकार, रीति, ढंग	प्रकार, धरन, बिधि	ममोङ्, मओङ्-मतौ	प्रकार, रीति, बिभिन्नता, ढंग	रकमु, विधमु	मादिरि, मुरै	रीति	रीति
रीत	रीत, पद्धत	तरिका, रीति, ढङ्ग	रीति, ढंग	रीति, प्रणाली, आचार पद्धति	मओङ्	उपाय, प्रणाली, रीति, प्रथा	पद्धति	वळि, मुरै, विदम्	रीति, विधम्, तदम्	रीति
मार्ग, रीत	उपाय	उपाय, जुक्ति	उपाय, युक्ति (ज)	उपाय, युक्ति, परामर्श	उपाय, पांबै	उपाय, रीति, जुक्ति	उपायमु, युक्ति	युक्ति, वळि	उपायम्	उपाय
तरुण, जुवान, युवान पुरुष	तरुण	तरुनो, तन्नेरी	तरुण, युबक	तरुण, डेका, युवा कमबयसीया	नहा ओइबा, इनखत्-लक्पा	तरुण, जुआन	युवकुडु	इळैञन्, वालिबन्	युवावुँ, तरुणन्	तरुण, युवक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तर्क	पुं.	युक्ति, दलील	युक्तिः, तर्कः	तरक	दलील	दलील	दलीलु, तर्कु	तर्क
तल	पुं.	1. निचला भाग, पेंदा, तला	तलम्	थल्ला	तह	चोंक	तरो	बूड, तळ भाग
		2. ऊपरी सतह	तलम्	–	सतह	–	मथाछिरो	वरील स्तर
तलवा	पुं.	पैर के नीचे का भाग, पदतल	पादतलम्	तली	कफ़ेपा, तलवा	तलपोंद	तिरी (पेर जी)	पायाचा तळवा, पदतळ
तलवार	स्त्री.	लोहे का एक लंबा धारदार हथियार, खड्ग	खड्गः, कृपाणम्	तलवार	तल्वार	तलवार	तलवार	तलवार
तला	पुं.	1. पेंदा	तलम्	थल्ला	तला	चोंक	तरो	बूड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तर्क, विचार प्रक्रिया	तर्क	तर्क्, बहस	तर्क, युक्ति (ज)	युक्ति, तर्क, उपाय, परामर्श	मरै, तर्क	तर्क, जुक्ति	युक्ति, तर्कमु	तरुक्कम्, वादम्	युक्ति, वादम्	युक्ति, तर्क
तल, तळ, तळियुं	तळ	तल्लो भाग, पींध	तल, तला	तलि, अधोभाग, तला	मखा, मखा थङ्बा शरूक्	तल, निम्न-भाग	अडुगु	कीळ् बागम्	तलम्, चुवट्टुं, अटि भागं	अडि, तळ, बुड
सपाटी	वयली सपाटी	माथिल्लो तह	उपरि स्तर	ओपर फाल	मथक् थङ्बा शरुक	उपर-स्तर	उपरि तलमु	मेल् बागम्	मेल्तळम्, मेल्भागम्	अडि, तळ, बुड
तळियुं, छेक नीचेनो भाग, पगनुं तळियुं	पांयाचो तळवो	तलुवा, पैताला	पदतल (पायेर तला)	भरिर-तलुवा	खोङ्या	पादर तल-अंश, पाद-तल	अरिकालु	उळ्ळंकाल्	उळ्ळंकाल्	अंगालु
तलवार, खड्ग	तलवार	तरबार, तरवार, खड्ग	खड्ग, तरबारि, कृपाण (न)	तरोवाल, हेंदान	थाङ्शाङ्	खण्डा, तरबारि, कृपाण	कत्ति	वाळ्	वाळ्, खड्गम्	कत्ति, खड्ग
तळी, सखतळी	पोंद	पींध	तला, सुकतला (जुतोर)	तलि, तला अधो भाग	मखा	तल	अडुगु भागमु	अडिबागम्	चुवट्टुं	अडि, तळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जूते के नीचे का चमड़ा	तलम्	तला	तला	पार	–	जोडयाच्या, खालचे चामड़े
तलाक	पुं.	वैधानिक रीति से विवाह-संबंध का विच्छेद	विवाह-विच्छेद:	तलाक	तलाक़	तलाख, मोंकुँजार	तलाक़	घटस्फोट, काडी-मोड
तसल्ली	स्त्री.	1. ढाढ़स, दिलासा, सांत्वना	सान्त्वना	तसल्ली	तसल्ली	तसली	तसल्ली	सांत्वना, दिलासा
		2. संतोष	सन्तोष:	संतोख	इतमिनान	–	संतोष	संतोष, समाधान
तसवीर	स्त्री.	चित्र	चित्रम्	तसवीर	तस्वीर	तसवीर	तस्वीर	तसबीर, चित्र
तस्कर	पुं.	देय शुल्क चुकाए बिना अवैधानिक रूप से एक देश का माल दूसरे देश में पहुँचाने वाला	तस्कर:	समगलर, तसकर	इस्मगलर	गुज़रचूर, स्मगलर	तस्करु, चोरीअ मालु आणींदड़ु, स्मगिलर	स्मगलर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जोडानां (पगनां तळियाने अडीने रहेती) चामड़ानी पट्टी	ज़ोत्याचो तळ	तलुवा	तला (जुतोर)	जोतार-तला भागर चामरा	खोङ्खा	जोता-तलर-चमड़ा	चॅप्पु अडुगट्टॅ	अडित्तोल् (शॅरुप्पिन)	चॅरिप्पिन्टॅ अटित्तोल्	अट्टे (जोडिन)
तलाक (तल्लाक), छूटाछेडा, फारगति	घटस्फोट, सोडचीट	पारपाचुके, पाचुके	तालाक, बिबाह-बिच्छेद	बिबाह-बिच्छेद	खाइनबा	छाड़-पत्र	विडाकुलु	विवाह रद्दु	विवाह-मोचनम्	विवाह-विच्छेद
सांत्वन, दिलासो, धीरज	दिलासो	सांत्वना, ढाडस	धैर्य, सांत्वना	सांत्वना, भरसा	थेंबा, फाथबा	भरसा, आश्वासना/ सांत्वना	ऊरटॅ, धैर्यमु	आरुदल्	समाधानम्, सांत्वनम्	समाधान
—	संतोश	सन्तोष	सँतोष	संतोष	पेन्बा	संतुष्ट, संतोष	संतृप्ति	मन निरैवु	तृप्ति	तृप्ति, खुशि
तस्वीर, चित्र, छबी	चित्र	चित्र, तस्बिर	छबि, चित्र, तस्विर	चित्र, छबि	लाइ अयेक्पा	चित्र, छबि	बॉम्मॅ	पडम्, चित्तिरम्	चित्रम्, पटम्	पट, चित्र
तस्कर, दाणचोर	स्मगलर	तस्कर	चोरा कारबारी, चोर	चोरां-ब्यवसायी, असाधु-ब्यवसायी	स्मगलर	चोरा-बजारी, कला बजारी, असाधु-ब्यबसाय	तस्करुडु, दॉंगॅ व्यापारि	कळ्ळ-क्कडत्तल् कारन्	कळ्ळ-क्कटत्तुकारन्	कळ्ळ-सागणे-माडुववनु, सुंकगळ्ळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तह	स्त्री.	परत	स्तरः	तहि	तह	ताह	तहु	स्तर, तळ
ताकना	स.क्रि.	देखना	निर्निमेषं √दृश्	तक्कणा	ताकना	वुछुन	तकणु, झांकणु	टक लावून
तागा	पुं.	डोरा	तन्तुः, सूत्रम्	धागा	धागा	पन	धागो	धागा, दोरा
ताज	पुं.	राजमुकुट	किरीटः, राजमुकुटम्	ताज	ताज	ताज	मुकुटु	राजमुकुट
ताजा	वि.	1. जो अधिक दिनों का या बासी न हो	नव	ताज़ा	ताज़ा	सॉदुॅरवार, ताज़ुॅ	ताज़ो	ताजें
		2. प्रफुल्लित और स्वस्थ	प्रफुल्लित, स्वस्थ	–	तंदरुस्त, नया	ताज़ुॅ	–	प्रफुल्लितं
ताड़ी	स्त्री.	ताड़ के वृक्ष से निकला हुआ सफेद मादक रस	तालरसः	ताड़ी	ताड़ी	ताड़ी	ताड़ी	ताड़ी
ताना-बाना	पुं.	बुनाई के समय क्रमशः लंबाई तथा चौड़ाई के बल फैलाए या बुने जाने वाले सूत	तन्तुविधानम्	ताणा-पटा, ताणा-बाणा	ताना बाना	यॅन्य-वोनुन	ताञी-पेटो	उभे आडवे धागे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्तर	थर, तळ	तह्, स्तर	भाँज, स्तर	तरप, स्तर	मरोल	भांग, स्तर	मडतॅ	मडिप्पु, अट्टि	मटक्कुँ, अटुक्कुँ, अट्टि	पदरु
टकटक जोणु	तेळप	नियाल्नु, हेर्नु	ताकानो, देखा	चा दृष्टिकर, विबेचनाकर	येङ्बा	देखिबा, नजर रखिबा	चूचुटॅ	उट्टु नोक्क	सूक्षिच्चु नोक्कुक	नोड्डु निट्टिसुवुदु
दोरो	धागो, दोरो	धागो, तंतु	तामा, सुता/ सुतो, डोर	सूता	लङ्	सूता, डोर	दारमु	नूल्, कयिरु	नूल्, चरटुँ	दार
राजमुगट	राजमुकूट	राजमुकुट, श्रीपेच	राजमुकुट, ताज	मुकुट, राजमुकुट	लूहुप्	राजमुकुट, मुकुट	किरीटमु	मगुडम्, किरीडम्	किरीटम्	किरीट
ताजुं, नवुं, लोलुं	ताजें	ताजा	टाटका, ताजा	नतुन, गरम, ताजा	अतेक्पा	तटका, ताजा	सरिकॉत्तॅ, ताजा	पुत्तम्पुदिय	पुत्तन् पुनिय	ताजा
प्रफुल्लित, थाक, वगरनुं	तट्टटीत	ताजा, प्रफुल्लित	–	ताज़ा उत्फुल्ल	अशात्पा, तिक्-तिक् लाओबा	नूतन, नूआ, सतेज	विकसिं- चिनॅ	पुत्तम् पुतिय	पळकात्त	स्वस्थ
ताड़ी	ताडी	ताडी	ताड़ि, खेजुर-रस	खाजुर गछर रस, ढेंगरमद ताड़ी	ताङ्गी महि, रस	–	कल्लु	कळ्	कळ्ळुँ	कळ्ळु, हेंड
ताणो वाणो	ताणो वाणो	ताना- बाना	टाना- पड़ेन	दीघ- पथालि	मयुङ् मफेल	तानाबाना, ताणमाण	पड़ुगु-पेकॅ	पावु नूल, ऊडु नूल	ऊटुम् पावुम्	हासु होक्कु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ताप	पुं.	1. उष्णता, गरमी	तापः	ताप	हरारत	ताफ, गरमी	तपति	उष्णता
		2. ज्वर, बुखार	ज्वरः	ताप, बुखार	बुख़ार	तफ	तपु	ज्वर, ताप
		3. उष्मा	ऊष्मन्	तपाउ	गर्मी	वुश्नेर	गर्मी	ऊष्मा
तापमान	पुं.	थर्मामीटर आदि द्वारा मापी गई ताप की मात्रा	तापमानम्	तापमान	दरजए-हरारत	दरजि हरारथ	गर्मी-पदु, तापमान	तपमान
ताम्रपत्र	पुं.	1. ताँबे की पत्तर	ताम्रपत्रम्	तांबे दा पत्तर	तांबे की तख़्ती	त्रामुॅ पोॅट	टामे जो पटु	तांब्याचा पत्रा
		2. ताँबे का वह पत्तर, जिस पर महत्वपूर्ण बात स्थाई रूप से लिखी गई हो	ताम्रपत्रम्	तामर-पत्तर	–	त्रामु पोॅट	ताम्रपत्रु, टामे जो पत्रो जंहिं ते कुछ लिखियलु हुजे	ताम्रपत्र
तार	पुं.	1. धातु का तागा-रूप	तन्तुः	तार	तागा, धागा	तार	तार	तार (धातूची)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ताप, गरमी, आंच	उष्णता	ताप, उष्णता	ताप, उष्णता	ताप, उष्णत्ता, ताप-ज्वर, मनर दु:ख	मैशा	ताप, गरम, उष्मता	वेडि, तापमु	वेंप्पम्, चूडु	चूटुँ	बिसि, काउ
ताव	ज़ोर	ज्वरो, जरो, ज्वर	ज्वर	ज्वर, जर, उत्ताप	लाइहौ	जर, ज्वर	ज्वरमु	जुरम्	ज्वरम्, पनि	ज्वर
उष्मा	उष्मा	उष्मा	उष्मा, राग	उष्मा	अशाबा	ताप, उष्म, गरम	वेडि	उष्णम्, वेंप्पम्	ऊष्मावुँ, चूटुँ	ताप
तापमान	तापमान	तापमान	तापमान	तापमान, उष्णता-निरुपन करा	अइङ्-अशा, टेंम्परेचर	ताप, ताप-मात्रा	शीतोष्ण स्थिति, उष्णोग्रत	वेंप्प निलै	तापनिल, टॅंपरेचर	उष्णतामान
ताम्रपत्र	तांब्याचे तगड	तामाको पाता, ताम्रपत्र	तामार-पात	तामर पात	कोरीगी शेंपाक्	ताम्रपत्र	ताम्रपत्रमु	तामिरत् तगडु	चेंपुत्तकिटुँ ताम्रपत्रम्	ताम्रद तगडु, फलक
ताम्रपत्र	ताम्रपत्र	ताम्रपत्र	ताम्र-फलक, फलक	ताम्रपत्र, तामर-पात, तामर-फलक	कोरी-कोंग्याक् हक्तुना इननबा	ताम्रपत्र, ताम्र-फलक	ताम्र शासनमु	चेंबु पट्टयम्	चेंपुपट्टयम्, ताम्रपत्रम्, चेप्पेटुँ	ताम्रशासन
तार, तंतु	तार (धातुची)	तार	तार	ताँर, तंत्री, धातुर-जरी	तारा, वायर	तार	तीगं	कंबि	कंपि	तंति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. तार द्वारा समाचार या वह कागज जिस पर उक्त समाचार पहुँचाया जाता है	तार-सन्देशः	–	तारेबर्क़ी	तार	तार	तार (पोस्टाची)
तारकोल	पुं.	अलकतरा, काले रंग का एक गाढ़ा द्रव, जो लकड़ी आदि रँगने के काम आता है	अङ्गारसारः	तारकोल	तारकोल	तारकोल	डामरु	डाँबर
तारतम्य	पुं.	क्रम, क्रमबद्धता	तारतम्यम्, क्रमबद्धता	सिलसिला	तसल्सुल	सिलसिलुॅ	सिलसिलो	तारतम्य
तारा	पुं.	1. नक्षत्र, सितारा	तारा	तारा	सितारा	तारुख	तारो	नक्षत्र, तारा
		2. आँख की पुतली	तारा	–	मर्दुम	मुॅन्य फोंल	–	डोळयांतील बाहुली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तार (टपालनो)	तार (पोस्ट)	तार, तार-खबर	तार, टेलिग्राम	टेलिग्राम, तार	टेलीग्राम	तार, टेलिग्राम	तंति	तंन्दि	कंपि, टेलिग्राम्	तंति, तंतिवार्ते
डामर	डांबर	अलकतरा, अलकत्रा	आलकातरा	आलकातरा	अलकतारा, अमुबा मचुंगी ऊदा तैननबा महि	पिचु, आलकातरा	तारु	तार्	टार्, कीलुॅ	डांबरु
तारतम्य	तारतम्य	तारतम्य्, क्रमबद्धता	तारतम्य, क्रमबद्धता	तारतम्य, क्रमबद्धता	मरोल मान्नना थंन्बा	संतुलन, भारसाम्य, तारतम्य-क्रम, क्रमान्वय	तारतम्यमु	ओंळुंगु, वरिशैक्कि-रमम्	क्रमम्, अटुक्कुॅ	तारतम्य
तारो	नख़ेत्र, तारो	तारा, नक्षत्र	तारा, तारका	तरा, नक्षत्र	थवान मिचाक्	तारा, तारका, नक्षत्र	नक्षत्रमु, चुक्कॅ	नक्षत्तिरम्, विण्मीन्	नक्षत्रम्	नक्षत्र
आंखनी कीकी	दोळयांतली बावली	पुतली, आँखाको नानी	तारा, मणि	चकुर-मणि	मित् नहा	आखि-पुतला, तारा बा-मणि	कंटिपापॅ	कण् मणि	कृष्णमणि	कण्णिनपापे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तारीख	स्त्री.	दिनांक, तिथि	तिथि:	तरीक	तारीख़	तॉरीख	तारीख़	तारीख
तालमेल	पुं.	समन्वय, संगति	सङ्गति:, समन्वय:	तालमेल	हमआहंगी	हिशर	तालमेलु, लागापो	ताळमेळ
ताला	पुं.	दरवाजा, संदूक आदि बंद करने का उपकरण	तालकम्	जंदरा, ताला	क़ुफ़्ल	कुलुफ	कुलुफ़, तालो	कुलूप
तालाबंदी	स्त्री.	कारखाने आदि का उसके मालिक द्वारा अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाना	तालक-पिधानम्	तालाबंदी	तालाबंदी, क़ुफ़लबंदी	कुलुफ लगुन, तालुॅबंदी	तालेबंदी	ताळेबंदी
तालाब	पुं.	पोखर, सरोवर	सरस्, ह्रद:	तलाअ, तलाउ	तालाब	तलाव	तलाउ	तळे, तलाव
तालिका	स्त्री.	सूची	तालिका, सूची	फ़ेहरिस्त	फ़िहरिस्त	सूची, लिस्ट	सूची, लिस्ट, फ़हरिस्त	सुची
तावीज	पुं.	चाँदी, सोने आदि का वह छोटा संपुट, जो रक्षा कवच के रूप में गले या बाँह पर पहना जाता है	यन्त्रम्	तवीत	तावीज़	तॉवीज़	तावीज़ु	ताईत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तारीख	तारीक़	तारिख, मिति	तारिख	तारिख, तिथि	तारीख, ताङ्	तारिख, दिन, दिबस, तिथि	तारीखु, तेदी	तेदि	तीयति	तारीखु, दिनांक
तालमेल	ताळमेळ	तालमेल, तालमाल	समन्वय, संगति	समन्वय, मिल	चाशिन्नबा, चान्नबा	समन्वय, मेला	पोंदिकँ	शीरान इणैप्पु	समन्वयम्	समन्वय, होंदाणिकॅ
ताळुं	कुलुप	ताल्चा	ताला, कुलुप	तला बँधकरा यतन	वाइखू	ताला, कोलप	ताळमु	पूट्टु	पूट्टुँ, ताळुँ	बीग
ताळुं देवावुं ते	ताळाबंदी	तालाबंदी	तालाबंदि	तलाबंध	शो लोंदुना थंब्बा	तालाबंदी, बंद	तालाबंदी, लाकउट	कदवडैप्पु	लॉक औट्	कार्मिक बहिष्कार, बीग मुद्रे
तळाव	तळें	पोखरी, तलाउ	पुकुर, सरोबर	पुखुरी, सरोबर	पुखि	पुष्करिणी, पोखरी, सरोबर	सरोवरमु, चॅरुवु	कुळम्	कुळम्	केरे
सूची, अनुक्र-मणिका, यादी	लिस्ट, वळेरी	तालिका, सूची, फेहरिस्त	तालिका, सूची पत्र	सूची, तालिका	परिङ्	तालिका, सूची पत्र	जाबिता	पट्टियल्, जाबिता	सूचिक, पट्टिक	पट्टि, सूचि
तावीज	तावीज़	जंतर	ताबिज, मादुलि	ताबिज	जंत्र	ताबिज, डेउंरिआ	ताइत्तु	तायत्तु	रक्ष, यंत्रम्	तायित, यंत्ररक्षॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ताश	पुं.	गत्ते या दफ्ती के 52 पत्ते, जिनसे विभिन्न खेल खेले जाते हैं	क्रीडापत्रम्	ताश	ताश	तास	ताश/तास	पत्ते, पत्याचा खेळ
तिजोरी	स्त्री.	लोहे की वह मजबूत छोटी अलमारी या पेटी, जिसमें कीमती वस्तुएँ रखी जाती हैं	धनमञ्जूषा	पेटी, तिजौरी	तिजोरी	सेफ	टिजोड़ी	तिजोरी
तिथि	स्त्री.	चंद्रमास के किसी पक्ष का कोई दिन अथवा उसे सूचित करने वाली कोई संख्या	तिथि:	थित्त	तारीख़	त्यथ	तिथी	तिथी
तिनका	पुं.	तृण, घासफूस	तृणम्	तीह्ला	तिनका	गासुॅ तुज	कखु, तिनको	तृण, काडी
तिपाई	स्त्री.	बैठने या सामान रखने की तीन पायों वाली ऊँची चौकी	त्रिपादिका	तिपाई	तिपाई	तिपायि	टिपाई	तिवई
तिमाही	वि.	हर तीसरे महीने का, त्रैमासिक	त्रैमासिक	तिमाही	सहमाही	त्रुॅमाही	टिमाही	त्रैमासिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गंजीफो	इस्पीक, तस्पीक	तास	तास	ताच	जुवार चे, प्लेंइग कार्ड	ताश	चीट्लपेकॅ	विळैयाडुम् चीट्टु	चीट्टु	इस्पीटु
तिजोरी (सोनुं, धन पगेरे राखवानी पेटी के कबाट)	तिज़ोरी	ढुकुटी, भँडार, तहबिल	लोहार सिंदुक, गहना ओ टाकार सिंदुक	लोहार बाकच बा आलमारि, संदुक	योत्की सना-लुपा हाप्नबा उपु मचा, तिजोरी	लुहा-सिंदुक	इनुपपॅट्टॅ	इरुंबुप्पॅट्टि	इरुंपुपॅट्टि, पणप्पॅट्टि	तिजोरि
तिथि	तिथी	तिथि, मिति	तिथि, तारीख	तिथि	ताङ्, तारीख	तिथि	तिथि	तिदि	तिथि	तिथि
तृण, तरणुं	तणाकाठी	घाँसपात, तृण	तृण, खड़कुटा, घास	तृण, घाँह, वन	नापी, चरु	घास, तृण	गड्डिपोचॅ	तुरुंबु, पुल्	पुल्लुॅ, तृणम्	हुल्लु कड्डि
टिपाई	टीपॉय	तिरपाइ, त्रिपाइ	तेपाया, टिपाई	जाति, त्रिपादी	मखोङ् अहुम पान्बा फाल्, स्टूल	त्रिपादी	टीपाइ	मुक्कालि	स्टूळ्, मुक्कालि	मुक्कालु मर्ण, टीपाइ
त्रिमासिक	त्रैमासिक	तीन-महिने, त्रैमासिक	त्रैमासिक	त्रैमासिक, तिनि-महीया	था अहुमगी ओइबा	त्रैमासिक	त्रैमासिकमु	काल् वरुडत्तिय	त्रैमासिकम्	त्रैमासिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तिरंगा	वि.	तीन रंगों वाला	त्रिरङ्ग, त्रिवर्णिक	तिरंगा	सहरंगा, तिरंगा	तिरंगॅ	टिरंगो	तिरंगी, तीन रंगी
तिरपाल	पुं.	राल या रोगन चढ़ाया हुआ एक प्रकार का मोटा कपड़ा	शिविरपट	तिरपाल	तिरपाल	त्रुपाल, तरपाल	तिरपालु, तालपत्री	ताडपत्री
तिलक	पुं.	केसर, चंदन आदि से ललाट पर लगाई जाने वाली गोल बिंदी या लंबी रेखा, टीका	तिलकम्	तिलक	तिलक, क़श्क़ा	ट्योंक	तिलकु	गंध, टिळा, तिलक
तिलमिलाना	अ. क्रि.	1. बेचैन या विकल होना	आकुली + √भू	तिलमिलाउणा	तिलमिलाना	छ्रटुॅछ्रठ-करुॅन्य	बेचैन या व्याकुल थियणु	कळवळणें
		2. बौखलाना	उद् +विज्	–	बौखलाना	वोरुन	चिड़णु, नाराज़ थियणु	कातावणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
त्रिरंगी	तिरंगी	तिरङ्गा, तीन रङ्गको	तेरङ्गा	तिरंगा, तिनिरङर	मचु अहुमगी	त्रिरंगी, तिनि-रंगर	मुव्वन्नॆल	मूवण्णम्	त्रिवर्णम्	त्रिवर्ण
ताडपत्री	ताडपत्री	मैनकपडा, तार्पुलिन	तेरपल, त्रिपलं	तिरपल, त्रिपल	नोङ्जु नुङ्शा खन्नबा अथाबा फी मखल अमा	केरपाल	केन्वासु गुड्डॆ	तार् पाय्	टार्पोळिन्	टार्पालु
तिलक, ठीक्को	तिळो	तिलक, टिको	तिलक, फोंटा, टिका	फौंट	चंदोल	तिलक, टिका	तिलकमु	त्तिलगम्, पॉट्टु	त्तिलकम्, पॉट्टु	तिलक, नॉट्टु
तरफडवुं	कळवळप	छटपटाउनु, बेचैन हुनु	ब्याकुल हओया	बिचलित-ह,	मिपाइबा लाङ्त-क्नबा	ब्याकुल-हेबा, बिकल-हेबा, इतस्तत हेबा	व्याकुल पडुटॆ	तुडित्तुप्पोग	पिटक्कुक	तळमळिसुवुदु
गभरावुं	ॼवताळप	तात्नु, झोकिनु	रागे गुमरानो	खंकर, ओफोंदा छाटिफुटि	शाथिना शाओबा	क्रोध बा-रागरे-निरब-रहिबा	मंडिपडुटॆ	मनम् कुऴंब	विरळुक	क्रोधांधना-गुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तिलांजलि	स्त्री.	सदा के लिए किसी से संबंध विच्छेद	तिलाञ्जलि	तिलांजली	फ़ातिहा (पढ़ना)	त्यलंजॅली, दर्कुंद्यन	तिलांजली	तिलांजली
तीक्ष्ण	वि.	1. तेज नोंक या धार वाला, तीखा, तेज	तीक्ष्ण	तिक्खा	तेज़	तेज़, नोखदार	तिखो	तीक्ष्ण
		2. उग्र, कटु	तीक्ष्ण	–	तीखा	तेज़	तेज़	उग्र, कटु
तीखा	वि.	1. कटु, अप्रिय	तीक्ष्ण	तिक्खा	तुर्श	ट्यॉठ	तिखो, तुर्श, कौड़ो	तिखट, अप्रिय
		2. चरपरे स्वाद वाला	तिक्त	करारा, चटपटा	तीखा	ट्यॉठ	तिखो, घणे मिर्च–मसालेवारो	झणझणीत
		3. तेज नोंक या धार वाला	निशित	तिक्खा	तेज़	नोखदार	तिखो	अणुकुचीदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तिलांजलि, रुखसद	तिलांजली	तिलाञ्जली	तिलाञ्जलि	तिलांजलि	मतम चुपगी ओइना खाइदो- क्नबा, खाइनबा	जलांजलि, बिच्छेद	तिलोदक- मुलिच्चुट्, विडिचि- पेट्टुट्	ऑरे अडियाग तांडवैं अरुत्तुक्- कॉळ्ळल्	तिलांजलि, उपेक्षिक्कल्	संबंध, बिड़ुवुदु तिलांजलि
तीक्ष्ण, बारीक	तीक्ष्ण	तीखो, धारिलो, तेज	तीक्ष्ण, धाराल	तीक्ष्ण, चोका, धारथका	अतुंबा, अथौबा	तीक्ष्ण, धारुआ	तीक्ष्ण मयिन	कूर्मैयान	तीक्ष्णम्, मूर्च्चयुळ्ळ	चूपाद, तीक्ष्ण, हरित
उग्र, कटु	उग्र	उग्र, कटु	उग्र, कटु	उग्र, कटु	शाथिबा, तमथिबा	उग्र, कटु, कड़ा	उग्रमयिन	कडुमैयान	उग्रमाय	उग्र, कटु
तीखुं	तिखट	कटु, अप्रिय	कटु, कड़ा	कटु	अखाबा, नुङशिदबा	पिता, कटु	कटु- वयिन, तीक्ष्णमयिन	मनदुक्कु पिडिक्काद	अप्रियम्	अप्रिय, कटु
–	मचमचीत	तिक्खर, चखिलो स्वाद भएको	–	कटु, तिक्त	तानिङ्दबा	तिक्त	कारमु	कारमान	एरिवुळ्ळ	खारवाद
तेज	धारे चो	तीखो, धारिलो	धारालो	चोक थका, जोङाल	अथौबा, अतुंबा	मुनिआँ, धारुआ, शाणित	पदुनयिन	कूर्मैयान, कूरान	मूर्च्यियुळ्ळ	चूपाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तीर	पुं.	1. नदी का किनारा, तट	तटम्, कूलम्	कंढा	लबेजू	बोंठ	किनारो	तीर, तट, किनारा
		2. बाण	बाण:	तीर, बाण	तीर	तीर, कान	तीरु, ॿाणु	तीर, बाण
तीर्थ	पुं.	धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थल, पुण्य क्षेत्र	तीर्थम्	तीरथ	मुक़ामे-मुक़द्दस, ज़ियारतगाह	तिरॅथ	तीर्थु	तीर्थ स्थान
तीली	स्त्री.	माचिस की सलाई	अग्निशलाका	तीह्ली	तीली	तुज्य	तीली	काडी
तुकबंदी	स्त्री.	साधारण पद्य रचना	स्वरसंयोग	तुकबंदी	क़ाफ़िया पेमाई (तुकबंदी)	तुकबंदी	तुकबंदी	सामान्य पद्यरचना, यमक जुळवणी
तुतलाना	अ. क्रि.	शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना	स्खलितं √वद्	तुतलाउणा	तुतलाना	अडुॅकजर	तुतलाइणु, ॿाताइणु	तोतरे बोलणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तीर, कांठो	तीर	किनार, तट	तीर, कूल, तट	पार, तीर, तट	तोब्र्बान	तीर, पार, कूल	तीरमु, वड्डु	नदिक्करै	तीरम्	दड
बाण	बाण	तीर, बाण, काँड	तीर, बाण	बाण, काँड़	तेन	बाण, तीर, शर	बाणमु	अंबु	बाणम्, अंबुॅ	बाण
तीर्थ, यात्रानी जगा	तीर्थस्थान	तीर्थ, पुण्यभूमि	तीर्थ	तीर्थ, पवित्र-स्थान, लीला-क्षेत्र	तीर्थ, धर्मगी मित्येङ्दा अशेङ्बा मफम	तीर्थ, धर्म-स्थान	पुण्यतीर्थमु	पुण्णिय-त्तलम्	पुण्यस्थलम्, तीर्थस्थलम्	पुण्यक्षेत्र, यात्रास्थळ
सळी	काडी	काँटी, सलाईको छेस्को	काठि, देशलाई काठि	दियाशलाइर-मकाठि	मैखेत् मरु	दिआसिली-काठि	अग्गिपुल्ल	ईर्कुच्चि	काळ्ळि ईर्किलि	बेंकि कड्डि
जोडकणुं, काव्यना गुण विनानी हलकी कविता	यमक जुळवप	तुकबंदी	छोटो कविता, पोद्य रचना	पद्य-रचना	अचंबा शैरेङ् इबगी मओङ्	साधारण कबिता-रचना	कुकवित	इयैबोलि-तोगुप्पु	पाट्टक्कवित	प्रासकूडि-सुविके
तोतडावुं	चोचडे, चोचरे	तोतेबोली हुनु, भकभक-काउनु	तोतलान	बेलबेला, अस्पष्ट-उच्चारण	वाहैगी शेङ्दबा उच्चारण तौबा, मरै लोंबा	अस्पस्ट-भाबरे-कहिबा	नत्ति (गा) माट्लाडुट	मळलैयाग-प्पेश	कोञ्चुक	तोदलिसु, उग्गु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तुम	सर्व.	मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिसका प्रयोग बराबर के व्यक्ति के लिए किया जाता है	यूयम्	तुसी, तूं	तुम	चुॅ	तूं, तव्हीं	तुम्हीं
तुम्हारा	सर्व.	तुम का षष्टी विभक्ति लगने पर बनने वाला रूप	तव, ते, तावक, तावकीन	तुहाडा, तेरा	तुम्हारा	चोन	तुंहिंजो, तव्हांजो	तुमचा
तुरंत	क्रि. वि.	शीघ्र, झटपट	तत्कालम्, सपदि	तुरत	फ़ौरन, जल्द	जल, वॅल्य-वॅल्य	तुर्तु	लगेच
तुरपना	स. क्रि.	सूई-धागे से टाँके लगाना या सीना	उप +√सीव्	नगंदणा	तुरपना	त्रोंप द्युन	टोपो डियणु	शिवणे, टाके घालणे
तुला	स्त्री.	तराजू, काँटा	तुला	कंडा	तराज़ू	त्रकुॅर	ताराज़ी, तराज़ू काटो	तराजू, काटा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तमे	तुमीं	तिमी	तुमि	तुमि, तइ	मध्यम पुरुष सर्वनामगी मखल अमा नङ्, नहाक्, नखोय	तुमे	नीवु	नी/ नीर्	निङ्ङळ्	नीनु, नीवु
तमारो, तमारा	तुमगेलो, तुमचोगेलो	तिम्रो	तोमार	तोमार	नहाक्की, नङ्गी नखोय्गी	तुमर	नी, नीयॉक्क	उन्नुडैय, उम्मुडैय	निङ्ङळुटे	निन्न, निम्म
तुरंत	तत्काळ	तुरुंत्, झट्ट, झट्टै	शीघ्र, ताड़ाताड़ि	तुरंत, एतियाइ	चुनमक्	अबिलंबे, तुरंत, शीघ्र, एबे	वेंटने	उडने	उटन्, शीघ्रं	बेग, शीघ्र, लगु
ओटवुं, दोरो भरी ओटीने सीववुं	टाको घालप	सुर्कनु	ढाँका, सेलाइ	चिला	चाओफोत् फोत्पा	सिलाइ-करिबा, टांक-मारिबा	कुट्टुटे	ओट्टुत्तैयल् पोड	इळनूल् इटुक	तिब्बिहोलि
तुला, कांटो	तुळाभार	तराजु, तुलो	तुलादान, दाँड़िपाल्ला, तुलादन्ड	तुलाचलनी, पाला	इशागी अरुंबगा मान्नना	तुला, तराजु, कण्टा, निकिति	त्रासु	तिरासु, निरैकोल्	त्रासुँ	तक्कडि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तुलादान	पुं.	किसी व्यक्ति के शरीर के भाग के बराबर तोल कर दिया जाने वाला अन्न, द्रव्य आदि का दान	तुलादानम्	तुलादान	तुलादान	तोलुँबार	सरीर जी तोर जेतिरी कंहिं शइ (अन, सोन वग़ैरह) जो दानु	तुलादान
तुषारपात	पुं.	बर्फ का गिरना, हिमपात	हिमपात:	बरफबारी	बर्फ़बारी	शीन प्योंन	ग॒ड़ो किरणु, बर्फ़ पवणु	तुषार-वृष्टी, हिमपात
तू	सर्व.	एक सर्वनाम जिसका प्रयोग मध्यम पुरुष एकवचन में अपने से छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है	त्वम्	तूं	तू	च़ुँ	तूं	'तू'
तूफान	पुं.	समुद्र तल से उठने वाली आँधी, जिसके साथ बादल गरजते हैं और वर्षा होती है	प्रभञ्जन:, महावात:	तुफ़ान	तूफ़ान (आँधी)	तूफान, तुफान	तूफ़ानु	वादळ, तुफान
तूलिका	स्त्री.	चित्र अंकित करने की कूँची	तूलिका, वर्णतूली	कूची	क़लम, ब्रुश	बुरुश	ब्रशु, कूची (चित्रकरीअ लाइ)	तूलिका, कुंची

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तुलादान	तुळाभार	तुलादान	तुलादान	तुलादान	महै मरोङ् उल्लगा दान तौबा	तुलादान	तुलादानमु	तन् एंडक्कु सममान पोरुळै दानमळित्तल्, तुलाभारम्	तुलाभारम्	तुलाभार
तुषारपात	हिमपात	तुषारपात, हिमपात	तुषारपात	तुषारपात	ऊन् ताबा	हिमपात, तुषारपात, बरफपात	हिमपातमु	पनि मऴै	हिमपातम्	हिमपात
तुं	तूं	तँ	तुइ	तइ	नङ्, नहाक्	तु	नीवु	नी	नी	नीनु
तोफान	वादळ, तुफान	आँधी बेरी, हुरी, तुफान	झड़, तुफान, झटिका	तुफान, धुमुहा	नोङ्लै-नुङ्शित्	तोफान, झड, पबन, हावा	तुफानु	पुयलुम् मऴैयुम्	कांटुंकाट्टु	बिरुगाळि
पींछी	कुंची, तूलिका	कूची, तुलिका	तुली, तुलिका	तुलिका, तूली, शिल्पकार लेखनी	तुरी	तूलिका, तुलि	कुंचं	वण्णम् तीट्टुम कुच्चि, बिरष्	ब्रष्	ब्रश, कुंच

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तृण	पुं.	तिनका, घास	तृणम्, घासः	तिनका, तीह्ला	तिनका, ख़स	गासुॅ तुल	कखु	गवत, काडी
तृप्ति	स्त्री.	आवश्यकता अथवा इच्छा पूरी हो जाने पर मिलने वाली मानसिक शांति या आनंद	तृप्तिः, सन्तोषः	त्रिपती, संतोख	आसूदगी	त्रफती	तृप्ती	तृप्ती
तेज	पुं.	1. दीप्ति	तेजस्	तेज	रौशनी, नूर	तीज़	तेजु, रौशनी	दीप्ती, तेज
		2. प्रताप	तेजस्	तेज	जलाल	नूर	प्रताप	प्रताप
	वि.	1. तीक्ष्ण, पैनी धार वाला	तीक्ष्ण	तेज	तेज़	तेज़	तेज़	तीक्ष्ण
		2. प्रखर, प्रचंड	तीक्ष्ण	तेज	–	तेज़	तेज़	प्रखर, प्रचण्ड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तृण, घास	तण	घाँसपात, तृण	तृण, घास	तृण, घाँह	नापी	तृण, घास	गइड़िपोच्चि	तुरुंबु, पुल्	तृणम्, पुल्लुॅ	हुल्लु, तृण
तृटि, संतोष	तृप्ती	तृप्ति, संतोष	तृप्ति	तृप्ति, मानसिक शांति	पुक्निङगी अपेन्बा	तृप्ति, संतोष	तृप्ति	तिरुप्ति, मननिऱैव्	संतृप्ति	तृप्ति
तेज, दीप्ति	तेज	उज्यालो, तेज	तेज, दीप्ति	दीप्ति, प्रकाश	मङाल	तेज, दीप्ति, प्रकाश, आलोक	तेजमु, तेजस्सु	ऑळि	तेजस्सुॅ	कांति
प्रभाव	प्रताप	पराक्रम, प्रताप	तेज, दीप्ति	दीप्ति, प्रकाश	मथौना फबा	प्रताप, शक्ति, शक्तिर–प्रभाव	प्रतापमु	महिमै	प्रतापम्, शक्ति	पराक्रम
तीक्ष्ण धारवांळुं	तीक्ष्ण	धारिलो	तेज, धारालो	चोका	अथौबा	मुनिआँ, तीक्खण, धारुआ	पदुनुगल	कूर्मैयान	मूर्च्चयुळ्ळ	चूपाद
प्रखर, प्रचंड	प्रखर, प्रचंड	प्रखर, प्रचण्ड	तेज, प्रखर, प्रचण्ड	प्रखर, प्रचण्ड	अहेन्बा, अथौबा	प्रखर, प्रचंड, खुब–जोररे	प्रचंड मयिनॆ	प्रकाशमान	उग्रमाय	तीक्ष्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तेरा	सर्व.	तू का संबंध कारक रूप	तव/ते, तावक, तावकीन	तेरा	तेरा	चोन	तुंहिंजो	तुझा
तेल	पुं.	तिल के बीजों या विशिष्ट वनस्पतियों को पेर कर निकाला जाने वाला स्निग्ध तरल पदार्थ	तैलम्	तेल	तेल (रौग़न)	तील	तेलु	तेल
तेली	पुं.	तेल पेरने और बेचने का पेशा करने वाली एक जाति	तैलिकः	तेली	रौग़नगर, तेली	तीलुॅ वोन्य	तेली	तेली
तैयार	वि.	1. कुछ करने के लिए उद्‌यत	तत्पर, उद्यत	तिआर	तैयार	तयार	तयार	तयार, तत्पर
		2. जो पक कर खाने योग्य बन गया हो	पक्व	–	पुख़्ता	पोंप	तयार	तयार
		3. जो बन कर बिल्कुल ठीक और हर प्रकार से दुरुस्त हो गया हो	सिद्ध	पुख़ता, मुकम्मल	पोंप, तयार	तयार	तयार	तयार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तारो, तारुं	तुज़ो, तुगेलो	तेरो	तोर, तीब्र	तँहतर आपुनार	नङ्गी, नहाक्की	तोर	नी, नीयॉक्कॅ	उनदु, उन्नुडैय	निन्ट्	निन्न
तेल	तेल	तेल, तैल	तेल	तेल	थाउ	तेल, तैल	नूनॅ	ऍण्णय्	ऍण्ण	ऍण्णॅ
तेली, घांची	तॅल विकपी, तॅलकार	तेली, साल्मी	तेली/ तेलि	तेली, तेलीया	थाउ-योन्बा	तेलि	तॅलिकलवाडु	वाणियन्	वाणियन्	गाणिग
तैयार, तत्पर	तयार	तयार	तैरि, तैयारि	तत्पर, तैयार, प्रस्तुत साजू	थौराङ तौरिबा	प्रस्तुत, तत्पर, तिआर, जाग्रत	तयारु	तयारान	तय्याराय	सिद्‌ध, उद्‌धत, तयारु
तैयार	तयार	तम्तयार, परिपक्व	प्रस्तुत	योग्य, परिपक्व	थौराङ् लौइरबा	प्रस्तुत, जोग्य, परिपक्व	तयारु	शप्पिड्-त्तेक्क	तिन्नान पाकमाय	सिद्‌ध, उद्‌धत, तयारु
तैयार	तयार	ठीक-ठाक, तम्तयार	तैरि	साजु	थौराड. लौइरबा	प्रस्तुत	तयारु	नन्नु, तैयार् संय्द	शरिक्कुम् तय्याराय	तयाराद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तैरना	अ.क्रि.	किसी का हाथ पैर आदि चलाते हुए पानी में इस प्रकार आगे बढ़ना कि वह डूबे नहीं	√तॄ	तरना	तैरना	छ़ाँठ वायिन्य	तरणु	पोहणें
तैराक	पुं.	वह व्यक्ति जो अच्छी तरह तैरना जानता हो	तरणकुशल	तराक	तैराक	छ़ाँटल	तारूं, तैराकु	पटाईत, पोहणारा
तोड़ना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु को खंडित या नष्ट करना	√खण्ड्, √भिद्	भंन्नणा, तोड़ना	तोड़ना	फुटरुन	भञणु, टोड़णु, छिनणु	तोडणें, फोडणें
		2. किसी नियम, कानून आदि का उल्लंघन करना	उत् +लङ्घ्	तोड़ना	तोड़ना	फुटरुन	भञणु	नियमभंग करणें
		3. फूल, फल आदि को डाली से पृथक् करना	अव + चि	तोड़ना	–	–	छिनणु	–
तोड़फोड़	स्त्री.	क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किसी भवन या रचना को खंडित करना	ध्वंसः, खण्डनः	भंन्नतोड़, तोड़-फोड़	तोड़-फोड़, शिकस्तो रेख़्त	डुबुॅं-डास	भञु-डाह	मोड तोड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तरवुं	पेंवप, पोंवप	पौड्नु	सांतरानो, साँतारकाटा	साँतोर	इरोइबा	पहंरिबा, संतरण-करिबा	ईदुट	नींद	नींतुक	ईजुवुदु
तरवैयो	पेंव्पी, पोंव्पी	पौडीबाज	साँतारू	साँतोरऔँता	इरोइबा मी	पहंराली, संतरणकारी	ईतगाडु	नन्नु नींद-तेरिंदवन	नींतल् विदग्घन्	ईजुगार
तोडवुं	तोड्प, मोड्प	भत्काउनु, भाँच्नु, तोड्नु	भाङा, नष्ट-भ्रष्ट करा	भां, भङा	थुदेक्पा, थदत्पा, हेक्पा	नष्ट-करिबा, भागिबा, भग्न करिबा	विरुगं-गॉट्टुट, विरुचुट	उडैक्क	उटय्क्कुक	तुंडरिसुवुदु, ओडेयुवुदु
नियम-भंग करवो	काडप	नियम उल्लंघन गर्नु	नियम अमान्य करा	भंग कर	नियोम भुगइबा	नियम-लंघन-करिबा	उल्लं-घिंचुट	चट्टत्तै मुरिक्क	लंघिक्कुक	नियम भंग माडुवुदु
–	–	टिप्नु	नियम भाङा	अमान्य-कर, भग्न कर, ध्वंस	है हेक्पा	–	कोयुट	–	–	–
तोडफोड	तोड़फोड़	तोडफोड	भाङचुर, तछनछ	ध्वंस	थुगाइ-खोगाइबा	नष्ट-भ्रष्ट, ध्वंस-करिबा	ध्वंसमु	नाशवेलै	नाशनष्टम्	नाश पडिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
तोरण	पुं.	शोभा या सजावट के लिए बनाया जाने वाला अस्थायी स्वागत द्वार	तोरण:	फाटक, गेट	बाब (गेट), गेट (बाब)	डीड्य, दरवाजुॅ, डीड्य स्वागत द्वारु	सूंहं लाइ ठहियलु- सजायलु दरवाज़ो	तोरण, स्वागतद्वार
त्याग	पुं.	किसी चीज पर अपना अधिकार या स्वत्व हटा लेने अथवा उसे छोड़ने की क्रिया	त्याग:	तिआग	तर्क	त्रावुन	त्यागु	त्याग
त्योहार	पुं.	प्रतिवर्ष निश्चित तिथि को मनाया जाने वाला कोई धार्मिक, सांस्कृतिक या जातीय पर्व	पर्वम्	तिउहार, तिहार	तक़रीब, त्यौहार	बोँड दोँह	ड्डिणु	सण, पर्व
त्रस्त	वि.	1. भयभीत	त्रस्त, भीत	त्राहिआ	दहशतज़दा	त्रह्योमुत	डिनलु	त्रास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तोरण, स्वागत- द्वार	स्वागत द्वार, तोरण	तोरण, प्रवेशद्वार, शोभाद्वार, स्वागतद्वार	तोरण, प्रवेशद्वार	प्रबेश द्वार, तोरण	होजङ्, सनथोङ्, निङ्थिना लैतेङ्दुना शेमशारबा गेट	तोरण, प्रबेश द्वार, सिंहद्वार	तोरणमु	नगरत्तिन्/ माळिगैयिन् तलैमे वायिल् अलंकार/ नुळै वायिल्	प्रवेशनद्वारम्, तोरणम्	हेब्बागिलु, तोरण
त्याग, सन्यास	त्याग	त्याग, बलिदान	त्याग, सन्यास लओया	त्याग	थादोक्पा	उत्सर्ग, त्याग, बलि- दान, आहुति	त्यागमु	उरिमैयै विट्टु विडुदल्	त्यागम्	त्याग
तहेवार, पर्व	परब	चाड, पर्व	पर्व, उत्सव, परब	पर्ब, उत्सब, परब	धर्म अमदि संस्कृतिगी ओइबा कुम्है	पर्ब, परब, उत्सब, पर्ब- पर्बाणी	पंडुग	तिरुविळा, पंडिगै	उत्सवम्	हब्ब
त्रस्त, डरेलुं	भियल्लो, भिल्लो	त्रस्त, भयभीत	त्रस्त, भीत	भयभीत, त्रस्त	याम्ना किरबा	त्रस्त, भीत, भित- त्रस्त, भयभीत	भयपडिन	मिक्क बयमडैंद	भयप्पट्ट	भयभीत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पीड़ित	सन्त्रस्त	त्राहिआ	ज़दा (सितमज़दा)	–	दुखी	पीडित
त्रिशूल	पुं.	लोहे का तीन फालों वाला एक प्रसिद्ध अस्त्र, जो शिवजी का प्रधान अस्त्र है	त्रिशूलम्	तरसूल	त्रिसूल (तिरसूल)	त्रुशूल	त्रिशूलु	त्रिशूळ
थकना	अ. क्रि.	1. श्रम के कारण शिथिल होना, श्रांत होना	वि √क्लम्, √श्रम्	थकणा	थकना	थकुन	थकिजणु	दमणें, थकणें
		2. उत्साह न रह जाना, हार जाना	न + उत + √सह्	थकणा	मायूस होना	थकुन	–	थकणें, निरुत्साही होणें
थन	पुं.	गाय, बकरी आदि चौपायों का वह अंग, जिसमें दूध भरा रहता है, स्तन	स्तनः	थण	थन (पिस्तान)	थन	थणु (जानवर जो)	स्तन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पीडित, दु:खी	पीडेस्त	आतङ्कित, पीडित	पीड़ित	पीड़ित	अवाबा	पीड़ित, दु:खी, दरिद्र, निश्व	पीडिंच- बडिनँ	तुन्बप्पट्ट	पीडितनाय	पीड़ित
त्रिशूल	त्रिशूळ	त्रिशूल, तिर्सुल	त्रिशूल	त्रिशूल	त्रिशूल, मचिन् मचिन् अहुम पानबा ता, मचिन् अहुम लोङ्बा ता	त्रिशूल	त्रिशूलमु	तिरिशूलम्	त्रिशूलम्	त्रिशूल
थाकवुं	थकप	थाक्नु, थकित हुनु	क्लांन्त हओया	भागर	चोक्थबा	थकिबा, क्लांत- होइजिबा	अलिसि- पोवुट	कळैत्तुप्पोग	क्षीणिक्कुक	दणि, आयास- गोळ्ळु
हारवुं	पूरो जावप	निरुत्साहित हुनु, हार्नु	निरुत्साहित हओया	निरुत्साह ह	हैनिङ्दबा	क्लांन्त, निरुत्साहित	निराश- चेंदुट	उर्चाहम् इळं दुविड	तळरुक	बेसरवागु बेजारागु
थान, स्तन	थान	थुन, थनौरो, फाँचो	बाँट, स्तन	ओहार, गाखीरर थान	मखोङ मरि पान्बा शा अमोमगी मखोम	स्तन, थन	पांदुगु	अगड्ड	मुल	केच्चलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
थपथपाना	स. क्रि.	लाड़-प्यार से आवेश शांत करने के लिए या शाबाशी देने के लिए किसी की पीठ को स्नेह से सहलाना, थपथपाना	उत्साहंवर्धय् हस्तेन √स्पृश्	थापड़णा	थपकना	मठि मठि दिन्य	थपकी डियणु	थोपटणें
थप्पड़	पुं.	चाँटा, तमाचा	चपेट:	थप्पड़, चपेट	थप्पड़, चाँटा	थापेर	थप्पड़	थप्पड, चापटी
थलचर	पुं.	पृथ्वी पर रहने वाले जीव	स्थलचर:	थलचर	ख़ुश्की का जानवर	थल़चर, ज़मीनि-प्यठ रोज़न वॉल्य	थलचरु, ख़ुश्कीअ जो जानवरु	स्थलचर
थलसेना	स्त्री.	वायुसेना और नौसेना से भिन्न वह सेना, जिसका कार्य क्षेत्र मुख्यत: स्थल तक सीमित हो	स्थलसैन्यम्	थलसेना	बर्री फ़ौज (बर्रिया)	फोज, बरी फोज	बरी फ़ौज, थल-सेना	स्थलसेना
थाती	स्त्री.	1. धरोहर, अमानत	न्यास:, निक्षेप:, आधि:	अमानत	अमानत	अमानथ	अमानत	ठेव, अमानत
		2. जमापूँजी, संचित धन	संचितवित्तम्	–	जमा	संच़्यथ	जमापूंजी	संचित धन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
थाबडवुं	थपथपावप	थुम-थुमाउनु	थाबड़ानो/ चापड़ानो	पिठि चपरिया	नुङ्शिना नङ्गंदा पोप्-पोप् फुबा, नान्बा	थापुड़ाइबा	तट्टुटॅ	अन्बुडुन् तट्टिक् कॉडुक्क	पतुक्कॅ तट्टि-क्कॉटुक्कुक	बेन्नु तट्टु
थप्पड़, तमाचो, लपड़ाक	थापट	थप्पड, चड़कन	थाप्पड़, चड़, चाँटि	घोचा, खकरा मुकुटि	खुबाक्ना थाबा, खुपाकना थाबा	चापुड़ा	चंपदॅब्बॅ	कन्नत्तिल् अऱै	चेकिट्टिळ् अटि क्कुक	केन्नेगे, होंडॅत
स्थलचर	स्थलचर	स्थलचर	स्थलचर	थलचर, स्थलचर	कङ्फांदा लैबा जीव	स्थलचर, भू भागरे-बास-करुथिबा-जिबजंतु	भूचरमु	तरै-वाऴ्वन	करजीवि	भूचर
स्थळसेना, भूसेना	स्थलसेना	स्थलसेना, थलसेना	स्थलसेना	स्थलसेना	खोङ् लान्मी	स्थलसेना, भू-सेना	भूसैन्यमु	तरैप्पडै	करसेन	भूसेने
थापण, न्यास	ठेव	थाती, नासो	अमानत	आमानत	लन्	संचित धन, अमानत	ताकट्टु	ऑप्पडैत्त पॉरुळ्	ईट्टॅ	ठेवाणि, अमानत्तु
मूडी	बचत	धरौट, सञ्चित धन	पुँजि-पाटा	संचित धन	तुङ्शि-नजबा शेल	अमानत, संचित धन, पुंजि	कूडबॅ-ट्टिनॅ धनमु	चेर्त्त सॆल्वम्	संचित धनम्, मुतल्	बंडवाळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
थान	पुं.	एक निश्चित लंबाई का कपड़े का टुकड़ा	पटव्यावर्तः	थान	थान	थान	थानु	कापडाचा तागा
थाना	पुं.	पुलिस कार्यालय, पुलिस चौकी	आरक्षिकेन्द्रम्	ठाणा, थाण	थाना, कोतवाली	थानॖ	थाणो, कोतवाली	ठाणे, पोलिस चौंकी
थापी	स्त्री.	राज या मजदूर द्वारा छत पीटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी की चौरस हत्थेदार पट्टी	मुद्गरः	थापी	थापी	ठॉप्य	थापी (राज़े जो ओज़ारु)	थापी
थिरकना	अ. क्रि.	नाचने में अंगों को हाव-भाव के साथ संचालित करना	√नृत्	थिरकणा	थिरकना	ऩचुन, गतॖ-ख्यॊन	नचण में लुडण-लमणु	नाचणें
थूकना	अ. क्रि.	मुँह से थूक बाहर निकाल फेंकना	√ष्ठीव्	थुक्कणा	थूकना	थोॅख त्रावॖन्य	थुकणु	थुकणें
थूथन	पुं.	कुछ विशिष्ट प्रकार के पशुओं का लंबोतरा और कुछ आगे की ओर निकला हुआ मुँह	मुखम्, लम्बास्यम्	थूथणी	थूथनी	थोॅथुन	थूथनी, किन जानवरनि जे बूथ जो अगियां निकतलु भाङो	थोबाड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
थान	तागो, तांको	थान	थान	थान	थान	थान, कपड़ा	थानु	पीस् (तुणि)	कॆट्टुँ	थानु
थाणुं, पोलीस चोकी	थाणो, पुलिस थाणो	ठाना	थाना	थाना	थाना, पुलिस ऑफिस	थाना	पोलीसु स्टेषनु	कावल् नियलम्	पोलिस् स्टेषन, ठाणावुँ	ठाणे, पोलीस् स्टेशन्
थापी	थापी	मुद्गर-सरहको एक उपकरण, थापी	मुगुर	थापि	चफ शाबा अमदि युम शोबना शिजिन्नबा खुलाइ मखल अमा	पिटणा, मुगुर	दिम्मिसँ	दिम्मिस्, इडितडि	इटितटि, निलंतल्लि	दम्मस्सु, कॊडति
मलकवुं	नाचप	थर्क्नु, हल्लनु (नाच्दा)	–	लयलास गतित अंग संचालित ह	निक्पा	शैली, भाव-भंगि	कुलुकुटँ	नाट्टियमाड	नृत्तम् चॆय्युक	कुणि, नर्तिसु
थूकवुं	थुकप	थुक्नु, थुक फ्याँक्नु	थुतु फेला	थुइ पेला, थुबा	तिन शित्पा	छेपा-पकाइबा-धक्का-पकाइबा	उम्मिवेयुटँ	तुप्प, उमिऴ्	तुप्पुक	उगुळु
थूथन	थोबाड	थुतुनु, थुतुनो	थुथ्नि	जंतुर नाकटि, येन गाहरिर	शागी अतुँबा मचिन्	थण्ट	मुट्टँ	प्राणि-गळिन् नीळमान मुगम्	मोंत	मूति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
थैला	पुं.	झोला	स्यूतः, प्रसेवः	थैला	थैला	ठेलुॅ	थेल्हो	पिशवी
थोक	पुं.	1. एक ही तरह की बहुत सी चीजों का ढेर या राशि	राशिः	थोक	अंबार, कसरत	थोक, डेर	ढेरु, ढिगु	थोक
		2. चीजें खरीदने-बेचने का वह प्रकार, जिसमें बहुत-सी चीजें एक साथ खरीदी-बेची जाती हैं, खुदरा या फुटकर का विपर्याय	पुञ्ज, अस्तोकम्	थोक	थोक	थोक	बधो (वापारु), थोकु	ठोक
थोड़ा	वि.	अल्प मात्रा	स्तोक	थोड़ा, ऊणा	थोड़ा, कम, क़लील	कम, रछ़खंड	थोरो	थोडा
	क्रि. वि.	अल्प मात्रा में, कुछ, जरा	अल्प, ईषत्	–	ज़रा	कम, रछ़खंड	थोरो	अल्प, जरा, थोडेसे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
थेली, कोथळी	पिशवी	थैलो, झोला	थलि	थैला, बस्ता	खाओ	झुला, थलि, मुणि, कोथलि, अखा	संचि	परिय पै	संचि	चील
थोक	रास	थुप्रो, रास	थोक, राशि	दम	मखल अमतगी पोत् मयाम, मपै	थली, अमार	राशि	पारुळिन् कुवियल्	कूंपारम्	राशि
थोक-जथ्थाबंध	ठोक	थोक	थोक, पाइकारी केनाबेचा	मुठाइ करा, किना-बेचा पाइकारी बेचा-किना	पुल्लमना थाबा, योन्बा	मोटा-बिक्री बा-बेपार, बहु-परिमाण, पाइकारी, ब्यापक	टोकुबेरमु	मोत्त वियापारम्	मोत्तक्क-च्चवटम्	ठोकु-व्यापार
थोडुं, अल्प	अल्प	थोर, अल्प	अल्प, कम	अलप, कम	याम्दबा, खरा	अल्प, स्वल्प, कम	कोंचेमु	चिरिदु	अल्पमाय, कुरवाय	कडमे
जराक	अल्प	थोरै, कम्ती नै	अल्प	अलप, कै, सामान्य परिमाणर	खजिक्तङ्, खरा	अल्प-मात्रा-बा-परिमाणरे	कोद्दिगा	कोंजमाग	कुरच्चु, अल्पम्	स्वल्प

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दंगल	पुं.	पहलवानों की कुश्ती प्रतियोगिता	मल्लस्पर्धा	घोल, दंगल	दंगल	दंगल	दंगलु, मलाखिड़ो	कुस्तीची स्पर्धा
दंगा	पुं.	उपद्रव, फसाद	उपद्रवः, कलहः	दंगा	फ़साद, दंगा	फसाद	फ़सादु, दंगो	दंगा
दंड	पुं.	1. सज़ा, जुर्माना	दण्डः	डंड	सज़ा, जुर्माना	सज़ा	<u>ड</u>ंडु	दंड, शिक्षा
		2. बाँस या लकड़ी का डंडा	काष्ठदण्डः	डंडा	डंडा	डंडुॅ	<u>ड</u>ंडो	दंड, सोटा
दंडनीय	वि.	दंड दिए जाने योग्य	दण्ड्य	डंडण योग	क़ाबिले-सज़ा	सज़ावार	<u>ड</u>ंड जो<u>गो</u>	दंडनीय
दंपत्ती	पुं.	पति-पत्नी	दम्पती	पती-पतनी	ज़ौजैन	बॉच़ ज़ु, ज़ूर्य	ज़ाल-मुड़िसु, पत्नी-पती	दंपती
दंभ	पुं.	अहंकार	दम्भः, दर्पः	दंभ	ग़ुरूर	गमंड	हठु, घमंडु	अहंकार, दंभ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दंगल	कुस्तीची स्पर्धा	कुस्ति- प्रतियोगिता	कुस्ति- प्रतियोगिता, दङ्गल	कुस्ति- प्रतियोगिता	मुक्ना शान्नबा, कुश्ती शान्नबा	मल्ल- जुद्ध, कुस्ति- प्रतिजोगिता	कुश्ती, पोटी	गुस्तिप् पोट्टि, मर्पोर्	गुस्ति	कुस्ति
दंगो	दंगो	दङ्गा, उपध्रो	उपद्रव, फ्यासाद	उपद्रव	लैबाक् इराङ् हौबा	दंगा, गंड़गोल, उपद्रब	उपद्रवमु	कलगम्, कैकलप्पु	लहळ	दंगे, बंडाय
दंड, सजा	दंड	दण्ड, सजाय, जरिमाना	दण्ड, शास्ति, जरिमाना	जरिमना, दण्ड	दनदी, फाइन ताबा	दंड, शास्ति, सजा	शिक्ष	दंडनै, अबरादम्	शिक्ष	शिक्षे
छडी, सोटो	दंडो	लट्ठी, लौरो	डाण्डा	लाखुटि	चै	बाड़ी	कर्र	तड़ि, कंपु	वटि	दोण्णे
दंडनीय	दंडनीय	दण्डनीय, दण्ड दिइने लायक	दण्डनीय	दंडनीय	दंदी पिनिङ्ङाइ ओइबा	दंडनीय	शिक्षिं- पदगिन	दंडिक्क- त्तक्क	शिक्षार्हन्	शिक्षेगे तक्क
दंपती	जोडपें, दंपती	दंपती, जोईपोई	दंपति	दंपती	मतै- मनाओ	दंपति, पति- पत्नी	दंपतुलु	कणवन् मनैवियर्	दंपति मार्	दंपति
दंभ, अहंकार	अहंकार	दंभ, अहङ्कार	दंभ, अहंकार	दंभ, दर्प	नापल तौबा	दंभ, अहंकार	दंभमु, गर्वमु	डंबम्, गरुवम्	दंभम्, डंभुँ	अहंकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दक्षिणा	स्त्री.	यज्ञ-पूजा आदि के अंत में ब्राह्मणों और पुरोहितों को दिया जाने वाला द्रव्य	दक्षिणा	दच्छणा	नज़राना	दखिना	ड॒खिणा	दक्षिणा
दत्तक	पुं.	गोद लिया हुआ	दत्तक:	मुतबन्ना	मुतबन्ना	मंगतुँ	गोदि वरितलु	दत्तक
दत्तचित्त	वि.	जो किसी कार्य में मनोयोग से लगा हुआ हो, तल्लीन	दत्तचित्त, तल्लीन	इकागरचित्त	मुनहमिक	दिलदिथ	मह्व, हिक-मनो	तल्लीन
दफनाना	स. क्रि.	मुर्दे को जमीन में गाड़ना	भूमौ नि√धा	दफ्नाउणा	दफ़नाना	वॅडरावुन	दफ़नाइणु	दफन करणें
दबंग	वि.	जो किसी से दबता न हो, साहसी	अदम्य:, प्रभावशालिन्	दबंग, निधड़क	दबंग, बेबाक	रोबदॉबी, दबंग	बेडपो, साहसी	साहसी, प्रभावशाली
दबदबा	पुं.	रोब, आतंक	प्रताप:, प्रभाव:, आतङ्क:	दबदबा, रोब	दब्दबा, रोब	दबदबुँ	द<u>ब</u>द<u>बो</u>	दबदबा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दक्षिणा	दक्षणा	दक्षिणा, दछिना	दक्षिणा	दक्षिणा	दक्षिणा	दक्खिणा, बिदाकि	दक्षिणॆ	दक्षिणै	दक्षिण	दक्षिणे
दत्तक	पोसको	दत्तक, पोष्य	दत्तक	तोलनीया पो	अयोक्पा मचा	पालित, पोष्य	दत्तिव्व-बडिनॆ	दत्तु एंडुत्त	दत्तुपुत्रन्	दत्तक
एकाग्र, तल्लीन	तल्लीन	एकचित्त, एकाग्र	अभिनिविष्ट, मनोयोगी	मनयोग-पूर्वक, मनयोगी	मपुनिङ् चङ्बा	मनजोग-पूर्वक, निबिष्ट, मनजोगी	तदेकध्यानमु	वेलैयिल् मुळु गवनम् चॆलुत्तुगिर	तल्लीनन्	मग्न
दफनाववुं	पूरप	दफनाउनु, गाड्नु	कबर देओया	कबर दे	फूमजिन्बा	पोतिबा	पूड्चिपॆट्टुटॆ	पुदैक्क	कबऱटक्कुक	हूळुवुदु, हूळु
साहसिक, प्रभावशाली	दबंग, प्रभावशाळी	साहसिलो, ऑटिलो, प्रभाव-शाली, प्रतापी	साहसी, डॉटियाल, प्रभाव-शाली	साहसी, प्रभावशाली	मीना नम्थबा यादबा, मथौना फबा (लैबा)	निर्भिक, साहसिक, साहसी, प्रभाबशाली, प्रति-पत्तिशाली	साहसि, भयमुलेनि	बयप्पडाद, चॆल्वा-क्कुळ्ळ	कूसलिल्लात्त तंटेटियाय, साहसि, प्रतापि	यारिगू दब्बद दर्पउळ्ळ, प्रतापि, प्रभावशालि
दबदबो, रोब(फ)	दबदबो	रोबरबाफ, हैकम, प्रताप	दबदबा, प्रतिपत्ति	आतंक	इथिल पिबा ङंबा, पुक्निङदा ममि ताहन्बा, तौबा ङंबा	आतंक, उपद्रब, प्रतिपत्ति, दंगा, गंड़गोल	दबायिंपु	अदिकारम्, चॆल्वाक्कु	प्रतापम्	प्रताप, अटोप

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दबाना	स.क्रि.	1. भार या दाब के नीचे लाना	√दम्	दबाउणा	दबाना	दबावुन	दबाइणु	दाबणें
		2. किसी बात या मामले को आगे न बढ़ने देना	परि √हृ	–	छुपाना	दबावुन	–	थांबविणें, रोखणें
		3. दमन करना	अव + √रुध् √दम्	–	तंग करना	दबावुन	–	दमन करणों
दबाव	पुं.	दबाने की क्रिया या भाव, दाब	पीडनम्	दबा, दबक	दबाव	दबाव	दबाउ	दबाव
दबोचना	स.क्रि.	झपट कर दबा लेना	बलात् √गह्, बलात् + √धृं	दबोचणा	दबोचना	तल द्युन	ओचितो घुटणु	झडप घालून दाबणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दबाबबुं, ताबे करवुं	दाबप	थिच्नु	दाबानो, चेपे देओया	हँचधर, हँचाबा, दबोवा	नंफू- शाफू तौबा, ओत्त-नैबा किहन्बा	दबाइबा, चापिबा, आयत्त- करिबा, बाधादेबा	अणचिं- पेट्टुटॅ	अळुत्त, अमुक्क	अमर्त्तुक, ऑतुक्कुक	अदुमुवुदु, ओत्तुवुदु
रोकवुं	थांबोवप	दबाउनु, रोक्नु, थिचोमिचो गर्नु	दाबिये/ चेपे राखा	बाधा दे	थिङबा, खामबा	–	अणचिंपेट्टुटॅ	अमुक्किविड	ऑतुक्कित्ती- क्कुक	दबायिसुवुदु, तडेहिडे
दमन करवुं	दमन करप	दमन गर्नु	दमन करा/ दाबानो	दमन कर	नम्थबा	दमन- करिबा, आयत्त करिबा, बंद करिबा	अणचिंपेट्टुटॅ	आदिक्कम् चॅलुत्त	अमर्च्च वरुत्तुक, कीळुटक्कुक	दमन, अदुमु
दाब	दाब	दबाउ, थिचाइ	प्रभाव, चाप	हँचा	नम्थबा, शाफू	दाबिबा, चापिबा	ऑत्तिडि	अळुत्तम्	स्वाधीनम्, शक्ति	ओत्तुवुदु, प्रभाव, ओत्तडहाकु
संताडवुं	लिपवप	झम्ट्नु, झम्टिनु	चेपे धरा	जँपियाइ पर	चोङ्शिंदुना नंबा	करगत- करिबा, अधिन बा- अक्तिआर- करिबा	मीदपडि अणचिवेयुटॅ	पाय्न्दु अमुक्कि विड	सम्मर्दम् कॉण्डुँ कीळमर्त्तुक	हिडिदु अमुकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दम	पुं.	1. ताकत, जोर	शक्तिः, सामर्थ्यम्	दम	ताक़त	दम, ज़ोर	दमु	ताकत, सामर्थ्य, जोर
		2. हुक्के आदि का कश	उच्छ्वासः	–	दम, पल	दाम	कश	चिलमीचा झुरका
		3. साँस, श्वास, प्राण	श्वासः, प्राणः	–	नफ़स	शाह	साहु	श्वास, प्राण
दमक	स्त्री.	चमक, प्रभा	प्रभा	दमक, झिलमिल	दमक	चमख	चमको	चमक
दमकल	स्त्री.	आग बुझाने का यंत्र, जिससे कोई तरल पदार्थ हवा के दबाव से वेगपूर्वक फेंका जाता है	अग्निशमनयन्त्रम्	दमकल	दमकल	बम	बाहि विसाइण जी मशीन	आगीचा बंब
दयनीय	वि.	दया के योग्य	दयनीय	तरसयोग	क़ाबिले-रहम	कॉबिलि रॅहम	दया-जोगो	दयनीय
दया	स्त्री.	रहम, अनुकंपा, तरस	अनुकम्पा	दइआ	रहम, मेहरबानी	दया, रहॅम	दया, कृपा	दया

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दम, शक्ति	ताकत	दम, ताकत	शक्ति, जोर	शक्ति, बल	पाङ्गन, मरिल	दम्, जोर, शक्ति, बल	बलमु	बलम्, वलु	शक्ति	शक्ति, बल
सडाको	झुरको	दम, सर्को	दम	शोहा, श्वास, दम	मैखु चिङ्बा	कश, दम	पाँगदम्मु	पुगै पिडित्तल्	वलि	दम्
श्वास	स्वास	श्वास-प्रश्वास, प्राण	श्वास-प्रश्वास	उशाह, प्राण, दम	नुङ्शास्वर	श्वास, श्वास-प्रश्वास, प्राण, जीबन	श्वासँ	मूच्चु	श्वासम्	उसिरु, प्राण, श्वास
दमक, चमक	च़मक	दमक, चमक, चहक	दमक, चमकानि	चमक	लङ्खत्पा	चमक, प्रभा	प्रकाशमु, मॅरुपु	पळपळप्पु	प्रभ, शोभ, तिळक्कम्	हॉळपु
अग्नि बंबो	बंब	दमकल, वारुणयंत्र	दमकल	अग्नि-निर्वाचित यंत्र	मै मुथत्नबा मेचिन	दमकल, निआँ-लिभेइबा-जंत्र	अग्नि-मापकमु	ती-अणैक्कुम् करुवि/ पडै	अग्नि-शमनयंत्रम्, तीर्कटुत्तु यंत्रम्	अग्निशामक यंत्र
दयनीय	दयनीय	दयनीय	दयायोग्य, दयारपात्र	दयनीय	थौजाल हैबा	दयनीय, शोचनीय, दरिद्र	दयनीयमैन	इरक्क-प्पडत्तक्क	दयनीयम्	दयनीय
दया, कृपा	दया	दया, मेहरबानी	दया, अनुकंपा	दया, अनुकंपा	थौजाल	दया, अनुकँपा	दयँ	इरक्कम्, करुणै	दय	दये

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दयादृष्टि	स्त्री.	दया या करुणापूर्ण दृष्टि या भावना	कारुण्यम्	दइआद्रिशटी	नज़रे-करम, नज़रे-इनायत	रॅहमुॅच नज़र	दया दृष्टी	दयादृष्टी
दर	पुं., स्त्री.	1. द्वार, दरवाजा	द्वारम्	दुआर	दर, दरवाज़ा	दरवाजुॅ	दरु, दरवाज़ो	दरवाजा
		2. भाव (रेट)	मूल्यम्	भॉ, निरख	निर्ख़, शरह, भाव	दर, न्यरुॅख	अघु, दरु (रेट)	दर, भाव
दरखास्त (दरख्वास्त)	स्त्री.	आवेदन, प्रार्थनापत्र, अर्जी	आवेदनपत्रम्	दरखासत	दरख़्वास्त, अर्ज़ी	दरखास	दर्ख़्वास्त, दरख़्वास्त	अर्ज, आवेदन, प्रार्थना-पत्र
दरबान	पुं.	फाटक/प्रवेश द्वार पर तैनात चौकीदार	दौवारिकः, द्वारपालः	दरबान	दरबान	डीड्यवोन्य	दरबानु	चौकीदार
दरवाजा	पुं.	द्वार, कपाट, किवाड़	द्वार, कपाट	दरवाजा	दरवाज़ा	बर, दरवाजुॅ	दरवाज़ो	दरवाजा
दरार	स्त्री.	रेखा की तरह का लंबा छिद्र	स्फोट, झङ्क, भेद	तरेड़	दराड़, दर्ज़	फ्राठ, रुम	ड॒ार, चीरु	चीर, फट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दयादृष्टि	दयादृश्टी	दयादृष्टि, कृपापूर्ण व्यवहार, कृपादृष्टि	दया दृष्टि	कृपा दृष्टि	थौजालगी मीत्येङ्	दयादृष्टि, भबिष्यत दृष्टि	जालि, कनिकरमु	करुणै नोक्कु, करुणै उळ्ळम्	कृपादृष्टि	दयादृष्टि
दर, बारणुं	दार	द्वार, दुआर, ढोका	द्वार, दुयार	दुवार	थोङ्, थोङ्जाओ	दुआर, कबाट, द्वार	तलुपु	वायल्, वाशल्	वातिल्	बागिलु
भाव, किंमत	दर, मोल	भाउ, दाम, मोल	दर	भाव, दर	ममल	दर, दाम	धर	विलै विगिदम्	निरक्कुँ	धारणे
दरखास्त, अरजी	अर्ज, अर्जी	निवेदन-पत्र, बिंतीपत्र, प्रार्थनापत्र	दरखास्त, आबेदनपत्र, आर्जि	आबेदन, दर्खास्त, प्रार्थना-पत्र	दरखास्त, हाइजबा	दरखास्त, आबेदन-पत्र, प्रार्थना पत्र	दरखास्तु, अर्जी	विण्णप्पम्	अपेक्ष, दर्घास्	अरिके, प्रार्थनेपत्र
दरवान, द्वारपाल	गुरखो	दरबान, ढोके, पाले	दारोयान, चौकिदार	दारोवान, दुवरी	थोङ्ङाक्पा, थोङ्शङ्बा	जगुआली, चौकिदार	द्वारपालकुडु	कावल्-कारन्	डर्बान्, कावल्-क्कारन्	द्वारपालक
दरवाजो	दार	ढोका, दैलो, कपाट	दरजा, कपाट, दुयार	दुवार	थोङ्, थोङ्जाओ	दरजा, कबाट, दुआर	तलुपु	वायिल्, कदवु	वातिल्, कतकुँ	बागिलु
तराड़, फाट	चीर	चिरो, चिरा, दरार	फाटल, फाट	रेखार-दरे दीघलीया फुटा	मयि	फाट, फांक	पगुलु, चीलिक	वंडिप्पु, पिळवु	विटवुँ	बिरुकु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दरिद्र	वि.पुं.	निर्धन, कंगाल, गरीब	दरिद्र	कंगाल	मुफ़लिस, नादार	गरीब, नादार	ग़रीब, मिस्कीन	दरिद्र
दरी	स्त्री.	मोटे सूत का एक बिछावन	आस्तरणम्, स्तरी	दरी	दरी	सतरँड	फ़रासी, फ़रासु	सतरंजी
दर्जन	पुं.	बारह वस्तुओं की इकाई	द्वादशकम्	दरजन	दर्जन	दरजन	दर्जनु, डज़नु	डझन
दर्ज़ी	पुं.	कपड़े सीने का काम करने वाला	तन्तुवायः, सूचिकः	दरजी	दर्ज़ी	सुँच़	दर्ज़ी	शिंपी
दर्पण	पुं.	मुँह देखने का शीशा, आईना	मुकुरः, आदर्शः, दर्पणः	शीशा	आईना	शीशुँ	आईनो, आरसी	आरसा
दर्शक	पुं.	देखने वाला	दर्शक	दरशक	नाज़िर	वुछन वोल	दर्शकु, ड्रिसंदड़ु	दर्शक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दरिद्र, कंगाळ	दळिद्रो	दरिद्र, कङ्गाल, गरिब	दरिद्र, निर्धन, गरीब	दुखीया, दरिद्र, दीन, निर्धन	लाइरबा	दरिद्र, गरिब, निर्धन, दीन	द्रिद्रुडु	दरिद्दिरन्, एळै	दरिद्रन्	बडव
दरी, शतरंजी	सतरंजी, जमखान	दरी, सतरन्जा	शतरंचि	दरी	दरी	दरी, शतरंजि	जंपखाना, पट्ट	जमक्- काळम्	विरि	जमखाने
डझन	डझन्, दूझ	दर्जन	डजन, बारटि	दर्जन	दर्जन, मशिङ् तरानिथोइगी चाङ्	डजन, बार	डजनु	डजन्	डसन्	डजन्
दरजी	शिंपी	दर्जी, सूचिकार	दरज़ी	दर्जी	दर्जी, फुरित् तुबा	दरजि, दर्जी, पोशाक- निआरि करिबा- जाहार- ब्यबसाय	दर्जी	तैयल् कारन्	तय्यल्- क्कारन्	दर्जि, सिंपिग
दर्पण, अरीसो	हारसो	ऐना, दर्पण, आरसी	दर्पण/ आयना, आरसी	आइना, दापोण	मीङ्शेल	दर्पण, आइना	अद्दमु	निलै- क्कणाडि	दर्पणम्, कण्णाटि	कन्नडि
दर्शक	पळोवपी	दर्शक, द्रष्टा	दर्शक	दर्शक	येङ्लिबा, भाबोक	दर्शक, पर्ज्यबेक्षक, देखणाहारी	प्रेक्षकुडु	पार्वैयाळर्	दर्शकन्	दर्शक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दल	पुं.	1. गुट, टोला, समूह	गण:, दलम्	दल	गिरोह	पारटी	दलु, पार्टी, टोलो, धुरि	दल
		2. फूल की पंखड़ी	दलन्	खंभड़ी, पंखड़ी	बर्गे गुल (पंखड़ी)	पोशि वथुँर	पंखुड़ी	फुलाची पाकळी
दलना	स.क्रि.	चक्की में डालकर दो या अधिक टुकड़े करना	√दल्	दलणा	दलना	अडफोँट पिहुन	ड॒रणु	दळणें
दलाल	पुं.	सौदा आदि करवाने में मध्यस्थता करने वाला, बिचौलिया	मध्यस्थ:, योजक:	दलाल	दलाल	द्राल	दलालु	दलाल, अडत्या
दवा	स्त्री.	1. औषधि	ओषधम्	दवा, दवाई	दवाई	दवा	दवा	औषध
		2. इलाज, उपचार	चिकित्सा, उपचर्या	दवा-दारु	मुआलजा	यलाज	औखद	इलाज, उपचार
दशक	पुं.	दस वर्षों की अवधि	दशकम्	दहाका	दहा, दहाई	दॅह्युल	ड॒हाको	दशक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दळ	दल, पंगड	गुट, मण्डली, दल	दल, समूह	दल, समूह	चबुल, मपुल, काङ्लुप	दल, संस्था, समूह	गुंपु, दळमु	कुळु	संघम्, चेरि	पक्ष, समूह
पांखड़ी	पाकळी	फूलका पात वा पत्ती, पत्र	दल, पापड़ि (फुलेर)	पाहि	लैना	दल, मेखला	दळमु, रेक्क	इदळ्	दळम्, इतळ्	दळ
दळवुं	दळवण	दल्नु	दला, पेषा	दल	तक्खाइबा	दलिबा, पेषिबा	पिंडिचेयुट	अरैक्क	तरियायि पोटिक्कुक, तकर्क्कुक	अरे, रुब्बु
दलाल	दलाल	दलाल	दालाल, मध्यस्तता-कारी	दालाल, मध्यस्त-ताकारी	दलाली चाबा	दलाल, मध्यस्थ	दलारि	तरगर्	दल्लाळ्	दळ्ळाळि
दवा	वखद	ओखती, औषधी	औषध, दाओयाइ	औषध	हिदाक	रोग नाशक-औषध	मंदु	मरुंदु	मरुन्नु	औषध
उपाय, इलाज	उपचार	ओखती-मूलो, उपचार	चिकित्सा	चिकित्सा	लायेङ्बा	चिकित्सा, भेषज	चिकित्स	चिकिच्चै	चिकित्स	चिकित्से
दशक	दशक	दशक	दशक	दशक	चहि तरागी मतम	दशक, दशंधि	दशाब्दमु	पत्ताण्डुकळ्	दशकम्	दशमान, दशक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दस्तकारी	स्त्री.	हाथ से किया गया कारीगरी का काम, हस्तशिल्प	हस्तशिल्पम्	दसतकारी	दस्तकारी	अथुँकॉम	दस्तकारी, हथ जो हुनरु	हस्त कौशल्य
दहकना	अ.क्रि.	इस प्रकार जलना कि लपटें निकलने लगें, धधकना	प्र + √दीप्	मचणा	दहकना	वुहुन	<u>ब</u>रणु, <u>ज</u>रणु	पेटणें, धगधगणे
दहाड़	स्त्री.	1. शेर की गरज	सिंहनादः	दहाड़	दहाड़, गरज	ग्रज़	शींहं जी गजगोड़	आरोळी
		2. जोर की चिल्लाहट	गर्जनम्	धाड़	चीख़ना	क्रकुँनाद	वाको, चीख़	गर्जना
दहाड़ना	अ.क्रि.	1. शेर का गरजना	√गर्ज्	दहाड़ना	दहाड़ना	ग्रज़ुन	शींहं जो गजणु, गर्जणु	डरकाळी फोडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हस्तकळा, कारीगरी	हस्त-कौशल	दस्तकारी, हस्तशिल्प	कारु शिल्प	हस्तशिल्प	खूत्ला शाबा, येक्पा खोत्पा	हस्तशिल्प, कारिगरि	चेतिपनि	कै वेलै	कैत्तॉळिल्	कैगारिके, कैकेलस, कुसुरि केलस
तपवुं, बळवुं	धग धगप	हुरहुराउनु, दनदनाहट	प्रब्ज्जलित हओया	दपदपाइ जल	मैहौबा, मैरी थोक्ना चाक्पा	लेलिहान-होइ-जलिबा, प्रज्वलित	प्रज्वलिंचुट, मंडुट	कॉळुंद विट्टु एरिय	कत्तिज्वलि-क्कुक, आळिक्कत्तुक	उरियुवुदु, ज्वलिसु
गर्जना	गरड	गर्जाइ, सिंहनाद	गर्जन, नाद, सिंहनाद	सिंहनाद, गोजरणि, गर्जण	कै, नोङ्शा ना खोङ्बा	सिंहर-गर्जन, सिंहनाद	गर्जन	गर्जनै	गर्जनम्	गर्जने
घांटो, चीस	गर्जना	गर्जन	चित्कार	गोजरणि	कन्ना लाओबा	चित्कार, चिल्लाइबा, पाटि-करिबा, हल्ला-करिबा	अरुपु	उरक्क कत्तल्	उरक्कयुळ्ळ विळि	बोब्बे अरचु
गर्जवुं	डरकाळी फोडप	गर्जनु, सिंह कराउनु	गर्जन करा	गोजर	नोङ्शाना ङङ्बा	गर्जन-करिबा, सिंह-गर्जन-करिबा	गर्जिंचुट	गर्जिक्क	गर्जिक्कुक, अलरुक	गर्जिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जोर से चिल्लाना	√क्रुश्	धाड़ां मारना	चीख़ना	ग्रज़ुन	वाका करणु चीख़णु	जोरांत ओरडणे
दहेज	पुं.	विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से दिया जाने वाला धन और सामान	यौतुकम्, स्त्रीधनम्	दाज	जहेज़	दाज	ड़ाजु, ड़ाजो	लग्नातील हुंडा
दाई	स्त्री.	1. उपमाता, धाय	धात्री, उपमाता	दाई	दाई, अन्ना	दाय	दाई	दाई
		2. प्रसूति के समय मदद करने वाली स्त्री	मातृका, धात्री	–	दाई	वारेंन्य	दाई	सुईण
दातुन	स्त्री.	नीम, बबूल आदि की नरम टहनी का टुकड़ा, जो दाँत साफ करने के काम आता है	दन्तधावनम्	दातण	मिस्वाक	दाँतुन	ड़ंदणु	दातण
दान	पुं.	1. देने की क्रिया	दानम्	दान	दहिश (देन)	द्युन	दानु, ड़ाणु	दान
		2. धर्म आदि की दृष्टि से किसी को कोई वस्तु देने की क्रिया, खैरात	प्रदानम्	दान	ख़ैरात	दान, खॉराथ	ख़ैरात	दान-पुण्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जोरथी बराडवुं	गाज़, गर्जेवप	गर्ज<u>नु</u> कुर्ल<u>नु</u>	चेँचानो	चिञर	कन्ना लाओबा	जोररे-चिल्लाइबा-बा-पाटि-करिबा	बांब्बरिं-तलुर्पट्टुट	उरक्क कत्तल्	उच्चत्तिल् निल-विळिक्कुक	बोब्बेयिडु
दहेज	हुंडो, देणें	दाइजो	यौतुक, (जौ) पण	यौतुक	आउन पोत्	जौतुक	कट्नमु	वरदक्षिणै	स्त्रीधनम्	वरदक्षिणे
दाई, धाव	दाई	धाई, धाईआमा	दाइ, धाइ, धात्री	तोलनीया आइ	दाय	धाई, सेबिका	दादि	वळर्प्पुत्ताय्	वळर्त्तम्म	दादि
सुयाणी	बयजीण	सुँडिनी, सुँडेनी	–	धाइ	योक्चबी	धाई, सेबिका	मंत्रसानि	पिरसवम् पार्कुम् मरुत्तुवच्चि	वयट्टाट्टि, मिड्वैफ्	सूलगित्ति
दातण	दातण	दतिउन, दतिवन	दाँतन, काठी	दातोन	पैया नीम मशा मकक् (या थिन्नबा)	दांत-काठी	पलुदोमु-पुल्ल	पल्कुच्चि	पल्लुकुत्ति	हल्लु उज्जुव कड्डि
दान, खेरात	दिवप	दिने काम, प्रदान	दान-खयरात	दिया-कार्य	दान	दान	दानमु	नन् कांडै	कांटुक्कल्	कोडु
दान, पुण्य	दान करप	दान	–	दान	दान	दान, अर्पण	दानमु	दानम्	दानम्	दान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दानव	पुं.	राक्षस, असुर	दानवः, असुरः	दानो, दानव	देव, इफ़्रीत	राख्युस	दैतु, राकासु	दानव, राक्षस, असुर
दानवीर	पुं.	उदारतापूर्वक दान करने वाला	दानवीर	दानवीर	मुख़य्यिर	दॉनी, दानुॅवीर	दानवीरु	दानवीर
दाना	पुं.	1. अन्न या फल का कण या बीज	अन्नकणः	दाणा	दाना	दानुॅ	दाणो	दाणा
		2. माला आदि का मनका, मूंगा	मालामणिः	–	–	दानुॅ, मालि-फॅल्य	मनको, मणिको	माळेचा मणी
		3. छोटी गोल फुंसी	पिटिका	–	–	गरमी दानुॅ	फुरिड़ी	लहान गोल फोड
दाना-पानी	पुं.	अन्न-जल, खाना-पीना, जीविका	अन्न-जलम्, जीविका	दाणा-पानी	आबोदाना, दाना-पानी	आबदानुॅ	दाणो-पाणी	दाणा-पाणी, अन्नजल
दानेदार	वि.	जिसमें दाने या रवे हों	कणिकामय	दाणेंदार	दानेदार	दानुॅदार	दाणेदार	जाड, दाणेदार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दानव	राक्षस	राक्षस, दैत्य्	दानब, असुर	दानव, राक्षस, असुर	हिङ्चाबा	दानब, असुर, राक्षस, रक्ष	राक्षसुडु	राक्षसन्, अरक्कन्	दानवन्	दानव, राक्षस
दानवीर	दानवीर	दानवीर, महादानी	दानबीर, दानी	दानबीर	दान तौगन्बा	दानबीर, दानी	दानवीरुडु	कॉडै वळ्ळल्	दानवीरन्	दानवीर
दाणो, आनाज	दाणो	गेडो, बियाँ, अन्न्	दाना	गुरि, टुकुरा	मरु (चेङ् हवाईगी मरु)	दाना, अन्न	गिंज़	दानिय मणि	धान्य मणि	काळु
मणको	मणी	मालाको गेडी	पुँति	मणिका	माला मरु	गोठि	पूस	मालैयिन् मणि	मालयिल् मणि	मणि
फोल्ली	पुळी	बिमिरो	फुसकुड़ि	सरु फाँहा	फुरी	छोट बथ, ब्रण	चिन्न पुण्डु	चिरंगु	चॅरिय कुरु	चिक्क गुळ्ळ, बॉक्क
दाणो-पाणी	दाणो-पाणी	दानापानी, अन्नजल, जीविका	दानापानि, अन्नजल	जीविका, दाना-पानी	चाक्-ईशिङ्	दानापाणि, जीबिका	अन्नपानमुलु	आहारम्, उणवु, वाळ्क्कै	उपजीवनम्	अन्ननीरु
दाणादार	दाणेदार	दानादार, दानेदार	दानादार	गुटि थका	मरु माओबा	दानादार	गिंजलुगल	मणि मणियान	तरि तरियाय	काळुगळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दाम	पुं.	कीमत, मूल्य	मूल्यम्	मुल्ल	दाम	मौंल, कूँमथ	अघु, मुल्हु	किमत, मूल्य
दायाँ	वि.	दाहिना	अपसव्य, वामेतर	सज्जा	दायां, रास्त	दॅछुन	साज़ो	उजवा
दारोगा (दरोगा)	पुं.	1. निगरानी, देख-भाल करने वाला अधिकारी	स्थानपाल:	दरोगा	दारोग़ा (दरोग़ा)	दारोगुॅ	दारोग़ो	फौजदार
		2. पुलिस का एक अधिकारी	कोटपाल:, स्थानाध्यक्ष:	दरोगा	–	थानुॅदार	थाणेदारु, सूबेदारु, दारोग़ो	फोजदार
दावत	स्त्री.	1. भोज	भोज:	दावत	दावत	साल	दावत	मेजवानी
		2. निमंत्रण	निमन्त्रणम्	दावत	ज़ियाफ़त तलबी	साल	–	निमंत्रण
दावा	पुं.	1. अधिकार, स्वत्व, हक	स्वत्वाधिकार:	दावा	दावा	दावा	दावा	अधिकार, स्वत्व, हक्क
		2. स्वत्व की रक्षा या अन्याय के प्रतिकार के लिए न्यायालय में दिया हुआ प्रार्थना-पत्र, नालिश	स्वत्वावेदनम्	दावा	नालिश	दावा	निवेदन	दावा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
किंमत, कीमत, मूल्य	मोल, कीमत	दाम, किम्मत	दाम, मूल्य	मूल्य, दाम	ममल्	दाम, मूल्य	धर, वॅल	विलै	विल	बेले
जमणुं	उज़्वो	दाहिने, दायाँ	डान, डानदिक	सों	येत् थङ्बा	ड़ाहाण, दक्षिण	कुडि	वलदु	वलत्ते	बल
दारागो, जमादार	थाणेदार	दारोगा	दारोगा	दारोगा	दरोगा	अधिकारी, दारोगा	इंस्पेक्टरु	इंस्पेक्टर, आय्वाळर्	इंस्पेक्टर्	पर्यवेक्षक
फोजदार	फौजदार	थानेदार, ठानेदार	दारोगा	दारोगा (पुलिश)	थाना	दारोगा	पोलीसु इंस्पेक्टरु	पोलीस् इंस्पेक्टर्	पोलीस् इंस्पेक्टर्	फौजदार, इन्स्पेक्टर्
जमण, मिजबानी	पार्टी	भोज, भतेर	भोज	भोज	मयाम पुन्ना चाक चाबा	भोजि	विंदु	विरुँदु	सद्य	औतण
आमंत्रण, जोतरुं	आमंत्रण	निमंत्रणा	निमंत्रण	निमंत्रण	बातोन	निमंत्रण, आमंत्रण	निमंत्रणमु	अळैप्पु	क्षणम्, विळि	निमंत्रण
दावो, हक	हक्क	दाबी, हक	दाबि-दाओआ, अधिकार	अधिकार	हक, दाबी	अधिकार, हक, दाबि	हक्कु	दावा, उरिमै	अधिकारम्	अधिकार
हक	दावो	दावा	नालिश	दाबा, मकर्दमा, नालिश	हक	नालिश, दाबि, मकदमा	दावा	उरिमै/ नियायम् कोरुम् वळक्कु	अवकाशवादं	दावा, व्याज्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. किसी बात की यथार्थता के विषय में अत्यधिक आत्मविश्वास, गर्वोक्ति	प्रतिज्ञानम्	दावा	मुतालबा	दावा	दावा	गर्वोक्ती
दिखावटी	वि.	जो केवल दिखाने के लिए किया गया हो	कृत्रिम, कृतक	दिखाउटी	नुमाइशी (दिखावटी)	दिखावटी	डॖेखदारु, बनावटी	दिखाऊ
दिन	पुं.	1. वह समय, जिसका आरंभ सूर्योदय तथा अंत सूर्यास्त से होता है, दिवस	दिनम्	दिन	दिन (रोज़)	दोंह	डॖींहुं	दिवस
		2. चौबीस घंटे की अवधि	दिवसः	दिन	साअत, घड़ी	दोंह तुं राथ	–	अवधी, दिवस
दिनकर	पुं.	सूर्य	दिनकरः	सूरज	सूरज, आफ़ताब	सिरियि	सिजु	सूर्य, दिनकर
दिमाग	पुं.	1. सिर के भीतर का गूदा	मस्तिष्कम्	दिमाग (दमाग)	दिमाग़	द्यमाग	दिमाग़ु, मस्तिष्कु	मेंदू, मस्तिष्क
		2. सोचने-समझने की शक्ति	चिन्तनशक्तिः	दिमाग	ज़हन	द्यमाग	–	बुद्धी, अक्कल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गर्वोक्ति	खातरी	दावा, दाबी	गर्वोक्ति, अहंकार, गरिमापुर्ण निबेदन	गार्बोक्ति, दंभ	मशाबु थाजबा	दृढ़ता, दंभ, दृढ़-बिश्वास	हामी	अळवट्ट तन्नंबिक्कै	उर्प्पु	अवकाशवाद
नकली, देखाव पूरतुं	दाखोवणें, नखरें	देखावटी, नक्कली	लोक देखान	बाहिरे रमक-जमक	मपालगी ओइनता येङ्बदा फजबा	देखा-सुंदर, बाह्य-सुंदरता	कपटमु, बूटकमु,	पोलि, वंळिप्पग-ट्टान	पुरं मोटि मात्र-मुळ्ळ, कृत्रिममाय	कृत्रिम
दिन	दीस	दिन, दिवस	दिन, दिबस	दिन, दिवस	नोङ्मा	दिन, दिबस	पगलु	पगल् नेरम्	पकल्	हगलु
अवधि	काळ, वेळ	दिन	दिन	दिन	पुङ् कुनमरि	दिन, दिबस	दिनमु, रोजु	नाळ्	दिवसम्	दिन
सूर्य	सूर्य	सूर्य, दिनकर	सूर्य	बेलि, सूर्य	नुमित्	दिनकर	सूर्युडु	सूरियन्	सूर्यन्	सूर्य
दिमाग, मगज	मस्तिश्क, मेंदू	दिमाग, गिदी	घिलु	मेधा, मस्तिष्क	थोप्	मस्तिष्क (मगज)	मंदडु	मूळै	तलच्चोरुं	मेदुळु
बुद्धि	बुद्धी	दिमाख, मस्तिष्क	मस्तिष्क, मगज	मस्तिष्क	ब्रेन	मस्तिष्क, धी, बुद्धि	बुद्धि	बुद्दि	मस्तिष्कम्, बुद्धि शक्ति	तले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दियासलाई	स्त्री.	एक सिरे पर गंधक आदि मसाला लगाकर बनाई हुई छोटी तीली, जो रगड़ने पर जल उठती है	दीपशलाका	माचस, दीवासलाई	दियासलाई, माचिस	गंदख तुज	माचीसु	आगकाडी
दिल	पुं.	हृदय	हृदयम्	दिल	दिल	दिल	दिल	हृदय
दिलासा	पुं.	क्षुब्ध या दुखित हृदय को दिया जाने वाला आश्वासन, तसल्ली, ढाँढस	सान्त्वना	दिलासा	दिलासा	दिलासुॅ	दिलासो	दिलासा, धीर
दिवंगत	वि.	जो मर गया हो, परलोकवासी	दिवङ्गत	परलोकवासी	मरहूम, खुल्द आश्याँ	मूदमुत, स्वर्ग वॉसी, मरहूम	सुर्गवासी, सर्गवासी, सरगवासी	दिवंगत (कैलासवासी)
दिवाला	पुं.	धनहीनता की वह स्थिति, जिसमें कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपना ऋण न चुका सके, सर्वथा अभाव की स्थिति	देयाक्षमत्वम्	दिवाला	दिवाला	देवोल	ड॒वालो	दिवाळे
दिवालिया	वि.	जिसका दिवाला निकल गया हो, जो सर्वथा अभाव की स्थिति में हो	देयाक्षम	दिवालीआ	दिवालिया	देवॉल्यदास	ड॒वालियो, खुटलु	दिवाळखोर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दीवासळी	फसका काडी	सलाई	देशलाइ	दियाचलाइ, जुइशला	मैखेत मरु	दिआसिलि	अग्गिपुल्ल	तीक्कुच्चि, नेरुप्पु-क्कुच्चि	तीप्पेट्टि	बेंकि-कड्डि
दिल, हृदय	काळीज़	मुटु, हृदय	हृदय, दिल	हृदय	थम्मोइ	हृदय	हृदयमु	हृदयम्	हृदयम्	हृदय
दिलासो	धीर, दिलासो	आश्वासन, ढाढस, सांत्वना	भरसा, सांत्वना	सात्वना, आश्वासन, भरसा	थेमजिन्बा, फाथबिबा	भरसा, आश्वासना, सांत्वना, प्रबोधना	ओदार्पु, ऊरडिंपु	आरुदल्	आश्वसनम्	समाधान
दिवंगत, स्वर्गस्थ्	परलोक वासी	परलोक-वासी, दिवङ्गत	स्वर्गत, प्रयात	मृत, स्वर्गगत	नोङ्गाखबा, शिखबा	स्वर्गत, मृत, दिबंगत	स्वर्गवासि अयिन	कालम् चेन्र	दिवंगतनाय	दिवंगत
देवाळुं, नादारी	दिवाळें, देवाळें	दिवाला, टाटउल्टाइ	देउलिया	देवलीया	बैंकरप्ट चत्पा, शेल् लैतबा	देबालिया	दिवाला	दिवाल्	पाप्पर्	दिवाळितन
देवाळियुं	दिवाळखोर, खांख-नवाळ	टाट-उल्टेको, दिवालिया	देउलिया	देवलीया	शेल् पाइदबा	देबालिया, सर्बस्वांत, सर्बहरा	दिवाला-तीसिनवाडु	दिवालान	दीवाळि कुळिच्च, पाप्पराय	दिवाळियादव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दिशा	स्त्री.	1. क्षितिज मंडल के चार मार्गों–पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में से एक	दिक्, दिशा	दिशा	तरफ़, सम्त	तरफ	ड॒िस, ड॒िसा	दिशा
		2. ओर, तरफ		पासा, तरफ़	तरफ़	रख	तरफ़	बाजू
दीक्षा	स्त्री.	किसी मंत्र की वह शिक्षा, जो आचार्य या गुरु से विधिपूर्वक शिष्य बनने अथवा किसी संप्रदाय में सम्मिलित होने के समय ली जाती है, गुरुमंत्र	दीक्षा	दीखिआ	रुश्द	दीख्या	दीक्षा, दीख्या	दीक्षा
दीपक	पुं.	दीया, चिराग	दीपकः	दीवा	चिराग़	च़ोंग	दीपकु, ड॒िओ	दिवा, दीपक
दीया (**दिया**)	पुं.	दीपक, चिराग	दीपः	दीवा	चिराग़	च़ोंग	चिराग़ु	दीपक, दिवा
दीर्घा	स्त्री.	आने-जाने के लिए कोई लंबा और ऊपर से छाया हुआ मार्ग	दीर्घा	गैलरी	राहदारी	दोर	राहदारी, गैलरी	सज्जा, गॅलरी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दिशा	दिको	दिशा	दिशा, दिक	दिश	माइकै	दिग	दिक्कु	दिशै	दिक्कुॅ	दिक्कु
बाजु	वाटेन	तिर्, तर्फ़	–	फाले	माइकै	अन्य-दिग, अन्य-पाख	दिक्कु, वैपु	पक्कम्	नेर्क्कुॅ	कडे
दीक्षा	दीक्षा	दीक्षा, गुरुमंत्र	दीक्षा	दीक्षा	दीक्षा, लौबा	दीख्या, दीख्यित-हेबा	दीक्ष	मंतिर-उपदेशम्	मंत्र-दीक्ष	दीक्षे
दीपक, दीप, दीवो	दीपक	दीप, बत्ती	दीपक	चाकि	थाङ्मै	दीप, दीपक	दीपमु	विळक्कु	दीपम्	दीप
दीवो	दिवो	दियो, बत्ती	दीपक, दीप, प्रदीप	चाकि	थाङ्मै	दीप, दीपक	दीपमु, प्रमिदॅ	विळक्कु	विळक्कुॅ	दीविगे
वीथि	गॅलरी	दीर्घा	ग्याल्यारि, वीथी	दीर्घा	लमशाङ् मथक कुप्पा, गैलरी	अलिंद	ग्यालरी	ताळूवारम् वेराण्डा	गालरि, वरांत	ग्यालरि, पडसाले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दीवार	स्त्री.	मिट्टी, ईंटों, पत्थरों आदि की प्रायः लंबी, सीधी और ऊँची रचना, जो कोई स्थान घेरने के लिए खड़ी की जाती है, भीत	भित्तिः, कुड्या	कंध, दिवार	दीवार	देवार	दीवार, भिति	भिंत
दुख	पुं.	कष्ट, क्लेश, तकलीफ	दुखम्	दुख	दुख, तक्लीफ़	दोँख, तकलीफ	ड्डुखु, सूरु	दुख
दुकान (दूकान)	स्त्री.	सौदा खरीदने और बेचने की जगह	आपणः	दुकान	दुकान	दुकान	दुकानु	दुकान
दुकानदार (दूकानदार)	पुं.	दुकान का स्वामी, दुकानवाला	आपणिक, पण्याजीविन्	दुकानदार	दुकानदार	दुकानदार	दुकानदारु	दुकानदार
दुतकारना	स.क्रि.	उपेक्षा या तिरस्कारपूर्वक हटाना, तिरस्कृत करना	दुत् + √कृ	दुरकारना	धुत्कारना	ब्यवॉरी-करुँन्य	छिड़िब़णु, बेमानी करणु, दुत्कारणु	धुडकावणें, तिरस्कृत करणें
दुबला	वि.	दुर्बल, कमजोर, पतले बदन वाला	कृश	लिस्सा, दुबला	लाग़र, दुबला	कमज़ोर	ड्डुबरो	दुर्बळ, अशक्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दीवाल, भींत	वणत	पर्खाल, गारो, भित्ता	देओयाल	बेर	फक्लाङ्	कांथ, देबाल	गोडॅ	सुवर्	मतिल्, चुवर् भित्ति	गोडॅ
दुख	दुख	दुख, क्लेश, वेदना	दुख, कष्ट	दुख	अवाबा	दुःख, कष्ट, जंत्रणा, क्लेश	दुःखमु	दुक्कम्, वरुत्तम्	दुःखम्	दुःख
दुकान	पसरो, दुकान	पसल, दोकान	दोकान	दोकान	दुकान	दोकान	दुकाणमु, अंगडि	कड़ै	कट, पीटिक	अंगडि
दुकान-दार	पसरकार, दुकानदार	पसले, दोकानदार, दोकाने	दोकानदार, दोकानी	दोकानी	दुकान फंबा मी दुकानदार	दोकानी	दुकाणॅ-दारु	कडैक्कारन्	कटक्कारन्	अंगड़ियवनु
धुतकारवुं	उपेक्षा करप	दुत्कार्नु, फटकार्नु, तिरस्कार गर्नु	तिरस्कार	तिरस्कार कर	चैथत्पा	धिकार-करिबा, गालि देबा, तिरस्कार-करिबा	तिरस्करिंचुटॅ	अवमदिक्क	तिरस्करि-क्कुक, निंदिक्कुक	तिरस्करिसु
दूबळुं, अशक्त	दुर्बळ, अशक्त	दुब्लो, पातलो, सिकुटे	दुर्बल, निर्बल, कमजोर	दुर्बल, अक्षम, असमर्थ	पाङ्गन शोन्बा, मयाङ् कन्बा अशोन्बा	दुर्बल, असमर्थ, अक्षम, क्षीण, अशक्त	सन्ननि	मॅलिॅंद	दुर्बलमाय, मॅलिञ्ञ	तंळ्ळगिन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दुभाषिया	पुं.	वह मध्यस्थ व्यक्ति, जो अलग भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के समय एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए	द्विभाषिक, द्विभाषिन्	दुभाशीआ	तरजुमान	दुबाशियि, इन्टरप्रेटर	दुभाषियो, तर्जुमानु	दुभाषी
दुरुपयोग	पुं.	किसी चीज या बात का अनुचित उपयोग	दुरुपयोगः	कुवरतों, दुरउपयोग	ग़लत इस्तेमाल	गलत इस्तेमाल	ग़लत इस्तेमालु	दुरुपयोग
दुर्गंध	स्त्री.	बुरी गंध, बदबू	दुर्गन्धः, पूतिः	बदबो, दुरगंध	बदबू	फख, बदबू	बांस, बदबूइ	घाण, दुर्गंध
दुर्ग	पुं.	किला, गढ़, कोट	दुर्गः, कोटः	किला	क़िला	किलुॅ	क़िलो	किल्ला, दुर्ग, गड
दुर्घटना	स्त्री.	अचानक होने वाली दुखद घटना	दुर्वृत्तम्, दुर्घटना	दुरघटना, हादसा	हादिसा, सानिहा	हॉदिसुॅ	हादसो, दुर्घटना	दुर्दशा
दुर्दशा	स्त्री.	बुरी हालत, दुर्गति	दुर्गतिः	दुरदशा	बदहाली, दुरगत	दौरॅदशा, बुरुहालथ	दुर्दशा	दुर्दशा
दुर्भिक्ष	पुं.	अकाल	दुर्भिक्ष	काल, कहित	क़हत	अकाल, कॅहथ	डुकारु	दुष्काळ, दुर्भिक्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुभाषियो	दुभाशी, दुभाषी	दोभासे, द्वीभासी	दोभाषी, दुभाषी, दुभाशी	दोभाषी, द्विभासी	इंटरप्रेतर, लॉन्दिन्-नदबा मी मरोल ङाङ्नबा लोल हंदोक्पा	दोभाषी-अनुबादक, भाषांतर-कारी	दुभासि, अनुवादकुडु	दुवाष्, मॉळि पॅयर्प्पाळर्	द्विभाषि	द्विभाषि, दुभाषी
दुरुपयोग	दुरुपयोग	दुरुपयोग	अपव्यवहार	दुरुपयोग	लाल्ना शिजिन्नबा	दुरुपजोग, अपचय, अपब्यबहार	दुरुपयोगमु	तवरान-वाळियिल् उबयोगित्तल्	दुरुपयोगम्	दुरुपयोग
दुर्गंध	घाण, दुर्गंध	दुर्गंध	दुर्गंध	दुर्गंध	नमथिबा	दुर्गंध (दुर्गन्ध)	दुर्गंधमु	दुर्-नाट्टम्	दुर्गंधम्	नात
किलो, कोट	किलॉ, गढ	किल्ला, कोट, गढी	दुर्ग, केल्ला	दुर्ग, किल्ला	लालबन्	दुर्ग, गड़, किल्ला	दुर्गमु, कोटॆ	कोट्टै	दुर्गम्, कोट्ट	कोटे, किल्ला
दुर्घटना	दुर्दशा	दुर्घटना	दुर्घटना	दुर्घटना	नुङ्ङाइतबा थौदोक्	दुर्घटना, बिपत्ति	दुर्घटन, प्रमादमु	विबत्तु	अपकटम्	दुर्घटने, अनाहुत
दुर्दशा	दुर्दशा	दुर्दशा, दुर्गति	दुर्दशा	दुर्दशा, दुर्गति, दुर्विपाक	नुङ्ङाइतबा थौदोक्	दुर्दशा, दुर्गति, दुर्बिपाक, दुर्घटणा	दुर्दश, दुस्थिति	अवल निलै	दुर्दश	दुर्गति
दुकाळ	दुकाळ	अनिकाल, अकाल	आकाल, दुर्भिक्ष	दुर्भिक्ष, बिपत्ति	चाक् ताङ्बा	दुर्भिक्ष, अकाल, बिपत्ति	करुवु, क्षाममु	पंजम्	दुर्भिक्षम्, क्षामम्	क्षाम, बर, दुर्भिक्षे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दुर्लभ	वि.	जो कठिनाई से अथवा कम मात्रा में प्राप्त होता हो, दुष्प्राप्य	दुर्लभ, दुष्प्राप्य	दुरलब्भ	कमयाब	दौंरलब, नायाब	दुर्लभ	दुर्लभ
दुलहन (दुलहिन)	स्त्री.	नई बहू, नव-विवाहिता	नवोढा, नवविवाहिता	वहुटी, दुलहन	दुलहन	माहरेंन्य	कुंआरि, वनी	नवरी
दुलार	पुं.	लाड़-प्यार	लालन	लाड	दुलार	खानुॅं माजर, टाठिन्यार	दुलारु, लाडु	लाड
दुविधा	स्त्री.	ऐसी मनःस्थिति जिसमें दो या कई बातों में से किसी एक बात का निश्चय न हो रहा हो	द्वैधवृत्ति, द्वैध	दुबधा	कशमकश, तज़ब्जुब	दुच्योंत	बिचिताई	दिव्धा
दुश्मन	पुं.	शत्रु, बैरी	रिपुः	दुश्मन	दुश्मन	दुशमन	दुश्मनु	शत्रु, दुश्मन, वैरी
दुष्ट	वि.	दूषित मनोवृत्ति वाला, दूसरों को परेशान करने वाला	दुष्ट	दुशट	बदज़ात (खबीस)	दौंश्ट, खबीस	दुष्ट	दुष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुर्लभ	दुर्लभ	दुर्लभ, दुष्प्राप्य	दुर्लभ	दुर्लभ, दुष्प्राप्य	फङम्दबा	दुर्लभ, दुष्प्राप्य, दामि, मूल्यबान	दुर्लभमैन	किडैप्पदर्कु अरिदान	दुर्लभम्	दुर्लभ
नवी वहु	व्हंकल	दुलही, बेहुली	कने बउ	न बोवारी	अनौबी	बोहू, वधू	वधुवु, पेंड्लिकूतुरु	मणमगळ्	मणवाट्टि	मदुमगळु, वधु
लाड	लाड	माया, पुल-पुल्याइ, लाड	आदर	मरम-स्नेह	लुना-चान्ना तौबा	गेल, आदर, स्नेह, प्रेम	आपेक्ष, मुरिपमु	चेल्लम्	स्नेहम्, ओमनिक्कल्	मुद्दाट, प्रीति
दुविधा, द्विधा	दुबाव	दोधार, दुबिधा, धर्मसंकट	द्विधा, दोटाना	दोधोर मोधोर अवस्था	पल्लेपफम् खङ्दबा	द्विधा, संशय, संदिग्ध, संदेह-जनक, अस्पष्ट	ऊहापोह द्वंद्वमु	इरण्डुम् केट्टान् निलै, तडुमाट्टम्	धर्मसंकटम्	अनिश्चय, मनस्सिन अस्थिरते, संदिग्धते
दुश्मन, वेरी, शत्रु	दुसमान	दुस्मन, बैरी	शत्रु, बैरी	शत्रु, वैरी	येक्नबा फत्तबा, शुनिङ्दबा	शत्रु, प्रतिद्वंदी	शत्रुवु	एंदिरि, विरोदि	शत्रु	वैरि
दुष्ट	दुश्ट	दुष्ट, दुर्जन	दुष्ट	दुष्ट	शङ्गोम शुंबा	दुष्ट, बदमास, खल-व्यक्ति	दुष्टुडु	दुष्टन्, पोक्किरि	दुष्टन्, उपद्रवि	दुष्ट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दुहना	स.क्रि.	मादा जीवों के स्तनों से दूध निकालना/प्राप्त करना	√दुह्	चोणा	दुहना	चावुन	डुहणु	धार कढणें
दूत	पुं.	1. पत्र या संदेशवाहक, हरकारा	दूत, वार्ताहरः	दूत	क़ासिद, एलची	कॉसिद	दूतु, क़ासिदु	दूत
		2. किसी राजा या राष्ट्र का वह प्रतिनिधि, जो राजनीतिक कार्य से अन्य राष्ट्र में भेजा गया हो या स्थायी रूप से वहाँ रहता हो	राजदूतः	दूत	सफ़ीर	सफीर	दूतु, एलिची, सफ़ीर	राष्ट्रदूत
दूतावास	पुं.	राजदूत के रहने का स्थान और उसका कार्यालय	दूतावासः	दूतावास	सिफ़ारतख़ाना	सफारथ खानुं	दूतावासु, एलिचीख़ानो	दूतावास
दूभर	वि.	कठिन, मुश्किल	असह्य	असहि, दुब्भर	दूभर	मुशकिल	डुखियो	कठीण, अवघड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दोहवुं	धारकाडप	दुहुनु	दुध दोया	खीरोवा	पाओखोल्-लोइ	दुंहिबा, मुहेंइबा	पिण्डु॒टॅ	कर॒क्क (पाल्)	(पाल्) कर॒क्कुक	हालु करेयुवुदु
दूत	दूत	दुत, संदेश-वाहक	दूत, प्रतिनिधि	दूत	पाओ पुबा मी	दूत, पत्र बा बार्ता-बाहक	दूतॅ	तूदन्	दूतन्	दूत
राजदूत	राश्ट्रदूत	राजदूत	राजदूत	राष्ट्रदूत	राजदूत, ऐंबैसेडर	राष्ट्रदूत	रायबारि, राजदूतॅ	राजतूदर	नयतंत्र-प्रतिनिधि	रायभारि, राजदूत
राजदूत भवन	दूतावास	दूतावास	दूताबास	दूतावास	ऐंबैसी, राजदूतना लैननबा मफम, ऑफिस	दूताबास	राजदूतॅ कार्यालयमु	तूदरालयम्, तूदरनगम्	नयतंत्र-कार्यालयम्, एंबसि	रायभारि कचेरि
कठण, अघरुं	कठीण	कठिन, मुस्किल, गाह्रो	दूर	कठिन, असह्य	अरुबा	कठिन, असह्य, दुष्प्रभ, टाण	दुर्भरमैनॅ	कडिनमान	विषमम्, असह्यम्	कठिण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दूर	क्रि. वि.	देश-काल, स्थान आदि की दृष्टि से अधिक अंतर पर, फासले पर, अलग, पृथक	दूरम्, भिन्न, पृथक्	दूर —	दूर —	दूर, अलग	दूर, परे, अलग़, दूर	दूर, लांबीवर, अलग, पृथक
दूरदर्शन	पुं.	टेलीविजन	दूरदर्शनम्, दूरदर्शनयन्त्रम्	दूरदरशन	टेलीविज़न	टेलिविजन	टेलीविज़न, दूरदर्शन	दूरदर्शन
दूरबीन	स्त्री.	एक यंत्र, जिसके द्वारा दूर की वस्तुएँ समीपस्थ दिखाई देती हैं	अन्वीक्षणयन्त्रम्	दूरबीन	दूरबीन	दूरबीन	दूरबीन	दुर्बिण
दूरभाष	पुं.	एक यंत्र, जिसकी सहायता से दूर बैठे लोग आपस में बातचीत करते हैं, टेलीफोन	दूरभाषोपकरणम्	टैलीफोन	टेलीफ़ोन	टेलिफोन	टेलीफ़ोन, दूरभाष	टेलीफोन, दूरभाष
दूल्हा	पुं.	वह व्यक्ति, जिसका विवाह होने को हो या कुछ ही दिनों पहले हुआ हो, वर, नवविवाहित	वर:	लाड़ा	दूल्हा, नौशा	माहराज़ुं	दूल्हो	नवरा, वर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दूर, वेगळुं	पयस, वेगळें	टाढा, निकै पर, अलग्ग, पृथक	दूर, आलादा	दूर, पृथक	लाम्ना, थाप्ना, तोङान्ना	दूर, अलगा, पृथक	दूरमु, वेरु	दूरत्तिल, तौलैविल्, तनियाग	दूरे, वेर्	दूर, बेरे
टेलिविझन	दूरदर्शन	दूरदर्शन, टेलिभिजन	दूरदर्शन, टेलभिशन	दूरदर्शन	टेलीविजन, दूरदर्शन	दूरदर्शन	दूरदर्शनमु	तॉलै काट्चि (टी.वी.)	टॅलिविषन्, दूरदर्शनम्	दूरदर्शन
दूरबीन	दुर्बिण	दूरबीन, दूरवीक्षण	दूरबीन, दूरबीक्षण	दूरबीन, दुर्वीण	दूरबीन, टेलिस्कोप	दूरबीक्षण-जंत्र	दुर्भिनु, टॅलिस्कोपु	तोलै नोक्कि	दूरदर्शिनि	दुर्बीनु
टेलिफोन	दूरध्वनी, टेलीफोन	दूरभाष, टेलिफोन	टेलिफोन, दूरभाष	टेलिफोन, दूरभाष	टेलीफोन	टेलीफोन, दूर-कथन-श्रबण-जंत्र, दूरभाष	टेलिफोनु	तॉलैपेसि, टेलिफोन्	टॅलिफोण्	दूरवाणि
वर, वरराजा	न्हवरो	दुलहा, दुलहो, बेहुलो	वर	दरा, बर	वर, बोर लुहोङबद ङाइरिबा	बर, बरपात्र	वरुडु	मणमगन्	वरन्	वर, मदुमग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दूसरा	वि.	1. जो गणना में दो के स्थान पर हो, पहले के बाद का	अपर:	दूजा, दूसरा	दूसरा, सानी	दोयुम, ब्याख	बियों	दुसरा
		2. प्रस्तुत से भिन्न, अन्य	अवर	–	दीगर	ब्याख	बियो	अन्य
दृढ़	वि.	1. अविचलित	दृढ;	द्रिढ़, तकड़ा	साबित क़दम	मज़बूथ	अटल	दृढ़, अविचलित, अटळ
		2. कड़ा, मजबूत	दृढ:	करड़ा	मुस्तहकम, मज़्बूत	मज़बूथ	पको, मज़बूत	मजबूत
		3. जिसमें कोई हेर-फेर न हो सके, पक्का, निश्चित	सुनिश्चित:	द्रिढ़	मुस्तक़िल	मज़बूथ	पको, पुख़्तो	पक्का, निश्चित
दृश्य	पुं.	1. जो देखने में आ सके या दिखाई दे सके, जिसे देख सकते हों	दृश्य	द्रिश	मरई (दीदनी)	वुछवुन	डिसण में ईंदडु	दृश्य
		2. नजारा	कौतुकम्	नज़ारा	मन्ज़र	नज़ारुँ	नज़ारो, दृश्यु	देखावा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बीजुं	दुसरो	दोस्रो	द्वितीय	द्वितीय	अनिशुबा	द्वितीय-अंक, दुइ	रेंडवॆ	इरण्डावदु	रण्टामत्तॆ	ऐरडनेय
अन्य	अन्य	अर्को, भिन्नै, अन्यु	अन्य	आन, अन्य	अतोप्पा	अन्य, अलगा	वेरे	मट्ट्रारु	वेऱ्, मट्ट्र	बेरॆय
स्थिर, मक्कम	दृढ	अडिग, अटल	दृढ़, अटल	अबिचलित, दृढ़	लेङ्दबा	दृढ़, अटल, अबिचलित	दृढमैन	निलैयान	दृढमाय	दृढ
मजबूत, टकाउ	मज़बूत	बलियो, दह्रो, सार्‍हो	दृढ़, शक्त	कठिन, दृढ़	अचेत्पा	दृढ़, शक्त, कठिन	गट्टि	दिडमान	कटुप्पमुळ्ळ, उऱप्पुळ्ळ	गट्टियाद, मजबूताद
पाकुं	पक्का	पक्का, दृढ	दृढ़, शक्त, मजबूत	निश्चित	अरेप्पा	दृढ़, शक्त, निश्चित	गट्टि	अशैक्क मुडियाद	निश्चितमाय, उऱच्च	निश्चित
दृश्य	देखाव	दृश्यु, चाक्षुष	–	दृश्य	दृश्य, मीत्ना उरिबा	दृश्य	दृश्यमु	काट्चि	काळ्च, विनोदम्	दृश्य
देखाव	दृश्य	दृश्य, दृश्यावली	दृश्य	दृश्य, दिठर	कुम्है	–	दृश्यमु	–	दृश्यम्	दृश्य नोट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
देखना	स.क्रि.	1. नेत्रों द्वारा किसी के होने का ज्ञान प्राप्त करना	√दृश्	वेखणा, देखणा	देखना	वुछुन	ड॒िसणु	पाहाणें
		2. निगरानी करना या रखना	निर + √ईक्ष्	–	मुआयना करना	नज़र थवुँन्य	निगरानी करणु	लक्ष ठेवणें
देख-रेख	स्त्री.	निगरानी	निरीक्षणम्, पर्यवेक्षणम्	देख-रेख, देख-भाल	निगहदाश्त, निगरानी	नज़र-गुज़र	निगरानी, संभाल	देखरेख
देनदार	वि.	कर्जदार, ऋणी	ऋणिकः, अधमर्णः	करजाई	देनदार, मक्रूज़	करुँज़दार	कर्ज़दारु	ऋणी, कर्जदार
देना	स. क्रि.	प्रदान करना	√दा, √दद्	देणा	देना	द्युन	ड॒ियणु	देणें, प्रदान करणें
देर	स्त्री.	विलंब	विलम्बः	देर, अवेर	देर, ताख़ीर	च़ेर	देर	विलंब, उशीर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जोवुं	पळोवप	हेर्नु, देख्नु	देखा	देख	येङ्बा, मीत्येङ् ताबा	देखिबा	चूचुट	काणुक	काणुक	नोड्डु
–	लक्ष- दवरप	निगरानी गर्नु	नजरे राखा	चकु राखा	येङ्शिन्बा	नजर रखिबा, तदारख	काचुट	परामरिक्क	कात्तु- सूक्षिक्कुक	कण्णावलिडु
देखरेख	दोळो दवरप	देखरेख, रेखदेख	तत्वाबधान	तदारक, परिदर्शन	येङ्शिन्बा	तदारख, देखा, तत्वाबधान, परिदर्शन	कापला	परामरिप्पु	मेल्नोट्टम्	उस्तुवारि
देणदार	रीणकार	देनदार, ऋणी	ऋणी, धारे लओया	ऋणी, धारे लओता	शेनदोनबा,	देणादार, ऋणी, महाजन, साहुकार	अप्पुपडि- नवाडु	कडन्कारन्	कटम् वाङ्ङियवन्, अधमर्णन्	सालगार
देवुं, आपवुं	दिवप	दिनु, प्रदान गर्नु, अर्पण गर्नु	देओया	दे, देवा	पिबा	देबा	इच्चुट	कॉडुक्क	कॉटुक्कुक	कॉडु
देर, ढील	उशीर, वेळ	ढिलो, अबेर	देरि, बिलंब	पलम, देरि	थेङ्बा, थिन्बा	डेरि, बिलंब	आलस्यमु	तामदम्	तामसम्	तड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
देवता	पुं.	1. दिव्य शक्ति संपन्न सत्ता	देवता	दिउता, देवता	उलूहियत	दिवताह	देवता	देव, देवता
		2. देव प्रतिमा	देवप्रतिमा	–	देवता	दिवताह	देव मूर्ती	देव-प्रतिमा
देवी	स्त्री.	1. दिव्य गुण वाली शक्ति जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि	देवी	देवी	देवी	दीवी	देवी	देवी
		2. स्त्रियों के लिए एक आदरसूचक संबोधन	देवी	–	–	दीवी	देवी	देवपत्नी
देश	पुं.	1. राजनैतिक दृष्टि से एक विशिष्ट भू-भाग	देशः, क्षेत्रम्	देस, देश	ख़ित्ता, इलाक़ा	दीश, मुलुॅख	देशु/देसु	देश
		2. कोई विशिष्ट भू-भाग या खंड	भूभागविशेषः	देस	मुल्क	दीश, मुलुॅख	वतनु	मुलुख
देशद्रोही	पुं.	षड्यंत्र रचकर अपने देश को हानि पहुँचाने वाला, देश से विश्वास-घात करने वाला	देशद्विष्, राष्ट्रद्विष्	देसधरोही	ग़द्दार	गदार	देशद्रोही, देशडोही	देशद्रोही

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
देवता	देव	देवता, देउता	देबता	दिव्य शक्ति	लाइ, लाइरेंबा	देबता, देबादेबी	देवता	देवतै	देवत	देवते
देव प्रतिमा	देवाची प्रतिमा	देवप्रतिमा	–	देव-प्रतिमा	लाइगी मूर्त्ति	देव-विग्रह	दैव-विग्रहमु	देव विग्गिरहम्	देव-प्रतिम, तेवर्	देवर विग्रह
देवी	देवी	देवी	देवी	देवी	देवी, लाइरेंबी	देबी, देबती	देवि	अम्मन्	देवि	देवि
देवपत्नी	–	देवी	–	देव-पत्नी	–	देबी, देबपत्नी	देवि	देवि	देवि	देवि
देश, प्रदेश	देश	देश, मुलुक, राष्ट्र	प्रदेश, अञ्चल, राज्य	देश, राज्य, प्रदैश	लैबाक् मफम, लम	देश, राज्य, प्रदेश, अंचल	प्रदेशमु	इडम्, पिरदेशम्	देशम्	देश
राष्ट्र, मुलक	प्रदेश	प्रदेश, क्षेत्र	देश	देश, राष्ट्र	लमदम	राष्ट्र, देश	देशमु	नाडु, देशम्	राज्यम्	नाडु
देशद्रोही	देशद्रोही	देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही	देशद्रोही	देशद्रोही	मरैबाकपू माङ्नबा तौबा मी	देशद्रोही	देशद्रोहि	देशद्दुरोहि	देशद्रोहि	देशद्रोहि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
देशवासी	पुं.	देश में रहने-बसने वाला	देशवासी	देसवासी, देशवासी	मुल्की बाशिंदा	बाशंदुँ	देशवासी	देशवासी
देहांत	पुं.	मृत्यु, मौत	निधनम्, मृत्युः	मौत, दिहांत	इंतिक़ाल, मौत	मरुन, मोथ	देहांतु, मौतु	मृत्यु, निधन, देहांत
देहात	पुं.	गाँव, ग्राम	ग्रामः	पिंड, दिहात	देहात	गाम	गोठु, देहातु	खेडेगाव
दैनंदिनी	स्त्री.	डायरी, रोजनामचा	दैनन्दिनी, दैनिकी	डाइरी	डायरी, रोज़नामचा	डयरी	डायरी, दैनिकी	रोजनिशी, दैनंदिनी
दैनिकी	स्त्री.	जेब में रखी जाने वाली वह छोटी पुस्तिका, जिसमें रोज के किए जाने वाले कामों का उल्लेख होता है, दैनंदिनी, डायरी	दैनन्दिनी, दैनिकी	डाइरी	डायरी, रोज़नामचा	डयरी	डायरी, दैनिकी	रोजनिशी, दैनंदिनी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
देशवासी	देशवासी	देशबासी	देशबासी	देशवासी	लैबाक् अमदा लैरिबा मी	देशबासी	देशवासि	नाट्टार्, देशवासि	देशवासि, स्वदेशि	देशवासि
मृत्यु, मरण	मरण	देहांत, मृत्यु	मृत्यु, मरण, देहान्त	मृत्यु, मरण	शिबा	देहांत, मृत्यु, मरण, परलोक इहलीला-संबरण	मरणमु	मरणम्, चावु	मरणम्, मृत्यु, देहवियोगम्	सावु, मरण
गाम	खेडे	देहात, गाउँ	ग्राम	गाँओ	खुनगङ्, लौवाइ	ग्राम, गाँ	ग्राममु	ग्रामान्दरम्	ग्रामम्, नाट्टिन्पुरम्	हळ्ळि
डायरी, रोजनीशी	डायरी	दैनंदिनी, डायरी	रोजनाम्चा, डायेरी	डायेरी, दिनपंजी	डायरी	डायरी, दिन पंजिका, दैनंदिन लिपि, रोजनामा	डैरी	नाट्-कुरिप्पु	डयरि	दिनचरि
डायरी	डायरी	दैनिकी, रोजनामचा	रोजनाम्चा, दिनलिपि	सरुदैनिकी, डायेरी	डायरी मचा	दैनिक-डाइरी	डैरी	नाट्कुरिप्पु	कैक्कणक्कुं	डैरि, दैनिकी

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दोपहर	पुं.	दिन के बारह बजे और उसके आस-पास का समय; मध्याह्न	मध्याह्न	दोपहिर	दोपहर (निस्फ़ुन्नहार)	दुपहॉर	ब़िपहरी, मंझंदि	दुपार, मध्याह्न
दोहराना	स.क्रि.	1. कोई काम या बात फिर से उसी प्रकार करना या कहना, पुनरावृत्ति	पुन:आ + √वर्तय्	दुहराउणा	दोहराना	प्युर द्युन	दुहराइणु	पुनरावृत्ती करणें
		2. किए हुए काम को फिर से आदि से अंत तक इस दृष्टि से देखना कि उसमें कहीं कोई भूल तो नहीं रह गई, पुनरीक्षण	पुनः + अभि + √अस्, पुनः + √ईक्ष्	–	दोहराना	प्युर द्युन	वरी जाच	पुनरीक्षण
दौड़-धूप	स्त्री.	वह प्रयत्न जिसमें अनेक स्थानों पर इधर-उधर बार-बार आना-जाना पड़े	घोर-प्रयासः, आयासः	भॅज्ज-दौड़	दौड़-धूप, तगोदौ	दवुॅ-दव, दोड-दूप	भज़ु-डुक	धावपळ
दौड़ना	अ.क्रि.	इतनी तेजी से चलना कि पाँव पृथ्वी पर पूरा न पड़े, भागना	√धाव्	दौड़ना	दौड़ना	दोरुन	डोड़णु	धांवणे, पळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बपोर	दनपार	मध्याह्न दिउँसो	दुपुर, द्विप्रहर	दुपरीया	नुमित् युङ्बा मतुङ्	उपर बेला, दुइपहर, अपरान्ह	मध्याह्नमु	मदियम्, नडुप्पहल्	उच्च, मध्याह्नम्	मध्याह्न
दोहराववुं	परत-परत म्हणप	दोहोऱ्याउनु	पुनराबृत्ति	पुनराइ कर, पुनरावृत्ति कर	हन्जिन्ना हायबा, हनजिन्ना तौबा	पुनराबृत्ति-करिबा	मळ्ळी चेयुट, पुनरुक्ति	मरुमुरै चॉल्ल	आवर्त्ति-क्कुक, उरुविटुक	पुनरावृत्तिमाडु
फरीवार अवलोकन करवुं	पुनर्निरीक्षण करप	पुनरीक्षण	पुनरीक्षण करा, फिरे देखा, पुनर्विचार करा	पुनराइ कर, संशोधन कर	अमुक हन्ना येंशिन्बा	पुनराबृत्ति-करिबा, पुनः निरिक्षण-करिबा	सरिचूचु-कॉनुट	मरुमुरै पार्त्तु पिळै नीक्क	पुनरवलोकनं चेंय्युक	पुनरीक्षणे
दोड़धाम	धांवपळ	दौडधूप	छोटाछुटि	कोनो कामत करा लरा-ढपरा	कोइनोम-नोंबा	धां दौड़, एपट-सेपट हेबा	उरुकुलु-परुगुलु	ओडियाडि मुयर्चित्तल	ओट्टवुम् चाट्टवुम्, कठिन परिश्रमम्	परिश्रम, प्रयत्न
दोडवुं, नासवुं	धांवप	दौडनु, दगुर्नु	दौड़ानो	लर, दौर	चेन्बा	दौड़िबा, धाबमान-हेबा	परुगॅत्तुट	ओड	ओटुक	ओडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
दौलत	स्त्री.	अधिकृत धन, संपत्ति	सम्पदा, धनम्	दौलत	दौलत	दोलथ, दवलथ	दौलत	धन-दौलत
द्योतक	वि.	1. किसी चीज को प्रकट करने वाला, परिचायक	द्योतक	सूचक	मुज़हिर	नोंन-कड़नवोल	ज़ाहिरु कंदड़ु, राशनीअ में, आणीदंड़ु	द्योतक, सूचक, प्रकट करणारा
द्रोही	वि.	किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला, विश्वासघाती	द्रोहिन्	धरोही	ग़द्दार	गदार	द्रोही, डोही	द्रोही, विश्वासघातकी
द्वंद्व	पुं.	1. जोड़ा, युगल	द्वन्द्वम्, मिथुनम्	जोड़ा	जुफ़्त, दोगना	जूर्य	जोड़ो, जोड़ी	युग्म, जोडी
		2. दो व्यक्तियों का परस्पर युद्ध	नियुद्धम्, द्वंद्वः, युद्धः	दवंद	कशमकश	जेंफ्य	दूबदू लड़ाई	द्वंद्व

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दोलत, संपति	आस्पत, धन-दौलत	धन-संपत्ति, दौलत	धन-संपत्ति, दौलत	धन-संपत्ति	लन्-थूम	धन-दौलत, धन-संपत्ति	संपद॒, आस्ति	चॆल्वम्	स्वत्तु॑	संपत्तु
द्योतक, दर्शावनारुं	सूचक, प्रकट करपी	द्योतक, सूचक	द्योतक	द्योतक, प्रकाश करौँता	खङ्हन्बा, ताक्पा फोङ्दोक्पा	द्योतक-प्रकाशकारी, उन्मोचनकारी	व्यक्त-परचुनदि, द्योतकमु	काण्बि-क्किर्, तॆरिविक्किर्	प्रकाशि-प्पिक्कुन्न, प्रकटमाक्कुन्न	प्रकाश-गोळिसुव, सूचिवुव
द्रोही	विश्वास-घाती	द्रोही, विश्वास-घाती	द्रोही, बिश्वास-घातक	बिश्वास-घातक	कनागुंबगी माइयोक्ता थबक तौबा, थाजबा माङहन्बा मी	द्रोही, बिश्वास-घातक	द्रोहि	दुरोहि	चतियन्, द्रोहि	द्रोहि
द्वंद्व	जोडपें	द्वंद्व, युग्म, युगल	युगल	युगल, जोर, हाल	जुरा	जोड़ि, जुगल	जत, जोडु	इरट्टै, जोडि	इरट्ट	जोडि
द्वंद्वयुद्ध	द्वंद्व	द्वंद्वयुद्ध, कुस्ताकुस्ती	द्वंद्वयुद्ध, द्वैरथ	द्वंद्व-युद्ध	मी अनि फुनबा, खत्नबा	द्वंद-जुद्ध	द्वंद्व॒ युद्धमु	मल्ल युद्दम्	द्वंद्वयुद्धम्	द्वंद्व, युद्ध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
द्वार	पुं.	दरवाजा	द्वारम्	दुआर	दरवाज़ा	दॉर, दरवाज़ुँ	दुआरु, दरु	दरवाजा, द्वार
द्वीप	पुं.	चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ भू-भाग, टापू	द्वीपः	टापू, दीप	जज़ीरा	जज़ीरुँ	बेटु, द्वीपु, टापू	बेट, टापू, द्वीप
द्वेष	पुं.	चित्त का वह भाव, जो अप्रिय वस्तु या व्यक्ति का नाश करने की प्रेरणा देता है, शत्रुता, वैर	द्वेषः, विरोधः	द्वेश	कीना, इनाद	रुँश	द्वेषु, साड़ु, हसदु	द्वेष, वैर, वैमनस्य
धंधा	पुं.	वह उद्योग या कार्य, जो जीविका निर्वाह के लिए किया जाए	आजीविका, वृत्तिः	धंदा	धंदा	कारुँबार	धंधो	धंदा, रोजगार
धकेलना	स. क्रि.	धक्का देना, ढकेलना	प्र + √णुद्, प्र √चुद्	धकेलणा	धकेलना	दकुँ द्युन	धिकणु, अगिते करणु	धक्का देणें, हकलणे, ढकलणें
धड़	पुं.	1. शरीर का वह बीच वाला भाग, जिसमें छाती, पीठ और पेट हैं	कबन्धः	धड़	धड़ (तन)	पान	धड़ु	धड़
		2. तना	शाखा	तना	तना	ग्वड	थड़ु	झाडाचे खोड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
द्वार, कमाड़	दार	ढोका, दैलो	द्वार, दुयार	दुवार	थोङ्	द्वार, दुआर	द्वारमु	नुळै़ वायिल्	कतकुँ	बागिलु
द्वीप, टापु	द्वीप	टापु, द्वीप	द्वीप	द्वीप	इथत्, द्वीप	द्वीप, टापु	द्वीपमु	तीवु	द्वीपुँ	द्वीप
द्वेष, वेर	दुस्वाशी	द्वेष, वैर	द्वेष	द्वेष, शत्रुता	येंथिनबा	द्वेष, शत्रुता	द्वेषमु	दुवेषम्, पगै, वॅरुप्पु	द्वेषभावम्, वैर भावम्, पक	द्वेष, वैर
धंधो, रोजगार	धंधो	धन्दा, पेसा	जीबिका काज	आजीविका, जीविका	शिन्फम	धंदा, जीबिका, काम, कार्ज्य	वृत्ति, पनि	उद्दियोगम्	जोलि	उद्योग
धकेलवुं	धूकळप	धकेल्नु, घचेट्नु	धाक्का देओया	गता मार	इंथोक्पा	ठेलिबा, धक्का-मारिबा	नॅट्टुट, त्रोयुट	मुन्ने तळ्ळ	तळ्ळुक	नूकु तळ्ळु
धड़	धड	धड, टाउकोरहित शरीर	धड़, गा	गा अंश	थबाक्, नङ्गन अमदि पुक फाओबगी शरुक्	गंडि, कबंध	मॉडॅमु	मुण्डम्	उटल	मुंड
धड़	रुखाचें कांड	वृक्षको मुढो	गुँडि, काण्ड	गुरि (गछर)	मऊ	कांड़, गंड़ि, गड़	मोडु	अडिमरम्	तटि	कांड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धड़कन	स्त्री.	हृदय का स्पष्ट स्पंदन	हृत्स्पन्दः	ਧੜਕਣ	धड़कन	दुबुॅराय	दकिदकि, धड़कणि	धडधड, धडकी, स्पष्टस्पंदन
धधकना	अ.क्रि.	आग का दहकना, भड़कना	प्र √दीप्, प्र+उत् +ज्वल्	ਮੱਚਣਾ, ਭੜਕਣਾ	दहकना (भड़कना)	वुहुन	बाहि जो भड़कणु	आगीचे धधकणें, भडकणें
धन	पुं.	1. संपत्ति, दौलत	वित्तम्	ਧਨ, ਪੈਸੇ	धन	दनुॅ, दोलथ	धनु	धन, संपत्ती
		2. पूँजी	धनम्	ਪੂੰਜੀ	दौलत	द्यार	पूंजी	भांडवल, मुद्दल
धनवान	वि.	जिसके पास बहुत धन हो, धनी, दौलतमंद	धनिक, धनिन्, श्रीमत्	ਧਨਵਾਨ, ਧਨਾਢ	दौलतमंद	दनुॅवोल, दौलथमंद, द्यारुॅ वोल	धनवान	श्रीमंत
धनाढ्य	वि.	बहुत बड़ा धनी	धनाढ्य, समृद्ध	ਧਨਾਢ, ਧਨੇਸੂ	सरमायादार (मुतमव्विल)	दनुॅवोल, अमीर	धनवान, शाहूकार	धनाढ्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धड़क	धडधड करप	धडकन, धुकधुक	हृद्- स्पंदन	हृदयर कंपन, हृदयर गति	थमोइगी मिहुन	छाति- धड़धड़- हेबा बा- कंपन हेबा	हृदय- स्पंदन	नेञ्जुत्तुडिप्पु	नेञ्चिटिप्पु	हृदयद बडित
भभकवुं	धग- धगप	दन्केरु आगो बल्नु, हुरहुराउनु	प्रज्वलित हओया	दपदपाइ जला	मै ब्रङ- ब्रङ् हौबा, मै ङोरोङ्- ङोरोङ् चाक्पा	निंआ- ड़हकिबा, प्रज्वलित- गति	मंडुट	कॊळुंदु विट्टु एरिय	कत्तिक्काळुक, कत्तियेरियुक	धगधगिसु
धन	धन- संपत्ती	धन, संपत्ति	धन, संपत्ति	संपति	लन, लन- थूम	धन, संपत्ति	धनमु, डब्बु	पणम्, सेल्वम्	धनम्, पणम्	संपत्तु
पूंजी	जोड़	पुँजी	पुँजि	पुँजि	संपत्ति	पुंजि, धन	पेट्टुबडि	मुदल्	मुतल्	बंडवाळ
धनवान	श्रीमंत, गिरेस्त	धनी, अमिर	धनी	धनबान, धनी	इनाकखून्बा	बित्तशाली, बिभवशाली, धनबान्, धनी, संपत्तिबान	धनवंतुडु	पणक्कारन्	धनाढ्यन्	श्रीमंत
धनाढ्य	खूब पैशेवालो, धनाढ्य	धनाढ्य, पुँजीपति	धनाढ्य, धनबान	धनी, संपतिशाली	पैसा याम्ना पाइबा	धनाढ्य, धनी, धनबान	धनवंतुडु	पणक्कारन्	धनाढ्यन्	धनाढ्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धनुष	पुं.	कमान	धनुः, धनुस्, चापम्	धणुख	कमान (क़ौस)	कमान	धनुषु, कमानु	धनुष्य
धन्यवाद	पुं.	किसी उपकार या अनुग्रह के बदले में कहा जाने वाला कृतज्ञतासूचक शब्द, शुक्रिया	धन्यवादः	धन्नवाद	शुक्रिया	शुकरिया	धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया	धन्यवाद
धरती	स्त्री.	पृथ्वी, जमीन, भूमि	धरित्री, पृथ्वी, भू	धरती	ज़मीन	ज़मीन, बुतराथ	धरती	पृथ्वी, जमीन, धरती
धरना	स.क्रि.	किसी स्थान पर किसी चीज को रखना	√स्थापय्	धरना	रखना	थवुन	रखणु, धरणु	धरणें, पकडणें
	पुं.	कोई काम कराने के लिए अड़कर बैठ जाना और जब तक काम न हो जाए, वहाँ से न हटना	साग्रहोप-वेशनम्	–	धरना	दरनॅ द्युन	धरणो, धरनो	धरणें
धर्म	पुं.	1. किसी वस्तु या व्यक्ति की वह नित्यवृत्ति, गुण या लक्षण, जो उससे कभी अलग न हो, सहजगुण	धर्मः	धरम	फ़र्ज़	दरुॅम, फरुॅज़	धर्मु, फ़र्जु	धर्म
		2. मजहब	पथिन्	पंथ, मत्त	मज़हब, दीन	दरुॅम	धर्मु	धर्म, संप्रदाय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धनुष, कामठुं	धनुश	धनु	धनुक	धनु	लिरुड्	धनुष, धनु, कार्मुक	धनुस्सु, विल्लु	विल्	धनुस्सुॅ, विल्लुॅ	बिल्लु, धनुष
धन्यवाद	धन्यवाद	धन्यवाद, साधुवाद	धन्यबाद	धन्यबाद	थागत् वाहै	धन्यबाद, कृतज्ञता	धन्यवादमुलु	नन्रि	कृतज्ञता, नंदि	धन्यवाद
धरती	धर्तरी, भूंय	पृथ्वी, जमिन, भइँ	पृथिबी, जमि, धरित्री	पृथिबी, धरित्री	लैबाक, पृथ्वी	धरित्री, पृथिबी	भूमि, नेलॅ	बूमि, तरै	भूमि, तर्	पृथ्वि
धरवुं	दवरप	राख्नु, धर्नु	राखा	थ, राख	थंबा	रखिबा	पॅट्टुटॅ	वैक्क	वॅक्कुक	इडु
धरणुं	धरणें	धरना	धरना देओया	धरना	धरना	धरिबा	धर्ना	मरियल्	कुत्तियिरुप्पुॅ, पिक्कट्टिंग	मुष्कर
फरज	सहजगुण	धर्म, पुण्यकर्म	कर्त्तव्य	कर्तब्य	धर्म	कर्त्तब्य, नीति	धर्ममु	कडमै	कर्तव्यम्, धर्मम्	मनोधर्म
नीति, धर्म, संप्रदाय	संप्रदाय, धर्म	धर्म, स्वभाव, स्वाभाविक गुण	धर्म	धर्म	नीति	धर्म, ईश्वर बिश्वास ओ उपासना पंद्धति	मतमु	मदम्	मतम्	मत, धर्म

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धर्मशाला	स्त्री.	परोपकार की दृष्टि से बनाया गया वह भवन, जिसमें यात्री बिना कोई शुल्क दिए कुछ समय तक रह सकते हैं	धर्मशाला	धरमसाला, धरमशाला	मुसाफ़िरख़ाना	दरमसाल	धर्मशाला	धर्मशाळा
धर्मात्मा	वि.पुं.	1. धार्मिक आचरण करने वाला	धर्मात्मन्	धरमातमा	दीनदार	दरमाथमा	धर्मात्मा	धर्मात्मा
		2. साधु-संत	साधु	–	–	दरमाथमा	–	साधु-संत
धवल	वि.	1. उजला, सफेद	धवल	चिट्टा, बग्गा	सफ़ेद	सफेद	उजरो, अछो	शुभ्र, पांढरा, धवल
		2. निर्मल	निर्मल	निरमल	साफ़	प्रोंन	निर्मल	निर्मळ
धाँधली	स्त्री.	1. अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, गड़बड़	प्रवञ्चना	धाँदली	धाँदली	वो'च़राठ	धांधली, गड़िबड़ि	गडबड, घोटाळा, अव्यवस्था

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धर्मशाळा	धर्मशाळा	धर्मशाला, पाटी, पौवा	धर्मशाला	धर्मशाला	मिथुङ्शङ्, धर्मशाला	धर्मशाला	धर्मशाल, धर्मसत्रमु	सत्तिरम्	सत्रम्, वळियंपलम्	छत्र, धर्मशाले
धर्मात्मा	धर्मात्मा	धर्मात्मा	धर्मात्मा	धार्मिक ब्यक्ति, साधु	धर्म लैबा	धर्मात्मा, साधु, धार्मिक-ब्यक्ति	धर्मात्मुड्डु	अरवोर्	धार्मिकन्	धर्मात्म
साधु-संत	साधू संत	धर्मप्राण, साधु-संत	साधु-संत	साधु-संत	साधु-संत	साधु, धार्मिक-ब्यक्ति	सन्यासि, बैरागि	सादुक्कळ्	संन्यासि	साधु, संत
उजळुं, सफेद	धवो, शुभ्र	सेतो, सुकिलो	धबल, धला, सादा, शुभ्र	बगा	अङौबा	धबल, धला, साधा	तेल्लनि	प्रकाशमान, वॅण्मैयान	वॅळुत्त, धवळम्	बिळिय, धवल
निर्मळ	निर्मळ	निर्मल, स्वच्छ	निर्मल	निर्मल, मलहीन, परिष्कार	अशेङ्बा	निर्मल, परिस्कार, सफा	निर्मल-मयिन	मासट्ट्, अळुक्कट्ट	निर्मलम्	शुभ
गोटाळो, गरबड	घोटाळो	धाँधुली, गोलमाल	अव्यबस्था, गण्डगोल	अब्यबस्था, विशृंखला	थौशिल्-थौओङ् नाइदबा	अव्यवस्था, गड़बड़, बिशृंखला	गडबिडि	कुळप्पम्	कुळप्पम्	उपटळ, अव्यवस्थे, गडिबिडि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता	स्वैरिता	–	बेईमानी, फ़रेब	बदनज़मी	बद-इंतिज़ामी	निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता
धागा	पुं.	बटा हुआ महीन सूत जो प्रायः सीने-पिरोने के काम आता है, डोरा	तन्तुः, सूत्र, गुणः	धॅागा	तागा	पन	धागो, सुटु	दोरा, धागा
धातु	स्त्री.	1. कुछ विशिष्ट प्रकार के खनिज पदार्थ	धातुः	धॅात	धात	दाथ	धातू	धातू, खनिज
		2. (संस्कृत व्याकरण में) क्रिया का मूल रूप	धातुः	धॅात	धात	दाथ	धातू	धातू
धार	स्त्री.	1. पानी आदि के गिरने या बहने की धारा, प्रवाह	धारा	धॅार	धार	दार	धार, धारा, प्रवाहु	धार (पाण्याची), प्रवाह
		2. किसी हथियार का वह तेज सिरा या किनारा, जिससे कोई चीज़ काटते हैं।	धारा	–	–	दार	धार	धार (हत्याराची)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वच्छंद	धांधळ	निरङ्-कुशता, स्वेच्छा-चारिता	स्वेच्छा-चारिता	स्वेच्छा-चारित	तौनिङ्-तौनिङ्बत तौबा, नियम नाइदबा	स्वेच्छा-चारिता, निरंकुश, एकबागिआ	निरंकु-शत्वमु	कट्टुप पाडिन्मै	तोन्यासम्	स्वेच्छाचार, निरंकुशत
धागो, दोरो	दोरो	धागो, सूत	सुतो	जरि, सूता	लङ्	सूता, डोर	दारमु	तैक्कुम् नूल्	नूल्, चरटुँ	दार
धातु	खनीज	धातु	धातु, खनिज पदार्थ	धातु	खोनीदगी फङ्बा पोत, धातु	धातु, खणिज-पदार्थ	धातुवु	उलोगम्, दातुप्पोरुळ्	लोहम्	लोह
–	संस्कृत व्याकरणा-तलो मूळधातू	धातु	–	धातु	वारु (रुट)	धातु-रूप	धातुवु	विनैच्चोल	क्रियाधातु	धातु
धार	धार	धारा, धार	धारा	सौँत, धार	ईचेल	धार, धारा, स्रोत	धार	नीरोट्टम्, दारै	प्रवाहम्	धारे
धार (हथिया-रनी)	धार	धार	धार	धार	मया थौबा	दाढ़, धार	पदुनु	कत्तियिन् कूर्मैयान बागम्	वाय्त्तल	आयुधगळ हरित बायि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धारणा	स्त्री.	व्यक्तिगत विचार या विश्वास	धारणा	धारना	ख़याल, यक़ीन	यछ़-पछ़	धारणा, वीचारु	समजूत, कल्पना, धारणा
धारा	स्त्री.	1. धार, अखंड प्रवाह	धारा, प्रवाहः, प्रक्रमः	धारा	धार	दार	धारा, अखंड वहकरो	धार, ओघ, अखंड प्रवाह
		2. किसी नियम, नियमा-वली, विधान आदि का वह स्वतंत्र अंश, जिसमें किसी एक विषय से संबंध रखने वाली सब बातों का एक अनुच्छेद में उल्लेख होता है, दफा	अनुच्छेदः	–	दफ़ा	दफा	दफ़ो, धारा	कलम
		3. निरंतर चलने वाला क्रम	–	–	तसल्सुल	लगातार	सिलसिलुं	सतत
धारावाहिक	वि.	1. अविछिन्न क्रम या गतिवाला	धारावाहिक	धारावाही	मुसलसल (सिल्सिलोवार)	लगातार	सिलसिलेवार	प्रवाही, चालू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धारणा, कल्पना	समजूत	धारणा	धारणा, प्रतीति	मत, धारणा, बिश्वास	मी मशागी ओइबा थाजबा बाखल	धारणा, मत, बिश्वास	नम्मकमु	अबिप्पि-रायम्, करुत्तु	धारण	अभिप्राय
धारा	धारा	धारा, प्रवाह	धारा	धारा	ईचेल	धारा, स्रोत, गति, प्रबाह	धारॅ	दारै, नीरोट्टम्	धार, प्रवाहम्	धारे
कलम, लेखण	कलम	धारा, दफा, खण्ड	धारा	धारा, दफा	कोलम	धारा, दफा	परिच्छेदमु	चट्टत्तिन् पिरिवु	संक्शन्, वकुप्पुॅ	प्रकरण
वहेतो प्रवाह	सतत बचप	क्रम, सिलसिला	क्रम, धारा, प्रवाह	धारा, क्रम, प्रबाह	मथङ् मनाओ	क्रम, धारा, प्रबाह	प्रवाहमु	इडैविडाद निगऴ्चि, प्रवाहम्	तुटर्च्च	परंपरे
धारावाही	धारावाही	धारावाही, अटूट	धारावाही	धाराबाही, अटूट	मथङ् मनाओ नाइबा	धाराबाहिक, क्रमशः, अबिच्छिन्नता	धारावाहि-कमयिनॅ	इडैविडादु नडक्किर्	अविच्छिन्न-माय, तुटर्च्चयाय	धारावाहि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जो क्रमशः खंडों के रूप में बराबर कई अंशों अथवा अंकों में प्रकाशित होता रहे	धारावाहिक	किस्तवार	सिलसिलावार	सिलसिलुॅवार	अगि॒ते जारी	चालू
धिक्कार	पुं.	भर्त्सना, लानत	भर्त्सनम्, धिक्कारः	धिरकार, धिक्कार	लानत	लानथ	धिकार, लानत	धिक्कार, निर्भत्सना
धीमा	वि.	कम वेगवाला, मंद	मन्द	हौला	धीमा	कम रफतार	ढिलो, मंद	मंद, धीमा
धीर	वि.	1. जो शांत स्वभाव वाला हो, अविचल	धीर	धीर	बुर्दबार	बोॅरुतबार	धीर, धीरजवान	धीराचा, धैर्यवान, अविचल
		2. दृढ़, अटल, दृढ़-प्रतिज्ञ	–	–	साबिर (साबितक़दम)	गंबीर	अटल	दृढ, अटळ
धीरे	क्रि. वि.	1. धीमी या मंद गति से, आहिस्ता	मन्दम्, शनैः	निम्मा, हौली	आहिस्ता	वारॅ-वारॅ	धीरे, आहिस्ते	सावकाश, आस्ते

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धारावाहिक	धारा-वाहीक	धारावाहिक	धारावाहिक	धाराबाहिक	मथङ् मथङ् ओइबा	धारावाहिक	धारावाहि-कमयिन	तॉडंर्दु वंळिवरुगिर्	तुटर्प्रसिद्धी-करणम्	धारावाहि-यागि प्रकटवागुव
धिक्कार	धिक्कार	धिक्कार	धिक्कार, भर्त्सना	धिक्कार, भर्त्सना	तुकत्च-निङ्ङाइ ओइबा	धिक्कार	तिरस्कारमु	निंदनै, कंडित्तल्	भर्त्सन, शकारम्	धिक्कार
धीमुं	हळू	बिस्तारो, मंद्, मत्थुर	मंथर, धीर, ढिमेगति	कम गतिशील, मंद, धीर गति, धीर	अतप्पा, हादबा	कमबेग-बा गति, मंथर, मंद मंद	नॅम्मदि अथिन	मंदुवान, वेगमट्ट	मंदम्, पनुक्केप्	मेल्लने, मंद
धीर	धीर	धीर, धैर्यशाली	धीर, अबिचल	धीर-स्थिर	अयिङ्बा	धीर, धीर-स्थिर, अबिचलित, धैर्ज्यबान	धीरुडैन	अमैदियान	शांतन्	धीर
दृढ़	दृढ़	दृढ, अटल	अटल	दृढ़, अटल	अचेत्पा, लेङ्दबा	दृढ़, अटल, दृढ़ प्रतिज्ञा	धीरुडैन	दिडमन-दुडैय	धीरनाय	दृढ़
धीरे	सावकाश	बिस्तारै	धीरे, आस्ते	धीरे, लाहे-लाहे	तप्ना	धीरे, आस्ते	नॅम्मदिग	मॅळ्ळ	सावधान-त्तिल्, पय्य	मेल्लगे, निधानवागि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. नीचे या हल्के स्वर में	मन्दम्, शनैः	–	दबी आवाज़ से	वारुॅ-वारुॅ	–	हळूच
धुँधला	वि.	1. धुंध से भरा हुआ	अस्पष्ट	धुंदला, मद्धम	धुंदला	वुनलि वॅलिथ	धुंधलो	अंधुक, अस्पष्ट
		2. धुएँ की तरह का, कुछ-कुछ काला	धूमवत्	–	गदला	सोॅतॅ गाश	कारसिरो	धुरकट
		3. मंद, फीका	मन्द	निम्हा	नासाफ़, तारीक	सोॅतॅ गाश	–	मंद, फिका
धुआँ	पुं.	जलती हुई चीजों से निकलने वाला वायवीय पदार्थ, जो कुछ कालापन लिए होता है	धूमः	धूंआं	धुवाँ	दुॅह	दूंहों	धूर
धुन	स्त्री.	1. मन की लगन, तरंग	उत्कटेच्छा, आग्रहः	धुंन	ध्यान	कल	धुन	प्रबळ इच्छा
		2. सनक, झक	व्यसन	–	आदत, शौक़	पॅरिश, दुन	–	सनक, नाद, छंद
		3. गाने या बजाने का विशिष्ट ढंग	राग, स्वरः	–	गाने की तर्ज़	दुन	धुन	धुन, सुरावट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हळवे	हळू	बिस्तारै, हलुको स्वरमा	–	लाहे लाहे	तप्ना, तुमिन्ना	धीरे-धीरे, निम्नस्वररे	नंम्मदिग	तणिंद कुरलिल्	पतुक्के	मेलुध्व-नियल्लि
धूंधळुं	धुंधळ	धूमित, अस्पष्ट्	धोलाटे, कुयाशाच्छन्न	धूलिमय	ममि शामिबा	अस्पष्ट, कुहुडिया	मसकगा-नुन्न	मंगलान	मुङ्ङिय	मसुकु
धुरकाट	धुकट	धूमिल	धोँयाटे, धूमिल	धोँवा कोँवा	लैचिन् नोङ्फाइ थाङ्बा	जालुजालुजा, धुआँलिआ	मसक-गानुन्न	पुगै पोन्	पुकञ्ञ	मसुकाद
मंद, धीमुं	मंद	धमिलो, मंद्	अस्पष्ट	शँता, निस्तेज	वाओरि वाओरिबा	फिका, निस्तेज, शेता	मसकगा-नुन्न	तंळिविल्लाद	मंदमाय, शोभयि-ल्लात्त	मंकाद
धूम्र, धुमाड़ो	धुकट, धुंवर	धूवाँ, धूम	धुँया, धोँया	धोँवा	मैखू	धूंआ, धुम्र	पॉग	पुगै	पुक, धूमम्	होगे
धून	धुन	धुन, एकाग्रता	प्रबल इच्छा, मनेर आबेग	इच्छा, आकांक्षा	अपांबा, पुकनिङ्गी अपांबा इथिल, इहौ	प्रबल-इच्छा, आकांक्षा	दीक्ष	तीविर विरुप्पम्	इच्छ	आसक्ति, गीळु
तीर	–	लहड, सुर, सनक	खेयाल, झाँक	प्रबृत्ति	अकन्बा-इथिल	प्रबृत्ति, झुंक, खिआल	व्यसनमु	वेरि	किरुक्कुं	–
सूरनो गुंजारव	सुर	धुन, सुर	सुर्	सुर	सुर	स्वर, ध्वनि	रागमु	मेट्टु	रागम्, मेट्टुं	मट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धुनना	स.क्रि.	1. धुनकी से रूई साफ करना, ताकि उससे बिनौले अलग हो जाएँ	√धुन्	पिंजणा	धुनना	दोनुन	पिञणु	पिंजणें
		2. खूब मारना-पीटना	√धुन्	पिंजणा	–	चे़टुन	डाढी मार डियणु	मारणे
धुरंधर	वि.	किसी विषय में बहुत बढ़ा-चढ़ा, प्रवीण	धुरन्धर	धुरंदर	माहिरे कामिल (अफ़ज़ल)	गाटुल	माहिर	धुरंधर, प्रवीण
धुरी	स्त्री.	1. लकड़ी या लोहे की वह छड़ या डंडा, जो पहियों के केंद्र में रहता है और जिसके सहारे पहिया घूमता है, अक्ष	धुरा	धुरा	धुरी (कीली)	ओंहक	सराई, धुरी	कणा, अक्ष, धुरा
		2. मूल आधार	आधारः	–	मिहवर	ग्वड	महवर, मूल आधारु	मूळ-आधार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पींजवुं	पिंजप	धुन्नु, कपास उइँटनु	धोना, धुनाइ करा	मार पीट कर	लशिङ् काप्पा	भिणिबा, सुआँरिबा	दूदि-एकुट	पंजु अडिक्क	कटयुक (पञ्ञि)	ऐक्कुवुदु
मारवुं	बडवप	ठटाउनु, गोद्नु, चुट्नु	धोलाइ, मारा	मार पीट कर	यैबा	बिबाद-करिबा, मारपिट-करिबा	बादुट	नन्नु पुडैक्क	अटिक्कुक तल्लुक	बडियुवुदु
धुरंधर	धुरंधुर, प्रवीण	धुरंधर, पोख्त	धुरंधर, पटु, कौशली	प्रवीण	हैशिङ्बा	दक्ष, धुरंधर, प्रवीण, निपुण, पटु, कौशली	धुरंधरुडु	निपुणरान	धुरंधरन्, प्रवीणन्	अग्रगण्य
धरी	धुरा	धुरा, अक्ष	धुर/ अक्षदण्ड	धुरा	धुरी, चाका मचै	अख, अक्ष, अक्षदण्ड	इरुसु	अच्चु, इरुशु	अच्चुतण्डुँ, अक्षम्	अच्चु
मूळ आधार	मूळ आधार	मूल आधार	मूल आधार	मूल, भेटि	लैमम	मुलदुआ, मूल-आधार, भित्ति	मूला-धारमु	मुक्किय आदारम्	मूलाधारम्	मूलाधार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धूम-धाम	स्त्री.	उल्लास से युक्त आयोजन, जिसमें खूब चहल-पहल और ठाठ-बाट हो	महोल्लासः	धुंमधांम	धूमधाम (तमतराक़), ज़ोरोशोर	दुमदाम	धूमधाम	धाम-धूम
धूम्र-पान	पुं.	तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि पीना	धूम्रपानम्	सिगरट- बीड़ी पीणा	तँबाकूनोशी	तमोक चोंन	तमाक नोशी, तमाक छिकणु	धूम्रपान
धृष्टता	स्त्री.	ढिठाई, दुस्साहस	धृष्टता	डिंठाई, ढीठता	गुस्ताख़ी	बेहयॉयी	निठुरता, निर्लज़ता, गुस्ताख़ी	धृष्टता, धीटपणा, दुस्साहस
धैर्य	पुं.	धीरज, सब्र	धृतिः, धैर्यम्	धीरज	सब्र	सबुॅर	धीरजु	धैर्य, धीर
धोखा	पुं.	1. छल, कपट	वञ्चनम्	धोखा	धोका	दोखुं, छ़ल	दोखो	फसवणूक, कपट, दगा
		2. भ्रम, भ्रांति	छलम्	–	सराब	ब्रम	भ्रमु	गफलत, भ्रांती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धूमधाम	धाम-धूम	धूमधाम, धुनधान	धुमधाम, जाँक जमक	लरा-ढपरा, जाक-जमक, उलह-मालह	मओङ्-ताना लैतेङ्बा, यक् लाओबा	धूमधाम, जाक-जमक समारोह, उत्सब	वैभवमु	आडंबरम्, विमरिशै	कोलाहलम्, आंडबरम्	वेडगु, विजृंभर्ण
धूम्रपान	सिगरेट, ओडप	धूमपान, धूम्रपान	धूमपान	धूमपान	मैखू-थकपा, मैखू शिजिन्नबा	धूमपान	पाँगँ त्रागुट	पुगै पिडित्तल्	पुकवलि	धूम्रपान
धृष्टता	धीट	ढिठ्याइँ, धृष्टता	धृष्टता	धृष्टता	मचोङ्पाक् नाइदबा	धृष्टता, दु:साहस	पाँगरुपोतु-तनमु	अदिगप् पिरसिंग-त्तिनम्	धाष्ट्र्यम्, साहसम्	निर्लज्जतन, उद्धटतन
धैर्य	धीर, धैर्य	धैर्य, धीरता	धैर्य, (सहिष्नूता) सहिष्णुता	धैर्य, सहिष्णुता	लैताबा, तप्थबा-फाथबा	सहनशीलता, धैर्ज्य, सहिष्नुता, अध्यबसाय	धैर्यमु, ओपिकँ	पारुमै, मन-उरुदि	क्षम, समाधानम्	धैर्य, स्थैर्य
धोखो, दगो	दगो	धोका, छल	धोँका, कपट	छल, कपट	नमथाक, लौनम	छल, धोका, कपट, शठता, प्रतारणा	मोसमु	एमाट्टम्	चति	मोस
भ्रांति	भ्रम	भ्रम, भ्रांति	धोका, भ्रम	भ्रांति, भ्रम	अशोइबा, लान्ना लौबा	भ्रांति, भ्रम, धोका	भ्रम, भ्रांति	बिरमै, मनक्कुऴ-प्पम्	तंट्टिद्धारण	भ्रांति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
धोना	स.क्रि.	1. जल या किसी तरल पदार्थ के प्रयोग से गंदगी को साफ करना	√धाव्, प्र √क्षाल्	धोणा	धोना	छलुन	धुअणु	धुणें
		2. दूर करना, मिटाना		–	–	दूर करुन	–	दूर करणें
धौंकना	स.क्रि.	आग दहकाने के लिए पंखे आदि की सहायता से जोर की हवा करना	√प्रधम्	फूकणा	धौंकना	दमुन	धंवणु	भाता फुंकणें
ध्यान	पुं.	1. चित्त या मन को पूरी तरह एकाग्र और स्थिर करने की क्रिया या भाव	ध्यानम्	धिआन	तवज्जुह	द्यान	ध्यानु	ध्यान, एकाग्रता
		2. सोच-विचार, मनन	–	–	ख़याल (फ़िक्र)	द्यान	सोच-विचार	चिंतन-मनन
ध्येय	पुं.	उद्देश्य, लक्ष्य	ध्येयम्	उद्देश	मक़सूद	मकसद	मक्सदु, उद्देश्यु	उद्देश्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धोवुं, साफकरवुं	धुवप	धुनु, पखाल्नु	धोया	धो, धोव	शुबा	धोइबा, सफा-करिबा	कडुगुट॒, कडिगिवेयुट॒	कळुव, तुवैक्क	कळुकुक	ओगे, ताॅळ
दूर करवुं	काडून उडवप	मेट्नु, नामेट गर्नु	मेटानो	दूर कर, नोहोवा कर	चाॅम्बा	दूर-करिबा, निश्चिन्ह-करिबा	ताॅलि-गिंचुट॒	नीक्क	कळुकिक्-कळयुक	अळिसु
फुंक मारवी	फुंकप	फुक्नु, आगो दन्काउनु	–	विचि दि जुइ जला	मैहुम उतोङ्	बिंचिबा, पंखा-करिबा	अग्गि मंडिंचेंदुक गालि विसुरुट॒	तुरुत्तियाल् काट्टडिक्क	उल ऊतुक	तिदियाॅत्तु
ध्यान, एकाग्रता	ध्यान	चिंतन, एकाग्रता, ध्यान	ध्यान, अबधान	ध्यान निमग्न, एकाग्रचित्त	पुकनिङ् लाक्शिन्बा	एकाग्रता, एकाग्रचित्त, ध्यान, निमग्न	ध्यानमु	गवनम्	ध्यानम्	एकाग्रते, ध्यान
चिंतन मनन	विचार	सोच-विचार	मनन, चिंतन	मनन, चिंतन	वाखल तौबा, नैनबा	मनन, चिंतन, बिचार	आलोचन॒	योचित्तल्, चिंतनै	मननम्, चिन्न	चिंतने
ध्येय लक्ष्य	ध्येय	ध्येय, लक्ष्य	उद्देश्य, लक्ष्य	उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य	पांदम	उद्देश्य, लक्ष, अभिप्राय	उद्देश्यमु, लक्ष्यमु	कुरिक्कोळ्	उद्देशम्	गुरि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ध्रुव	वि.	1. अचल, अटल	ध्रुव	धुरू	साबित (साकिन)	पकुँ	अचल, अटल	अटळ, दृढ, ध्रुव
		2. स्थायी, नित्य, शाश्वत	ध्रुव	–	दवामी	पकुँ	क़ाइम	स्थायी, नित्य, शाश्वत
	पुं.	1. पृथ्वी के उत्तर-दक्षिण सिरे	ध्रुव	धुरू	क़ुत्ब	–	कुतुब	ध्रुव (पृथ्वीची दोन टोके)
		2. वह तारा, जो पृथ्वी की अक्ष के सिरे की सीध में उत्तर की ओर दिखाई देता है।	ध्रुव	धुरू	क़ुत्ब	गाशि तारुख, द्रुव	ध्रुव (तारो)	ध्रुव (तारा)
ध्वज	पुं.	झंडा, पताका	ध्वजः	धुअज, झंडा	पर्चम	जंडुँ	झंडो	झेंडा, पताका, ध्वज
ध्वजारोहण	पुं.	झंडा फहराने की क्रिया	ध्वजारोहणम्	झंडा लहराउणा	पर्चमकुशाई	जंडु लॅहरावुन	झंडो फहराइणु, झंडे जी सलामी	ध्वजारोहण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ध्रुव, स्थिर	दृढ़	ध्रुव, अटल, दृढ़	ध्रुव, अटल	अचल, स्थिर	अचेतपा	ध्रुब, अटल, अचल, स्थिर, दृढ़	स्थिरमयिन॑	अशैयाद	दृढ़, स्थिरम्	दृढ
स्थायी, नित्य, शाश्वत	शाश्वत	शाश्वत, स्थायी	स्थायी, शाश्वत	स्थायी, नित्य, शाश्वत, चिरंतन	लेङ्दबा	स्थायी, नित्य, शाश्वत, चिरंतन	शाश्वतमैन॑	निलैयान	स्थायि, शाश्वतम्	शाश्वत
ध्रुव (पृथ्वीना बे खूणा)	दोनी ध्रुव (भूगोल)	ध्रुव	मेरु	मेरु, अक्ष	मेरु	मेरु, अक्ष	ध्रुवमु	बूमियिन् इरु दुरुवंगळ्	ध्रुवम्	ध्रुव
ध्रुव तारो	ध्रुव तारो	ध्रुव (तारा)	ध्रुब-तारा	ध्रुब-तरा	ध्रुव-तारा	ध्रुब-तारा	ध्रुवतार॑	दुरुव नक्षत्तिरम्	ध्रुवनक्षत्रम्	ध्रुव तारे
ध्वज	पताको	झन्डा, ध्वजा	ध्वजा, झाण्डा	पताका, निचान, ध्वजा	फिराल	ध्वज, पताका	ध्वजमु, जंडा	काॅड़ि	ध्वजम्, काॅटि	बाउट
ध्वजारोहण	ध्वजारोहण	ध्वजारोहण, झन्डोत्तोलन	पताका उत्तोलन	पताका-त्तोलन	फिराल चिङ्खत्पा	ध्वजा-उत्तोलन, पताका-उत्तोलन	ध्वजारोहणमु	काॅडिये-ट्टम्	ध्वजारोहणम्, काॅडियेट्टम्	ध्वजारोहण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ध्वनि	स्त्री.	1. आवाज, शब्द	ध्वनिः	धुंनी	आवाज़	आवाज़	आवाजु, ध्वनी	आवाज, शब्द, ध्वनी
		2. (काव्य में) व्यंग्य, व्यंग्यार्थ	ध्वनिः	–	तंज़्	–	काव्य जी गुझी माना	काव्यांत व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ
नंगा	वि.	1. जो कोई कपड़ा न पहने हो, दिगंबर	नग्न	नंगा	नंगा	न्यथ़ुॅ-नोॅन, नंगय, नंगुॅ	नंगो, उघाड़ो, दिगंबर	नागडा
		2. जिस पर कोई आवरण या आलंकारिक वस्तु न हो	अनावृत	–	नंगा (बेपर्दा)	न्यथ़ुॅ-नोॅन	उघाड़ो	उघडा
		3. निर्लज्ज, बेशर्म, दुष्ट, पाजी	निर्लज्ज	–	नंगा	बेशरॅम	बेशर्म, बेहया	निर्लज्ज
नकद	पुं.	लेन-देन में व्यवहार में आने वाला धन जो तुरंत दिया या चुकाया जाता है	मुद्रा	नकद	नक़्द	नकुॅद	नकद, रोकड़ो	रोख रक्कम, नकद
	वि.	जिसका मूल्य रुपए-पैसे के रूप में तुरंत चुकाया जाए	मूल्येन क्रीतः	नकद	नक़्द	नकुॅद	–	नकद, रोख

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ध्वनि	ध्वनी	आवाज, ध्वनि	ध्वनि, शब्द	ध्वनि, शब्द	मखोल, खोलजेल	ध्वनि, शब्द	ध्वनि, चप्पुडु	ऑलि	ध्वनि	शब्द
काव्यमां व्यंग्यार्थ के ध्वन्यार्थ	ध्वन्यार्थ, व्यंग्यार्थ	ध्वनि, व्यङ्ग्यार्थ	ध्वन्यार्थ	ब्यंग्य	खोनथोक्, खोंदा	काव्यरे-ब्यंगार्थर-शब्द बा-ध्वनि	ध्वनि	मऱै पॊरुळ्	व्यंग्यम्, ध्वनि (काव्यत्तिल्)	ध्वनि
नागुं, उघाडुं	नागडो	नाङ्गो, निर्वस्त्र	उलङ्ग, नंङ्टा, निर्बस्त्र	नङठा, उलंग	फी थोङ्दबा	लंगला, उलग्न	नग्नमयिन, दिसिमॊलि	अम्मणमान	नग्नमाय	बेत्तले, बत्तल्
उघाडो	उघडो	आवरणरहित, नाङ्गो	निरालंकार	उदं	फी शेत्तबा	मामुलि, साधासिधा	नग्नमयिन, दिसिमॊलि	मूडप्पडाद	तुऱन्न	निवारण
बेशरम	निर्लज्ज, मर्याद नाशिल्लो	लुच्चो, निर्लज्ज	निर्लज्ज, पाजी, बेहाया	निर्लज्ज, निलाज	इकाइ खङ्दबा	निर्लज, पाजि, बदमास, दुष्ट	सिग्गुलेनि	वॆट्कमिल्लाद	नाणम् कॆट्ट	नाचिकेगेडि निर्लज्ज
नगद	रोख	नगद, मुद्रा, रुपियाँ-पैसा	नगद	नगद	शेंथङ्	नगद, क्रय संगे-संगे-टंका देबा	रॊक्कमु, नगदु	रॊक्कप्पणम्	रॊक्कम्	रोक्क दुड्डु, हण
रोकड़ा	नगद	नगद	नगद	नगद	पुरुबा, शिङ्गदबा	नगद	रॊक्कमु, नगदु	रॊक्कमाग	रॊक्कम्	नगदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	क्रि.वि.	तुरंत भुगतान रुपए के रूप में	मुद्रया प्राप्त	नकद	नक़्द	नकुँद	–	नकद
नकदी	स्त्री.	रुपया-पैसा जो तैयार या नोटों, सिक्कों आदि के रूप में सामने हो, खड़ा धन	मुद्रा	नकदी	नक़्दी	नकुँदी	नकदी, रोकड़ि	रोकड, नक्दी
नकल	स्त्री.	1. किसी को कोई काम करते हुए देखकर उसी के अनुसार करने की क्रिया या भाव	अनुकृतिः	नकल	नक़्ल	नकुँल	नकुलु	अनुकरण, नक्कल
		2. किसी कृति, चित्र, लेख आदि की ज्यों की त्यों तैयार की हुई प्रतिलिपि, अनुलिपि	प्रतिलिपिः, प्रतिकृतिः	नकल	–	नकुँल	प्रतीलिपी	नक्कल, प्रतिलिपी
नक्काशी	स्त्री.	1. धातु, पत्थर आदि पर खोद कर बेल-बूटे बनाने का काम या कला	शिल्पकर्म	नकाशी	नक़्क़ाशी	नकॉशी	नक़ाशी	नक्षीकाम
		2. उक्त प्रकार से बनाए गए बेल-बूटे आदि	उत्कीर्ण	नकाशी	–	नकॉशी	–	नक्षी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नगद	नगद	नगद	नगद	नगद कै	–	नगद	रॉक्कमु, नगदु	रॉक्कमाग	रॉक्कम्	नगदु
रोकड नाणुं	रोकड	नगदी	नगद	जमा टका	शेंथङ्	नगद अर्थ, धन बा पुंजि	रॉक्कमु, नगदु	रॉक्क-प्पणम्	रॉक्कम् पणम्	नगदु हण
नकल	अनुकरण	नक्कल, अनुकरण, देखासिकी	नकल, अनुकरण	अनुकरण, नकल	मतौ, तं'बा	नकल, अनुकरण	अनुकरण, नकलु	विगडम्	अनुकरणम्	अनुकरणे, नकलु
प्रतिलिपि	प्रतिलिपी	प्रतिलिपि	नकल, प्रतिलिपि	प्रतिलिपि, अनुलिपि	शिंदोक्पा, चप मान्ना शिन्बा	प्रतिलिपि, नकल	प्रतिलिपि, नकलु	नगल्, पिरदि, पडि	पकर्प्पु	प्रतिरूप, नकलु
नकशी	नक्काशी	नक्कासी	खोदाइएर काज, नकाशी	भास्कर्य	हक खोत्पा (नुङ्दा, धातुदा)	चारूकला, शिल्पकला	नगिषी पनि	नकासु वेलै	पूवेल कॉत्तुपणि	केत्तने कॅलस
नकशी-काम, कोतरकाम	नक्षीकाम	बेलबुट्टा	नक्शा	धातु आदित खोदित कारु-कार्य	नुङ्दा-धातुदा शेंबा मओङ्-शिङ्	कारुकार्ज्य	नगिषी चेसिन पूलु मॉदलैनथि	नकासु वेलै	कॉत्तिय पूक्कळ्	कॅत्तने हूॅगलस

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नक्शा	पुं.	1. रेखाओं आदि द्वारा किसी वस्तु की अंकित की हुई वह आकृति, जो उस वस्तु का सामान्य परिचय कराती है, मानचित्र	मानचित्रम्	नक़शा	नक़्शा	नकशि	नक्शो	नकाशा
		2. रूपरेखा, खाका	रूपरेखा	खाका	ख़ाका	नकशि	ख़ाको, रूपरेखा	रूपरेखा, आराखडा
नक्षत्र	पुं.	1. तारा	नक्षत्रम्	नछत्तर	सितारा	तारुख	नक्षत्रु, तारो	तारा, नक्षत्र
		2. चंद्रमा के पथ में पड़ने वाला 27 तारों का समूह	नक्षत्रम्	—	मनाज़िले-क़मर (मंज़िल)	नैंछतुर	नक्षत्रु	चंद्राच्या मार्गांत पडणारे 27 नक्षत्रांचा समूह
नख-शिख	पुं.	पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक के सब अंग, शरीर के अंग-प्रत्यंग	आपादमस्तक	नख-शिख, सिर-पैर	सरापा	कलुॅ-नलुॅ	नंहं खां चोटी ताईं (सरीर जा सभु अंग)	नखशिखांत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नकशो	नकासो	नक्सा, मानचित्र	नकशा	मानचित्र, नकसा	मेप	नक्शा, मानचित्र	पटमु, बॉम्मि	वरै पडम्	भूपटम्	नकाशे, आकृति
रूपरेखा	आराखडो	रूपरेखा, आकृति	नकशा	आकृति, रूपरेखा	शक्ओङ्	आकृति, चेहेरा, रूपरेख	रूपरेखँ	उरुव-पडम्	स्केच्, रूपरेख करडुं	करडु, रूपरेखे
नक्षत्र	तारो	तारा	नक्षत्र, तारा	तारा, नक्षत्र	थवान-मिचाक्	नक्षत्र, तारा	नक्षत्रमु	नक्षत्तिरम्, विण्मीन्	नक्षत्रम्	नक्षत्र
चन्द्रमां ना मार्गमां आवतो नक्षत्रो नो समूह	नक्षत्र, नखेत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र, तारा समूह	थागी लंबीदा लैबा थवान मिचाक् 27 की मपै	नक्षत्र	नक्षत्रमु	नक्षत्तिर-क्कूट्टम्	नक्षत्रम्	नक्षत्र मंडल
नख-शीख	नखशिख	नखशिखांत	आपाद-मस्तक	नाकमुख अबधि,आपाद मस्तक	खोङ्दगी नतोन् फाओबा	आपाद-मस्तक	नखशिख-पर्यंतमु, आपादँ मस्तकमु	उच्चि मुदल् उळ्ळंगाल् वरैयुळ्ळ उरुप्पुगळ्	नख-शिखाँन्तम्, पादादिकेशम्	नखशिखांत, अडिइंद मुडिवरेगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नग	पुं.	1. नगीना, मणि	रत्नम्	नग	नगीना	नगीनुँ	नगु, मणियो	रत्न
		2. अदद या संख्यासूचक एक शब्द	द्रव्यम्	नग	अदद	नग	नंगु, अददु	संख्यावाचक शब्द, नग
नगर	पुं.	वह बस्ती जो गाँवों, कस्बों आदि से बड़ी हो, शहर	नगरम्	नगर, शेह्र	शह्र (बलद)	शहर, नॅगुर	नगरु, शहरु	शहर, नगर
नगरपालिका	स्त्री.	वह संस्था, जो नगर के स्वास्थ्य, जल, निकास, रोशनी आदि का प्रबंध करती है	नगरपालिका	नगरपालका	बलदिया (मियोनिसि-पालिटी)	म्यूनिसपलटी	म्यूनिस्पालटी, नगरपालिका	नगरपालिका
नगाड़ा	पुं.	डुगडुगी की तरह का चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का बड़ा वाद्य यंत्र, नक्कारा	पटह, दुन्दुभिः, दुन्दुभः	नगारा	नक़्क़ारा	नगारुॅ	नग़ारो	नगारा
नगीना	पुं.	रत्न, मणि, नग	मणिः, रत्नम्	नगीन	नगीना	क्रेंख, नगीनुँ	कीमती पथरु	रत्न

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नग	मणी	मणि, रत्न	मणि, रत्न	मणि, रत्न	तंफा, मणि	सापर- मणि, रत्न	मणि	रत्तिनम्, मणि	रत्नम्	रत्न
संख्या-वाचक	नग	अदत, अदद	–	संख्या	मशिङ्	अंक, संक्षा	उरुवु	रगम्	एॅण्णम्	संख्यॆ
नगर	शार	नगर, शहर	नगर, शहर	चहर, नगर	शोहोर	नगर, सहर	नगरमु, पट्टणमु	नगरम्	नगरम्	पट्टण, शहर
नगर-पालिका, शहेरनी सुधराई	नगर-पालिका	नगर-पालिका	पौर सभा	नगरपालिका	म्युसिपलिटि	नगरपालिका, पौरसभा	पुरपालकॅ-संघमु, म्युनिसि-पालिटी	नगराट्चि	मुनिसि-पालिट्टि	नगरपालिकॆ
नगारुं, ढोल	नगारे	नगरा	नाकाड़ा (नागाड़ा)	नेगेरा	पुङ्जाओ	नागरा, नागारा	नगारा	नगरा	पॆरुंपरम नगरावुॅ	नगारि
नगीनो, रत्न	रत्न	रत्न, मणि	रत्न, मणि	मणि, रत्न	तंफा, मणि	मणि, रत्न	मणि	रत्तिनम्, मणि	रत्नम्,	रत्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नग्न	वि.	1. नंगा	नग्न	नंगा	नंगा (अयाँ, बरह्ना)	नंगुॅ	नंगो	नागवा, नग्न
		2. आवरण रहित, उघड़ा	अनावृत	नंग	बेपर्दा	नंगुॅ	उघाड़ो, बेपर्दा	उघड़ा, अनावृत्त
नजरबंद	वि.	वह बंदी, जिसकी चेष्टाओं पर नजर रखी जा सके और जो निश्चित स्थान और सीमा के बाहर आ-जा न सके	गृहवन्दिन्	नज़रबंद	नज़रबंद	नज़रबंद	नज़रबंद	स्थानबद्ध कैदी, नजरबंद
नट	पुं.	1. नाटक करने वाला, अभिनेता	नटः	नट	अदाकार	अदाकार	नटु, अदाकारु	नट, अभिनेता
		2. तरह-तरह के शारीरिक करतब दिखाने वाली एक जाति	नटः	नट	नट, बाज़ीगर	तमाशिगोंर	नटु, बाज़ीगरु, कलाबाजु	डोंबारी
नटखट	वि.	चंचल, ऊधमी, शरारती	चपल	शरारती, नटखट	शरारती, शोख़	नटखट, शरारती, सेच़ल	शरारती, हरकती	खोडकर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नागुं, नग्न	नग्न, नागडो	नाङ्गो, निर्वस्त्र	नग्न, उलङ्ग	नङ्ठा, नग्न	फि शेत्तबा,	नग्न, लंगला	नग्नमयिन	अम्मणमान	नग्नम्	बेतले, बत्तले, नग्न
उघाडुं	उघडो	आवरण नभएको	निराबरण, आढाका	नजरबंदी	फि थोङदबा	आवरण-रहित, निराबरण	मुसुगु लेनि	मूडप्पडाद	तुरन्न	निरावरण
नजर केद	नदरबंद	नजरबंदु	नज़रबंदी	नजरबंदी	फाजिंदुना थंबा	नजरबंदी	डटिन्यू	कावल् कैदि	वीट्टुतट-विलुळ्ळ	कण्गावलि-नल्लि इडलाद
नट	नट	नटुवा, अभिनेता	अभिनेता	अभिनेता, नट	ड्रामा तौबा मीओइ, अभिनेता	नट, अभिनेता, कलाकार	नटुडु, अभिनेत	नटन्	नटन् अभिनेतावुँ	नट
बाजीगर	डोंबारी, नाडेपेन्न करपी	नट, बाजीगर	नट	नट, नट जाति	–	केला, नट	नटुडु, दोम्मरिवाडु	कळ-क्कूत्ताडि	कूत्ताटि	डोंबरवनु
नटखट, खटपटी	मस्तो	चञ्चल, चकचके, उधुमे	छटपटे, चञ्चल	दुष्ट, चंचल	ङाओशि-न्नबा	दुष्ट, चंचल, चपल, चल-चंचल	अल्लरि, चिलिपि	विषमम् चेटिगरु, कुरुँबु-क्कारन्	विकृति	तुंट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नमस्कार	वि.	1. झुककर आदरपूर्वक किया गया अभिवादन	नमस्कारः	नमसकार	तस्लीम, आदाब	नमसकार	नमस्कार	नमस्कार
		2. अभिवादन सूचक शब्द	नमस्कारः	नमसकार	सलाम	नमसकार	–	अभिवादन
नमूना	पुं.	1. इकाई जो उस वस्तु का स्वरूप बतलाने के लिए दिखाई जाती है	प्रतिमानम्	नमूना	नमूना	नमूनुॅ	नमूनो	नमुना
		2. वह जिसे देखकर उसके अनुसार वैसा ही कुछ और बनाया जाए, प्रतिमान	प्रतिमानम्	नमूना	नक़्शा	नमूनुॅ	बानगी	बानगी, आदर्श
नम्रता	स्त्री.	विनीत होने का भाव	नम्रता	निम्मरता	इन्किसार (नर्मी)	नरॅमी	निहठाई, निउड़त	विनम्रता
नया	वि.	जो अभी हाल में निकला या बना हो, नवीन	नव	नवां	नया	नोॅव	नओं	नवे, ताजे
नर	पुं.	पुरुष, आदमी, मर्द (मादा का विपर्यय)	नरः	मर्द	नर	नर	पुरुषु, नरु	नर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नमस्कार	नमस्कार	नमस्कार, ढोग	नमस्कार	नमस्कार	खुरुमजबा	नमस्कार, अभिनंदन	नमस्कारमु	वणक्कम्	नमस्कारम्	नमस्कार, वंदने
अभिवादन	–	प्रणाम	नमस्कार	नमस्कार, प्रणाम	नोल्लु-कचबा	नमस्कार, प्रणाम	नमस्कारमु	वणक्कम्	नमस्कारम्	नमस्कार, वंदने
नमूनो	नमुनो	नमुना	नमूना	नमुना	खुदम, नमूना, सेंपल	नमुना	नमूना	मादिरि	सांपिळ्, मातृक	मादरि
आदर्श	तरा	प्रतिमान, ढाँचा	आदर्श	आदर्श, मानदंड	नमूना	नमुना, आदर्श, मानदण्ड, मापकाठि	नमूना	मादिरि	मातृक	प्रतिरूप
नम्रता	नमळाय, नम्रताय	नम्रता	नृम्रता	नतुन	नोल्लु-कचबा, नोन्जबा	बिनय, विनीत, नम्रता, अभिमान, शून्य, अकपट	विनयमु	पणिवु, अडक्कम्	नम्रत, वणक्कम्	नम्रते
नवुं	नवें	नयाँ, नौलो	नूतन, नबीन	नतुन	अनौबा	नूआ, नूतन, नबीन	क्रोत्त	पुदिय	पुतिय	होस
–	दादलो, नर	नर, मानिस	नर, पुरुष	नर, पुरुष	लाबा, नूपा	नर, पुरुष	नरुडु, मगॅ	मनिदन्, आण्	नरन्, मनुष्यन्	मनुष्य, गंडु, नर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नरम	वि.	कोमल, मृदु, मुलायम	कोमल, मृदु	नरम	नर्म	नरॅम	नरम	मऊ, नरम
नरमी (नर्मी)	स्त्री.	नरम या नर्म होने की अवस्था, गुण या भाव, मृदुता, कोमलता	मार्दवम्	नरमी	नर्मी	नरमी	नर्मी, नरमी	कोमलता, नरम
नरेश	पुं.	राजा	नरेशः, नृपः	राजा	बादशाह	राज़ुँ	राजा, नरेशु	राजा, नरेश
नर्तकी	स्त्री.	नाचने में प्रवीण स्त्री	नर्तकी	नाची	रक़्क़ासा	गर्तुरॅन्य	नाचिणी, नर्तकी	नर्तकी
नल	पुं.	गोल लंबा खंड या रचना, जिसका भीतरी भाग खोखला या पोला हो	नालम्, नालतुण्डम्	नल, टूटी, नलका	नल	नल्कुँ, पयिप, नॅल्य	नलु, नलको, नड़ु	नळ
नलकूप	पुं.	मशीन-चालित यंत्र, जिसके द्वारा जमीन के अंदर से पानी खींचा जाता है	नालकूपः	नलकूप	टियूबवैंल	ट्यूबवॅल	बर्मी खूह	नलकूप, ट्यूबवेल
नव	वि.	नया, नवीन, आधुनिक	नव	नवां	जदीद, नौ	नौंव	नओं, नईं	नवा, आधुनिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नरम	मोव	नरम, कमलो	नरम, कोमल, मृदु	कोमल	अथोत्पा, अमेङ्बा	नरम, कोमल, मृदु, मनोरम	मेत्तनि	मिरुदुवान, मेन्मै	मृदुत्वम्, मार्दवम्	कोमलतं
नरमाई	मोवाळपण	नरमी, नरमपन	मृदुभाव, कोमलता, नम्रता	कोमलता	थोत–नौबा मओङ्	नरमी, कोमलता, नम्रता	मेत्तदनमु	मेन्मैयान, मेन्मै	मृदुत्वम्, मार्दवम्	कोमलते
नरेश	राज़ा	राजा, नरेश	राजा, नरेश	रजा	निङ्थौ	नरेश, राजा	राजु	अरशन्	राजावुँ, नरेशन्	राज
नर्तकी	नर्तकी	नर्तकी, अभिनेत्री, नटुवी	नर्तकी, अभिनेत्री	नाचनी, नर्तकी, नाचोती	जगोइ शाबी	नर्तकी	नर्तकि	आडलळ्गि	नर्तकि	नर्तकि
नळ	पाइप, नळ	ढुङ्ग्रो, नली, टुटो, कल	नल, पाइप, कल	पाइप, नली, टेप	पाइप, टोटी कोन्जिल, टेप	नल, पाइप	गोट्टमु, कोळाइ	कुळाय्	कुळल्, टाप् पैप	कोळवे, नल्लि
नलकूपो, ट्यूबबेल	ट्यूबवेल, नळ–बांय	नलकूप	नलकूप, टयूबबेल	नलीनाद	ट्यूबवेल	नलकूप	ऊटॅ बावि, ट्यूबवेल	कुळाय् किणरु	कुळल्– क्किणरॅ	ट्यूबवॅल्
नव, नवीन	नवीन	नयाँ, नौलो	नब, आधुनिक, नतुन, नबीन	नतुन, न	अनौबा	नुआ, नबीन, नब, नूतन	कोत्त	पुदिय, नवीन	नवीनमाय, पुतिय	होस, आधुनिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नवनीत	पुं.	ताज़ा मक्खन	नवनीतम्	मक्खण	मक्खन	थॅन्य	मंखणु	नवनीत, लोणी
नवयुवक	पुं.	जो अभी हाल में जवान हुआ हो, नौजवान, तरुण	तरुण:	नौजवान	नौजवान	नवजवान	नौजवान	नवयुवक
नवीन	वि.	1. नया, नूतन	नूतन	नवां, नवीन	जदीद	नौंव, नवीनुं	नओं/नईं	नवीन, नूतन
		2. जो पहले-पहल या मूल रूप में बना हो, मौलिक	नवीन	–	बुनयादी	–	–	मौलिक
नशाबंदी	स्त्री.	राज्य या समाज द्वारा मादक पदार्थों के बेचने-खरीदने और पान करने पर पाबंदी लगाना	मद्यनिषेध:	नशाबंदी	नशाबंदी	नशिबॅन्दी	नशेबंदी, दारूबंदी	दारूबंदी
नष्ट-भ्रष्ट	वि.	1. सब तरह से खराब और बरबाद	नष्ट-भ्रष्ट	तहस-नहस	तबाहोबरबाद	बौंरबाद	ख़राब, बर्बाद, नास	नष्ट-भ्रष्ट, विध्वंस
		2. व्यर्थ, बेकार	व्यर्थ	–	ज़ाए	फोज़ूल, ब्यकार	बेकार	व्यर्थ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नवनीत, माखण	लोणी	नौनी, नवनी	माखन, नबनीत, ननी	माखन, नवनीत	माखोन	नबनीत, लहुणी	वॆन्न	वॆण्णय्	वॆण्ण, नवनीतम्	बेण्णे
नवयुवक	तरणाटो	नौजवान, नवयुवक	नबयुबक, तरुण	नवयुवक, तरुण	इंख्त-लक्पा नहा, नहारोल्	नबजुबक, तरुण, जुबक (युबक)	नवयुवकुडु	इळैञन्	युवावॖ	तरुण
नवीन, नवुं	नवीन	नयाँ, नौलो	नबीन, नूतन	नबीन, नतुन	अनौबा	नबीन, नूतन, नूआ	कॊत्त	पुदिय	नूतनम्, नवीनम्	होस, ईचिन
मौलिक	मौलिक	नयाँ, मौलिक	मौलिक	मौलिक	इनौ नौबा	मौलिक, मूल रूप	कॊत्त	असल्	आद्यमा-यिट्टुळ्ळ	मौलिक
नशाबंधी	नशाबंदी	नशाबंदी, मद्यपान निषेध	मादक बर्जन	मादकद्रव्य निषेध, मद निबारन	निशाबंद, निशा थिङ्बा	निशा-निबारण, मादक-द्रब्य-निषेध	मद्यनिषेधमु	मदु-विलक्कु	मद्यनिरोधनम्	मद्यनिषेध
नष्ट-भ्रष्ट	नश्ट-भ्रश्ट	नष्ट-भ्रष्ट	बरबाद	समुलंचे नष्ट, ध्वंस	माङ्हन् ताक्हन्बा	नष्ट-भ्रष्ट, बिनाश, ध्वंस	नशिंचि-कृशिंचिनॖ	नाशमान, अळिंदु-विट्ट	नशिच्च	ध्वंस, भग्न
व्यर्थ, बेकार	बेकार	व्यर्थ, बेकार	नष्ट, व्यर्थ	विनाश, अकामिला, निरर्थक	अरेंबा, कान्नदबा	ब्यर्थ, बेकार, निरर्थक	व्यर्थमयिनॖ	वीणान	उपयोग-शून्यम्	निष्प्रयोजन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नस	स्त्री.	रक्तवाहिनी नली	स्नायुः, शिरा	नस	रग, नस	नॉर	नस	स्नायु, नस, रक्तवाहिनी शीर किंवा नाडी
नसबंदी	स्त्री.	शल्य-क्रिया द्वारा पुरुष की जननेंद्रिय के वीर्य-प्रवाह के मार्ग को अवरुद्ध कर देने की क्रिया, ताकि वह प्रजनन कार्य में अक्षम हो जाए	शिरावरोधः, शिराबन्धः	नसबंदी	नसबंदी	नसबॅन्दी	नसबंदी	नसबंदी
नसल (नस्ल)	स्त्री.	1. वंश	वंशः	नसल	नस्ल	नसुॅल	नसुलु, जाती	वंश, जात
		2. संतति	सन्ततिः	–	आल	नसुॅल	वंशु	संतती
नहाना	अ.क्रि.	स्नान करना	√स्ना	नहाउणा	नहाना	श्रानकरुन	सनानु करणु, विहिंजणु	स्नान करणें
नाग	पुं.	1. सर्प, साँप	नागः	नाग	सांप	सरुफ	नांगु	साप, सर्प
		2. काले रंग का बड़ा और फन वाला साँप	–	–	नाग (अफ़ई)	सरुफ	–	नाग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नस	नस	नसो, स्नायु	स्नायु	स्नायु	शिङ्ली नाओरी	स्नायु, तंत्री	नरमु	नरंबु	ञरंपुँ	नर, स्नायु
नसबंधी	नसबंदी	नसच्छेदन, नसबंदी	निर्बीर्यकरण	बंध्याकरण	नसबंदी, अङाङ् थिङ्बा	नसबंदी, पुरुष बंध्याकरण	संतान- निरोधमु	कुडुंबक्- कट्टुप्पा- डुक्कान अरुवै चिकिच्चै	बंध्यकरणम्	नाळबंधन
नसल, वंश	वंश	वंश, नसल, जाति	बंश	बंश	जात	बंश	वंशमु, कुलमु	वमिशम्, इनम्	इनम्, वंशम्	वंश, कुल
संतति	संतती	संतति	संतति	संतान	मचा	संतान, संतति	संतति	संददि	संतति	संतति
नाहवुं	न्हावप	नुहाउनु	नाओआ, स्नान करा	गाधोवा	इरुजबा, चाइथबा	गाधोइबा, स्नान- करिबा	स्नानमुचेयुट	कुळिक्क	कुळिक्कुक	स्नान माड्वुदु
नाग, साप	सरोप	नाग, सर्प	नाग, सर्प, साप	साप	लिल्	साप	पामु	पांबु	नागम्, पांपुँ	हावु, सर्प
नाग	नाग	नाग	–	फेटि साप	–	गोखर	नागुबामु	करु नागम्	करिमूर्खन्	करिनागर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नागरिक	वि.	1. नगर में रहने वाला, नगर से संबंधित	नागरिकः	नागरिक, शेह्‌री	शह्‌री	शाहरुक, शहरी	शहरवासी, नगरवासी, नागरिकु	नागरिक
		2. असैनिक	असैन्यः	नागरिक	–	सिवल	ग़ैर-फ़ौजी	असैनिक (सिव्हिल)
	पुं.	3. किसी राज्य में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति जिसे उस राज्य में रहने, नौकरी करने, संपत्ति रखने आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं	नागरिकः	नागरिक	शह्‌री	शहरी	नगरवासी, नागरिकु	नागरिक
नागिन	स्त्री.	नाग (सर्प) की मादा	सर्पिणी	नागण	नागिन	सॅर्यपेन्य, गुनस	नॉगिणि	नागीण
नाचना	अ.क्रि.	1. नृत्य करना	√नृत्	नच्चणा	नाचना	नच़ुन	नचणु	नाचणें
		2. संगीत के स्वर में ताल-स्वर के अनुसार हाव-भावपूर्ण चेष्टाएँ करना	√नृत्	–	रक़्स करना	नच़ुन	नृत्य करणु	नाचणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नागरिक	नगरवासी	नगरवासी	नागरिक, शहुरे	चहरीया, नागरिक	नागरिक, शहर दा लैबा मी	सहर बा-नगरबासी	नागरिकुडु, नगरसंबंधि	नगरवासि	नगरवासि	नागरिक
मुलकी	नागरी	नागरिक, असैनिक, निजामति	असामरिक	असैनिक, असामरिक	सिविल	असैनिक, बेसामरिक, सामाजिक	सिविल	कुडिमुरैयान, सिविल (राणुव चार्बट्ट)	सिविल्	असैनिक
नागरिक	नागरीक	नागरिक	नागरिक	नागरिक	नागरिक, सिटीजन	नागरिक	पौरुडु	कुड़िमगन्	पौरन्	नागरिक
नागण	नागीण	नागिनी, सर्पिणी	नागिनी, सापिनी	माइकी साप	लिल् अमोम	नागुणी	आडपामु	पेण् पांबु	पेण्पाम्पॅ	सर्पिणि, हेण्णु हावु
नाचवुं	नाचप	नाच्नु	नाचा	नाचि बागि उठ नचा, नृत्य करा	जगोइ शाबा	नाचिबा, नृत्य-करिबा	नाट्यमु चेयुट	नाट्टियमाड	तुळ्ळुक	कुणिदाडुवुदु
नाचवुं	नृत्य करप, नाच करप	नाच्नु	–	नृत्य कर	जगोइ शाबा	नाचिबा	नाट्यमु चेयुट	नडन-माडुदल्	आटुक, नृत्तम् वय्क्कुक	नर्तिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नाटक	पुं.	1. दृश्य काव्य	रूपकम्	नाटक	ड्रामा	पॉथुर, नाटुख, ड्रामा	नाटकु	नाटक
		2. दिखावटी कार्य	आडम्बर:	नाटक	नाटक	पॉथुर	–	ढोंग
नाता	पुं.	संबंध, रिश्ता	सम्बन्ध:	साकाचारी, नाता	नाता	रिशतुँ	नातो, रिश्तो, संबंधु	नातें, संबंध
नाथ	पुं.	1. प्रभु, स्वामी	नाथ:	नाथ	मालिक	मॉलिख	पाती, धणीटु	प्रभु, स्वामी, नाथ
		2. पति को संबोधित करने वाला शब्द (नाटक आदि में)	नाथ:	नाथ	ख़ाविंद	रून, खानुँदार	नाथ, स्वामी	पती
		3. एक संप्रदाय	–	नाथ	–	–	–	–
	स्त्री.	ऊँटों, बैलों आदि को वश में रखने के लिए नथनों में डाली जाने वाली रस्सी	नाथ:	नत्थ	नुकेल	नॉकुँर	ढगु या उठ जे नक जी नोड़ी	दोरी, वेसण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नाटक	नाटक	नाटक	नाटक	नाटक	नाटक, ड्रामा	नाटक	नाटकमु	नाडगम्	नाटकम्	नाटक
ढोंग	ढोंग	नाटक, आडंबर	–	देखुवाबलै करा कार्य, अभिनय	–	अभिनय	नाटकमु	पाशांगु	प्रहसनम्	वेष, नाटक
नातो, संबंध	संबंध, नाते	साइनु, नाता, संबंध	संबंध, कुटुंबिता	संबंध, संपर्क	मरि	संबंध, संपर्क	संबंधमु	उर॒वु	बंधम्	संबंध, नेटंस्तिके
नाथ, स्वामी	स्वामी, देव	नाथ, ईश्वर	नाथ, प्रभु, संप्रदाय	गराकी, नाथ, अधिपति	मपु	नाथ, अधिपति	नाथुडु, प्रभुवु	एंजमानन्, अदिपति	नाथन्, यजमानन्	प्रभु
पति, नाथ	घोव, पती	पति, मालिक	पति, स्वामी	पति, स्वामी, गिरियेक	मपुरोइबा	पति, स्वामी	भर्त	कणवन्	पति, भर्त्तावुँ	गंड
–	–	एक संप्रदाय नाथ	–	–	नारेङ् हुत्पा	–	ओंक संप्रदायमु	–	–	–
नथ	वेसवण	नत्थी	नाकेर दड़ि	नाकी	नारेङ् हुत्पा	नोथ	मुक्कुताडु	मूक्क-णांकयिरु॒	मूक्कुकयरुँ	मूगुदाण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नादान	वि.	भोला, अनुभवहीन, अकुशल या अनाड़ी	सरल, अज्ञ	अंजाणा, निआणा, नदान	नादान	नादान, बेकुॅल	नादान, अणज़ाण	मूर्ख, अडाणी, नादान
नाप-तोल	स्त्री.	1. नाप-जोख	मानम्	नापतोल	नापतोल	मींच़-तोल	माप-तोर	माप, जोख
		2. माप और वजन	मानम्, परिमाणम्	–	पैमाईश	मींच़-तोल	–	माप आणि वजन
नापना	स. क्रि.	लंबाई, चौड़ाई, गहराई-ऊँचाई, परिमाण, मात्रा आदि का ठीक ज्ञान प्राप्त करना, मापना	परि/मा	नापणा	नापना	मापुन	मापणु	मापणें
नाम	पुं.	1. वस्तु, व्यक्ति आदि का बोधक शब्द संज्ञा	नामन्, अभिधानम्	नां, नाम	नाम	नाव	नालो, नांउ	नांव
		2. ख्याति, यश, प्रतिष्ठा	नामन्, यशस्	–	लक़ब, ख़िताब शोहरत, तख़ल्लुस	नाव-इसुॅम	–	नावलौकिक, कीर्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नादान, अण-समजु	अडाणी	नासमझ, नादान	अपटु, आनाड़ि	बुद्धिहीन, अकुशल	अपङ्बा	अनाड़ी, बुद्धिहीन, बोका, मूर्ख, निर्बोध	अमायकुडु	कपडमट्ट	निष्कपटनाय	दड्ड, बेप्प
मापवुं के जोखवुं ते	ज़ोख-माप	नापतौल, नापजोख, जोखाइ	माप, जोख	जोख	उन्बा, उनबा-खोत्पा	माप	कॊलत-तूकमु	अळत्तल्, निरुत्तल्	अळक्कल्	अळते, तूक
माप अने वजन	वज़न	नापजोख, जोखो	–	जोख	उल्लबा	ओजनिआ, भारी, भार	कॊलत-तूकमु	अळवु, निरै	अळवुँ, अळवुम् तूक्कवुम्	अळते, तूक
मापवुं	मापप	नाप्नु, नापी गर्नु, माप्नु	मापा	–	उन्बा	मापिबा	कॊलुचुट	अळक्क	अळक्कुक	अळते माडुवुदु
नाम, संज्ञा	नांव	नाउँ	नाम	नाम, संज्ञा	मिङ्	नाम, संज्ञा	पेरु	पॆयर्	पेरुँ, नामम्	हॆसरु
कीर्ति	नावादीक, नामनेचो	ख्याति, यश, नाउँ	ख्याति	कीर्ति, यश, नाम	मिङ्चत्	ख्याति, कीर्ति, यश, नाम, सुनाम	पेरु, प्रसिद्धि	कीर्त्ति, पुगळ्	प्रसिद्धि, पेरुँ	कीर्ति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नामकरण	पुं.	1. नाम रखने की क्रिया या भाव	नामकरणम्	नामकरण	तस्मिया	सोंदॅर	नालो रखणु, नाले रखण जो कमु	नामकरण
		2. बच्चे का नाम रखने के लिए एक संस्कार	संस्कारः	नामकरन	अक़ीक़ा	श्रान-सोंदॅर	छठी	बारसं
नामे	पुं.	लेखा आदि वह खाता, स्तंभ या मद जिसमें किसी पक्ष को दी गई रकम लिखी जाती है, 'जमा' का विपर्याय	देयम्	नावें	दैन	खातुॅ	हासिल ख़ाते, नाले	नावें
नायक	पुं.	1. नेता, मार्गदर्शक	नायकः	नाइक	रहबर, रहनुमा	नायुक, हीरो	नाइकु, नेता, सूरमो	नेता, मार्गदर्शक, नायक
		2. काव्य, नाटक, उपन्यास आदि का प्रधान पात्र	नेता	–	हीरो	नायुक, हीरो	नाटक, उपन्यास वग़ैरह जो मुख्य पात्रु	नायक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नामकरण	नामकरण	नामकरण	नामकरण	नामकरण	ममिङ् थोन्बा	नामकरण	नामकरणमु	पॅयर् चूट्टुदल्	नामकरणम्, पेरिटल्	नामकरण
नामकरण	बारसो, नांवघालप	न्वारान, नामकर्म	–	नामकरण संस्कार	नामकरण	नामकरण उत्सब	नामकरणमु	पॅयर् चूट्टु विळा	नामकरण संस्कारम्	नामकरण
नामे	पयशे (देणें) म्हणून नांवार बरोवप, नावीं	विकलन	खरच	खरच	हिसाब इबा बोइ, हिसाब बोइ	डेबिट, ब्यय, खर्च, हिसाब-बहिरे-खर्च्च-पाख	खर्चु, डेबिट	पट्टु ऐळुदु	पेरिल् चॅलवुँ	देणे खाते, खर्चु
नायक	नेता	नायक, नेता, नाइके	नेता	पथ-प्रदर्शक, नेता	लुचिङ्बा	नायक, नेता, पथ-प्रदर्शक	नायकुडु	तलैवर्, वळिकाट्टि	नेतावुँ	मुखंड
नायक	नायक	नायक, नाइके, प्रमुख अभिनेता	नायक	नायक	मरु ओइबा पात्र	नायक	नायकुडु	तलैवन्, नडिगन्	नायकन्	नायक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नायिका	स्त्री.	1. महिला नेता, वीरांगना, अभिनेत्री	नायिका	नाइका	हीरोइन	नायिकॅन्य, हीरोयिन	नाइका, वीर स्त्री, सूरमी	वीरांगना, अभिनेत्री, नायिका
		2. काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि का मुख्य स्त्री पात्र	नायिका	नाइका	मलका-ए-अफ़साना	–	–	नायिका
नारा	पुं.	किसी दल, समुदाय आदि के द्वारा जुलूस आदि के साथ उच्च स्वर में बोला जाने वाला वाक्य	उद्घोषः	नाह्‌रा	नारा	नॉरॅ	नारो, सड़ु	घोष
नाराज	वि.	अप्रसन्न, रुष्ट	रुष्ट	नराज़	नाराज़, नाखुश	नाराज़	नाराज़	नाराज, रुष्ट
नारी	स्त्री.	स्त्री, औरत	नारी	नारी	औरत	ज़न्य, ज़नानुं	नारी, औरत	स्त्री, नारी, बाई
नाला	पुं.	गंदे पानी का निकास मार्ग, जलमार्ग	प्रणालः, प्रणालिका	नाला	नाला	नालुं	नालो, वडी नाली	नाला
नाव	स्त्री.	नौका, किश्ती	नौ	बेड़ी	कश्ती	नाव, शिकॉर्य	बेड़ी, कश्ती, नौका, नाव	नौका, नाव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नायिका	वीरांगना	नायिका, वीराँगना	नायिका, नेत्री, बीरांगना	अभिनेत्री, नायिका, बीरंगना	नायिका, हीरोइन	नायिका, हीरोइन, अभिनेत्री	नायिकॅ	तलैवि, नडिगै	नायिक	नायकि, अभिनेत्रि
नायिका	नायिका	नायिका, अभिनेत्री	नायिका काहिनी बा नाट्टकार	नायिका	मरुओइबा पात्र नुपी	नायिका	नायिकॅ	तलैवि	नायिक	नायिका
सूत्र, नारो	नारो	नारा	जयध्वनि, स्लोगान्	ध्वनि, जयगीत, श्लोगान	खोल्लाओ, स्लोगान	श्लोगान, ध्वनि, निनाद, स्वर	उद्घोषॅ	गोषम्, कोरिक्कै मुऴक्कम्	मुद्रावाक्यम्	घोषणे, जयजयकार
नाराज	नाराज, राग	अप्रसन्न, नाखुस	अप्रसन्न, असंतुष्ट	रुष्ट	अशाओबा	नाराज़, रुष्ट, अप्रसन्न	कोपमुव-च्चिनॅ	कॉपमडैंद	क्रुद्यन्, देष्यप्पेट्ट	कोपगॉण्ड
नारी, स्त्री	अस्तुरी, नारी	आइमाई, नारी	नारी, स्त्री, रमणी	तिरोता, नारी, स्त्री	नुपी	नारी, स्त्री	स्त्री	मादु, स्तिरी	स्त्री, नारि	हेंगसु
नाळुं	कालवो, नालो	कुलो, नाला	नाला	नर्दमा, दीघलीया-खंदा खाल	नाला, खोङ्बाल्	नाल, नर्दमा	कालुवॅ	वाय्क्काल्	ओट, चॅरियि तोट्टॅ	कालुवॅ
नाव, नौका	व्हडें, नाव	डुङ्गा, नाउ	नौका, नाव	नाओ, नौका	हि	नाब, नौका	पडवॅ, नावॅ	पडगु	तोणि	दोणि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नाविक	पुं.	वह, जो नौका खेता हो, माँझी, मल्लाह	नाविकः	मलाह	मल्लाह	हाँज़, मलुँ	मलाहु, मांझी	नाविक, नावाडी
नाश	पुं.	1. वस्तु आदि की टूट-फूट कर ध्वस्त होने की क्रिया या भाव, ध्वंस, विध्वंस	नाशः	नास	बरबादी, नास	नाश	नासु	नाश, विध्वंस
		2. अपव्यय, बरबादी	नाशः	बरबादी	तबाही	नाश	नासु	अपव्यय, नुकसान
नास्तिक	पुं.	ईश्वर, परलोक, मत-मतांतरों आदि को न मानने वाला	नास्तिक	नासतिक	मुल्हिद (दह्‌रिया)	नासत्यख, लादीन	नास्तिकु	नास्तिक
निंदा	स्त्री.	किसी के दोषों, बुराइयों आदि का उल्लेख	निन्दा	निंदिआ	मज़म्मत (बुराई)	आंज़रुन-गांज़रुन, नैंन्यद्‌या	निंदा	निंदा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नाविक, वहाणवटी	नावीक, व्हडेंकार	माझी, बोटे, नाविक	नाविक, माझी	नाविक, नावरीया, बैचा, नाव बाओंता	हिहोन्बा	नाबिक, नाअरी, नाउरीआ	नाविकुडु	पडगोट्टि	वंचिक्कारन्	नाविक, अंबिग
नाश, पायमाली	नाश	नाश, विनाश, विध्वंस	नाश, ध्वंस	नाश, ध्वंस, मृत्यु, हानि, क्षति	माङ्बा, माङहन्बा	ध्वंस, नष्ट–करिबा, लोप–करिबा, व्यर्थ–करिबा, नाकच–करिबा	नाशनमु	अऴिवु	नाशम्	विनाश
नुकसान	विध्वंस	बरबादी	अपव्यय, नाश	अपव्यय, क्षति, हानि	माङ्ताक्–हन्बा	अपब्यय, अमितव्यय, बदखर्च	नाशनमु	नाशम्	पाऴाक्कल्	अपव्यय
नास्तिक	नास्तीक	नास्तिक	नास्तिक	नास्तिक, बेद न मना, निरीश्वरवादी	ईश्वर थाजदबा मी	नास्तिक	नास्तिकुडु	नास्तिगन्	नास्तिकन्	नास्तिक
निंदा, टीका	निंदा	निंदा	निंदा	निंदा, बदनाम, अपबाद, दुर्नाम	निंदा	निंदा, बदनाम, अपबाद	निंदॆ	निंदनै इगऴ्च्चि	निंद	निंदे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निःशुल्क	वि.	जिस पर कोई शुल्क या कर न लगता हो	निःशुल्क	मुफ़त, बिना-फीस, बिना-टैक्स	बिना महसूल	फीसुँ वरॉय	बिना फ़ी, मुफ़त	मोफत, फुकट, निःशुल्क
निःसंतान	वि.	संतान-रहित	अनपत्य	बेउलाद	लावलद	हाँठ, शुर्य-रॅछ़	बेऔलाद, बिना संतान	निःसंतान
निकट	क्रि. वि.	समय या स्थान की दृष्टि से पास ही में, समीप	निकट	नेड़े	क़रीब	नॅज़्यदीख	वेझो, करीब	जवळ, समीप, निकट
निकम्मा	वि.	1. जो कोई काम न करता हो, बेकार	अकर्मण्य	निकम्मा	नाकारा	निकमुॅ	निकमो	बेकार
		2. जो किसी काम में आने योग्य न हो	अनर्ह	निकम्मा	बेकार	नाबुॅकार	–	निरुपयोगी
निकलना	अ. क्रि.	1. भीतर से बाहर आना, प्रकट होना	निर् +√गम्	निकलणा	निकलना	खसुन, नेरुन	निकिरणु	निघणें
		2. उदित होना	उत् +√अय्, उत् +√इ	निकलणा	तुलू	नेरुन	उभिरणु	उगवणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मफत, नि:शुल्क	फुकट	नि:शुल्क, मुफत	नि:शुल्क	नि:शुल्क, बिना मुल्य	फि लौदबा, लेम्ना, टेकस याऔदबा	नि:शुल्क, माहालिआ, मागणा, बिना-अर्थ	उचितमु	कट्टण-मिल्लाद, इलवसमान	फीसिल्लार्त, सौजन्यमायि	शुल्करहित, शुल्कविल्लद
नि:संतान	नि:संतान	अपूतो, निस्संतान	नि:संतान	नि:संतान, संतानहीन	मचा पोक्तबा	नि:संतान, संतानहीन	निस्संतु	मक्कट् पेरिल्लाद	संतान-मिल्लात्त	संतानरहित, नि:संतान
निकट	लागीं	नजिक, समीप	निकटे, काछे	समीप, ओचर, निकट	नक्ना	निकट, समीप, पाखरे	दग्गर	अरुगे, किट्ट	अटुत्तुं	हत्तिर
नकामो	निकामी	निकम्मा, बेकम्मा	अकर्मण्य, अपदार्थ	निष्कर्मा, अपदार्थ	शुनिङ्दबा अरेंबा	निकमा, अपदार्थ, अकर्मण्य	पनिपाटलेनि	उदवाद	पणियान्नुं चैय्यात्त	केलसक्के बारद, सोमारि
नकामुं	बॅकार	बेकार, बेकामी	अकेजो	अकर्मण्य, अकामिला	मतिक् चादबा	अकर्मण्य, पंगु	पनिकिमालिनि	वीणान	उपयोग-शून्यम्	प्रयोजन-विल्लद
नीकळवुं	भायर सरप	निस्कनु, निक्लनु	बेरोनो	ओलाइ-आह	थोरक्पा	बाहारिबा	बयटकु-वच्चुट	वंळिवर	पुरत्तु वरिक	होरडुवुदु
उदय थवो	उदेवप	उदाउनु, प्रकट हुनु	ओठा	उदय ह	थोरक्पा	उदय-हेबा, उईंबा	उदयिंचुट	उदिक्क	उदिक्कुक	उदयवागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निकासी	स्त्री.	1. निकलने या निकालने की क्रिया	निर्गमः	निकासी	निकासी	नेरनुँच वथ	नेकालु	प्रस्थान
		2. दुकान में रखे हुए अथवा कारखानों आदि में तैयार होने वाले माल का बिकना	विक्रयः	बिक्री	बिक्री	बिकरी	विकिरो	बिक्री, खप
निकृष्ट	वि.	नीच, गिरा हुआ, निम्न, घटिया	निकृष्ट	नखिद्ध	ख़राब	नाकारुँ	नीचु, घटि ज़ाति वारो	निकृष्ट
निखट्टू	वि.	1. (व्यक्ति) जो कुछ भी न कमाता हो	निरुद्यम	निखट्टू	निखट्टू	बेंहवाल	निकमो, न कमाईंदड़ु	निरुद्योगी
		2. आलसी, बेकार	अलसः	–	नाकारा	बेँकार, आलुँछूय	आलसी	आळशी, बेकार
निगलना	स.क्रि.	कोई चीज बिना चबाए ही गले के नीचे उतार लेना	नि + √गृ	निगलना	निगलना	न्यूंगुलुन	गीहणु	गिळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निकासी	प्रस्थान	निकासाइ, निकासि	बाहिर करा, निकाश	बहिष्कार	थोरक्पा, लौथोक्पा	निस्कासन, निकास, बहिष्कार	वॆलिकि वच्चुटॆ	वॆळयॆट्टुदळ्	पुरत्ताक्कल्	होरगे होगुवुदु
खपत, वेचाण	खपत	बिक्री, खपत	काटति, बिक्री	बिक्री, बिक्रय	योन्बा	बिक्री, बिक्रय, बिकिबा	अम्मकमु	विऱ्पनै	विल्पन	माराट
निकृष्ट, अधम	निकृष्ट	खराब, नजाती, निकृष्ट	निकृष्ट, अधम	अधम बीच तल-खापर	फत्तबा	निकृष्ट, अधम, निच्च, निम्न, खराप	निकृष्ट-मयिनॆ	कॆट्ट, मट्टमान	निकृष्टम्	नीच
बेकार	बॅकार-थवय	बेइलमी, अनुद्योगी	निष्कर्मा, बेकार	निष्कर्मा, उपार्जनहीन, अकामिला	पाइ-थोकत्बा	निकमा, बेकार, निष्कर्मा, उपार्जनहीन	पनिकि-मालिनॆ	ऑन्ऱुम् संबादिक्काद	संपादिक्कान् कॉळ्ळात्त	मैगळ्ळ
रखडेल, आळसु (ल)	आळशी	बेकार, अल्छे, अल्सी	आलसे, अलस	निष्कर्मा, कुँड़े	अतन्बा	बेकार, अलसुआ	सोमरिपोतु	उदवाक्करैयान, चोंबेरि	मुळुमटियन्	सोमारि
गळवुं	गिळप	निल्नु	–	गिल, गिलि पेलोवा	योत्शिन्बा	गिलिबा	मिंगुटॆ	विळंग	विळड्.डु.क	नुंगुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निग्रह	पुं.	1. अवरोध, रोक	निग्रहः	रोक	बंदिश	ज़बुथ, कंट्रोल	संयमु, ज़ाब्तो, रोक	निग्रह, अवरोध
		2. आचरण को मर्यादित करना	निग्रहः	रोक	–	–	–	–
निचोड़	पुं.	सार, सत्व	रसः, सारांशः	निचोड़	निचोड़ खुलासा, नतीजा	सार, निचोड, मोंखसर	निचोड़ु सारु	सार, सत्व, सारांश
निचोड़ना	स.क्रि.	गीली या रसदार वस्तु से उसका रस निकालना	निस् + √पीड्	निचोड़ना	निचोड़ना	चीरुन	निचोड़णु, निपूड़णु (कपिड़ो वग़ैरह)	पिळणें
निडर	वि.	1. निर्भय, निर्भीक	अभय	निडर	बेबाक (निडर)	बेखोफ	निडर, बेडपो	निर्भय, निडर
		2. साहसी	–	निडर	बहादुर	ह्यमती	–	साहसी
नितांत	क्रि.वि.	1. बहुत अधिक	नितान्त	बहुत अधिक, निरा	निहायत	स्यठा	तमाम घणो	नितांत, फार अधिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निग्रह, अटकाव	निग्रह	नियंत्रण, निग्रह, रोक	निग्रह, शासन	निग्रह, दमन, अत्याचार शासन	अथिङ्बा	निग्रह, दमन, अबरोध	आटंकमु, निर्बंधन	तडुत्तल्, अडक्कुदल्	निग्रहम्, अटक्कल्	निग्रह
–	–	निग्रह, रोक	–	–	–	–	–	–	–	–
निचोड, सारांश, सार	सत्व, सारांश, सार	निचोर, सत्व, सार	रस, क्वाथ, सारांश, सार	रस, सार, सारांश	शुम्दोक्पा	चिपुड़ा- रस, सारांश, सार तब्त बा पदार्थ	सारमु, सारांशमु	पिळिंदुत्त चारु, सार	रसम्, चारु, सारांश	रस, सारांश, अंश
निचोववुं	पिळप	निचोर्नु	निङ्ड़ानो	शोह, चेप	शुम्दोकपा	चिपुड़िबा	पिंडुट	पिळिय	पिळियुक	हिंडुवुदु
नीडर	निर्भीक	निडर, निर्भय	निर्भय, निर्भिक	निर्भीक, निर्भय	किदबा	निर्भय, साहस	भयमुलेनि	अंजाद, बयमट्ट	निर्भयन्	अंजिके इल्लद
साहसी	साहसी	आँटिलो, साहसी	साहसी	साहसी, भयशून्य	थौना फबा	साहसिक, साहसी	धैर्यमुगल	दैरियमान	धैर्यशीलन्	साहसि
नितांत, खूब	खूब	अत्युधिक, अत्यंत	नितांत, अत्यधिक	अति, बेचि, नितांत, अतिशम, एकांत	याम्ना यांबा	नितांत	मिक्किलि	मिग अदिगमान	वळरेयधिकम्	बहळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. बिल्कुल	नितान्त	बिलकुल	तमाम	मुकमल	बिल्कुल	नितांत, सर्वथा
निथारना	स.क्रि.	पानी आदि से मैल को अलग करना	निस्तारय्	नितारना	निथारना	चकिस-बेंहनावुन	आछिराइणु, आठिराइणु	निथळणें
निदान	पुं.	1. मूल कारण	निदानम्	निदान	इल्लते-ग़ाई	वजह	मूल कारणु, निदानु	निदान, कारण
		2. चिकित्सा शास्त्र में रोग की पहचान एवं समाधान	निदानम्	निदान, तशखीस	तश्ख़ीस	तशखीस	बीमारीअ जी शिनाख़्त	रोगाचे निदान
		3. समाधान	निदानम्	–	–	–	समाधान	–
निद्रा	स्त्री.	नींद	निद्रा	नींद, नींदड़	नींद	न्युंदुॅर	निंड	झोप, निद्रा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संपूर्ण	संपूर्ण	एकदम, बिलकुल	संपूर्ण	संपूर्ण, पुरा, संपूर्ण, एकांत	पुलप्	संपूर्ण, पूर्ण, पुरा, समाप्त, संपन्न	सर्वथा	मुट्टिलुम्, मुळुदुम्	पूर्णमाय	तीर, संपूर्ण
नितारवुं	निस्तावप	थिग्ग्राउनु, थिग्रन् लाउनु	थितानो	निगरा, चापर-फाललै बोवा	तिङ्बा	निगड़िबा	तेर्चुट	तेळिय वैत्तु वडिक्क	ऊट्टि-त्तेळिक्कुक	तिळिगोळि-सुवुदु
निदान, मूळ कारण	कारण	मूल कारण	निदान, मूलकारण	उत्स, मूलकारण, निदान	मरु ओइबा मरम्	मूल-कारण, उत्पत्ति-कारण	मूल कारणमु	अडिप्पडै कारणम्	मूल कारणम्	मूलकारण
रोगनुं निदान आदि कारण	रोगनिदान	निदान, रोगको निर्क्योल	–	रोगर-निदान, मूल कारण	लाइओङ् खङ्बा, डाइगानोसिस	लक्षण-देखि रोग-निर्णय बा-रोगर निदान	रोग-निर्धारण	नोय्नाडि अरिदल्	रोग निदानम्	रोग निदान, रोग लक्षण
समाधान	–	समाधान	–	–	–	–	समाधानमु	–	–	–
ऊँघ, निद्रा	न्हीद	निद्रा, नीद	निद्रा, घुम	टोपनि, निद्रा	तुं बा	निद्रा, निद	निद्र	तूक्कम्	उरक्कम्, निद्र	निद्दे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निधन	पुं.	मृत्यु, देहावसान	निधनम्	मौत	इंतिक़ाल	मरुन	देहांतु, मौतु	निधन, मृत्यु
निधि	पुं.	विशेष कार्य के लिए जमा किया हुआ धन	निधिः	पूंजी	फ़ंड (रक़म)	संच्यथ, खज़ानुँ	धनु, निधी	कोष, निधी
निपटना	अ.क्रि.	1. पूरा होना, संपन्न होना	सम् +√पद्	निब्बड़ना	निमटना	अंद वातुन	निबिरणु, पूरो थियणु	पुरे होणें, संपन्न होणें
		2. निवृत्त होना	कार्यात्+ मुच्	निब्बड़ना	बेबाक़ करना, फ़ारिग़ होना	मोकलुन	वांदो थियणु	निवृत्त होणें
		3. लेन-देन, झगड़े, विवाद आदि का निपटारा होना	सम्+आ + √धा	निब्बड़ना	ख़त्म करना	–	फ़ैसल थियणु	निर्णय होणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निधन, मरण	मरण	मृत्यु, निधन, मरण	मृत्यु, निधन	निधन, मृत्यु, स्वर्गबास, मरण	शिबा	निधन, परलोक, स्वर्गबास, मृत्यु	मृत्युवु	मरणम्, चावु	मरणम्	सावु, मृत्यु, मरण
निधि, खजानो	निधी	निधि, कोष	निधि, कोष	कोष, निधि, भँराल निधान	लन्	मूलधन, पुंजि, जमा, संगृहित-अर्थ, भंडार, गछित धन	निधि	निदि, पॉक्किषम्	फण्डुॅ, निधि	निधि
आटोपवुं	पुराय जावप	निब्ट्नु	पुरो हओया	पूर्ण ह, संपन्न होवा	पाङ्थोक्पा	संपन्न-हेबा, पुर्ण हेबा, पुरा हेबा	मुगियुट	निरैवु पॅर्	पूर्णमाकुक	मुगियुवुदु
निवृत्त थवुं	निवृत्त जावप	निवृत्त हुनु	पूर्ण हओया, संपन्न हओया	संपन्न होवा, पुर्ण होवा, पुरा हेवा	–	पूरा-हेबा, संपन्न हेबा	निवृत्तुडगुट	ओयवु पॅर्	ऑळियुक, विरमिक्कुक	निवृत्तुनागुवुदु
पताववुं	निस्तरावप	निब्ट्नु	निष्पत्ति हओआ	निष्पत्ति ह	लोइशिन्बा	–	परिष्कार मगुट	मुडिवाग	तीरुमानम् वरुत्तुक	तीर्मानवागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निपटाना	स.क्रि.	1. कार्य आदि पूर्ण या संपादित करना	निस् + √पादय्	निबेड़ना	निमटाना	मोॅकलावुन	निबेरणु, पूरो करणु	आवरणे, संपविणें, कार्य संपविणें
		2. विवाद या झगड़े को समाप्त करना	सम् + आ + √धा	निबेड़ना	ख़त्म कर देना	कथ च़टुॅन्य	निबेरणु, फ़ैसलो करणु	विवाद वा झगडा समाप्त करणें
निपुण	वि.	दक्ष, प्रवीण, कुशल	निपुण	निपुन	माहिर	मॉहिर	माहिर, भडु	दक्ष, निपुण
निबंध	पुं.	वह विचारपूर्ण विवरणात्मक और विस्तृत लेख, जिसमें सब अंगों का विवेचन किया गया हो	निबन्ध	लेख, निबंध	मज़्मून	मज़मून, लेख	मज़्मूनु, लेखु, निबंधु	निबंध
निबाहना	स.क्रि.	1. निर्वाह करना, निभाना	निर् + वह्	निर्भाउणा	निबाहना (निभाना)	गुज़ारुॅ करुन	निबाहिणु, निभाइणु	निर्वाह करणें
		2. (दायित्व, कार्य, वचन आदि का) पालन करना, पूरा करना	निर् /वह्	निर्भाउणा	अन्जाम को पहुँचना	वादुॅ पूरुॅ करुन	पूरो करणु	पूर्ण करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निपटा-ववुं	सोंपवप	निब्टाउनु	काज सारा	संपादित कर सँपुर्ण करा	पाङ्थोक्पा फोङ्दोक्पा	शेष-करिबा, संपादन-करिबा	मुगिंचुट	वेलैयै मुडिक्क	कार्यम् नेटुक	पूरैसुवुदु
पतावvुं	मिटोवप	छिन्नु, छिनाफाना गर्नु	निष्पादन/ निष्पत्ति करा	मिमांसा कर, बिचार करा	लोइशिन्बा खाम्जिन्बा	मीमांसा-करिबा, संपूर्ण-करिबा, निष्पादन	परिष्करिं-चुट	चंडैयै तीर्क्क	वळक्कुँ अवसानि-प्पिक्कुक	तीर्मानिसुवुदु
निपुण	प्रवीण	सिपालु, कुशल, निपुण	निपुण, दक्ष	निपुण, पार्गत, दक्ष	है शिङ्बा	निपुण, दक्ष, कुशल	निपुण-तगल	निपुणन्, कैतेंर्द-वन्	निपुणन्, कुशलन्	निपुण
निबंध	निबंध	लेख, निबंध	निबंध, प्रबंध	निबंध, रचना, प्रबंध	निबंध	प्रबंध-रचना	व्यासमु	कट्टुरै	उपन्यासम्	प्रबंध
निभाववुं	निभावप	निर्वाह गर्नु, खेप्नु	निर्बाह करा	निर्बाह कर, साधन कर, संपादन	लेन्बा, ङाक्पा	निबाहिबा, निर्बाह-करिबा	निभायिंचुट	निवाहक्क	निर्वहिक्कुक	निवहिसु, निभायिसुवुदु
पूरुं करवुं	पुराय करप	पालन गर्नु, पूरा गर्नु	पालन करा	पूरा कर, पालन कर	पाङ्थोक्पा	पालन-करिबा, पूरा करिबा	निर्वहिंचुट	पारुप्पै/ वाक्कै निरैवेट्ट	पालिक्कुक, पूर्त्तियाक्कुक	पूरेसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निभाना	स. क्रि.	1. उत्तरदायित्व, कार्य, वचन आदि को पूरा करना	निर् +वह्	निभाउणा	निभाना	निबावुन	निबाहिणु, निभाइणु	उत्तरदायित्व पूर्ण करणें
		2. व्यक्ति अथवा स्थिति के अनुरूप अपने आपको ढाल कर समय बिताना	अति + √वाहय्	निभाउणा	वफ़ादारी करना (बसर करना)	–	–	निभावणें
निमंत्रण	पुं.	किसी अवसर विशेष पर आदरपूर्वक बुलाने की क्रिया या भाव	निमन्त्रणम्	सद्दा	दावत	साल करुन/ सालस-वनुन	नोतो, नींड, दावत	निमंत्रण
नियंत्रण	पुं.	1. मनमानी रोकने के लिए बंधन लगाना, नियम आदि द्वारा रोकना	नियन्त्रणम्	कंटरोल, काबू	बंदिश	कंट्रोल, ज़बुॅथ	ज़ाब्तो, बंदिश	नियंत्रण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निभाववुं	निभावप	वहन गर्नु, पालन गर्नु, पूरा गर्नु	निर्बाह करा	कथा राख, दायित्व पूरा कर	मथौ पाङ्थोक्पा, ङाक्पा	निर्भाइबा, वचन-पूरा-करिबा	भरायिंचुटॅ	समाळित्तु-क्कोळ्ळ	शोभिक्कुक	निर्वाहमाडुवुदु
निभाववुं	निभावप	ढाल्नु, आफैलाई स्थिति अनुकूल बनाउनु	—	खाप खा	लेन्बा	कथा-रखिबा, दायित्व-पूरा करिबा, खाप-खुआइबा, अभ्यस्तिकरण-करिबा	नॅरवेर्चुट	समाळित्तु-क्कोळ्ळ	शोभिक्कुक	निर्वाहमा-डुवुदु, संभाळिसुवुदु
निमंत्रण, नोतरुं	आमंत्रण	निम्तो, निमंत्रणा	निमंत्रण	निमंत्रण, कार्यर निमित्ते मता	बातोन, निमंत्रण	निमंत्रण, आमंत्रण	आह्वानमु	अळैप्पु	क्षणम्	आमंत्रण, आह्वान, करे
नियंत्रण	अंकुश	नियंत्रण	नियंत्रण, अंकुश	नियंत्रण, परिचालन, संयतकरण, दमन	लाक्शिन्बा, कंट्रोन, खुदुम्दा थंबा	नियंत्रण	नियंत्रॅण	कट्टुप्पाडु	नियंत्रणम्	निबंधने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. व्यापारिक क्षेत्र में शासन द्वारा किसी वस्तु के मूल्य और वितरण को नियमित और सुनिश्चित करना	प्रतिबन्धः	कंटरोल	कंट्रोल	कंट्रोल	कंट्रोलु, बंधनु	नियंत्रण
नियम	पुं.	मनमानी रोकने के लिए बनाए गए आदेश/निर्देश	नियमः	नेम, नियम	क़ानून (ज़ाबिता)	कोनून	नियमु, क़ाइदो	नियम
निरंकुश	वि.	1. जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो	निरङ्कुश	निरंकुश, खुदमुखतार	मुत्लकुलइनान (बेलगाम)	बेँगंड, बेकोबू	बेरोक, बेलग़ाम	अनियंत्रित, निरंकुश
		2. स्वेच्छाचारी	–	–	खुदसर	बेँगंड	छुड़वागु	स्वेच्छाचारी
निरंतर	वि.	लगातार	सततम्, अनारतम्	लगातार, निरंतर	मुतावातिर	लगातार	लगातार	निरंतर, सतत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अंकुश, नियंत्रण	नियंत्रण	नियंत्रण, प्रतिबंध	नियंत्रण, दमन	नियंत्रण, शासन	ममल लेप्पा	नियंत्रण, कर्तृत्व, प्रभाव, दमन, निरोध	कंट्रोलु	विलै-क्कट्टुप्पाडु	नियंत्रणम्	नियंत्रण
नियम	नियम	नियम, काइदा	नियम, नियम-बंधन	बिधि, नियम, संपादन पद्धति	नियम	नियम, आइन	नियममु	चट्टम्	नियमम्, चट्टम्	नियम
निरंकुश	निरंकुश	निरङ्कुश, छाडा	निरंकुश	अनियंत्रित, मुकुलि-मुरिया, निरंकुश	अफा अपुन लैतबा	निरंकुश	निरंकुश-मैन	कट्टु-प्पाडट्ट	निरंकुशमाय	निरंकुश
स्वच्छंदी	स्वेच्छा-चारी	स्वेच्छा-चारी	स्वेच्छा-चारी	स्वेच्छाचारी, बाधा-निषेध न मना	तौनिङ्बता तौबा	स्वेच्छाचारी, एकछत्रबादी, मनमुखी	निरंकुश-मैन	तांतोन्नियान	तांतोन्नियाय तन्निष्टक्कारनाय	स्वेच्छाचारि
निरंतर	सतत	लगातार, सतत्, निरंतर	निरंतर	लानिनि-छिङा, निरंतर, नियमित, सकलो, समस्त	तत्तना, लेप्तना	निरंतर, लगातार, सर्बदा, नियमित, जथाबिधि	निरंतरमु, एडतेगकुण्डा	इडैविडादु	निरंतरम्, तुटर	ओंदेसमने, यावागलू, सतत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निरस्त्रीकरण	पुं.	परस्पर युद्ध की संभावना कम करने के लिए देशों का सैनिक बल कम करना	निरस्त्रीकरणम्	निरसतरीकरन	तर्के अस्लिहा	सिलाह तरुॅक-करुन, जंगी सामानु कम करुॅन्य	निहथियारबंदी	निरस्त्रीकरण
निरा	वि.	1. विशुद्ध	नितान्त	निरा	ख़ालिस	छराह	निरो, निजु, ख़ालिस	विशुद्ध
		2. केवल, सिर्फ, एकमात्र	केवलम्	–	सिर्फ़	छराह	रुगो	केवळ, एकमात्र
निराकरण	पुं.	1. दूर करना या हटाना	निराकरणम्	रद्दणा	इज़ाला	दूरकरुन	निवारणु, निराकरणु	निवारण, निरसन
		2. आपत्ति आदि का तर्कपूर्वक खंडन, निवारण करना	निराकरणम्	–	तरदीद	वोंपाय	खंडनु	खंडन, निवारण
निराकार	वि.	जिसका कोई आकार न हो, स्वरूप रहित	निराकार	निराकार	ग़ैरमुजस्सम	न्याराकार	निराकार	निराकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निरस्त्री-करण	निरस्त्रीकरण	निरस्त्रीकरण	निरस्त्रीकरण	निरत्रीकरण	खुत्लाइ थादोक्पा, खुत्लाइ पाइहँन्दबा	निरस्त्रीकरण	निरस्त्री-करणमु	आयुंदगळै आंळित्तल्	निरायु-धीकरणम्	नि:शस्त्री-करण
विशुद्ध	विशुद्ध	विशुद्ध	विशुद्ध	विशुद्ध	मक्त्रबा, अशेङ्बा	बिशुद्ध, शुद्ध, खण्टि, निष्कलंक, निर्मल	शुद्धमयिन	शुद्दमान, असल्	शुद्धमाय	शुद्ध, अप्पट
एकमात्र	एकमात्र	मात्र, एक्लै, खालि	केबल, शुधु	केवल, एक मात्र	सुक्नगी	केबल, एक-मात्र	केवलमु, वट्टि	वेरुम्, तनियान	वेरुम्	केवल, मात्र, बरी
निराकरण	निवारण	समाधान, निराकरण	निराकरण खण्डन प्रमाणकरा	निराकरण	कोक्हन्बा, लौथोक्पा	निराकरण, प्रतिकार	निराकरणमु	अगट्टल्	निराकरणम्, अकट्टुक	निराकरणे, दूर माडुवुदु
खंडन, निवारण	खंडन	खण्डन, प्रतिवाद	निबारण	प्रत्याख्यान, निबारण	कवथक्पा	खंडन, प्रत्याख्यान	निराकरणमु	कारणम् कूरि आंदुक्कुदल्	खण्डनम्	निराकरण-माडुवुदु, खंडिसुवुदु
निराकार	निराकार	निराकार	निराकार	निराकार, आकृति ब शरीर न थका	मशक मओङ् लैतबा	निराकार, अनंत, सर्बब्याप्त	निराकार-मयिन	उरुवमट्ट	निराकारनाथ रूपमिल्लात्त	निराकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	पुं.	ब्रह्म	निराकार	–	ब्रह्म	–	ब्रह्म	ब्रह्म
निराधार	वि.	जिसका कोई आधार न हो, आधारहीन	निराधार	निरार्धार	बेबुनियाद	अपुज़	आधारहीण	मिथ्या
निरामिष	वि.	1. जिसमें मांस न मिला हो	निरामिष	वैश्नों	ग़ैरलह्मी	वशनव	वेश्नू (खाधो), वैष्णव (खाधो)	निरामिष, शाकाहार
		2. शाकाहारी	निरामिषभोजिन्	वैश्नों, शाकाहारी	सब्ज़ीख़ोर	वशनव	वेश्नू (माण्हूं), वैष्णव (माण्हूं), सब्ज़ीखोर	शाकाहारी
निराश	वि.	जिसे आशा न रह गई हो, हताश	निराश, भग्नाश	निरास	नाउम्मीद, मायूस	न्यराश, नावोंमेद	निराशा	निराश
निरीक्षक	पुं.	जाँच-पड़ताल, निरीक्षण आदि करने वाला	निरीक्षक:	इंसपैकटर, निरीखिअक	इंसपेक्टर	इनसपेंकटर	इंस्पेक्टर, निरीख्यकु	निरीक्षक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ब्रह्म	ब्रह्म	ब्रह्म्, ईश्वर	ईश्वर, ब्रह्म	ब्रहम, परमात्मा	ब्रह्म	ब्रह्म, परमात्मा	ब्रह्म, परमात्मँ	ब्रह्मं, कडवुळ्	ब्रह्मं	ब्रह्म
निराधार, प्रमाण रहित	निराधार	निराधार, आधारहीन	निराधार, भित्तिहीन	निराधार, आधार- विहीन	तुङ्नफम् लैतबा, युंफम याओदबा	निराधार, आधारहीन, भित्तिहीन, मिथ्या	निराधारमैन	आदारमट्ट	अटिस्थान- रहितम्	निराधार, आधार इल्लद्
शाकाहार, निरामिष	शाकाहार	निरामिष, मांसरहित	निरामिष	निरामिष, माछ-मङह न थका खाद्य	निरामिष, मना- मशिङ् चाबा	निरामिष, शाकाहार	शाका- हारमु	मामिसम् चराद, शैव उणवु	सस्यभुक्काय	निरामिष
शाकाहारी, अन्नाहारी	शाकाहारी	शाकाहारी	–	निरामिष भोजी	शाङ चादबा	निरामिषा- हारी, शाकाहारी	शाकाहारि	मामिस उणवु उण्णाद, शैवं	सस्यभुक्कुँ	सस्याहारि
निराश	निराश	निराश	निराश, हताश	निराश, हताश, आशापूर्ण न होवा	निङ्बा काइबा	निराश, हताश, ब्यर्थता, नैराश्य	निराशँ- चँदिन	नंबिक्कै इळंद	निराशनाय	निराशेयाद
निरीक्षक	निरीक्षक	निरीक्षक	निरीक्षक	परिदर्शक, निरीक्षण कर्ता	इन्सपेक्टर	निरीक्षक, परिदर्शक	तनिखी- चेयुवाडु	मेल् पार्वैयाळर्, कण् काणिप्पवर्, आय्वाळर्	निरीक्षकन्	इंस्पेक्टर्, परिशीलक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निरूपण	पुं.	छान-बीन तथा सोच-विचार कर किसी बात या विषय का विवेचन करना	निरूपणम्	निरूपण	तजज़िया	रुॅकरुन	समुझाणी, वर्णनु	निरूपण
निर्जीव	वि.	प्राणरहित, जड़, अचेतन	निर्जीवः	निरजीव	बेजान, जामिद	मौंरदुॅ	निर्जीव	निर्जीव
निर्णय	पुं.	निष्कर्ष, परिणाम, फैसला	निर्णयः	निरना	फ़ैस्ला, तस्फ़िया	फॉसलुॅ	निर्नय, फ़ैसलो	निर्णय, निश्चय
निर्दय	वि.	दया-हीन, कठोर, निष्ठुर	निर्दय, निष्ठुर	निरदई	बेरह्म	बेरहम	निर्दयी, बेरहम	निर्दय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निरुपण	निरुपण	निरुपण, छानबिन, अन्वेषण	निरूपण	निरूपण, निर्धारण	थिजिन्बा	निरूपण, निर्धारण, स्थिर–करिबा	निरूपण	आराय्न्दु निरूबित्तल्	निरूपणम्	निरूपणे
निर्जीव	निर्जीव	निर्जीव, अचेतन	निर्जीव, जड़	निर्जीव, जड़, अचेतन, प्राणशून्य	थवाइ पांदबा	निर्जीब, जड़, मृत, निश्चल, निस्तेज, अबश, अकामी	निर्जीवमयिन	उयिरट्ट	जीवनिल्लात्त	निर्जीव
निर्णय, फैसलो	निर्णय	निधो, फैसुला, निक्योल, निर्णय	निर्णय, सिद्धांत	निर्णय, सिद्धांत, परिणाम निर्धारण, स्थिरीकरण	लेप्पा	निर्णय, सिद्धांत	निर्णयमु, निश्चयमु	तीर्मानम्	तीरुमानम्, विधि	निर्णय, तीर्मान
निर्दय	निर्दय	निठुर, निठुरी, निर्दय	निर्दय, कठोर, कड़ा, निष्ठुर	निर्दय, कठोर, निष्ठुर	मीनुङशि याओदबा/ लैतबा थौजान् हैतबा, तम्थिबा	निर्दय, कठोर, निष्ठुर, दयाहीन	दयलेनि	इरक्कमट्ट	निर्दयन्, निष्ठुरन्	निर्दयि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निर्देशक	पुं.	दिशा बताने या निर्देशन करने वाला	निर्देशक:, निदेशक:	निरदेशक, डाइरैकटर	हिदायतकार	ह्यदायथकार	डाइरेक्टर, हिदायतकारु, निर्देशकु	निर्देशक
निर्दोष	वि.	1. दोषरहित	निर्दोष	निरदोष	बेऐब	ऑबुं रौंस	बेऐब, निर्दोष	निष्कलंक
		2. जिसने कोई अपराध न किया हो, निरपराध	निरपराध:	–	बेकुसूर	बेकोंसूर	निर्दोषु, बेड़ोही	निरपराधी, निर्दोष
निर्धन	वि.	धन-रहित, गरीब	निर्धन	निरधन	ग़रीब, मुफ़्लिस	गरीब	निर्धन, ग़रीब	गरीब, निर्धन
निर्धारण	पुं.	तय या निश्चित करना, दृढ़ धारणा बनाना	निर्धारणम्	निरना, निरधारन	तअय्युन (तश्ख़ीस)	तयकरुन, कॉयिम करुन	फ़ैसलो, निश्चित करणु	निश्चित करणें
निर्बल	वि.	1. (शारीरिक दृष्टि से) बलहीन, कमजोर	निर्बल	लिस्सा, निरबल	कमज़ोर	न्यरबल (हिं), कमज़ोर	निबुल, कमज़ोर	अशक्त, निर्बल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्देशक	निर्देशक	निर्देशक	निर्देशक	परिचालक, अधिकार-संचालक, आदेश बा विधान-दिओंता	डाइरेक्टर	निर्देशक, परिचालक	निर्देशकुड्ड	इयक्कुनर्	निर्देशकन् , डयरेक्टर्	निर्देशक
निर्दोष	निर्दोश	निर्दोष	निर्दोष	निर्दोष, जगर-न थका	दोष लैतबा	निर्दोष, निष्कलंक, दोषहीन	दोषमुलेनि	कुट्टमट्ट	दोषमिल्लात्त, कुट्टमट्ट	निर्दोष
निरपराधी, निर्दोष	निरपराधी	निरपराध	निरपराध	निरपराध, दोष-शून्य	मराल लैतबा	निरपराध, निर्दोष	निर्दोषि, निरपराधि	कुट्टम चॅय्याद	निरपराधि	निरपराधि
निर्धन	गरीब	गरिब, निर्धन	निर्धन, दरिद्र	दरिद्र, निर्धन, दुखिया	मरल लैतबा, लाइरबा	निर्धन, गरिब, अभाबग्रस्त, नगण्य, बिचारा	पेद, बीद	एळै	निर्धनन्, दरिद्रनाय	बडव, दरिद्र, ऐनु इल्लदव
निर्धारण	निर्धारण	तोक, ठहर, निर्धारण	निर्धारण	निर्धारण, स्थिरकरा निर्णय	लेप्लबा	निर्धारण, निरुपण, निश्चित	निर्धारणं	तीर्मानित्तल्	निर्धारणम्, निश्चयि-क्कल्	निश्चयि-सुवुदु
निर्बल	अशक्त, निर्बल	कमजोर, दुर्बल	दुर्बल, क्षीण	दुर्बल, शक्तिहीन, क्षमता न थका	पाङ्गल शोन्बा	निर्बल, दुर्बल, शक्तिहीन	बलहीनमैनं	बलमट्ट	बलमिल्लात्त	अशक्त, निर्बल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जिसे यथेष्ट अधिकार या सत्ता प्राप्त न हो, शक्तिहीन	निर्बल	–	बेअसर	बेकस	बेअसर, बेकस	अधिकारहीन, दुबळा
निर्भर	वि.	किसी दूसरे पर अवलंबित या आश्रित	आश्रित	निरभर, आसरेयोग	मुन्हसिर	अलोंद, आवेज़ुँ	आश्रित, निर्भर	निर्भर, आश्रित
निर्भीक	वि.	निर्भय, निडर	निर्भीक	निरभै	बेबाक (बेख़ौफ़)	बेंखोफ	निर्भय, बेडपो	निर्भीक, निडर
निर्मल	वि.	1. साफ, स्वच्छ	निर्मल, स्वच्छ	साफ, निरमल	साफ़, शफ़्फ़ाफ़	न्यरमल, साफ़	निर्मल, साफ़	निर्मळ
		2. निष्कपट, शुद्ध	निर्मल	–	–	शोंद	निर्मल, पवित्र	निष्कपट, शुद्ध
निर्माण	पुं.	कोई नई चीज तैयार करना या बनाना, रचना	निर्माणम्	रचना, निरमाण	तामीर	तॉमीर	निर्माणु	निर्माण, रचना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुबळो, अधिकार वगरनो	दुबळो	निर्धो, शक्तिहीन	निर्बल	अधिकार-हीन, अक्षम	शक्ति याओदबा/ लैतबा	शक्तिहीन, निर्बल	शक्तिलेनि	वलुवट्ट	अधिकार-मिल्लात्	शक्तिहीन
–	अवलंबित, निर्भर	निर्भर, आश्रित	निर्भर	निर्भर, आश्रय, विश्वास	ताङ्बा	निर्भर	आश्रितुडु	अंडिकक्किर्	आश्रयिच्च	परावलंबि
निर्भीक, नीड़र	निर्भीक	निडर, निर्भीक	निर्भीक, स्वच्छ	साहियाल, निर्भीक, साहसी, भयशून्य	अकिबा लैतबा, किगंदबा	निर्भीक, साहसी, बीर	भयमुलेनि	बयमट्ट	निर्भयन्	निर्भीक, धैर्यशालि
निर्मल (ळ), स्वच्छ	निर्मळ	निर्मल, स्वच्छ	निर्मल, स्वच्छ	निर्मल, परिष्कार, निका, मलशून्य	अमोत्पा, पक्तबा, तरु-तरुबा, अरुबा-अनान्बा	निर्मल, स्वच्छ	निर्मल-मयिन	माशट्ट, शुद्दमान	स्वच्छम्, निर्मलम्	स्वच्छ, निर्मल
निष्कपट, शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध, निष्कपट	शुद्ध	शुद्ध	नमथाक् तौदबा, अशेङ्बा	निष्कपट, शुद्ध	निष्कपट-मैन	कपडमट्ट	निष्कपटम्	निष्कपट
निर्माण, रचना	निर्माण, रचप	निर्माण, रचना	निर्माण, रचना	निर्माण रचना	शेंबा, शेमगत्पा	निर्माण, रचना	निर्माणमु	कट्टुदल्, उण्डाक्कुदल्	निर्माणम्	निर्माण, रचनं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निर्यात	पुं.	1. माल बाहर भेजने की क्रिया या भाव	निर्यातः	बरामद, निरयात	बरामद	बरामद	रवानिगी निर्यात, बरामद	निर्यात
		2. बाहर या विदेशों में भेजा हुआ माल	निर्यातित	–	–	बरामद	बाहर मोकिल्यलु मालु	निर्यातीचा माल
निर्वाचन	पुं.	बहुतों में से किसी एक या अधिक को चुनना, चयन	निर्वाचनम्	चोण	इंतिख़ाब	चुनाव, इंतिखाब	चुनाव, इंतिख़ाब, चूंड	निवड
निवारण	पुं.	दूर करना, हटाना	निवारणम्	हटाउणा, निवारण	इज़ाला	दूरकरुन	निवारणु, हटाइणु	निवारण
निवेदन	पुं.	1. नम्रतापूर्ण अनुरोध, प्रार्थना	निवेदन	बेनती	इल्तिमास	अरॅज़, ज़ारॅपारॅ	वेनती, निवेदन	निवेदन
		2. अर्पण, समर्पण	निवेदन	अरपण	तस्लीम	अरपन	अर्पणु	अर्पण, समर्पण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निकास	निर्यात	निर्यात, निकासाइ	रप्तानि	रप्तानि, रप्तानि द्रब्य	पोत थादोक्पा, माल थादोक्पा	रप्तानी	ऍगुमति	एट्टुमदि	कयट्टुमति	रफ्तु
निकासनो माल	भायले देशाक धाडिल्लो माल	निर्यातित	रप्तानि माल	रप्तानीकृत वस्तु	मपाल्दा थादोक्पा माल	रप्तानि द्रव्य	ऍगुमति	एट्टुमदि पॉरुळ्	कयट्टुमति-च्चरक्कुॅ	रफ्तु-सरकु
चूंटवुं ते, निर्वाचन	वेंचप	निर्वाचन, चुनाउ	निर्बाचन, चयन, भोट	बाछनि, निर्वाचन	खनबा	निर्बाचन, भोट	ऍन्निकॅ	तेर्ंदॅडुत्तल्	तिरञ्ञ-टुक्कल, तिरञ्ञॅटुप्पुॅ	चुनावणे
निवारण	सोड, निवारण	निवारण	निबारण	निबारण	लौथेक्पा	निबारण, दूरिकरण, बंद-करिबा	निवारणॅ	अगट्ट्रल्, अप्पुरप्प-डुत्तल्	निवारणम्	निवारणॅ
निवेदन	निवेदन	निवेदन	निबेदन, प्रार्थना	आवेदन, प्रार्थना, निवेदन	हाइजबा	निबेदन, प्रार्थना	निवेदनमु	विण्णप्पम्	निवेदनम्	निवेदनॅ, अरिकॅ
निवेदन	अर्पण, ओंपप	समर्पण	उत्सर्ग, अर्पण	अर्पण, समर्पण, प्रार्थना	कत्थोक्पा	समर्पण, अर्पण, उत्सर्ग	समर्पणॅ	समर्पित्तल्	समर्पणम्, निवेदनम्	अर्पणॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निवेश	पुं.	किसी व्यापार, उद्योग आदि में धन या पूँजी लगाने का कार्य तथा इस प्रकार से लगाया हुआ धन, पूँजी आदि	निवेशः	पूंजीलाउणा, निवेश	सरमायाकारी	सरमायि लागुन	सीड़प (पूंजीअ जी)	भांडवलाची गुंतवणूक
निशा	स्त्री.	रात	निशा	रात	रात	राथ	राति	रात्र, निशा
निशान	पुं.	1. चिह्न या लक्षण	चिह्नम्	निशान	निशान	निशानुॅ	निशानु	खूण, चिन्ह
		2. दाग, धब्बा	चिह्नम्	दाग़	दाग़	दाग	दाग़	डाग, लांछन
		3. झंडा या पताका	चिह्नम्	निशान	अलामत	जंडुॅ	झंडो	निशाण, झेंडा, पताका
निश्चय	पुं.	कोई कार्य करने का अंतिम निर्णय या संकल्प करना	निश्चयः	निशचा	अज़्म	फॉसलुॅ	निश्चय, निश्चो, इरादो	निश्चय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मूडीनुं रोकाण	निवेश	निवेश, लगानी	नियोग, बिनियोग	ब्यवसायत लगोवा धन आदि, निवेश	शांदोक्पा, शेन थादबा इन्वैस्टमेंट	लगाण-धन, धन नियोग-करिबा, पुण्जि-लगाइबा, धन-खटाइबा	पेट्टुबडि	मुदलीडु चेयदल्	मुतलिऱ्-क्कल्, मुतल्मुटक्कुं	बंडवाळ
निशा, रात, रजनी	रात	रात, निशा	रात्रि, निशा, रजनी	राति, निशा	अहिङ्	निशा, रात्रि, राति, जामिनी	निशि, रात्रि	रात्तिरि, इरवु	रात्रि, निश	रात्रि
निशान, चिह्न	कुरु, चिह्न	निसान, लक्षण	चिन्ह, लक्षण	चिन, लक्षण	खुदम	चिन्ह, संकेत, निदर्शन, लक्षण	गुरुतु	अडैयाळम्	अटयाळम्	गुरुतु
डाघ, लांछन	दाग	दाग, खत	दाग	दाग, चिन्ह	दाग, अचुबा	चिन्ह, दाग	मरक, मच्च	करै, माशु	अटयाळम्, पाटुं	कले
निशान, झंडो, ध्वज	निशाणी	चिनु, चिह्न	पताका, झाण्डा, निशान	पताका, निचान	खुदम	पताका-चिन्ह	जंडा	कोडि	चिह्नम्, कोडि, पताक	बाउट, झंडा
निश्चय	निश्चय	निश्चय, टुङ्गो	निश्चय	निर्णय, निश्चय	अरेप्पा, लेप्पा	निश्चय, संकल्प, प्रतिज्ञा	निश्चयमु	तीर्मानित्तल्	निश्चयम्	तीर्मान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निश्चल	वि.	1. अविचल, स्थिर	निश्चल	निशचल	ग़ैरमुतज़ल्ज़ल	नहिलुँवुन	अचल, अडोल	स्थिर, निश्चल
		2. अपरिवर्तनशील	–	–	ग़ैरमुताबदिल	न बदलवुन	–	अपरिवर्तनशील
निश्चित	वि.	1. (बात या प्रस्ताव) जिसके संबंध में निश्चय हो चुका हो	निश्चित	निशचत, निशचित	तै (तैशुदा)	मुकरर	मुक़रर, पको	निश्चित
		2. जो अटल या स्थिर हो	स्थिर	निशचत, निशचित	यक़ीनी	न बदलवुन	अटल	स्थिर
निश्छल	वि.	(व्यक्ति) छल-कपट से रहित	निश्छल	निच्छल	सादालौह, मुख़्लिस	छ़लुँ-कपटुँ-रोँस	निष्कपट, छल-कपट बिना	निश्छल, कपट रहित
निष्कर्ष	पुं.	1. विचार-विमर्श आदि के उपरांत निकलने वाला परिणाम	निष्कर्षः	सिट्टा, नतीजा	नतीजा	मतलब	नतीजो	निष्कर्ष
		2. सारांश, निचोड़	सारः	नतीजा	ख़ुलासा	मतलब, निचोड़	सारु	सारांश, तात्पर्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निश्चल, स्थिर	स्थिर	स्थिर, निश्चल	अचल	निश्चय, अबिचल	लेङ्दबा	निश्चल, अचल, स्थिर, जड़	निश्चलमैन	अशैयाद, निलैयान	स्थिरम्	दृढ
अपरिव-र्तनशील	अपरिवर्तन-शील	अपरिवर्तन-शील	निश्चल	अपरिबर्तन-शील	अहोङ्बा	अपरिबर्तन-शील	मार्पुर्वदनि	मा<u>र</u>ाद	मा<u>र</u>ात्त	कदलद, बदलावणे इल्लद
निश्चित	निश्चित	निश्चित, पक्का	निश्चित	निश्चित	लेप्नबा, लेप्नखबा	निश्चित	निश्चितमु	निच्चयिक्क-प्पट्ट, तीर्मानिक्-कप्पट्ट	निश्चितम्, तीरु-मानिच्च	निश्चित
स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर, पाका	अटल, स्थिर	लेङ्द्रबा	अटल, स्थिर	स्थिरमयिन	निलैयान	दृढं	अल्लाडद, स्थावर
निष्कपट	निश्छळ	निष्कपट, निर्मल, निश्छल	अकपट, सरल	निष्कपट, छलनाहीन	नम्थाक् लौनम लैतबा	निश्छल, निष्कपट, सरल	सरळचितुड्ड, कपटमुलेनि	कपडमट्ट	कपटमि-ल्लात्त, निष्कपटन्	निष्कपट
निष्कर्ष	निष्कर्श	निष्कर्ष, नतिजा	निष्कर्ष	मंतब्य, फला-फल	वारोइशन, कन्क्लुजन	सारांश, सार, मंतब्य	निष्कर्ष	आय्दु एंडुंत मुडिवु	निगमनम्	निष्कर्षे
सारांश, तात्पर्य	सारांश	निचोर, सार	सार, मर्म	सारांश, मर्म, तात्पर्य	मचङ्	सार, सारांश	सारांशमु	चुरुक्कम्	सारम्, निष्कर्षम्	सारांश, वट्टु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निष्काम	वि.	1. (व्यक्ति) जिसके मन में कामनाएँ या वासनाएँ न हों	निष्काम	निशकाम	बेग़रज़	बेलाग	निष्काम	निष्काम, निर्लिप्त
		2. (कार्य) जो बिना किसी प्रकार की कामना के किया जाए	निष्काम	निशकाम	बेमतलब	बेलाग	–	निष्काम कर्म
निष्कासन	पुं.	किसी को किसी पद, क्षेत्र, स्थान, वर्ग, दल आदि से निकालना, बाहर करना या हटाना	निष्कासनम्	छेकणा, कड्ढणा	इख़राज	बरतरफ	नेकाली, बरतरफ़	हाकलून लावणें, बडतर्फ करणें
निष्क्रिय	वि.	1. क्रियारहित, निश्चेष्ट	निष्क्रिय	सक्खणा, किरिआहीन	ग़ैरफ़अआल	बेंकार, निकमुँ	सुस्त, निकमो	निष्क्रिय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निष्काम	निश्काम	निष्काम	निष्काम, निरासक्त	निष्काम, निर्लिप्त	अपांबा लैनबा, इराङ् लैतबा/ याओदबा	निष्काम, निरासक्त	निष्कामुडु, निर्लिप्तुडु	आशै यट्ट	निर्लिप्तन्	अनासक्त
निष्काम कर्म	निश्काम कर्म	कामना-रहित, निष्काम कर्म	निष्काम	कामना-बासनाहीन	फोलगी अपांबा लैतबा, अपांबा याओदबा	निष्काम, कामना-बासना-हीन, निर्लोभ	निष्काम-कर्म	पलनै एदिर् पारादु चेय्युम् पणि	निष्काममम्	निष्काम, ऐनु बेकिल्लद
बरतरफ करवुं ते	धांवडोवप, धांवडोन-घालप	निकाला, निष्कासन	निष्काशन, बहिष्कार	बहिष्कार	तांथोक्पा, लौथोक्पा	निष्कासन, बहिष्कार	बहिष्कारमु	पदवियिलि-रुंदु अगट्टल्	निष्कासनम् पुरत्ताक्कल्	तेर्गदु-हाकु, कित्तु हाकु
निष्क्रिय	निश्क्रीय	क्रियारहित	निष्क्रिय, निश्चेष्ट	निष्क्रिय, अकामिला, क्रियाहीन, अलस	करिमत तौदबा	निष्क्रिय, निश्चेष्ट, जड़, अकर्मण्य, पंगु, अपारग	निष्क्रियुडु, सोमरि	चेयलट्ट, मुयर्चिक्कियाद	निष्क्रियन्	निश्चेष्ट, उपयोगविल्लद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. अकर्मण्य, आलसी	निष्क्रिय	आलसी	सुस्त	आलुछ़	आलसी	अकर्मण्य, आळशी
निष्ठा	स्त्री.	1. दृढ़ निश्चय या विश्वास	निष्ठा	निशचा	एतिक़ाद	यकीन, बरोसुॅ	विश्वासु, वेसाहु	निष्ठाव, विश्वास
		2. आस्था, श्रद्धा, भक्ति	निष्ठा	निशचा	अक़ीदत यक़ीन, भरोसा	अकीदथ, श्रदा, एतिमाद	श्रद्धा	निष्ठा, श्रद्ध
		3. ईमानदारी, वफादारी	निष्ठा	–	ईमानदारी, वफ़ादारी	ईमानदॉरी, वफादारी	वफ़ादारी	प्रामाणिकपणा, ईमानदारी
निष्पक्ष	वि.	1. (व्यक्ति) जो किसी पक्ष या दल में सम्मिलित न हो, तटस्थ	निष्पक्ष	निरपक्ख	ग़ैरजानिबदार	नातरफदार	बेतरफ़दार	तटस्थ
		2. पक्षपात-रहित	निष्पक्ष	निरपक्ख	–	नातरफदार	पास्खातिरीअ खां परे, निर्पख	निष्पक्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अकर्मण्य	आळशी	निश्चेष्ट्, निष्क्रिय, अल्सी	अकर्मण्य	एलेहुबा, अकर्मण्य	शुनिङ्दबा, अतन्बा	निष्क्रिय, निश्चेष्ट, जड़, अकर्मण्य, पंगु	सोमरि	चोंबेरि॒	मटियन्	सोमारि, आलसि
निष्ठा	निश्ठा	निष्ठा, विश्वास	निष्ठा, विश्वास, आस्था	निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़भक्ति	वारेप्, थाजबा	निष्ठा, प्रजत्न, बिश्वास	निष्ठ॒	निष्टै	दृढविश्वासम्	निष्ठे
श्रद्धा	आस्था, भक्ती	भक्तिभाव, आस्था	निष्ठा, श्रद्धा	श्रद्धा-भक्ति, निष्ठा	चेतना थाजबा, श्रद्धा, भक्ति	निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति	निष्ठ॒	दिड नंबिक्कै	भक्ति	आस्थे, श्रद्धे
प्रमाणिकता, ईमानदारी	प्रामाणिकता	इमानदारी	सतता, बिश्वस्तता	बिश्वास, बिश्षासी	हायबा इन्बा	बिश्वास जोग्य, बिश्वस्त	निष्ठ॒	ईडुपाटु	निष्ठ	प्रामाणिकर्त, नंबिर्क
निष्पक्ष	निश्पक्ष	निष्पक्ष, तटस्थ	तटस्थ, निर्दलीय	निरपेक्ष, निर्दलीय, निष्पक्ष	मीचङ्-मीखाइ नाइदबा	निष्पक्ष, निरपेक्ष, निर्दलीय	इंडेपेंडेंटु	पारपट्च-मट्ट, नडु निलैयान	निष्पक्षन्	तटस्थ, निष्पक्ष
समदर्शी	तटस्थ	पक्षपात-रहित	पक्षपात शून्य	निरपेक्ष	मीचङ् चङ्दबा	पख्यपात-शून्य, निरपेक्ष	पक्षपातं-मुलेनि	पारपट्चमट्ट, नडु निलैयान	पक्षपात-मिल्लात्त	निष्पक्ष

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
निष्पादन	पुं.	आज्ञा, आदेश, नियम, निश्चय आदि के अनुसार कोई काम ठीक तरह से पूरा करना	निष्पादनम्	सिरे चाढ़णा	तामील	तॉमील, हुकुम-सरंजामी	अमलु, पोइवारी, ठीक नमूने पूरो करण जी हालत	निश्चय व आदेशानुसार काम नीट पुरे करणें
निस्पंद	वि.	जिसमें किसी प्रकार की हलचल न हो	निष्पन्द	थिर, सथिर	ग़ैरहरकी	बेहरकथ	स्थिर, बेहरकत	निस्पंद, स्थिर
निस्संदेह	वि.	जिसमें संदेह न हो, असंदिग्ध, बेशक	असन्दिग्ध	निसंदेह	बेशक	बेशक	बेशक	निस्संदेह
	क्रि.वि.	निश्चित रूप से, अवश्य	असंशयम्	–	बिलाशक, यक़ीनन	ज़ॊरूर	अवसि	अवश्य, निश्चितपणें
नींद	स्त्री.	निद्रा	निद्रा	नींदर, नींद, सौंण	नींद	न्यँदुॅर	निंड	निद्रा, झोप
नींव	स्त्री.	जमीन के अंदर का हिस्सा, बुनियाद	गृहमूलम्	नींह, बुनिआद	बुनियाद (बिना)	बुनियाद	बुनियादु, पीढ़ि	पाया

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निष्पादन	आज्ञा चे अनुरुप काम करप	तामेली, निष्पादन	निष्पन्न करा, सुसंपन्न करा	निष्पादन, सुसंपन्न कर	निङ्‌थिना पाङ्‌थोक्पा, फजना तौबा	तालिम	निर्वहण	निर्वहित्तल्	निर्वहणम्	पूरैसुविर्क
निस्पंद, स्थिर	स्थिर	निष्पंद, स्थिर	निस्पंद, स्थिर	स्थिर	लेङ्‌दबा, अरेप्पा	निस्पंद, निरब, गतिहीन, निष्प्रभ, स्थिर	चलन-रहितमु	तुडिप्पट्ट, अशैयाद	इळकात्त स्थिरम्	स्थिर
निस्संदेह	संशय नाशिल्ले	निस्संदेह, निश्शङ्क	नि:संदेह, असंदिग्ध	नि:संदेह, असंदिग्ध	चिङ्‌न-निङ्‌ङाइ लैतबा	निसंदेह, असंदिग्ध	निस्संदेहमुगा	संदेहमट्ट	संशय-मिल्लात्त	संशय-विल्लद
अवश्य	निश्चित	अवश्य, जरुर	अबश्यइ	नि:संदेह, निश्चित	शोइदबा	निश्चित, निसंदेह	तप्पक	कट्टायम्	संशयमन्ये	खंडित
नींद, उंघ	न्हिद	निद्रा, नीद	निद्रा, घुम	निद्रा, टोपनि	तुंबा	निद	निद्र	तूक्कम्	निद्र, उरक्कम्	निद्दे
पायो	बुन्याद	जग, घरेडीको फेद	भित्ति, बुनियाद	भेँटि, भित्ति	युंफम	निअँ, भित्ति, मूलदुआ	पुनादि	अडिक्कल्	अस्थिवारम्	अस्तिभार, तळपाय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नीचा	वि.	1. अधिकार, पद, मर्यादा आदि की दृष्टि से जो औरों से घटकर हो, छोटा	अवर	नीवां	कमतर	बॊ॑न	नंढो	लहान
		2. जो किसी सम धरातल या स्तर से निम्न स्तर पर स्थित हो, निम्न	निम्न	नीवां	नीचा	बॊ॑न	हेठाहों	निम्न
नीचे	क्रि.वि.	1. किसी की तुलना में निम्न धरातल पर	अधस्तात्, अधः	हेठां	नीचे	तलुँ, बॊ॑नु	हेठि	खाली, तळाशी
		2. किसी की अधीनता या वश में	अधीन	हेठां	नीचे	तल	–	आधीन
नीति	स्त्री.	1. सदाचार, सद्व्यवहार आदि के नियम, ढंग या रीतियाँ	नीतिः	नीती	अख़्लाक़ीयात	रीथ, अखलाक	नीती, रीती	नीती
		2. राज्य या शासन की रक्षा और व्यवस्था के लिए स्थिर किए हुए सिद्धांत	नीतिः	नीती	पालीसी, हिकमते-अमली	पालुॅसी	नीती, पॉलिसी	राज्यनीती, पॉलिसी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नीचुं	ल्हान	सानु, सानो, छोटो	छोटो, निचु	सरु-तलत	हंथबा, अपिक्पा	नीच, छोट, तल	क्रिंदि	ताऴ्ंद	ताऴ्न्न	किरिय, केळगिन
हलकुं	सकयल	तल्लो, होचो, मंतिर्को	निचु, निम्न	निम्न, सरु	कुत्थबा, नेम्थबा	छोट, निम्न	क्रिंदि	ताऴ्ंद	ताऴ्न्न	तग्गु
नीचे	सकयल	तल, मनि	नीचे, निम्ने	तलत	हंथबा, नेम्थबा, मखा	नीचरे, अधीनिरे, तले	क्रिंद	कीऴे	ताऴ्	केळगे
हेठळ	आधीन	मंतिर्, मुंतिर्, तलतिर्, अधीने	अधीने	अधीनत	मीखा पोन्बा	अधीनिरे तले	क्रिंद	पिर्रुक्कु कीऴ्प्प-डिंदु	कीऴिल	अधीनर्त-यल्लि
नीति	नीत	आचार-पद्धति, आचार-संहिता	नीति, नियम	रीति-नीति	निति-नियम	नीति, नियम	आचारमु, परिपाटि	नल्लोऴु-क्कम्	नीति	नीति
राजनीति	धोरण	नीति	राजनीति	सिद्धांत	पालिसी, राजनीति	नीति, सिद्धांत, नियम	सिद्धांतमु, पालिसी	अरशियल् कॉऴ्गै	नयम्	राजनीति, सिद्धांत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. युक्ति, तरकीब	नीतिः	–	तदबीर, तरकीब	तरकीब	–	युक्ती, उपाय
नीलामी	स्त्री.	वस्तुओं की वह सार्वजनिक बिक्री, जिसमें सबसे अधिक या बढ़कर दाम लगाने वाले के हाथ वस्तुएँ बेची जाती हैं	सघोषविक्रयः	निलामी	नीलामी	लीलाम	नीलामी	लिलाव
नीहारिका	स्त्री.	रात के समय आकाश में दिखाई पड़ने वाले घने कोहरे की तरह के प्रकाश-पुंज	नीहारिका	कहकशां	कह्‌कशाँ	तारखमाल, कहकशाँ	नीहारिका, कह्‌कशां	तारामंडल
नुकसान	पुं.	1. हानि, घाटा	हानिः	नुकसान	नुक़्सान	नोंकसान, गाटुँ	नुक़्सानु	हानी, नुकसान तोटा
		2. किसी प्रकार होने वाली खराबी या विकार	हानिः	नुकसान	ज़ियाँ	नोंकसान, गाटुँ	–	नुकसान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
युक्ति, उपाय	युक्ती	उपाय, युक्ति, नीति	युक्ति, उपाय	युक्ति, उपाय	उपाय, पांबै	जुक्ति, उपाय	युक्ति, उपायमु	सामर्त्तियम्	तंत्रम्	उपाय, युक्ति
निलाम, हराजी	लिलांव	लिलामी	निलामी, निलाम	निलाम, लिलाम	नीलाम ताओबा	निलाम	वेलमु	एलम्	लेलम्	हराजु
निहारिका	निहारिका	निहारिका, स्वर्गङ्गा, आकाशगङ्गा	निहारिका, आकाश गंगा	नीहारिका, आकाशत नियरर-स्तूप, नक्षत्र-समूह	अहिङ्दा अतियादा उबा लैचिन् नोङ्फाइ-गुंबा मङाल	नीहारिका, छायापथ	पॉगमंचु	विण्मीन् पडलम्, पाल्वंळि	नीहारिक	नीहारिकं
नुकसान	लुकसान तोटो	हानि, नोकसान	लोकसान, घाटा	नोक्सान, हानि	अमाङ्बा, माङ्बा	लोकसान	नष्टमु	नष्टम्	नष्टम्	नष्ट
–	–	टुट्टा, क्षति, विकार	हानि, विकार, विकृति	क्षति, विकार	–	हानि, ख्यति	हानि	तीमै	दोषं, कुट्ट्	लुकसान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
नेता	पुं.	1. नायक	नेता	आगू, लीडर, नेता	रहनुमा	ज़्युठ, लीडर, राहनुमा	नेता, अग़वानु	नायक, नेता
		2. राजनैतिक या सामाजिक दल का अगुआ	नेता	नेता, लीडर	इमाम, लीडर	राहनुमा, वतुॅहावुक	–	नेता, पुढारी
नेतृत्व	पुं.	नेता का पद तथा कार्य	नेतृत्वम्	लीडरी, नेतागीरी	रहनुमाई	रहनुमॉयी, लीडरी	अग़वानी, नेतागिरी	नेतृत्व
नैतिक	वि.	1. नीति-संबंधी	नैतिक	सदाचारक, नैतक, अखलाकी	अख़्लाक़ी	अखलॉकी	नीतिक, नीतीअ सां वास्तेदार	निती-संबंधी, नैतीक
		2. नीति-सम्मत	नैतिक	नैतक	–	अखलॉकी	अख़्लाक़ी	निती-मान्य, नैतीक
नौकर	पुं.	1. सेवक	सेवकः	नौकर	ख़ादिम	नोकर	नौकरु	नोकर, गडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नेता	नेतो, पुढारी	नेता, नायक	नायक, अभिनेता	नेता, नायक, चलाओंता	नेता	नेता, नायक	नायकुडु	तलैवर्	नेतावॅ	नेतार, यजमान, मुखंड
नेता	पुढारी, फुडारी	नाइके, अगुवा	नेता, राजनैतिक नेता	नेता, गुरियाल, नायक, चलाओंता	लुचिङ्बा	नेता	नायकुडु	मदगुरु अरशियल् वऴिकाट्टि	नेतावॅ	मुखंड, पढारी, मुंदाळ
नेतृत्व	नेतृत्व	नेतृत्व, नायकत्व, नाइकेपन	नेतृत्व	नेतृत्व, नेतागिरी, नायकत्व	नेतागी थबक्, नेता गी फम्, लम्जिङ्बा	नेतृत्व	नेतृत्वमु, नायकत्वमु	तलैमै	नेतृत्वम्	नेतृत्व, नायकत्व, यजमानिकं
नैतिक	नितीचें	नैतिक	नैतिक	नैतिक, नीति-संबंधी	नियम चत्पा	नैतिक, नितीगत, सदाचार	नीतिकि संबंधिंचिन	नीदि (कॉळ्गै) संबंदमान	नयसंबं-धिच्च	नैतिक
नीति-संबंधी	नितीन	नीतिसम्मत	नीति-सम्मत	नीतिसन्मत	लमचत् फजबा	नीति-सम्मत, न्याय-सम्मत	नीति-सम्मत मयिन	कॉळ्गैक्कु ऑत्त	नीतियुक्तम्, नैतिकम्	नीति-सम्मत
नोकर	नोकर	नोकर, कमारो, टहलुवा	चाकर, सेबक, भृत्त	चाकर, कृत्य काम-बन करा मानुह	मीनाइ	नौकर, चाकर, सेबक	नौकरु	पणियाळ्	भृत्यन्, वेलक्कारन्	आळु, सेवक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. कर्मचारी	कर्मचारी, कर्मकरः	नौकर	मुलाज़िम	नोकर	—	कर्मचारी
नौकरी	स्त्री.	1. नौकर बनकर सेवा अथवा कार्य करते रहने की अवस्था या भाव	सेवा, भृतिः	नौकरी, रोज़गार	नौकरी	नोकरी	नौकरी	नोकरी
		2. वह पद या काम जिसके लिए वेतन मिलता हो, रोजगार	सेवा	नौकरी	मुलाज़िमत	नोकरी	रोज़गार	रोजगार
नौका	स्त्री.	नाव, किश्ती	नौः	बेडी, किशती	कश्ती	नाव	ब॒ेड़ी	नाव, होडी, नौका
पंकज	वि,पुं.	कीचड़ से उत्पन्न, कमल	पङ्कजम्	कमल	कंवल	पंपोश	गप में पैदा थियलु, कमल	पंकज, कमळ
पंक्ति	स्त्री.	1. कतार	पंक्तिः	पाल, पंगत	क़तार (सफ़)	कतार	क़तार	पंक्ती, रांग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कर्मचारी	मानाय	कर्मचारी	कर्मचारी	कर्मचारी, मनिष	थबक तौबा, कर्मचारी	कर्मचारी, चाकर	उद्योगि	अलुवलर्, पणियाळर्	उद्योगस्थन्	नौकर, केलसदव
नोकरी	नोकरी	नोकरी	चाकरि	चाकरि, मजुरि लै कामकरा	थबक तौबा, सर्विस	–	सेवँ, नौकरि	पणि	वेल	नौकरि, केलस
रोजगार	काम, वावर	नोकरी, जागिर, रोजगार	रोजगार, चाकरि	आजीविका, व्यवसा, जीवन-वृत्ति	शिन्फम्	रोजगार, चाकिरि	उद्योगमु	उद्दियोगम्, वेलै	जोलि, तोळिल्	उद्योग
नौका	नौका, व्हडें	नाउ, डुङ्गा	नौका, डिंगा, ताउ	नाओ, पानीत चला कठोवा यान	हि	नौका, डंगा, नाआ	नावँ, पडवँ	पडगु	तोणि, वळ्ळम्	दोणि, नावे
पंकज, कमळ	पंकज, कमळ	कमल, पङ्कज	पंकज, कमल, पदम	पदुम, कमल, पंकज	थंबाल्	पंकज, पद्म, कमल	कमलमु	तामरैप्पू	पंकजम्	तावरे
पंक्ति, हार	रांग	लाम, पङ्क्ति	पंक्ति, श्रेणी	श्रेणी, शारी, पंक्ति	परेङ्नाइबा	पंक्ति, धाड़ी	पंक्ति, वरुसँ	वरिशै	वरि, पंक्ति, पंति	सालु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. छपे हुए अक्षरों की एक सीध में पढ़ने के क्रम से लगी हुई शृंखला	पंक्तिः	पंकती	सत्र, लाइन	लॉन	सिट	ओळ
पंख	पुं.	पक्षियों तथा कुछ जंतुओं का वह अंग, जिससे वे उड़ते हैं; पर	पक्षः	खंभ, पर	पर	पख	खंभु, परु	पंख
पंखा	पुं.	गर्मी से बचाव के लिए ताड़, धातु आदि की बनी वस्तु जिससे हवा का वेग बढ़ाया जाता हो	व्यजनम्	पक्खा	पंखा	वावॅुज	पंखो (बिजलीअ वारो); विञिणो (हथ वारो)	पंखा
पंचांग	पुं.	वह पंजी या पुस्तिका, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का उल्लेख होता हो, जंत्री, पत्रा	पञ्चाङ्गम्	जंत्री, पंचांग	तक़्वीम	नेँच पॅतॅुर	टिपिणो, जंत्री	पंचांग
पंचायत	स्त्री.	गाँव या बिरादरी के चुने हुए सदस्यों की सभा, जो लोगों के झगड़ों का विचार और निर्णय तथा विकास कार्य करती है	पञ्चायतनम्	पंचाइत	पंचायत	पंचायथ	पैंचाति, पंचायति	पंचायत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लीटी	वळ	हरफ, लहर (अक्षरको)	पङ्क्ति, श्रेणी	लाइन, शारी, श्रेणी	परेङ्	धाड़ि	वरुस, पंक्ति	वरि (अच्चडित्त शार्कळिन्)	पंक्ति, वरि	सालु, पंक्ति
पांख, पंख	पांख	पखेटा, प्वांख	डाना	डेउका, पाखि चराइर-आकृतिर	मशा	पंख, डेणा	रेक्क	इरगु	चिरकुँ	रेक्के
पंखों, वींजणो	पंखो	पङ्खा	पाखा	बिचनि व्यजन चराइर-आकृतिर	हुम्माइ, हुमाइ	पंखा, बिंचणा	विसिनकर्र, फ्यानु	विशिरि	विशरि	बीसणिगे, फ्यानु
पंचांग, केलेन्डर	पंचांग	पञ्चाङ्ग, पात्रो	पांजि, क्यालेन्डर	पंचांग, पत्रा	पान्जि, खुत्पाइ, पंचाग	पांजि	पंचांगमु	पंचांगम्	पंचांगम्	पंचांग
पंचायत	पंचायत	पञ्चायत	पंचायेत	पंचायत, प्रतिनिधि-सभा	पंचायत	पंचायत	पंचायिति	पंचायत्तु	पंचायत्तुं	पंचायिति, हिरेतन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पंछी	पुं.	पक्षी, परिंदा	पतत्रिः, पक्षिन्	पंछी	परिंदा	जानावार	पखी	पक्षी
पंडित	नि.	कुशल, निपुण	पण्डित	पंडत	आलिम/ कामिल	पंडिथ	पंडितु	पंडित, कुशलं, निपुण
	पुं.	शास्त्रों आदि का ज्ञाता, ब्राह्मण	पण्डित	पंडत	पंडित, ब्रह्मण	पंडिथ	ब्राह्मणु	पंडित, विद्वान, ब्राह्मण
पंथ	पुं.	1. मार्ग, रास्ता	पथिन्	पंध, पंथ	रास्ता	वथ	रस्तो, वाट	मार्ग, रास्ता, पंथ
		2. धार्मिक मत या संप्रदाय	सम्प्रदायः	पंथ	मस्लक	मथ, वथ	पंथु	धार्मीक मत, संप्रदाय, पंथ
पकड़ना	स.क्रि.	1. थामना	√ग्रह्	फड़ना	पकड़ना	रटुन	पकिड़णु	पकड़णें, धरणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पक्षी, पंखी	पक्षी	चरो, पङ्खी, पक्षी	पक्षी, पाखि	चराइ, पक्षी	उचेक्	पक्षी, चढेइ, बिहंग	पक्षि, पिट्ट	परवै	पक्षि	हक्कि, पक्षी
पंडित	पंडित	विद्वान, कुशल	पंडित, निपुण, कुशली	निपुण, पारदर्शी	खङ्हैबा	कुशली, निपुण, दक्ष, पारदर्शी	पण्डितुडु	निपुणर्	पंडितन्	बुद्धिवंत
पंडित, विद्वान, ब्राह्मण	ब्राह्मण	पण्डित, शास्त्रवेत्ता, ब्राह्मण	ब्राह्मण, विद्वान, पण्डित	पंडित, ब्राह्मण, विद्वान, शास्त्रज्ञ	पंडित	ब्राह्मण, पंड़ित	ब्राह्मडु	शास्तिर वल्लुनर	आचार्यन्	पंडित
पंथ, मार्ग	मार्ग, रस्तो	बाटो, मार्ग	पथ, रास्ता, मार्ग	रास्ता, आलि, पथ, बाट, उपाय	लंबी	पथ, बाट, रास्ता	मार्गमु, दारि	वळि, पादै	वळि	दारि
धर्मनो संप्रदाय	पंथ	पंथ, धर्म, सिद्धांत	पंथा	मत, पंथा	धर्मगी काङ्लुप	मत, पंथा (धार्मिक, सांप्रदायिक)	संप्रदायमु	मदप्पिरिवु	मतप्रस्थानम्, संप्रदायम्	मत, संप्रदाय
पकडवुं	धरप	समाउनु, समात्नु	धरा	धरा	पाइबा	धरिबा, गिरफ-करिबा, अटक-करिबा, बंदि करिबा	पट्टुकोनुट	पिडिक्क	पिटिक्कुक	हिडियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. बंदी बनाना	नि √ग्रह्	–	क़ैद करना	रटुन	–	कैद करणें
पकाना	स.क्रि.	अन्न, फल आदि को इस प्रकार आँच, गर्मी आदि देना कि वे मुलायम होकर खाने योग्य हो जाएँ	√पच्	पकाउणा	पकाना	रनुन	पचाइणु, रधणु	शिजवणें
पक्का	वि.	1. दृढ़, निश्चित, स्थिर	दृढ	पक्का	पक्का	दौंर, पोंखतु	पक्को, पुख़्तो, स्थिर	पक्का, दृढ़, निश्चित
		2. अच्छी तरह से पका या पकाया हुआ	पक्व	पक्का	पुख़्ता	पाकनोवमुत	पकलु	पिकलेला
पक्ष	पुं.	1. पक्षियों का डैना या पंख	पक्षः	पक्ख	बाज़ू	पख	परु	पंख
		2. किसी विचार, सिद्धांत या तथ्य आदि का एक पहलू	पक्षः	–	पहलू	पोंख	पहलू, पासो, तरफ़ु	पक्ष, बाजू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
केदकरवुं	बंदिस्त करप	पक्रनु, बन्दी बनाउनु	धरा, पाकड़ानो	धर	फाबा	बंदी करिबा	पट्टुकोनुट	कैदु चेय्य	तटविल् आक्कुक	बंधिसुवुदु
पकाववुं, रांधवुं	शिज़ोवप	पकाउनु	रांधा, रान्ना, रंधत	रांध	थोङ्बा	रांधिबा	वंडुट	चमैक्क	पाकम् चेय्युकु, वेविक्कुक, पळुप्पिक्कुक	अडिगॅ माडुवुदु, बेयिसुवुदु
पाकुं, मजबूत	पक्का	पक्का, निश्चित, दृढ	पाका, स्थिर	दृढ़, निश्चित	अचेत्पा	पक्का, दृढ़, स्थिर	गट्टि	दिडमान, वलुवान	उऱुच्च	दृढ, गट्टि मुट्टाद
पाकेलुं	पिकें	पाकेको, पाको	पाका, रान्ना (करा)	पका, पकोवा	अमुन्बा	रंधा- होइथिबा (भोजन- द्रव्य आदि)	पंडिन	नन्गु पळुत्त, वेंद	पळुत्त, वेविच्च	मागिद, बेयसिद
पक्ष, पांख	पांखाटे	पखेटा, प्वांख	डाना, पाखा	डेउका, पाखि	उचेक्की मथा	ड़ेणा, पंख	रॅक्कॅ	चिऱगु	चिऱकुॅ, तूवल्	रॅक्कॅ
तरफेण	पक्ष	पक्ष, पहलु	पक्ष, दिक (क्ख)	दिश, पक्ष	नाकल्, नाकन	पख्य	पक्षमु	पक्कम्	पक्षम्, वशम्	पक्ष, कर्ड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. चांद्रमास के दो बराबर भागों में से प्रत्येक भाग, जो प्राय: 15 दिन का होता है, पखवाड़ा	पक्ष:	पक्ख	पखवाड़ा	पछ	पखु, पखवाड़ो	पंधरवडा
पक्षपात	पुं.	अनुचित रूप से किसी का पक्ष लेना	पक्षपात:	पक्खपात	जानिबदारी/ तरफ़दारी	तरफदॉरी, दौंर् रटुन	पास्-ख़ातिरी, तरफ़दारी	पक्षपात
पक्षी	पुं.	परों वाला, पंछी, परिंदा	पतत्रि:, पक्षिन्	पंछी	परिंदा	जानावार	पखी	पक्षी
पखवाड़ा	पुं.	पंद्रह दिनों का समय, पक्ष	पक्ष:	पखवाड़ा	पखवाड़ा	पछ	पखु	पंधरवडा
पगडंडी	स्त्री.	आने-जाने के कारण जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ सँकरा मार्ग	पद्या, पद्धति:	पगडंडी	पगडंडी	वतुँ पोंद	वाट, चारो, पेचिरो	पाऊलवाट, पायवाट
पचाना	स.क्रि.	खाई हुई वस्तु को पक्वाशय की अग्नि से रस में परिणत करना	परि+पच्	पचाउणा	हज़्म करना	श्रोंपरावुन	पचाइणु, हज़म करणु	पचविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पखवाडियुं	पंद्रस	पक्ष	पक्ष	पक्ष, भाग, दल	थखाइ	पक्ष	पक्षमु	पक्षम् (15 नाळ्)	पक्षम्	पक्ष
पक्षपात, तरफदारी	पक्षपात	पक्षपात, तरफदारी	पक्षपात (क्ख)	पक्षपात, एकपक्षर एफलीया होवा कार्य	मीचङ्	तोषरपात	पक्षपातमु	पारपट्चम्, ऑरुतलै चार्बान	पक्षपातम्	भेदभाव, पक्षपात
पक्षी, पंखी	पक्षी	पङ्खी, चरो, पक्षी	पक्षी, पाखि (पाखि)	चराइ पक्षी	उचेक्	पक्खी (पक्षी), चढ़ेइ	पक्षि	पक्षि, परवै	पक्षि	हक्कि
पखवाडियुं	पंद्रस, पंद्रवडो	पक्ष, चंद्र मासको आधा महिना	पक्ष (क्ख)	पष, पक्ष, चांद्र- माहर आधा	नुमित् तरा मङानिगी मतम, थखाइ	पख्य	पक्षमु	पदिनैँदु नाळ् (पक्षम्)	पक्षम्	पक्ष
पगदंडी	पायवाट	गोरेटो, डोरैंटो	पाये पाये सृष्ट पथ	सुरुकीया बाट	खोङ् लंबी	चला- बाट	कालिबाट	ऑट्टैयडि- प्पादै	ऑट्ट- यटिप्पात	कालुदारि
पचाववुं	पचोवप	पचाउनु	हजम करा	हजम कर	तुम्हन्बा	हजम- करिबा	ज़ीर्णमु- चेसुकोनुट	जीरणिक्क	दहिप्पि- क्कुक	जीर्णिसुवुदु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पछताना	अ.क्रि.	पश्चाताप करना	परि + √दिव्, अनु + √तप्	पछताउणा	पछताना	पछतावुन	पछिताइणु	पश्चाताप करणें
पछाड़ना	स.क्रि.	कुश्ती अथवा प्रतियोगिता आदि में किसी को परास्त करना	परा + √जि	पछाड़ना	पछाड़ना	पावुन	दसणु (कुश्ती), हार ड्रियणु	आपटणें
पटकना	स.क्रि.	किसी व्यक्ति या वस्तु आदि को उठाकर झटके के साथ पृथ्वी पर गिराना	√पातय्	पटकाउणा	पटकना	ठासुन	सटणु, हेठि केराइणु	आदळणें
पटरी (पटड़ी)	स्त्री.	1. सड़क के दोनों ओर का उठा हुआ पैदल-पथ	पद्या	पटड़ी	पटरी	पटॅुर	पटरी, फुटपाथ	पायपथ, फुटपाथ
		2. लोहे के लंबे छड़, जिन पर रेलगाड़ी चलती है	लौहपट्टी	पटड़ी	–	पटॅुर	रेल जो पटो	आगगाडीचे रूळ
		3. काठ का छोटा पतला और लंबोतरा टुकड़ा, छोटा पटरा	पट्टिका	पटड़ी	–	पटॅुरॅ	पटी (काठ जी)	लहान पाट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पस्तावुं	पच्छाताप	पछुताउनु, पछुतो मान्नु	अनुताप करा	अनुतप्त-ह, अनुशोचना-करा	निङ्ङम्दबा	पश्ताइबा, अनुताप-करिबा, पश्चाताप-करिबा	पश्चात्तापि-पडुटे	पच्चात्ताब-प्पड	पश्चात्त-पिक्कुक	पश्चात्ताप पडुवुदु
पछाडवुं	आपटप	पछार्नु, ढाल्नु	परास्त करा, हारानो	पराजित-कर	थाबा, माइथिबा	पराजित-करिबा, हराइबा	ओडिंचुटे	तोर्कडिक्क	मरिच्चिटुक	सोलिसुवुदु
पटकवुं	आदळप	पट्कनु, लडाउनु, बजार्नु	आछड़ानो, पटकानो	थेकेचा-मारि थ	थदबा	कचाड़िबा	पडवेयुटे	इडित्तु कीळे तळ्ळ	अटिच्चु वीळ्त्तुक	अप्पळि-सुवुदु
फूटपाथ	फुटपाथ	पेटी, पट्टरी	फुटपाथ	फुटपाथ, पारपक्ष	खोङ् लंबी	पादचला-बाट (फुट-पाथ)	फुट्पाथ	नडै पादै, नडैमडे	फुटपाथ, नटवळि	कालुदारि
पाटो	रूळ	रेलको लीक	रेल लाइन	रेलपथ, रेलरशारी	पटड़ी	रेलपटरी, रेललाइन	पट्टालु	रयिल् पादै, तण्डवाळम्	पाळम्	रैलु हळि
पाटलो	पाट	फल्याक	तक्ता, तक्ति	पात	पत्ती	पटा, पीढ़ा	पलकॅ	चिरु पलगै	पट्टिक	हलगॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पटसन	पुं.	1. सन नामक प्रसिद्ध पौधा, जिसके डंठलों के रेशों से रस्सी, बोरे, गलीचे आदि बनाए जाते हैं	शणम्	पटसण, सण	पटसन	सुँतल, टाठ	सिणी, जूट	जूट, ताग
		2. सन के रेशे, जूट	शणसूत्रम्	पटसण	जूट	सुँतल, टाठ	सूतली	जूट, ताग
पटाखा (पटाका)	पुं.	एक प्रकार की आतिशबाजी, जिससे जोर से पट या पटाक की ध्वनि होती है	स्फोटक:	पटाका	पटाख़ा	टास, शोरुँ-बोबूस	फटाको	फटाका
पड़ना	अ. क्रि.	1. गिरना, पड़े रहना	√पत्	डिगणा, पैणा	पड़ना	प्योँन	पवणु, पियो रहणु	पडणें, पडून राहणें
		2. लेटना, बीमार होना	रोगेण-ग्रस् (कर्म.)	पैणा, लेटणा	लेटना	प्योँन	पवणु, बीमार थियणु	पडणें, आजारी होणें
पड़ाव	पुं.	मार्ग में पड़ने वाला वह स्थान जहाँ सेना, काफिले, यात्री आदि कुछ समय के लिए विश्राम करने को ठहरते हैं	विश्रान्तिस्थलम्, शिविरम्	पड़ाअ, पड़ाओ	कारवाँसराए (सराए)	पडाव	पड़ाउ	मुक्काम, तळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शण	जूट	सनपाट	पाट अथबा शण	सन गछ, मरापातर गछ	अनान्बा पांबी	काउंरिआ गछ	जनुमु	चणल् चंडि	चणम्	सणबिन-गिड
शणना रेसा	जूट	पाट	पाटेर आँश	मरापात	लिमोन	झोट	जनपनार	चणल्	चणम्	सणबु
फटाकडा	फुगोटी	पटका, पटाका	पटका, बाजि, आतशबाजी	फटका, क्रेकार	बंबुला	ताल-फोटका, बाण	टपाकायलु	पट्टासु	पटक्कम्	पटाकि, पटाक्षि
पडवुं	पडप	झर्नु, गिर्नु	पड़े थाका	पर, परा	ताबा, थंबा	पड़िबा	पडुट	विळ	वीळुक	बीळुवुदु
पडवुं, मांदा पडवुं	आडपडप	पल्टनु, बिरामी हुनु	असुस्थ हयोया	शो, बेमार ह	हिप्पा, नारि शरि तौबा	शोइबा, बेमार बा-असुस्थ-हेबा	पडुकोनुट, पडक वेयुट	पडुक्क, नोयुर	किटक्कुक, रोगियाकुक	मलगुवुदु, काइलं बीळुवुदु
पडाव, मुकाम	मुक्काम	बिसौनी, मुकाम	चटि, शिबिर	शिबिर, सैन्यर-अस्थायी बाहर, अस्थायी ठाँइ	पन्फम, थुड्फम	शिबिर, सैन्य-छाउणि	मजिली	प्रयाणिगळ् वळित्तंगुमिडम्, तावळम्	तावळम्	बीडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पतंग	स्त्री.	बाँस की कमानियों के ढाँचे पर कागज मढ़कर बनाई हुई वस्तु, जिसे तागे से बाँधकर हवा में उड़ाते हैं	पतङ्गम्	पतंग	पतंग	पतंग	लगडु	पतंग
	पुं.	पतंगा, शलभ	शलभः	भंबट, पतंगा	पतंगा	पनुॅ पोंपुर	पतंगु, परवानो	पतंग (एककिडा), शलभ
पतन	पुं.	1. अधोगति, गिरावट	पतनम्	पतन	ज़वाल	गिरावठ	ज़वाल, गिरावट	अधोगती, अपकर्ष, पतन
		2. निंदनीय आचरण में प्रवृत्त होना	पतनम्	–	उतार	गिरावठ	गिरावट	अध:पतन
पतला	वि.	1. जो गाढ़ा न हो, जिसमें तरल अंश अधिक हो	विरल, तरल	पतला	पतला, रक़ीक़	तोॅन	छिडो	पातळ
		2. कृश, दुबला	कृश	पतला, लिस्सा	दुबला	तोॅन, पतलुॅ	सन्हो	कृश, सडपातळ, अशक्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पतंग, कनकवों	पतंग	चङ्गा	घुड़ि, पतंग	चिला, ए श्रेणीर प्रानी	तेलङ्गा	गुड़ि	गालिपटमु	काट्टाडि, पट्टम्	पट्टम्	गाळिपट, पट
पतंगियुं	पतंग (कीड)	फट्याङ्ग्रो, पुतली	पतंग, शलभ	चगा	मैरान्बी	पतंग	मिड्डुत	विट्टिल् पूच्चि	शलभम्	दीपद-हुळु
पतन	पतन	पतन, अवनति	पतन, अवनति	पतन, अधोगति	लैखा ताबा, हायथ-रक्पा	पतन	पतनमु	वीऴ्च्चि	पतनम्, वीऴ्च	–
अध: पतन	अध: पतन	अध: पतन, अधोगति	अधोगति	अध: पातत	लमचत् नाइदबा	अधपतन, अधोगति, अबनति	पतनमु	कॆट्ट वऴियिल् चॆल्लल्	अध:पतनम्	पतन
पातळुं	पातळ	पन्यालो, तरल	पातला, तरल	पातल	अपाबा	पतला, सरु, कृश	पल्चटि	गॆट्टियिल्लाद, नीर्त	नेर्त्त	तॆळ्ळगॆ
अशक्त, निर्बळ	दुबळो, सडपातळ	पातुलो, दुब्लो	कृश	दुर्वल, कृश	मयाङ् कङ्बा	अशकत, दुर्बल, निर्बल	सन्ननि	मॆलिंद	मॆलिञ्ञ	सोणकलाद, कड्डी पैलवान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. सँकरा, बारीक	सङ्कीर्ण, लघु	पतला, सोड्हा	बारीक	ज़ॉव्युल	सोढ़ो	बारीक
पता	पुं.	1. किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का ठिकाना	सङ्केतः	पता	पता (मुक़ाम)	पता, एडरस	ऐड्रेस, सर्नामो, पतो	पत्ता
		2. किसी व्यक्ति, विषय आदि के संबंध में जानकारी	परिज्ञानम्	पता	अलामत, सुराग़	पता	पतो-ठिकाणो, ज़ाण	शोध
पताका	स्त्री.	1. झंडा, ध्वजा	पताका	झंडा, निशान	परचम, झंडा	जंडुँ, अलम	झंडो, पताका	झेंडा, ध्वज, पताका
		2. साहित्य में (नाटक में) आधिकारिक कथा की सहायतार्थ दूर तक चलने वाली प्रासंगिक कथा	पताका	पताका	ज़ेली क़िस्सा	–	(नाटक में) मुख्यु कथा सां लागू कथा, प्रसंग कथा	नाटकातील प्रासंगिक कथा
पत्तन	पुं.	वायुयानों अथवा जलयानों के ठहरने का स्थान	पत्तन	पत्तण, बंदरगाह	बंदरगाह	हवाईअडुँ	पतणु, हवाई अडो	विमानतळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झीणुं	बारीक	साँघुरो, साङ्ग्रो	पातला, सरु	मिहि	अखुबा, मकुप	बारिक	सन्ननि, इरुकैन	मॅल्लिय	इट्टुङ्डिय	सण्णर्ग, सोणकल
सरनामुं	पत्तो	ठेगाना, टुङ्गो	ठिकाना	ठिकना	लैफम	ठिकणा	चिरुनामा, अड्रसु	मुगवरि	मेल् विलासम्	विळास
खबर, जाण	शोध, सोद	पत्ता, पता, पत्तो	खौंज-खबर	परिचय	फजना खङ्बा	परिचय	समाचारमु	तगवल्	विवरम्	गुरुतु
पताका, ध्वजा	झेंडो, पताको	झण्डो, ध्वजा, पताका	पताका, झण्डा	पताका, निचान, ध्वज	फिराल	पताका, ध्वज	पताकॅ, जंडा	कॉडि	कॉटि, पताक	बाउट, झांडा
नाटक मां आवती आडकथा	पताका	पताका, पताका-स्थानक	पताका	पताका, नाटकर-कथार-सरु भाग	–	प्रसंग, परिप्रेक्षी	पताकॅ	(नाडगत्तिल् मुक्किय कदैयडन् चॅल्लुम्) तुणैक्कदै	पताक	पताकॅ
विमानी मथक, नगर	विमान तळ	विमान-स्थल, हवाई-अड्डा	जाहाजघाट, बंदर, बिमानबंदर	वायुयान बा जलयानर पोतास्रय, बंदर	हिथाङ्फम, ताफम	बायुजान बा उड़ाजाहाज, पाणि जाहाजर पोताश्रय, बंदर	विमानाश्रयमु	विमान निलैयम्, तुरैमुगम्	विमानत्तावळं, तुरमुखम्	विमान-निल्दाण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पत्ता	पुं.	1. पेड़-पौधों की शाखाओं में लगने वाले प्रायः हरे रंग के चपटे लचीले अवयव	पत्रम्	पत्ता	पत्ता, बर्ग	पर्नुवथुँर	पनु	पान
		2. ताश (प्लेइंगकार्ड)	क्रीडापत्रम्	–	ताश	तास	पतो (तास जो)	पत्ते (प्लेइंग कार्ड)
पत्थर	पुं.	धातु से भिन्न कड़ा ठोस और भारी भूद्रव्य	प्रस्तरः	पत्थर	पत्थर, संग	कॅन्य	पथुरु, पत्थरु	दगड
पत्रकार	पुं.	वह व्यक्ति, जो समाचार पत्रों को नित्य नए समाचारों की सूचना देता, उन पर टीका-टिप्पणी करता अथवा उनको संपादित करता हो (जर्नलिस्ट)	पत्रकारः	पत्तरकार	अख़्बारनवीस, सिहाफ़ी	अखबार नवीस	पत्रकारु, अख़्बारनवीसु	पत्रकार
पत्राचार	पुं.	परस्पर एक-दूसरे को पत्र लिखना, पत्र-व्यवहार	पत्राचारः	चिट्ठी-पत्तर	ख़तोकिताबत	खत किताबथ, चिठ्य-पतुॅर-लेखुॅन्य	ख़तोकिताबत, लिखपढ़	पत्र-व्यवहार करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पांदडुं, पान	पान	पात, पत्र	पाता, पत्र	पात, गछर पातल अंश	मना	पत्र	आकु	इलै	इल	एॅलॅ
पानां	इसपीट, इस्पीक	पत्ती (तासका), पत्ता	तास	ताचर पात	जुवा-चे	तास	आकु	विळैयाड्डुम् शीट्टु	चीट्टुँ	इस्पीटिन एॅलॅ
पथ्थर, पथरो	फातर	पत्थर, ढुङ्गो, शिला	पाथर, प्रस्तर	शिल, पाथर	नुङ्	पथर, प्रस्तर	राइ	कल्	कल्लुँ	कल्लु
पत्रकार, खबरपत्री	पत्रकार	पत्रकार	सांबादिक	बार्ताकाकत चलाआँता, सांबादिक	पाओमी, जर्नलिस्ट	सांबादिक, पत्रकार	पात्रिकेयुडु	पत्तिरिगैयाळर्, निरुपर्	पत्र प्रवर्तकन्	पत्रकार
पत्र-व्यवहार	पत्र व्यवहार	पत्राचार, पत्रव्यवहार	पत्र-व्यबहार	पत्र-ब्यवहार	चिट्ठी थान्बा	पत्रालाप, पत्रब्यबहार, चिठि-आदान-प्रदान	उत्तरप्रत्युत्त-रमुलु	कडिदप्पोक्कु वरत्तु	एॅळुत्तुकुत्तु, कत्तिटपाटुँ	पत्रव्यवहार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पथ	पुं.	1. मार्ग, रास्ता, राह	पथिन्	पंध, मारग, रासता	रास्ता	वथ	वाट, रस्तो, पथु	मार्ग, रस्ता, वाट, पथ
		2. कार्य या व्यवहार की पद्धति	उपायः	राह	तरीक़ा	–	तरीक़ो	कार्यपद्धत
पथ-प्रदर्शक	पुं.	किसी कार्य या व्यवहार की पद्धति बताने वाला, मार्गदर्शक	पथ-प्रदर्शकः	राहनुमा	राहनुमा	वतुॅ हावुख	रहबर, सूंहों	मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक
पथ-भ्रष्ट	वि.	1. जो मार्ग से भटक गया हो, गुमराह	पथभ्रष्ट	कुराहीआ	गुमराह	वति डॊॅलिमुत	राह-भटिक्यलु	पथ भ्रष्ट
		2. न्याय मार्ग अथवा आचरण से विमुख	पथभ्रष्ट	–	–	वति डॊॅलिमुत	राह-भटिक्यलु	पथ भ्रष्ट
पथिक	पुं.	बटोही, राही	पान्थः, पथिकः	पांधी	राही	मुसॉफिर	राही, वाटहड़ू	पथिक, वाटस पांथस्थ
पथ्य	वि.	गुणकारी, लाभदायक	पथ्य	पत्थ	मुफ़ीद	फायदुॅमंद	फ़ाइदेमंद	गुणकारी, लाभप्रद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पथ, मार्ग	मार्ग, रस्तो	बाटो, पथ	पथ, रास्ता	बाट, आलि	लंबी	पथ, बाट, रास्ता	मार्गमु, दारि	वळि़, चालै, पादै	वळि़	दारि
कार्य-पद्धति	कार्य पद्धत	कार्य पद्धति, काइदा	कार्य पद्धति	पद्धति	थौओङ्	कार्य-पद्धति, प्रणाली	पद्धति	नडैमुरै	प्रवर्तन-पद्धति	रीति, पद्धति
मार्गदर्शक, पथदर्शक	मार्ग दर्शक	पथ-प्रदर्शक, मार्गदर्शक	पथेर दिशारी	पथ-प्रदर्शक	लम्यान्बा लम्ताक्पा	पथ-प्रदर्शक, मार्गदर्शक	मार्ग-दर्शकुडु	वळि़ काट्टुपवर्, वळि़काट्टि	मार्गदर्शि, वळि़काट्टि	मार्गदर्शक
पथभ्रष्ट	पथ-भ्रश्ट	पथभ्रष्ट	पथभ्रष्ट, दिशाहारा	पथ-भ्रष्ट, बिपथगामी	लमुक्नबा	पथभ्रष्ट, पथहरा, बिपथगामी	पथभ्रष्टुडु	वळि़ तवरिय	वळि़ पिऴच्च	दारि-तप्पिद
विपथ-गामी	अन्याय करतलो	पथभ्रष्ट	बिपथगामी	बाट एरा अबाटे-योवा	लम्माङ्नबा	–	पथभ्रष्टुडु	नेरि तवरिय	न्यायम् विट्ट, वळि़पिऴच्च	पथभ्रष्ट
पथिक, वटेमार्गु	वाटसूरो	बटुवा, पथिक	पथिक, यात्री, राही	पथिक, यात्री, बाटरुवा	लंबी चत्पा	पथिक, जात्री	बाटसारि, पांथुडु	वळि़-प्पोक्कन्	पांथन, वळि़ पोक्कन्	पथिक, दारिहोक
पथ्य, अनुकूल	–	लाभदायक, गुणकारी	पथ्य, हितकारी खाद्य	पथ्य, नरियात-परा मानुहर हितकारी खाद्य	कान्निङ्-ङाइ ओइबा	अनुकुल	पथ्यमु	पत्तियमान	पथ्य प्रयोजनकरम्	गुणकारि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	पुं.	वह हल्का भोजन, जो रोगी व्यक्ति को दिया जाए	सुपच्याहार:	पत्थ	पर्हेज़ी ग़िज़ा	परहेज़	परहेज़ वारो खाधो	पथ्य
पद	पुं.	1. कदम, पाँव, पैर	पदम्	कदम	क़दम	पोंद, कदम	क़दमु, पेरु विख	पद, पाय, चरण
		2. वाक्य का अंश या खंड	पदम्	पद	फ़िक़रा	पद	जुम्ले जो भाङो	पद, वाक्याचा अंश किंवा तुकड
		3. ओहदा, उपाधि	पदम्	ओहदा, पदवी, पद	ओहदा	ओ़हदुॅ, मनसबुॅ	पदु, उहिदो	पद, हुद्दा, पदवी
		4. छंद, श्लोक आदि का चतुर्थांश	पदम्	पद	मिस्रा	–	पदु, छंद या सलोक जी सिट, मिस्रा	श्लोकाचा एक चतुर्थांश
पदचाप	स्त्री.	चलते समय पैरों से होने वाली ध्वनि	पादध्वनि:	पैरचाप	चाप	पकन आवाज़	पेरनि जी आहट	ध्वनी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
करी, परेजी	पथ्य	स्वास्थ्य- कर आहार, पथ्य	रोगीर पक्षे, रोगमुक्तिर समये	पथ्य, रोगीर खाब लगीया वस्तु	अचंबा चिन्जाक्, चम्थोङ्	पथि, पथ्य	पथ्यमु	पत्तिय उणवु	पथ्यम्	पथ्य, पत्ते
पद, पग	पांय	खुट्टो, पाउ, गोडो	पद, पा	भरि, पद	खोङ्	पाद, गोड़र- तल- अंश	पादमु	कालड़ि, अड़ि, पादम्	अटि, काल्	हेज्जे, पाद
अर्थवाळो शब्द	पद	वाक्यांश,	बाक्यांश	पद, पदवी, विषय, नाब, उपाधि	वाहै परेङ्गी शरुक खरा	वाक्यांश, पद	पदमु	पदम्, वात्तै, चॉल्	पदम्, वाक्कु	शब्द
दरज्जो	हुद्दो	पदवी, दर्जा, ओहदा	पदबी	उपाधि, विषय	फम	उपाधि	उपाधि, पदवि	पदवि	पदवि	पदवि
श्लोकनुं पद, श्ळोकनीपंक्ति	चतुर्थांश	श्लोकको चरण वा पाउ	पद	छंदर चतुर्थांश	शैरेङ्, चरण	छंद बा- श्लोक- आदिर- चतुर्थांश	चरणमु, पादमु	चॅय्युळिन् अडि	पादम्	पादम्
पदध्वनि	सुलूस	पदचाप	पदध्वनि	पदध्वनि	खोङ्थाङ् मखोल	पदध्वनि, पादशब्द	काळ्ळ चप्पुडु	कालडि- ओसै	कालॊच्च	हॊज्जॆय सद्दु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पद-चिह्न	पुं.	1. पैरों की छाप	पदचिह्नम्	पैड़	नक़्शे-क़दम	वतुॅ पॅद्य	पेरो	पदचिन्ह
		2. बड़ों द्वारा बतलाए हुए आदर्श अथवा कार्य करने का ढंग	पदचिह्नम्	पूरना	नक़्शे-पा	वतुॅ पॅद्य	पेरनि जो निशानु	आदर्श, परंपरा
पद्धति	स्त्री.	1. कार्य करने का तरीका, कार्य-प्रणाली	पद्धतिः	पद्धती	तरीक़-ए-कार	तरीकुॅ	तरीक़ो, ढंगु	पद्धत, कार्य-प्रणाली
		2. रीति, पथ, मार्ग	पद्धतिः	पद्धती	तरीक़, तरीक़ा	तुलुॅत्राव	वाट, रीति	रीत, मार्ग, वाट
पनघट	पुं.	वह घाट या स्थान, जहाँ से लोग पानी भरकर लाते हैं	जलघट्टः	घँट	पनघट	यारुॅबल, गाठ	घाटु, पाणी भरण जो हंधु	पाणवठा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पदचिह्न, पगलांनी छाप	पद- चिह्न	पदचिह्न, पैतालाको डाम	पदचिन्ह	पदचिह्न, भरिर चिन	खोङ्गुन्	पद- चिन्ह, पाद- चिन्ह	अड्डुगु जाड़लु	अडिच्चुवडु	कालटयाळम्, पदचिह्नम्	हेज्जेय- गुरुतु
आदर्श, परंपरा	आदर्श	आदर्श, पदचिह्न	आदर्श	आदर्श, परंपरा	खोङ्फम् गी मतुङ् इन्ना तौरक्पा	आदर्श, परंपरा	अड्डुगु जाड़लु	पेरियोर् वऴि- प्पट्टुदल्	वऴित्तार, प्रवर्तन- रीति	आदर्श
पद्धति	पद्धत	पद्धति, तरिका, कार्य- प्रणाली	पद्धति, प्रणाली (न)	पद्धति, प्रणाली, उपचार, रीति	थौओङ्	पद्धति, प्रणाली, कार्यबिधि, कार्यरीति, क्रियानुष्ठान	पद्धति	चेयल् मुरै	पद्धति	पद्धति
रीत, रस्तो, वाट .	रीत	रीति, बाटो	रीति	रीति- नीति, कामर- करिबर- नियम	लम्बी	रीति, प्रणाली, पद्धति, पथ, मार्ग, बाट, रास्ता	पद्धति	वऴि, मुरै	वऴि	रीति
पनघट, पाणीनो घाट	बांयचे कट्टे, पाणथक	पँधेरो, जलाशय	घाट, जलाशय अथबा नदीर घाट	पानी (घाट)	हिदेन, इशिङ् शोक्फम	पाणितुठ, पाणिघाट	नीटि- रेवु	नीर्त्तुरै	कटवुं, किणट्टुकर, कुळक्कटवुं	बाविकट्टे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पनडुब्बी	स्त्री.	पानी के अंदर डूबकर चलने वाली नाव (सबमरीन)	अन्तर्नौः	पनडुब्बी	आबदोज़	आबदोज़-जहाज़ुं	ज़ेर-आबी, पनडुब्बी	पाणबूडी
परंतु	अव्य.	इतना होने पर भी, लेकिन, पर	परम्, परन्तु	पर, परंतू, तांवी	लेकिन (मगर)	आमापोंज	पर, लेकिन	पण, परंतु, तरीहि
परंपरा	स्त्री.	1. सिलसिला, क्रम	परम्परा	परंपरा	सिलसिला	पतुॅवथ, रीथ	परंपरा, रिवायत	क्रम, परंपरा
		2. रीति-रिवाज, प्रथा	परम्परा	परंपरा	दस्तूर	रीथ	रिवायत, दस्तूरु	प्रथा, चाली, रिती
परखना	स. क्रि.	अच्छे-बुरे की पहचान करना	परि √ईक्ष्	परखणा	परखना	सरॅ करुन	पर्खणु परिखणु	पारख करणें
परदा	पुं.	1. आड़ या बचाव करने के लिए बीच में टाँगा जाने वाला कपड़ा आदि	तिरस्करिणी	परदा	पर्दा	परदुॅ	पर्दो	पडदा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सबमरीन	पाणबुडी, सबमरीन	पनडुब्बी	साबमेरीन, डुबोजाहाज	चाबमेरिन, पानीर तलर नौ-परिवहन	सबमरीन	बुड़ा-जाहाज	जलांतर्गामि	नीर् मूऴ्गि कप्पल्	जलांत-र्वाहिनि, मुङ्ङि-क्कपल्	सब्मरीन्, नीरोळगीन हडगु
परंतु, पण, तोय	पूण	परंतु, तर्, किंतु	किंतु	किंतु, सेये-हलेओ तथापि	अदुबु, तौइगुंबसुङ्	परंतु, किंतु	कानि, अयिनाकूडा	आनाल्	पक्षे ऐन्नुल्	आदरे
परंपरा, हार	क्रम	क्रम, सिलसिला	क्रम, परंपरा	परंपरा, क्रम, रीति, धारा अनुक्रम	मथङ् मनाओ, मथङ् मथङ्	परंपरा, क्रम	परंपर	तोंडर्च्चि, परंपरै	क्रमम्, परंपरे	परंपरे
रिवाज, प्रथा	प्रथा, रीत-रिवाज	रीतिथिति, परंपरा	प्रथा, रीति-नीति	रीति-नीति, प्रथा	चत्नबी	रीति, नीति, प्रथा	परिपाटि	पऴक्क वऴक्कंगळ्	पारंपर्यम्	संप्रदाय
परखवुं, ओळखवुं	पारखप	पारख गर्नु, परख गर्नु	याचा, याचाइ करा (ज)	चा, परीक्षा-करि चा	चाङ्येङ्	परखिबा, चिन्हिबा	परिशीलिंचुट	परीट्चिक्क	परिशोधि-च्चरियुक	परिशीलने
परदो, ओझल	पड्डो	पर्दा	पर्दा	परदा, आबरण	परदा, फिजङ्	परदा, पर्दा	तेर, पर्दा	पडुदा, तिरै	कर्टन्, पर्द	तेरे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. घूँघट	अवगुण्ठनम्	परदा	घूंघट	बुरकुं, नौंर	घूंघटु, बुर्क़ो, पर्दो	घुंगट
		3. टी.वी., सिनेमा आदि में प्रयुक्त पटल	आवरणम्	परदा	–	–	–	–
परदेसी	वि.	जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में गया हो	वैदेशिक, विदेशीय	परदेसी	परदेसी	परदीसी	परदेसी	विदेशी, परदेशी
परम	वि.	1. मुख्य, प्रधान	परम	परम	अव्वलीं (ख़ास)	थौंद	परम, मुख्य	मुख्य, प्रधान
		2. अत्यधिक	परम	परम	निहायत	स्यठा	घणो	परम, अत्यधिक
परमाणु	पुं.	किसी तत्व का एक अविभाज्य टुकड़ा	परमाणु	परमाणू	ऐटम	अटम	परमाणू	परमाणू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घूंघट	घुंगट	घुम्टो	घोमटा	ओरणि, आच्छादन	माइखुम	ओढ़णा	मुसुगु	मुट्टाक्कु (मुक्काडु)	मूटुपटम्	मुसुकु पर्दे
–	–	पर्दा (सिनेमाको)	–	–	–	–	स्क्रीनु	–	–	–
परदेशी	भायल्या देशाचो, परदेशी	परदेशी, विदेशी, विदेशको	विदेशी, परदेशी	बिदेशी, आनदेशर-निबासी	अतोप्पा, लम्गी मीरैबाक्तगी लाक्पा	बिदेशी, परदेशी	विदेशीयुडु	अन्निय नाट्टिल वशिक्किर	परदेशि, विदेशि	परदेशदवनु, परदेशी
परम	मुखेल	मुख्य्, सर्व्-प्रमुख	मुख्य, प्रधान	परम, प्रधान उत्तम, श्रेष्ठ, चरम	मरु ओइबा	मुख्य, प्रधान, अग्रगण्य	परमॆ	मुक्कियमान	मुख्यमाय	मुख्य
परम, अत्यधिक	परम, अत्यधिक	परम, अत्यधिक	परम, अत्यधिक	अत्यधिक चरम	अथोइबा	परम, अत्यधिक, अधिक, अतिशय, अतिरिक्त	परमॆ	मिग, अदिग	अत्यधिकम्, परमम्	परम, अत्यधिक
परमाणु	परमाणू	परमाणु	परमाणु (न), अणु-परमाणु	परमाणु, पदार्थर-क्षुद्रतम कणा	अकुप्पा	परमाणु, आणबिक	परमाणुवु	अणु, परमाणु	अणु, परमाणु	परमाणु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
परमात्मा	पुं.	ईश्वर, परब्रह्म	परमात्मन्	परमातमा	रूहे-मुत्लक़ (अल्लाह)	दय, परमात्मा	परमात्मा	ईश्वर, परमात्मा
परमार्थ	पुं.	1. मोक्ष	परमार्थ:, मोक्ष:	परमारथ	नजात	परमारथ	परमार्थ, परमारथ	मोक्ष, परमार्थ
		2. परोपकार	परोपकार:	परमारथ	नेकी	पर वोंपकार, दयिवति, नीकी	परोपकार	परोपकार
परलोक	पुं.	इह लोक से भिन्न दूसरा लोक	परलोक:	परलोक	उक़बा, अदम	परलूख, दोंयुम दुनिया	परलोकु	परलोक
परसों	अव्य.	1. बीते हुए दिन से ठीक पहले वाला दिन	परह्य:	परसों	परसों	ऊतरुँ	टियों ड॒ींहुं	परवा
		2. आगामी कल के बाद वाला दिन	परश्व:	परसों	परसों	कॉल्यक्यथ	परींहं	परवा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर	परमात्मा	परमात्मा, ईश्वर	ईश्वर, परमात्मा (त्ताँ)	परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म	ईश्वर	परमात्मा, इश्वर, भगबान, परंब्रह्म, परमेश्वर	परमात्म	परमात्मा, कडवुळ्	परमात्मावुँ	देवरु, परमात्म
परमार्थ, मोक्ष	मोक्ष	मोक्ष, मुक्ति	परमार्थ, मोक्ष (क्ख)	मुक्ति, मोक्ष, चरम-सत्य, तत्व-ज्ञान	अरान खुबम फङ्बा	परमार्थ, मोक्ष, मुक्ति	परमार्थमु, मोक्षमु	मोक्षम्, मुक्ति	मोक्षम्	मोक्ष
परोपकार	परोपकार	परोपकार, परमार्थ	परोपकार	परोपकार, आनर उपकार करा कार्य	मीगी-कान्नबा तौबा, अतोप्पगी फनबा तौबा	परोपकार	परोपकारमु	पिरुक्कु, उदवियळित्तल्, परोपकारम्	परोपकारम्	परमार्थ
परलोक, बीजो-लोक	परलोक	परलोक	परलोक	परलोक, देहांत	परलोक	परलोक, मृत्यु, देहांत	परलोकमु	परलोगम्, मेलुलगम्	परलोकम्	परलोक
परम-दिवस	पैर, पयर	अस्ति	परशु	परहि	नहाल	अपरि दिन, पहरि दिन	मॊन्न	मुंदा नाळ्	मिनिञ्ञान्नुँ	मॊन्ने
गई काल पहेला आवेलो दिवस	परां, परवां	पर्सि	परशु	परहिलै	हङ्चित्	पहरि दिन	ऍल्लुंडि	नाळै मरुनाळ्	मट्टन्नाळ्	नाडिद्दु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
परस्पर	क्रि. वि.	आपस में	परस्परम्, मिथ:	आपो-विच, परसपर	बाहम	पानुँवन्य	पाण में	आपसात, परस्पर
पराकाष्ठा	स्त्री.	चरम सीमा, हद	पराकाष्ठा	सिखर	इंतिहा (हद)	थज़र, हद	हद, छेहु	पराकाष्ठा, परमावधी
पराक्रम	पुं.	शौर्य, सामर्थ्य, बल	पराक्रम:	पराकरम	ताक़त (तवानाई)	बहोदरी, ताकथ	पराक्रमु, वीरता	पराक्रम, शौर्य
पराग	पुं.	फूल के लंबे केसरों पर जमे रहने वाले रज कण	पराग:	पराग	ज़रे गुल	व्यूर	परागु, रजुकणा	पराग
पराजय	स्त्री.	हार, विजय का उल्टा	पराजय:	हार	शिकस्त (हार)	हार	हार, पराजय	पराजय
पराधीनता	स्त्री.	दूसरे के अधीन अर्थात् पराधीन होने की अवस्था	पारतन्त्र्यम्	गुलामी, पराधीनता	गुलामी (महकूमियत)	गॉलॉमी	पराधीनता, गुलामी	पराधीनता
परामर्श	पुं.	1. सलाह, सम्मति	सम्मति:	सलाह (मशवरा)	सलाह (मशवरा)	सलाह, राय	सलाह-मशवरो	सल्ला, मसलत, सम्मती, परामर्श

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परस्पर	आपले-भितर, परस्पर	परस्पर, आफू-आफूमा	परस्पर	परस्पर	मशेल	परस्पर, मध्यरे, निज निज भितरे	परस्परमु	तमक्कुळ्ळे, परस्परम्	परस्परम्	परस्पर
चरम सीमा, हद, पराकाष्ठा	पराकाष्ठा	पराकाष्ठा, चरमसीमा	पराकाष्ठा, चूड़ांत	पराकाष्ठा, चूड़ांत	अयौबी थाक्	पराकाष्ठा, चूड़ांत	पराकाष्ठ	उच्च कट्टम्, कड़ैसि एल्ल	परमकाष्ठ	परमावधि, तुत्ततुदि
पराक्रम, बहादुरी	पराक्रम	पराक्रम, पौरख	पराक्रम, शौर्य (ज)	पराक्रम, बीरता, शक्ति	शक्ति, पाङ्गल	पराक्रम, शोर्ज्य, बीरता, शक्ति	पराक्रममु	पराक्कि-रमम्, बलम्	पराक्रमम्	पराक्रम
पराग, फूलमानी रज	पराग	पराग, पुष्पराज	पराग, फुलेर रेणु	पराग, रेणु	लैरिक्	पराग, फूल-रेणु, मकरंद	पुप्पाडि	मकरंदम्	परागम्, पूंपाटि	पराग
पराजय, हार	हार	हार, पराजय	पराजय	पराजय, पराभव, परास्त-होबा	माइथिबा	पराजय, हारिबा	पराजयमु	तोल्वि	पराजयम्	पराजय, सोलु
पराधीन	पराधीन	पराधीनता, परतंत्रता	पराधीनता, परेर अधीन	पराधीनता	मीखा पोन्बा	पराधीनता	पराधीनत	अडिमैत्तनम्	अस्वातंत्र्यं, अटिमत्तम्	पराधीनत
परामर्श	सल्लो	सरसल्लाह, परामर्श	शला-परामर्श, सम्मति	उपदेश, परामर्श, मंत्रणा, बुद्धि	वा तानबा	परामर्श, उपदेश, सम्मति	सलहा	आलोचनै	उपदेशम्	सलहे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. विवेचन, विचार	विमर्शः	–	मुशावरत	सलाह, राय	सलाह-मस्लिहत	विवेचन, विचार
पराया	वि./पुं.	जिसका संबंध दूसरे से हो, अपने से भिन्न, आत्मीय या स्वजन से भिन्न	पर	पराइआ	पराया	वॊपर	पराओ	परका
परिक्रमा	स्त्री.	1. चारों ओर चक्कर लगाना या घूमना	परिक्रम	परकरमा	चक्कर लगाना	ऑन्द्य ऑन्द्य-फेरुन, प्रकरम्	परिक्रमा	परिक्रमा
		2. धार्मिक एवं खगोलीय संदर्भ में किसी तीर्थ, देवता या मंदिर के चारों ओर भक्ति और श्रद्धा से तथा पुण्य की भावना से चक्कर लगाने की क्रिया	प्रदक्षिणा	परकरमा	तवाफ़	प्रकरम्	परिक्रमा	प्रदक्षिणा
परिचय	पुं.	ऐसी स्थिति जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रायः प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर जानते और पहचानते हों, जान-पहचान	परिचयः	जाण-पछाण	शनासाई	ज़ान-पछान	ॼाण-पछाण	ओळख, परिचय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विचार विमर्श, ऊहापोह	विचार	मंत्रणा, विचार	बिबेचन, बिचार	बिबेचना	खन्ना नैनबा	बिचार, बिबेचना	परामर्श	चर्चै	परामर्शम्	परिशीलनं
पारकुं, बीजानुं	परको, दूसरो	पराई, बिरानो	परेर, अन्येर	आनर, लोकर, अन्यलोक	अतोप्पा, लमलानबा	पर, अन्यलोक, अन्य-मानंकर	परायि	अन्निय, पिरर्	मट्टाराळुर्ट, अन्य	इतरर, बेरेयवर
परिक्रमा	प्रदक्षिणा	परिक्रमा	परिक्रमा	चारिओफाले घुरा, परिक्रमा	कोइबा	परिक्रमा, चारिपटे-धुरिबा	प्रदक्षिणमु	वलम् वरुदल्	प्रदक्षिणम्	सुत्तुवुदु
प्रदक्षिणा	प्रदक्षिणा	प्रदक्षिणा	प्रदक्षिण, परिक्रमा (क्ख) (न)	परिक्रमा, प्रदक्षिणा	परिक्रमा	परिक्रमा, प्रदक्षिण	प्रदक्षिणमु	पिरदक्षिणम्	प्रदक्षिणम्	प्रदक्षिणं
परिचय, सहवास	वळख	परिचय, जान पहिचान	परिचय, चेना-शोना	चिना-चिनि, चिनाकि निदर्शन	शक्-खङ्नबा	परिचय, चिन्हा (चिन्हा-चिन्हि), जणा-शुणा	परिचयमु	परिचयम्, अरिमुगम्	परिचयम्	गुरुतु, चिन्हे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी व्यक्ति के नाम-धाम या गुण-कर्म आदि से संबंध रखने वाली बातें जो किसी को बतलाई जाएँ	–	जाण-पछाण	तआरूफ़	ज़ान, तोरुफ	वाक़िफ़ियत, सुञाणप	परिचय
परिचर्या	स्त्री.	1. किसी के द्वारा दी जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाएँ, सेवा सुश्रुषा	परिचर्या	टहल, टहल सेवा	ख़िदमतगुज़ारी	खॅदमथ	ख़िज़मत, सेवा, शेवा	सेवा-शुश्रुषा, परिचर्या
		2. रोगी की सुश्रुषा	परिचर्या	टहल, टहल सेवा	तीमारदारी	खॅदमथ	–	रोग्याची सेवा-शुश्रुषा
परिचारिका	स्त्री.	सेवा करने वाली स्त्री, सेविका (नर्स)	परिचारिका	सेवका	नर्स	दाय, मोंहनिव्य बाय	सेवाधारिणी, दासी, टहली, नर्सि	सेविका, परिचारिका
परिच्छेद	पुं.	अध्याय, प्रकरण	परिच्छेदः	अधिआइ, खंड, भाग	बाब (फ़स्ल)	खंड, अद्याय	अध्याउ, बाबु	अध्याय, प्रकरण
परिजन	पुं.	1. चारों ओर के लोग विशेषतः परिवार के सदस्य	परिजनः	साक, शरीक, रिश्तेदार	लवाहिक़ीन	अंग-ऑशनाव	मिटु-माइटु, रिश्तेदारु	परिवार, कुटुंब

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ओळखाण	परिचय	चिनापर्ची, चिनाजानी	परिचय, चेना-जाना	परिचय, चिनाकी निदर्शन	शक् खङ्नबा, शक् - ताक्पा	परिचय, परिचित, बिदित, ज्ञात, जणाशुणा	परिचयमु	अरिमुगम्	परिचय-प्प्ट्टुत्तल्	परिचय, गुरुतु
परिचर्या, सेवा-चाकरी	सेवा	सेवा-टहल	सेबा-सुश्रुषा	सोध-पोच, सुश्रुषा सेवा	सेवा तौबा	परिचर्य्या, सेबा, साहाज्य	परिचर्य	तॊण्डु	सेवनम्	सेवॆ
रोगीनी सेवा	रोगी ची सेवा सुश्रुषा	सेवा-शुश्रूषा, परिचर्या	परिचर्या, शुश्रुषा (जा)	शुश्रूषा सेवा	अनाबगी सेवा	सेबा, शुश्रुषा	परिचर्य	चिकिच्चै	शुश्रूष, परिचर्य	शुश्रूषे, उपचार
परि-चारिका, दासी, नर्स	नर्स, आया	परिचारिका, धाई, सेविका, नर्स	परिचारिका, सेबिका, नर्स	परिचारिका, सेबिका	सेवा तौबी, नर्स	परिचारिका, सेबिका, धाइ, नर्स	परिचारिकॆ	पणिप्पॆण, चॆविलि	परिचारिक	नर्स, दायि
प्रकरण, अध्याय	प्रकरण	परिच्छेद, अध्याय	परिच्छेद, अध्याय, प्रकरण. (न)	अध्याय, परिच्छेद, प्रकरण	अध्याय, ताङ्कक्	परिच्छेद, अध्याय, प्रकरण	अध्यायमु, प्रकरणमु	अद्दियायम्	अध्यायम्	परिच्छेद, अध्याय
परिजन, कुटुंबी-जन	कुटुंबाचे लोक	परिजन, जहान	परिजन, आत्मीयजन (त्ती)	आत्मीय-स्वजन, परिवालर लोक	इमुङ्-मनुङ्गी मी	परिजन, स्वजन, आत्मीय, निजलोक, कुटुंब	कुटुंब-सभ्युलु	कुडुंबत्तवर्, चुट्टम्	परिजनम्	मनॆयवरु, परिवास्दवरू

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. अनुगामी और अनुचर वर्ग; संबंधी	परिजनः	आपणे	पैरो व ख़िदमतगार	ऑशनाव	पोइलगु	अनुगामी व अनुचर वर्ग
परिणाम	पुं.	1. किसी काम या बात का तर्क संगत रूप में अंत होने पर उससे प्राप्त हाने वाला फल (रिजल्ट)	परिणामः	सिट्टा, नतीजा	नतीजा	नतीजि	नतीजो	परिणाम
		2. किसी कार्य के उपरांत क्रियात्मक रूप से पड़ने वाला प्रभाव (कांसीक्वेंस)	परिणामः	सिट्टा, नतीजा, फल	अनजाम, इनतिहा	नतीजि	नतीजो, अंजामु	परिणाम
परित्याग	पुं.	अधिकार, स्वामित्व, संबंध तथा निजी संपत्ति आदि का सदा के लिए किया जाने वाला त्याग, पूरी तरह से छोड़ देना	परित्यागः	तीदुला-तोड़, दाअवा छड्डणा	तर्क	दलि दुॅनिथ-त्रावुन	त्यागु	परित्याग, त्याग, सर्वत्याग
परिधि	स्त्री.	1. वृत्त की रेखा	परिधिः	घेरा	दाइरा	गेरुॅ	घेरो, दाइरो	घेरा, परिधि
		2. किसी गोलाकार वस्तु के चारों ओर खिंची हुई वृत्ताकार रेखा	–	घेरा	हिसार	–	घेरो, दाइरो	परीध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नोकर	अनुयायी वर्ग	परिजन	परिचारक वर्ग	अनुगामी, अनुचर वर्ग, कामबनकरा, मानुह	मनाइ-मशन्, तुङ्इन्बा	अनुचर, चाकर, भृत्य	परिजनमु, परिवारमु	पणियाळ्	परिवारम्	अनुचररु
अंत, फळ	रिज़ल्ट, निकाल	परिणाम, फल	परिणाम, फल	फल, परिणाम	फोल, रिजल्ट	फल, परिणाम, परिणति	परिणाममु	विळैवु, पलन्	फलम्, रिजल्ट्	फलितांश
परिणाम	परिणाम, फळ	नतिजा परिणाम	परिणाम (ना)	परिणाम, शेष-फल	तौरुरिबा थबक्की फोल	फल, परिणाम, परिणति	पर्यवसानमु	मुडिवु	अनंतरफलं, परिणामम्	परिणाम
परित्याग	परित्याग	पूर्ण, त्याग, परित्याग	परित्याग, त्याग	परित्याग, एरा कार्य	पुम्नमक थादोक्पा लैजबा पुंबा थादोक्पा	परित्याग, छाड	परित्यागमु	तन् उरिमैयै मुट्टिलुम् तुरत्तल्, तियागम्	परित्याग	परित्याग
परिधि, घेरावो	वृत्त	परिधि	कूलेर बेष्टन रेखा, परिधि	परिधि, सीमा, घुरनीया बस्तुर बेर	अकोइबा	परिधि, मंडल, बेष्टनिरेखा	परिधि	चुट्टियुळ्ळ एल्लै कोडु	परिधि	परिधि
वर्तुळनो घेरावो	परीध	चौघेरो, परिवेश, मण्डल	परिधि	बेर, घुरनीया बस्तुर बेर	अकोइबा	परिधि, मंडल	परिधि	वट्टवडि-वमान पॉरुळै चुट्टि इरुक्कुम कोडु	परिधि	वर्तुल-रेखे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. वह गोलाकार मार्ग, जिस पर कोई चीज चलती, घूमती या चक्कर लगाती हो	–	घेरा	मदार	ओंहक	घेरो, दाइरो	परिधि
परिपक्व	वि.	1. जो विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो	परिपक्व	प्रपक्क, परपक्क	पुख़्ता, बालिग़	पोंखतुॅ	पूरो उसिर्यलु, परिपक्क	परिपूर्ण
		2. अच्छी तरह से पका हुआ	–	प्रपक्क	मुकम्मल (पक्का हुआ)	पोंखतुॅ	पकलु	पक्व
परिभाषा	स्त्री.	ऐसा कथन या वाक्य, जो किसी पद या शब्द का अर्थ या आशय स्पष्ट रूप से बतलाता या व्यक्त करता हो (डेफिनिशन)	परिभाषा	परिर्भाशा	तारीफ़	माने	परिभाषा, वस्फ़	व्याख्या
परिमाण	पुं.	1. गिनने, तोलने, मापने आदि पर प्राप्त होने वाला फल	परिमाणम्	मिकदार	मिक़्दार	मींच, हॉसिल	गुणण, तोर, माप वग़ैरह जो फलु	माप, वजन, परिमाण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चक्रावा पर फरती वस्तु	परिधी	परिधि	परिधि	घुरणीया पथ	इकोइ कोइशिन्बा	चतुर्दिगरे- भ्रमण, अतिक्रम- करिबा- पथ	परिधि	वट्ट- वडिवमान पादै	वृत्ताकारमाय	वृत्ताकारदारि
परिपक्व	परिपक्व	परिपक्व	परिणत, पूर्णता प्राप्त (न)	परिपूर्ण, परिपक्व	मपुङ् फारबा	परिपक्व, परिपूर्ण, संपन्न	परिपक्वं - मयिनं	नन्नु पळुत्त	नल्ल पोर्ल पळुत्त	हण्णाद, मागिद
पूरेपूरूं, पाकेलुं	पक्व	पक्व, पाकेको	पाका, परिपक्व	पका	ममूल फारबा	परिपक्व, पाचिला	परिपक्वं - मयिनं	नन्नु पळुत्त, मुदिर्च्चियडैंद	नल्ल पोर्ल पळुत्त	हण्णाद, मागिद
लक्षण, व्याख्या	व्याख्या	परिभाषा, व्याख्या	परिभाषा	परिभाषा, सूत्र	मयेक शेङ्ना शक्ताक वाहै परेङ्, डेफिनिशन	परिभाषा, संज्ञा, स्पष्टिकरण	निर्वचनमु	पोरुळ् विळक्कम्	निर्वचनम्	लक्षण निरूपर्ण, परिभार्ष
परिमाप	प्रमाण	नापतौल, परिमाण	परिमापेर फल, परिमाण	संख्या जोखा- कार्य, जरीप	चाङ् ओन्बा	परिमाण, फल	परिमाणमु	अळवु	परिमाणम्, अळवुं	परिमाण, अळर्त

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. नाप-जोख, तोल आदि की दृष्टि से किसी वस्तु की लंबाई-चौड़ाई, भार, घनत्व, विस्तार आदि, मान (क्वान्टिटी)	परिमाणम्	मिकदार, शुमार	शुमार	म्यकदार	माप, मिक़दारु, शुमारु	परिमाण
परिमार्जन	पुं.	1. साफ करने के लिए अच्छी तरह धोना	परिमार्जनम्	सुधाई	श़फ़्फ़ाफ़	मांजुन	चङीअ तरह सां धोअणु	स्वच्छ धुणें
		2. अच्छी तरह साफ करना	परिमार्जनम्	सोध	—	मांजुन	साफ़ करणु	चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करणें
		3. भूलें आदि सुधारना	परिमार्जनम्	सोध	इस्लाह	शोज़रुन	सुधारु, सुधारा करणु	सुधारणें
परिवर्धन	पुं.	1. आकार-प्रकार, विषय-वस्तु आदि में की जाने वाली वृद्धि	परिवर्धनम्	बधा, वाधा	इज़ाफ़ा	वॅडरावुन	वाधि, वधाउ	विकास, वृद्धी
		2. बढ़ाया हुआ अंश	प्रवर्धनम्	बधा, वाधा	बढ़ोतरी	वॅडरावुन	वधायलु हिसो	परिवर्धीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परिमाण	रास, संख्या	मान, परिमाण	परिमाण (न)	जोख, ओजन, परिमाण	ओनथो-क्लबा, चाङ्	परिमाण, आकार, ओजन, आयतन	परिमाणमु	निरै	मात्र, अळवॅु	अळतॅ
परिमार्जन, धोवुं ते	स्वच्छ करप	परिमार्जन	मार्जन, प्रक्षालन (क्ख)	परिमार्जित करा	शुदोक्पा	परिमार्जन, प्रक्षालन, स्वच्छ	परिमार्जनमु, तोमुट	कळुवुदल्	नल्ल पोले कळुकल्	तॉळॅयुवुदु
मांजवुं ते	स्वच्छ करप	राम्ररी सफा गर्ने क्रिया	परिष्करण (न), परिष्कार	परिष्कार	चाम्थोक्पा	परिष्कार	परिमार्जनमु, तोमुट	शुद्दी-करिप्पु, सुत्तं चॅय्यल्	नल्ल पोलॅ वृत्तिया-क्कल	शुचिगॉळि-सुवुदु
सुधारेळुं	सुधारप	सच्चाउने काम, परिमार्जन	संशोधन, परिमार्जन	शुधरणि, संशोधन	शेम्दोक्पा	संशोधन, मार्जित, परिमार्जित, ठिक	सरिदिद्दुट	पिळै नीक्कल, तिरुत्तल्	तॅट्ट तिरुत्तल्	संशोधनॅ, तिद्दुवुदु
परिवर्धन, वधारो	वाडोवप	परिवद्र्धन, प्रवर्धन	बृद्धि साधन, परिबर्धन	परिबर्धन	शेम्जिन्बा	बढ़ति, बृद्धि	परिवद्र्धनमु	कूट्टल, पेरिदाक्कुदल्	परिवद्र्धनम्	बॅळवणिगॅ
परिवर्धित	वाडयल्लो अंश	परिवृद्धि	परिबर्धित अंश	परिबर्धित अंश	शाजिन्बा	बर्द्धित-अंश	वर्धितांशमु	कूट्टिच्चेर्त्त पगुदि	परिवृद्धि	वृद्धि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
परिवहन	पुं.	माल, यात्रियों आदि को एक स्थान से ढोकर दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य (ट्रांसपोर्ट)	परिवहनम्, यातायातः	परिवहन, आवाजाई	नक़्लो-हमल/ रस्लो-रसाइल	ट्रानसपोट	ट्रांसपोर्ट, आवाजाई, आमदरफ़्त	परिवहन
परिवार	पुं.	1. एक परिवार में और विशेषतः एक कर्ता के अधीन या संरक्षण में रहने वाले लोग, कुटुंब (फैमिली)	परिवारः	परवार	ख़ानदान	परिवार, खानदान	परिवारु, कुटुंबु	परिवार, कुटुंब
		2. समान गुणधर्म वाला वर्ग	समूहः, जातिः	परवार	क़बीला (ख़ानदान)	–	कुटुंबु	कुटुंब
परिवार नियोजन	पुं.	जनसंख्या नियंत्रण का तरीका (फैमिली प्लानिंग)	परिवार-नियोजनम्	परवार-नियोजन	कुन्बाबंदी	फेमली प्लैनिंग, खानदॉन्य-मंसूबुॅबंदी	परिवार-नियोजनु, कुटुंबी रिथा	परिवार-नियोजन
परिवेश	पुं.	परिधि, घेरा; चारों तरफ का माहौल	परिवेशः	घेरा, परिवेख	कुरा	गेरुॅ	माहोलु, वातावरणु	परिवेश, वेष्टन, परिधी
परिशिष्ट	वि.	छूटा या बाकी बचा हुआ, अवशिष्ट	परिशिष्ट	बचिआ-खुचिआ	बाक़ी माँदा	पोंतुस	बचियलु हिसो, बाक़ी हिसो	उरलेला, अवशिष्ट, शिळ्ळक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वाहन-व्यवहार	येरादरी, वाहतूक	परिवहन	परिवहन, ट्रांसपोर्ट	परिबहन	ट्रान्सपोर्ट, पुथोक् पुशिन् तौबा	परिबहन, एक-स्थानरु-बोहिनेबा बा-स्थानांतरित-करिबा	परिवहनमु, खाणा	पोक्कु वरत्तु	गतागतम्	सागणे
परिवार, कुटुंब, कबीलो	कुटुंब	जहान, परिवार	परिवार वर्ग	परियाल	इमुङ् मनुङ्	परिबार, कुटुंब	कुटुंबमु	कुडुंबम्	कुटुंबं	संसार, कुटुंब
कुटुंब	वंश	वर्ग, कुटुंब	कुटुम	बर्ग, फैद, कुटुंब	इमुङ्. मनुङ्.	कुटुंब	कुटुंबमु	वगै, इनम्	वर्गं	वंश
परिवार-नियोजन	कुटुंब-नियोजन	परिवार नियोजन	परिवार-परिकल्पना, फैमलि-परिकल्पना	परियाल , परिकल्पना	अङाङ् पोक्तनबा थौराङ्, फैमिली प्लानिंग	परिबार-नियंत्रण-जोजना	कुटुंब नियंत्रण	कुडुंब कट्टुप्पाडु	कुटुंबासूत्रणम्	कुटुंबयोजन
परिवेश	परिवेश	परिवेश, वातावरण	परिबेश, परिबेष्टन, परिधि	परिधि, बेर	नाक्-येत्, अकोइबा	परिबेश, परिवेष्टनि, परिधि	पर्यावरणमु	चुट्टु चूळल्	चुट्टुपाटुँ	वातावरण, परिसर
परिशिष्ट	उरिल्ले (ल्लो,ल्ली), अवशिश्ट	उब्रेको, शेष, अवशिष्ट	अबशिष्ट, परिशिष्ट	अवशिष्ट , बाकी	वात्हौबा	अबशिष्ट, बलका	परिशिष्टमु	अनुबंदम्, पिन् इणैप्पु	अनुबंधम्	परिशिष्ट, अनुबंध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	पुं.	पुस्तकों आदि के अंत में दी जाने वाली वे बातें, जो मूल में आने से रह गईं हों अथवा जो मूल में आई हुई बातों के स्पष्टीकरण के लिए हों	परिशिष्टम्	अंतका	ज़मीमा	पोंत वचुन	ज़मीमो, परिशिष्ट	परिशिष्ट, पुरवणी
परिश्रम	पुं.	मानसिक या शारीरिक श्रम, मेहनत	परिश्रम:	मेहनत	मेह्नत (रियाज़त)	मेहनथ	मेहनत	मेहनत, परिश्रम
परिषद्	स्त्री.	1. किसी संस्था के निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों का समूह (कौंसिल)	परिषद्	परीशद	कौंसिल	कोंसल	परिषद, काऊंसिल	परिषद्
		2. सभा	–	परीशद, कौंसल	मज्लिस	ओंजमन	सभा, परिषद	सभा, संमेलन
परिष्कार	पुं.	1. अच्छी तरह ठीक और साफ करने की क्रिया या भाव	परिष्कार:	सफ़ाई	इस्लाह	सफ़ॉयी	सुधारु	परिष्कार
		2. त्रुटियाँ, दोष आदि दूर करके सुंदर, सुरुचिपूर्ण और स्वच्छ बनाना	परिष्कार:	सफ़ाई	हुस्नकारी	सफ़ॉयी	भुल-सुधारु	परिष्कृत
		3. निर्मलता, स्वच्छता	निर्मलत्वम्	सफ़ाई	सफ़ाई	सफ़ॉयी	सफ़ाई	निर्मलळपणा, स्वच्छता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पुरवणी	परिशिश्ट	परिशिष्ट	परिशिष्ट	बिबरणि	लाइरिक्की मनिङ्दा हापचिल्ल-कपा शरुक	परिशिष्ट, बिबरणि	अनुबंधमु	पिन् इणैप्पु	अनुबंधम्	अनुबंध
परिश्रम, महेनत	म्हेनत	मिहिनेत, परिश्रम	परिश्रम	परिश्रम	नोँबा, होत्लबा	परिश्रम, कार्य	श्रम	उळैप्पु	परिश्रमम्, प्रयत्नं	श्रम
परिषद्, काउन्सिल	सल्लागार समिती, प्रशासकीय समिती	परिषद	परिषद	परिषद	परिषद्	परिषद, मंडल, सभा	परिषत्तु	मन्ऱम् अवै	परिषत्तुं	परिषत्तु
सभा	सभा	सभा	सभा	सभा, समिति, संघ	सभा	सभा, सम्मिलनी	परिषत्तु	अवै	सभ	सभे
परिष्कार	साफसूफ	परिष्कार	परिष्कार	परिष्कार	शेम्दोक्पा	परिष्कार-करिबा	परिष्कारमु	शुद्दि-करिप्पु	शुद्धिकरणम्	शुचि
परिष्कृत	परिष्कृत	सजावट	परिच्छन्नता, परिष्कार	निर्दोषिता, परिच्छन्नता	चुम्थोक्पा, शेङ्दोक्पा	परिच्छन्नता, परिष्कार	परिष्कारमु	शीर् पडुत्तल्	परिष्क-रिक्कल्	संशोधने, परिमार्जने
निर्मळता, स्वच्छता	निवळसाण	स्वच्छता, निर्मलता	निर्मलता, स्वच्छता	निर्मलता, स्वच्छता	तरु-तरुबा, अरुबा	निर्मलता, स्वच्छता	परिष्कारमु	तूय्मै	स्वच्छत	स्वच्छते

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
परिस्थिति	स्त्री.	चारों ओर की स्थिति, हालत (सर्कमस्टांसिस)	परिस्थिति:	हालत	हालात	हालाथ	हालत	परिस्थिती
परीक्षण	पुं.	1. परीक्षा करने या लेने की क्रिया	परीक्षणम्	परख	इम्तिहान	इम्तिहान-ह्यौंन	परख	परीक्षण
		2. जाँच, परख	परीक्षणम्	परख	आज़माइश	इम्तिहान, अज़मावुन	जाच	तपासणी, पारख
परीक्षा	स्त्री.	1. किसी के गुण, धैर्य, योग्यता, सामर्थ्य आदि की ठीक-ठाक स्थिति जानने या पता लगाने की क्रिया या भाव	परीक्षा	परीखिआ, इमतिहान	इम्तिहान	इम्तिहान	परीक्षा, परीख्या, इम्तिहानु	परीक्षा
		2. जाँच-पड़ताल या देख-भाल	परीक्षा	परीखिआ	जांच पड़ताल	इम्तिहान	जाच पड़ताल	तपासणी
परोक्ष	वि.	1. आंखों से ओझल	परोक्ष	परोख, परोखे	ग़ाइब	पथकुन	नज़रि न ईदंडु, ग़ाइब	परोक्ष, अप्रत्यक्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परिस्थिति	परिस्थितीं	अवस्था, परिस्थिति	परिस्थिति, अबस्था	घटना, परिस्थिति, चारिओ– फालर अवस्था	फिभम, अकोइबगी फिभम	परिस्थिति, घटणा, प्रसंग, बिबरणि, बृतांत, अबस्था, बिषय	परिस्थिति	चूऴ्निलै	परित:स्थिति	सन्निवेश, परिस्थिति, संदर्भ
परीक्षण, परीक्षा	परिक्षण	परीक्षण	परीक्षण (क्ख) (न)	परीक्षण, परीक्षणकरा कार्य	परीक्षा	परीख्यण, परीक्षा, परखिबा	परीक्षिंचुट	परिशोदनै	परीक्षिक्कल्	परीक्षॅ
तपास, पारखुं	तपास	जाँच, परख	परख, जाचाइ	परीक्षा	चाङ्– येङ्बा	जांच, परीक्षा	परीक्षिंचुट	परीट्चै, आय्वु	परीक्षणम्, परिशोधनम्	शोधनॅ
परीक्षा, कसौटी	परिक्षा	जाँच, परीक्षा	गुणागुण बिचार, परीक्षा	परीक्षा	लाप्थो– क्खिबा	परीख्या, कसटिबा	परीक्ष	परीट्चै, तेर्वु	परीक्ष	परीक्षॅ
तपासणी	तपासणी	जाँचबुझ, खोजीनिती	गुणागुण	निरीक्षण, परीक्षण	नाकोइनबा	निरिक्षण, परिक्षण, परिक्षा	परीक्ष	आय्वु	अन्वेषणम्	परिशीलनॅ
परोक्ष	दोळया मुखार नाशिल्ले	परोक्ष	चोखेर आड़ाल, परोक्ष, अदृश्य	परोक्ष, अप्रत्यक्ष	खुमज– न्खिबा	परोक्ष, पछरे	परोक्षमु	पुलप्पडाद, मरैवान	परोक्षमाय	परोक्ष

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जो सामने न हो, अनुपस्थित	परोक्ष	परोख, परोखे	ग़ाइब	पथकुन	ग़ैर हाज़िर	जे समोर असत नाही, अनुपस्थित
		3. छिपा हुआ, गुप्त	–	परोख, परोखे	ग़ाइब	पथकुन	लिकलु, गुझो	गुप्त
	पुं.	1. आँखों के सामने न होने की अवस्था, अनुपस्थिति	परोक्ष	परोख, परोखे	ग़ैर हाज़िरी	पथकुन	ग़ैर–हाज़िरी	अनुपस्थिती, गैर हजेरी
		2. व्याकरण में पूर्ण भूतकाल	परोक्षम्	पूरण भूतकाल	माज़ी मुत्लक़	पथकुन	पूरण भूतकालु	परोक्ष (भूतकाळ)
परोपकार	पुं.	दूसरों की भलाई का काम	परोपकारः	पर उपकार	नेकी (कारे ख़ैर)	पर वोँपकार	पर–उपकारु	परोपकार
पर्यटक	पुं.	देश–विदेश में घूमने–फिरने वाला	पर्यटकः	सैलानी	सय्याह	सॉलान्य, विज़िटर	सैलानी	पर्यटक, प्रवासी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अप्रत्यक्ष, गेरहाजर	मुखार नाशिल्ले	अप्रत्यक्ष	अनुपस्थित	अनुपस्थित	मीत्माङ्दा	दृष्टि-आढुआलरे	प्रत्यक्षमुगा-लेनि	मरैमुगमान	मुन्पिल् इल्लात्त	एंदुरिगिल्लद
गुप्त	गुप्त	अनुपस्थित	लुकानो, गुप्त	गुप्त	मीत्माङ्दा लैतबा	गुप्त	दागिन	मरैंदुळ्ळ	परोक्षम्	गुप्तवाद
गेर हाजरी	गैरहज़र	अप्रत्यक्ष	चोखेर अँतराल, अनुपस्थिति	अनुपस्थिति	–	अनुपस्थिति, परोक्ष	अनुपस्थिति, गैरु हाजरु	इल्लामै	परोक्ष-मायिरि-क्कल्	अगोचरतं
परोक्ष (भूतकाळ)	भूतकाळ (व्याकर-णांत)	पूर्ण भूतकाल	अतीत काल, भूतकाल (व्याकरणे)	भूतकाल, अतीतकाल	–	अतीत-काल, पूर्ब-समय	पूर्ण भूतकालमु	इरंदकाल मुट्टुविनै	परोक्ष भूतकालम्	भूतकाल
परोपकार	परोपकार	परोपकार	परोपकार	परोपकार	अतोप्पगी याइफनबा तौबा, मीगी काननबा तौबा	परोपकार	परोपकारमु	उपकारम्	परोपकारम्	परोपकार
पर्यटक	प्रवासी, फिरतलो, प्रवास करतलो	पर्यटक, घुमक्कड	पर्यटक (ज)	पर्यटक, भ्रमण-करोंता	लम् कोइगन्बा	पर्ज्यटक, जात्री	पर्याटकुडु	पयणि, चुट्टुला पयणि	संचारि	पर्यटक, संचारि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पर्यटन	पुं.	अनेक महत्वपूर्ण स्थल देखने तथा मन-बहलाव के लिए किया जाने वाला भ्रमण	पर्यटनम्	सैल सपाटा	सियाहत	सॉल	सैलु, सैरु-सपाटो	पर्यटन, प्रवास
पर्याप्त	वि.	जितना आवश्यक हो उतना सब, यथेष्ट, काफी	पर्याप्त	काफी	काफ़ी	स्यठा, वार्याह	काफ़ी, जेतिरो ज़रूरी ओतिरो	यथेष्ट, पर्याप्त
पर्याय	पुं.	समानार्थक शब्द	पर्यायः	परिआइ	मुतरादिफ़, मुरादिफ़	ह्युव-लफ़ुज़	हम माना, सम अर्थी	पर्याय, समानार्थक शब्द
पर्व	पुं.	1. ग्रंथ आदि का अंश, खंड, भाग	पर्वन्	परव	जुज़व	वोंछुब, बोंडदोंह	अध्याउ, बाबु	अध्याय, पर्व
		2. उत्सव और त्योहार	पर्वन्	पुरब	तक़रीब	वोंछुब, बोंडदोह	डि॒णु	उत्सव, पर्व
पर्वतारोहण	पुं.	पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया	पर्वतारोहणम्	परबत-चढ़ाई	कोहपैमाई	पहाडस खसुन	पहाड़ ते चढ़ाई	पर्वतारोहण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पर्यटन, मुसाफरी	प्रवास	पर्यटन	पर्यटन (ज)	पर्यटन, भ्रमण	लम् कोइबा	पर्ज्यटन, भ्रमण-स्थान बा-स्थल	पर्यटनमु	चुट्टुला	पर्यटनम्	पर्यटन, संचार
पर्याप्त, पूरतुं, संपूर्ण	जायतितले	प्रशस्त, यथेष्ट, पर्याप्त	पर्याप्त, प्रचुर, यथेष्ट	यथेष्ट, पर्याप्त, प्रचुर	मतिक् चाबा अर्थ-मान्नबा वाहै	पर्ज्याप्त, जथेष्ट, प्रचुर, अपर्ज्याप्त, अनेक	चालिनंत, पर्याप्तमु	पोदुमान	पर्याप्तम्, वेण्टत्र	साकष्टु, साकागुवष्टु
पर्याय, समानार्थ शब्द	समानार्थक	पर्याय, समानार्थक	पर्याय, समानार्थ-बोधक शब्द	पर्यायबाची शब्द, समानार्थक शब्द	शरुक, कुम्है	पर्याय, समानार्थक शब्द	पर्यायपदमु	समच्चोल्	पर्यायम्	पर्याय, बदलिगे
ग्रंथनो भाग	भाग	ग्रंथ आदिको खण्ड	अध्याय (ग्रंथेर)	अंश, भाग, अध्याय	चीङ् काबा	ग्रंथर-बिभाग, अंश, अध्याय	पर्वमु	परुवम्	पर्वम्, अध्यायम्	पर्व
तहेवार, पवित्र दिवस	परब	चाड, पर्व	पर्व, उत्सब	उत्सव, पर्व, पवित्र दिन	–	उत्सब, पर्ब	पंडुग	तिरुविळा, पंडिगै	उत्सवम्	हब्ब
पर्वतारोहण	पर्वतार चड़प	पर्वतारोहण	पर्बतारोहण (न)	पर्बतारोहण	लैथोक्खि चेन्थोक्खिबा	पर्बतारोहण	पर्वतारोहणमु	मलै एरुदल	पर्वतारोहणं	पर्वतारोहण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पलायन	पुं.	निकल भागने या बच निकलने की क्रिया या भाव	पलायनम्	फरार, पलाइन	फ़रार	च़लुन, पोंत ह्योंन	भाज़ि फ़रारियत	पलायन
पवन	पुं.	वायु, हवा	पवनः	पौण	हवा	हवा	वाउ, हवा	हवा, वारा, पवन
पवित्र	वि.	1. शुद्ध, पाक	पवित्र	पवित्तर	पाक	श्रूच, शूच़	पवित्र, पाक	पवित्र, पुनीत, पावन
		2. पूज्य व्यक्ति	पवित्र	पवित्तर	मुक़द्दस	श्रूच, शूच़	पवित्र, पाक	पूज्य व्यक्ती
		3. साफ, स्वच्छ, निर्मल	पूत	पवित्तर	पाक	श्रूच, शूच़	पवित्र, पाक	स्वच्छ, निर्मळ
पशु	पुं.	जानवर, डंगर, चौपाया	पशुः	पशू	जानवर	पोंश, गुपुन	पसूं, ढोरु	जनावर, पशु

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पलायन	पळून वचप	सुइँकुच्वा, पलायन	पलायन, पालानो	पयालाय, पलोवा खसि पलाइबा	नुङ्शित्	पलायन	पलायनमु	तप्पि ओडुदल	पलायनम्	पलायन, ओडिहोगु
पवन	हवा, वारो	हावा, बतास, पवन	बातास, पबन, बायु, हाओया	बताह, बायु बतर	अशेङ्बा	पबन, वायु, हावा	गालि, पवनमु	काट्टु	वायु	गाळि
पवित्र, शुद्ध, पावन	अनवाळें	शुद्ध, चोखो	पबित्र (पदार्थ), शुद्ध	पवित्र	थमोइ शेङ्बा	पबित्र, शुद्ध पदार्थ	पवित्र – मयिनॆ	तूय्मैयान	पवित्रम्	पवित्र
पवित्र (व्यक्ति)	पूज्य, पवित्र	निर्मल, पूज्य	निष्कपट, धार्मिक व्यक्ति	धार्मिक, पुज्य–ब्यक्ति	अरुबा, अशेङ्बा मोत्बा	धार्मिक, पूज्य–व्यक्ति	पवित्र– मयिनॆ	पूजिक्क–त्तक्क	सद्वृत्तन	पवित्रात्मा
साफ, स्वच्छ	निर्मळ, स्वच्छ	सफा, सुग्घर, पवित्र	साफ, स्वच्छ, विशुद्ध, निर्मल	चाफा, निका, निर्मल	–	स्वच्छ, निर्मल, सफा, बिशुद्ध	स्वच्छॆ– मयिनॆ	माशट्ट	वृत्तियाय, निर्मलमाय	निर्मल
पशु, जानवर	जनावर	जनावर, पशु	पशु, जंतु, जानोयार	पशु, जंतु	शा	पशु, जंतु	पशुवु	मिरुगम्	मृगम्	दन, पशु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पश्चाताप	पुं.	पछतावा, किसी कर्म के बाद उसके अनौचित्य का भान होने पर मन में होने वाला दुःख	पश्चात्तापः, परिवेदना	पछतावा	पशेमानी	पछताव	पछिताउ	पश्चाताप
पसारना	स. क्रि.	1. अधिक विस्तृत करना	प्र +√स्तारय्	पसारना	वसी करना	वाहरावुन	फहिलाइणु	अधिक विस्तृत करणें
		2. फैलाना	वि √स्तारय्	पसारना	फैलाना	वाहरावुन	–	पसरविणें
पसीना	पुं.	ताप, परिश्रम आदि के कारण शरीर या अंगों में से निकलने वाले जलकण, स्वेद	स्वेदः	पसीना, मुड़्का	पसीना	गुमुॅ	पघरु, पसीनो	घाम, स्वेद
पहचान (पहिचान)	स्त्री.	1. पहचानने की क्रिया, भाव या शक्ति	अभिज्ञानम्	पछाण	पहचान	ज़ान	सुञाणप	ओळख
		2. कोई ऐसा चिह्न या लक्षण जिससे पता चले कि वह अमुक व्यक्ति या वस्तु है	लक्षणम्	पछाण	अलामत	ज़ान	सुञाणप जी निशानी	खूण, चिन्ह

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पश्चात्ताप, पस्तावो	पश्चाताप	पछुतो, पछितो, थकथकी	अनुताप, पश्चात्ताप	पश्चाताप, अनुताप, अनुशोचना	निङ्ड.म्दबा	पश्चात्ताप, अनुताप	पश्चात्तापमु	पच्चात्ताबम्, परिताबम्	पश्चात्तापम्	पश्चात्ताप
पसारवुं	पसरप	फिँजाउनु, पसार्नु	पसार, प्रसारित करा	अधिक विस्तृत कर	शंदोक्पा	बिस्तारिबा, प्रसारिबा, ब्यापिबा, बिस्तृत-हेबा	चाचुट	विस्तरिक्क	विरिक्कुक, विस्तरिक्कुक	हरडु, विस्तारि-सुवुदु
फेलाववुं	पसरावप	फैलाउनु	छड़ानो	बहला	तिङ्थो-क्पा	खेलिबा, बिस्तृत हेबा	व्यापिंप चेयुट	परप्प	परत्तुक	हरडिसुवुदु
परसेवो, पसीनो, प्रस्वेद	हूम, घाम	पसिना, प्रस्वेद	घाम, घर्म	घाम	हुमाङ्	झाल, स्वेद	चेमट	वियर्वै	वियर्प्पु	बेवरु
पिछाण, ओळखाण	वळख	पहिचान	चेना, परिचय	चिना कार्य बा भाव	मशक् खङ्बा	चिन्ह्या, परिचय	गुर्तुपट्टुट	अडैयाळम् तेरिंदु कोळ्ळल्	तिरिच्चरि-यल्	गुरुतिसुवुदु, गुर्तुहिडियुवुदु
माहिती	कुरु, चिह्न	चिनु, पहिचान	अभिज्ञान, चिन्ह	चिन	मशक् खङ्नबा	परिचय, चिह्त, चिन्हिबा	गुरुतु	अडैयाळम्	लक्षणम्	गुरुतु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. परिचय	परिचय:	पछाण	शनासाई	ज़ान	पछाण, वाक़िफ़ियत	परिचय
पहचानना	स. क्रि.	1. चित्रों, लक्षणों, रूप-रंग के आधार पर व्यक्ति या वस्तु को जानना या समझ लेना कि यह अमुक व्यक्ति या वस्तु है जिसे मैं पहले से जानता हूँ	प्रत्यभि √ज्ञा	पछानणा	पह्चानना	ज़ानुन	सुञाणणु	ओळखणें
		2. किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण-दोषों, योग्यताओं आदि से भली-भाँति परिचित होना	सम्यक् √ज्ञा	पछानणा	शनाख़्त करना	ज़ानुन	पछाणणु	गुणदोष जाणणे
पहनना	स. क्रि.	कपड़े, गहने आदि धारण करना	परि √धा	पाउणा, पहिनणा	पहनना	छ्ॅनुन, गंड़ुन	पहिरणु, पाइणु	घालणें
पहनावा	पुं.	1. पहनने के कपड़े, पोशाक	परिधानम्	पहिरावा	पोशाक	पोंशाख	पोशाक	कपड़े, पोशाक
		2. किसी जाति, देश आदि के लोगों द्वारा सामान्यत: पहने जाने वाले कपड़े	वेश:	पहिरावा	लिबास	पोंशाख	पहिराउ	वेशभूषा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परिचय	ज़ाणप	परिचय, चिह्नारी	परिचय	परिचय, चिनाकी	मशक ताकपा	परिचय-जाणिबा	परिचयमु, एरुक	अरिमुगम, परिच्चयम्	परिचयम्	परिचय
पिछाण, ओळखावुं	वळखप	चिन्नु, पहिचान्नु	चेना, परिचित बलिया जाना	चिनाक्त कर, चिनाकि बा चिना	मशक खङ्बा	चिन्हिबा	गुर्तुपट्टुट	अडैयाळम् तॅरिंदु-कॉळ्ळ	तिरिच्च-रियुक	गुरुतिसुवुदु
परिचित होवुं	ज़ाणप	परिचित हुनु	दोष गुण बोझा (न)	परिचित ह	निथिजना खङ्बा	गुण-दोष-सहित-परिचित-हेबा बा-जाणिबा	गुर्तुपट्टुट	गुणादिश-यंगळै अरिय	मनस्सि-लाक्कुक	गोत्तु इरुवुदु
पहरेवुं	न्हेसप	पहिरिनु, पैन्हनु	परा	पिंध, पिंधा	शेत्पा	पिंधिबा, परिधान-करिबा	धरिंचुट	उडै, आडैगळ्	वेषम्, वस्त्रङ्ङळ्	बट्टे तोडु
पोशाक, लेबास	न्हेसणां	लुगा, पोसाक	पोशाक-परिच्छद	पोछाक, साज, बेश-भूषा	फीजेत, पोशाक	पिंधिबा-बस्त्र, पोषाक-पत्र, बेशभुषा	वेषधारण	उडै, आडैगळ्	वेषम्, वस्त्रङ्ङळ्	पोषाकु
वेशभूषा	वेशभूशा	पहिरन, परिधान	बेशभूषा	पोछाक, परिधान, वेश भुषा	फीजेत, फीजोल	पहरण, परिधान, पोषाक	दुस्तुलु	उडुप्पु	वस्त्रधारणम्, उटुप्पुं	उडिगॆ-तॊडिगॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पहरेदार	पुं.	चौकीदार, संतरी	दौवारिक, प्रतीहार	पहिरेदार	पह्रेदार	पहरूँदार	पहरेदारु	पहारेकरी, प्रहरी
पहलवान	पुं.	कुश्ती लड़ने वाला मजबूत और कसरती व्यक्ति	मल्ल	पलवान, पहिलवान	पह्लवान	पहलवान	पहलवानु	मल्ल, पैलवान
पहला	वि.	1. समय के विचार से जो आदि में हुआ हो	प्रथम	पहिला	पहला (अव्वल)	गोंडन्युक	पहिर्यों, आदि	पहिला, प्रथम, आदि
		2. प्रथम	आद्य	पहिला	इब्तिदाई	गोंडन्युक	इब्तिदाई	पहिला
		3. वर्तमान से पूर्व का, विगत	–	पहिला	अव्वल	गोंडन्युक	अव्वल	पूर्वाचा, विगत
पहले	क्रि. वि.	1. आदि, आरंभ या शुरू में, सर्वप्रथम	पूर्वम् / प्राक्	पहिलों, पहिलां	पहले (शुरू में)	गोंडुं	पहिरीं	आरंभी, पूर्वी, सर्वप्रथम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पहेरेदार, पहेरेगीर, चोकीदार, संत्री	वॉचमन	पाले, संतरी	प्रहरी, चौकिदार, पाहारादार	चंतरी, परीया, प्रहरी	चौकिदार, थोङ्- ङाकपा	पहराबाला, पाहारी, प्रहरी, चौकिदार	कापलःवाडु	पाराक्कारन्, कावल्कारन्	पारावुकारन्	कावलुगार
पहेलवान, मल्ल	पैलवान	पहलमान	पालोयान	पालोवान	मल तौबा मी	पहिल्बान्, पहिलमान	वस्तादु	पयिल्वान्	गुस्तिक्कारन्, फयल्वान्	जट्टि, पैलवान
पहेलुं, प्रथम	पयलो	प्रथम, सुरुको	प्रथम, आदि, पयला	प्रथम, पहिला	अहौबा, अहान्बा	पहिला, प्रथम, आरंभ, आदि	मॉदटि	मुदलावदु	आद्यत्तं	मॉदलनॅय
क्रममां पहेलुं	पयलो	प्रथम, पहिला	गोड़ा, आदि	प्रथम, पहिला	अहौबा, अहान्बा	आगरे, आरंभ- कालीन	मॉदटि	तॉडक्क- त्तिलुळ्ळ	ऑन्नामत्तं	मॉदलनॅय
पहेलां, अगाउ, पूर्वे	पयलो	अगिल्लो, विगत	विगत, गत	आगते, अतीत, विगत	हान्नगी	बिगत, गत, अतीत, पूर्बरु बा प्रथमे	मुनुपटि, मॉदटि	इदर्कु मुंदिय	पळय, मुन्	हिंदिन, मुंचिन
शरूआतमां	पयले	पहिले, सर्वप्रथम	प्रथमे, गोड़ाय	आगते, प्रथमे	अहौबा, इहान हान्बा	आरंभरे	मॉदट	मुदल्- मुदलिल्	आद्यम्, आरंभत्तिल्, ऑन्नामतु	मॉट्टमोदलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. काल, घटना, स्थिति आदि के क्रम के विचार से आगे या पूर्व	पूर्व	पहिलों, पहिलां	मुक़द्दम	गोंड्डुँ	पहिर्याईं	पुढे, पूर्वी
		3. बीते हुए समय में, पूर्वकाल में, पुराने जमाने में	पुरा	पहिलों, पहिलां	इबतिदा में	गोंड्डुँ, पथकालि	पहिर्याईं	पूर्वकाळचा
पहाड़	पुं.	पर्वत, चट्टानों का वह प्राकृतिक पुंज जो जमीन की सतह से बहुत ऊँचा होता है	पर्वत	पहाड़ (कोह)	पहाड़ (कोह)	बाल, पहाड	पहाड़ु, जबलु	डोंगर, पर्वत, कोह
पहाड़ा	पुं.	किसी अंक की गुणन सारणी	गुणनसारणी	पहाड़ा	पहाड़ा	पहाड़ुँ	खोड़ो	पाढा
पहिया	पुं.	1. गाड़ी, यान आदि का वह गोलाकार हिस्सा, जिसकी धुरी पर घूमने से गाड़ी या यान आगे बढ़ता है	चक्रम्	पहीआ	पहिया, हलक़ा	पयि	फीथो, चाकु, चक्रु	चाक, चक्र
		2. यंत्र का चक्र, यंत्रों आदि में लगा हुआ उक्त प्रकार का गोला-कार, जिसके घूमने से उस यंत्र की कोई क्रिया संपन्न होती है	रथचक्रम्	पहीआ	चर्ख़ी	रथुक ज़्रखुँर	चर्ख़ी	चक्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सौथी, आगळ	पोन्न्ने	सुरुमा, अगाडि	आरंभे, अग्रे	आगते, प्रथमे	ममाङ्	पूर्बरे, पूर्बे	मांदट, पूर्वमु	मुन्नाल्	मुंटुं	हिंदिन
पहेलां, पूर्वे	पयल काळांत	उहिले नै, प्राचीन-कालमा	आगे, पूर्वे	आगते, आगर दिनत	ममाङ्डैदा, हौखबदा	बिगत, पुरातन, पूर्वरु	मांदट, पूर्वमु	पळंकालत्तिल्, मुर्कालत्तिल	मुन्पुं, पण्टुं	हिंदे
पहाड़, डुंगर, पर्वत	रान, दोंगर	पहाड, पर्वत	पाहाड़, पर्बत	पाहार	चीङ्	पाहाड़, पर्बत	पर्वतमु	मलै	पर्वतम्, मल	बेट्ट, पर्वत, गुड्ड
पहाड़, आंकनो घडियो, गडियो	पाढो	दुनोट, पहाडा	नामता (पड़ा)	पुरण नेओता	शुप्लाक्	गुणन, पणकिआ	ऍक्कमु	वाय्पाडु (पेरुक्कल)	गुणनप्पट्टिक	मग्गि
पैडुं	च़ाक	पाङ्ग्रो, पहिया	चाका	चका	काङ्खोङ्	चक बा चका	चक्रमु	वंडियिन् चक्करम्	चक्रम्, उरुळ्	गालि, चक्र
चक्र	चक्र	चक्का, चक्र	यंत्रादि चालित करा चक्र बिशेष	चका, चकरी	चका	गोलाकार चक बा चकी	चक्रमु	यंदिरंगळिन् चक्करम्	चक्रम्	गालि, बैगुळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पहुँचना	अ. क्रि.	1. (वस्तु अथवा व्यक्ति का) एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर उपस्थित या प्रस्तुत होना	प्र+ √आप्	पहुंचणा	पहुंचना	वातुन	पहुचणु	पोचणे
		2. किसी स्थान या पद आदि को प्राप्त होना	प्र+ √आप्	पहुंचणा	पहुंचना	वातुन	पहुचणु	एखादे स्थान वा पद प्राप्त करणें
पांडुलिपि	स्त्री.	पुस्तक, लेख आदि की हस्तलिखित या मुद्रण योग्य प्रति	पाण्डुलिपिः	खरड़ा	मुसव्वदा	कलमी-नॉस्खुॅ, अथुॅलीखिथ	क़लमी नुस्ख़ो, हथ-अखरी लेखु	हस्तलिखित
पाक्षिक	वि.	1. चांद्र मास के पक्ष से संबंध रखने वाला	पाक्षिक	पक्खवार	–	पॅछूय	पख-वारो/री	पाक्षिक
		2. जो एक पक्ष (15 दिन) में एक बार होता है	पाक्षिक	पक्खवार	पंद्रह रोज़	पॅछूय	अधमाही	पाक्षिक
पाखंड	पुं.	1. दिखावटी आचरण, उपासना या भक्ति	पाखण्डः	पखंड	रिया (रियाकारी)	पाखंड, हावबाव	पाखंडु	पाखंड, ढोंग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पहोंचवुं, पूगवुं जवुं	पावप	पुग्नु	पौंछानो	गै पा, उपस्थित होवा	यौबा	पहंचिबा, उपस्थित हेबा	चेरुट	पोय् चेर	एंत्तुक	तलुपु, सेरु, मुट्टु
–	पदार पावप	पुग्नु, पहुँचनु	पौंछोनो	लाभकर	फङ्बा	लाभ करिबा, प्राप्त करिबा	पांदुंट	ओरु इडत्तै/ पदवियै/ अडैय	एंत्तिच्चेरुक, प्रापिक्कुक	तलुपुवुदु पर्डयुवुदु
हस्तप्रत, मूलप्रत, काचो खरडो	हस्तलिखीत, हातबरपावळ	पाण्डुलिपि, गुरुकापी	पांडुलिपि	पांडुलिपि	खुर्ड, पांडुलिपि	पांडुलिपि, मुद्राक्षर, लिपि, हातलेखा	व्रातं- प्रति	कै एंळुत्तु- पिरदि	कय्यंळुत्तु प्रति	हस्तप्रति
पाक्षिक, पख- वाडिक	पंद्रस	पाक्षिक	पाक्षिक	पषेकीया, पषेक	पाङ्खत्ल- क्पगी	पक्ष, अधामास	पाक्षिकमैनं	वळर् पिरै/ तेय् पिरैयै चान्द	पाक्षिकम्	पाक्षिक
पखवाडिये थतुं	पाक्षिक	पाक्षिक, पक्ष	पाक्षिक	पषेकीया	तरा मङा- निपालबा, ताखाइ	पक्ष, अध- मास	पाक्षिकमैनं	पदिनैंदु नाळुक्कु ओरु मुरै निगळ्गिर्	पाक्षिकम्	पाक्षिक
पाखंड, ढ़ोंग	ढोंग	पाखण्ड	भण्डामि, भान	भंडामि, कपटिया	तात् तौशिन्नबा लाइनिङ्बा	पाषांड, भंड, ठक, कपटिआ	बूटकमु	पोय् नडतै, वेळिवेषम्	कपटाचरणम्, कळ्ळ भक्ति	बूटाटिकें, सोगु, आषाढभूति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पूजा-पाठ आदि का आडंबर, ढकोसला, ढोंग	पाखण्ड:	पखंड	ढकोसला	पाखंड, हावबाव	ड॒खाउ	अवडंबर, ढोंग
पागल	वि.	जो किसी तीव्र मनोविकार के कारण ज्ञान या विवेक खो बैठा हो, विक्षिप्त, सनकी	पागल	पागल	पागल	पागल	पाग॒ल, चर्यो	वेडा
पाचक	वि.	पचाने वाला	पाचक	पाचक	हाज़िम	वाज़ुॅ	हाज़मेदार	पचविणारे
	पुं.	वह दवा जो खाई हुई चीज को पचाती या पाचन शक्ति बढ़ाती हो	पाचकौषधम्	पाचक	–	श्रोंपरावन-वोल	हाज़मेदार शइ	पाचक औषध
पाठक	पुं.	पढ़ने वाला	पाठक	पाठी, पाठक	क़ारी	परन वोल	पाठकु	वाचक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दंभ	पाखंड	ढोंग, आडम्बर, स्वाँग	भण्डामि, बुजरुकि	भंडामि	नम्थाक्, तौशिनन्बा	आडंबर	बूटकमु	पाशांगु	पुरमोटि	आडंबर, कपट, ठक्कु
गांडुं, घेलुं	पिसो	बहुलाहा, बौलाहा, सनकी	पागल, खेयालि, बातिक ग्रस्थ, मानसिक रोग	पगला, बलिया	अङाओबा	पागल, बातुल, बाया, बिकृत-मस्तिस्क, क्षिप्त, अस्थिर, उन्मत्त	पिच्चिवाडु, पिच्चदि	पैत्तियम्, किरुक्कन्	भ्रांतन्, विक्षिप्तन्, किरुक्कन्	हुच्च, तलेकेट्टव
पचावनारुं	पाचक	पाचक	पाचक	हजम कारक	तुम्ननबा	पाचक, हजमकारी	जीर्णिंप - चेयुनट्टि	चेरिक्क - च्चंय्किर्	दहिप्पि-क्कुन्नु पचिप्पि-क्कुन्नु	जीर्णिसुव, पाचक
पाचक दवा	–	पाचक	पाचक, हजमी	हजमी-औषध	तुम्ननबा हिदाक्	पाचक, हजमकारी	पाचकमु	जीरण मरुंदु	पाचनौषधं	जीर्णिसुव
पाठक, वाचक	पाठक	पाठक	पाठक	पाठक, पढ़ुवै	परिबा, अपाबा मी	शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्यायी	पाठकुडु	वाचगर्	अनुवाचकन्, वायनक्कारन्	ओदुग, पाठक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पाठशाला	स्त्री.	वह स्थान, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है, विद्यालय	पाठशाला	पाठशाला, विदिआला	मदरसा (इस्कूल)	च़ाटुॅ हाल	पाठशाला, स्कूल	पाठशाळा, विद्यालय
पाताल	पुं.	1. पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से सबसे नीचे का लोक, नाग-लोग	पातालम्	पताल	तह्तस्सरा	पाताल, तलपाताल	पातालु	पाताळ, नाग-लोक
		2. बहुत अधिक गहरा और नीचा स्थान	अधस्तलम्	पताल	पाताल	पाताल, तलपाताल	पातालु	पाताळ, खोल जागा
पात्र	पुं.	1. वह आधान, जिसमें कुछ रखा जा सके, बरतन, भाजन	पात्रम्	पातर	ज़र्फ़, बरतन	बानुॅ	बर्तणु	पात्र, भांडे
		2. ऐसा व्यक्ति, जो किसी काम या बात के लिए सब प्रकार से उपयुक्त या योग्य समझा जाता हो	अर्ह, पात्रम्	पातर	मुस्तहिक़, हक़दार	बानुॅ	लाइक, जोगो शख़्सु (कंहि कम वग़ैरह जे ख़्याल खां)	पात्र योग्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाठशाला, निशाळ	पाठशाळा, इश्कोल	पाठशाला, विद्यालय	पाठशाला, बिद्यालय	पाठशाला, बिद्यालय, पढ़ाशालि	महै तंफम्- शङ्, स्कूल	पाठशाला, बिद्यालय	पाठशाले, बडि	पाडशालै, पळ्ळि- क्कूडम्	पाठशाल	पाठशाले, विद्यालय, शाले
नागलोक	नाग- लोक	पत्ताल, नागलोक	पाताल, नागलोक	पाताल, तलट-देश	लैखा, पाताल	पाताल, नागलोक	पाताळमु	पाताळम्, कीळुलगम्	पाताळम्	पाताळ
पाताल (ळ)	पाताळ	भूगर्भ, पाताल	अति गभीर निम्न स्थान	अति द चापर ठाइ निम्न स्थान	पाताल	गहीर, गभोर, पाताल	पाताळमु	ताळ्ंद/ आळ्मान इडम्	कयम्	आळवाद
पात्र, वासण	आयदन	भाँडो, बर्तन	पात्र, बासन	पात्र, बस्तु धोवा यतन	मोत् हाप्नबा पात्र	पात्र, बासन	पात्र	पात्तिरम्	पात्रम्	पात्र
योग्य, लायक	योग्य	पात्र, सुपात्र	पात्र, योग्य व्यक्ति	पात्र, योग्य व्यक्ति मंत्री	मतिक् चारबा	उपजुक्त- पात्र	पात्रुडु	तगुदि पट्टवर्	पात्रम्	सत्पात्र, योग्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक आदि में वे व्यक्ति, जो कथा-वस्तु की घटनाओं के घटक होते हैं और जिनके क्रिया-कलाप या चरित्र से कथा-वस्तु की सृष्टि और परिपाक होता है	पात्रम्	पातर	किरदार	किरदार	पात्रु, किरदारु	पात्र (साहित्यातील)
पाना	स. क्रि.	प्राप्त करना	प्र + √आप्	पाउणा	पाना	प्रावुन, लबुन	पाइणु, हासिल करणु	मिळणें, प्राप्त करणें
पाप	पुं.	धर्म और नीति के विरुद्ध किया जाने वाला ऐसा निंदनीय आचरण या काम, जो बुरा हो और जिसके फलस्वरूप मनुष्य को नरक भोगना पड़ता हो	पापम्	पाप	गुनाह	पाफ, गोंनाह	पापु	पाप
पारंगत	वि.	जिसने किसी विद्या या शास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो	पारङ्गत	परंगत, माहिर	माहिरे-कामिल	ऑलिम, मॉहिर	माहिर, भड़ु	पारंगत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
नाटकमां वेश लेनार, नाटकनुं पात्र	पात्र	नायक, नायिका, कलाकार	पात्र, नायक (साहित्ये)	पात्र, चरित्र, दरा, वर	पात्र	पात्र, चरित्र	पात्रॅ	इलक्किय-पात्तिरंगळ, कदै मांदर्	कथा पात्रम्	पात्र
पामवुं, मेळववुं, प्राप्त करवुं	मेळवप	पाउनु, प्राप्त गर्नु	प्राप्त करा, पाओया	पा, प्राप्त कर	फङ्बा	पाइबा, प्राप्त-करिबा	पॉदुंटॅ	पॅट्टुक्-कॉळ्ळ	नेटुक	पडॆ, होंदुवुदु
पाप, दुष्कृत्य	पाप	पाप, कुकर्म	पाप, धर्म ओ नीति विरुद्ध कर्म	पाप, नीति बिरुद्ध काम, दुष्कर्म	पाप	पाप, अधर्म, नीति बिरुद्ध	पापमु	पावम्	पापम्	पाप
पारंगत, पूरेपूरां, माहितगार, निष्णात	पारंगत	पोख्त, पारङ्गत	पंडित, विद्वान, शास्त्रज्ञ (गँ)	पंडित, बिद्वान, पारंगत	महै, नत्रगा शास्त्र दा निङ्थिना लौशिङ् ज्ञान लैरबा, पारंगत	पारंगम, पारंगत, पंडित, बिद्वान	पारंगतुडु	करैकड़ंद अरिवुळ्ळ	पारंगतन्	पारंगत, पंडित

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पार	पुं.	1. झील, नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का किनारा	पारम्	पार	पार	अपोर	पार, पर्यों किनारो	पैलतीर
		2. किसी काम या बात का अंतिम पार, छोर या सिरा, विस्तार या व्याप्ति की चरम सीमा या हद	पारम्	पार	हद	अंद	पार, हद	परिसीमा व हद
पारदर्शी	वि.	1. जिसके आर-पार देखा जा सके	पारदर्शी	पारदरशी	दूरबीं	दूरबीन	शफ़ाफ़, पारदर्शी	पारदर्शी, दूरदर्शी
		2. दूरदर्शी, पारदर्शक	दूरदर्शी	–	शफ़्फ़ाफ़	दूरंदीशी	शफ़ाफ़	दूरदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शक
पारस	पुं.	एक कल्पित पत्थर जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना हो जाता है	स्पर्शमणिः	पारस	पारस	पारस	पारस	पारस
पारावार	पुं.	समुद्र	पारावार	पारावार	समुंदर	सॅदुॅर	समुंड्ड	समुद्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पार, तीर	पलतडी	पार, पारि	पार, नदीर तीर	पार, काष	वाङ्मा	पार, तीर, धार, किनार, पाख	अवतलि-ओड्डु	अक्करै, मरुकरै	मरुकर	आचेय-दड
हद, सीमा, छेडो, अंत	शीम	आखिरी छेउ, अन्तिम सीमा	पार, प्रांत, सीमा	शेष सीमा	वाङ्मा लाल्बा,	प्रांत, शेष सीमा	हद्दु	कड़ैशि एल्लै	अट्टम्	कोर्न, तुदि
पारदर्शी	पारदर्शी	पारदर्शी	पारदर्शी, बिचक्षण	पारदर्शी, विचक्षण, निपुण	मनुङ् हुत्ना खङ्बा, उबा	बिशेषज्ञ, प्रवीण, निपुण, पारदर्शी, बिचक्षण, पारग, पटु, धुरंधर	पारदर्शक-मैन	पिन् निगळुबवैगळै मुन्नरे अरियुम् तिरमैयुळ्ळ	दीर्घदर्शि	दूरदर्शि, दूरालोचक, बुद्धिवंत
दूरदर्शी	दूरदर्शी	बुद्धिमान, चलाख, पारदर्शी	दूरदर्शी, परिणाम-दर्शी (न)	दूरदर्शी, पटु, पारग	तुङ्गी खन्बा ङ्म्बा	दूरदर्शी	दूरदर्शि-अयिन	दीर्ग दरिसियान	दूरदर्शि	दूरदर्शि
पारस, पारसमणि	पारस	पारसमणि	परश पाथर	परसमणि	पारस	परश, परश-पथर	पारसमणि	मट्ट उलोगत्तै पोन्नाक्कुम् कल्	पारसमणि, स्पर्शमणि	स्पर्शमणि
पारावार, दरियो, समुद्र	समुद्र	समुद्र, सागर, पारावार	पाराबार, समुद्र	सागर, समुद्र	समुद्र	समुद्र, सागर, पाराबार, दरिआ	समुद्रमु	कडल्	पारावारम्, समुद्रम्	समुद्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पारिभाषिक	वि.	1. परिभाषा-संबंधी	पारिभाषिक	परिभाषक	इस्तिलाही	टेकनिकुॅल	परिभाषा या वस्फ़ बाबत	पारिभाषिक
		2. (शब्द) जो किसी शास्त्र या विषय में अपना साधारण से भिन्न कोई विशिष्ट अर्थ रखता हो (टेक्नीकल)	पारिभाषिक, शास्त्रीय	परिभाषक	–	–	परिभाषिक, वस्फ़ी, तकनीकी	पारिभाषिक शब्द
पारिश्रमिक	पुं.	किए हुए श्रम या कार्य के बदले में मिलने वाला धन, करने की मजूरी (रिम्यूनरेशन)	भृतिः, पारिश्रमिकम्	मेहनताना	मेह्नताना, उजरत	मेह्नुॅतानुॅ	उजूरो, मेहनताणो	मेहेनताना, मजुरी, पारिश्रमिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पारि-भाषिक	परिभाशीक	पारिभाषिक, परिभाषा-सम्बन्धी	पारिभाषिक, परिभाषा संबंधीय	परिभाषा संबंधी	करिगुंबा पोत् अमबु मशक् ताक्पा वाहै नत्रगा वाहै परेङ्, ङमखै लेप्पा	पारिभाषिक	परिभाषकु-संबंधिंचिनं	पॊरुळै विळक्कुगिर	निर्वचनात्मकम्	परिभाषॆगॆ-संबंधिसिद
टेक्नीकल	परिभाशीक शास्त्रीय, तंत्रीक	प्राविधिक	पारिभाषिक शब्द	पारिभाषिक	डेफिनेशन्	शिल्प-संबंधीय, कारिगरि-संक्रांत, उद्योग-संपर्कीय, बिज्ञान बा-हस्त-शिल्पगत	सांकेतिकं-मैनं	कलै-च्चॊल्	सांकेतिक पदम्	पारिभाषिक
महेनताणुं	पारिश्रमिक-वावराचे मोल	ज्याला, मजुरी, पारि-श्रमिक	पारिश्रमिक, मजुरि	पारिश्रमिक, मजूरि, कामर वेच	खुत्शुमन, होत्लमन	पारिश्रमिक, मजुरि, मूल	प्रतिफलमु, पारितोषिकमु	ऊदियम्	प्रतिफलम्	संभावनॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पालकी	स्त्री.	बैठने का एक प्रसिद्ध साधन, जिसे कहार या मजदूर कंधे पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं	शिविका, शिबिका	पालकी	पालकी	ज़ाँपानुँ	पालकी	पालखी
पालतू	वि.	(पशु-पक्षियों के संबंध में) जो घर में रखा तथा पाला गया हो (जंगली से भिन्न)	गृहपालित, ग्राम्य	पालतू	पालतू	पालतू	पालतू	पाळीव
पालन	पुं.	1. भरण-पोषण, परवरिश	पालनम्	पालण	परवरिश	पालुन, रछुन	पालनु, पालणु	पालन-पोषण
		2. आज्ञा, आदेश, कर्तव्य, वचन आदि का यथावत निर्वाह	नियोगानुष्ठानम्	–	बजाआवरी, तामील	पालुन, रछुन	तामील	पालन, पाळणें
पालना	स. क्रि.	1. भरण-पोषण करना, परवरिश करना	√भृ	पालणा	परवरिश करना	पालुन, रछुन	पालणु, परवरिश करणु	पालन-पोषण करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पालखी	पालकी	पाल्की	पाल्कि, शिविका	पाल्की, दोला	दोलाइ	पालिंकी, शिबिका	पल्लकी	पल्लक्कु	मंचल्, पल्लक्कुँ	पल्लक्कि
पालित, पाळेलुं	पाळीव	घरेलु, घरपालुवा, पालतु	पोषा, पालित	पोहनीया	युमदा योक्पा	गृह- पालित, पोषा	पेंपुडु	वीट्टिल् वळ्र्क्किर्	वळर्त्तुन्न	साकिद
पालन- पोषण	पाळप	भरण- पोषण, पालन	प्रतिपालन, भरण- पोषण (न)	पालन, भरण पोषण	योक्पा- थाक्पा, योक्पा	पालन, भरण- पोषण	पेंपकमु	वळर्त्तल्	पालनम्, वळर्त्तल्	पालन
पालन	पोशील्लो	पालना	पालन	पालन	ङाक्पा	पालन, भरणपोषण	पालन	परामरित्तल्	पालिक्कल्	निर्वहण
पाळवुं	पोसप	पाल्नु, भरण- पोषण गर्नु	प्रतिपालन करा	भरण- पोषण दे	योक्पा- थाक्पा	पालन- करिबा, मानिबा, मान्य करिबा	पेंचुट	परिपालिक्क	वळर्त्तुक	पालन- पोषण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पशु-पक्षियों को अपने पास रख कर खिलाना-पिलाना, पोसना	पालय्	पालणा	पालना	–	पालणु-पोसणु	पाळणें (पशु-पक्षी)
		3. आज्ञा, आदेश, प्रतिज्ञा, वचन आदि के अनुसार आचरण या व्यवहार करना	अनु +√पालय्	पालणा	बजा लाना	–	पालणु	पालन करणें, पाळणें (वचन, आज्ञा, कर्तव्य अ)
	पुं.	4. शिशुओं का झूला	दोलः	–	–	मंजुल	पालणो	पाळणें
पावन	वि.	1. पवित्र	पावन	पावन	पाक, ताहिर	श्रूच़	पवित्र, पाक	पावन, पवित्र
		2. (समस्त पदों के अंत में) पवित्र करने या बनाने वाला	पावन	पावन	मुतह्हिर	–	–	पवित्र करणारा
पाश	पुं.	वह चीज, जिससे किसी को बाँधा जाए, बंधन, फंदा	पाशः	फाही, फंदा	फंदा	फंदॖ, ज़ाल	फंदो, ब॒धणु	पाश, बंधन, जाळें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाळवुं, पोषवुं	पालन पोशण करप	हेरविचार गर्नु, पाल्नु, पोस्नु	पालन करा, पोषा	पोह	योक्पा	पालिबा, पोषिबा, संरक्षण-करिबा	पेंचुट	वळक्र्क	वळर्त्तुक	साकुवुदु
मानवुं	पाळप	पालना गर्नु, मान्नु	पालन करा	पालन कर	ङाक्पा	पालिबा	पालिंचुट	अनुसरिक्क	पालिक्कुक	निर्वहण
पारणुं	पाळणें	झोलुङ्गो, कोक्रो	–	–	–	–	ऊथलॆ	–	–	तोट्टिलु
पावन, पवित्र, शुद्ध	पवित्र	चोखो, शुद्ध	पबित्र	पबित्र	अशेङ्बा	पबित्र, शुद्ध, शुचि	पवित्रमैन	वळक्र्क	वळर्त्तुक	पवित्र
शुद्ध करनारुं	पवित्र करपी	पवित्र पाबन	पाबनं	पबित्र करोंता	–	पुरोहित, ब्राह्मण	पवित्रमु चेयुनट्टि	तूय्मै आक्कुगिर्	पवित्र-माक्कुन्न	उद्धारक
पाश, फांसो, गाळो	पास	पासो, जाल, पाश	फांद, फाँसि, जाल	फंदि, जरी लेजू	फाजिन्बा, फाबा थुबा, कोनशिन्बा	फंदा, फाश, बंधन, चक्रांत, षड़जंत्र	पाशमु, त्राडु	पाशक् कयिरु	पाशम्, कयरु, कुरुक्कुँ	पाश, बर्ल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पास	क्रि.वि.	1. जो अवकाश, काल आदि के विचार से अधिक दूरी पर न हो, निकट, समीप	पार्श्व	कोल, पास	क़रीब	नखुँ, निशि	वेझो, क़रीब	निकट, जवळ, समीप
		2. अधिकार में, हाथ में	पार्श्व	कोल, पास	क़बज़े में	अथस मंज़	वटि, हथ में	अधिकारांत, हातांत
		3. जो जाँच, परीक्षा आदि में उपयुक्त या ठीक ठहरा हो	उत्तीर्ण	पास	कामयाब	पास	पास	उत्तीर्ण
पिंजरा	पुं.	धातु, बाँस आदि की तीलियों का बना हुआ बक्से की तरह का वह आधान, जिसमें पक्षी, पशु आदि बंद करके रखे जाते हैं	पञ्जरम्, पञ्जरकम्	पिंजरा	पिंजरा (क़फ़स)	ठ्युप, पंजरु	पिञ्रो	पिंजरा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पासे, नजीक, पडखे, बाजुमां	लागीं	नजिक, नेर्, निर्	पाशे, काछे	ओचर, निकट	मनाक्ता (अ.पु.) ननाक्ता (म.पु.) इनाक्ता (उ. पु.) नक्ना	पाश, समीप, पाख, निकट	दग्गर॑	किट्ट, अरुगे	अटुत्तुॅ, अरिर्के	हत्तिर
ताबामां	हातांत	अधिकारको, साथमा रहेको	अधिकारे, हाते	हातत	खूत्ता	आयत्त, हातरे, अधीन, अधिकरे	दग्गर॑	कैवशम्	कैयिल्, वशत्तुॅ	अधिकार- दल्लिरुव
पास, पसार	पास	सफल, उत्तीर्ण, पास्	पास, उत्तीर्ण	पाच, उत्तीर्ण	पास तौबा	उत्तीर्ण, कृतकार्ज्य	पासयिनॅ, उत्तीर्णुडैनॅ	तेर्वु पॅट्ट	पासाय	उत्तीर्ण
पांजरुं	पांदरो	पिन्जरा, पिँजुडा	खांचा, पिन्जर	पिंजरा	पोन्	पिंजरा	पंजरमु, बोनु	कूंडु	कूट्टुॅ, पंजरम्	पंजर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पिंड	पुं.	1. घनी या ठोस चीज का छोटा और प्रायः गोलाकार खंड या टुकड़ा, ढेला या लोंदा	पिण्डम्	ढीम, ढेला	ढेला	प्यंड	ग॒ोढ़ो, गोलो, पिंडु	गोळा, पिंड
		2. जौ के आटे, भात आदि का बनाया हुआ वह गोलाकार खंड, जो श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से वेदी आदि पर रखा जाता है	पिण्डम्	पिंड	पिंड	प्यंड	पिंडु	पिंड
पिंडदान	पुं.	कर्मकांड के अनुसार पितरों को पिंड देने का कर्म जो श्राद्ध में किया जाता है	पिण्डनिर्वपण, पिण्डदानम्	पिंडदान	पिंडदान	श्राद, प्यंड-थवुन	पिंडदानु	पिंडदान
पिचकारी	स्त्री.	नली के आकार का धातु का बना हुआ एक उपकरण, जिसके मुँह पर एक या अनेक ऐसे छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनसे नली में भरा हुआ तरल पदार्थ दबाव से धार या फुहार के रूप में दूसरों पर या दूर तक छिड़का या फेंका जाता है	क्षेपणी, शृङ्ग	पिचकारी	पिचकारी	पिचकॉर्य	पिचकारी	पिचकारी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पिंड, गोळो	गुळो	पिंड	पिंड, डेला	टुकुरा	मतुम ताबा, लैतुम	पिंड	पिंडमु	उरुण्डै	कट्ट, उण्ट, उरुळ	तुंडु, स्वल्प भाग
पिंड	पिंड	पिंड	पिंड	पिंड	याम, चेङ्ना मतुम ताशिन्लगा शेंबा पिंड	पिंड	पिंडमु, मुद्द	शिराद्द-त्तिल अळिक्कुम् पिण्डम्	पिंडम्	पिंड डालना
पिंडदान	पिंडदान	पिंडदान	पिंडदान	पिंडदान	पिंडदान, सोरात्ता पिंड कत्पा	पिंडदान	पिंडदानमु	शिराद्द-त्तिल् पिंडम् वैत्तल्	पिंडम् वैक्कल् पिंडदानम्	पिंडदान
पिचकारी	पिचकारी	पचका, पिचकारी	पिचकारी, पिचकिरि	फिचकारी	पिचकारी	पिचकारी	पिचिकारु	पीच्चां-कुऴल्	पीच्चांकुऴल्	जीकळि, पिचकारी

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पिछला	वि.	1. जो पीछे की ओर हो	विगत	पिछला	अक़बी (पिछला)	पॅत्युम	पोयों, पुठियों	पाठीमागचा
		2. काल, घटना, स्थिति के क्रम के विचार से किसी के पूर्व में या पहले पड़ने या होने वाला	प्राक्तन	पिछला	माबाद (पिछला)	पॅत्युम	पहियों	पूर्वीचा
		3. बीता हुआ	अतीत	पिछला	गुज़श्ता (साबिक़)	पॅत्युम	गुज़िर्यलु	विगत
पिपासा	स्त्री.	पानी या और कोई तरल पदार्थ पीने की इच्छा, तृष्णा, तृषा, प्यास	पिपासा, तृषा	तेह, मेह, पिआस	तश्नगी (पियास)	त्रेश	प्यास, उञ	तहान, पीपासा, तृषा
पिशाच	पुं.	भूत या प्रेत योनि वाला वर्ग, जिसकी गणना हीन देव योनियों में होती है तथा जो वीभत्स कर्म करने वाला माना जाता है	पिशाचः	भूत	ख़बीस	पेशाच़	पिशाचु, भूतु	पिशाच्च, भूत
पीछे	क्रि. वि.	1. पीठ की ओर	पृष्ठतस्	पिच्छे	पीछे (अक़ब)	पॅत्यकिन्य	पुठियां	पाठीमागे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाछलुं, पाछलो	फाटलें	पछिल्तिरको पछिल्लो	पश्चातेर, पिछोनेर	पूर्व-पिछ फाल	तुङ्	बिगत, गत, पूर्बे, आगे	वेनुकटि	पिन, पुरत्तु	पुरकिलु-ळ्ळ	हिंदिन
पाछळनुं, पूर्वनुं	पयलीचो	पछिल्लो	आगेकार	बिगत, आगर, पूर्बबर्ती	प्रीसीडिंग, माङ्जौनना लेप्ना खन्नखिबा थबक	आगे, पूर्बे, बिगत, पूर्बबर्ती	वेनुकटि	कडंद, मुंदैय	मुन्, कळिञ्ञ	मुंचिन
वीती गयेलुं	आदले	बितेको, विगत	गत	गै यौवा, बिगत	हौखिबा	पुरुणा, गत, विगत, पूर्बबत	गडचिन	कळिंद	कळिञ्ञु पोय	कळेद
पिपासा, तरस, तृष्णा, तृषा	तान	प्यास, तिर्खा, तृष्णा	पिपासा, तृष्णा (न), तेष्टा	पियाह, तृष्णा	खौराङ्बा	पिपासा, तृष्ना, शोष	दप्पिक, दाहमु	दाहम्	तृष्ण, दाहम्	पिपासे, नीरडिके, बायारिके
पिशाच, प्रेत, भूत	पिशाच	पिशाच	पिशाच	पिशाच, भूत-प्रेत, असत-प्रकृतिर	भूत-प्रेत, चिङ्चाबा	पिशाच, प्रेत, अभिशप्त, शापग्रस्त	पिशाचमु	पिशाशु, पेय्	पिशाचुँ	पिशाचि, प्रेत
पाछळ	फाटल्यान	पछाडि	पिछने, पश्चाते	पिठिफाले	तुङ्लोमदा, मतुङ्दा	पछरे	वेनुक	पिन्नाल्	पिन्निलेक्कुँ	हिंदुगडे, बेन्नकडे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. कालक्रम, देश आदि के विचार से किसी के पश्चात् या उपरांत, घटना या स्थिति के विचार से किसी के अनंतर, उपरांत, पश्चात्	पश्चात्	पिच्छे	बाद (पीछे)	पोंतुस	खां पोइ	नंतर, पश्चात
		3. किसी के कारण या खातिर, निमित्त, के लिए, वास्ते	हेतुः, निमित्तम्	पिच्छे	वास्ते	प्यठ, पतुँ	लाइ, ख़ातिर	कोणासाठी, कोणा करिता
पीटना	स. क्रि.	1. हाथ, डंडे आदि से प्रहार करना, चोट पहुँचाना	√ताड्	कुट्टणा	पीटना	च़ेटुन, लायुन	मारणु, धकु हणणु	मार देणें, चोप देणें, ठोकणें
		2. चौसर, शतरंज आदि के खेलों में विपक्षी की गोट या मोहरा मारना	√जि	कुट्टणा	मात देना	हरावुन	मारणु, जीतणु (रांदि में)	सोंगटी, मोहरे उडवणें, मारणें
पीठिका	स्त्री.	1. छोटा पीढ़ा, पीढ़ी	पीठम्, पीठिका	पीढ़ा	पीढ़ी	पीर	नंढो पीढ़ो, पीढी	छोटा चौरंग, मोढा
		2. वह आधार, जिस पर कोई चीज विशेषत: देवमूर्ति रखी, लगाई या स्थापित की गई हो	पीठिका, वेदी	पीढ़ा	चौकी	प्यँड	संदुली, वेदी	वेदी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पछी	मागीर	उपरांत्, अनन्तर	परे, पश्चाते	पाछत	मतुङ्दा	उपरांत, पश्चात, परे	वॅनुक	पिरुगु	पिन्नीटुँ	तरुवाय
पाछळ, ने माटे	कोणा खातीर	निमित्त, खातिर	कारणे, जन्मे, खातिरे	कारणे	माना मरम ओइदुना	कारणरु, पछरे	कारकु, निमित्तमु	कारण-माग, वेण्डि	निमित्तमायि, वेण्टि	गागि, कारण
पीटवुं, टीपवुं, खूब मारवुं	मारप	चुट्नु, ठटाउनु, पिट्नु	पिटानो/ पेटानो	मार, आघातकर	फुबा	पीटिबा, मारिबा, बाडेइबा	कोट्टुट	अडिक्क	अटिक्कुक	होडे
डोकवुं, उडाडवुं	सोंगटी मारप	जित्नु, पिट्नु	घुंटि मातकरा	मार, प्रहार	फुबा	पिटिबा, मारिबा	कोट्टुट	चदुरंगत्तिल तोर्कडिक्क	चतुरंग-क्कळियिल् तोल्पिक्कुक	कोल्लुवुदु
पीठिका, बाजठ, आसन	पिठिका, पीढि	पिरा, पिर्का	पिँडि	सरु पीरा	फाल्	पिढ़ा	पीट	आसन-प्पलगै	चॅरिय स्टूळ्	पीठ
पीठिका	वेदी	पीठिका, चौकी, वेदी	पीढिका, बेदी	पीठिका, पीठिया	फाल्	पिढ़ा, आसन	पीठमु	पीडम्	पीठम्, पीठिक	मंदासन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पीड़ा	स्त्री.	शारीरिक या मानसिक कष्ट, दर्द	पीडा/व्यथा	पीड़	तक्लीफ़ (दर्द)	तकलीफ	पीड़ा, कष्टु	पीडा, वेदना
पीढ़ी	स्त्री.	1. किसी कुल या वंश की परंपरा में क्रम से आगे बढ़ने वाली संतान की प्रत्येक कड़ी या स्थिति	सन्तति:	पीढ़ी	सिल्सिलए नस्ल	पीर, पुय	पीढ़ी, टही	पीढ़ी, कुल, वंश, परंपरा
		2. किसी विशिष्ट समय का वह सारा जन समुदाय जिसकी वय में अधिक छोटाई–बढ़ाई न हो, लगभग समान वय वर्ग वाला	पीठिका, जन्मवर्ग:	पीढ़ी	नस्ल	पीर	पीढ़ी, टही	पिढी
		3. छोटा पीढ़ा	पीठिका	पीढ़ी	पीढ़ी	पीर, पुय	नंढो, मूड़ो	लहान, मोठा
पीना	स. क्रि.	1. किसी तरल पदार्थ को घूँट-घूँट करके पेट में उतारना	√पा	पीणा	पीना	चोंन	पियणु, पीअणु	पिणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पीडा, दुख, चूंक, नडतर, वेदना	कश्ट	व्यथा, वेदना, पीडा	पीड़ा, व्यथा	कष्ट, दुख	अनाबा चैना, हक्वाङ्गी नत्रगा पुक्निङ्गी	पीड़ा, कष्ट, ब्यथा, दुख, बेदना, जंत्रणा	बाधॅ, नॉप्पि	वेदनै, वलि	पीड वेदन	नोवु, क्लेश
पेढ़ी	पिळगी, वंश	पीढी, पुस्ता, वंश-परंपरा	बंश, परंपरा	कुल, बंश	मीरोल	बंश, कुल, परंपरा	तरमु	तलै मुरै	वंशपरंपर	पीळिगे
समकालीन पेढी	पिळगी	नसुल, जाति	समकालीन व्यक्ति वर्ग	फैद, सम-वयसीया	मीरोल	सम-सामयिक-ब्यक्ति-बर्ग, समकालीन-ब्यक्तिबृंद	तरमु	कुरिप्पिट्ट कालत्तिल् समवय-दुळ्ळ जन समूहम्	तलमुर	तलेमारु
कबीलो	पिढी	पिरा, पिर्का	पिंड़ि	सरु-पीरा	अपिक्पा फाल	छोट-पीढ़ा	पीटॅ	चिरिय इरुक्कै	चॅरिय पीठम्	चिक्क-मणे
पीवुं	पिवप	पिउनु, घुट्क्याउनु	पान करा, खाओया	पी, खा, पानकरा	थक्पा	पीइबा, पान-करिबा	तागुटॅ	कळ् कुडिक्क	कुटिक्कुक	कुडियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. धूम्रपान करना या शराब आदि से नशा करना	√सेव्, √पा	पीणा	पीना	चोंन	छिकणु (तमाकु)	धुम्रपान करणें, दारु पिणें
पीला	वि.	1. जो केसर, सोने या हल्दी के रंग का हो	पीत	पीला	पीला (ज़र्द)	ल्योंदुर	पीलो, ज़र्द	पिवळे
		2. आभा-रहित, निष्प्रभ	निष्प्रभ	पीला	–	ल्योंदुर	फिको	निष्प्रभ
पीसना	स. क्रि.	रगड़ कर किसी वस्तु को चूरे के रूप में बदलना	√पिष्	पीहणा, पीसणा	पीसना	प्युहुन	पींहणु	दळणें
पुंज	पुं.	ढेर, राशि	पुञ्जः	ढेर, समूह, पुंज	अंबार, ढेर, मज्मूआ	डेर, राश	ढेरु, मेड़ु	ढिग, समूह
पुकार	स्त्री.	1. जोर से नाम लेकर संबोधित करने की क्रिया या भाव	आह्वानम्	पुकार	आवाज़ सदा	आलव, नाद	पुकार, सडु	हांक, आरोळी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
धूम्रपान करवुं	पिवप (सोरो)	धूम्रपान गर्नु	पान(धूम्र) करा, खाओया	पी, खा	थक्पा	पिइबा, पान-करिबा	तागुट	कुडिक्क	कळ्ळ कुटिक्कुक, सिगरेट्टु वलिक्कुक	सेदुवुदु
पीळुं, हळदरना रंगनु, पीत	हळदुवो, पिवळो	पहैंलो	हल्दे	हालधीया	नापु	हलदिआल, पित्त	पसुपु पच्चनि	मंजळान	मञ्ञ	हळदि
फीकुं, फिक्कुं	धवो (पडप)	फिक्का	निष्प्रभ, फ्याकाशे, फ्या	शैंता	ताइफेत् ताइबा	आभाहीन, निष्प्रभ, निष्क्रिय, दिप्तिहीन	पालिपोयिन	वेळिरिय	विवर्णमाय	सप्पेयाद
पीसवुं, दळवुं	दळप	पिँध्नु, पिन्नु, पिस्नु	पेषा, पेषन	पिह, पिहा	तक्पा, नेत्तपा	पेषिबा, बाटिबा, चुरिबा	नूरुट, रुब्बुट	अरैक्क	पोटिक्कुक, अरय्क्कुक	बीसुवुदु
समूह, पुंज, ढगलो	पुंज, रास	समूह, थुप्रो, रास, पुञ्ज	ढेर, समूह, पुंज, राशि	समूह, दम	काङ्लूप, मपै	समग्र, पुंज, समूह, पुंजि, धन, राशि	समूहमु, पुंजमु, राशि	शेर्क्कै, कुवियल्	समूहम्, राशि, पुञ्जम्	समूह, पुंज, राशि
पोकार, पुकार	आपोवप	पुकार, पुकारा	डाका, संबोधन	चिञर, मता	कौबा	डाक, संबोधन	केक, पिलुपु	कूवि अळैत्तल्	विळि	करे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आत्मरक्षा, सहायता आदि के लिए दूसरों को बुलाने की क्रिया या भाव	आह्वानम्	पुकार	दुहाई, तलबी	आलव, नाद	पुकार	हांक, आरोळी
पुकारना	स. क्रि.	1. किसी को बुलाने, संबोधित करने या उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए जोर से उसका नाम लेना	आ √ह्वे	पुकारना	पुकारना	आलव द्युन, नाद लायुन	पुकारणु, सडणु	हांक मारणें
		2. रक्षा, सहायता आदि के लिए किसी का आह्वान करना, आवाज लगाना या चिल्लाना	आकारय्	हाल-पाहरिआ पाउणा, हाल-हाल	बुलाना	नाद द्युन	पुकारणु	बोलाविणें वा ओरडणे
पुचकारना	स. क्रि.	प्यार जताते हुए मुँह से पुच-पुच शब्द करना	पुच + √कृ	पुचकारना	पुचकारना	टाठिन्यार करुन्	बुचकारणु	चुचकारणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बूम	उलो	गुहार, बिन्ती भाउ, अनुनय-विनय	डाक, चित्कार	आर्तनाद, चिञर	कौबा	आर्तनाद, चित्कार, चिल्लाइबा	अरुपु	उदविक्कु अळैत्तल्	निलविळि	करे, कूगु
पोकारवुं	आपोवप	पुकार्नु, डाक्नु	डाका, संबोधन करा	मात	कौबा	ड़ाकिबा, संबोधन-करिबा	केकवेयुट, पिलुचुट	उरक्क कूप्पिड	विळिक्कल	करेयुवुदु
बूम पाडवी, बोलाववुं	उलोमारप	गुहार्नु, बिन्तीभाउ गर्नु	डाका	आर्तनाद कर	कौबा	आर्तनाद-करिबा, चित्कार-करिबा, पाटिकरि ड़ाकिबा	अरुचुट	उदविक्काग उरक्क कूप्पिड	निलविळि-क्कुक	कूगिको-ळ्ळुवुदु
पुचकारवुं	पुचकारप	पुच्च गर्नु, केटाकेटी लाई पुलपुलाउँदा वा म्वाई खाँदा पुच्च गरी बोल्नु	चुमकुड़ि देओया	जंतुक-मरमेरे-मात	नुङ्शिना ला-ला कौबा	गेल-करिबा, स्नेह-करिबा, प्रेम-करिबा	बुज्जगिंचुट	चॅल्लम् कॉज	उम्म वॅक्कुक, ओमनिक्कुक	मुद्दाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पुजारी	पुं.	किसी देवी-देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाला व्यक्ति	अर्चक/पूजकः	पुजारी	पुजारी	पुज़ॉर्य, गोर	पूॼारी	पुजारी
पुण्य	वि.	धर्म-विहित और उत्तम फल-दायक	पुण्यम्	पुन्न	नेक, सवाब	पॉन्य	पुञु, नेक	धर्मविहित आणि उत्तम फलदायक, पवित्र, शुद्ध, पुण्य
	पुं.	1. अच्छे और शुभ कर्मों का संचित रूप, जिसका आगे चलकर उत्तम फल मिलता हो	पुण्यम्	पुन्न	नेकी	पॉन्य, सवाब	पुञु, सवाबु	पुण्य कर्म
		2. धार्मिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट अवसरों पर कुछ विशिष्ट कर्म करने से प्राप्त होने वाला शुभ फल	पुण्यम्	पुन्न	सवाब	पॉन्य, सवाब	पुञु, सवाब	पुण्य, शुभ फळ
पुनरावृत्ति	स्त्री.	किए हुए काम या बात को फिर से करने या दोहराने की क्रिया या भाव	आवृत्तिः, अभ्यास	दुहराउ	तक्रार	प्युर द्युन	दौरु, दुहराउ	पुनरावृत्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूजारी	पुजारी पूजारी/	पुजारी,	पुरुत, सेबा पूजारी	पुजारी, पुजक	लाइ तौबा	पूजारी पुरोहित, ब्राम्हण	पूजारि	पूशारि	पूजारि	पूजारि
धर्म पुण्य	उत्तम, पुण्य	धर्म- कार्य, पुण्य	पुण्य	धर्म- बिहित पुण्य	अफबा कर्म तौबगी फल, पुण्य	धर्म, पुण्य	पुण्यमैन	पुण्णिय करमान	पुण्यमाय	पुण्य
शुभ, संचित कर्म	पुण्य कर्म	पुन्य कर्म, उत्तम फल	पुन्य, सुकृति	पुण्य, सतकर्म, धर्म	पुण्य (अफबा अमसुङ् याइफबा थबक तौबना मतुङ्दा अफबा फल लाक्पा, फङ्बा)	पुण्य, शुभ, सुकृति	पुण्यमु	नल्ल कारियंगळ् शंय्वदिनाल अडैयुम् पयन्	पुण्यकर्मम्	पुण्य
पुण्य	पुण्य	पुण्य, शुभ फल	पुण्य, शुभफल	पुण्य, सत-कर्म, धर्म	अफबा कर्म तौबगी फल, पुण्य	शुभफल, पुण्य	पुण्यमु	पुण्णियम्	पुण्यम्	पुण्य
पुनरावृत्ति	पुनरावृत्ती	पुनरावृत्ति, दोहोऱ्याइ	पुनराबृत्ति	पुनराबृत्ति	हन्जिन्बा	पुनराबृत्ति, पुनर्बार बा- पुणिथरे	पुनरावृत्ति	तिरुंब- चेय्दल	पुनरावर्तनम्	पुनरावृत्ति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पुनरीक्षण	पुं.	किसी किए हुए काम को जाँचने के लिए फिर से देखना	पुनरीक्षणम्, अन्वीक्षणम्	मुड़-परख, दुबारा परीखिया	नज़रे सानी	बेंयि वुछुन, नज़रसॉनी	नज़रसानी, ब॒ीहर जाच	फेरतपासणी
पुनर्जन्म	पुं.	मरने के बाद फिर से उत्पन्न होना, दुबारा शरीर धारण करना	पुनर्जन्म	पुनरजनम	तनासुख़	पोंनॅर ज़नुॅम	पुनर्जनमु	पुनर्जन्म
पुनीत	वि.	पवित्र	पावन	पुनीत	पाक	श्रूच़	पवित्र	पुनीत, पवित्र
पुरस्कार	पुं.	किसी प्रशस्त और कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने पर आदर या सत्कार के रूप में दिया जाने वाला धन या वस्तु	पारितोषिकम्, पुरस्कारः	इनाम	इनआम/ इनाम	यनामुॅ	इनामु	पुरस्कार, बक्षीस, इनाम
पुरुषार्थ	पुं	1. वह मुख्य अर्थ, उद्देश्य या प्रयोजन, जिसकी प्राप्ति या सिद्धि के लिए मनुष्य का प्रयत्न करना आवश्यक और कर्तव्य हो (पुरुषार्थ चार हैं - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष)	पुरुषार्थः	पुरशारथ	फ़र्ज़	वुछ़, ह्यमथ	पुरुषार्थु	पुरुषार्थ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पुन– रावलोकन	पुनरीक्षण	पुनरीक्षण, दोहोऱ्याउने काम	पुनरीक्षण (क्ख) (न)	पुनररीक्षण	अमुक हन्ना येङ्बा	पुनरीक्षण, पुनश्च– देखिबा	पुनर्वीक्षणं	परि– शीलित्तल्	पुनः परिशोधन	पुनरीक्षणं
पुनर्जन्म, नवो जन्म	पुनर्जन्म	पुनर्जन्म्	पुनर्जन्म	पुनर्जन्म	अमुक हन्ना पोक्पा	पुनर्जन्म, नबजन्म, नुआ– जन्म	पुनर्जन्म	मरु– पिरप्पु	पुनर्जन्मम्	पुनर्जन्म
पुनित, पवित्र	पवित्र	पवित्र, पुनीत	पबित्र, पुतो	पबित्र	अशेङ्बा	पबित्र, शुद्ध	पुनीतमैन, पवित्रमैन	तूय्मैयान	पवित्रमाय, पुनीतमाय	पवित्र
पुरस्कार, ईनाम	इनाम, बक्षिस, पुरस्कार	पुरस्कार, पारि– तोषिक	पुरष्कार, पारितोषिक	पुरस्कार	मना (प्राइज, एवार्ड, रिवार्ड)	पुरस्कार, पारितोषिक	बहुमति, बहुमानमु	वंगुमदि	सम्मानम्	पुरस्कार, बहुमान
पुरुषार्थ	पुरुषार्थ	पुरुषार्थ्	पुरुषार्थ	पुरुषार्थ, परिश्रम, यत्न, चेष्टा	नुपा थोक्पा	पुरुषार्थ	पुरुषार्थमु	नर्पलन् पेर् शय्युम् मुयर्चि	पुरुषार्थम्	पुरुषार्थ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उद्योग, उद्यम	पुरुषकारः	पुरशारथ	मेहनत	वुद्यूग	उद्यम	उद्यम
पुरोहित	पुं.	कर्मकांड आदि जानने वाला ब्राह्मण, जो धार्मिक कार्य, संस्कारादि संपन्न कराता है (हिंदू प्रीष्ट)	पुरोहितः	पुरोहत, परोहत	पुरोहित	गोर, पोरूहित	पुरोहितु, ब्रांभणु	पुरोहित
पुल	पुं.	खाइयों, नदी-नालों, रेल लाइनों आदि के ऊपर आर-पार पाट कर बनाई हुई वह वास्तु रचना, जिस पर से होकर गाड़ियाँ और व्यक्ति इधर से उधर आते-जाते हैं, सेतु (ब्रिज)	सेतुः	पुल	पुल	कल	पुल	पुल, सेतु
पुष्प	पुं.	फूल, कुसुम	पुष्पम्	फुल्ल (गुल)	गुल	पोश, गुल	फूलु, पुष्पु, कुसुमु	फूल, कुसुम
पुष्पांजलि	स्त्री.	फूलों से भरी हुई अंजलि, जो किसी देवता या महापुरुष को अर्पित की जाती है	पुष्पांजलिः	पुशपांजली	ख़िराजे-अक़ीदत	पोशि द्वछ़	पुष्पांजली	पुष्पांजली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उद्योग, महेनत, पराक्रम	उद्योग	सामर्थ्य, पौरख, उद्यम	उद्योग, उद्यम, पौरुष, (ज) पराक्रम	उद्योग, चेष्टा	होत्नबा कन्बा, मथौ मशक् खङ्बा, नोंबा कन्बा	-उद्योग, परिश्रम, उद्जोग, चेष्टो	पुरुषार्थमु	मुयर्चि, उळैप्पु	पौरुषम्, प्रयत्नम्	उद्योग
पुरोहित	पुरोहीत	पुरेत, पुरोहित	पुरोहित, पुरुत	पुरोहित, ब्राह्मण	पुरोहित	पुरोहित, ब्राह्मण	पुरोहितुडु	पुरोहिदर्	पुरोहितन्	पुरोहित
पुल, सेतु	पुल, सांकव	साँघु, पुल, सेतु	पुल, सेतु, साँको	दलं, सेतू, साँको	थोङ्	पोल, सेतु	वंतॅन	पालम्	पालम्	सेतुवे
फूल	फूल	फूल, पुष्प	पुष्प, फूल	फूल	लै	पुष्प, फुल, कुसुम	पुष्पमु, पुव्वु	पुष्पम्, पू, मलर्	पुष्पम्	हूवु
पुष्पांजलि	पुश्पांजली, पुष्पांजली	पुष्पाञ्जली	पुष्पाञ्जलि	पुष्पांजलि	लै खुजोक्	पुष्पांजलि	पुष्पांजलि	मलर्गळ् समर्पितल्, अर्च्चनै	पुष्पांजलि, अर्चन	पुष्पांजलि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पुस्तकालय	पुं.	वह स्थान, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें सुव्यवस्थित ढंग से रखी जाती हैं	पुस्तकालयः	लाइब्रेरी, पुसतकगार	कुतुबख़ाना	लयब्रेरी	पुस्तकालय, लाइब्रेरी	ग्रंथालय
पूँजी	स्त्री.	1. जोड़ा या जमा किया हुआ धन	शेवधिः	पूंजी, सरमाइआ	सरमाया	संच्यथ, सरमायि	पूंजी, मूड़ी	भांडवल
		2. ऐसा धन, जो अधिक कमाने के उद्देश्य से व्यापार आदि में लगाया गया हो अथवा ऋण आदि पर उधार दिया गया हो	मूलधनम्	पूंजी, सरमाइआ	असल ज़र	द्यार	सरमायो	मुद्दल
पूछताछ	स्त्री.	किसी बात की जानकारी के लिए उसके संबंध में एक या अनेक व्यक्तियों से बार-बार पूछना	पृच्छा, अनुयोगः	पुच्छ-गिच्छ	मालूमात	प्रिछुँ-गॉर	पुछाॻाछा	विचारपूस
पूछना	स. क्रि.	1. किसी बात के बारे में जिज्ञासावश कोई प्रश्न करना	√प्रच्छ्	पुच्छणा	मुख़ातिब करना	प्रुछुन	पुछणु	प्रश्न विचारणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पुस्तकालय	पुस्तकालय	पुस्तकालय, पुस्तकागार	पुस्तकालय, ग्रंथागार	पुस्तकालय, पुथिभँराल	लाइरिक् थंफम शङ्	पुस्तकालय, ग्रंथागार	ग्रंथागारमु, पुस्तकालयमु	नूलगम्, पुत्तगालयम्	ग्रंथशाल	पुस्तकालय
पूंजी, दोलत	ज़ोड	पुँजी, सञ्चित धन	सञ्चित धन	पुंजि	तुङ्-शिन्जबा शेल	पुंजि, संचित-धन	मूलधनमु	ईट्टिय पणम्	मुतल्, संपाद्यम्	आस्ति
मूडी	पूंजी	पुँजी, मूल धन	मूलधन, पुँजि	मूलधन	ललोल-शेल	मूलधन, पुंजि	पेट्टुबडि	विया-पारतिल, ईडु चेय्युम् मुदल्, मुदलीड्	मुटक्कुमुतल्, मूलधनम्	बंडवाळ, असलु
पूछपरछ	वासपूस	सोधपूछ, सोधखोज	जिज्ञासावाद, जेरा	अनुसंधान, अन्वेषण	हङ्-खोत्पा, वाफम् अमबु खङ्नबा हन्ना-हन्ना हङ्बा	पचरा-पचरि, अनुसंधान, अन्वेषण, प्रश्न-करिबा, जिज्ञाशा-करिबा	विचारणे	विशारणै	अन्वेषणम्	विचारणे
पूछवुं, सवाल करवो	विचारप	सोध्नु, पुछताछ गर्नु	जिज्ञासा करा	सोध, सोधा	हङ्बा	प्रश्न-पचारिबा, जिज्ञासा-करिबा	अडुगुट	केट्क, विनव	चोदिक्कुक	केळु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जाँच, परीक्षा आदि के प्रसंग में किसी के सामने कुछ प्रश्न रखना कि वह उसका उत्तर दे	√प्रच्छ्	पुच्छणा	मालूम करना	प्रुछुन	पुछणु	विचारणें
		3. किसी का हाल-चाल या खोजखबर लेना	√प्रच्छ्, अनु √युज्	पुच्छणा	ख़बर लेना	प्रुछुन	पुछणु	विचारपूस करणें
पूजना	स. क्रि.	1. देवी-देवता को प्रसन्न या संतुष्ट करने के लिए यथाविधि श्रद्धाभाव से जल, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाना	√पूज्	पूजणा	पूजना	पूजुन	पूजणु	पूजा करणें
		2. किसी को परम श्रद्धा, भक्ति से देखना और आदरपूर्वक उसकी सेवा तथा सत्कार करना	√पूज्	पूजणा	परस्तिश करना	पूजुन	पूजणु	भजणें, आदर सत्कार करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जवाब मागवो	प्रश्न करप	प्रश्न गर्नु, पुछताछ गर्नु	जिज्ञासा करा, प्रश्न करा	सोध, प्रश्न-करा	वाहङ् हङ्बा	प्रश्न-पचारिबा, जिज्ञासा-करिबा	प्रश्निंचुट, अडुगुट	केळ्वि केट्क	चोदिक्कुक	विचारणे-माडुवुदु
तपास करवी	हालचाल विचारप	सोधपुछ गर्नु	खोजँ खबर लओया	भाल-बेया-जान	पाओ हङ्बा	दुख-सुख-पचारिबा, भल मंद-पचारिबा	विचारिंचुट	नलम् विशारिक्क	विवरम् अन्वेषि-क्कुक	विचारिसु
पूजवुं, पूजा करवी	पुजप	पुज्नु, पूजा गर्नु	पूजाकरा	पुज	कत्पा, कत्चबा	पूजिबा, पुजा-करिबा, पुजा-अर्चना करिबा	पूजिंचुट	पूजिक्क	पूजिक्कुक	पूजिसु
सेववुं, भज़वुं	पुजा करप	सत्कार गर्नु, आदर गर्नु	श्रद्धा करा	आदर-सादर कर	नोल्लुकपा भक्तिगा लोइनना अमदि इकाइ खुम्नना सेवा-तौबा	श्रद्धा करिबा, भक्ति करिबा, आदर करिबा, सेबा करिबा	पूजिंचुट	पोट्ट, सेविक्क	आराधिक्कुक	सत्करिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पूजनीय	वि.	पूजा करने योग्य, अर्चनीय या आदरणीय	पूजनीय	पूजनीक	क़ाबिले परसतिश, क़ाबिले एहतिराम	पूज़ायि युग्य, पूज़ि लायख	पूज़ण जोग़ो, पूजि, पूज्य	पूज्य, आदरणीय, पूजनीय
पूजा	स्त्री.	1. किसी देवी-देवता पर विनय, श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ जल, फूल, फल, अक्षत आदि चढ़ाने का धार्मिक कृत्य, अर्चन, पूजन	पूजा	पूजा	इबादत	पूजा	पूज़ा	पूजा
		2. बहुत अधिक आदर-सत्कार	पूजा	पूजा	–	पूज़ा	पूज़ा	आदर सत्कार, सन्मान
पूरा	वि.	1. पूरी तरह से भरा हुआ, परिपूर्ण	पूर्ण	पूरा	पूरा (पुर)	पूरुँ	पूरो, पूरो भरियलु	भरलेला, परिपूर्ण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूजनीय, पूज्य	पूजनीय	पूज्य, पूजनीय	पूजनीय, पूज्य	पूजनीय, पूज्य	पूजा तौबदा मतिक चारबा, इकाइ खुम्ननि-ङ्ङाई ओइरबा	पूजनीय, पुज्य, पुजाष्पद	पूजनीयमैन	वणक्कत्ति-कुरिय	पूज्यनाय	पूज्य, पूजनीय
पूजा, पूजन, उपासना	पुजा	पूजा, अर्चना	पूजा, पूजन	पूजा	पूजा, लात्पा	पूजा, उपासना, आराधना	पूजे	पूजै	पूज	पूजे, अर्चने
सन्मान	आदर सत्कार	आदर-सत्कार, मान-सम्मान	आदर-आप्यायन	आदर-सादर, सत्कार	लात्पा	आप्यायन, आदर-सत्कार, सत्कार	पूजे	वणंगुदल्, उपचरित्तल्	बहुमानम्, सत्कारम्	मर्यादे
पूरूं, पूर्ण, परिपूर्ण	परिपूर्ण	पूरा, पूर्ण	पूर्ण, भरा	परिपूर्ण, पूरा	मपुम, फाना पनबा	पूरा, संपुर्ण-भाबरे, पुर्णमात्रारे, परिपूर्ण	पूर्तिगा	मुळु	निऱ्ञ्ञ	तुंबिरुव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. समग्र, समूचा, सारा, कुल	कृत्स्नम्, अखिल	पूरा	कुल/तमाम	पूरुॅ	समूरो, पूरो	समग्र, सर्व
पूर्ण	वि	1. जो पूरी तरह से भरा हुआ हो	परिपूर्ण	पूरन	लबरेज़ (पुर)	पूरुॅ	पूरो, पूरो भर्यलु	पूर्ण, भरलेला
		2. सब प्रकार की यथेष्टता के कारण जिसमें कुछ भी अपेक्षा, अभाव या आवश्यकता न रह गई हो, सबका सब, पूरा, सारा, समस्त	सम्पूर्ण, कृत्स्न	–	तमाम	पूरुॅ	पूर्ण, पूरो	पूर्ण, समग्र, समस्त
		3. हर तरह से ठीक और पूरा	पूर्ण	–	मुकम्मल	पूरुॅ	पूरो, सही	संपूर्ण
पूर्णमासी	स्त्री.	चाँद्र मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, जिसमें चंद्रमा अपने पूरे मंडल से उदय होता है, पूर्णमासी	पूर्णमासी	पूरनमाशी	चौदहवीं	पुनिम	पूर्णमासी	पौर्णिमा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आखुं	संपूर्ण	परिपूर्ण सारा, सम्पूर्ण	समग्र, पूरो	सकलो, संपूर्ण	अपुन्बा, पुलप, पुम्नमक	सकल, समग्र, संपुर्ण, पूरा	मॉत्तमु, पूर्ति	मॉत्तम्, एल्लाम्	ऍल्लाम्, मुळुवन्	ऐल्ल
पूर्ण, पूरुं	पूर्ण, पुरो	पूर्ण, संपूर्ण	परिपूर्ण, भरा (न)	पूर्ण, पूरा	थन्बा, पिक् थन्बा	पूर्ण, पुरा	संपूर्णमैन	निरंबिय, पूर्णमान	पूर्णमाय	पूर्ति, तुंबिरुव
पूर्ण, अखंड, आखुं	सगळो	संपूर्ण, समस्त, सारा	सारा, समस्त, समग्र	संपूर्ण भरपूर	वात्तबा, पुम्नमक	सारा, समस्त, संपुर्ण, भरपुर	संपूर्णमैन	कुरैवट्ट, निरैंद	मुळुवनुं	संपूर्ण
संपूर्ण	परिपूर्ण	परिपूर्ण	पूर्ण (न)	संपूर्ण	मपुङ् फाबा	संपुर्ण, पूर्ण, पूरा	संपूर्णमैन	मुळु, पूर्णमान	पूर्णमाय	परिपूर्ण
पूर्णमासी	पुनव	पूर्णिमा	पूर्णिमा	पूर्णिमा	पूर्णिमा	पूर्णिमा	पूर्णिमॅ	पौर्णमि	पौर्णमि	हुण्णिमे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पूर्णिमा	स्त्री.	दे. पूर्णमासी	पूर्णिमा	पुन्निआ	चौदहवीं	पुनिम	पूर्णमासी	पौर्णिमा
पूर्वज	पुं.	बाप, दादा, परदादा आदि पूर्व पुरुष, पुरखा	पूर्वज	वड-वडेरे, वडके, वडे-वडेरे	अज्दाद, सलफ़	जद	वड॒ा, अबा-ड॒ाड॒ा	पूर्वज
पूर्वानुमान	पुं.	किसी भावी काम या बात के स्वरूप आदि के संबंध में पहले से किया जाने वाला अनुमान या कल्पना	पूर्वानुमानम्	पूरब अनुमान	पेशबीनी	ब्रोंह आँकुंवन	अग॒कथी	पूर्वानुमान
पूर्वाभास	पुं.	किसी बात या बात के संबंध में पहले से ही हो जाने वाला अनुमान	पूर्वाभासः	खुड़क	एहसास	आँकुंवन	पिरू	पूर्वाभास
पूर्वाह्न	पुं.	दिन का पहला भाग, सवेरे से दोपहर तक का समय	पूर्वाह्ण	सवेर	क़ब्लअज़ दोपहर	दुपहॉरॅ ब्रोंह	ड॒ींहं जो पहियों अधु, सुबह खां मंझदि ताईं	पूर्वाह्न
पृथ्वी	स्त्री.	1. सौर जगत का पाँचवाँ सबसे बड़ा ग्रह, जिस पर जीवन तथा वनस्पति है	पृथ्वी	धरती, प्रिथवी	ज़मीन	बुतुॅराथ	पृथ्वी, धरती	पृथ्वी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूनम	पुनोव	पुर्ने	पूर्णमासी (न), पूर्णिमा (न)	पूर्णिमा, पूनम	पूर्णिमा	पूर्णिमा– तिथि	पूर्णिमॅ	पौर्णमि	वंळुत्त वावुॅ	हुण्णिमॅ
पूर्वज, वडवो, पितृ	पुर्वज	पुर्खा, पूर्वज	पूर्बपुरुष	पूर्बपुरुष	इपा– इपु	पूर्बज, पुर्बपुरुष, पितृपुरुष	पूर्वीकुलु	मुन्नोर्	पूर्वीकन्	पूर्वजरु
पूर्वानुमान	पूर्वानुमान	पूर्वानुमान	पूर्बानुमान	पूर्बानुमान	माङ्जौनना लामशिन्बा, भावना शाबा	पूर्बानुमान, आगरु– अनुमान– करिबा	अंचना	मुन् कूट्टिये कोण्ड ए॑ण्णम, मुर्चार्बु	पूर्वानुमानम्	पूर्वानुमान
पूर्वाभास	पुर्वाभास	पूर्वाभास, पूर्वसङ्केत	पूर्बाभास	पूर्बाभास	माङ्जौनना भावना शाजिन्बा	आभास, पूर्बाभास, सुचना	प्रागाभासमु	अबिप्पि– रायम्	तोन्नुल्, ऊहम्	पूर्वज्ञान
पूर्वाह्न	सकाळी, पूर्वाह्न	पूर्वाह्न, पूर्वाह्ण	पूर्बाह्न, पूर्बाण्ह	पूर्बाह्न, पुवाबेला	अयुक्तगी नुमित् युङ्बा फाओबगी मतम	पूर्बाह्न	पूर्वाह्नमु	मुर्पहल्	पूर्वाह्नम्, उच्चक्कु मुंबुळ्ळ समयम्	पूर्वाह्न, बेळग्गे
पृथ्वी	पृथ्वी	पृथ्वी	पृथिबी	पृथिबी	पृथ्वी, मालेम	पृथिबी, धरा, धरित्रि	पृथ्वि, भूमि	उलगम्, बूमि	पृथ्वी, भूमि	भूमि, पृथ्वि, नेल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आकाश तथा जल से भिन्न वह अंश, जिस पर मनुष्य तथा पशु विचरण करते तथा पेड़-पौधे उगते हैं, जमीन, मिट्टी	पृथ्वी	प्रिथवी	ख़ुश्की	बुतुॅराथ	ज़मीन, मिट्टी	भूमी, जमीन
पृष्ठभूमि	स्त्री.	1. पिछला भाग	पृष्ठम्	पिछोकड़	पिछला हिस्सा	पॊ̆त बोग	पुठियों भाङो	पार्श्वभूमी, पृष्ठभूमी
		2. पहले की वे सब बातें और परिस्थितियाँ, जिसके आगे या सामने कोई नई विशेष बात या घटना हो और जिनके साथ मिलान करने पर उस बात या घटना का रूप स्पष्ट होता है, भूमिका (बैकग्राउंड)	पृष्ठभूमिः	पिट्ठभूमी	पसमंज़र	पॊ̆त मंज़र	पसे मन्ज़र, पृष्ठभूमि	भूमिका
पेचीदा	वि.	1. जिसमें बहुत से पेंच हो, घुमाव-फिराव वाला	जटिल	गुंझलदार, पेचीदा	पेचीदा	पीचीदुॅ	पेचीदो, मुझाईंदड़ु	गुंता गुंतीचा, अवघड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जमीन, माटी	भूंय	भूमि, धर्ती, धरती	भू- भाग	भू-खंड, भू-भाग	लैबाक	भू-खंड़, भू-भाग, माटि	नेल, भूमि	बूमि, मण्	भूमि	नेल
पृष्ठभूमि	फाटभूंय	पछिल्लो भाग, पछिल्तिरको	पृष्ठदेश	पछिफाल, पृष्ठभूमि	मनिङ् थङ्बा शरुक्की लम	पृष्ठदेश, पृष्ठभूमि	वेनुकभागमु	पिन् पुरम्	पिन् भागम्	हिंभाग
भूमिका	फाटली म्हायती	पृष्ठभूमि, भूमिका	पटभूमि, भुमिका	पटभूमि, पृष्ठभूमि	वाहौदोक, करिगुंबा थौदोक अमा थोक्ल- क्नबगी मरम शुगाइबा ताक्पा वारोल	पटभूमि, भूमिका	नेपथ्यमु	पिन्नणि	पश्चात्तलम्	मुन्नुडि, प्रस्तावने
पेचीदा	गुस्पणे, किचकन डी चो	पेचदार	प्याँचालो	कठिन, जटिल	चयेत्लबा	पेंचुआ, बंका, बक्र	जटिल- मयिन	चिटुक्कान, कुळ्प्पमान	कुरुक्कुळ्ळ	जटिलाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. (काम या बात) जिसमें बहुत-सी उलझनें, कठिनाइयाँ या झंझट हों	कठिन	गुंझलदार, पेचदार	निहायत मुश्किल	पीचीदुँ, खुर्यलद	–	कठीण
पेटी	स्त्री.	1. कमर में लपेट कर बाँधने का तसमा, कमरबंद	कटिपट्टम्	पेटी, कमर कसा, कमर बंद	कमरबंद, पेटी	कमरबंद	पटो, कमरबंदु	कमरपट्टा
		2. छोटा संदूक, संदूकची, छोटी डिबिया	पेटिका	पेटी, संदूकची	संदूकची	पीट्य	पेती, संदूकची	लहान पेटी, लहान डबी
पेड़	पुं.	वृक्ष	वृक्षः, पादपः	रुक्ख, बिरछ	दरख़्त, शजर	कुल	वणु, दरख़्त	झाड
पेशगी	स्त्री.	अग्रिम धन	अग्रिमराशिः	पेशगी	पेशगी	सय, पेशॊंगी	पेश्गी	आगाऊ रक्कम
पेशा	पुं.	व्यवसाय, धंधा	व्यवसायः, वृत्तिः	पेशा	पेशा	पेशि	पेशो, धंधो	धंदा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
जटिल	कठीण	पेचिलो, जटिल	जटिल	जटिल	चयेत्-खोयेत्नबा थुना फोल ताबा ङम्दबा	जटिल, कठिन	चिक्कुलुगलॆ	चिक्कलान, कुळ्प्पमान	कुरुक्कुळ्ळ	जटिल, कठिण
भेट, पेटी	कमर पट्टो	कमरपेटी, कमरबंदी, पेटी	पेटी, कोमरबंध	पेटी , कमरबंध	पेटी	अंटा-पटि, कमर-बंध	बॆल्टु	कच्चै, इडुप्पिल् अणियुम् पट्टै	अरपट्ट	नडुकट्टु डाबु
पेटी	पेटुल, पेटी	पेटारी, पेटारो, पेटी	पेटी, छोट पेटरा	हाथ बाकच, पेटारि	उपु मचा	छोट-सिंदुक	पॆट्टॆ	पॆट्टि	पॆट्टि	चिक्क पेट्टिगे
झाड, वृक्ष	रुख	बोट, रुख	गाछ, वृक्ष	गछ, बृक्ष	उपांबी	गछ, बृख्य	चॆट्टु	मरम्	वृक्षम् , मरम्	मर
पेशगी	आगाऊ रकम	पेस्की, बैना	अग्रिम, आगाम	आगधन, अग्रिम	माङ्जौनना पीबा पैसा, एडवान्स	अग्रिम, बहिना (बइना)	बयाना	मुन्पणम्, अच्चारम्	मुन्कूरॅ	मुंगड
पेशो, पेश, धंधो, कामकाज	वेवसाय, धंदो	पेसा, धंदा	पेशा, ब्यबसा	बेवसाय	शिन्फम	पेशा	वृत्ति, पनि	तॊऴिल्, उद्दियोगम्	तॊऴिल्	उद्योग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पैदावार	स्त्री.	फसल, अन्न आदि जो खेत में बोने से पैदा होता है, उत्पादन	उत्पादनम्	पैदावार, उपज	पैदावार	पॉदावार	पैदावार	उत्पादन, पीक
पोंछना	स. क्रि.	किसी सूखे कपड़े को इस प्रकार किसी अंग, वस्तु या स्थान पर फेरना कि वह उस स्थान की नमी को सोख ले	प्र+ √उञ्छ्	पूंझणा	पोंछना	वेथिरुन	उघणु	पुसणें
पोत	पुं.	जहाज, जलयान	पोतः	जहाज़	जहाज़	जहाज़	जहाजु, बेड़ो	जहाज़
पोतना	स. क्रि.	लेप करना, चुपड़ना	√लिप्	चोपड़ना, लिप्पणा	पोतना	लिवुन	लेपणु, मखणु	चोपडणें
पोशाक	स्त्री.	पहनावा, लिबास	परिच्छदः, परिधान	पुशाक	पोशाक	पोशाख	पोशाक	पोशाख
पोषण	पुं.	पुष्ट करना, लालन-पालन	समर्थन, पोषणम्	पुबूटी, पालण-पोसण	तौसीक़, परवरिश	पालुन, रछुन	पुठिभराई, पालनु-पोषणु	पुष्टी, पोसणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पेदाश, उपज	पीक	बाली, उब्जनी	उत्पादन, उत्पन्न शस्य	उत्पादन	पुथोक्पा	फसल	पंट	विळैच्चल्	विळवॅ	बेळे
लूछवुं, लोहवुं, घसवुं	पुसप	पुछ्नु, पुछपाछ गर्नु	मोछा	मोच	तैथोक्पा	पोछिबा	तुडुचुट	तुडैक्क	तुटय्क्कुक	ऑरसुवुदु
पोत, मछवो, नाव	नौका	पानी जहाज, पोत	पोत, जाहाज	जाहाज	जहाज़	पोत, जाहाज	ओड	कप्पल्	कप्पल्	हडगु, नौके
चोडवुं, लीपवुं	चोपडप, लेपकरप	पोत्नु, पोत्नु	लेपा	लेप, लिप	तैबा	लेपिबा	राचुट, पूयुट	पूश, तडव	पुरट्टुक	बळियुवुदु, लेपिसु, हच्चुवुदु
पोशाक, पहेरवेश, लेबास	भेस, न्हेसण	पोसाक, पहिरन	पोशाक, परिच्छद	पोछाक, साज	पोशाक, फीजोल्	पोषाक, पहरण	वेषमु, दुस्तुलु	उडै, आडै	वेषम्, ड्रेस्स्	उडुपु
पुष्टि, समर्थन, पोषण, पोषवुं ते	समर्थन टेंको, पोसप	पुष्टि, पोषण, पालन- पोषण	समर्थन, पालन- पोषण, लालन- पालन (न)	समर्थन, पोह-पाल करा, प्रतिपाल करा	ञाकपा योक्- थाक्पा	पोषण	समर्थन, पोषण	आदरितवल, पोषित्तल्	समर्थिक्कल, पोषणम्	पुष्टि, लालने- पालने, पोषणे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
पौधा	पुं.	छोटा पेड़, नया पेड़	पादपक	बूटा	पौदा	कुल	ॿूटो	रोप, रोपटे
पौना (पौन)	वि.	तीन चौथाई	पादोन	पौणा	पौना	दून	पौणो, टे भाङा	पाऊण
पौरुष	पुं.	पुरुषार्थ, पराक्रम, उद्यम	पौरुषम्	पुरखत्त, मरदऊ, मरदानगी	जुहद	ह्यमथ	पुरुषार्थु, पराक्रम, ॿलु	पौरुष
पौष्टिक	वि.	पुष्ट करने वाला, शक्तिवर्धक	पौष्टिक	ताकतवर	मुक़व्वी	ताकथवर	ताक़तमंद, ॿलु ॾीदंॾु	पौष्टिक
प्याऊ	पुं.	वह स्थान, जहाँ राह चलते लोगों को मुफ्त पानी पिलाया जाता है	प्रपा	छबील	पियाऊ	छबीलु	प्याऊ	पाणपोई

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छोडवो, छोड़	रोपो	बिरुआ, पोथ्रो	चारागाछ, किशलय	पुलि, नतुन गछ आलोवा	अपिक्पा पांबी	छोट-गछ	मोक्कॅ	चॅडि	चॅटि	गिड, ससि
पोणुं, पोणो	पाऊण	पौने	पौने	पौने, चारिभागेर तिनभाग	शरुक् मरि थोक्पगी अहुम	तिनि-चतुर्थांस, तिनि चौठ	मुप्पावु	मुक्काल्	मुक्काल्	मुक्कालु
पौरुष	पौरूश, पौरूष	पौरुख, पौरुष	पोरुष, पराक्रम	पौरुष, पुरुषत्व	मथौना लैबा, होत्लबा कन्बा निपा थोक्पा	पौरुष	पौरुषमु	आण्मै, वीरम्	पौरुषम्	पौरुष
पौष्टिक	पौश्टिक, पौष्टिक	पोसिलो, पौष्टिक	पौष्टिक, पुष्टिकर	पौष्टिक	मचि याओबा, पाङ्गन याओबा	पौष्टिक, शक्तिबर्धक	पौष्टिक-मयिन	पोषाक्कु तरुम् सत्तुळ्ळ	पुष्टिकरमाय	पौष्टिक, शक्तिवर्धक
परब	पाणपोय	प्याउ	जल छत्र	पथिकक पानी खुओवा ठाइ	लंबी चत्पा मीओइ-शिङ्बू लेम्ना ईशिङ् पीथकफम	जल-छत्र, जलदान	चलिवेंद्र	तण्णीर् पंदल्	तण्णीरु पंत्तल्	अरवट्टिगे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्यार	पुं.	स्नेह, प्रेम, अनुराग	रागः	पिआर	पियार	लोल	प्यारु	स्नेह, प्रेम
प्यारा	वि.	1. जो देखने में अच्छा और भला लगे	प्रिय, मनोज्ञ	पिआरा	पियारा	टोठ	प्यारो	आवडता
		2. स्नेह या प्रेम का पात्र	प्रेमपात्र	पिआरा	महबूब	टोठ	–	प्रेमास पात्र
प्याला	पुं.	एक प्रकार की कटोरी (कप)	चषकः	पिआला	पियाला	प्यालुँ	प्यालो, कोपु	पेला
प्यास	स्त्री.	1. वह स्थिति, जिसमें जल या कोई तरल पदार्थ पीने की उत्कट इच्छा होती है, तृष्णा, पिपासा	पिपासा, तृषा	तेह, मेह, पिआस	पियास	त्रेश	प्यास, उञ	तहान
		2. प्रबल इच्छा या कामना	तृष्णा	तरेह त्रिखा	तश्नगी	त्रेश	उत्कंठा, उकंढि, तश्नगी	पिपासा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्यार, प्रेम, स्नेह	प्रेम, मोग	माया, प्रेम, प्यार	भालोबासा, प्रेम, अनुराग	मरम , चेनेह	नुङ्शिबा, पामजबा, निङ्जबा	स्नेह, प्रेम, अनुराग	प्रेम, आपेक्ष	अन्बु	स्नेहम्, प्रेमम्	प्रीति, स्नेह
सरस, भलुं, मजानुं	सुंदर, बरे	प्यारो, मनपर्दो	सुंदर, मनोरम	मरमर, चेनेहर	नुङ्शिरबा, मतौ लैबा, येङ्बा नुङ्ङाइबा	सुंदर, मनोरम, स्नेहर- पात्र	प्रियमयिन	अन्बान्र्द	स्नेहभाजनम्	प्रियवाद, प्रीतिपात्र
प्यारुं, वहालुं	मोगाळ	स्नेहिलो	स्नेहभाजन	मरमी	नुङ्शिनिङ्- ङाइ ओइबा	स्नेह- भाजन, प्रेम- पात्र	प्रियमयिन्न	अन्बान्र्द	स्नेहभाजनम्	प्रियवाद, प्रीतिपात्र
प्यालो, प्यालुं	पेलो	प्याला	पियाला, काप	पियला, काप	कप, प्याला	पिआला, गिना, ताटिआ	कप्पु	कौप्पै	कप्पुॅ, कोप्प	बट्टलु, कप्
प्यास, तरस	तान	तिर्खा, प्यास	पिपासा, तृष्णा, तेष्टा (न)	हेपाह	खौराङ्बा	शोष, तृषा, पिपासा	दप्पिक, दाहमु	दाहम्	दाहम्	बायारिके, नीरडिके
तृषा, पिपासा	प्रबळ इच्छा	पिपासा, प्रबल इच्छा	तृष्णा, प्रबल इच्छा (न)	हेपाह, तृष्णा	इखौ लाङ्लबा, पाम्बा, निङ्बा	इच्छा, कामना, तृष्ना, पिपासा	दाहमु	मिगुंद विरुप्पम्, आर्वम्	बलमाय आग्रहम्	लालसे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रकट	वि.	ज़ाहिर, स्पष्ट, उद्भूत	प्रकट/स्पष्ट	परगट	ज़ाहिर	नोंन	ज़ाहिर, प्रघट	प्रकट, स्पष्ट
प्रकांड	वि.	उत्तम, सर्वश्रेष्ठ	प्रकाण्डः	उत्तम	अफ़्ज़ल	स्यठा थोंद	प्रकांड	उत्तम, सर्वश्रेष्ठ
प्रकृति	स्त्री.	1. विश्व में रचना या सृष्टि करने वाली मूल नियामक तथा संचालन शक्ति, कुदरत (नेचर)	प्रकृतिः	प्रकिरती, कुदरत	क़ुद्रत	कोंदरथ	क़ुदरत, प्रकृती	प्रकृती, निसर्ग
		2. सहज स्वाभाविक गुण, स्वभाव	प्रकृतिः	प्रकिरती	फ़ित्रत	प्रकरथ, मिज़ाज	सुभाउ	स्वभाव
प्रकोप	पुं.	1. अत्यधिक क्रोध	प्रकोपः	परकोप	क़ह्र	कॅहर	प्रकोप घणी कावड़ि	प्रकोप, क्रोध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रकट, प्रत्यक्ष	जाहीर	स्पष्ट, खुलस्त, प्रकट	प्रकट, स्पष्टो	स्पष्ट, व्यक्त, प्रकाशित, प्रकट	फोङ्दोक्पा	प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट	प्रकटमुग	वेळि-प्पड़ैयान	प्रकटमाय	स्पष्ट, प्रकटवागु
प्रकांड, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ	प्रकांड, होडलो	सर्वश्रेष्ठ, प्रकाण्ड	प्रकाण्ड, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ	प्रकांड, श्रेष्ठ	अथोइबा	प्रकांड, उत्तम, श्रेष्ठ	प्रकांडमयिन	चिरंद	उत्तम माय	सर्वश्रेष्ठ, उद्दाम
कुदरत, तबियत, धर्म	सैम, निसर्ग	प्रकृति, निसर्ग	प्रकृति	प्रकृति	प्रकृति, महौशा लाइरेंबी	प्रकृति, धर्म	प्रकृति	इयर्कै	प्रकृति	प्रकृति
प्रकृति, स्वभाव, कुदरत	प्रकृती, सभाव	स्वभाव, प्रकृति	प्रकृति, स्वभाब, सहज गुण (न)	सभाव, ब्यवहार	हौनसागी ओइबा गुण, स्वभाव	प्रकृति, स्वभाब, ब्यवहार, सहजात-गुण	प्रकृति, स्वभावमु	सुबावम्, इयल्बु	प्रकृति, प्रकृतम्	स्वभाव
प्रकोप, गुस्सो, क्रोध	प्रकोप	प्रकोप, चर्को रिस	अत्यधिक कोप	अतिपात खं, प्रकोप, क्रोध	का हेन्ना शाओरबा	प्रकोप, प्रबलता	प्रकोपमु	चीट्टम्	वल्लात्त कोपं	रुद्रकोप

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी बीमारी का जोर	प्रकोप:	परकोप	क़ह्रनाकी	–	जोशु, ज़ोरु	आजाराची वसा
प्रखर	वि.	तीक्ष्ण, उग्र, तेज	प्रखर:	तिक्खा, तेज़	शदीद (तेज़)	तेज़, तीज़	तेज़, तिखो	प्रखर, तीक्ष्ण
प्रगतिशील	वि.	जो आगे बढ़ रहा हो या उन्नति कर रहा हो	प्रगतिशील, उदग्र	प्रगतीशील, परगतीशील	तरक़्क़ीपज़ीर	ब्रोंह पकवुन, तरकी वोल	प्रगतीशील, तरक़ीपसंद	पुरोगामी, प्रगतिशील
प्रचंड	वि.	अति तीव्र, भयंकर	प्रचण्ड	प्रचंड	तेज़	स्यठा तेज़, बयानख	तमाम तेज़, भयानक	प्रचंड
प्रचलित	वि.	जो उपयोग या व्यवहार में आ रहा हो	प्रचलित	प्रचल्लत	मुरव्वज (राइज)	चलवुन	हलंदड़ु, वहिंवार में ईंदड़ु	प्रचलित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घोर, प्रबलता	वसो	प्रकोप, महामारीको प्रबलता	प्रकोप	बेमारर- प्रकोप	लाइचत्	प्रकोप, प्रबलता	प्रकोपमु	नोयिन् शीट्टम्	प्रकोपनम्	उल्बण
प्रखर, तीक्ष्ण, उग्र	प्रखर	कडा, उग्र, प्रखर	प्रखर, उग्र, तेज	प्रखर, उग्र	अथौबा	प्रखर, प्रचंड, उग्र	प्रखरमयिनॅ	तीविरमान, ऑळिमयमान, कूर्मैयान	तीक्ष्णमाय, मूर्च्चयुळ्ळ	तीक्ष्ण, उग्र
प्रगति- शील	प्रगतिशील	प्रगतिशील	प्रगति- शील	प्रगतिशील, अग्रगति, उन्नतिशील	माङ्लोम्दा चङ्शिल्ल- कइबा, चाओखत् खोङ्- थाङ्दा चङ्शिल्ल- कइबा	प्रगतिशील, बिकाशशील, उन्नति- दिगरे- अग्रसर- हेबा	अभ्युदय- करमयिनॅ	मुन्नेरुगिर्, मुन्नेट्ट	पुरोगमन, पुरोगमि- क्कुन्न	प्रगतिशील
प्रचंड, भयंकर, कदावर	प्रचंड	अति मापको, प्रचण्ड	प्रचण्ड, भयङ्कर, उग्र	प्रचंड, भयंकर, प्रबल, असह्य	अकन्बा, अकिबगी मशक ओइबा लाल	प्रचंड, भयंकर	प्रचंडमयिनॅ	मिग- त्तीविरमान, बयंगरमान	तीक्ष्णमाय, भयंकरमाय	प्रचंड
प्रचलित, चालु	प्रचलीत	चलन- चल्तीको, प्रचलित	प्रचलितो	प्रचलित, थिटो प्रचलनकरा होइसे	चत्लरिबा, शिजिन्न- रिबा	प्रचलित	प्रचलितमयिनॅ	नडै मुरैयिल उळ्ळ	नटप्पिलुळ्ळ, प्रचारत्तिलुळ्ळ	प्रचलित, व्यवहार- दल्लिरूव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रचार	पुं.	वह प्रयास, जो किसी बात या सिद्धांत को फैलाने के लिए किया जाता है	प्रचार	प्रचार	तब्लीग़	प्रचार	प्रचारु	प्रचार
प्रचुर	वि.	बहुत अधिक, प्रभूत	प्रचुर	बहुत ही	वाफ़िर	स्यठा, वार्याह	घणो, घणे अंदाज़ में	प्रचुर, पुष्कळ
प्रजनन	पुं.	1. जन्म देना, संतान उत्पन्न करना	प्रजननम्	प्रजनन	तनासुल	ज़्यॅवरावुन	ज॒मु	प्रजोत्पती
		2. पशुओं आदि को पाल-पोस कर उनकी उन्नति और वृद्धि करना	प्रजननम्, संवर्द्धनम्	प्रजनन	नस्ल अफ़ज़ाई	ज़्यॅवरावुन	जानवरीन जे नसुल जो वाधारो	पशुपालन
प्रजा	स्त्री.	किसी राज्य या राष्ट्र की जनता	प्रजा	परजा	अवाम, रिआया	प्रज़ा, लुख, अवाम	प्रजा, रैयत	प्रजा, जनता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रचार, फेलावो	प्रचार	प्रचार	प्रचार	प्रचार, जनाजात करा कार्य प्रकाश	शंदोक्पा, प्रचार तौबा	प्रचार	प्रचारमु	प्रचारम्, परप्पुदल्	प्रचारम्	प्रचार
प्रचुर, खूब, पुष्कळ	प्रचुर, खूब	प्रशस्<u>त</u>, मनग्<u>य</u>	प्रचुर, प्रभूत, ढेर, खुव	प्रचुर, बहुत, यथेष्ट, पर्याप्त	का हेन्ना	प्रचूर, प्रभूत, ढेर, बहुत-मात्रारे	प्रचुरमु, मिक्कालि	नि<u>रै</u>य, दाराळमान	प्रचुरम्	बहळ, हेरळ
प्रजनन, प्रजोत्पत्ति	जलमांक हाडप	प्रजनन, संतानो-त्पादन	प्रजनन	संतान, उत्पादन, प्रजनन	मचा पोक्पा	प्रजनन, जन्म, प्रसब	प्रजननमु, उत्पत्ति	संतति, उत्पत्ति इनविरुत्ति शेय्दल्	संतानो-त्पादनम्	हेरुवुदु
पशुपालन	देखदिणे	पशुपालन	प्रजनन, पशुपालन	जनन, पशुपालन	मचा लौबा, मचा थोक्पा	पशुपालन	पंपकमु	इन विरुत्ति	वंशवृद्धि	संतति, संवर्धने
प्रजा, जनता, रैयत	प्रजा, लोक	प्रजा, रैती, जनता	प्रजा	प्रजा, जनता, नागरिक, जनगन, राइज	प्रजा	प्रजा, जनता	प्रजलु	प्रजै, कुडिमक्कळ्	प्रज, जनत	प्रजे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रजातंत्र	पुं.	प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था (डिमोक्रेसी)	प्रजातन्त्रम्	लोकतंतर, परजातंतर	जुम्हूरियत	जॊम्हूरियथ	प्रजातंत्रु	लोकसत्ता
प्रण	पुं.	दृढ़, निश्चय, प्रतिज्ञा	प्रतिज्ञा	प्रण, परतिगिआ	अह्द	प्रन	प्रणु, अंजामु	प्रण, प्रतिज्ञा
प्रणय	पुं.	प्रेम, प्रीति	प्रणयः	पिआर, प्रीत	मुहब्बत	प्र्यॆम	प्रेमु, प्यारु	प्रणय, प्रेम
प्रणाम	पुं.	नमस्कार, अभिवादन	प्रणामः	परनाम, प्रणाम	सलाम	नमस्कार,	प्रणाम, सलाम	प्रणाम, नमस्कार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रजातंत्र	लोकशाय	प्रजातंत्र	प्रजातंत्र, गणतंत्र (न)	प्रजातंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र	प्रजा (मीयाम) ना खन्बा मीओइना प्रजाबु शासन तौबा, लैबाक ङाक्पा, डिमोंक्रेसी	प्रजातंत्र, गणतंत्र	प्रजातंत्रमु	कुडि यरसु मुरै, जननायकम्	जनायत्त भरणम्, जनाधिपत्यम्	प्रजाप्रभुत्व
प्रण, पण, टेक	सोपुत, प्रतिज्ञा	प्रतिज्ञा, प्रण	पण्, प्रतिज्ञा, संकल्प	प्रतिज्ञा, अंगीकार, संकल्प	वाशक	प्रतिज्ञा, प्राण- संकल्प, टेक	प्रतिज्ञ	प्रतिज्ञै, शबदम्	प्रतिज्ञ	प्रतिज्ञ
प्रणय	मोग	माया, प्रीति, प्रणय	प्रणय, प्रेम, भालोबासा	प्रेम, अनुराग, आकर्षण भाल पोवा मरम	नुङ्शिबा	प्रणय, प्रेम	प्रणयमु	कादल्	प्रणयं, प्रेमम्	प्रणय
प्रणाम, नमस्कार	नमस्कार	नमस्कार, प्रणाम	प्रणाम्, अभिबादन (न)	प्रणाम, नमस्कार	खुरुंबा	प्रणाम, नमस्कार, अभिबादन	नमस्कारमु	नमस्कारम्, वणक्कम्	नमस्कारम्, प्रणामम्	नमस्कार, प्रणाम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रणाली	स्त्री.	पद्धति, रीति, ढंग	प्रणाली,	परनाली	निज़ाम	रीथ	ढंगु, तरीक़ो	प्रणाली, रीत
प्रताप	पुं.	तेज, प्रभाव, पौरुष, वीरता	प्रतापः	परताप	जलाल, शुजाअत	तीज़, जलाल, ह्यमथ	प्रतापु, तेजु	प्रताप, तेज, पौरुष
प्रतिकार	पुं.	1. बदला चुकाने के लिए किया गया कार्य, बदला, प्रतिशोध (रिवेंज)	प्रतिकारः	बदला	सिला (बदला)	बदलु ह्यौंन	बदिलो	सूड
		2. किसी बात को रोकने दबाने के लिए किया जाने वाला उपाय, रोकथाम	प्रतीकारः	रोकथाम	पेशबंदी	बचाव	रोकण जो उपाउ, बचाउ	प्रतिकार
प्रतिकूल	वि.	जो अनुकूल न हो, विपरीत	प्रतिकूल	उलट, विपरीत	नामुवाफ़िक़ (बरअक्स)	वुलटुॅ	उबतड़ि, खिलाफ़	प्रतिकूल, विपरीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रणाली, परंपरा	रीत	पद्धति, प्रणाली	प्रणाली, पद्धति, रीति (न)	प्रणाली, पद्धति	चत्नबी, मओङ्	प्रणाली, पद्धति	पद्धति	वऴि मुरै	प्रणालि, रीति	रीति
सामर्थ्य, प्रताप, तेज, कांति	पौरुश, पौरुष, तेज	पुरुषार्थ, पौरुख, वीरता, तेज, प्रताप	प्रताप, पराक्रम, पौरुष, तेज, प्रभाव	पुरुषत्व, बीरत्व, शक्ति, प्रताप	थौना फबा, नीपा थोक्पा, मथौना लैबा, मरिल लैबा,	प्रताप, पराक्रम, पौरुष, बीरत्व, तेज	प्रतापमु	आण्मै, वीरम्, पेरुमै, पुगऴ्	पौरुषम्, प्रतापम्	शौर्य, प्रताप, तेजस्सु
प्रतिकार, विरोध	सूड	प्रतिशोध, प्रतिकार	प्रतिशोध	प्रतिशोध, क्षुधा कार्य, प्रतिहिंसा	लमन खुमबा	प्रतिकार, प्रतिशोध	प्रतीकारमु	पऴि वांगुदल, वंचम् तीर्त्तल्	प्रतिकारम्	प्रतीकार, सेड्डु
उपाय	उपाय	रोकथाम	प्रतिकार	प्रतिरोध, बाधा-बिछिन	अथिङ्बा पीबा	प्रतिकार, उपाय	प्रतीकारमु	तडुक्कुम् वऴि काणल्	प्रतिविधि	निवारणे, उपाय
प्रतिकूल	उलटे, विपरीत	नमिल्दो, प्रतिकूल	प्रतिकूल, बिपरीत	प्रतिकूल, बिपरीत, अनिष्टकारी	उन्न तैनबा, माइयोक्ता	प्रतिकूल, ओलटा, बिपरीत	प्रतिकूलमैन	एंदिरान, विरोदमान्	प्रतिकूलम्	प्रतिकूल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रतिक्रिया	स्त्री.	किसी कार्य या घटना के परिणामस्वरूप होने वाला कार्य	प्रतिक्रिया	प्रतिकिरिआ	रद्दे अमल	तर, असर	रदे अमल, प्रतीक्रिया	प्रतिक्रिया
प्रतिज्ञा	स्त्री.	शपथ, सौगंध, प्रण	प्रतिज्ञा	परतिगिआ	हलफ़ (अह्द)	कसम	प्रतिज्ञा	प्रतिज्ञा, शपथ
प्रतिद्वंद्वी	पुं.	1. वह व्यक्ति या वस्तु, जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के मुकाबले हो या जिससे उसका मुकाबला हो (राइवल)	प्रतिद्वन्दिन्	मुकाबले दी धिर, प्रतीपक्खी	हरीफ़	मुकाबलुक, मदि मुकाबलुॅ	विरोधी, प्रतिपक्खी, मुख़ालिफ़ती	प्रतिदंद्वी, प्रतिपक्षी
		2. एक व्यक्ति की दृष्टि में वह दूसरा व्यक्ति, जो एक ही वस्तु या पद को पाने के लिए उसी की तरह उम्मीदवार हो, प्रतियोगी (कॅनटेस्टन्ट)	प्रतिस्पर्धिन्	प्रतियोगी	हरीफ़ (मुक़ाबिल)	मदि मुकाबिल	प्रतीयोगी, मुक़ाबिल	प्रतियोगी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रतिक्रिया, उपाय	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया, विपरीत–क्रिया	तौरुरिबा थबककी महै ओइना नत्रणा पाओखुम ओइना हल्लकपा थबक	प्रतिक्रिया, प्रतिघात, प्रभाव	प्रतिक्रिय॑	ऍतिर्विळैवु	प्रतिकरणम्	प्रतिक्रिये
प्रतिज्ञा, पण, शपथ	शपत, सोपूत	शपथ, कसम, प्रण, प्रतिज्ञा	प्रतिज्ञा, पण (गँगा) (न), संकल्प	प्रतिज्ञा, पण, संकल्प	वाशक्	प्रतिज्ञा, पण, शपथ	प्रतिज्ञ॑	पिरतिज्ञै, उरुदिमोळि	प्रतिज्ञ, शपथम्	शपथ, प्रतिज्ञे
प्रतिद्वंद्वी, शत्रु	प्रतिस्पर्धी, प्रतिसर्ती	प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी	प्रतिद्वंद्वी, प्रतियोगी	प्रतिद्वंद्वी, बिपक्ष	लंबा तौनबा, माइयोक्ता लैबा	प्रतिद्वंदी, बिपक्ष, प्रतिजोगी	प्रतिद्वंद्वि, पोटीदारु	ऍदिराळि, पोट्टियाळन्	ऍतिराळि	ऐदुराळि
बरोबरियुं, हरीफ	उमेदवार	प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी	प्रतियोगी (ज)	प्रतियोगी, प्रतिद्वंद्वी	लंबा तौनबा	प्रतिजोगी, प्रतिद्वंदी	पोटीदारु	पोट्टि पोड्डुबवन्	प्रतियोगि	ऐदुराळि, प्रतिस्पर्धि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रतिध्वनि	स्त्री.	गूँज, प्रतिशब्द	प्रतिध्वनिः	गूंज	सदाए-बाज़गश्त	गुंबद	पड़ाडो, गूंज	प्रतिध्वनी
प्रतिनिधि	पुं.	वह व्यक्ति, जो दूसरों की ओर से कहीं भेजा जाए अथवा उनकी ओर से कार्य करे (रिप्रेजेंटेटिव)	प्रतिनिधिः	प्रतीनिधी, परतीनिधि	नुमाइंदा	नुमायन्दुॅ	एविज़ी, नुमाइंदो, प्रतीनिधी	प्रतिनिधी
प्रतिपादन	पुं.	किसी विषय का सप्रमाण कथन, निरूपण, विषय का स्थापन	प्रतिपादनम्	सथापणा, अच्छी तरां समझाउगा	इस्बात	सॉबिथ करुन	समुझाणी, व्याख्या	प्रतिपादन
प्रतिबंध	पुं.	1. बंधन या रोक, मनाही	प्रतिबन्धः	पाबंदी	पाबंदी	ठाख, रुकावठ	पाबंदी, रोक, मनाई	प्रतिबंध, मनाई
		2. किसी काम में लगाई गई शर्तें	प्रतिबन्धः	पाबंदी	बंँदिश	पाबँदी	बंदिश	अट
प्रतिबिंब	पुं.	परछाईं, प्रतिच्छाया	प्रतिबिम्ब	प्रतीबिंब	अक्स	छाय, अकुॅस	पाछो, अक्सु	प्रतिबिंब

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पडघो, प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनी	गुञ्जन, प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि (ध)	प्रतिध्वनि, घुरिअहा शब्द	खोन्जेन, खोल्लाओ	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि	एंदिरोलि	प्रतिध्वनि	प्रतिध्वनि
प्रतिनिधि, एलची	प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि, दायित्वग्रहण करा-व्यक्ति	महुत थाबा, महुत्, शिन्बा	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	पिरतिनिदि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि
प्रतिपादन	प्रतिपादन	निरुपण गर्ने कार्य, प्रतिपादन	प्रतिपादन, निरूपण	प्रतिपादन, निर्णय, मीमांसा, संपादन	हिरम अमदा मयेक् शेङ्ना ताक्पा नत्रगा खङहन्बा	प्रतिपादन	प्रतिपादन	विषयत्तै विळक्कुदल्, विषयत्तै निरूबित्तल्	प्रतिपादनम्	निरूपणे
प्रतिबंध, मनाई, रुकावट	मनाय	रोक, प्रतिबंध, मनाही	प्रतिबंध, निषेध	बाधा, बिघिन	अथिङ्बा, यादबा	निषेध	प्रतिबंधकमु	तडै	प्रतिबंधम्	तडे
शरत	अट	शर्त, अड्को	प्रतिबंध	प्रतिबंधक, बाधा-दिओंता	शर्त थमबा	प्रतिबंध	शरतु	षरत्तु	व्यवस्थ	षरत्तु
प्रतिबिंब, पड़छायो	पडबिंब, प्रतिबिंब	प्रतिबिंब, प्रतिच्छाया	प्रतिबिंब	प्रतिबिंब	ममि	प्रतिबिंब	प्रतिबिंबमु	निऴलुरुवम्, पिरति-बिंबम्	प्रतिबिंबम्, प्रतिच्छाय	प्रतिबिंब

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रतिभा	स्त्री.	असाधारण बुद्धिबल, विलक्षण बौद्धिक शक्ति	प्रतिभा	बुधि, प्रतिभा	ज़हानत	ज़िहानथ	ग़ैर-रिवाजी बुधी	प्रतिभा
प्रतिमा	स्त्री.	मूर्ति, अनुकृति	प्रतिमा	मूरती	मूर्ती, मुजस्समा	मूरथ	मूर्ती, बोतो, मुजस्समो	प्रतिमा, मूर्ती
प्रतियोगिता	स्त्री.	होड़, मुकाबला	प्रतियोगिता	मुकाबला	मुक़ाबला	मुकाबलुॅ	चटाभेटी, मुक़ाबलो	चढाओढ, स्पर्धा
प्रतिलिपि	स्त्री.	किसी लिखी हुई चीज की नकल (कापी)	प्रतिलिपिः	नकल	नक़्ल	नकॅुल	नक़ुलु, कापी	प्रतिलिपी, नक्कल
प्रतिशत	क्रि. वि.	हर सौ पर, फीसदी	प्रतिशतम्	फीसदी, प्रतीशत	फ़ीसदी (फ़ीसद)	फीसदी	सेकिड़ो, फ़ी सदी	दरशेकडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रतिभा, कांति, तेज	प्रतिभ‍ा	प्रतिभा	प्रतिभा, बिलक्षण, बौद्धिक शक्ति	बौद्धिक शक्ति, प्रतिभा, बिलक्षण	मीथोइ मीहेन्बा, लाइपोक, थबक तौबदा थोइदोकना है शिङ्बा	प्रतिभा, लक्षण, गुण	प्रतिभ॒	मदि नुट्पम्	प्रतिभ	प्रतिभे
प्रतिमा, मूर्ति	प्रतिमा, मूर्त	प्रतिमूर्ति, प्रतिमा	प्रतिमा, मूर्ति	प्रतिमा, मूर्ति	मूर्ति, शक्तम	प्रतिमा, मूर्ति	विग्रहमु, प्रतिम॒	मूर्त्ति, सिलै, विग्रहम्	प्रतिम, विग्रहम्	प्रतिमे
प्रतियोगिता, मुकाबलो, हरीफाई	सर्त, होड	होडबाजी, प्रतियोगिता	प्रतियोगिता (ज), मुकाबेला	प्रतियोगिता	तान्नबा, चाङ्दम्नबा, येत्खाइनबा	प्रतिजोगिता, मुकाबिला-हेबा	पोटी	पोट्टि	मत्सरम्	स्पर्धे
प्रतिलिपि	प्रतिलिपी, जसातशी प्रत	नक्कलप्रति, प्रतिलिपि	प्रतिलिपि, नकल	प्रतिलिपि, नकल	कॉपी, चप मान्ना शिंदोक्पा	प्रतिलिपि, नकल	प्रतिलिपि	नगल्, मरुपिरदि	पकर्प्पु	नकलु
टको, टका	प्रतिशती	प्रतिशत, सयकडा	शतकरा	शतकरा, शतांश	चादा ओइबा चाङ्, चाम खुदिङ्दा ओइबा मशिङ्	शतकड़ा	शातमु	शत-विहिदम्, विळुक्काडु	शतमानम्	शेकडा, प्रतिशत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रतिशोध	पुं.	बदला, प्रतिकार	प्रतिशोधः	बदला	बदला	बदलुॅ	बदिलो, वेरु	सूड, बदला
प्रतिष्ठा	स्त्री.	1. स्थापन	प्रतिष्ठा	परतिश्ठा	क़ियाम	प्रत्यश्ठा	स्थापना	स्थापना
		2. मान, मर्यादा, इज्जत	प्रतिष्ठा	इज्जत	इज़्ज़त	यज़थ, शोॅहरथ	मानु, मर्यादा	प्रतिष्ठा
		3. ख्याति, प्रसिद्धि	प्रतिष्ठा	परतिश्ठा	शोहरत	–	नामूस, मशहूरी	ख्याती, प्रसिद्धी
प्रतिस्पर्धा	स्त्री.	होड़, प्रतियोगिता	प्रतिस्पर्धा	मुकाबला	मुक़ाबला	मान मान	चटाभेटी मुक़ाबलो	प्रतिस्पर्धा
प्रतीक	वि.	वह गोचर या दृश्य वस्तु, जो किसी अगोचर या अदृश्य वस्तु के बहुत कुछ अनुरूप होने के कारण उसके गुण रूप का परिचय कराने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करती हो	प्रतीकम्	परतीक, प्रतीक	अलामत	तश्बीह	प्रतीकु, अलामत	प्रतीक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रतिशोध, बदलो लेवो	बदलो	साटोफेराइ, प्रतिशोध	प्रतिशोध	प्रतिशोध धार क्षुधा कार्य	लमन् खुंबा	प्रतिशोध, प्रतिहिंसा	पगॆ, प्रतीकारमु	पऴिक्कुप्पऴि	प्रतिकारम्, पकवीट्टल्	सेडु
प्रतिष्ठा, आबरु, यश	प्रतिश्ठा, इज्जत	मान, सम्मान, इज्जत	प्रतिष्ठा, मर्यादा (ज)	प्रतिष्ठा, मान, सन्मान, मर्यादा स्थापन करा, ख्याति	इकाइ-खुम्नबा, इज्जत लैबा	प्रतिष्ठा, जश, मान-स्थापन सम्मान, मान, मर्य्यादा	प्रतिष्ठॆ	गौरवम्	मान्यत	प्रतिष्ठे, गौरव
प्रसिद्धि, ख्याति	नामना, नांव	यश, कीर्ति	प्रतिष्ठा, ख्याति	ख्याति थापना-कार्य	ममिङ् चत्पा अफाओबा	क्षाति, जश, नाम, प्रतिष्ठा	परुवु	पुगऴ्	प्रसिद्धि	प्रसिद्धि
प्रतिष्ठा	प्रतिष्ठा	संस्थापन, प्रतिष्ठा	प्रतिष्ठा, संस्थापन	स्थापना, प्रतिष्ठा, संस्थापन	हौदोक्पा, लिङ्खत्पा	प्रतिष्ठा, स्थापना, संस्थापन	प्रतिष्ठॆ	निरुवुदल्	स्थापिक्कल्, प्रतिष्ठ	स्थापनॆ
प्रतिस्पर्धा	स्पर्धा	होड, प्रतिस्पद्र्धा	प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता (ज)	प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा	तान्नबा, मुक्खाइनबा, लंबा तौनबा	प्रतिस्पर्धा, प्रतिजोगीता	पोटी	पोट्टि	मत्सरम्	स्पर्धे
प्रतीक, चिह्न	प्रतीक	प्रतीक, चिह्न	प्रतीक	प्रतीक, चिन, निदर्शन	खुदम ओइना खङ्नबा, करिगुंबा अमगी महुत्-शिन्बा खुदम	प्रतीक, चिन्ह	प्रतीकॆ	अडैयाळम्, संकेतक्कुरि	प्रतीकम्, चिह्नम्	प्रतीक, चिह्नॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रतीक्षा	स्त्री.	इंतजार	प्रतीक्षा	उडीक	इंतिज़ार	इंतिज़ार	इंतिज़ार	प्रतीक्षा
प्रतीक्षालय	पुं.	वह स्थान, जहाँ थोड़े समय के लिए बैठकर इंतजार किया जाता है	प्रतीक्षालयः	वेटिंगरूम, उडीकघर	वेटिंगरूम, इंतिज़ार घर	वेंटिग रूम, इँतिज़ारुच जाय	तरिसण जी जाइ, वेटिंग रूम	प्रतीक्षालय
प्रत्यक्ष	वि.	जो आँखों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा हो	प्रत्यक्ष, अपरोक्ष	प्रतक्ख	वाज़ेह	द्रेंठमान	ज़ाहिर, प्रतख	प्रत्यक्ष
प्रत्यय	पुं.	1. विश्वास, धारणा	प्रत्ययः	विशवास	यक़ीन	पछ्	विश्वासु	विश्वास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रतीक्षा, वाट जोवी ते	तिश्टत	ढुक़ाइ, कुराइ, प्रतीक्षा	प्रतीक्षा, अपेक्षा (क्ख)	प्रतीक्षा, अपेक्षा	ङाइबा	प्रतीक्षा, अपेक्षा	निरीक्षणॅ	एंदर् पार्त्तल्, कात्तुक्कोण्डु इरुत्तल्	प्रतीक्ष, कात्तिरिप्पुॅ	निरीक्षे
प्रतीक्षालय	प्रतिक्षालय	प्रतीक्षालय	प्रतीक्षालय (क्ख)	प्रतीक्षालय, अपेक्षाकरा कक्ष	ङाइफम, मफम	प्रतीक्षालय	निरीक्षॅ-णालयमु	कात्तिरु-क्कुम् इडम्	प्रतीक्षालयम्	निरीक्षालय
प्रत्यक्ष, स्पष्ट, नजर सामेनुं	प्रत्यक्ष	स्पष्ट, प्रत्यक्ष, खुलस्त	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष चकुरे-देखा इंद्रिय द्वारा उपलब्ध	मीत्माङ्दा, इमाङ्दा उबा	प्रत्यख्य, सलख, स्पष्ट, सरल, अकपट	प्रत्यक्षॅ-मुगा उन्नॅ	नेरुक्कुनेराग, नन्गु पुलप्पडुगिर्	प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष-प्पॅट्ट	प्रत्यक्ष
विश्वास, भरोसो	विश्वास	विश्वास, पत्यार	बिश्वास (श्श)	प्रत्यय शब्द बाधातुर पिछत लगा शब्दांश, विश्वास, प्रतीति, स्थिरधारणा	थाजबा	विश्वास, भरसा	विश्वासमु	नंबिक्कै	विश्वासम्	नंबिके, विश्वास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. व्याकरण में वह अक्षर या अक्षरों का समूह जो धातुओं अथवा विकारी शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थों में विशेषता उत्पन्न करते हैं। (सफिक्स)	प्रत्ययः	पिछेत्तर	लाहिक़ा	पोंतलोंग, प्रत्यय	प्रत्यय, लफ़्ज़ जे पुठियां लगंदड़ पछाड़ी	प्रत्यय
प्रत्याशी	पुं.	उम्मीदवार	अभ्यर्थी	उमीदवार	उम्मीदवार	वोंमेदवार	उम्मीदवारु	उम्मेदवार
प्रत्येक	वि.	हरएक	प्रत्येक	हरेक	हरएक (हर)	प्रथकाँह	हरहिकु, हरिको	प्रत्येक
प्रथम	वि.	जो पहले स्थान पर हो	प्रथम	अव्वल, प्रथम	अव्वल	गोंडन्युक	पहियों	प्रथम
प्रथा	स्त्री.	रीति, परिपाटी	प्रथा, रीतिः	प्रथा, रीत	रिवाज, रस्म	रेंवाज	प्रथा, रीति	प्रथा, रीत
प्रदक्षिणा	स्त्री.	किसी पवित्र स्थान या देव मूर्ति के चारों ओर इस प्रकार घूमना कि वह पवित्र स्थान या मूर्ति बराबर दाहिनी ओर रहे, परिक्रमा	प्रदक्षिणा	परदक्खणा	तवाफ़	प्रदिख्यन	परिक्रमा	प्रदक्षिणा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रत्यय	प्रत्यय	प्रत्यय	प्रत्यय	प्रत्यय	वाहैगी मनिङ्दा हापचिल्लबा वाहै मचेट, वातप्, सफिक्स, अतोप्पा वाहै अमा शेम्नबा वाहैगी मनिङ्दा तप्पा (वातप)	प्रत्यय, विभक्ति	प्रत्ययमु	विगुदि	प्रत्ययम्	प्रत्यय
उमेदवार	उमेदवार	उम्मेदवार, प्रत्याशी	प्रत्याशी	प्रार्थी, प्रत्यासी	मीरेप	प्रार्थी, प्रत्याशी	अभ्यर्थि	अपेक्षकर्, वेट्पाळर्	स्थानार्थि	उमेदुवार
प्रत्येक, दरेक	प्रत्येक	हरेक, प्रत्येक	प्रत्येक	प्रत्येक	खुदिङ्मक	प्रत्येक	प्रति-ऑक्क	ऑव्वॊरु, तनियान	ओरो, प्रत्येकमाय	प्रतियोंदु
प्रथम, पहेलुं	पयलो	पहिलो, प्रथम	प्रथम	प्रथम	अहान्बा	प्रथम	प्रथममु, मॊदटि	मुदलावदु	प्रथमम्, ऑन्नाम्, आद्यत्तॆ	प्रथम
प्रथा, रीत, परिपाटी	रीत, पद्धत	प्रथा, परिपाटी, चलन	प्रथा, रीति	प्रथा, नियम	चत्लबी	प्रथा, नियम, रीति	परिपाटि	मरबु, वळक्कम्	पतिवॢ, कीऴ्वऴक्कं	रूढि, परिपाटि
प्रदक्षिणा	प्रदक्षिणा	परिक्रमा, प्रदक्षिणा	प्रद<u>क्षिण,</u> परिक्रमा (क्ख) (न)	प्रदक्षिण, परिक्रमा	कोइना माइकै मरिदा चत्पा, परिक्रमा	प्रदक्षिण, परिक्रमा	प्रदक्षिणॆ	पिरदक्षिणम्, वलम् वरुदल्	प्रदक्षिणम्	प्रदक्षिणे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रदर्शनी	स्त्री.	वह स्थान, जहाँ तरह-तरह की वस्तुएँ दिखाने के लिए रखी हों	प्रदर्शिनी	नुमाइश	नुमाइश	नुमॉयिश	नुमाइश, नुमाउ	प्रदर्शन
प्रदेश	पुं.	1. भू-भाग का कोई खंड विशेष	प्रदेशः	प्रदेश	इलाक़ा	सूबॅ	प्रदेसु, प्रदेशु	प्रदेश
		2. किसी संघ या राज्य की कोई इकाई	–	प्रदेश	सूबा	सुबॅ	प्रांतु, सूबो	प्रांत
प्रधान	वि.	सबसे बड़ा, मुख्य, मुखिया	प्रधान	परधान, प्रधान	आज़म	ज्युठ	प्रधान, मुख्य	प्रधान, मुख्य
प्रबंध	पुं.	1. व्यवस्था, इंतज़ाम, बंदोबस्त	व्यवस्थापनम्, प्रबन्धः	परबंध, प्रबंध	इंतिज़ाम	इंतिज़ाम	प्रबंधु, बंदोबस्तु	व्यवस्था
		2. सुव्यवस्थित रचना	प्रबन्धः	इंतजाम, परबंध	मक़ाला/ नज़्म	–	वडो मज़्मूनु, मक़ालो	निबंध, प्रबंध
प्रबल	वि.	1. जिसमें बहुत अधिक बल हो	प्रबल	प्रबल, परबल	ज़ोर	ताकथवर	बलवान	प्रबल, बलवान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रदर्शनी, प्रदर्शन देखावो	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी	उत्पा	प्रदर्शनी	प्रदर्शनॅ	पॉरुट् काट्चि, काण् काट्चि	प्रदर्शनम्	प्रदर्शन
प्रदेश, मुलक	प्रदेश	प्रदेश	प्रदेश, भू-भाग	अंचल, भु-भाग	लम्दम्	प्रदेश, अंचल, भू-भाग	प्रदेशमु	पिरदेशम्, नाट्टिन् ऑरु पगुदि	प्रदेशम्	प्रदेश, नाडु
प्रांत	प्रांत	प्रांत, अञ्चल	प्रदेश	राज्य	जिला	प्रदेश, राज्य	प्रांतमु	मानिलम्	राज्यम्	राज्य
प्रधान, मुख्य	प्रधान	प्रधान, मुख्य	प्रधान, मुख्य	प्रधान, मुख्य	मकोक्, लुचिङ्बा	प्रधान, मुख्य	प्रधानमयिनॅ	मुक्किय, मुदल्, तलैवन्	प्रधानर्प्प, प्रधानि	मुखंड
प्रबंध, बंदोबस्त	व्यवस्था	प्रबंध, इन्तिजाम	व्यबस्था	ब्यवस्था	थौशिल, थौराङ् तौबा	ब्यबस्था, प्रबंध	एर्पाटु	एर्पाडु	एर्प्पाटॅ	व्यवस्थे
निबंध	निबंध, निबंद	लेख, निबंध	प्रबंध, रचना, निबंध	प्रबंध, रचना, निबंध	निबंध, रचना	रचना, प्रबंध, निबंध	सुव्यवस्थितॅ रचनॅ	कट्टुरै	प्रबंधम्	प्रबंध
प्रबल, बलबान	प्रबळ	बलिष्ठ, प्रबल	प्रबल, बलशाली	बली	मपाङ्गन कन्बा	प्रबल, बलशाली	प्रबलमयिनॅ	वलुवान	प्रबलमाय	प्रबल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. तेज, प्रचंड, घोर	प्रबल	परबल, प्रबल	शदीद	तेज़	तेज़	जोरदार
प्रभा	स्त्री.	आभा, चमक, प्रकाश	प्रभा	प्रकाश, परकाश	नूर (रोशनी)	दिवथ, चमख	प्रकाशु, रोशनी	प्रभा
प्रभात	पुं.	सूर्य निकलने से कुछ पहले का समय, प्रातःकाल	प्रभातम्	सवेरसार, प्रभाँत, परभाँत	सुबह	प्रबाथ, पॅत्युम पहर	प्रभात	प्रभात, सकाळ
प्रभाव	पुं.	1. किसी के बुद्धिबल, उच्चपद आदि के फलस्वरूप दूसरों पर पड़ने वाला दबाव (इंफ्लूएंस)	प्रभावः	प्रभाँव	असर, तासीर	असर	प्रभाउ, असरु	प्रभाव
		2. फल, परिणाम, असर	परिणामः	असर	नतीजा	–	–	परिणाम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रबल, प्रचंड	प्रचंड	भयङ्कर, प्रचंड	प्रबल, प्रचंड़	प्रचंड, प्रबल	याङ्ना, अकन्बा शाथिबा	प्रचंड, प्रबल, घोर	प्रचंडमयिन	वलु मिगुंद	शक्तियेरि्य	प्रचंड
प्रभा, तेज, आभा, कांति,	प्रभा दमाम	उज्यालो, प्रभा	प्रभा, दीप्ति, कांति, आभा	प्रभा, पोहर, कांति, दीप्ति	मङाल, ङान्बा, मतिक मङाल लैबा	प्रभा, दीप्ति	प्रभ, वेलुगु	ऑळि, एळिल्	प्रभ, शोभ	प्रकाश, कांति
प्रभात, सवार	फांतोड	बिहान्, प्रभात	प्रभात, सकाल	पुवा, प्रातः, प्रभात, राति-दुवा	अङन्बा, अयुक्	प्रभात, प्रात, सकाल	प्रभातमु, उदयमु	अदिकालै	प्रभातम्, पुलर्च्च	मुंजाने, नसुकु
प्रभाव, शक्ति, प्रताप	प्रभाव, वज़न	प्रभाव, शक्ति	प्रभाव	प्रभाव, प्रभुत्व	इथिल, कनागुंबगी मबुद्धि अमदि मरोशिङ्दगी वाखल दा ताहौबा ममि, इंफ्लूएंस	प्रभाब, शक्ति, प्रतिपत्ति, कतृत्व	प्रभावमु	चॅल्वाक्कु, ताक्कम्, आदिक्कम्	प्रभावम्, स्वाधीनम्	प्रभाव
असर	प्रभाव	फल, असर	फल, परिणाम	परिणाम, फल	फोल, ममि ताबा	फल, परिणाम	प्रभावमु	नल्विळैवु	फलम्, परिणामम्	परिणाम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रभु	पुं.	1. ईश्वर	प्रभुः	प्रभू	मौला	दय	प्रभू, ईश्वरु	प्रभू, ईश्वर
		2. स्वामी, शासक	प्रभुः	प्रभू	आक़ा	मॉलिख	साईं, मालिकु	स्वामी, शासक
प्रमाण	पुं.	1. सबूत	प्रमाणम्	प्रमाण, परमाण	सुबूत	सोबूथ, प्रमान	प्रमाणु, सबूतु	पुरावा
		2. जिसका वचन या निर्णय यथार्थ या सत्य माना जाए	प्रमाणम्	परमाण	सनद	प्रमान	–	प्रमाण
प्रमुख	वि.	1. प्रथम, मुख्य	प्रमुख	परमुख, प्रमुख	आला	ज़्युठ	प्रमुख, मुख्य	प्रथम, मुख्य
		2. श्रेष्ठ, सम्मान्य, प्रतिष्ठित	प्रमुख	प्रमुख	मुअज़्ज़ज़	थॉंद	–	प्रमुख, श्रेष्ठ
प्रयत्न	पुं.	कोशिश, प्रयास	प्रयत्नः	जतन, यतन	कोशिश	कूशिश	यतनु, कोशिश	प्रयत्न

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रभु, परमात्मा	ईश्वर	ईश्वर, प्रभु	प्रभु, ईश्वर	ईश्वर, प्रभु	ईश्वर, लाइ	प्रभु, ईश्वर	प्रभुवु	कडवुळ्	भगवान्, देवन्	देवरु
स्वामी, मालिक	स्वामी	स्वामी, मालिक	प्रभु, शासक	स्वामी, गराकी	मपू, पुमनमक्पु शेंबिरिबा	प्रभु, शासक, मालिक	प्रभुवु	एंजमान्, आंडान्	यजमानन्	स्वामि, यजमान
प्रमाण, पुरावो, साबिती, यथार्थ	पुरावो	सबुत, प्रमाण, दसी	प्रमाण (न)	सिद्ध बचन, प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण, जथार्थता	प्रमाणमु	साट्चियम्	तॆळिवुँ	साक्षि
—	प्रमाण	सत्यता, प्रमाण	प्रमाण (न)	सिद्ध बचन, प्रमाण	अचुंबा वाफम ताक्पा	प्रमाण, सिद्ध-बचन	निदर्शनमु	साट्चि, प्रमाणम्	साक्षि	प्रमाण, आर्ण
प्रमुख, मुख्य	प्रमुख	मुख्य, प्रमुख	मुख्य (क्ख), प्रधान	प्रथम, मुख्य	मरु ओइबा	प्रमुख, प्रधान, मूख्य	प्रधानमैन	तलैमैयान	प्रधान-प्पॆट्ट	प्रमुख
प्रतिष्ठित	श्रेश्ठ	श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित	श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित	श्रेष्ठ	अथोइबा, मीयाम्ना यारबा	श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित	प्रधानमैन	चिरंद, मेलान	श्रेष्ठम्	श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित
प्रयत्न, कोशिश	प्रयत्न	कोसिस, चेष्टा	प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास (ज)	यत्न, चेष्टा	होत्नबा	प्रयत्न (प्रजत्न), चेष्टा	प्रयत्नमु	मुयर्चि	प्रयत्नम्, परिश्रमम्	प्रयत्न

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रयास	पुं.	प्रयत्न, कोशिश	प्रयासः	जतन, यतन	कोशिश	कूशिश	कोशिश, यतनु	प्रयास
प्रयोग	पुं.	1. इस्तेमाल	प्रयोगः	वरतों, वरतण	इस्तेमाल	इस्तिमाल	इस्तेमालु	वापर
		2. अस्त्र-शस्त्र चलाना या छोड़ना	प्रयोगः	प्रयोग, परयोग	चलाना	–	प्रयोगु	शस्त्र चालविणें
		3. वैज्ञानिक प्रयोगशाला में की जाने वाली कोई परीक्षणात्मक क्रिया (एक्सपेरिमेंट)	प्रयोगः, परीक्षणम्	प्रयोग, परयोग	तज्रुब्रा	तजरुबॅ	प्रयोगु, तजुर्बो	प्रयोग
प्रयोगशाला	स्त्री.	वह स्थान, जहाँ विभिन्न तकनीकी विषयों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं (लेबोरेटरी)	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, परयोगशाला	तज्रुबगाह	ल्यबाट्री, तजरुबॅगाह	प्रयोगशाला	प्रयोगशाळा
प्रयोजन	पुं.	1. उद्देश्य, हेतु	प्रयोजनम्	प्रयोजन, परयोजन	मंशा	मकसद	मक़सदु	प्रयोजन, उद्देश्य
		2. अभिप्राय, मतलब	प्रयोजनम्	परयोजन, प्रयोजन	मक़सद	मतलब	मतलबु	अभिप्राय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रयास, श्रम, महेनत	उपयोग	प्रयत्न, यत्न	प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा (ज)	यत्न, चेष्टा	होत्नबा	प्रयास, चेष्टा, परिश्रम	प्रयत्नमु	मुयर्चि	यत्नम्	प्रयत्न
प्रयोग, उपयोग	(शस्त्र) प्रयोग	इस्तेमाल, उपयोग	प्रयोग, व्यबहार	ब्यवहार	शिजिन्नबा	प्रयोग, ब्यबहार	उपयोगमु	उबयोगम्, पयन्पुरै	प्रयोगम्, उपयोगम्	बळके, व्यवहारदल्लि
प्रयोग	प्रयोग	शस्त्रास्त्र सञ्चालन	प्रयोग, चालानो	अस्त्र-शस्त्र ब्यवहार	थाङ्-ता तंबा	प्रयोग, अस्त्रशस्त्र बा-आयुधर-ब्यबहार	प्रयोगमु	एयदल (आयुदंगळै)	प्रयोगम्	प्रयोग
प्रयोग	प्रयोग	प्रयोग, परीक्षण प्रयोग	प्रयोग, परीक्षण (क्ख)	परीक्षा, प्रयोग	चाङ्येङ्	प्रयोग, परीक्षा, परीक्षण	प्रयोगमु	परिशोदनै	परीक्षणम्	प्रयोग
प्रयोगशाळा	प्रयोगशाळा	वेधशाला, प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	गबेषणागार, प्रयोगशाला	चाङ्येङ्शङ्, लेबोरेटरी	गबेषणागार, प्रयोगशाला	प्रयोग-शाले	परिशोदनै-क्कूडम्	परीक्षणशाल	प्रयोगशाले
प्रयोजन, हेतु, उदेश्य	उद्‌देश्य	उद्‌देश्य	प्रयोजन, उद्‌देश्य	उद्‌देश्य, कारण	पांदम, तौगे निङ्लिबा	प्रयोजन, उद्‌देश्य, कारण	प्रयोजनमु	नोक्कम्	उद्‌देशम्	उद्‌देश
अभिप्राय, मतलब	विचार, हेतु	आशय, मतलब, अर्थ	प्रयोजन, अभिप्राय	अभिप्राय, उद्‌देश्य	हानिङ्लिबा वाफम	अभिप्राय, उद्‌देश्य, इछा	अभिप्रायमु	एण्णम् करुत्तु	आशयम्	अभिप्राय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रलय	पुं.	1. संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश	प्रलयः	परलो	क़ियामत	कयामथ	प्रलय, प्रलइ	प्रलय
		2. भयंकर नाश या बरबादी	प्रलयः	परलो	बरबादी	कॅहर	–	विनाश
प्रलेख	पुं.	दस्तावेज	प्रलेखः, अनुबन्धपत्रम्	दसतावेज़	दस्तावेज़	दस्तावेज़	दस्तावेजु	दस्तावेज
प्रलोभन	पुं.	लालच	प्रलोभनम्	लालच	लालच	लालच	लोभु	लालच

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रलय	प्रलय	प्रलय, सर्वनाश	प्रलय	प्रलय	महौशागी ओइबा मओङ्बु पुम्माङ्-माङ्बा, मरु फङ्ना माङ्-ताक्पा, प्रलय	प्रलय, लोप, बिलोप, बिलय	प्रळयमु	पिरळयम्, उलग मुडिवु	प्रळयम्, लोकाव-सानम्	प्रळय
विनाश	विनाश	विध्वंस, विनाश	भयङ्कर नाश	ध्वंस, नाश	माङ् ताक्पा	बिनाश, ध्वंस	सर्वनाशनमु	अळिवु	वन्-कॆंटुति, महानाशम्	सर्वनाश
दस्तावेज	दस्ताएवज, दुकुमेंत	दस्तावेज, प्रलेख	दलिल, दस्ताबेज	खत, दलिल	प्रमाण-शाक्षी ओइबा चे-चाङ्	दलिल	दस्तावेजु	दस्तावेजु, आॅप्पंदप् पत्तिरम्	रिकार्ड्, पत्रम्, आधारम्	कागद, पत्र
प्रलोभन, भारे लालच	आशा दाखोवप	लोभ, प्रलोभन	प्रलोभन, लोभ	प्रलोभन, लोभ	मीहौबा	प्रलोभन, लोभ, लालसा	प्रलोभमु	आसैयै तूंडुदल्	प्रलोभनम्	आसे-तोरिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रवचन	पुं.	1. धार्मिक नैतिक आदि गंभीर विषयों में परोपकार की दृष्टि से कही जाने वाली अच्छी तथा विचारपूर्ण बातें	प्रवचनम्	प्रवचन, धरमव्याखान	वाज़	व्वपदीश	प्रवचनु, धर्मी व्याख्यानु	प्रवचन
		2. उपदेशपूर्ण भाषण	प्रवचनम्	प्रवचन, परवचन	तक़रीर	वाज़	उपदेशु	उपदेश
प्रवास	पुं.	परदेश में रहना, विदेशवास	प्रवासः	प्रवास	मुहाजरत	परदेसुँ रोज़ुन	परदेस वासु	प्रवास
प्रवासी	वि.	परदेस में रहने वाला, जो प्रवास में हो	प्रवासी	प्रवासी	मुहाजिर	परदेसस मंज रोज़न वोल	परदेसवासी	प्रवासी
प्रवाह	पुं.	1. बहने की क्रिया या भाव, बहाव	प्रवाहः	प्रवाह	रवानी	बहाव, वसुन	वहकरो	प्रवाह

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रवचन, व्याख्यान	प्रवचन	प्रवचन, धर्म-व्याख्यान	पाठ, धर्मीय पाठ, धर्मीय व्याख्या	नीति-उपेदश, प्रवचन,	धर्मगी ओइबा, अचुंबा लीचत्	धर्म-संबंधीय-बक्तृता, नीति-उपदेश	प्रवचनमु	उपन्यासम्, समय चोरपोऴिवु	प्रभाषणम्	प्रवचन
प्रबोधन	शेर्मांव, धर्मोपदेश	धर्मोपदेश, उपदेश, प्रवचन	प्रबचन	उपदेशपूर्ण भाषण	पाओताक्	प्रबचन, उपदेशपूर्ण-भाषण	प्रवचनमु	उपदेश मोऴि	प्रभाषणम्	उपदेश, प्रवचन
प्रवास, मुसाफरी, परदेश-वास	प्रवास	प्रवास	प्रबास	प्रबास	मीरम दा लैखबा, मरैबाक थादोक्तुना अतोप्पा लैबाक्ता लैखबा, युम होखबा	प्रबास, परदेश	प्रवासमु	पुलम् पॅयर्ंदु वसित्तल्, अयल् नाट्टुवासम्	परदेशवासम्, प्रवासम्	परदेशवास
प्रवासी, मुसाफर	प्रवासी	प्रवासी	प्रबासी	प्रबासी	मीरम्दा लैबा	प्रबासी, परदेशी	प्रवासि	पुलम् पॅयर्ंदवर्	मरुनाटन् प्रवासि	प्रवासि
प्रवाह	प्रवाह	प्रवाह	प्रबाह, धारा	धारा, प्रबाह	इचेल, चेंथबा	प्रबाह, धारा, स्रोत	प्रवाहमु	पिरवाहम्, पॅरुक्केडुत्तु ओडुदल्	ऑळुक्कुं, प्रवाहम्	हरियुविके, प्रवाह

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी वस्तु का अटूट क्रम	प्रवाहः	प्रवाह	सिलसिला	सिलसलुँ	अटूट सिलसिलो	अतूट क्रम
प्रविष्टि	स्त्री.	1. प्रवेश	प्रवेशः	प्रवेश, दाखला	दाखिला	दॉखलुँ	दाख़िला	प्रवेश
		2. इंदराज, बही-खाते आदि में लेखे, विवरण आदि लिखना	प्रविष्टिः	इंदराज	इंदिराज	यंदराज़	दाख़िला	नोंदणी
प्रवीण	वि.	निपुण, कुशल	प्रवीण	परवीण	कामिल (माहिर)	मॉहिर	प्रवीण, माहिर	प्रवीण, निपुण
प्रवृत्ति	स्त्री.	1. मन का किसी विषय की ओर झुकाव	प्रवृत्तिः	प्रविरती, परविरती	रुज्हान (मैलान)	लॉय-खोंय	झुकाउ, लाड़ो	प्रवृत्ती, वृत्ती
		2. मनुष्य का साधारण आचरण या व्यवहार	प्रवृत्तिः	प्रविरती, परविरती	रवैया	लॉय-खोंय	मन जी वृती	व्यवहार, आचरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अतूट क्रम	धारा प्रवाह	अटूट सिलसिला	अबिराम गति, प्रबाह	लानि निछिङा-धारा	मथङ् मनाओ नाइबा, तत्तबा	निरंतर गति, अबिराम-गति बा-धारा	प्रवाहमु	तॉडर् वरिशै	तुटर्चयाय इटविटात्त	निरंतर-क्रम
प्रवेश	प्रविष्टी	प्रविष्टि, प्रवेश	प्रबेश	प्रबेश	चङ्बा	प्रबिष्टि, प्रबेश	प्रवेशमु	नुऴैवु	प्रवेशनम्	प्रवेश
प्रविष्टि	नोंदप	दर्ता, समावेश	लिपिबद्ध-करण (न)	भर्तिकरण	हिसाब बोइदा चङ्बा, इशिन्बा	प्रबिष्ट, लिपिबद्ध-करण	प्रविष्टि	पदिवु	चार्त्तल्, पतिक्कल्	दाखलु, नमूदु
प्रवीण, होशियार, निपुण	प्रवीण	सिपालु, प्रवीण	प्रबीण, दक्ष (न) (क्ख)	निपुण, दक्ष	है शिङ्बा	प्रबीण, निपुण, दक्ष	प्रवीणतगल	निपुणर	प्रवीणन्, समर्थन्	कुशल
प्रवृत्ति, मननो झोक	प्रवृत्ती	मानसिक झुकाउ, प्रवृत्ति	प्रबृत्ति, झौंक	मनर भाव, मनौभाव	पुक्निङ् लुप्पा; माइकै अमदा, हिरम आमदा माइ ओनशिन्बा	प्रबृत्ति, मनोभाब	प्रवृत्ति	मनप्पोक्कु	प्रवणत	प्रवृत्ति, ऑलवु
हिलचाल	पद्दत, व्यवहार	आचरण, व्यवहार	आचार, व्यबहार	स्वभाव, आचार-व्यवहार	शाचत्-लिचत्	आचार, ब्यबहार, स्वभाब	प्रवृत्ति	इयल्बान नडत्तै, ईडुपाडु	पॆरुमाट्टम्	व्यवहार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रवेश	पुं.	1. अंदर जाने की क्रिया या भाव	प्रवेशः	प्रवेश	दुख़ूल	दॉखलुँ	प्रवेश, दाख़िला	प्रवेश
		2. किसी विशिष्ट संस्था आदि में भर्ती होना, दाखिला	प्रवेशः	दाखला	दाख़िला	दॉखलुँ	भरती, भर्ती	प्रवेश
प्रशंसा	स्त्री.	गुणों का बखान, तारीफ	प्रशंसा	प्रसंसा	तारीफ़	तॉरीफ	साराह, तारीफ़	प्रशंसा
प्रशासन	पुं.	सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य, शासन (एडमिनिस्ट्रेशन)	प्रशासनम्	प्रशासन, परशासन	इंतिज़ाम	हकूमथ, इंतिज़ॉमियि	हुकूमत, कारोबार	शासन
प्रशिक्षण	पुं.	किसी व्यावहारिक या प्रायोगिक शिक्षा पद्धति से दी जाने वाली विशेष शिक्षा, सिखलाई (ट्रैनिंग)	प्रशिक्षणम्	सिखलाई, प्रसिक्खिया	तरबियत	ट्रेनिंग	ट्रेनिंग, सिख्या, तरबियत	प्रशिक्षण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रवेश	प्रवेश, भितर वचप	पसाइ, प्रवेश	प्रबेश	प्रबेश	मनुङ्दा चङ्बा	प्रबेश, भर्ति	प्रवेशमु	नुळैवु	प्रवेशिक्कल्, प्रवेशनम्	प्रवेश
प्रवेश, सामेल	प्रवेश	भर्ना, प्रवेश	प्रबेश, भर्त्ति	नाम भर्तिकरण	मीङ् चन्बा	प्रबेश, भर्ति	प्रवेशमु	चेर्रुंदु कोळ्ळल्	प्रवेशनम्	सेरुविके, दाखलु
प्रशंसा, वख़ाण	तोखणाय, कौतूक	सह्रनी, प्रशंसा	प्रशंसा, तारिफ	प्रशंसा	थागत्पा, मगुण शैथाबा	गुणगान, प्रशंसा, स्तुति	प्रशंसे	पुगळ्च्चि	प्रशंस	प्रशंसे
प्रशासन	कारभार, प्रशासन	प्रशासन, शासन	प्रशासन	प्रशासन	लैबाक, ङाक्पा लैबाक शासन तौबा	प्रशासन, शासन	परिपालन	आट्चि	भरणम्	आडळित
तालीम	प्रशिक्षण दिवप	तालिम, प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिख्यण, तालिम	तम्बिबा, ताक्पी-तमबिदना ताकपीदुना हैननबा ताक्पा, ट्रेनिंग	प्रशिक्षण, तालिम	शिक्षण, तर्फीदु	पयिर्चि	परिशीलनम्, ट्रेनिङ्	तरबेति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रसंग	पुं.	विषय का तारतम्य, प्रकरण, संबंध	प्रसङ्गः, प्रकरणम्	प्रसंग, परसंग	हवाला	प्रसंग	प्रसंगु	प्रसंग, प्रकरण
प्रसन्न	वि.	खुश, संतुष्ट, प्रफुल्लित	प्रसन्न	प्रसन्न, परसन्न	खुश	ख्वश	प्रसन्न, खुश	प्रसन्न
प्रसारण	पुं.	1. फैलाना	प्रसारणम्	प्रसारन, परसारन	फैलाना	फहलावुन	फैलाउ	पसरविणें
		2. आकाशवाणी आदि सूचना माध्यमों द्वारा कार्यक्रमों और सूच-नाओं को दूर-दूर तक लोगों को सुनाना, लोगों को सुनाने के लिए सूचना माध्यमों से प्रसारित करना	प्रसारणम्	प्रसारन	नश्र	नशरियाथ	प्रसारु	ध्वनिक्षेपण
प्रसिद्ध	वि.	विख्यात, मशहूर	प्रसिद्ध	प्रसिद्ध, मशहूर	मशहूर	मशहूर, नामावार	मशहूर	प्रसिद्ध
प्रसूति	स्त्री.	1. प्रसव, उत्पत्ति	प्रसूतिः	जच्चा	विलादत	प्रसुन	ज़मु, जनमु	प्रसूती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रसंग, प्रकरण, घटना	प्रसंग	सम्बन्ध, प्रसङ्ग	प्रसंग, प्रकरण (न)	प्रसंग, आलोचनार- विषय संगति	मरि- मखोङ्	प्रसंग, प्रकरण, घटणा	संदर्भमु	संदर्बम्	प्रकरणम्, संदर्भम्	प्रसंग, संगति
प्रसन्न, खुश	खुश	प्रफुल्ल, प्रसन्न	प्रसन्न, प्रपुल्ल, खुशि	प्रफुल्लित, प्रसन्न	हराओबा, अपेन्बा, पुक्निङ् मका लांबा	प्रसन्न, प्रफुल्लित, खुसि	प्रसन्नमैन	मगिऴ्- च्चियुट्ट	प्रसन्नत- युळ्ळ	प्रसन्न
फेलावो	पसरवप	प्रचार- प्रसार	प्रसारण (न), छाड़ानो	प्रचार	शंन्दोक्पा	प्रचार, प्रसारण	प्रसारण	परप्पुदल्	परप्पुँ	हरडिसुवुदु, प्रसारवागु
प्रसारण	प्रसारण	प्रसारण	प्रसारण (न)	प्रसारण, प्रचार	शंदोक्पा, थादोक्पा	प्रसारण, प्रचार	प्रसारण	ऑलिपरप्पु	प्रक्षेपणं	प्रसार
प्रसिद्ध, जाहेर	प्रसिद्ध	नामुद, प्रसिद्ध	प्रसिद्ध, बिख्यात	प्रसिद्ध, विख्यात	अफाओबा, ममिङ् चत्पा	प्रसिद्ध, बिक्षात	प्रसिद्धि- चेंदिन	पॅयर् पॅट्ट	प्रसिद्धि- यार्जिच्च	हेसरुवासि
प्रसूति, सुवावड़	प्रसूती, बायंटी	प्रसव, प्रसूति	प्रसब, उत्पत्ति	प्रसव, उत्पत्ति	म्न्चा पोक्पा, हौरक्फम, पोक्फम	प्रसूति, प्रसब, उत्पत्ति	प्रसवमु	पिरसवम्, पिळ्ळै पेरु	प्रसवम्	हेरिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. संतति, संतान	प्रसूतिः	संतान	औलाद	शुर्य, संतान	संतान, औलाद	संतती
प्रस्ताव	पुं.	1. किसी के सामने विचारार्थ रखी गई बात या सुझाव	प्रस्तावः	प्रसताव, परसताव	तज्वीज़	तजवीज़	प्रस्ताउ, ठहिराउ	प्रस्ताव, सूचना
		2. उक्त का वह रूप, जो किसी सभा या संस्था के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जाए (मोशन)	प्रस्तावः	मता	तहरीक	तजवीज़	प्रस्ताउ, ठहिराउ	प्रस्ताव, ठराव
प्रस्तावना	स्त्री.	किसी ग्रंथ का वह आरंभिक वक्तव्य, जिसमें उससे संबंधित कुछ मुख्य बातों का विवेचन किया जाता है (प्रीफेस)	प्रस्तावना, पूर्वरङ्गः	प्रसतावना	दीबाचा, तम्हीद	ब्रोहंकथ, तमहीद	मुहागु	प्रस्तावना
प्रस्तुत	वि.	1. मौजूद, उपस्थित, वर्तमान	प्रस्तुत	पेश, प्रस्तुत	मौजूद	पेश	पेश, मौजूद, हाज़िर	प्रस्तुत, हजर, उपस्थित
		2. प्रकरण प्राप्त, प्रासंगिक		–	पेश	पेश	पेश	प्रासंगिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संतति	बाळंटेर जल्म दिवप	संतति, संतान	प्रसूति, संतति	संतान	मचा	उत्पत्ति	संतानमु	संतति	संतति	संतान
प्रस्ताव, दरखास्त	प्रस्ताव	प्रस्ताव, सुझाउ	प्रस्ताब, दरखास्त	प्रस्ताव, परामर्श	वाफम अमा हौदोक्रक्पा	आबेदन, प्रस्ताब, परामर्श	प्रतिपादन	योशनै, करुत्तुरु	प्रस्तावम्	प्रस्ताप
ठराव	थाराव, ठराव	प्रस्ताव	प्रस्ताब	आबेदन, प्रस्ताव	हौदोक्रकपा वाफमबु मीयाम ममाङ् सभा नत्रगा संस्थागी मेंबरशिङ्गी ममाङ्दा पुखत्लक्पा	आबेदन, प्रस्ताब	प्रस्तावन	पिरेरणै	प्रमेयम्	ठरावु
प्रस्तावना, आमुख	प्रस्तावना	भूमिका, प्रस्तावना	प्रस्ताबना, भूमिका	प्रस्तावना, आगकथा	वाहौदोक्	भूमिका, प्रस्ताब	अवतारिकं	मुन्नुरै	प्रस्तावन, मुखवुर	मुन्नुडि, प्रस्तावने
प्रस्तुत	हाजिर	प्रस्तुत, उपस्थित	उपस्थित, बर्तमान	बर्तमान, उपस्थित	मफम अदुदा लैबा	उपस्थित, बर्तमान	प्रस्तुत मैन	मुन्वैत्त	इप्पोळुळ्ळ, प्रस्तुत	ईगिन, इत्तीचिन
प्रर्चातुं	प्रकरण	प्रासंगिक, सांदर्भिक	प्रासंगिक	प्रासंगिक	थोक्लिबा थौदोक, खन्नरिबा वाफम्शिङ्गा मरी लैनबा	प्रकरण, प्रासंगिक	प्रासंगिकमैन	संबंद्प्पट्ट	वंधप्पट्ट	प्रासंगिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उद्यत, तैयार	सिद्ध	पेश	तैयार	पेश	तयार	प्रस्तुत, उद्यत
प्रहरी	पुं.	पहरेदार	प्रहरी	पहिरेदार	पहरेदार	पहरुँदर	पहरेदारु	प्रहरी, पहारेकरी
प्राण	पुं.	शरीर के भीतर की जीवनाधार वायु, श्वास	प्राणः	जान	जान	प्रान, जुव	प्राणु, साहु	प्राण, श्वास
प्राणदंड	पुं.	मौत की सजा, मृत्यु दंड	प्राणदण्डः	मौत दी सज़ा	सज़ाए मौत	मोतुक सज़ा	मौत जी सज़ा	मृत्युदंड
प्राथमिकता	स्त्री.	1. किसी कार्य, बात या व्यक्ति को औरों से पहले दिया जाने या मिलने वाला अवसर, स्थान या अग्रता (प्राइऑरिटी)	प्राथम्यम्	पहिल, प्रथमता	तरजीह	गोंडुँ अनवॉर्य	अगिराई, तरजीह, प्रथमता	प्राधान्य
		2. प्रथम स्थान में होने या रखे जाने की अवस्था या भाव	प्राथमिकता	पहिल, प्रथमता	अव्वलीयत	गोंडुँ अनवॉर्य	अवलियत, प्रथमता	प्राथमिकता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
उद्यत, तैयार	तैयार	तयार, उद्यत	प्रस्तुत, उद्यत	साजु, प्रस्तुत	थौराङ् तौबा	प्रस्तुत, उद्यम	तयारुगा-उन्न	तयारान	तय्याराक्क-प्पेट्ट, तय्याराय	उद्यत, तयाराद, सिद्ध
प्रहरी, पहेरेदार, पहेरेगीर, चोकीदार	गुरखा, राखणो	पाले, पहरेदार	प्रहरी, चौकिदार	परीया, प्रहरी, चकिदार	थोङ् ङाकपा	प्रहरी, चौकिदार	कापलावाडु	पाराक्कारन्, कावल्कारन्	पाऱावुकारन्	कावुलगार
प्राण, श्वास	प्राण	प्राण, श्वास	प्राण, प्राणबायु	प्राण, प्राणबायु	थवाइ, प्राण	प्राण, जीवन	प्राणमु, श्वास	उयिर्, उयिर्मूच्चु, पिराणन्	प्राणन्	उसिरु, प्राण
मृत्युदंड	मृत्युदंड	मृत्युदण्ड, प्राणदण्ड	प्राणदंड (न)	मृत्युदंड	शिबगी दंदी	प्राणदंड, मृत्युदंड	मरणदंडनॆ	मरण दंडनै	मरणशिक्ष, वधशिक्ष	मरणदंडने
प्राथमिकता, पहेलापणुं	पयलोमान	प्राथमिकता, अग्रता	अग्राधिकार	प्राथमिकता, अग्राधिकार	अहान्बा तान्जा, अहान्बा वाफम	प्राथमिकता, प्रथमता, अग्राधिकार	प्राथम्यमु	मुदलिडम्	मुन्गणन	आद्यते
प्राथम्य	अग्रक्रम, प्राथमिकता	प्राथमिकता, अग्राधिकार	प्राथमिकता	प्राथमिकता, अग्राधिकार	इहान हान्बा	प्राधान्यता, प्राथमिकता, अग्राधिकार	प्राधान्यमु	मुदन्मै	प्रथम स्थानम्	प्राथमिकते, मोदल-स्थान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रादेशिक	वि.	प्रदेश-संबंधी, प्रदेश का	प्रादेशिक	प्रादेशक	सूबाई/इलाक़ाई	सूबॉयी	प्रदेशिक, प्रदेस सां वाबस्ता, प्रदेश बाबत	प्रादेशिक
प्राप्त	वि.	जो मिला हो, लब्ध	प्राप्त	प्रापत	हासिल/वुसूल	प्रोवमुत	हासिल	प्राप्त
प्रामाणिक	वि.	1. जो प्रमाण के रूप में माना जाता हो या माना जा सकता हो	प्रामाणिक	परमाणिक	मुस्तनद	सोंबूथुँवोल, मुस्तनद	सनदी, प्रमाणिक	प्रमाणीक
		2. जो शास्त्रों आदि से प्रमाणित या सिद्ध हो	प्रमाणित, प्रामाणिक	परमाणिक	तसदीक़ शुदा	सोंबूथवोल	सिद्धि, साबित	शास्त्रसंमत
प्रायः	क्रि.वि.	1. लगभग, करीब-करीब	प्रायस्	लगभग	तक़रीबन	अकसर	अक्सर	जवळ जवळ
		2. अक्सर, अधिकतर	बहुधा	अक्सर	अक्सर	–	घणो करे, अक्सर	बहुधा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रादेशिक	प्रादेशीक	प्रादेशिक	प्रादेशिक	प्रादेशिक, राज्यिक	लम-लमगी ओइबा	प्रादेशिक, राज्य-संबंधीय	प्रादेशिकमैन॑	मानिलत्तिय	प्रादेशिकम्	प्रादेशिक
प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त, लब्ध	प्राप्त, पोवा	फङ्बा	प्राप्त, लब्ध, पाइबा	प्राप्तिंचिन॑	किडैत्त	प्राप्तम्, लभिच्च, किट्रिय	सिक्किद
प्रामाणिक	प्रामाणीक	प्रमाण भएको, प्रामाणिक	प्रामाणिक (न)	प्रामाणिक	प्रमाण ओइबा, युंफम याओबा	प्रामाणिक, प्रमाण	प्रामाणिक-मैन॑	अत्ताट्चि पेट्ट	प्रामाणिकम्	प्रामाणिक, नंबलर्ह
–	शास्त्र सम्मत	शास्त्र सम्मत, ठीक	शास्त्र सम्मत	प्रामाणिक, प्रमाण	–	शास्त्र-सम्मत	प्रामाणिक-मैन॑	शास्ति-रंगळिन् ओप्पुद-ल्पेट्ट	शास्त्रसम्मतम्	प्रामाणिक, शास्त्रोक्त
प्रायः, बहुधा	जास्त जावन, चडकन्न	करिब-करिब, प्रायः	प्राय, काछाकाछि	प्राय, अधिकांश, सरह भाग तुला निशिना	चाओराक्ना	प्राय, अधिकांश, साधारण-भाबरे	दादापु	अनेगमाह	एकदेशम्	हेच्चागि
घणुं खरुं	चडजावन, जास्त-जावन	अक्सर, ज्यादाजसो	प्राय, साधारणतः (न)	प्राये	तोइना, अयांबना तत्तना	प्राय, साधारणतः	सामान्यमुगा	पेरुंबालुम्	मिक्कवारुम्, प्रायेण	सामान्यवागि, बहुमट्टिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रायद्वीप	पुं.	स्थल का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर स्थल से लगा हो (पिनिन्स्युला)	द्वीपकल्पः	प्राइदीप	जज़ीरानुमा	जज़ीरुँनुमा	उपबेटु, प्रायद्वीप	द्वीपकल्प
प्रायश्चित	पुं.	1. गलत अनुचित कार्य हो जाने पर अफसोस करना, पछतावा	पश्चात्तापः, अनुशयः	पछतावा	पशेमानी	प्रायशच्यथ	पछिताउ	पश्चाताप
		2. पाप का मार्जन करने के लिए किया जाने वाला शास्त्रविहित कर्म	प्रायश्चित्तम्	प्राशचित	कफ़्फ़ारा	तोबॖ	प्राश्चितु, प्रायश्चितु	प्रायश्चित
प्रार्थना	स्त्री.	1. निवेदन, याचना	प्रार्थना, प्रार्थनम्	अरज़, प्रारथना	दरख़्वास्त	प्रार्थना (हिं), दुआ (मु)	प्रार्थना	विनंती
		2. अपने या किसी और के लिए भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से कल्याण की कामना	निवेदनम्, प्रार्थना	प्रारथना	दुआ	प्रार्थना	–	प्रार्थना
प्रिय	वि.	जिसके प्रति बहुत अधिक स्नेह या प्रेम हो, मन को अच्छा लगने वाला, प्यारा, मनभावन	प्रिय	पिआरा	अज़ीज़, महबूब	टोठ	प्रिय, प्यारो, प्री	प्रिय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
द्वीपकल्प	द्वीपकल्प	प्रायद्वीप, प्रायोद्वीप	उपद्वीप (दी)	उपद्वीप	कङ्फाल	अंतरीप, उपद्वीप	द्वीपकल्पमु	दीपकर्पम्	उपभूखंडम्	प्रर्याय द्वीप
प्रायश्चित, पस्तावो	पश्चात्ताप	थकथक, पछुतो	प्रायश्चित्त, अनुशोचना	अनुताप	निंङम्ल-क्तबा	अनुताप, प्रायश्चित, अनुशोचना	पाश्चात्तापमु	पच्चात्ताबम्	पश्चास्तापम्, दुखं	पश्चात्ताप
प्रायश्चित	प्रायश्चीत	प्रायश्चित	प्रायश्चित्त	प्रायश्चित, पराचित	पाप कोक्नबा पूजा तौबा, प्रायश्चित तौबा	प्रायश्चित	प्रायश्चित्तमु	पिराय-च्चित्तम्	प्रायश्चितम्	प्रायश्चित्त
प्रार्थना, अरज, विनंती	मागणें	बिंतीभाउ, निवेदन	प्रार्थना, निबेदन, याचना (ज)	निबेदन, प्रार्थना	हायजबा	प्रार्थना, निबेदन, जाचना	निवेदन̄	वेण्डुकोळ्	अपेक्ष	निवेदने, बेडिके
उपासना	प्रार्थना	प्रार्थना	प्रार्थना, स्तुति	प्रार्थना, आवेदन	प्रार्थना	प्रार्थना, स्तुति, निबेदन	प्रार्थन̄	पिरार्त्तनै	प्रार्थन	प्रार्थने
प्रिय, गमतुं	आवडिचो (चे, ची)	प्रिय, प्यारो	प्रिय	मरमर, प्रिय	नुङ्शिबा	प्रिय	प्रियमयिन̄	पिरियमुळ्ळ, अन्बुळ्ळ	प्रियप्प्ट्ट	प्रिय, इष्ट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रीतिभोज	पुं.	किसी मांगलिक या सुखद अवसर पर बंधु-बांधवों और इष्ट मित्रों को कराया जाने वाला भोजन, दावत	प्रतिभोजः	प्रीतीभोज	दावत	साल	प्रीतीभोजु	मेजवानी
प्रेम	पुं.	प्रीति, प्यार, स्नेह, अनुराग	प्रेमन्	प्रेम, परेम	मुहब्बत	प्रेंयम, टाठिन्यार	प्रेमु	प्रेम
प्रेरक	वि.	प्रेरित करने वाला, प्रेरणा देने वाला	प्रेरक	प्रेरक	मुहर्रिक	ह्यमथ दिनुँवोल	प्रेरना ड्रींदड़ु, उत्साहु ड्रींदड़ु	प्रेरक
प्रेरणा	स्त्री.	किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की प्रक्रिया या भाव	प्रेरणा	प्रेरना	तह्रीक, तरग़ीब	प्रेरना	प्रेरना	प्रेरणा
प्रेषण	पुं.	भेजना, रवाना करना	प्रेषणम्	भेजणा	तरसील	सोजुन	मोकिलणु, रवानिगी	धाडणें
प्रोत्साहन	पुं.	1. हिम्मत बढ़ाना	प्रोत्साहनम्	जी वधाउणा	हिम्मत अफ़्ज़ाई	ह्यमथ दिन्य	हिमथ अफ़्ज़ाई	प्रोत्साहन
		2. प्रोत्साहित करने के लिए कही जाने वाली बात			हौस्ला अफ़्ज़ाई	ह्यमतुँच कथ	हिमथ वधाइण लाइ चयल गाल्हि	प्रोत्साहने

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रीति-भोजन	पार्टी, मेजवानी	प्रीतिभोज	प्रीतिभोज	प्रीतिभोज	चाक्लेन	प्रीतिभोजन, भोजी	विंदु	विरुंदु	सद्य, विरुन्नु	औतण, भोजनकूट अथवा समारंभ
प्रेम, प्रीति, प्यार, हेत	प्रेम	प्रीति, प्यार, प्रेम	प्रेम, भालोबासा, अनुराग	प्रेम, चेनेह, मरम, प्रीति	नुङशिबा	प्रेम, स्नेह, अनुराग	प्रेमँ	अन्बु, कादल्	स्नेहम्, प्रेमं	प्रेम
प्रेरक	प्रेरक	प्रेरक	प्रेरक	प्रेरक, पठियाओंता यि पठियाय	इथिल पीबा	प्रेरक, पठाइबा-लोक	प्रेरकमैनँ	तूण्डुगिर्	प्रेरकमाय	प्रचोदक
प्रेरणा, दबाण	प्रेरणा	प्रेरणा, उत्साह	प्रेरणा	प्रेरणा, उद्गरणि, उत्साह	थौइनशिन	प्रेरणा, उत्साह	प्रेरणँ	तूण्डुदल्	प्रेषण	प्रेरणं
प्रेषणा, मोकलवुं ते	प्रेषण	प्रेषण, पठाइ	पाठानो	प्रेषण	थाबा	पठाइबा, प्रेरित-करिबा	प्रेषणमु, पंपुटँ	अनुप्पुदल्	प्रेषणम्, अयक्कल्	कळिसुवि
प्रोत्साहन	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन	उत्साह देओया	साहस	थौना हाप्पा	प्रोत्साहन, साहस, प्रेरणा	प्रोत्साहनँ	उर्चाग-मळित्तल्, ऊक्कुदल्	प्रोत्साहि-प्पिक्कल्	उत्तेजन, हुरुदुंबिसु
—	—	प्रोत्साहन	अणुप्रेरणा देओया	उत्साहित कथा, प्रेरणा	थौना हाप्पा वाङाङ	उत्साहित कथा, प्रेरणा	प्रोत्साहन	उचार्ग मोळि	प्रोत्साहन	प्रोत्साहने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
प्रौढ़	वि.	1. अच्छी या पूरी तरह से बढ़ा हुआ	प्रौढ	प्रौढ	बालिग़	मॅर्यद्यादम, बालेंग	सामाण्यलु, प्रौढ़	प्रौढ़
		2. मध्य अवस्था में पहुँचा हुआ व्यक्ति (एडल्ट)	प्रौढ	बालग़	नौजवान	अडवर	बालिग़	प्रौढ, वयस्कं
		3. पुष्ट, परिपक्व (मैच्योर)	प्रौढ	पक्किआ	–	पूठ, पॉख़्तुॅ	पकलु, रसियलु	परिपक्व
फकीर	पुं.	1. संत, साधु	साधुः, महात्मा	फ़क़ीर	गदा	दरवेश, साद	दरवेशु	फकीर
		2. भिखमंगा, भिखारी	भिक्षुकः	फकीर	फ़क़ीर	फकीर	फ़क़ीरु	भिकारी
फटकना	स.क्रि.	1. सूप आदि के द्वारा अन्न साफ करना	वि /शुध्	छट्टणा, फटकणा	फटकना	छ्टुन	छंडणु	पाखडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
प्रौढ़	प्रौढ	प्रौढ	पूर्णवर्धित (न)	पूरठ, प्रौढ़, बयस्क	मपुङ् फारबा, एडल्ट	प्रौढ़, वयस्क	प्रौढ़मयिनॅ	मुळुवळर्- चियुट्ट	वळर्च्चयॅत्तिय	पूर्णवागि बेळेद
पुख्त, आधेड, आधेड उमरनुं	वयस्क	बालिग, वयस्क	प्रौढ़, बयस्क	प्रौढ़, आदहीया, डेका, बूढ़ा	एडल्ट	प्रौढ़, व्यस्क	वयोजनुडु	वयदुवंद	प्राय- पूर्त्तियाय	वयस्क, प्रौढ
परिपक्व	परिपक्व	पाको, प्रबुद्ध, परिपक्व	परिपक्व	परिपूर्ण, पूरण, परिपकव	मपुङ फाबा, मैच्चोर	परिपूर्ण, परिपक्व, पुर्ण, संपुर्ण	परिपक्वॅ - मयिनॅ	पक्कुव- मडैंद	पक्वत वन्न, पाकत वन्न	पक्वते
त्यागी, वैरागी	साधु, फकीर	भिक्षुक, जोगी, फकिर	फकिर, भिक्षुक (क्ख)	संतसाधू, भिखारी, सन्यासी	संत, साधु, महात्मा	भिकारी, संसार- त्यागी, सन्यासी, साधु-संथ	साधुवु	इस्लामिय तुरवि	सन्यासि, फकीर	संत
फकीर	भिखमा- गतलो, बावाजी	भिखारी, भीखमङ्गा	फकिर, भिक्षुक (क्ख)	भिखारी, सन्यासी	भिखा निबा, चाक्निबा, भिखारी	फकीर	बिच्चगाडु	पिच्चै- क्कारन्	भिक्षक्कारन्	भिक्षुक
झाटकवुं, ऊपणवुं	फटकप	निफन्नु, फट्कनु	झाड़ा, पाछड़ानो	जार	शुबा	झाड़िबा	चॅरगुटॅ	मुरत्ताल् दानियत्तै पुडैक्क	चेरुक, पाट्टक	केरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. कपड़े को इस प्रकार झाड़ना कि उसमें से लगी हुई धूल या सिलवटें निकल जाएँ	आ √हन्	छंडणा	झड़ना	दुंनुन	–	झटकणें
फड़कना	अ. क्रि.	1. शरीर के किसी अंग में स्फुरण होना	√स्फुर्	फड़कणा	फड़कना	फोरुन	फड़िकणु	स्फुरण पावणें
		2. कोई बहुत बढ़िया या विलक्षण चीज़ देखकर मन में उक्त प्रकार का स्फुरण होना, जो उस चीज़ के विशेष प्रशंसक होने का सूचक देता हैं।	√स्फुर्	फड़कणा	गचल जाना	फोरुन	–	मन प्रशंसेने भरुन पेणें
		3. पक्षियों के पर हिलना, फड़फड़ाना	√स्फुर, √धू	फड़कणा	फड़फड़ाना	वुफुंनावुन	–	पंख फड़फड़णें
फबना	अ. क्रि.	1. किसी वस्तु का किसी पर सुंदर लगना या जँचना,	√शुभ्	फबणा	फबना	फबुन, शूबुन	फबुणु, ठहिकणु	शोभणें
		2. बात आदि का ठीक मौके पर उपयुक्त लगना	√रुच्	फबणा	–	फबुन, शूबुन	सूंहणु	आवडणें
फर्क	पुं.	1. दो वस्तुओं, व्यक्तियों आदि में दिखाई पड़ने वाली विषमता, भिन्नता	वैषम्यम्, भेद:	फरक	दूरी, फ़ासला	फरुँख	फ़र्कु	फरक, तफावत
		2. भेद-भाव, दुराव	भेद:	फरक	इख़्तिलाफ़	फरुँख	तफ़ावत	भेद-भाव
		3. हिसाब-किताब आदि में भूल-त्रुटि आदि के कारण पड़ने वाला अंतर	अंतर	फरक	फ़र्क	फरुँख	–	अंतर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
झाटकवुं	झटकप	झटकार्नु	–	फाल	फी हायबा, फी शुबा	झाड़िबा	विदिलिंचुटॅ	उदर्	कुट्युक	झाडिसु
फडकवुं	फडकप	फरफराउनु	कंपन हओया	लर, कपा	पोंबा	फड़किबा, डेइँबा, नाचिबा	अदरुटॅ	तुडिक्क	तुटिक्कुक	अदुरुवुदु, स्फुरणे
ऊछकवुं	स्फुरण	फुर्किन	नाचा	आनंद बिरिङ, स्फुरित होवा	हराओ-तुजुङ् पोक्पा	स्फुरण, स्फुरित हेबा	अदरुटॅ	मनम उवक्क	तुटिक्कुक	मिडियुवुदु, प्रफुल्लित-वागुवुदु
फडफडवुं	फडफ-डावप	हल्लनु, कंपन हुनु	डाना झाडा	धपधपा	उचेक मशा खप्पा	पक्षी बाडेणा झाड़िबा	आर्चुट	(पर्रगेवक) सिर्गै अदित्तु-क्कोवळ्ळ	चिर्कटि-क्कुक	बडियुवुदु
शोभवुं	सोबप	सुहाउनु	शोभा पाओया	भाल-लाग	फजबा, निङ्थिज बा फाओरक्पा	भल-लागिबा	शोभिंचुटॅ	शोबिक्क	शोभिक्कुक	शोभिसु
सारूं, लागवुं	योग्य, लायक	सुहाउँदो-मिल्दो हुनु	–	उपयुक्त	वाहै चुशिन्नबा	उपजुक्त-प्रयोग	राणिंचुटॅ	पॉरुत्तमायि-रुक्क	शोभिक्कुक	ओप्पु
फरक, फेर	फरक	फरक, भिन्नता	पार्थक्य, तफात, प्रभेद (क्ख)	पार्थक्य, तफात	खेन्नबा	पार्थक्य, प्रभेद, तफात	भेदमु	वित्तियासम्, वेरुपाडु	व्यत्यासम्	व्यत्यास, भेदं
भेद-भाव	फरक, दुराव	दूरी, भेद	भेदभाव, अबधान	भेदभाव	मोत् खेनबा मोत मान्नदबा	भेदभाब, ब्यबधान	भेदभावमु, दापरिकमु	वित्तियासम्	भेदभावम्	भेदभाव
तफावत	अंतर	फरक, अंतर	तफात, फाराक	भुल होवा, अंतर	चानदबा, चुशिन्न देबा	तफात, फरक, अंतर	भेदमु	कणक्किल एर्पडुम	अंतरं, पॉरुत्त-क्केटु	व्यत्यास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फल	पुं.	1. पेड़ का फल	फलम्	फल	फल	फल, म्यवुँ	फलु, मेवो	फळ
		2. किसी प्रकार की क्रिया, घटना, प्रयत्न आदि के परिणाम के रूप में होने वाली बात, क्रिया, घटना, प्रयत्न आदि का परिणाम	फलम्	फल	नतीजा	नतीजि	फलु, नतीजो	परिणाम
फलना	अ. क्रि.	1. वृक्ष का फलों से युक्त होना	फल्	फलणा	फलना	फॉलुन	फलणु, फलु ड्डियणु	फळ धरणें
		2. किसी काम या बात का शुभ परिणाम प्रकट होना	फल्	फलणा	मुबारक होना	फलुन	सुठो नतीजो निकिरणु	फळ मिळणें
		3. सुख-समृद्धि का कारण बनना	फल्	फलणा	परवान चढ़ना	फलुन	वधणु-वीझणु	फलदायक होणें
फसल	स्त्री.	खेत में बोए हुए अनाजों आदि की पैदावार	सस्यम्, शस्यम्	फसल	फ़स्ल	फसॅल	फ़सुलु	पीक, हंगाम
फव्वारा	पुं.	एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण, जिससे पानी दबाव के कारण धारा या बूँदों में नीचे गिरता है, फुहारा (फाउंटेन)	उत्सः	फुहारा, फुआरा	फ़व्वारा	फंववारॅ	फूहारो	कारंजे, फवारा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फल	फळ	फल	गाछेर फल	फल	उहै	फल	फलमु, पंडु	पऴम्	काय्, पऴम्	हण्णु
परिणाम	फळ मेळप	नतिजा, परिणाम	फल, परिणाम (न)	फलाफल, परिणाम	फल, फोल	फलाफल, परिणाम, फल	फलितमु	पयन्	फलम्	प्रतिफल
फळवुं	फळप, फळ जावप	फल्नु, फल लाग्नु	फलनशील	गुटि लाग, फल धरा	महै यानबा	फलिबा	पंडुट	काय्क्क	काय्क्कुक	फलकोडुवुदु, हण्णु बिडुवुदु
सिद्ध थवुं	फळ मेळप	सफल हुनु	फला	फलाफल घोषित ह, फलिओवा	अफबा फल फङ्बा	फलप्रद-हेबा, सफल, लाभजनक	फलिंचुट	पलिक्क	फलिक्कुक	फलिसुवुदु
–	फळदायी	समृद्ध हुनु, फलदायक हुनु	फलंत हओया	सुख-समृद्धिर कारण	नुङाइ-याइफबगी मरम ओइबा	लाभजनक, फलप्रद	फलिंचुट	वळर्च्चि अडैय	समृद्धि उण्टाकुक	समृद्धि होंदुवुदु
फसल	पीक	बाली, बालीनाली, उब्जा	फसल	शस्य, खेति	महै-मरोङ्	फसल, शस्य, खेति	पंट	विळैच्चल्	विळवॅ	बेळे
फुवारो	फवारो	फोहरा, छाँगा, झरना	फोयारा	फोहोरा	ईशिङ पेरे, फाउन्टेन	निर्झर, झर, प्रस्रबण, झरणा	ऊट, फौंटेनु	नीर्-ऊट्टु	अरुवि, ऊटर्ट फौंटेन	कारंजि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फहराना	स. क्रि.	कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना जिससे वह हवा में लहराती रहे	उत् √तुल्	फहराउणा	–	फहरावुन, लहरावुन	लोडाइणु, झूलाइणु	फडकविणें
फाँसना	स. क्रि.	1. फंदे में किसी पशु-पक्षी को फँसाना	√पाश, √बध्	फाहुणा, फसाउणा	फाँसना	फसावुन	फासाइणु	अडकविणें
		2. छल, ठगी, युक्ति आदि से किसी व्यक्ति को अपने लाभ के लिए फँसाना	नि+ग्रह, अति+सम्+धा	फाहुणा, फसाउणा	–	फसावुन	–	फशी पाडणें, फसविणें
फाँसी	स्त्री.	1. प्राणदंड	मृत्युदंड, पाशबंध	फाही, फांसी	फाँसी	फास्य	फासी, फासीअ जी सज़ा	फाशी, प्राणदंड
		2. रस्सी का वह फंदा जिसे लोग गले में फँसाकर आत्महत्या के लिए झूल या लटक जाते हैं	बन्धः	फांसी	फाँसी	फाँस्य	फासी, फाही	फाशी
फाटक	पुं.	मुख्य द्वार पर लगा हुआ बड़ा दरवाजा (मेनगेट)	द्वार	फाटक	फाटक	फाटक	फाटकु	फाटक
फाड़ना	स. क्रि.	1. कागज, कपड़े आदि को बलपूर्वक खींचकर टुकड़े-टुकड़े कर देना	वि+दृ, पट् वि+खण्ड्	पाड़ना	फाड़ना	च़टुन	फाड़णु	फाडणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लहेराववुं	फडकप	फहराउनु	उड़ा, ओड़ा	उरा	हायबा	उडिबा	एंगुरवेयुटॅ	परक्क विड़	परत्तुक	हारिसुवुदु
–	फंसवप	अल्झाउनु, बल्झाउनु	धरा, फाँदे फेला	फाँदत पेला	लाङ् थाक्पा	फास	पट्टुकॉनुटॅ	सिक्कवैक्क	कुरुक्कुक	बलेयल्लि बीळिसुवुदु
फसाववुं	फंसोवप	फसाउनु, झुक्क्याउनु	फांसानो	निजर बश कर, फांदत पेला	वाहैगी लाङ्	बश-करिबा, आयत्त-करिबा	वललो-वेसुकॉनुटॅ	(एमाट्टि) वशप्पडुत्त	कुरुक्कुक	सिक्किसुवुदु
फांसी, मृत्युदंड	फासीदिवप, प्राणदंड	मृत्युदंड, फाँसी	फांसी, प्राणदंड	मृत्युदंड	फासी तौबा	फाशी, मृत्यु दंड	उरि	मरणदंडनै	तुक्कुशिक्ष	गल्लु शिक्षे
फांदो, फांसो	फासी	पासो, फाँसी	फाँस	चिपजरी, खोचोरा गाँठि	थोरी यान्बा	फासि, रसि वा-दउडि-देइ मरिबा	उरि-त्राडु, उरि शिक्षे	चुरुक्कु	कॉल-क्कयरुॅ, कॉल-क्कुरुक्कुॅ	नेणु, उरुलु
फाटक, झांपो	फाटक	मूल ढोका, तगारो	सदर दरजा	गेट, नङलामुख	थोङजाओ	फाटक	मुखद्वारमु	नुळै वायिल	प्रधान कवाटम्	मुख्य बागिलु, हेब्बागिलु
फाडवुं, चीरवुं	पिंजप	च्यात्नु फार्नु	छेँड़ा	फाल	शेगाइबा	फाडिबा, चिरिबा	चिंचुटॅ	किळिक्क	कीरुक	हरि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी गाढ़े द्रव पदार्थ के संबंध में ऐसी क्रिया करना कि उसका जलीय अंश तथा ठोस अंश अलग हो जाए	अप +/क्षारय्	पाड़ना	–	फाटॅवुन	फाड़णु	फाटणें (दूध)
		3. किसी वस्तु का मुँह साधा-रण से अधिक और दूर तक फैलाना या बढ़ाना		पाड़ना	–	ग्रॅथद्युन	–	रूंदावणें
फालतू	वि.	1. आवश्यकता से अधिक, अनावश्यक	अतिरिक्त	फालतू	फ़ालतू, फ़ाज़िल	फालतू	फ़ालतू	निरर्थक, फालतू
		2. बेकार	–	फालतू	बेकार	बेंकार	बेकार	बेकार
फिर	क्रि.वि.	1. दोबारा या पुनः	पुनर्	फेर	फिर	ब्ययि	वरी	पुन्हा
		2. पीछे, अनंतर, उपरांत, बाद	अनन्तर	फेर	पीछे	पतुॅ	पोइ	नंतर
		3. तब	तदा, ततः	फेर	तब	पतुॅ	तड॒हिं	तेव्हा, मग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फाडवुं	फाटोवप	फटाउनु, छुट्ट्टाउनु	(छाना) काटानो	फाल	फक्तोक्पा	अलगा बा- भिन्न- करिबा	विरुगँ गॉट्टुट	दिरव- पदार्तत्तै तिरैयवैक्क, पिरिय- च्चंय्य	(पाल्) पिरिक्कुक, वळ्ळवुम् कट्टयुम् वेर्याक्कुक	ओडेयुवुदु
फालतु, नकामुं	बॅकार	फाल्टु, फाल्तू, उभ्रेको	फालतु, अनाबश्यक, बेकार	अतिरिक्त	कानद्रबा	अतिरिक्त, बेकार, फालतु, अनाबश्यक	मिगिलिनँ	अदिग- प्पडियान	आवश्यत्ति- लधिकमाय, वेण्टतिलेऱ्	निरुपयोगि, निरर्थक
नकामो, बेकार	अर्थनाशिल्ले	बेकम्मा, रद्दी	फालतु	अनुपयोगी	शिजिन्न- द्रबा	अनुपजोगी, बेकार, निरर्थक	व्यर्थमैनँ	उबयोगमट्ट	उपयोग- मिल्लात्त	केलसक्के बरद, निरर्थक
फरीथी, पुन: पाछुं	परत	फेरि, अर्को पटक	पुनराय, आबार, फेर	आकौ, पुनराय, पुनर	अमुक हन्ना	फेर, पुणि, पुनश्च, पुणिथरे	मरलँ	मऱुमुऱै	वींटुम्	मत्तें
वळी, बीजीवार	मागीर	त्यसपछि, उपरांत्, अझै	परे, अनंतर	पाछत	कोन्ना	पछरे, परे, उपरांतरे	तर्वातँ	पिऱगु	पिन्नीडु, अनंतरम्	नंतर
त्यारे	तेन्ना	अनि	तबे, तखन	तेतिया	अदुदगी	पुणि, तेणु, से कारणरु	अप्पुडु	अप्पॊळुदु	अप्पोळ्	आग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कंश्मीरी	सिंधी	मराठी
फीका	वि.	1. स्वादहीन (पदार्थ)	निःस्वाद	फिक्का	फीका	बेंमज़ुं, फीकुँ	फिको, नीरस	नीरस, फिका, रुचिहीन
		2. जो यथेष्ट चमकीला या तेज न हो (रंग)	विवर्ण	फिक्का	–	बेंमज़ुं, फीकुँ	फिको	निस्तेज
		3. जिसमें आनंद की प्राप्ति न हुई हो, नीरस (खेल) तमाश आदि	विरस	फिक्का	बेमज़ा	फीकुँ	नीरस	नीरस
फीता	पुं.	1. सूत आदि की बनी हुई कम चौड़ी और लंबी पट्टी (लेस)	पट्टिका	फीता	फ़ीता	फीतुँ	इंच-पटी, फ़ीतो	फीत, नाडी, रिबन, लेस
		2. लंबाई, चौड़ाई मापने वाली पट्टी	मानसूत्रम्	फीता	इन्चीटेप	फीतुँ	फीथ	टेप
फीस	स्त्री.	1. विशिष्ट कार्यों के बदले दिया गया धन	शुल्कम्	फीस	फ़ीस	फीस	फ़ी	शुल्क, फी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फिक्कुं, फीकुं	पचकें	फिक्का, खल्लो	फिका, बिस्वाद (स्सा)	सोवाद नोहोवा, स्वादहीन	महाओ याओदबा	फिका, स्वादहीन	चप्पनि	रुचियट्ट	स्वादिल्लात्त	सप्पे
निस्तेज	निस्तेज	मधुरो, हल्का	फिका, हाल्का	शँता	ताइफेत् ताइबा	शेता, फिका, हाल्का, निस्तेज	पालिपोयिनँ	मंगलान, वेळिरिय	मङ्ङिय	मंकु
नीरस, मोळुं	नीरस	नीरस, बेमज्जाको	नीरस	निष्प्राण, नीरस	रस याओदबा, राशि कङ्बा, नुङाइतबा	निष्प्राण, नीरस, तमसाछन्न	नीरसमैनँ	चर्प्पन्ऱ	नीरसमाय	नीरस, आसक्ति-रहित
गूंथेली दोर	फीत	फित्ता	फिता/ फिते	लेस, जरी	फीता, लेस	फिता, डोर	लेसु	नाडा	लेस्, रेंत	लेसु, नाडि
टेप	माप पट्टी	फित्ता	फिता, टेप	टेप	इंची टेप	फिता	टेपु	टेप्, अळवु नाडा	टेप्प्, अळवुनाट	टेपु
फी	फी	दस्तूर, पारिश्रमिक	फी, पारिश्रमिक	फिज, पारिश्रमिक	फी	मूल, मजुरि, पारिश्रमिक	फीजु	कट्टणम्	फीस्	संभावने वेतन, फीसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. वह धन, जो विद्यार्थी की शिक्षा के लिए मासिक रूप में देना पड़ता है, शुल्क	शिक्षाशुल्कम्	फीस	फ़ीस	फीस	शुल्कु	फी
फुंकार	स्त्री.	वह ज़ोर की ध्वनि, जो सर्प आदि द्वारा क्रोध में वेगपूर्वक साँस बाहर निकालते समय होती है, फूत्कार, फुफकार	फूत्कारः	फुंकारा	फुंकार	फूंकुन	फूंकार	फूत्कार
फुटकर	वि.	1. भिन्न या अनेक प्रकार का, अलग-अलग छोटे हिस्से में	बहुविध	फुटकल	मुख़्तलिफ़	परचून	रेज़्रिकी, मुतफ़र्का	विभिन्न प्रकारचा
		2. जो इकट्ठा या एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग खंडों में आता या रहता हो, खुदरा, थोक या विपर्याय (रिटेल)	प्रकीर्ण	परचून	ख़ुर्दा	परचून	रेज़्रिकी, परचून	फुटकळ
फुदकना	अ. क्रि.	1. पक्षियों, जंतुओं आदि द्वारा उछलते हुए चलना	उत्+प्लु	टप्पणा	फुदकना	वोटुँ तुलनि	टपणु, टपो ड्रियणु	उड्या मारणें
		2. उमंग में आकर अथवा प्रसन्नता-पूर्वक उछलते हुए इधर-उधर आना जाना	उत्+प्लु	टप्पणा	फुदकना	वोटुँ तुलनि	उमंग में उछलि जणु	उपानंदाने, नाचणें, बागउणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शिक्षण-फी	शुल्क	शुल्क्, फोस	फी, बेतन, माहिना	माछुल	फी	बेतन, पारिश्रमिक	जीतमु	पळ्ळिक्कूड चंबळम्, कट्टणम्	फीस्	फीसु, शुल्क
फूंकार	फुत्कार	फुङ्कार, फुत्कार	फुत्कार	फाँचफाँचणि	कांबा	फूत्कार	बुस	चीरुदल्	फूत्कारम् चीट्टुक	बुसुगुट्टुविके
अनेकरीते, भिन्न	तरेतरेचे	अनेक थरिको, विविध, विभिन्न्	रकमारि	बिभिन्न धरणर	तोङान्बा	बिभिन्न-प्रकारर, बिभिन्न धरणर, बहुबिध	कलगूरगंप	पल विदमान	पल तरम्	बेरॆ
परचुरण, फालतु, नकामुं	फुटकळ	फुटकर, खुदुरा, खुद्रा	खुचरा/ खुचरो	खुचुरा	मचोइ-मचोइ	खुचुरा	चिल्लरगा	चिल्लरैयान	चिल्लर्	चिल्लरे
कूदको मारवो, भूसको मारवो	उडकी मारप	उफ्रेर जानु, फड्को हान्नु	लाफानो	जँपियाइ फुर	चोङ् चोङ्ना चत्पा	ड़ेइँबा, कुदिबा	गंतुट	तत्ति तत्ति नड़क्क	तत्ति नटक्कुक	नल्दिदाडुवुदु
ऊछळवुं	तर तरप	खुसीले उफ्रनु, ओहोर दोहोर गर्नु	–	आनंदते इफाले-सिफाले घुरि-फुर	चोङ. चोङ्ना चत्पा	आनंदरे-ड़ेइंबा	दुमुकुट	संदोष-त्तिनाल् कुदिक्क	तुळ्ळि-च्चाटुक	नेगेदाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फुलझड़ी	स्त्री.	छोटी, पतली डंडी वाली आतिशबाजी, जिसमें से फूल की-सी चिनगारियाँ निकलती हैं	फुल्लझरिणी	फुलझंड़ी	फुलझड़ी	फुलुँजर्य	चिणिंगाई तीली, फुलझड़ी	फुलबाजी
फुलवारी	स्त्री.	फूलों से भरा छोटा उद्यान या बगीचा	पुष्पोद्यानम्	फुलवाड़ी	फुलवारी	पोशिवॉर	फुलवाड़ी	बाग
फुसफुसाना	अ. क्रि.	बहुत ही धीमे या दबे स्वर में बोलना	√फुस्फुसाय्	फुसफुस करना, बुड़बुड़ करना	फुसफुसाना	कर्नुफिसराय	भुणि भुणि करणु	कुजबुजणें
फुहार	स्त्री.	ऊपर से गिरने वाली पानी की या किसी तरल पदार्थ की छोटी-छोटी बूँदें	शीकरः	फुहार	फुवार	छिकुँ	फुहार, हल्को मींहुं	तुषार, थेंब
फुहारा	पुं.	1. जमीन से फूट पड़ने वाली पानी की या तेल, पेट्रोल की तेज धार	निर्झरः, उत्सः	फुहारा	फ़व्वारा	चश्मुँ, फंवार	चश्मो	कारंजें, फवारा
		2. एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण जिससे पानी या किसी तरल पदार्थ की बूँदें निरंतर गिरती हैं, फव्वारा (फाउंटेन)	उत्सः	फुहारा	—	चश्मुफंवार	फूहारो, फव्वारो	फवारा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फूलझड़ी	सुरसुर-काडी, फुलझर	फुलझडी, फुलझरी	फुलझुरि	फुलजारि	मै काप्पी	फुलझड़ी	काकरपूलु	मत्ताप्पु	पूत्तिरि	हूबाण
फूलवाड़ी, बगीचो	फुल बाग	फूलबारी	बागिचा, बागान	फुलनि, बागिछा	लैकोन	बगिचा, बाटिका, उद्यान	पूदोटॅ	पूंगा, नंदवनम्	पूंतोट्टम्	हूदोट, उद्यान
गुसपुस	फुसफूसी	कानेखुसी गर्नु, खुसखुस गर्नु	फिसफिस करा	फुचफुचा	चिबोन-चिबोन ङाङ्बा	फुस-फुस-करि-कहिबा, चापा-कंठरे-कहिबा	गुसगु-सचेयुटॅ	किशु-किशुक्क	कुशु-कुशुक्कुक	पिसुगुट्टु
फरफर, फोरुं	शिंतोडो	बाछिटा, फुहार	फोंटा	बुरबुरणि	नोङ् मकूप-मकूप तारक्पा	झरिबा, बुंदा-बुंदा-पडिबा	नीटिपॉगॅ	चारल्	नीर्त्तळ्ळि, एर्वळ्ळम्	तुंतुरु
फुवारो, झरो	झरो	फोहरा, फोहोरा	झरना, फुयारा	झरणा	इफूट्	झरणा	जलधारॅ	नीर् ऊट्टुॅ	ऊट्टुॅ, उरुवॅ	बुग्गे
फुवारो	फवारो	फुहारा	फोयारा	फोहोरा	ईशिङ् पेरे	उत्स, प्रस्रवण	फौंटॅनु	चॅयर्कैं अरुवि	कृत्रिम अरुवि	कारंजि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फूँकना	स. क्रि.	1. मुँह का विवर समेटकर वेग के साथ हवा छोड़ना, मुँह से हवा भरकर किसी नली आदि से वेगपूर्वक हवा छोड़ना	√ध्मा+फूत् +कृ	फुकमारना	फूँकना	फुकुन	फूकणु	फुंकणे
		2. आग लगाना, जलाना या सुलगाना	फूत् +कृ	फुंकणा	–	ज़ालुन	फूक डुई बारणु	आग फुलविणें
		3. बुरी तरह से नष्ट या बरबाद करना	वि √नाशय्	–	–	बोॅरबाद-करुन	विञाइणु, बरबाद करणु	विध्वंस करणें, फुंकून टाकणें
फूट	स्त्री.	1. आपसी अनबन या बिगाड़	भेदः	फुट्ट	निफ़ाक़	निफाक	फूटि, अणबणति	दुही, वैमनस्य
		2. एक प्रकार की बड़ी ककड़ी जो पकने पर प्रायः खेतों में ही फट जाती है	पक्वकर्कटी	फुट्ट	फूट	–	हिक किस्म जी बड़ी ककिड़ी	एक प्रकारची मोठी काकड़ी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फूंकवुं	फुंकप	फुक्नु	फुँका/ फोँका	फु मार	स्वर कामशिन्बा	फुंकिबा	ऊदुटॅ	ऊद	ऊतुक	ऊदु
बाळी मूकवुं	उजो पेटोवप	आगो सल्काउनु, जलाउनु	आगुन ज्वालानो (ज)	जुइ- जला	मै हौगत्पा	फुंकिबा	रगुल्चुटॅ	ती वैक्क, ऍरिक्क	कत्तिक्कुक	उरिसु, बेंकिहच्चु
फूँकी मारवुं	फुंकून उडोवप	बरबाद गर्नु	फुँका/ नष्ट करा	ध्वंस कर, नष्ट कर	शाथिना माङ्- ताक्पा	ध्वंस- करिबा, नष्ट- करिबा, निशेष- करिबा	तगलबॅट्टुटॅ	पोरुळै वीणाक्क	पाळाक्कुक	भस्म माडु, हाळुमाडु
फूट, फाट	फूट घालप, फूट पडप	फाटो, बेमेल	बिरोध, काजिया, मनो- मालिन्य	काजिया, मनो- मालिन्य, बिरोध, कलह	काइबा	कजिआ, झगडा, मनोमालिन्य, विरोध, कलह, भिन्न मत	वैमनस्यमु	पिळवु, विरोदम्	पिळर्पु, कलह्म्	ओडकु, कलह
चीभडुं	चिबूड	फूटकाँक्रो	फुटि	चिराल	चिनार थबी	फुटि- काकुड़ि	पगिलिनॅ दोसकाय	पळुत्तदुम् वॅडिक्कुम् वेळ्ळ- रिक्काय्	ऑरु तरम् कक्करिक्क	वंदुबगेय सवतेकाइ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फूल	पुं.	1. पुष्प, कुसुम	पुष्पम्	फुल्ल	फूल, गुल	पोश	गुलु, फुलु, फूलु	फूल
		2. शव के जल जाने के बाद बची हुई हड्डियाँ	अस्थि	फुल्ल	–	ॲस्त्रॖकुॅं	संख, मुर्दे जे सड़ी वञण खांपोइ बचियल फूल	अस्थी
फूलदान	पुं.	फूल सजाने के लिए मिट्टी, धातु, शीशे आदि का बना पात्र, गुलदान	पुष्पधानिका	फुल्लदान	गुलदान	पोशिगमलुॅ, गुलदान	फूलदानु, गुलदानु	फूलदाणी वाझ
फूलना	अ. क्रि.	1. पेड़-पौधों में फूल आना	फुल्ल्	फुल्लणा	फूलना	फुलय	फुटणु, फलणु	फुलणें, बहरणें
		2. बहुत अधिक उभर जाना या ऊँचा होना, सूजना	√ध्मा	फुल्लणा	–	हुॅंनुन	सुजणु	सुजणें
		3. उमंग से भर जाना, बहुत प्रसन्न होना	उत्√फुल्ल्	फुल्लणा	–	फोॅलुन	टिड़णु, खुश थियणु	आनंदणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फूल, कुसुम	फूल	फुल, पुष्प्	फुल, पुष्प	कुसुम, फुल, पुष्प	लै	फुल, पुष्प, कुसुम	पुव्वु	मलर्, पू	पूवुँ, पुष्पम्	हूवु
अस्थि, हाइकु	अस्थी	अस्तु, अस्थि	अस्थि, हाड़	दाहकर्म पाछत बाछि थका हाड़, अस्थि-हाड़	उत्, फूल	अस्थि-हाड़	अस्तिकलु	पिणत्तै एरित्तपिन् इरुक्कुम एलुंबुगुळ् (अस्ति)	चिताभस्मम्	अस्ति
फूलदान	वाझ, फुलदाणी	फुलदानि, फूलदान	फुलदानि	फुलदानी	फूल गिलास	फुलदानी	पूलकुंडी, फ्लवर वासु	पूक्कळै अडुक्कि वैक्कुम् पात्तिरम्	पूप्पलिक	हूकुंड
फूलवुं	फूलप	फुल्नु, फक्रनु	पुष्पित हओया	फुला मुकुलिह	लै शात्पा	उतफुल्लता, प्रफुल्लता, उल्लसित, फुलिबा	पुष्पिंचुट	मलर	पूक्कुक	हूबिडुवुदु
ऊपसवुं, सूजी जवुं	सूजप	उक्सनु, सुन्निनु, फुल्नु, भुक्क हुनु	फोला, बिकसित	बेछिकै आइ	पोमथोक्पा	फुलिबा, आनंद-बिभोर-हेबा	वाचुट	वीङ्ग	वीर्क्कुक	उल्लसितनागुवुदु
हरखावुं	फुलार	उल्लसित हुनु	आनंदित हयोया	आनंदित ह	हराओबा	आनंदित-हेबा, फुलि उठिबा	उब्बुट	मनमगिळ	सन्तोषिक्कुक, प्रफुल्लित-नावुक, विकसिक्कुक	उल्लसित-नागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फेंकना	स. क्रि.	किसी वस्तु को वेग से दूर हटाना	उत् + क्षिप्	सुट्टणा	फेंकना	दॉरिथ द्युन	उछलाइणु, फिटो करणु	फेंकणें
फेन	पुं.	बुलबुलों का समूह, झाग	फेन:	झग्ग	झाग (कफ़)	पोंस	फेणु, गजि	फेस
फेरा	पुं.	1. परिक्रमा, किसी चीज़ के चारों ओर घूमने की क्रिया या भाव	परि + क्रम्, प्रदक्षिणम्	फेरा	फेरा	फेरुॅ	फेरो	फेरी मारणें
		2. बार-बार कहीं आने-जाने की क्रिया या भाव, चक्कर	आवर्तनम्	फेरा	चक्कर	फेरुॅ	फेरो	चकरा मारणें
		3. विवाह के समय वर-वधू द्वारा की जाने वाली अग्नि की परिक्रमा	प्रदक्षिणम्	लावां, फेरा	–	फेरुॅ	फेरो	सप्तपदी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फेकवुं, नाखवुं	फेंकप	फ्याँक्नु, फाल्नु, हुर्याउनु	छाँटा, फेला	दलियाइ-दे	लङ्थोकपा	फिंगिबा, फोपाडिबा	विसरिवेयुट	विट्ट्रिय	एंरियुक	बिसाकुवुदु
फेन, फीण	फेस	फीँज, फेन	फेना, बुद्बुद्	फेन बुखुरनीर समष्टि	कोङ्गोल	फेण	नुरुगु	नुरै	पत, नुर	नोरे
फेरो, चक्कर	फेरो मारप	परिक्रमा, घुमाइ	परिक्रमा, चक्कर मारा	चारिओ-फाले-घूरा-कार्य	कोइबा, लैबा	परिक्रमा-करिबा, चारिपटे-बुलिबा, चक्कर-मारिबा	प्रदक्षिणमु	चुट्टुदल्	चुट्टल्, वलं वंक्कल्	सुत्तु
आंटो	फेरो मारप	फेर, परिक्रमा बाजि, चोटि	परिक्रमा	अहा-योवा करि थका कार्य	हङ्गत हंदा चत्पा	घाँ-दौड़, जिबा-आसिबा	प्रदक्षिणमु	अडिक्कडि पोय् वरुदल्	करक्कम्	सुत्तुवरि, तिरुगाट
सप्तपदी	फेरे	प्रदक्षिणा, परिक्रमा	अग्नि परिक्रमा (बिबाहेर समय स्वामी स्त्रीर)	प्रदक्षिण, अलप अकनमान चरि ओ फाले घुरा कार्य	कोइबा	परिक्रमा-करिबा	प्रदक्षिणमु	तिरुमणत्तिन् पोळुदु अग्गिनियै वलम्, वरुदल	विवाहत्तिल् अग्नियै प्रदक्षिणम् वेय्क्कुक	प्रदक्षिणे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
फैलना	अ. क्रि.	1. किसी चीज का विस्तार होना	वि +√स्तृ	फैलणा	फैलना	फ़ॅहलुन	फहलिजणु, फैलिजणु	प्रसरण होणें
		2. किसी बात आदि का व्यापक क्षेत्र में चर्चा का विषय बनना	प्र +सृ	फैलणा	फैलना	फ़ॅहलुन	पसरणु	पसरणें
फोड़ना	स. क्रि.	1. शीशा, चीनी या मिट्टी आदि की कोई वस्तु खंड-खंड करना या तोड़ना, किसी खोखली या वायु भरी वस्तु को आघात या दबाव द्वारा तोड़ना	√भिद्	भन्नणां, तोड़ना	फोड़ना	फुटरुन	भञणु (सख़्त शइ)	फोडणें
		2. किसी दल या पक्ष के व्यक्ति को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाना	√भिद्	भन्नणां, तोड़ना	तोड़ना	वरगुॅलावुन	भञणु, पंहिंजे तरफ़ करणु	फोडणें
बंगला	पुं,स्त्री.	1. चारों तरफ से खुला हुआ एक मंजिला मकान	हर्म्यम्	बंगला	बंगला	बोंगलुॅ	बंगलो	बंगला
		2. बंगाल की भाषा	बङ्गभाषा	बंगला, बंगाली	बंगाली जुबान	बंगॉल्य	बंगाली (भाषा)	बंगाली (भाषा)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फेलावुं, वधवुं	पसरप	फैलिनु, फिँजिनु	छड़िये जाओया	बियपि पर	शंदोक्पा	विस्तरित-हेबा, ब्यापिबा, बढ़िबा, बृद्धि-पाइबा	विस्तरिंचुट	विरिवडैय	परक्कुक	हरडुवुदु
प्रसरवुं	प्रसार	फैलिनु, फिँजिनु	छड़िये पड़ा	बियपि पर	वा-वा लाओबा	ब्यापिबा, बिस्तार-हेबा	विस्तरिंचुट	परव	परक्कुक	हब्बुवुदु
फोडवुं, तोडवु	फोडप	फोर्नु, फुटाल्नु	भाङा, खानखान् करा, खंडित करा	भाङ्गकर, डोखर-डोखर कर	थुगाइबा	भांगिबा, फाटिबा	पगल-गॉट्टुट, चितक गौट्टुट	उडैक्क, वेडिक्क	उटय्क्कुक, पौट्टिक्कुक	ओडेयुवुदु
फोडवो	फोडप	फोड्नु, छुट्याउनु	भाङानो, भाङा	फुचलाइ-निजर फलीया कर, भङा	चिङ्थोक्पा थुगाइबा	भांगिबा, अलगा-करिबा	चील्चुट	कट्चि मारुंबड़ि चंयदल्	वशत्ताक्कुक	ओडकु-हुट्टिसुवुदु
बंगलो	बंगलो	बङ्गला	बाङ्लो (वाड़ि)	बङला, घर	बङ्लो	बड़ घर, प्रासाद	बंगळा	बंगळा, माळिगै	बंगळावुॅ	बंगले
बंगाली (भाषा)	बंगाली (भाशा)	बङ्गालको भाषा	बाङ्ला भाषा	बङला भाषा, बंग-भाषा	बंगला	बंगला-भाषा	बेंगाली	वंग मोळि	बंगाळि भाष	बंगाळि भाषे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बंजर	वि. स्त्री.	भूमि जिस पर कुछ पैदा न हो	अनुर्वरा, ऊषरा	बंजर	बंजर	बंजर	कलराठी (ज़मीन)	ओसाड
बंद	वि.	1. बँधा हुआ, कसा हुआ	बद्ध	बंद	बंद	बंद	बंदि, बुधलु	बंधलेले, बद्ध
		2. चारों ओर की दीवारों आदि से घिरा (स्थान)	परिवृत्	बंद	बंद	–	बंदु	बंद
		3. बाधायुक्त	अवरुद्ध	–	बंद	–	–	अणचणीचे
बंदनवार	पुं.	आम, अशोक आदि की पत्तियों को रस्सी में टाँक कर बनी शृंखला, जो शुभ अवसरों पर दरवाजों आदि पर लटकाई जाती है	तोरणमाला , वन्दनमाला	बंदनवार	झंडी	बंदनवार, वार्वुमालुं	झालर	तोरण
बंदरगाह	पुं.	समुद्र के किनारे का वह स्थान, जहाँ जहाज ठहरते हैं (सी पोर्ट, हार्बर)	नौपत्तनम्	बंदरगाह	बंदरगाह	बंदरगाह	बंदरगाहु	बंदर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ऊषर, ऊखर	वांझ	बाँझो जमिन, पर्ती, पर्ता	अनुर्बर भूमि	शुकान चापरि	लैहाओ चेंदबा लम	बंजर-भुमि, पतित बा-पड़िआ-भूमि	बंजरु-भूमि	तरिश् निलम्	ऊषर भूमि, पाळ्निलम्	बंजरु, बरडुभूमि
बंध, बांधेलुं, कसेलुं	बांधिल्ले	बाँधिएको, बंधनमा परेको	बंध	बंध	फाजिन्बा, पुन्शिन्बा	बंद	बिगिंचिनॅ	कट्टप्पट्ट	अटञ्ञ	कट्टिद, बिगिद
वंडो	बंद	घेरिएको, बारिएको	बद्ध, रूद्ध	आबरि थका	खाजिन्बा	अबरोध, अबरूद्ध, बंद	मूयबडिनॅ	चुवराल् चूळ्प्पट्ट	मूटिय	चुच्चिद, सुत्तुवरिद
अडचण-वाळुं	आडखळीचे	बाधायुक्त, बंद	बाधा प्राप्त	बाधायुक्त	थिङ्जिन्बा	बाधा, गतिरोध, ब्याघात, बिघ्न	आटं-कुलुगलॅ	मूडप्पट्ट	तटस्समुळ्ळ	तोदरेगो-ळपट्ट
तोरण	तोरण	तोरण	तोरण	तोरण, प्रधान-प्रवेश-द्वार	हैनौ मना, अशोक मना परेङ् लेङ्लगा अफबा मंगोलगी दमक थोंजिंदा यान्बा	तोरण	तोरणमु	तोरणम्	तोरणम्	तोरण
बंदर	बंदर	बंदरगाह	बंदर	बंदर, सागर पारर जाहांज बंधा ठाइ	समुद्रगी हिथाङ्फम	-	ओडरेवु	तुरै मुहम्	तुरमुखम्	बंदरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बंदी	पुं.	कैदी (प्रिजनर)	बन्धिन्	कैदी	क़ैदी	कूँद्य	बंदी, क़ैदी	बंदी, कैदी
बंदूक	स्त्री.	ऐसा अस्त्र, जिसमें कारतूस, गोली आदि भरकर इस प्रकार छोड़ी जाती है कि लक्ष्य पर लगे (गन, राइफल, मस्केट)	भुशुण्डी	बंदूक	बंदूक़	बोंदूख	बंदूक़	बंदूक
बंधक	पुं.	गिरवी या रेहन	आधिः	गहिणा	रहन	गिरवी, गिरव	गिरवी	गहाण ठेवलेली वस्तू
बकना	स. क्रि.	ऊटपटांग या व्यर्थ की बातें करना	प्र√लप् ,√जल्प्	बकणा	बकना	बकुन, वोरुन	बकणु	बडबड करणें
बकाया	वि.	बाकी बचा हुआ	शेषः	बकाइआ	बक़ाया	बकाया	बकाया	बाकी राहिलेले
	पुं.	किसी काम, बात या राशि का वह अंश, जिसकी अभी पूर्ति होनी शेष हो	अवशिष्ट	बकाइआ	–	बकाया	–	उरलेले

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बंदी, केदी	बंदी	थुनुवा, कैदी, बंदी	बंदी, कयेदी	बंदी कयेदी , आटक-थकालोक	बोंदी जेलदा फाजिंदुना थंबा मी	बंदी, गिरफ	खैदी	कैदि	तटवुकारन्	कैदि
बंदूक	बंदूक	बंदुक	बंदुक	बंदुक	नोङ्मै	बंधुक	तुपाकि	तुप्पाक्कि	तोक्कुँ	बंदूक
गिरो, गीरवी	गिरवी, घाणवट	धितो, धरोट, बंधक	बंधक, बाँधा देओया	बंधक, धार वाले वस्तु	बंधोप थंबा	बंधक	ताकट्टु	अडगु	पणयम्, ईट्टुँ	अडवु
बकवुं	बडबडप	बक्नु, जथाभावी बोल्नु, बकबक गर्नु	बकबक करा	बक, अतिरिक्त कथा क, बलक	चबेङ-चबेङ् ङाङबा	अजौक्तिक, असंगत, उदभट, अजथा-कथा-कहिबा	वागुट	उळऱ्	पुलंपुक, चिलय्क्कुक	तलेहरटे
बाकी, बचेलुं	उरिल्लें	बाँकी, शेष	बाक़ी, बकेया	बाकी, थका, अवशिस्ट	लेमहौबा	बाकी	मिगिलिनॆ	मिच्चमान	शेषिच्च	उळिद
बाकी (शेष)	बाकी	बाँकी, बक्यौता	–	बाकी, अंश	वात्हौबा	बाकी-अंश	बाकी	मीदि, बाक्कि	कुटिश्शिक	मिक्किद्दु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बगीचा	पुं.	छोटा बाग या फुलवारी	उपवन, वाटिका	बगीचा	बाग़ीचा	पोशिवॉर, बाग	बाग़ीचो	बगीचा, लहान बाग
बचत	स्त्री.	1. व्यय से बची रहने वाली राशि	सञ्चित	बच्चत	बचत (पसांदाज़ी)	बचथ	बचत	बचत
		2. लागत आदि निकालने के बाद बचा हुआ धन, मुनाफा, लाभ	लाभः	बच्चत	मुनाफ़ा	बचथ, नफा	नफ़ो	नफा
बचना	अ. क्रि.	1. उपयोग, व्यय आदि के बाद जो कुछ शेष रहे	अव+शिष्	बचणा	बचना	बचुन	बचणु	शिल्लक राहणें
		2. बंधन, विपद, संकट आदि से किसी प्रकार सुरक्षित रहना	सम् +रक्ष्	बचणा	–	बचुन	बचणु	वाचणे, बचावणें
		3. किसी कार्य, व्यक्ति से संकोच करना	परि +हृ	बचणा	–	बचुन	बचणु	संकोच करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बगीचो, बाग	बाग	बगैँचा, फूलबारी	बागिचा, बागान	फुलनी बागिछा	हैकोन-लैकोन मचा	बगिचा, उद्यान	तोट̄	तोट्टम्	चॅरि̱य पूंतोट्टम्	तोट
बचत	बचत	बचत, सञ्चय	सञ्चय	राहि धन, संचय	तुङ्शिन्बा शेनफम	संचय, जमा	निगुलु	बाक्कि, मिच्चम्	मिच्चम्	उळिताय
लाभ, नफो	फायदो, फुडारापासत बांचयल्ले पयशे	नाफा, लाभ	मुनाफा, लाभ	लाभ प्राप्ति, मुनाफा	शेंदोङ्	लाभ, बलका	लाभमु, मिगुलु	निहर लाबम्	संपाद्यम्, लाभम्	लाभ
बचवुं, सिलक रहेवुं	शिल्लक उरप	उब्रनु, बाँकी रहनु	बाँचा, शेष	हाते जमा ह, राहि धन	खाक्हौबा	बंचिबा, बलका, शेष	निगुलुट̄	बाक्कि इरुक्क, मिंज	शेषिक्कुक	उळियुवुदु
ऊगरवुं	वाचवप	बचिनु, जोगिनु	बाँचा	बाचि थाक	कलहौबा	निरापद बा- सुरक्षित- रहिबा	दुक्कुट̄	बद्दिर-मायिरुक्क	रक्षप्प्टुक	तप्पिसि-कोळ्ळुवुदु
संकोच राखवो	कुशीन सरप, भिडेस्त आसप	टाढा बस्नु, सामुन्ने नपर्नु	एड़िये जाओया	आँतरि थाक	लैथहौबा	संकोच	तप्पिं-चुकोनुट̄	तप्पित्तुक् कोळ्ळ	ओळिञ्ञु मारुक	हिंजरियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बचपन	पुं.	बाल्यावस्था	बाल्यम्, शैशवम्	बचपन	बचपन	लोंकुँचार, बचपन	बालपणु, बालपणो	बालपण, लहानपण
बच्चा	पुं.	1. नवजात शिशु	शावकः	बच्चा	बच्चा	बचि, शुर	बारु, बचो	पिल्लू
		2. बालक	बालकः	बच्चा	–	–	बालकु	बालक
बजना	अ. क्रि.	1. किसी चीज पर आघात किए जाने पर निकली ध्वनि	√णद्	वज्जणा	बजना	वजुन, बजुन	वजुणु	वाजणें
		2. संगीत अथवा वाद्य यंत्र से ध्वनि निकालना	√क्वण्	वज्जणा	–	–	–	वाजणें
बजे	अ.	समय-मान, जैसे दस बजे (ओ क्लॉक)	–	बजे	बजे	बजे	लगे वगे	वाजतां
बटुआ	पुं.	कपड़े-चमड़े आदि का खानों वाला तथा ढक्कन-दार आधान, जिसमें रुपए-पैसे रखे जाते हैं (पर्स)	प्रसेवः	बटुआ	बट्वा	बटॅवुँ	बटूं, पर्सि	बटवा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बचपण, बाळपण	बाळपण, लहानपण	बाल्यकाल, बाल्या-वस्था	बाल्याबस्था, छोटबेला	लराकाल, बाल्यबस्था, शैशव	अङाङ ओइरिङै मतम	बाल्याबस्था, शैशबाबस्था, पिलाबेल	बाल्यमु	कुऴदै-प्पुरुवम्	कुट्टिक्कालम्	बाल्य
बच्चुं	पिल्लु, बाळु	बच्चो, शिशु	छोटे, बाच्चा, शिशु	शिशु, लरा, कम नयसीमा खरा-छोवाली	अङाङ्	पिला, शिशु	पिल्ल वाडु	कुंजु, कुट्टि	कुञ्ञुँ	मगु
बाळक	बाळक	बच्चो, बालक	बालक	लरा, पुरुष-शिशु	नुपामचा	बालक, पिला	बालुडु, शिशुवु	कुऴदै (आण्)	बालन्	हुडुग
वागवुं	वाजवप	बज्नु, घन्कनु	बाजा, बाजना	शब्द ह, ध्वनि कर, शब्द तोल	यैबा, खोङ्बा	बाजिबा, शब्द-हेबा	म्रोगुट	उरक्क ऑलिक्क	मुऴङ्ङुक	शब्दवागुवुदु
वागवुं	वाजोवप	बज्नु	–	बाद्य, ध्वनि ह, बाध्ययंत्र ध्वनि उत्पन्न ह	खोङ्बा	ध्वनि	म्रोगुट	वाद्दियत्ति-लिरुंदु ऑलि वर, इशैक्करुवि ओलिक्क	मुऴङ्ङुक	ध्वनिसुवुदु
वाग्ये, वागतां	वाजंता वेळार, घंट्यार	बजे (घडीले देखाउने समय)	वाजा (समय)	बजा	पुङ्	बेले, समयपरे	गुटलु, गटलकु	मणिक्कु	मणिक्कु	गंटे
बटवो, याकीर	पाकीट, पर्स	बटुवा, थैलो	बटुया, बैग (ब्याग)	बटुआ, बैग, जोलाङा खुरान थका पात्र	शेनगाओ	बटुआ, थाल	पर्सु	पणप्पै, पर्सु	कैसंचि, पऴ्स्	पर्सु, दुड्डिन-चील

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बड़ा	वि.	1. किसी वस्तु का वह गुण, जो आकार, आयतन या माप में दूसरी वस्तु से अधिक होता है	दीर्घ, विशाल	वड्डा	बड़ा	बॊ॑ड	वडो	मोठा
		2. पद, गरिमा, गुण आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ	गरीयस्	वड्डा	–	बॊ॑ड	आला	श्रेष्ठ
		3. उरद की दाल का एक प्रकार का नमकीन पकवान	वटम्	वड़ा	–	वॉर, वडुॅ	वड़ो	वड़ा
बड़ाई	स्त्री.	1. बड़े होने की अवस्था या भाव	ज्यायस्त्व	वडिआई	बड़ाई	बजर	वडाई	मोठेपणा
		2. प्रशंसा, तारीफ	प्रशंसा	वडिआई	तारीफ़	तॉरीफ	वडाई, तारीफ़	प्रशंसा
बढ़ना	अ. क्रि.	1. आकार, क्षेत्र, परिमाण, विस्तार, सीमा आदि में वृद्धि होना	वृध्	वधणा	बढ़ना	बडुन	वधणु	वाढणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोटुं	व्हडलो	ठूलो, विशाल	बड़ो, बिशालकाय	डाङर, बिशाल	अचौबा	बिशाल, श्रेष्ठ, प्रधान, सर्बोच्च, उत्कर्ष	पॅद्द	पॅरिय	वलिय	दोड्ड
महान, वडुं	व्हड	श्रेष्ठ, महान	बड़ो, श्रेष्ठ, महान	जेष्ठ	अथोइबा	श्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ	पॅद्द	उयर्द, चिरुंद, मेलान	महानाय	दोड्ड
बडु	–	–	बड़ा	बर	–	बरा	वड	वडै	वट	वर्ड
बड़ाई, मोटाई	व्हडपण	ठूलो हुने भाव, श्रेष्ठता, श्रेष्ठत्व,	बड़ाई, श्रेष्ठत्व	श्रेष्ठत्त, डाङर बा महान होवार भाव बा कार्य	अचौबगी मओङ्	बड़ेइ, गरिमा, श्रेष्ठत्व	गॉप्पतनमु	पॅरुमै	वलिप्पम्	दोड्डस्तिकॆ
वखाण	तोखणाय	प्रशंसा, तारिफ	बड़ाई, प्रशंसा	प्रशंसा	थागत्पा	प्रशंसा, गुणगान	घनतॅ, पॉगड्तॅ	पुगळ्	प्रशंस	होगळिके
बढवुं, वधवुं	वाढप	बढ्नु	बाड़ा	डाङर बा महान– होवार– भाव बा कार्य	हेनगत्पा	बड़ेइ, गरिमा, श्रेष्ठत्व	पेरुगुट	वळर्	वळरूक	हेच्चागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आगे की ओर चलना	अग्रे +√सृ	वधणा	–	ब्रोंह पकुन	प्रगती	पुढे जाणें
		3. किसी प्रकार की उन्नति होना	√वृध्	वाधा	तरक़्क़ी करना	तरकी	तरक़्क़ी	प्रगती करणें
बढ़ाना	स. क्रि.	1. किसी को बढ़ने में प्रवृत्त करना	√वर्धय्	वधाउणा	बढ़ाना	बडावुन	वधाइणु	प्रवृत्त करणें
		2. परिमाण, मात्रा, संख्या आदि में वृद्धि करना	सम् +√वर्धय्	वधाउणा	–	बडारावुन	–	वृद्धी करणें
		3. किसी प्रकार की व्याप्ति में विस्तार करना	प्र-वि+ √स्तारय्	वधाउणा	–	हुररावुन	–	विस्तार करणें
बढ़िया	वि.	जो गुण, रचना, रूप-रंग आदि की दृष्टि से उच्च कोटि का हो, उत्तम, उम्दा	उत्तम, उत्कृष्ट	वधीआ	उम्दा, बढ़िया, नफ़ीस	रुत, जान	सुठो, उम्दो	उत्तम, उत्कृष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आगळ जवुं	फुडेंवचप	अग्रसर हुनु	बाड़ा, अग्रसर हओया	आग-बाढ़, अग्रसर ह	माङ्दा चङ्शिन्बा	बढ़िबा, अग्रसर-हेबा	सागुट	मुन्नेर्	पुरोग-मिक्कुक	मुंदुवरियुवुदु
बढती थवी, उन्नति थवी	प्रगती	प्रगति हुनु, उन्नति हुनु	बाड़ा, उन्नति हओया	उन्नति-ह	हायगत्पा, कारक्पा	उन्नति, बिकशित, बिकाश	पुरोगमिंचुट	उयर्वु अडैय	उयर्च्च प्रापिक्कुक	बडति आगुवुदु, प्रगति हॉंदुवुदु
प्रोत्साहित करवुं	प्रवृत्त करप	प्रोत्साहित गर्नु	बाड़ानो, एगिए जेते उतसाह देओया	आग-बढ़ा	हेनगत्-हन्बा	प्रोत्साहन, उत्साहित-करिबा	वृद्धिचेयुट	वळरच्चय्य	वळर्त्तुक	मुंदुवरिसुवुदु
बधारो करवो	वाढोवप	बढाउनु, बढने पार्नु	बाड़ानो	बृद्धि कर, बढ़ोवा	हापक-त्लक्पा	बृद्धि-करिबा, बढेइबा	वृद्धिचेयुट	अदिकरिक्क	अळवु वर्धि-प्पिक्कुक	वृद्धिसुवुदु हॅच्चुमाडुवुदु
विस्तारवुं	–	–	—	विस्तारित कर	–	विस्तारिबा, व्याप्त करिबा, बढाइबा, वृद्धि करिबा	वृद्धिचेयुट	विरिवाक्क	व्यपिप्पि-क्कुक	विस्तरिसुवुदु
ऊंचुं, उच्च, उत्तम	उत्कृष्ट, उत्तम	राम्रो, असल, उत्कृष्ट	भालो, उत्तम	सुंदर, उत्तम, सुदृश्य, शोभन, धूनिया	अथोइबा, अहेनबा	बढ़िआ, उच्च-कोटिर, उत्तम, भल, सुंदर	मेलु-रकमैन	चिरंद	मेल्तरम्	उत्तम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बताना	स. क्रि.	1. किसी को कोई जानकारी देना	/ज्ञापय्	दस्सणा	बताना	वनुन	बुधाइणु	सांगणें
		2. किसी प्रकार का निर्देश या संकेत करना	निर् +दिश्	दस्सणा	इशारा करना	वनुन	डसु डियणु	निर्देश करणें
बत्तीसी	स्त्री.	मनुष्य के 32 दाँतों का समूह	दन्तावलि:	बीड़, बतीसी	बत्तीसी	दंदॅवोट	बटीही	बत्तीशी
बदनाम	वि.	जिसकी निंदा हो रही हो, कुख्यात	कुख्यात	बदनाम	बदनाम	बदनाम	बदनाम	कुख्यात, बदनाम
बदलना	अ. क्रि.	परिवर्तन होना	परि+वृत्	बदलणा	बदलना	बदलुन	बदिलजणु	बदलणें
बदला	पुं.	प्रतिकार, पलटा	प्रतिशोध:	बदला	बदला	बदलु	बदिलो	बदला, सूड
बदसूरत	वि.	भद्दी सूरत वाला, कुरूप	कुरूप	बदसूरत	बदसूरत	बदसूरत	बदसूरत, बदशिकल	कुरूप

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बताववुं, देखाडवुं	सांगप	बताउनु, जनाउनु	बला, जानानो, परिच्य देओया	परिचय करा, कोवा जाननी-दिया	ताक्पा	बताइबा, परिचय-कराइबा	चॆप्पुट	अऱिविक्क, कूऱ्	पऱञ्ञु कॉटुक्कुक	तिळिसुवुदु
बताववुं	निर्देश दिवप	सम्झाउनु, सङ्केत गर्नु	ज्बला आदेश करा	संकेत कर, इंगित कर	लमताक्पा	संकेत बा इंगित करिबा	चेप्पुट	कुरिप्पिड	निर्देशिक्कुक	हेकुवुदु
बत्तीसी	बत्तीशी	बत्तीसदंत बत्तीसी	बत्रिश पाटि (दाँत)	बत्रिश दाँत	मी गी या कुंथ्रानि-थोइ	बतिश दांत	पलुवरुस	मुप्पत्तिरण्डु पर्कळ्	मुप्पतिरण्टु पल्लुकळ्	मूर्व्वत्तरडु हल्लुगळु
बदनाम	नांव वायट, बदनाम	कुख्यात, बदनाम	कुख्याति, निंदा	बदनाम, कुख्यात, निंदि	अथिबा मीङ्चत, बदनाम	बदनाम, कुख्यात	चॆड्ड पेरुगलॆ	कॆट्ट पॆयर् वांगिय	दुष्पेरुळ्ळ, अपख्याति-युळ्ळ	केट्टहेसरु
बदलवुं	बदलप	बदुल्नु, साटफेर गर्नु	बदलानो	पबिर्तन ह बा कर	होङ्बा, ओनथोक पा	बदलिबा, परिबर्तन-हेबा	मार्चुट	माऱ्	माऱुक	बदलायिसुवुदु
बदलो, फेरफार	बदलो	साटोफेराइ, बदला, प्रतिकार	प्रतिशोध, प्रतिकार	प्रतिशोध, प्रतिकार	लमन खुंबा	प्रतिशोध, प्रतिहिंसा	प्रतीकारमु	पळिक्-कुप्पळि, वञ्चम्	प्रतिकारम्, पकपोक्कल्	मुय्यि, सेडु
बदसूरत, कदरूपुं	कुरुप	कुरुप, नराम्रो, विरुप	कुरुप, कुत्सित	कुरुप, कुत्सित, कदाकार	मशक् थिबा	असुंदर, कुत्सित, कदाकार	कुरूपि	विकारमान	विरूपन्	कुरूपि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बधाई	स्त्री.	1. मुबारकबाद	वर्धापनम्	वधाई	मुबारकबाद	वदुॅव	वाधाई	अभिनंदन
		2. मंगल अवसर का गाना-बजाना	मङ्गलगानम्	वधाई	शादियाना	पोशतुॅ, मुबारख	वाधाई, मुबारकबाद	अभिनंदन
बधिर	वि.	बहरा	बधिर	बोला, डोरा	बहरा	ज़ोॅर	बो॒ड़ो	बहिरा
बनजारा	पुं.	वह व्यक्ति जो बैलों आदि पर सामान लादकर बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश को जाता है, एक खानाबदोश जाति	यायावर	वंजारा	बनजारा	बनजॉर्य	ख़ानाबदोशु, बनजारो	बंजारी
बनाना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु को तैयार करना	निर् +√मा; निर् +√मीञ्	बनाउणा	बनाना	बनावुन	ठाहिणु, बणाइणु	तयार करणें
		2. किसी की प्रशंसा करते हुए उसे उपहासास्पद या मूर्ख बनाना	√छल्	बनाउणा	बेवकूफ़ बनाना	—	बेवकूफ़ बणाइणु	मूर्ख बनविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुबारक-बाद	परबी दिवप	बधाई, अभिनन्दन	अभिनंदन	अभिनंदन	थाङ्गतपा	अभिनंदन, धन्यबाद	अभिनंदनॅ	वाळ्त्तुक्कळ्	अभिनंदनम्	अभिनंदने
बधाई, बधामणी	अभिनंदन	हर्षोदगार	मांगलिक गीत-बाद्य	मांगलिक गीत-बाद्य	थागत्-वाहै	अभिनंदन	मंगलगीतमु	मंगळ इशै	आशंस	हुट्टु-हब्बद-उत्सव-संगीत
बधिर, बहेरुं	भेरो, केप्पो	बहिरो	काला, बधिर	कला, बधिर, श्रवणशक्तिहीन	मना पङ्बा	बधीर, काला	चॅविटिवाडु	चॅविडु	बधिरन्	किवुड
वणझारो	बंजारी	बनजारा, घुमंते व्यापारी	यायावर (जज), बणबासी	गरुर ओपरत बोजकरि-बिदेशत-बेपार करा बेपारी	बनजारा, कोइचत्-चत्तुना महै मरोङ् लनलोल्बा	जाजावर (यायाबर, बारबुला)	वणिजुडु, बंजारा	नाडोडि	नाटोटि	बणिजिग
बनाववुं, रचवुं	तयार करप	बनाउनु, तयार पार्नु	बानानो	मानुहे करा, सजा कृत्रिम जाल	शेंबा	निर्माण-बा तिआरि-करिबा	तयारु चेयुटॅ	तयारिक्क, चॅय्य	उण्टाक्कुक	तयारिसुवुदु
मश्करी करवी	मूर्ख बनवप	मूर्ख बनाउनु, बेकूफ बनाउनु	बोका बानानो	अति प्रशंसा करि मानुहक हाँहियाबर पात्र कर	अङाओ-शेंबा, करेम-कथाइन-बिबा	बोका बनाइबा, प्रतारित-करिबा	परिहसिंचुटॅ	पुगळ्वदु पोल पेशि इरक्क	प्रशंसच्चॅ नाणिप्पि-क्कुक मुखस्तुनि चॅय्युक	मूर्खनागि-सुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बनावटी	वि.	1. वास्तविकता से परे, ऊपरी या बाहरी	कृत्रिम, कृतक	बनाउटी, बनावटी	मसनूई	बनावटी	बनावटी	बनावटी, कृत्रिम
		2. वास्तविकता के अनुकरण पर बनाया हुआ, कृत्रिम, नकली	अनुकृत	बनाउटी	बनावटी	बनावटी	नकली	नकली
बनिया	पुं.	1. व्यापार करने वाला व्यक्ति; वैश्य	वणिक्, पणि:	बाणीआ	बनिया	वोन्य	वणिजरो	वैश्य, व्यापारी
		2. आटा, दाल, नमक, मिर्च आदि बेचने वाला दुकानदार	वणिक्, कैर्णान्निक:	बाणीआ	परचूनी	वोन्य	बनियो	वांणी
बरसना	अ.क्रि.	1. वर्षा होना	वृष्	वस्सणा	बरसना	रूद वालुन	वसणु	पाऊस पडणें
		2. किसी चीज का बहुत अधिक मात्रा, मान, संख्या में लगातार गिरना	वृष्	वस्सणा	गिरना	रूद वालुन	–	वर्षाव होणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बनावटी, कृत्रिम, खोटुं	अडेचे	देखावटी, बनावटी	कृत्रिम	सजा कृत्रिम मानुहेकरा	तात्-पात् की ओइबा	कृत्रिम, नकलि	कपटमैन॒	चॅयरुकैयान	कृत्रिममाय	तोरिकेय, कपटी
नकल	बनावटी, नकली	कृत्रिम, नक्कली	कृत्रिम	सजा कृत्रिम जाल	अशेङ्बा नत्तबा शाजिन्नबा	कृत्रिम, नकलि	कृत्रिममैन॒, नकली	चॅयरुकैयान	कृत्रिममाय	कृतक
वाणियो, वैश्य	व्यापारी	बनियाँ, व्यापारी	बेने, बेनिया (बैश्य)	बैश्य, चारि वर्णर तृतीय वर्ण	ललोलबा मी	बेपारी, बणिक, बणिआ, बैश्य	वर्तकुडु, वैश्युडु	वणिगन्	वैश्यन्, व्यापारि	व्यापारि
वेपारी	वाणी, वैश्य	पसले	मुदि	गेलामालर-दोकानी बेपारी	चेङ्, हवाइ, थूम मरोक् योनबा मी	दोकानी	अंगडिवाडु	मळिगै वियाबारि	पल चरक्कु कटक्कारन्	किराणि अंगडियवनु
वरसवुं, वरसाद	पाऊस पडप	बर्सनु, दर्कनु, पानी पर्नु	वृष्टि हओया/ पड़ा	पर, बरषूण होवा, बारिषा	नोङ चुबा, नोङ् ताना	वर्षिबा, बर्षा बा-बृष्टि हेबा	कुरियुट॒	पेय्य, विऴ	पॅय्युक बरिर्डक्कुक	मळॆयागुवुदु मळॆ बीळुवुदु
वर्षा	वर्षाव जावप	बर्सनु	बर्षण हओया	बरषूण-परा, बरषा, बरषून	हैथबा	कमिबा, ह्रास पाइबा	कुरियुट॒	पॉळिय	पॅय्युक	सुरियुवदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बरसात	स्त्री.	बारिश, वर्षा-ऋतु	वृष्टिः	मीह, बरसात	बरसात	बरसाथ	बरसात, मींहुं	पाऊस
बरसी	स्त्री.	1. किसी के मरने के बाद हर वर्ष पड़ने वाली तिथि	सांवत्सरिक कर्म	वरीहणा, बरसी	बरसी	वहरॅ-वॉर	वर्सी, बरसी	मृताची वार्षिक तिथी
		2. मृत का वार्षिक श्राद्ध	वार्षिक श्राद्ध	वरीहण, बरसी	–	श्राद्ध	–	वर्षश्राद्ध
बराती	पुं.	किसी की बारात में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति	वरयात्रिक	जांजी, बराती	बाराती	बरॉत्य	ज॒ा॒जी	वर्हाडी
बराबर	वि.	1. जो तुलना के विचार से एक-सा हो, समान	सम	बराबर	बराबर, मुसावी	बराबर	बराबर	समान
		2. (तल) जो ऊँचा-नीचा या खुरदरा न हो, सम	सम, समतल	बराबर	बराबर, मुसत्तह	सोंम	–	सम
	क्रि. वि.	लगातार, निरंतर	सततम्, अनारतम्	बराबर	मुतवातिर	लगातार	लग॒ातार	सतत
बर्फ	स्त्री.	1. हिम (स्नो)	हिमम्, तुषारः	बरफ	बर्फ़	शीन	बर्फ़	हिम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वरसाद	पाऊस	बर्सात, वर्षाकाल	बर्षाकाल	बर्षाऋतु, वर्षा, बारिषा	नोङ्जु-था	बर्षा, वर्षारुतु	वर्षमु, वर्षाकालमु	मळैक्कालम्	मळ, वर्षकालं, वर्षं	मळॆ, मळॆगाल
वरसी, संवसरी	वर्सांतिक, पुण्यतिथी	बर्खी, वार्षिक तिथि	मृत्यु बार्षिकी	मृत्युबार्षिकी	चहिगी दिन	बर्षिकिआ, बार्षिकी	सांवत्स-रीकमु	इरंद नाळ/ तिदि	चरमदिनं	पुण्यतिथि
वरसी	श्राद्ध	बरखी	वार्षिक श्राद्ध	बछेरे किया श्राद्ध	फिरोइ	श्राद्ध	एडदि	शिराद्दम, तिलसम	आंडुबलि	श्राद्ध
जानैयो	होरेतकार	बरियाती, जंती	बरयात्री (ज)	बरयात्री	लुहोंबगी बोर काङ्बु	बरजात्री	पंड्लि पंद्दॆ	मण मगन् वीट्टारिन् ऊर्वलत्तिल् कलंदु कॊळ्बवर्	वरपक्षक्कार्	दिब्बणदवरु
बरोबर	बरोबर	बराबर, समान, एकनास	समान, बराबर	समान, तुल्य	चप-मान्नबा	समान, समकक्ष	समानमैनॆ	सममान	ऒप्पम्, समम्, तुल्यम्	समान
सम	सम	समथर, समतल, सम	समतल	समान, सम	मान्नबा	समान, तुल्य, अनुरुप, समकक्ष	समतलमैनॆ	सरियान	समतलम्	समतल
लगातार, निरंतर	सतत	निरंतर, लगातार	अबिराम, निरंतर	एकेराहे, निरंतर	लेपतना, तत्तना	लगातार, निरंतर, अबिराम, सर्बदा	ऍडतॆगकुंडा	इडैविडादु	मुरक्कुं, तुटरॆ	ओंदेसमनॆ ऍडॆबिडदॆ
बरफ, हिम	बर्फ	हिउँ, बर्फ	बरफ, तुषार	बरफ, हिम	ऊन	बरफ, तुषार	मंचु	पनि	मञ्ञॆ	हिम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. बहुत अधिक ठंडक के कारण जमा हुआ पानी जो ठोस हो जाता है और आघात लगने पर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है (आइस)	हिमम्	बरफ	–	तुलुॅकतुर	बरफ़	बर्फ
बर्बर	वि.	जंगली, असभ्य	बर्बर	जंगली	वहशी	जंगली	झंगली, असभ्य	जंगली, रानटी
बल	पुं.	1. जोर, शक्ति, ताकत	बलम्	बल	ज़ोर, ताक़त	बल, ज़ोर,	ब॒लु	जोर, बळ
		2. कपड़ों आदि पर पड़ने वाली सिलवट, शिकन	वलि:	वट्ट	शिकन	गेॅन्य	घुंजु	सुरकुती
बलवान	वि.	शक्तिशाली, ताकतवर	बलवत्	बलवान	ताक़तवर	ताकथवर	ब॒लवान	बलवान
बलात्कार	पुं.	1. बलात् या बलपूर्वक कोई काम करना	बलात्कार:	जबरदस्ती	–	ज़बरदॅस्ती	ज़बरदस्ती	जबरदस्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बरफ	हिम, झेल	बर्फ	हिम	बरफ	ऊन	बरफ, तुषार	अइसु	पनिक्कट्ट	मञ्जुकट्ट	मंजिन गेड्डे
बर्बर, असंस्कारी	रानटी	असभ्य, जङ्गली, बर्बर	बर्बर, असभ्य, बन्य	बर्बर, असभ्य	चाओ-खत्तबा	बर्बर, असभ्य	आटविकि-मैन	काट्टु मिराण्डि-त्तनमान, नागरिक-मट्ट	संस्कार-हीनन्, काटन्	असभ्य, अनागरिक
बल, जोर, ताकात	बळ, ताकत	तागत, बल	बल, जोर, शक्ति	बल, जोर, शक्ति	पाङ्गल, थौना, शक्ति	बल, जोर, शक्ति	बलमु	बलम्, वलिमै	बलम्	जोरु
करचली	सुरकुती, मिर्‌यो	मुजा, मुजो, खुम्चा	भाँज	शोटेरा, काँच, चिन, रेखा, भाँज	मशुप-मशुप ताशिन्बा	तालि	मुडुतॅ	सुरुक्कम्	चुळिवॅु	मुदडि
बळवान	बळवान, शक्तिशाली	बलवान्, शक्तिशाली, बलिष्ठ	शक्तिमान, बलबान	बलवान, शक्तिशाली	पाङ्गल कन्बा	बलवान, शक्तिशाली	बलमुगलॅ	बलमुळ्ळ	बलवान्	शक्तिशालि
बळजबरी, जबरजस्ती	ज़बरदस्ती	अत्याचार, जबर्जस्ती गर्ने काम	बलपूर्वक करा	बलेरे करा काम	नमफूदा तौबा थबक	जबरदस्त, बलात्कार, बलपूर्बक	बलवंतमु	बलात्कारम्	बलात्कारम्	ओत्ताय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. किसी लड़की अथवा स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक किया जाने वाला यौनाचार	बलात्कार:	जबरजनाह	ज़िना बिलजब्र, इस्मतदरी	ज़िनाह	ज़ोरी, ज़नाउ	बलात्कार
बलिदान	पुं.	1. किसी उद्देश्य या बात के लिए अपने प्राण दे देना, कुर्बानी	बलिदानम्	कुरबानी	क़ुरबानी	कौंरुबॉनी	ॿलीदानु, क़ुरबानी	आत्म बलिदान
		2. देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु का किया जाने वाला वध, बलि	बलिदानम्	बली	कुर्बानी (अज़्हा)	कोरबानी	बलीदानु	बली
बल्कि	अव्य.	'ऐसा नहीं' का आशय सूचित करने वाला अव्यय, प्रत्युत, वरन	अपितु	सगों	बल्कि	बॅल्कि	बल्कि	किंतु, परंतु
बवंडर	पुं.	आँधी, तूफान	झञ्झावात:	हनेरी	गर्दबाद, बगूला	तुफान	तूफ़ानु, वाचूड़ो	झंझावात, वावटळ, वादळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बलात्कार	बलात्कार	बलात्कार	बलात्कार, शीलताहाति, पाशबिक अत्याचार	बलात्कार, नारी-घर्षण	रेप तौबा, मशाना यादबा नुपीदा नमफू- शाफूदा तौशिन्बा	घर्षण	बलात्कारमु	कर्पळित्तल्	बलात्संगम्	बलात्कार
कुरबानी, त्याग	बलिदान	बलिदान, आत्मोत्सर्ग	आत्म- बलिदान, आत्मोत्सर्ग	आत्मोत्सर्ग, उछर्गा	करिगुंबा पांदम अमगीदमक थवाइ फाओबा थादोक्पा	आत्मोत्सर्ग, आत्मबलि	बलि, त्यागमु, आत्मार्पणमु	कोळ्गै- क्काग उयिरै तियागम् सॆय्दल्	प्राणत्यागम्, बलि	आहुति, आत्मार्पण
बलिदान	बलि	बलि	बलिदान, बलि	बलिदान, बलि	बालतौबा	बलिदान बलि, उत्सर्ग	बलि	बलि इडुदल	बलि	बलि
बल्के, परंतु	पूण	परंतु, किंतु, तर	बरञ्च, बरं	बरं, किंतु	असिदा नत्तना	वरं, किंतु	अंतेकाक, अलाकाक	आनाल्	नेरॆ मरिच्चुॅ, ऍन्नाल्	अल्लदॆ
तोफान, झंझावात, आँधी	तूफान	आँधी बेरी, हुण्डरी, तुफान	झञ्झा, प्रबल- झड़, तुफान	बा-मारली, घूर्णीबताह	नोङ्लै- नुङ्शित्	तोफान, झड़, झंझा, बात्या	दुमारमु	पुयल् काट्टु	चुळलि- क्काट्टॅ	बिरुगाळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बहकाना	स. क्रि.	चकमा या भुलावा देना	वि प्र +√लभ्	भरमाउणा	बहकाना	वरगुॅलावुन	भंभुलाइणु	बहकाविणें, फुसलाविणें
बहना	अ. क्रि.	द्रव पदार्थ का धारा के रूप में किसी नीचे तल की ओर प्रवाहित होना	प्र +√वह्	वगणा	बहना	बहाव	वहणु	वाहणें
बहरा	वि.,पुं.	जिसे सुनाई न पड़ता हो, बधिर	वधिर	बोला, डोरा	बहरा	ज़ोॅर	बोड़ो	बहिरा
बहलाना	स. क्रि.	किसी को प्रसन्न या शांत करना	√सान्त्व्	वराउणा	बहलाना	बहलावुन	विंदुराइणु	रमविणें
बहस	स्त्री.	तर्क, युक्ति आदि के द्वारा होने वाला खंडन-मंडन, विवाद	विवाद:	बहिस	बहस	बॅहस	बहसु	वादविवाद, तर्क, हुज्जत
बहादुर	वि.	वीर, शूर-वीर, सूरमा	वीर, शूर	बहादर	बहादुर	बोॅहदुर	बहादुर	वीर, शूर, बहादुर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बहेकाववुं, छकाववुं	फुसलावप	बहकाउनु, फुस्ल्याउनु	भोलानो, भुलिए देओया	ठग, छलना कर	ककङा- ओनहन्बा	भुलाइबा, ठकाइबा, छलना- करिबा	मभ्यपेट्टुटे, मोसपुच्चुटे	पशप्पुवार्तैयल् एंपट्टुछल्	कबळिप्पि- क्कुक	दारि तप्पिसुवुदु
वहेवुं	व्हांवप	बग्नु, बहनु	बहा/ बओया	ब, बोवा	चेनथबा	बहिबा, प्रबाहित- हेबा, गडिजिबा	प्रवहिंचुटे	पाय्न्दु ओड़	ओंळुकुक, प्रवहिक्कुक	हरियुवुदु
बहेरुं	भेरो, केप्पो	बहिरो, बैह्रो	काला, बधिर	कला, बधिर	ना पङ्बा, ना ताथिबा	वधिर, काल	चेविटि	सेविडु	चेकिटन्, बधिरन्	किवुड
बहेलाववुं	रंजवप, रिजोवप	बहलाउनु, प्रसन्न तुल्याउनु	प्रसन्न/ शांत करा	आनंद दि, आमोद दि, फुचुला	थेमजिन्बा	प्रसन्न बा- खुसि- करिबा	संतोष पेट्टुटे, रंजिप चेयुटे	मगिळ्- विक्क	समाधानि- प्पिक्कुक, संतोषिप्पि- क्कुक	मनरंजने माडुवुदु
दलील, चर्चा, तर्क	वाद- विवाद	बहस, वादविवाद, भनाभन	तर्क, विवाद, युक्ति- तर्क	तर्क- बितर्क, बाद- बिबाद	मरै येत्लबा	तर्क, जुक्ति, बाद- बिबाद	वादन, तर्कमु	विवादम्	वाद- प्रतिवादम्	वाद, चर्चे
बहादुर, शूरवीर	बहादुर	बहादुर, वीर	बाहादुर, बीर, साहसी	बीर, साहसी, शूर	थौना फबा	बाहादुर, बीर, साहसी, शूर	वीरुडैन	वीरम् निर्इंद	वीरन्	वीर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बहाना	पुं.	तथ्य को छिपाने के लिए चालाकी की बात	व्याजः	बहाना	बहाना	बहानुॅ	बहानो	निमित्त, कारण, थाप
बहार	स्त्री.	1. फूलों के खिलने का मौसम, वसंत-ऋतु	वसन्तः	बहार	बहार	बहार, सोंथ	बहारू, बसंतु	वसंत ऋतु
		2. सौंदर्य आदि के फलस्वरूप होने वाली रमणीयता या शोभा	रमणीयक, शोभा	बहार	बहार	–	सूंहं	बहार
बहिर्मुख	वि.	1. जिसका मुँह बाहर की ओर हो	बहिर्मुख	बाहरमुख	बाहर की तरफ़ मुंह	न्यबुॅर्य मोंख	बहर-मुखु	बहिर्मुख
		2. जो बाहर की ओर उन्मुख या प्रवृत हो	बहिर्मुख	बाहरमुख	दंरूबी	न्यबुॅरुट	–	–
बहिष्कार	पुं.	1. जाति, समुदाय आदि से बाहर निकालना	बहिष्कारः	हुक्का-पाणी-बंद	इख़राज	छुह द्युन	बहिष्कारु	बहिष्कार
		2. देश-विदेश के माल का सामूहिक व्यवहार - त्याग (बायकाट)	बहिष्कारः	बाई काट	बाइकाट	बयकाठ	बाइकाट	बहिष्कार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बहानुं	पळवाट, टाळप	निहुँ, बहाना, स्वाँग	बाहाना, अजुहात	छलना, चेलु	हायजिन्नबा	बाहाना, छलना	साकु	चाक्कु-प्पोक्कु	ओऴिवु कऴिवुँ	नेव
बहार	वसंत रुतु	बहार, बसंत ऋतु	बाहार	फुल-फुला-काल, बसंत-काल	वसंत ऋतु, येन्निङ्था	वसंत-ऋतु, बसंत-काल	वसंतमु	वसंत कालम् एंऴिल्	वसंतकालम्	सुग्गि, वसंत काल
भभको, मजा	उमेद	रमणीयता, शोभा	बसंत ऋतु, फुल फोटार काल	शोभा, रमणीयता	चङ् - खोन्बा, निङ्थिजबा	रमणीयता, सुषमा, मनोमुग्धकर, मंत्रमुग्ध	शोभ, सोबगु	शौबे, एंऴिल्	रम्यत्त	रमणीयते
बहिर्मुख	बहिर्मुख	बहिर्मुख	बहिर्मुखी	बहिर्मुखी	माइथोक्ता	बहिर्मुख	बहिर्मुखमैन	वेळि नोक्कान	बहिमुर्खन्	बहिर्मुख
–	भायल्या जगांत रमपी	बहिर्मुखी	बहिर्मुख	बहिर्मुख, विषयासक्त	–	वहिर्मुख, खोला	बहिर्मुख-मैन	वेळि विषयंगळिळ् ईडुपाडुळ्ळ	–	बहिर्मुख
बहिष्कार	जात-भायर करप	बहिष्कार	बहिष्कार, निष्कासन	बहिष्कार, बाहिर करा-कार्य	तांथोक्पा	बहिष्कार, निष्कासन	बहिष्कारमु	बहिष्क-रित्तल्, विलक्कुदल्	पुरत्ताक्कल्	बहिष्कार
अस्वीकार, त्याग	बहिश्कार	बहिष्कार, त्याग	बहिष्कार, अस्वीकार, त्याग	बर्जन, त्याग, अस्वीकार	बायकॉट	वहिष्कार, बर्जन, त्याग, अश्वीकार	बहिष्कारमु	अन्निय नाट्टु पोरुळ्गळै वांगामालि-रुत्तल्	बहिष्करणम्	बहिष्कार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बही-खाता	पुं.	हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक	लेखापञ्जि:	वही खाता	खाता बही	बही खातुॅ	बंदी, वही खातो	वहीखाते, चोपडे
बहुत	वि.	परिमाण, मात्रा आदि में अधिक	बहु	बोह्त, बहुत	बहुत	स्यठा	वधीक, घणो	पुष्कक, अधिक
	क्रि. वि.	अधिक परिमाण या मात्रा में, ज्यादा	बहु	बहुत, बोह्त	ज़ियादा	स्यठा, ज़्यादु	–	जास्त, अधिक
बहुभाषी	पुं.	1. बहुत भाषाएँ जानने-बोलने वाला	बहुभाषाविद्	बहुभाशी	कसीरुल-लिसान	स्यठाह-ज़बॉन्य-ज़ाननवोल	घण-ॿोलियो, घणियूं ॿोलियूं ॼाणंदड़ु	बहुभाषी
		2. बहुत बोलने वाला, बकवादी	बहुभाषिन्, वाचाल	बड़बोला	लस्सान, लफ़्फ़ाज़	बकवॉस्य, कथल	–	वाचाळ
बहुमूल्य	वि.	1. जिसका मूल्य बहुत हो, महार्घ	बहुमूल्य.	वडमुल्ला, क़ीमती	बेशक़ीमत, मुल्हो	मोॅलुल	क़ीमती, घण-मुल्हो	बहुमूल्य
		2. जो गुण, महत्व की दृष्टि से अति उपयोगी हो	प्रशस्त	मूलवान	क़ीमती	मोॅलुल	मुल्हाइतो	बहुमोल
बहुरूपिया	पुं.	अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाला	बहुरूप	बहुरूपीआ	बह्रूपया	बोॅहुरूपी	ॿहुरूपी	बहुरुपी, सोंगाड्या

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चोपड़ो	वही खातो	खाताबही, बहीको पुस्तक	खतियान/ खतेन	बही- खाता, हिसाबरखा खाता	हिसाब थम्नबा बोइ	खतिआन, बहि	जमा- खर्चु पुस्तकमु	पेरेडु	कणक्कु- पुस्तकम्	लॅक्कद- पुस्तक
बहु	खूब	धेरै, निकै	यथेष्ट (ज)	बहुत, यथेष्ट	याम्ना	बहुत, अधिक, जथेष्ट	चाला	निरैय, निरंब	वळर	बहळ, जास्ति
वधारे	जास्त	ज्यादा, ज्यास्ती, अधिक	अनेक	बेछिकै, बेछि, अत्यधिक	याम्ना हेन्ना	अधिक, जथेष्ट	अधिकमुगा	अदिगमाग	कूटुतल्	बहळ, जास्ति
बहुभाषी	बहुभाशी	बहुभाषी	बहुभाषी	बहुभाषी, कथकी	लोल याम्ना खङ्बा मी	बहुभाषी	बहुभाषा- वेत्त	पल मोळिगळ् पेसुगिर्	बहुभाषा- पंडितन्	बहुभाषा- पंडित
वातोडियुं	खूब उलयतलो, वाचाळ	बकबके, बकवादी	बाचाल	बरकै कथा कओँता, कथकी	वायाम ङाङ्बा मी	बाचाल, कुहालिया	वागुडुकायॅ	अदिगमाग पेसुगिर्	वायाटि	वाचाल, हरटॅमल्ल
मूल्यवान, अति- कीमती	मूल्यवान	किम्मती, दामी	बहुमूल्य, मूल्यबान	बहुमूलीया, दामी, नर मूल्यवान	ताङ्बा, ममल यांबा	दुर्मूल्य, मूल्यबान, दामी	बहुमूल्य- मयिनॅ	विलैयुयंर्द	विलकूटिय	बहुमूल्य
बहूमूल्य	मोलादीक	बहुमूल्य अमूल्य	–	बहुमूलीया, मूल्यवान	मरू ओइबा	गुणी, अभिजात्य	बहुमूल्य- मयिनॅ	अदिग मदिप्पुळळ	विलपिटिच्च	अमूल्य
बहुरूपी	बहुरूपी	बहुरूपी	बहुरूपी	बहुरूपी, बहु रूप- धारी	शक्लोल पुबा मी	बहुरुपी	पगटि वेषगाडु	पगल् वेषक्कारन्, वेषदारि	पलवेषक्- कारन्	बहुरूपि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बहू	स्त्री.	1. पुत्रवधू, नव विवाहिता स्त्री	नववधू	वोटी	बहू	नोंश	कुंअरि	नवरी, नववधू
		2. पत्नी	पत्नी, भार्या	वहुटी	दुलहन	आशेंन्य	ज़ाल	सून, पत्नी
बाँग	स्त्री.	1. भोर के समय में मुरगे के बोलने का स्वर	कुक्कुटरवः	बांग	बांग	बांग	ब॒ांग	आरवणें
		2. मसजिद में नमाज पढ़ने के लिए मुल्ला द्वारा की जाने वाली उच्च स्वर में पुकार	आह्वानम्	बांग	आज़ान	बांग	–	बांग, अजान
बाँझ	वि., स्त्री.	वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके	वन्ध्या	अउत, औत	बाँझ	हाँठ	वंढि, ब॒ांझ	वांझ
बाँटना	स. क्रि.	किसी चीज को कई भागों में विभक्त करना, वितरण	वि + √भज्	वंडणा	बाँटना	बॉगरुन	विराहिणु	वांटणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वहु	व्हंकल	बेहुली, दुलही	बउ, बधू, नबबधू	न-कइना, बोवारी	मौ, अनौबी	बोहु, बधू	कोडलु, पंड्लिकूतुरु	पुदु मणप्पेण्	वधु, कल्याण-प्पेण्णु	वधु
पत्नी	घरकान्न, पतीण	स्वास्नी, जहान	बउ, स्त्री	पत्नी, घैनी	नुपी	पत्नी, स्त्री	भार्य	मनैवि	पत्नि, भार्य	हेण्डति
बांग	कोंब्या साद	कुखुरा आदिको कराई, बास्ने क्रिया	भोर बेलाय मुरगीर डाक	(पुवार) कुकुरार-डाक	येन्ना खोङ्बा	कुकुड़ा-डाक	कोडिकूत	अदिका-लैयिल् कोळि कूवुदल्	कोळिकूवल्	कोळिय कूगु
अजान	अजान, बांग	नमाजका लागि मुल्लाको पुकार, अजान	आजान	आजान	अल्ला लाओबगी खोन्जेल	सकालु-कुकुड़ा-डाक, नमाजपाइं ड़ाक	नमाजुकु पिलुपु	मसूदियिल् नमाजु पड़िप्पदर्-क्काक अळैप्पुक्कुरल्	बांगॅ विळि	मुल्लान एरिसिद ध्वनिय करॅ
बांझणी, वंध्या	वांझ	बाँझी, बैला, थारी	बंध्या, बांझा	बंध्या, बांझा, संतान दिवले अक्षम नारी	अखूंबी	बांझ, बंध्या	गोड्रालु	मलडि	मलड़ि	बंजॅ
बांटवुं, वहेंचवुं	वांटप	बाँड्नु, बाँडचुँड गर्नु	भाग करे देओया, (न) बेंटे देओया, बितरण	बिला, भगाइ दिया, बितरण	येन्बा	बाँटिबा	पंचि-पेट्टुट	पंगिड	पंकिटुक	हंचुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बाँध	पुं.	वह वास्तु-रचना, जो किसी नदी की धारा को रोकने अथवा किसी ओर प्रवृत्त करने के लिए बनाई गई हो (डैम)	बन्धः	बन्न्ह	बाँध	सॊंथ	बंदु, बांधु	धरण, बांध
बाँधना	स. क्रि.	1. डोरी, रस्सी आदि कसकर किसी चीज के चारों ओर लपेटना	बन्ध्	बन्न्हणा	बाँधना	गंडुन	ब॒धणु	बांधणें
		2. कागज, कपड़े आदि से किसी चीज को इस प्रकार लपेटना कि वह बाहर न निकले (पैक)	बन्ध्	बन्न्हणा	–	वॊंलुत	–	पैक करणें, बांधणें
बाँसुरी	स्त्री.	मुरली या वंशी	वंशी, वेणुः	बंसरी	बाँसुरी	बनसरी	बंसुरी, मुरली	बांसरी
बाकी	वि.	जो व्यय या क्षय होने के बाद बच रहा हो	शेषः	बाकी	बाक़ी	बाकुॅय	बाक़ी	शिल्लक, बाकी
	स्त्री.	गणित में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर निकलने वाला फल	शेषः	बाकी	बाक़ी	बाकुॅय	बाक़ी	बाकी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बांध, पुस्तो	बांद	बाँध	बाँध (नदी इत्यादिर)	बांध, भेटा, मथाउरि	डाम	बंध	आनकट्ट	अणैक्कट्टु	अणक्कट्टु	आर्णकट्टु
बांधवुं	बांधप	बाँध्नु	बाँधा, बंधन	बांध, बंधा	किसन्बा पुन्शिन्बा	बांधिबा	कट्टु	कयिराल्-कट्ट	कॆट्टुक	कट्टु
पेक करवुं	पैक करप	बेर्नु, बेह्रनु	–	बांध, बंधा	योमशिन्बा	अठा देइ-लगाइबा, जोडिबा	बिगिंचु	पॉट्टलंकट्ट	पॉतियुक, पॉतिञ्ञु कॆट्टुक	पॉट्टण कट्टुवुदु
बंसरी, मोरली, वांसळी	बांसरी, पिर्लु	बाँसुरी, मुरली, वंशी	बाँशी, बाँसीं, बंशी	बाँही, बंशी, बाँशी	बासी	बंशी, बइंशी	पिल्लन-ग्रोवि	पुल्लांकुळल्	मुरळि, ऑटक्कुळल्	कॉळलु
बाकी, शेष	शिल्लक	बाँकी, बचत	बाकी, अबशेष	बाकी, अवशेष	लेमहौबा	बाकी, अबशेष	मिगिलिन	संलवु पोग मिच्चमुळ्ळ	बाक्कि	उळिद, मिक्क, बाकि
बाकी	बाकी	शेषफल	बियोगफल	बाकी, अवशेष, बियोग-फल	अरेंबा	वियोग-फल, बाकी, अबशिष्ट	शेषमु	मीदि तॉहै	शेषम्, बाक्कि	उळिददु, शेष

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बागडोर	स्त्री.	लगाम	प्रग्रह:, रश्मि:	वागडोर	लगाम, बागडोर	लाकम	वाग॒डो॒र, लग़ाम	लगाम
बाजार	पुं.	वह स्थान, जहाँ अनेक चीजों की बिक्री व खरीद के लिए दुकानें होती हैं	हट्ट:, विपणि:	बज़ार, बाज़ार	बाज़ार	बाज़र	बाज़ार	बाजार, पेठ
बाजीगार	पुं.	जादू के खेल दिखाने वाला, नट, जादूगर	मायिक:	बाजीगर	बाज़ीगर	बॉज़्यगर	बाज़ीगरु	गारुडि, जादूगर
बाट	स्त्री.	1. राह, रास्ता, मार्ग	मार्ग:	वाट	रास्ता	वथ	वाट	मार्ग, रास्ता, वाट
	पुं.	2. पत्थर, लोहे आदि का वह टुकड़ा जो चीजें तौलने के काम आता है (वेट्स)	तुलामानम्	वट्टा	बाट, वज़्न	वटुॅ, परमानुॅ	वटु	वजन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बागडोर, लगाम	लगाम	लगाम, बागडोर	लागाम, दायित्व नेओया	लेकाम, लेगाम	शगोल चुक्ली, खूर्ज्जी अमसूङ् याचल	लगाम, घोड़ार बाग	पग्गमु	कडिवाळम्, लगान्	कटिञ्ञाण्	लगामु
बजार, हाट	बाज़ार	बजार, हाट	बाजार, हाट	बजार, हाट	कैथेल, बाजार	बजार, पेण्ठ, हाट	बजारु	कडैवीदि	बसार्, अङ्ङाटि	पेर्टे, अंगडिबीदि
बाजीगर	जादूगर	बाजीगर, जादुगार, चट्की	बाजिगर, जादुकर	बाजिकर, जादुकर, ऐंद्रजालिक	मित्रङ् तौबा मी	जादुकर, ऐंद्र-जालिक, कुहुक बिषारद	गारडी-वाडु	जालविद्दैक्-कारन्, चेप्पडि वित्तैक् -कारन्	इंद्रजाल-क्कारन् , चेप्पटि विद्यक्कारन्	मंत्रगार, माटगार
वाट, रस्तो, मार्ग	रस्तो, मार्ग	बाटो, सडक	बाट, पथ, रास्ता, मार्ग	बाट, पथ , आलि	लंब्री	बाट, पथ, रास्ता	दारि, बाट	वळि, पादै	वळि	रस्ते, दारि
काटलुं	वज़ना चो फातर	ढक	बाट-खारा	बाढ़, वृद्धि ह, डाँगरह	अरुंबा औननबा नुङ्	बटकरा	तूकपुरायि	पडिक्कल्	त्रासिर्ल कट्टि	तूकद बट्टु, तूकदकल्लु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बाढ़	स्त्री.	नदी-नाले में जलस्तर का सीमा से अत्यधिक बढ़ जाना	पूरः, उपप्लवः	हड़	सैलाब	युप, सहलाब	ब॒ोडि॒	पूर
बाण	पुं.	एक प्रकार का नुकीला अस्त्र, जो कमान या धनुष पर चढ़ाकर चलाया जाता है, तीर	बाणः	बाण	तीर	तीर	ब॒ाणु, तीरु	बाण
बातचीत	स्त्री.	वार्तालाप	आलापः	गल्लबात	गुफ़्तुगू	कथबाथ	ग॒ाल्हि-ब॒ोल्हि, गुफ़्तगू	वार्तालाप, संभाषण
बाद	अव्य.	पश्चात्, अनंतर, पीछे	अनन्तरम्, पश्चात्	पिच्छे, पिच्छों	बाद	पतुँ	पोइ	नंतर, मागाहून
बादल	पुं.	मेघ	मेघः	बद्दल	बादल	ऑ॔बुर	बादलु, ककरु	मेघ, ढग
बादशाह	पुं.	सम्राट, शासक	सम्राज्	बादशाह	बादशाह	बादशाह	बादशाहु	बादशहा
बाधक	वि.	विघ्न या अड़चन डालने वाला	बाधक	विघनकारी	रूकावटी	ठॏ॔र	रंडक विझंदड़ु	विघ्नकारी
	पुं.	बाधा के रूप में होने वाला	बाधक	विघनकारी	मानेड़ा	ठॏ॔र	रोकीवड़ु	बाधक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पूर	हुंवार	बाढी	बन्या, बान (न्ना)	बानपानी, बन्या, प्लावन	ईशिङ् ईचाउ	नईबढ़ि, बढ़िपाणि, बन्या	वरद	वेळ्ळम्	वेळ्ळ-प्पांक्कम्	महापूर, प्रवाह
बाण, तीर	बाण	काँढ, बाण	बाण, तीर (न)	बाण काँरा शर कुमंत्र	तेनजै	बाण, तीर, शर	बाणमु	अंबु	बाणम्, अंपुं	बाण
बातचीत, संभाषण	संभाशण	बातचित, कुराकानी	कथाबार्ता	कथाबार्त्ता, बातरि संवाद	वारी वाताइ शान्नबा	कथाबार्ता, कथोपकथन, आलाप	संभाषण	उरैयाडल्	वर्त्तमानम्, संसारम्	मातुकर्त, संभाषर्ण
बाद, पछी, पछे	मागीर	पछि, पछिल्तिर्	पश्चाते, परे, अनंतर	पिचत	मतुङ्दा	परे, उपरांत, पछरे	अनंतरमु, तर्वाति	पिरगु, पिन्नर्	शेषम्, पिन्नीटुं	नंतर, आमेले
बादळ, वादळुं	मॉड	मेघ, बादल	मेघ, बादल	मेघ, डाबर ऐलुहुआ	लैचिल	बादल, मेघ	मेघमु, मब्बु	मेहम्	मेघम्	मोड
बादशाह, सम्राट	बादशाह	राजा, बादशाह	बादशाह, सम्राट	बादशाह, सम्राट	निङ्थौरेल	बादशाह, सम्राट	चक्रवर्ति, बादुषा	चक्रवर्ति, पादुषा	चक्रवर्ति	बादशा
रोक	अडचण करतलो	विघ्नकारी	बिघ्न,	बिघिनि हाक दे, निषेधकर, बाधा-दिओंता	अयेत्पा	बिघ्न, बाधा	अड्डु, अवरोधमु	इडैयूरु संय्बवन्	विघ्नकारि, तडस्सक्कारन् तडयुन्नवन्	विघ्नकारि
बाधक	बाधक	बाधक	–	बाधा, बाधक	अपन्बा	प्रतिरोध, व्याहत	आंटकमु	इडैजल	बाधकमाय	अड्ड-बरुव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बाधा	स्त्री.	रोक, रुकावट, अड़चन	बाधा	विघन	रुकावट	रुकावठ	रुकावट, रंडक	बाधा
बाप	पुं.	पिता, जनक	पिता, जनक	बापू, बाप, पिउन्नो	वालिद	मोल	पीउ, पिता	बाप
बायाँ	वि.	'दायाँ' का उल्टा, वाम (लैफ्ट)	वामः	खब्बा	बायाँ	खोहवुर	खा<u>ब</u>ो, <u>ड</u>ाओ	डावा
बारूद	स्त्री.	गंधक, शोरे, कोयले आदि का वह मिश्रण, जो विस्फोटक होता है और तोपें, बंदूकें आदि चलाने के काम आता है	विस्फोटकः	बरूद	बारूद	शोरॅ	बारूदु	दारू-गोळा
बारे में	अव्य.	(किसी के) प्रसंग, विषय या संबंध में	विषये	बारे	बारे में	मुतलख, वेरि	बारे में, बाबत	विषयी, बाबतीत
बाल	पुं.	1. बालक, बच्चा	शिशु	बाल, निआणा	बच्चा (तिफ़्ल)	शुर	<u>ब</u>ारु	बालक, बाळ
		2. जीव-जंतुओं के शरीर में त्वचा से ऊपर निकले हुए तंतु जो रोयों से मोटे होते हैं, केश, सिर के बाल	केशः	वाल, लूं	बाल, रुआँ	वाल	वारु	केस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अवरोध, विघ्न	आडखळ	बाधा, छेकथुन	बाधा	बाधा, बंध	अथिङ्बा	बाधा, अबरोध, बंद	अवरोधमु, आटंकमु	इडैयूरु, तडै	तटस्सम्	तर्ड, अडचर्ण
बाप, जनक, पिता	बापूय, पाय	बाबु, पिता	बाप, पिता, पितृदेब	बाप, पिता, देउता, गुरुस्थानीय	इपा, अपोक्पा	बाप, बापा, पिता	तंड्रि, नान्न	तंदै, तगप्पन्	अच्छन्	अप्प, तंदे
डाबुं	दावो	देब्रे, बाम, बाउँ	बां, बाम	बाँओ, नाम-फाल	ओइ	बांआ, बाम	एंडमॅ	इडदु	इटतुॅ	एंड
बारूद	दारू गोळो	बारुद	बारूद	बारुद, खार	नोंमै मरु	बारुद	तुपाकि मंदु	वेडि मरुंदु	वॅटि मरुन्नुॅ	तुपाकि मद्दु
विषे, बाबतमां	बाबतीत	विषयमा, संबंधमा	प्रसंगे, बिषये	प्रसंगते, संदर्भत	मरमदा, मरिदा	प्रसंगरे, संदर्भरे बिषयरे, परिप्रेक्षीरे	गुरिंचि	संबंदमाग, कुरित्तु	पट्टि कुरिच्चुॅ	संबंधवागि, बग्गे
बाल, बाळक	बाळक	बालक, नानी, बच्चो	बालक, शिशु	बाल, बालक, शिशु	अङाङ्	बाल (बालक), शिशु, पिला	बालुडु	बालन्, कुळंदै	बालन् कुट्टि	हुडुग
बाळ, केश	केंस	कपाल, केश, रौं	रोम, लोम	नोम, चुलि	शम, मतू	बाल, लोम	बॅट्रुकलु	मयिर्	तलमुटि	कूदलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बाली	स्त्री.	1. कानों में पहनने का एक वृत्ताकार आभूषण	कुण्डल	वाली	बाली	कनुँवॉज	वाली	रिंग
		2. अनाज की हरी नन्हीं बाल, सिट्टा	स्तम्ब	सिट्टा	ख़ोशा	ह्यॉल	संगु	कर्णास, ओंबी
बालू	पुं./स्त्री.	पत्थरों का चूर्ण, जो रेगिस्तानों में या नदियों के तटों पर पड़ा रहता है, रेत	वालुका, सिकता	रेत, बालू	रेत	स्यख	वारी, रेती	वाळू, रेती
बावला	वि./पुं.	विक्षिप्त, पागल, दीवाना	उन्मत्त	झल्ला, बाउला	दीवाना	बोवलुॅ, पागल	चर्यो, बांवलो	बावळट, वेडा, वेडपट
बासी	वि.	जो एक या अधिक दिन पहले बना या पका हो, 'ताजा' का विपर्यय	जीर्ण	बहिआ	बासी	तुरुन	बासी, पारूथो	शेळे
बाहर	क्रि. वि.	किसी क्षेत्र, घेरे, विस्तार आदि की सीमा से परे, 'अंदर' और 'भीतर' का विपर्यय	बहिस्	बाहर	बाहर	न्यबर	ब॒ाहर	बाहेर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वाळी	रिंग	मुंद्री, बाली	माकड़ी, रिंग कानेर गहना	काण फुल, काण बालि	नराओबी	नोली, कुण्ड़ल, कानफुल	रिंगुलु	कादिल् अणियुम् वळैयम्	कुणुक्कुँ	ऑलॆ
डूंडुं	कणस	बाली, शस्य	शीष	शस्यर शुं	चुजाक, गेहूनचिं बगी मशम	केड़ा	कंकि	दानियक्क- दिर्	कतिरुँ	तॆनॆ
रेती, वालुका	रेंव	बालुवा, बालुका, रेत	बालि, बालुका	बालि, शिलर- गुड़ि	लैङोइ	बालि, बालुका, रेत	इसुकॆ	मणल्	मणल्	मरळु, उसुकु
बावरुं, बेबाकळुं	पीसो	बहुला, बौलाहा, उन्मत्त	बिक्षिप्त, पागल, उन्माद	पगला, बलिया	अङाओबा	पागल, बाउला, बाबला	पिच्चि- वाडु	पैत्तियम्	भ्राँतन्	हुच्च
वासी	शेळे	बासी	बासी	बाही, आगदिना परि रै जोवा	चजिक	बासी	चद्दि	पऴयदु (सोरु)	पऴय, पऴकिय	तंगळु
बहार	भायर	बाहिर्	बाहिरेर	बाहिर, बाहिरत	मपाल	बाहार, बाह्य	बयटॆ, वॆलुपलॆ	वॆळिये	पुरत्तॊ, पुरमॆ	हॊरगॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बिंदी	स्त्री.	1. गोलाकार टीका, जो स्त्रियाँ माथे पर लगाती हैं	तिलकम्	बिंदी	बिंदी	ट्योंक	तिलक, बिंदी	टिकली, कुंकू
		2. शून्य सूचक चिह्न, सिफर	शून्यम्	बिंदी	सिफ़र	सिफर	बुड़ी	बिंदु, टिंब, अनुस्वार
बिंब	पुं.	1. किसी आकृति की वह झलक, जो किसी पारदर्शक पदार्थ में दिखाई पड़ती है, परछाईं	बिम्बः	बिंब	अक्स	छ़ाय, अकुॅस	अक्सु, पाछो	प्रतिबिंब, पडछाया
		2. प्रतिमूर्ति	प्रतिमूर्ति, प्रतिकृतिः	बिंब	साया	छ़ाय, अकुॅस	सा<u>गी</u> सूरत	प्रतिमूर्ती
बिखरना	अ. क्रि.	1. किसी वस्तु के घटकों का अधिक क्षेत्र में फैल जाना	वि +√कृ (कर्म.)	खिंडना, खिंडरना	बिखरना	वाहरावुन	पखड़िजणु, बिखिरणु	विखुरणें, पसरणें
		2. अलग-अलग या दूर-दूर होना	दूरी√भू	खिंडरना, खिंडना	–	छकरुन	धार-धार थी वञणु	विखुरणें, पसरणें
बिखेरना	स. क्रि.	वस्तुओं को बिना किसी सिलसिले के फैलाना या डालना	वि + कृ	खिलारना	बिखेरना	वाहरावुन, छकरावुन	पखेड़णु, बिखेरणु	विखुरणें, पसरणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चांदलो, टपकुं	तिकली	बिंदी, टीका	टिप, तिलक, बिंदि	सेंदुरर फोट	बिंदी	टोपा	बॉट्टु	नेट्टियिल् इड्डुम् पॉट्टु	पॉट्टुँ	कुंकुम, बॉट्टु
बिंदु, मींडुं	शून्य	शून्य, बिंदु	शून्य	बिंदु	शून्यो	टोपा	सुन्नॅ	पूज्यम्, शून्यम्	पूज्यम्	सॉन्नॅ-सूचिसुव-चिह्ने
बिंब, छाया	प्रतिबिंब, पडबिंब	बिंब, प्रतिबिंब	बिंब, प्रतिबिंब	बिंब, प्रतिबिंब	ममि	बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिफलन, परछाइ	प्रतिबिंबमु	पिरदि-पलित्तल निऴलुरुवम्	बिंबम्, निऴल्	नॅरळु
प्रतिबिंब	प्रतिमूर्ती	प्रतिमूर्ति	प्रतिमूर्त्ति	प्रतिमूर्त्ति , आर्चि बा पानीत-फलित-होवा छबि	मान्नबा शक्तम	प्रतिमूर्त्ति, प्रतिलिपि, अबिकल नकल	प्रतिबिंबमु, प्रतिमूर्ति	पिरतिबिंबम्	प्रतिम	प्रतिबिंब
प्रसरवुं	पसरप	छरिनु	छड़िए पड़ा	सिचरित ह, छिटिक	चखाइबा	विंचि हेबा	चिंदरॅ-वंदरॅ-अगुटॅ	सिदर्	चितरुक, परक्कुक	चदुरु, हरडु
विखरावुं, फैलावुं	विखलप	छरपुष्ट हुनु	–	सिचरित ह	तोझन-तोझन नत्रगा लाप्ना मापना थंबा	बिन्य हेबा	विडिवडुट	तनितनियागप पिरिंदुविड	वेरे वेरे यावुक	बेरॅ बेरॅयागुवदु
विखेरवुं, वेरवुं	पातळावप	छरपुष्ट राख्नु, छर्नु	छड़ानो	छटिया, सिँच	पुमचाइ चाइथोकपा	अनियमित, एणेतेणे	वॅदजल्लुटॅ	सिदर्ड़िक्क	चितरुक, वितरुक	चदुरिसुवुदु ऍरचुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बिगाड़ना	स. क्रि.	ऐसी क्रिया, जिससे किसी काम, चीज या बात में खराबी आ जाए, खराब करना	/दूषय्	विगाड़ना	बिगाड़ना	बिगारुन	बिगाड़णु	बिघडविणें
बिछाना	स.क्रि.	दूर तक फैलाना या बिखेरना, फैलाना	आ + स्तृ	विछाउणा	बिछाना	वथरावुन	विछाइणु	अंथरणे
बिछुड़ना	अ. क्रि.	अलग होना	वि + युज्	विच्छड़ना	बिछड़ना	अलग सपदुन, छ्यनुॅ गछुन	विछुड़िजणु	वेगळे होणें
बिछौना	पुं.	बिछावन, बिस्तर	आस्तरणम्, विष्टर:	विछौणा	बिस्तर	वथरुन	हंधु, बिस्तरो	बिछाना, अंथरुण
बिजली	स्त्री.	1. बादलों की रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाला प्रकाश (लाइटनिंग)	तडित्	बिजली	बिजली	वुज़मलुॅ	विजु	वीज, विद्युत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बगाडवुं	बिगडप	बिगार्नु, बरबाद गर्नु	खाराप करा, नष्ट करा	नष्टकर, बिकृत कर, हानि कर	थुगाइबा, माङ्हन्बा	बिगाड़िबा, खराप-करिबा, नष्ट-करिबा, हानि-करिबा, विकृत-करिबा	चॅडगॉट्टुटॅ	कॅडुक्क	कुळप्पमा-क्कुक, तॅट्टिक्कुक	कॅडिसुवुदु
बिछाववुं, पाथरवुं	पसरप	बिछाउनु	पाता, बिछानो	सिँच, छटि चा	थाबा, शंदोकपा	बिछेइबा, बिक्षिप्त, ऐणेतेणे	परचुटॅ	परप्प, विरिक्क	विरिक्कुक, परत्तुक	हासुवुदु हरडुवुदु
वियोग थवो, जुदुं पडवुं	दुर वचप	छुट्टिनु, अलग्गिनु	पृथक् हओया	बेलेग ह, एर	काइनबा	अलगा हेबा, पृथक हेबा	विडिपोवुटॅ	पिरिंदु पोग	पिरियुक	बेर॑यागुवुदु, अगलुवुदु
बिछानुं, पाथरणुं	हांतूण	ओछ्यान, बिछ्यौना	बिछाना, शज्या (य्या)	बिछना, शय्या	फमुङ्	बिछणा, शज्या	पक्कॅ, पडकॅ	पडुक्कै	विरिप्पुॅ, किटक्क	हासिगॅ
वीजळी	वीज़	बिजुली	बिद्यत, तड़ित् (द्द)	बिजुली, बिद्युत	नोङ्थाङ्	बिजुलि, विद्युत, तड़ित	मॅरुपु	मिन्नल्	मिन्नल्	मिंचु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. घर्षण, ताप और रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली एक शक्ति, जिससे ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है (इलेक्ट्रिसिटि)	विद्युत्	बिजली	–	बिजली	बिजली	वीज
बिजलीघर	पुं.	वह स्थान, जहाँ रासायनिक प्रक्रियाओं, जल-प्रपातों आदि से बिजली उत्पन्न व वितरित की जाती है (पावर हाउस)	विद्युन्निर्माणी	बिजलीघर	बिजलीघर	बिजलीगर	बिजलीघरु, पावर हाऊस	विद्युतगृह
बिना	अव्य.	1. बगैर	विना	बिनां	बिना	वरॉय	बिना	वांचून, शिवाय, विना
		2. अतिरिक्त, सिवा	विना	–	सिवा	वरॉय	खां सिवाइ	खेरीज
बिनौला	पुं.	कपास का बीज	कर्पासबीजम्	वड़ेंवां	बिनौला	टोंट	ककिड़ो, बिनौलो	सरकी
बिरादरी	स्त्री.	1. किसी एक ही जाति या वर्ग के लोग जो सामाजिक उत्सवों पर एक दूसरे के यहाँ आते-जाते हैं (समाज)	जातिः	बिरादरी	बिरादरी	बरादरी	बिरादरी	भाउबंद, आप्तेष्ट, जात
		2. भाईचारा, बंधुत्व	बंधुत्व	बिरादरी	भाईचारा	मिलच़ार	भाईचारो	बंधुत्व

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वीज	विद्युत, वीज़	बिजुली, विद्युत-शक्ति	बिजली	विद्युत, तड़ित शक्ति	मै, इलेक्ट्रिसिटि	बिद्युत, शक्ति, बिजुलि	विद्युत्तु	मिन्सारम्	वैद्युति, विद्युच्छक्ति	विद्युत्
वीजळी घर	वीज़ घर	बिजुलीघर	बिजली घर	विद्युत शक्ति केंद्र, पावार हाउछ	पावर-हाउस	बिजुलि घर	विद्युन्नि-लयमु	मिन्उऱ्पत्ति निलैयम्	वैद्युत्ति-केंद्रम्, पवर्-हौस	विद्युत कारखाने
विना, वगर	शिवाय	बेगर, बिना	बिना, छाड़ा	बिना, अबिहने	याओदना	बिना, छड़ा, ब्यतीत	लेकुंडा	इन्ऱि	कूटाते	इल्लदे
सिवाय	शिवाय	अतिरिक्त, बाहेक, सिवाय	अतिरिक्त	बाहिर, उपरिओ	असिदा नल्तना	अतिरिक्त, अधिक	कार्क	तविर, इल्लामल्	पुऱमे	अल्लदे, बिट्टु हॊरतागि
कपासियो	सावरी-बी, कापसाचे बी	कपासको बियाँ, बिनौला	कापासेर बीज	कपाहर गुटि	लशिङ् मरु	कपा-मंजि	पत्तिवित्त-नगु	परुत्तिक् कॉट्टै	परुत्तिक्कुरु	हत्तिय बीज
न्यात, ज्ञाति	समाज, दायजी	समाज, जात	ज्ञाति (ज्ञयाति) गोष्ठी	समाज, ज्ञाति	शागै	बंधु-बांधब, संपर्कीय, ज्ञाति-कुटुंब	बंधुवर्गमु	उऱविनर्, बंदुक्कळ्	करक्कार्, समूहम्	बळग
भाई चारो	भावकी	बंधुत्व, भाइचारा	ज्ञातित्व	आत्मीयता, भातृत्व	मरूप मपाङ खङन चान्नबा	बंधुत्व, आत्मीयता	बंधुवर्गमु	उरविनम्	बंधुत्व, साहोदर्य	बंधुत्व भ्रातृत्व

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बिल	पुं.	1. जमीन के अंदर खोद कर बनाया हुआ जीव-जंतुओं के रहने का स्थान	बिलम्	बिल	बिल	ओल, वॉज्य	बिरु	बीळ
		2. हिसाब चुकता करने के लिए दिया जाने वाला वह कागज, जिसमें प्राप्य मूल्य का ब्यौरा रहता है, भुगतान अनुरोध	देयकम्	बिल	फ़रदे-हिसाब	बिल	बिल	बिल
बिलकुल	क्रि. वि.	1. पूरा-पूरा, कुल, सब, जितना हो, उतना सब	सर्वथा	बिलकुल	बिल्कुल	बिलकुल	बिल्कुल	संपूर्ण, एकंदर
		2. निरा, निपट	सर्वथा	बिलकुल	फ़क़त	बिलकुल	–	अगदी, बिलकुल
बिलखना	अ. क्रि.	रोना, कलपना, विलाप करना	वि + लप्, क्रन्द्	कलपणा	बिलकना	वदुन, रिवुन	सुडिकणु, विर्लाप करणु	रडणें, विलाप करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिल, दर, कोतर, गुफा	बीळ	दुलो, गुफा, ओडार	गर्त, बिबर	जीव-जंतु थका गाँत, गाँत	मखूल	बिल, गात	कन्नमु	पॉदु	पॉत्तुॅ	बिल, होरु
बिल	बिल	रसिद, बिल	बिल (इं), रसिद	बिल, आदेयक, रचिद	बिल	बिल्, रसिद	बिल्लु	विलै-प्पट्टियल्	बिल्, विळच्चीट्टुॅ	बिल
बिलकुल	बिलकुल	संपूर्ण, भए भरको	समस्त, बिलकुल	संपूर्ण, पुरा	पुल्लब	संपुर्ण, बिलकुल, पूरा, समस्त	पूर्तिगा	मुट्ट्टिलुम्	तीरॅ, मुळुवनुम्	एॅल्ला, आॅट्टु, अष्टूनू
साव, संपूर्ण	सामकें	एकदम, विशुद्ध	एकेबारे, नितांत, संपुर्ण	एकेबारे	तशेङ्नमक	नितांत, संपुर्णभाबे	बॉत्तुगा	चिरिदुम चट्टुम	वॅरुम्	शुद्ध
विलखवुं, झूरवुं, रोवुं	विळाप	रुनु, बिलौना गर्नु	काँदा, बिलाप करा	कांद, बिना	कप्पा, तेङ्थबा	कांदिबा, बिलाप-करिबा	विलपिंचुटॅ	पुलब	करयुक, विलपिक्कुक	बिक्कि बिक्कि, अळुवुदु, विलपि-सुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बिलोना	स. क्रि.	किसी तरल पदार्थ को मथानी आदि से अच्छी तरह हिलाना, मथना	मथ्, वि + लोड्	रिड़कणा	बिलोना	छोंफ-द्युन	विलोड़णु	घुसळणें
बिस्तर	पुं.	बिछावन या बिछौना	विष्टर:, आस्तरणम्	बिसतरा	बिस्तर	बिस्तर, वथरुन	हंधु, बिस्तरो	बिछाना, अंथरुण
बीच	पुं.	किसी वस्तु का वह केंद्रीय अंश या भाग, जहाँ से उसके सभी छोर समान दूरी पर पड़ते हैं, मध्य	केन्द्र, मध्ये,	विच	बीच, वसत	मंज़	विच	मध्य
	अव्य.	दरमियान, अंदर, में	अन्तस्	विच	दरमियाँ	मंज़	विच में	मध्ये, आंत
बीज	पुं.	अन्न आदि का वह कण, जो खेत में बोने के काम आता है (सीड)	बीजम्	बी, बीज	बीज	ब्योल	ब॒िजु	बीज, बीं
बीजक	पुं.	1. सूची, फेहरिस्त	सूची	बीजक	फ़ेहरिस्त	फिरिस्तुॅ	ब॒ीजक, फ़ेहरिस्त	यादी, सूची
		2. वह सूची, जिसमें किसी को भेजे जाने वाले माल का ब्यौरा, दर, मूल्य आदि लिखा रहता है (इन्वायस)	बीजकम्	बीजक	बीजक	बीचक	–	चलान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वलोववुं, चचवुं, चूंथवुं	चाळप	घोल्नु, मथ्नु, हुँडल्नु	मंथन करा, घाँटा	घाँट, घाँट, जोकार	ओत्पा, निक्पा	मंथिबा, घण्टिबा, मंथन-करिबा, मेलाइबा	चिलुकुट	कडैय	कटयुक	कर्डयुवुदु
बिस्तरो, पथारी	हाँतूण	बिछ्यौना, ओछ्यान	बिछाना, शय्या	बिछना, शय्या	फमूङ्	बिछणा, शज्या	पडक	कडैय	कटयुक	हासिगे
वच्चे, वचलुं वचमां	मदीं	बीच, मध्य भाग	मध्य, माझ खान	माज, मध्य, केंद्र	मरक, मयाइ	मध्य, केंद्र, मझि	मध्यं, नडुम	मैयम्, नडु, इडै	मध्यम्	मध्यं, नडु
दरमियान	मदींच	अंतर, बीचमा	मध्ये, भेतरे	माजत, भितराज	मरक्ता	भितरे, अभ्यंतररे	मध्यं, लोपल	इडैये	नटुविल्, इटक्कुं	नडुवं, ओळगं
बीज, बी	बी	बीउ, बिज़न	बीज, बिछन	बीज, सँच	मरु	मंजि, बीज, बिहन	वित्तनमु	विदै	वित्तुं	बीज
यादी, सूचि	सूची, वळेरी	सूची	तालिका, सूची	तालिका, लिष्टि	परिङ्	सूची, तालिका	जाबिता, पट्टिक	जापिता	सूचि, पट्टिक	पट्टि
वीजक	बिल, आंकडो	बीजक, पुर्जा	चालान	इनभयछ, चालानी बस्तुर बिबरणी	चालान	तालिका, चालाण	इन्वायसु	पट्टियल्	इन्वाय्स्, बिल	सरकुट्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बीजगणित	पुं.	गणित की वह शाखा, जिसमें अक्षरों को अज्ञात संख्याएँ मानकर वास्तविक मान या संख्याएँ जानी जाती हैं (अलजेबरा)	बीजगणितम्	बीजगणित	अलजबरा	अलजबरा	आलजब्रा, ब॒ीज गणित	बीजगणित
बीनना	स. क्रि.	छोटी-छोटी चीजों को उठाना या चुनना, छाँटना	अव + चि	चुणना, चुगणा	चुगना, चुनना	च़ारुन	चूंडणु, मेड़णु	वेचणें, निवडणें
बीमा	पुं.	किसी प्रकार की विशेषतः आर्थिक हानि पूरी करने की जिम्मेदारी जो कुछ निश्चित धन लेकर उसके बदले में की जाती है (इंश्योरेन्स)	आगोपः	बीमा	बीमा	बीमुँ	वीमो	विमा
बीमार	वि.	वह व्यक्ति, जो किसी रोग से पीड़ित हो, रोगी	रोगिन्, रुग्ण	बिमार	बीमार	ब्यमार	बीमार	आजारी, रोगी
बुझाना	स. क्रि.	1. ऐसी क्रिया करना जिससे आग जलना बंद हो जाए	निर + वापय्, √शम्	बुझाउणा	बुझाना	छ्‌यतुं करुन	विसाइणु	विझविणें, शमविणें
		2. शांत करना	√शम्	–	–	–	–	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बीजगणित	बीजगणीत	बीजगणित	बीजगणित, एलजेब्रा	बीजगणित	अलजेबरा	बीजगणित	बीज-गणितमु	बीजगणिदम्	बीजगणितम्	बीजगणित
वीणवुं, चूंटवुं	वेंचप	केलाउनु, बिन्नु, केलाइ-कुलाइ गर्नु	बाछा	बोटल, तोल, गोटा, बाछ	खन्बा	खुंटिबा, बाछिबा	एरुट	पोरुक्कि/ ऐडुक्क	पॆरुक्कुक, तिरियुक	आरिसुवुदु
वीमो	विमो	बिमा	बिमा	बीमा	इन्श्योरेन्स	बीमा	भीमा	इन्षूरन्स्, आयुळ्काप्पु	इन्ष्युरन्स्,	विमॆ
बीमार, मांदुं	आजारी, रोगी	बिरामी, रोगी	असुस्थ, रोगी	बेमार, रोगी	अनाबा	बेमार, रोगी, असुस्थ	रोगि	नोयुट्ट, नोयाळि	असुखमु-ळ्ळवन्, रोगि	रोगि, अस्वस्थ
बुझाववुं, ओलववुं	वाडोवप	निभाउनु	निभानो, नेभानो	नुमुवा, लोपकर	मुथत्पा	लिभाइबा, निर्बापित-करिबा	आर्पुट	तीखै अणैक्क	कॆट्टुत्तुक	आरिसुवुदु, नंदिसुवुदु
–	–	शांत गर्नु, बुझाउनु	–	ज्वलिथका-अवस्था न होवा नुमा	–	–	शांतिंप चेयुट	–	–	बेंकि नंदिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बुढ़ापा	पुं.	बूढ़ा होने की अवस्था या भाव, वृद्धावस्था	जरा, वार्धक्यम्	बुढ़ेपा	बुढ़ापा	बुजर	बुढापो	वृद्धावस्था, म्हातारपण
बुद्धि	स्त्री.	विचार या निश्चय करने की शक्ति, अक्ल, समझ	बुद्धिः	बुद्ध, बुद्धी	अक़्ल	बोंद, अकुॅल	बुधी, समझ	बुद्धी
बुनकर	पुं.	कपड़ा बुनने वाला कारीगर, जुलाहा	तन्तुवायः	बुणकर	बुनकर	वोवुर	कोरी	विणकर, कोष्टी
बुनना	स. क्रि.	1. करघे पर वस्त्र बनाना	√वे	बुणना	बुनना	वोनुन	उणणु	विणणे
		2. ऊन, तार आदि से स्वेटर, चटाई आदि बनाना	√वे	बुणना	–	वोनुन	उणणु	विणणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वृद्धावस्था, बुढ़ापो	म्हातारपण	बुढ्यौली, बुढ्याइँ, बुढेसकाल	बाद्र्धक्य, बृद्धत्ब	बृद्धत्व, बृद्धावस्था बूढ़ा, प्रबीन, अवस्था, जरा-काल	हनुरक्पा	वार्धक्य, वृद्धावस्था	मुसलितनमु	मूप्पु	वाद्र्धक्यम्, वयस्सुकालं	मुप्पु
बुद्धि, समज	बुद्धी	बुद्धि, अक्किल, मति	बुद्धि, ज्ञान (ग्याँ)	बुद्धि, ज्ञान, बोध, बूजार उपाय, उपदेश	लौशिङ्	बुद्धि, ज्ञान, अबगति	बुद्धि	बुद्दि	बुद्धि	बुद्धि
वणकर	विणकर	तंतुकार, जुलाहा	ताँती, तंतुबाय	ताँती	फी शाबा मी, फी लोल्बा मी	बुणाकार, तँत्ति	चेनेतवाडु	नेशवाळि	नेय्त्तुकारन्	नेकार
वणवुं	विणप	लुगा तयार पार्नु, कपडा बनाउनु	बोना, बयण	कापोर ब	फी शाबा	बुणिबा, बयन-करिबा	नेयुट	नेय्य	नेय्युक	नेयुवुदु
गूंथवुं	गूंथप	बुन्नु	बोना	गाँठ, सि	लोल्बा	बुणिबा, बयन-करिबा	अल्लुट	कंबळि नूलाल् पिन्न	स्वेटरुम् मट्टम् पिन्नुक	हेणेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बुरा	वि.	खराब, दोषयुक्त	सदोष	बुरा	ख़राब	नाकारु	ख़राब, बुरो	वाइट, सदोष
बुरादा	पुं.	लकड़ी चीरने या धातु रेतने पर उसमें से निकलने वाला महीन अंश, चूरा	काष्ठचूर्णम्	बुरादा	बुरादा	कोंश	बूरो, चूरो, बुरादो	भुसा
बुलाना	स. क्रि.	किसी को अपनी ओर आने के लिए आवाज या संकेत देना	आ + कारय्, आ + ह्वे	बुलाउणा	बुलाना	आलव करुन, नाद लायुन/ द्युन	सडु॒णु	बोलाविणें
बूटी	स्त्री.	1. ऐसी जंगली वनस्पति, जिसका उपयोग औषध आदि के रूप में होता है	औषधं	बूटी	बूटी	जड़ी-बूटी	बू॒टी	जडीबुट्टी
		2. छोटे पौधों या फूलों के आकार का कोई अंकन या चित्रण	कुसुमाद्यङ्कनम्	बूटी	बूटी	बूटॅ	बू॒टी	वेलबुट्टी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बूरुं, खराब	वायट	खराब, नजाति, नराम्रो	खाराप, मंद	बेया, असत्, अनुचित, निकृष्ट, असुस्थ, कुकर्म	फत्तबा	खराप, नीच, अधम, हीन, अश्लील, दुन्नीति	चॅड्डॅ	कॅट्ट, माशुळ्ळ	चीत्त	केट्ट
मुसा	भुसो	काठको धुलो, चूर्ण	काठेर गुँड़ा (गुँड़ो)	काठर-गुरि	मकुप	करत गुंड़	रंप्पु पॉडि	मरत्तुळ्	मरप्पॉटि, अरक्क-प्पॉटि	मरद हुडि
साद, बोलाववुं	आपोवप	डाक्नु, बोलाउनु	डाका, आब्हान	माता; आह्वान कर, रिङिया चियँर	कौबा	ड़ाकिबा	पिलुचुटॅ	कूप्पिड, अळैक्क	विळिक्कुक	करेयुवुदु
बुट्टी	जडी बुट्टी	वनौषधि	जड़ि-बुटी, बुटि, भेषज	बनौषधि, दरबर गछ/ लता	हिदाक कान्नबा मना-मशिङ्, उरु-वारु, जड़ी-बूटी	जडी-बुटी	मूलिकॅ	मूलिगै	मरुन्नुं, पच्चिल मरुन्नुं	वनस्पति, गिडमूलिकॆ
बुट्टो	वेल बुट्टे	बुट्टा, बेलबुट्टा	बुटि (कापोरेर)	कापोरत तोला फुल, बुटा	लै-शु लोलबा	सुशोभित-बा मंड़ित-करिबा	बूटापनि	पूवेलै	पूवेल	कसूति चित्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बूढ़ा	वि.,पुं.	बड़ी आयु का प्राणी, वृद्ध	वृद्धः	बुड्ढा	ज़ईफ़	बुड्डॅ	ॿुढो	म्हातारा
बेईमान	वि.	1. जिसकी नीयत ठीक न हो	अधार्मिक, कुटिल	बेईमान	बेईमान	बैंयमान	बेईमान	बेइमान
		2. अविश्वसनीय	अविश्वास्य	बेईमान	–	बैंयमान	–	अविश्वसनीय
बेगार	स्त्री.	1. ऐसा काम, जो जबरदस्ती और बिना पारिश्रमिक दिए करवाया जाए	विष्टिः	वगार	बेगार	बैंगॉर्य	बेगार	वेठबिगार
		2. बेमन का काम, अनिच्छा से किया गया काम	अनिच्छया	वगार	–	बैंगॉर्य	–	बेगार
बेचना	स. क्रि.	कोई चीज या संपत्ति मूल्य लेकर देना	वि + क्री	वेचणा	बेचना	कुंनुन	विकिणणु	विकणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
घरडुं, वृद्ध	म्हातारो	बूढो, वृद्ध	बुड़ा/ बुड़ो, बृद्ध	बूढ़ा, बृद्ध, पैनत, पूरठ	अहल ओइरबा, हनुबा	बुढ़ा, बृद्ध	मुसलि वाडु	वयदु मुदिर्न्द, किऴवन्	वयस्सन्, वृद्धन्	मुदुक
बेइमान, कृतघ्न	बेमान, बेइमान	बेइमान, अधर्मी	बेईमान, अधर्मी	अबिश्वासी, अधर्मी	नमथाक् लौनम तौबा	कृतघ्न, बेइमान, अबिश्वासी	नम्मरा- निवाडु, मोसकारि	अयो- ग्गियन्	नारित्तकन	अधर्मि
अविश्व- सनीय	विश्वासी न्ही	अविश्वासी	अबिश्वस्त, अबिश्वासी	अबिश्वासी	थाजनिङाइ ओइदबा	कृतघ्न, बेइमान, अबिश्वासी	नम्मरानिवाडु	नंबत्तगाद	अविश्वस्तन्	अप्रामाणिक
बेगार	पगार ना दिता जबरदस्तीन काम घेवचे	बेगार	बेगार, बिना पारिश्रमिके काज करानो	बेगार, बेगारि, एनेए- काम- करि दिया मानुह	नंफू- शाफूदा तौहन्बा थबक्	बेगारी, बेठि	वॅट्टि- चाकिरि	ऊदियम् इल्लामल् संबिक्कुं वेलै	शंपळ- मिल्लात निर्बंधिच्चु चेय्यिक्कुन्न जोलि	बिट्टि कॅलस
–	बेगार	बेगार	–	लाक पाक कै करा काम	लालूप	जबरदस्त बा- बलपुर्बक- कार्य- कराइबा	वॅट्टि- चोकिरि	कट्टायमाग वेलै वांगुदल्	पाळ्वेल, इष्ट- मिल्लात्त वेल	इष्टविल्लदे माडिद कॅलस
वेचवुं	विकप	बेच्नु	बेचा, बिक्रय करा	बेच, बिक्री- कर	योन्बा	बिकिबा, बिक्रय	अम्मुट	विर्क, विर्पनै संय्य	विल्क्कुक	मारुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बेचारा	वि.	निःसहाय, दीन, गरीब	वराक, असहाय	विचारा	बेचारा	बिचोर	वेचारो	बिचारा
बेल	पुं.	1. एक प्रसिद्ध फल, जो पेट के रोग के लिए गुणकारी होता है	बिल्व	बेल	बेल	ब्यल	बेल (हिकु फलु)	बेल
		2. लता	लता	वेल	बेल	राँठ	वलि	वेल, लता
		3. कपड़े आदि पर टाँका जाने वाला फीता	जालाभरणम्	वेल	लेस	किनॉर्य	लेस, भर्थु	काठ, किनार
बेलबूटा	पुं.	किसी चीज पर लताओं, पेड़-पौधों आदि का अंकन या चित्र	कुसुमाद्यङ्कनम्	बेलबूटा	बेलबूटा	पोशिर्थॅर	बेल-बूटो	वेल बुट्टी
बैठक	स्त्री.	1. बैठने का स्थान	द्वारप्रकोष्ठः	बैठक	बैठक	बैठक	बैठक	बैठक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बिचारुं	बाबडो	बिचरो, असहाय	बेचारा, असहाय	निछला, दरिद्र, दीनहीन	तोल्लबा, लाइरबा, उपाय लैजदबा	बिचरा, असहाय, दीन, दरिद्र, गरिब	दिक्कुलेनि, पापमु	पावम्, आदरवट्ट एळै	निस्सहायन्, दरिद्रन्	बड़व, बडपाई
बिल्व, बीली	बेलफळ	बेल	बेल, श्रीफल, बेलफुल	बेल	हरिखागोक्	बेल	बिल्ववृक्ष्मु, मारेडु	विल्व मरम्	विल्वम्, कूवळम्	बिल्ववृक्ष
वेल, लता	बेल	लहरा, लता	लता	लता	उरि	लता, लटा	तीग, लत	कोड़ि (पड़रुम्)	वळ्ळि	बळ्ळि
किनार, कोर	वेल काडप	फित्ता (लेस)	बेल	पटि, पाटि	मपाल	फिता, पटि	बट्टल पैन कुट्टे दारमु	तुणियिल् तैक्क-पडुम् चित्तिखेलै	पूवुळ्ळ नाट	कसूति कंलसद पट्टि
वेल बुट्टी	वेल बुट्टें	बेलबुट्टा	बुटि	कापोरत बा आन किहबात तोला फुल-जालि	अरोन्बा नत्रगा अहक्पा उरि-वारि, लै-शु	चित्रांकन, नक्सा	अल्लिकं	वैलैप्पाडु	पूवेल, चित्रप्पणि	लाडि, बुट्टे केलस
बेठक	साल	बैठक	बैठकखाना	बैठकखाना, बहा घर, बहा कोठा	मीफम्	बैठकखाना	कूर्चुंडु-स्थलमु	उट्कारुमिडम्	इरिप्पुमुरि स्वीकरण मुरि	कूडुव स्थळ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. सभासदों का एकत्र होना	उपवेशनम्	बैठक	–	मिटिंग, समुन	बैठक, मीटिंग	सभा, बैठक
बैठना	अ. क्रि.	आसीन होना अथवा स्थान ग्रहण करना	उप + विश्, √आस्	बैठणा	बैठना	बिहुन	विहणु	बसणें
बैर	पुं.	शत्रुता या बदला लेने की भावना, दुश्मनी	वैरम्	वैर	दुश्मनी	वॉर	वेरु	वैर, शत्रुता
बैरा	पुं.	होटलों आदि में खाना खिलाने वाला सेवक	परिवेषकः	बैरा	बैरा	बहरॅ	बैरो, बेयरो	बेयरा
बैल	पुं.	गाय का नर, जो गाड़ी और हल आदि में जोता जाता है	वृषभः, बलीवर्दः, गो	बलद, ढग्गा	बैल	दांद	ढगो, डांदु	बैल
बैलगाड़ी	स्त्री.	बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी	गोशकटम्	गड्ड, गड्डा	बैलगाड़ी	दांदुॅ गॉड्य	ढगे गाडी, डांद गाडी	बैलगाडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सभा, बेठक	सभा	बैठक, सभा	बैठक	बैठ़क, सभा	–	बैठक, सभा	समावेशमु	कूट्टम्	योगम्, सभ	सभे
बेसवुं	बसप	बस्नु	बसा	बह, आसन ल	फंबा	बसिबा, आसन-ग्रहण-करिबा, उपबेसन-करिबा	कूर्चुंडुट	उट्कार, अमर	इरिक्कुक, उपविष्ट-नावुक	कुळितु-कॊळ्ळुवुदु
वेर, द्वेष	दुसमान	शत्रुता, दुस्मनी, वैर	शत्रुता, बैर, बैरिता	बैर, शत्रुता, बैरिता	येक्नबा	बैर, शत्रुता, बिपक्ष, प्रतिद्वंदिता	वैरमु	विरोदम्	शत्रुत, वैरं	वैर, हगॆ
बेरा, बेरर	बेयरा	बेयरा	बेयारा	बेहेरा	होटलदा पिज-पिथक तौबा मी	बेहेरा, भृत्य	वेटरु	परिचारगन्, सर्वर्	विळंपुकारन्, बॆयरर्	होटॆलु परिचारक
बळद	बैल	बयल, गोरु	बलद	बलध, मता गरु	शन लाबा	बलद	ऍद्दु	एरुदु	काळ	ऍत्तु
बळद-गाड़ी, बेलगाड़ी	बैलगाडी	बयलगाडा, बैलगाडी	गरुर-गाड़ि	गरुर गाड़ी	शन गाड़ी	बलदगाड़ी, शगड़	ऍद्दुबंडि	माट्टु वण्डि	काळवण्डि	ऍत्तिनगाडि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बोझ	पुं.	वजन, भार	भारः, भरः	भार	वज़्न	वज़ॅन, बार	बारु, बो॒झु	ओझे, भार
बोतल	स्त्री.	शीशी	काचकूपी	बोतल	बोतल	बोतल	बोतल	बाटली
बोना	स.क्रि.	पेड़-पौधे उगाने के लिए जमीन में बीज डालना	वप्	बोणा, बीजणा	बोना	ववुन	पोखणु, छटणु (बि॒जु)	पेरणें
बोलचाल	स्त्री.	वार्तालाप	आलापः	बोलचाल	तर्ज़े-गुफ़्तुगू	बोलचाल, कथबाथ	गा॒ल्हि-बो॒ल्हि, गुफ़्तगू	संभाषण, वार्तालाप
बोलना	अ. क्रि.	1. शब्द, ध्वनि आदि को स्वर में उच्चारित करना	√वद्, √भाष्	बोलणा	बोलना	वनुन	गा॒ल्हाइणु, बो॒लणु	बोलणें
		2. शब्दों द्वारा कहकर विचार प्रकट करना	√वद्, √भाष्	बोलणा	–	–	–	सांगणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बोज, भार	वजें	बोझा, बोझ, भारी	बोझा, भार, ओजन	बोजा, भार	पोतलुम्	बोझ, भार, माल	बरुवु	चुमै, बारम्	चुमट्टु, भारम्	भार
बाटली, शीशी	बाटली	बोतल, सिसी	बोतल	बटल	लिक्ली	बोतल, शीशी	सीसा	सीसा, पुट्टि	कुप्पि	सीसे
वाववुं, रोपवुं	रोवप	बीउ छर्नु, बर्काउनु	बोना, बपन करा	गुटि सिंचा कार्य, रोपण, बपन	मरु हुनबा, थाबा	बुणिबा, बपन करिबा	वितुट	विदैत्तल्	वितय्क्कुक	बितुवुदु
वार्तालाप, संभाषण	वार्तालाप, उलोवणें	कुराकानी, बोलचाल	कथाबार्ता, आलाप	कथाबार्ता, आलाप	वारी वाताइ शानबा, वङाङ्- शङाङ्	कथाबार्ता, आलाप, कथोप- कथन	संभाषण	संबाषणै, उरैयाडल्	संभाषणम्	मातुकते
बोलवुं	उलोवप	बोल्नु, कहनु	कओया/ बला	बोल, क, मात	ङाङ्बा	कहिबा	माट्लाडुट	पेश	संसारिक्कुक	उच्चरि- सुवुदु
कहेवुं	सांगप	भन्नु	–	रोषयुक्त- कथा- क	वाहैना पुक्निङ्गी वा फोङ दोकपा	कहिबा	व्यक्त- परचुट	सॉल्ल	परयुक	माताडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
बौखलाना	अ. क्रि.	1. आवेश या क्रोध में आकर अंड-बंड बकना	अप + लप्	बोखलाउणा	घबराना	–	अंटशंट बकणु	संतापणें
		2. मानसिक संतुलन खो बैठना	√क्षुभ्	बोखलाउणा	बौखलाना	हयबुंगुँ गछुन्न	बोखलाइणु	चिडणें
बौछार	स्त्री.	1. बूँदों की झड़ी, जो हवा के झोंके से तिरछी गिरती हो	शीकरासारद्व, धारासम्पात	वाछड़	बौछार	रूदुँ लवु	वसकारो	तुषार, भुरभुर
		2. बहुत अधिक संख्या में लगातार किसी वस्तु का बरसना	आसारः	वाछड़	–	–	–	वणाव
बौद्धिक	वि.	बुद्धि संबंधी, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने के योग्य	बौद्धिक	बौधिक	अक़ली	बोँज़-हुंद, अकलि-हुंद	बौधिक, बुधीअ वारो	बौद्धिक
ब्याज	पुं.	सूद; मूलधन पर मिलने व दिए जाने वाला धन (इन्टरेस्ट)	वृद्धिः	बिआज	सूद	सूद	ब्याजु	ब्याज
ब्यौरा	पुं.	वृत्तांत, किसी घटना के अंतर्गत एक बात का उल्लेख या कथन	विवरणम्	वेरवा, तफसील	तफ़्सील, तफ़्सीलात	तफसील	विचूर	तपशील, विवरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संतापवुं	खुबळप	जङ्गिनु, तथानाम गर्नु	तर्जन- गर्जन- करा	तर्जन गर्जन कर	मथोङ् मरम खङदना	गर्जन- तर्जन- करिवा	वागुट, रेंच्चिपोवुट	वेरियिल् कूच्चलिड	देष्यत्तिल् पुलंपुक	आवेश- पडुवुदु
चिडाईजवुं	तिडकप	सँ विक्कु बहुलाउनु	कांड-ज्ञान शून्य हओया	हिताहित ज्ञान होरूवा	पुङाङ ङाङबा	उद्बिघ्न हेबा	पिच्चैतुट	–	विरलुक	हुच्चरहार्ग वर्तिसु
वाछट	झड	बाछिटा	एक पश्ला बर्षन	आछारकणि एछारेकणि	नोङफै	असरा, झड़ी	जडिवान	शारल्, तूरल्	चाट्टल्	तुंतुरु
टोणो, कटाक्ष	झडप	वर्षा, ओइरो	–	बर्षण	हैथबा	असरा, फड़	ज़डिवान	पाळिय	पंय्यल्	सुरियुवुदु
बौद्धिक	बौद्धीक	बौद्धिक	बौद्धिक	बौद्धिक	बुद्धिगी ओइबा, लौशिङ्गी ओइबा	बौद्धिक	बौद्धिकमैन	बुद्दि संबंदमान	बौद्धिकमाय	बौद्धिक
व्याज	कळंतर, व्याज	ब्याज	सूद	सुत राय बियाज बाढ़ि	शेंदोइ	सुध, कलंतर	वड्डी	वड्डि	पलिश	बड्डि
बयान, हेवाल	तपशील, विवरण	बेहोरा, तपसिल	बिबरण, लिपि, बृतांत (न)	बितं बातरि, विशद बिबरण	थौदोक अमगी अपून्बा वारोल	बिशद- बिबरण, पूरा बृतांत, संपुर्ण- बृतांत	विवरणं	विवरम् विरुत्तांतम्	विवरणम्	विवरणे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भंडार (भांडार)	पुं.	1. कोष, खजाना	भाण्डार:, कोष्ठ:	भंडार-भांडार	मख़्ज़न	बंडारॅ	भंडारु	खजिना
		2. अन्नादि रखने का स्थान	अन्नकोष्ठ:	भंडार	ज़ख़ीरा	अंबार	–	कोठार, भांडांर
भँवर	पुं.	जलावर्त	जलावर्त:	घुम्मण घेर	गिर्दाब	आवलुन	कुनु	भोवरा
भक्ति	स्त्री.	निष्ठा, विश्वास या श्रद्धा	भक्ति:	भगती	अक़ीदत	बख्ती	भक्ती/भगिती	भक्ती
भगवान	पुं.	1. परमेश्वर	भगवान्	भगवान	अल्लाह	बगवान	भगवानु	परमेश्वर, देव, भगवान
		2. पूज्य, आदरणीय और महिमाशाली	भगवान्	–	खुदा, माबूद	–	–	पूज्य, आदरणीय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भंडार, खजानो	खजिनो, खजानो	ढुकुटी	कोष, धनागार	राज-कोष, भाण्डार	पुक्कै	कोष, खजण-भंड़ार	भांडारमु	पंडग शालै	खजनावुँ	खजार्न
–	भंडार	भण्डार	भाण्डार (न)	भँराल	कै	कोष, खजणा, भंड़ार	भांडारमु	उक्किराणम्	कलवर्	उग्राण
भ्रमर, वमळ	भोंवरो	भुमरी, भुँवरी	जलाबर्त, घूर्णि (न)	चाकनैया	इरै	भंउरी, जलाबर्त्त, घुर्णन	सुडिगुंडमु	चुळल्	चुळि	सुळि
भक्ति, प्रेम, आदर	भक्ती	भक्ति, आस्था	भक्ति, श्रद्धा	भक्ति/ भकति	भक्ति	भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, आदर	भक्ति	भक्ति, ईडुपाडु	भक्ति	भक्ति
भगवान, प्रभु, ईश्वर	देव	ईश्वर, भगवान	भगबान	भगवान्, भगवंत ईश्वर	लाइ, ईश्वर	भगबान, प्रभु, इश्वर, परमेश्वर	भगवंतुडु	भगवान्, कडवुळ्	भगवान्	देवरु
पूज्य, आदरणीय	पूज्य	पूज्य, मान्य	पूज्य, आदरणीय	पूज्य, श्रद्धास्पद	पूजा तौनिंङाई ओइबा इकाइ खुम ननिंङाई औरबा	पूज्य, पुजाष्पद, आदरणीय	महात्मुडु	वणक्कत्तिर् कुरिय	महात्मावुँ	पूज्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भड़काना	स. क्रि.	आग को तेज करना, उत्तेजित या क्रुद्ध करना	सम् + इन्ध्, प्र + कोपय्	मचाउणा, भँड़काउणा	भड़काना, मुशतइल करना	हुँस द्युन, तुलुन	भड़काइणु	भडकविणें, फूसदेणें, उत्तेजित करणें
भड़कीला	वि.	जिसमें खूब चमक-दमक हो	दीप्त	भँड़कीला	ज़र्क़-बर्क़	चमकुँवुन	भड़कीलो	भडक
भद्र	वि.	शिष्ट, सभ्य, सुशिक्षित	भद्र	साऊ	शाइस्ता	रुत मोँहन्युव	सखरु, भलो	सभ्य, सज्जन, सज्जणु
भरती (भर्ती)	स्त्री.	1. प्रवेश, दाखिला	नियोजनम्	भँरती	दाख़िला	बॅरती	भरती, भर्ती	प्रवेश, दाखल
		2. नियुक्ति	नियोजक:	भँरती	–	–	–	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भडकाववुं, चमकाववुं	भडकावप, उत्तेजीत करप	दन्काउनु, भड्काउनु, उत्तेजित गर्नु	उसकानो, उत्तेजित करा	ज्वलोवा, खंतोला, उत्तेजित कर, खं तोल	मै चाखत्हनबा, शाओगत्-हन्बा	निंआकु-तेजकरिबा, उद्धिप्त-करिबा, रगेइबा, क्रुद्ध-करिबा, उत्तेजित करिबा	रॅच्चगॉट्टुट	नेरूप्पै नन्गुऐरिप विड, तूण्डि विड	देष्यर्प्पटुत्तुक	उत्तेजिसुवुदु
भडकदार	भडक	चहकिलो, भड्किलो	जमकालो, चटकदार	जकमक, रंचङीया	अरङ्-अराक्की ओइबा अके अमौगी ओइबा	चमक-जुक्त, मुग्ध, जाक-जमक	तळुकु-बॅळुकुगॅल	पगट्टान	निरुप्पकि-ट्टार्न्न	हॉळ्युव
भद्र, सभ्य	सभ्य	भद्र, सज्जन	भद्र, शिष्ट, सभ्य, साधु	भद्र, शिष्ट	लैबाक मचा ताबा लाइरिक लाइसू हैबा	भद्र, शिष्ट, सभ्य	मर्यादॅ-गॅल	गण्णियमान	संस्कारमुळ्ळ	सभ्य
भरती	दाखलो	भर्ती, भर्ना	भरति, प्रबेश	प्रबेश	चङ्बा, ममिङ् चन्बा	भरति, भर्ति	प्रवेशमु, नियामकमु	चेर्त्तुक्-कॉळ्ळल्	प्रवेशनम्	प्रवेश, दाख्लु
–	–	नियुक्ति	–	–	–	प्रबेश	–	–	–	–

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भरना	स. क्रि.	1. खाली बरतन आदि में कोई चीज डालना, उड़ेलना, रखना	√पूरय्	भँरना	भरना	बरुन	भरणु	भरणें
		2. रिक्तता अथवा हानि की पूर्ति करना	क्षतिं √पूरय्	पूरा करना	पूरा करना	–	–	भरपाई करणें
भला	वि.	अच्छा, नेक	भद्र	भँला	भला	जान	भलो, चङो, सुठो	चांगला, भला
	पुं.	हित, लाभ	भद्रम्	भँला	–	रुत	भलो, भलाई	हित, फायदा
भवन	पुं.	प्रासाद, महल; घर, मकान, इमारत	प्रासादः, गृहम्, भवनम्	इमारत, भँवन, उसारी	महल, मकान	मॅहल	भवनु	प्रासाद, महाल, भवन, इमारत, घर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भरवुं, नाखवुं	भरप	भर्नु, भरी पार्नु,	भरा, ढाला, राखा	भरा, बाक	हैजिन्बा, शोकपा, हापचिन्बा	भरिबा, ढालिबा, रखिबा	निंपुट	निरप्पुदल्	निरय्क्कुक	तुंबुवुदु
भरपाई करवुं	भरपाय करप	क्षतिपूर्ति गर्नु	पूर्ति करा	क्षति पुरोवा, क्षतिर परिवर्त्ते दिया धन	मेन्खत्पा, मेनशिन्बा	पूरा-करिबा, क्षति बा-स्थान-पुरण करिबा, समतुल करिबा	पूरिंचुट	ईडु सय्य	निकत्तुक	पूर्तिमाडुवुदु
भलुं, सारुं	बरें	असुल, नेक, राम्रो	भालो, सत्, साधु	भाल, साधु, श्रेष्ठ, भद्र, शांत सद्भाव	अफबा	भल, सत, उत्तम, जथोचित, जोग्य	मंचि	नल्ल, सादुवान	नल्ल, नेरुळ्ळ	ओळ्ळय
हित, लाभ	हीत	हित, भलाइ	लाभ, हित	हित, लाभ	याइफबा, कान्नबा	हित, लाभ	मेलु	नन्मै, लाबम्	नन्म	हित
भवन, महेल, मकान, घर	महाल, घर	भवन, महल घर, वासस्थान	भबन, महल, पाका बाड़ि, इमारत	भवन, महल, गृह घर	भवन, कोनुङ, युम, युमजाओ	भबन, प्रासाद, अटटालिका, महल, घर, गृह, आवास, आलय	भवनमु	माळिगै, वीडु, कट्टिडम्	भवनम्, कॉट्टारम्, वीडुँ, कॅट्टिटम्	अरमर्न, भवन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भविष्य	पुं.	आने वाला समय, भविष्यत् क़ाल	भविष्यत्	भविक्ख	मुस्तक़्बिल	यिनुँ वोल वख	भविष्यु, आईंदो, मुस्तक़्बिल	भविष्य
भव्य	वि.	सुंदर और प्रभावशाली, शानदार	भव्य	शानदार	शानदार	शानदार	शानदार	भव्य
भाँपना	स. क्रि.	रंग-ढंग से जान लेना, ताड़ लेना	अनु✓मी	भॉंपणा	भाँपना	च़ेनुन	भांपणु, ताड़णु	ताडणें
भागना	अ. क्रि.	1. दौड़ना	धाव्	नस्सणा	भागना	च़लुन	भजु॒णु	पळणें
		2. जान बचाना, पीछा छुड़ाना	परा + अय्	–	–	–	–	पिंड सोडवणें, जीव वाचवणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भविष्य, नसीब	भविश्य	भविष्य्, आउँदो समय	भबिष्य	भविष्यत, भावीकाल, आगाम, अनागत	लाक्कदबा मतम	भबिष्य, भबिष्यत, भाबी, आगमी	भविष्यत्तु, भावि	एंदिर् कालम्	भावि	मुंबरुव काल, भविष्यत्काल
भव्य, प्रभाव-शाळी	भव्य	भव्य्, सानदार	भव्य (ब्ब)	भव्य, प्रभावशाली, डाँगर-दीघल, शिष्ट	चंखोन्ना चाउना फजबा	प्रभाबशाली, सुंदर, प्रतिपत्तिशाली	भव्यमैन	गंबीरमान, एॅळिलुडैय	भव्यम्, प्रौढियुळ्ळ	भव्य
ओळखवुं	अदमास करप	अड्कल गर्नु, लख काट्नु, लख्नु	ठाओरानो, आँचकरा	अनुमान कर, धारणा-कर	फाओबा, खङ्बा	अनुमान-करिबा, बिबेचना-करिबा, अंदाज-करिबा	पसिकट्टुट	ऊहिक्क	ऊहिच्च-रियुक	ग्रहिसुवुदु
भागवुं, दोडवुं	पळप	भाग्नु, दुगुर्नु	दौड़ानो, छुटा	दौर, भाग	चेनबा	दौड़िबा, धाबन	परुगॆत्तुट	ओडिप्पॊग	ओटुक	ओडुवुदु
—	फाट सोडोवन धांवप	उम्कनु, सुइँकुच्चा ठोक्नु	भागा	पला	चेनथोकर-क्पा, नांथोकर-क्पा	दौड़ि पलाइबा	पारिपोवुट	तप्पित्तुक्-कॊळ्ळ	रक्षप्पॆट्टु ओटुक	ओडि होगुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भाग्य	पुं.	किस्मत, तकदीर, नसीब	भाग्यम्, दैवम्	भाँग	नसीब, क़िस्मत (तक़दीर)	कुँस्मत	भागु, किस्मत	भाग्य, नशीब
भाना	अ. क्रि.	रुचना, अच्छा लगना, पसंद आना	√रुच्	भाँउणा	भाना	पसंद युन	वणणु, भांइणु	रुचणें, आवडणें
भारतीय	वि.	भारत में उत्पन्न अथवा उससे संबंधित	भारतीय	भाँरती	हिंदुस्तानी	हिंदुस्तॉन्य	भारती	भारतीय
	पुं.	भारतवासी	भारतीय	भाँरती	–	–	भारतवासी	भारतवासी
भारी	वि.	1. अधिक भार वाला, वजनी	गुरु	भाँरी	वज़नी	बॉरीख	गौरो, भारी, वज़नदार	जड़, भारी, वज़नी
		2. दु:खी, उदास (मन आदि)	खिन्न	भाँरी	–	–	–	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भाग्य, नसीब	नशीब	भाग्य, भाग्गे, तकदिर	भाग्य, नसिब, कपाल	भाग्य, कपाल	लाइबक	निर्यात, भाग्य बिधि, कपाल-लिखन, दैब निद्दिष्ट	अदृष्टमु	विदि, तंलै एळुत्तु	भाग्यम्	अदृष्ट
भाववुं, शोभवुं	आवडप	राम्रो लाग्नु	भालो लागा, पछोंद हओया	पछंद ह, भाल-लाग	खोइदाबा, पांबा, शुमहत्पा	भल-लगिबा, रुचिबा, रुचिसंपन्न	रुचिंचुट, नच्चुट	मनदुक्कुप्पि-डिक्क	इष्टप्पटुक	हिडिसुवुदु
भारतीय	भारतीय	भारतेली, भारतीय	भारतीय	भारतीय	भारतकी ओइबा	भारतीय	भारतीय	भारत नाट्टिन्	भारतीयम्	भारतीय
भारतवासी	भारत-वासी	भारत-बासी	भारतबासी	भारत-बासी	भारत की मी	भारत-बासी	भारती-युलु	भारत नाट्टु	भारतीयर्	भारतीय
भारी, भारे, कीमती	ज़ड	गुह्ङ्गो, वजनदार	भारी, बेशी ओजोने	गधुर	अरुंबा	भारी, ओजन भार, बोझ	बरुवयिनॅ	बारमान, गनमान	भारिच्च	भारवाद
दुखी, उदास	दुखी	उदास, खिन्न	दुखी, उदास	दुखी, उदास, शोकावह	पुक्निङ् नुङ्नाङ्बा	उदास, दुखी, शोकाबह, शोकाकुल	दिगुलुगा-उन्नॅ	वरुत्तमडैंद	दुःखितन्	दुखितनाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भावना	स्त्री.	1. चिंतन, ध्यान	चिंतन, ध्यान	भांवणा	एह्सास (जज़्बा)	बावना, द्यान	भावना, जज़्बो	चिंतन, ध्यान
		2. विचार, ख्याल, इच्छा	इच्छा, कल्पना	भांवणा	ख़्वाहिश	–	-	भावना, कल्पना, इच्छा
भाषण	पुं.	व्याख्यान	भाषणम्	भांशण, भाखण	तक़रीर	बाशन, लैक्चर	भाषणु, लेक्चर	व्याख्यान, भाषण
भाषा	स्त्री.	बोलकर, लिखकर अथवा ध्वनि-संकेतों द्वारा भावों को प्रकट करने का साधन, बोली, जबान	भाषा	भांशा	ज़बान, जुबान	ज़बान	भाषा, ॿोली	भाषा
भिक्षु	पुं.	1. भिखारी	भिक्षुः, याचकः	भिंक्खू	फ़क़ीर	बिखॉरय, बेछि, बेछिवुन	बिखारी	भिक्षुक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भावना, ध्यान	भावना	ध्यान, चिंतन	चिंतन, ध्यान	चिंता, भावना	वाखल खन्बा	भाबना, चिंता, कल्पना, बिचार	भावनॅ	चिंतनै	ध्यानम्, चिंत	चिंतनॅ
कल्पना, धारणा	इत्सा	भावना, इच्छा, मनोभाव	कल्पना, भाबना	कल्पना, इच्छा	अपांबा वाखल	इच्छा, कामना, अभिलाष, चाहिँबा	भावनॅ, हिँ	कर्पनै, विरुप्पम्	भावन, आग्रहम्	भावनॅ, कल्पनॅ
भाषण	भाशण	भाषण, व्याख्यान	बक्तृता, भाषण	भाषण, कथा, उक्ति	वा ङाङ्बा, भाषण पिबा	भाषण, बक्तृता	उपन्यासमु	चॊर्पॊऴिवु	प्रसंगम्	भाषण
भाषा, वाणी, बोली, जबान	भाशा, बोली	भाषा, वाणी, बोली	भाषा	भाषा शब्द-योगे भाव-प्रकाश उपभाषा, कथ्य-आंचलिक भाषा	लोल, वाङाङ्	भाषा, कथा, बाणी, मणिषर- भाषा बा- बोलि	भाषॅ	मॊऴि, बाषै, पेच्चुमॊऴि	भाष, संसारम्, मॊऴि	भाषॆ, उपभाषॆ
भिक्षु	भिकारी	भिखारी, भिक्षुक	भिक्षुक, भिखारी	भिखारी, मगनीया	चाक्निबा	भिक्खु, भिकारी	बिच्चगाडु	पिच्चै- क्कारन्	भिक्षु	भिक्षुक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. संन्यासी, विशेषतः बौद्ध संन्यासी	भिक्षुः	भिँक्खू	तारिकुद्दुनिया	बाबा जी	भिक्षू, भिक्खू	बौद्ध भिक्षु
भिखारी	पुं.	भीख माँगने वाला, कंगाल, अकिंचन	याचकः, अकिंचन	मंगता, भिँखारी	भिकारी	बेछिवुन	बिखारी, फ़कीरु	भिकारी, कंगाल, दरिद्री
भिगोना	स. क्रि.	पानी से गीला या तर करना, पानी में डालना	क्लिद्	भिँउंणा	भिगोना	कुँछ़नावुन, अँदरावुन	भिज़ाइणु	भिजविणें, ओले करणें
भिन्न	वि.	अलग, पृथक	भिन्न	वक्खरा	जुदा, मुख़्तलिफ़	जुदा, ब्योँन	जुदा, अलग़	अंश, भिन्न
	पुं.	गणित में किसी पूरी इकाई का छोटा अंश या टुकड़ा	भिन्नम्	भिँन्न	कस्र	–	जुज़ो	अंश
भीड़	स्त्री.	जन समूह	सम्मर्दः	भीँड़	मज्मा	बीरुँ, खलकथ	भीड़	गर्दी, दाटी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भिक्षु	भिक्षु (बौद्ध)	बौद्ध भिक्षु, सन्यासी	–	बौद्ध-भिक्षु	लंबोइबा	बौद्ध-सन्यासी, भिक्षु	भिक्षुवु	सन्नियासि (बौद्ध सन्निसासि)	सन्यासि	बौद्ध सन्यासि
भिखारी मात्रण, कंगाल, दरिद्र	भीख मागतलो, कंगाल	भिखारी, मगंते, कङ्गाल, अकिञ्चन, दरिद्र	भिखारी, काङ्गाल् (काङाल)	भिखारी, मगनीया, काङाल, दरिद्र, दुखिया अवस्था	चाकनिबा, भिखारी, लाइर-चुदत्लबा	भिकारी, कांगाल, अकिन्चन, दरिद्र, गरिब	बिच्चगाडु, बिखारि	पिच्चै-ककारन्, एळै	भिक्षक्कारन्, पिच्चक्कारन्, दरिद्रन	भिक्षुक, कंगाल
भींजववुं	भिज़वप	भिजाउनु, ढड्याउनु	भेजानो	तिता, भिजा	चोत्पा	ओदा हेबा, भिजिबा, भेदिबा	नानबेट्टुट	ननैक्क	ननय्क्कुक, कुतिर्क्कुक	नेंनसुवुदु
भिन्न, जुदुं अंश	वेगळे	अलग, छुट्टै, भिन्न	भिन्न, आलादा, पृथक	भिन्न, पृथक, बेलेग	तोंङान्बा	भिन्न, पृथक्, अलगा	भिन्नमु, वेरु	मट्टु, वेरु	भिन्नम्, व्यत्यस्तम्	बेरे, भिन्न
अंश	अपूर्णांक, अंश	भिन्न	भग्नाङक्, अंश	भग्नांश, अंश	मचेत मकाइ	भग्नांश	भिन्नमु	बिन्नम्	भिन्न संख्य	भिन्नराशि
भीड	गरदी	घुइँचो, हूल, भीड	भिड़	बहु मानुहर समागम बा भिर	मीयाम तिन्बा मीना चिक्न-चाइन ङम्दबा	भिड़, जनगहली, लोक-समागम, जनपुर्ण, गहली	गुंपु	जनक्कू-ट्टम्	जनक्कूट्टम्, आळ्क्कूट्टम्	गुंपु, जनजंगुळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भीरु	पुं.	कायर, डरपोक	भीरु	डरपोक	बुज़दिल	ख़ोचुॅबुड	डिजि॒णो, कांइरु	भ्याड, भागूबाई
भीषण	वि.	1. भयानक, डरावना	भीषण	डराउणा	ख़ौफ़नाक	वॅनाख	भयानक	भयानक, भीषण
		2. दुष्परिणाम के रूप में होने वाला, विकट	भीषण	भीखण	शदीद	वॅनाख	डु॒खियो	विकट
भुगतान	पुं.	मूल्य आदि चुकाने की क्रिया या भाव, अदायगी	प्रदानम्	भुंगतान	अदाइगी	पोंसु दिन्य, अदायगी	आदायगी, चुकाइण जी हालत	कर्जफेड
भुनाना	स. क्रि.	1. किसी खाद्य पदार्थ को अंगारों पर सेंक-कर या गरम बालू में पकाने अर्थात् भूनने का काम किसी दूसरे से कराना	√भर्जय्	भुंनाउणा	भुनाना	बुजुॅनावुन	भञाइणु, भुनाइणु	भाजून घेणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भीरू, कायर	भितरो	काथर, डरछेरुवा, भीरु, काँतर	भीरू, भीतु	भीरू, भयातुर	पाङदबा, मीकिथी	भीरू, कापुरुष	पिरिकि	कोळै	भीरु, पेटित्तॉण्टन्	हेंडि, पुक्कुलु
भीषण, भयंकर	भयानक	भीषण	भीषण्, भयानक (न)	भीषण, भयानक	अकिबगी मशक ओइबा	भीषण, भयंकर, भयानक	भीषणमैन	बयंकरमान	भयंकरम्	भयंकर
विकट	विकट	भीषण	विकट	भीषण	किनिङ्डाइ ओइबा	बिपदपुर्ण, संकटमय, बिकट, भीषण, भयाबह	भयंकरमैन	कॅट्टवु- ककं	भीषण- माय	विकट
आदायगी, चुकादो	रीण फारीक करप	भुक्तानी, भुक्तान, फछ्र्यौट	पाओना, मिटमाट	आदाय, परिशोध	पिभम थोकपा शेन्फम	परिशोध- करिबा, आदाय- करिबा	चॅल्लिंपु	कणक्कु- तीर्त्तल्	अटय्क्कल्, आॅटुक्कल्	कॉडुवुदु, सल्लिसुवुदु बटवार्ड, संदाय
वहेंची लेवुं	भाजून घेवप	भुट्न् लाउनु, पोल्न् लाउनु	भजानो	भजा	डौबा, मूबा	सेकिबा, भाजिबा	वेयिंचुट	वरुक्क, पॉरिक्क	वरुक्कुक, पॉरिक्कुक	हुरियिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. नोट, रुपए आदि को छोटे सिक्कों में बदलवाना	परि√वर्तय्	भुनाउणा	भुनाना, खुलाना	फुटवोट अनुन	मटाइणु, भञाइणु (रेज़ो वग़ैरह)	सुट्टे करणें
भुरभुरा	वि.	हलके दबाव से जिसके कण या रवे अलग-अलग हो जाएँ	भिदुर	भुरभुरा	ख़स्ता	बुरुबुरु	भुर्किणो	भुसभुशीत
भूकंप	पुं.	भूगर्भ में होने वाली उथल-पुथल से धरती के हिलने की अवस्था, भूचाल	भूकम्पः	भुचाल	ज़ल्ज़ला	बुन्युल	भूकंपू, ज़लज़लो	धरणीकंप, भूकंप
भूख	स्त्री.	1. भोजन की इच्छा, क्षुधा	क्षुधा, बुभुक्षा	भुक्ख	भूक	बोंछि	बुख	भूक
		2. कोई चीज़ प्राप्त करने की उत्कट इच्छा	उत्कण्ठा	भुक्ख	भूख	बोंछि	बुख	भूक
भूख-हड़ताल	स्त्री.	किसी नीति या कार्य आदि के प्रति विरोध प्रकट करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भोजन, अन्न-जल आदि ग्रहण न करना (हंगर-स्ट्राइक)	अनशनम्	भुक्ख-हड़ताल	भूक हड़ताल	बूख हरताल	बुख-हड़ताल	भूक हड़ताल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
छुट्टा कराववा	मोडप	मुद्रा सटही गर्नु, भजाउनु	भाग्ङानो	(टका-पइचा) भङा कर	काइबा	भंगाइबा	चिल्लर-मार्चुट	चिल्लरै-माट्टट	चिल्लर् माट्टुक	चिल्लर माडिसुवुदु
भभरुं	भुसभुशीन	झुरो, धूलोपीठो	भुरभुरा, कणा	चनका, मुरमुरीया	ग्रेस-ग्रेस लाओबा क्रेम क्रेम लाओबा अकंबा	हालुका-रगड़िबा	पळुसु	मुरुगलान मोरुमोरुप्पान	पॉटियुन्न	बेरं बेरंयागुव
भूकंप	भूकंप	भैंचालो, भुइँचालो, भूकंप्	भूकंप, भूमिकंप	भूँइकँप, भूमिकंप	युहार हाबा	भूकंप, भूमिकंप	भूकंपमु	बूकंपम्	भूकंपम्	भूकंप
भूख	भूक	भोक, क्षुधा	क्षुधा, भुख (क्ख)	भोक हाबा, क्षुधा	लांबा, चानिङ्बा फङनिङबा	भोक, क्षुधा, कामना, इछा	आकलि	पसि	विशप्पुं	हसिवु
क्षुधा	इच्छा	इच्छा, उत्कट	अभिलाषा	लोभ, कामना	-	उदबिघ्न	आत्रमु	अवा, तीविर विरूप्पम्	वलिय आग्रहं आर्ति	लालसे
भूख हड़ताल	भूक हडताळ	भोक-हडताल, अनशन	अनशन, धर्मघट	अनशन, धर्मघट	हंगर स्ट्राइक	अनशन, धर्मघट, हरताल	निराहार-दीक्ष	उण्णा-विरदम्	निराहार सत्याग्रहम्	उपवास-मुष्कर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भूचाल	पुं.	(दे.) भूकंप	भूकम्पः	भुंचाल	ज़लज़ला	बुन्युल	भूकंपु	भूकंप
भूत	वि.	बीता हुआ, अतीत, भूतकाल	भूत, अतीत	भूंत	माज़ी	पथकाल, गुज़र्योमुत वख	ज़मान माज़ी	भूतकाळ
	पुं.	प्रेत, पिशाच	प्रेतः	भूंत	भूत	बूत, जिन	भूतु, प्रेतु	प्रेत, पिशाच, भूत
भूतपूर्व	वि.	पूर्ववर्ती, पहला	भूतपूर्व	भूंतपूरब	साबिक़	ब्रुह्युम	अगि़यों, पहिर्यो	भूतपूर्व, माजी
भूमि	स्त्री.	1. जमीन, धरती	भूमिः	भींए, भों, जमीन	–	–	ज़मीन, भूंइ	भूमी, जमीन
		2. पृथ्वी–जो सौर जगत के एक ग्रह के रूप में है	पृथिवी	भींए, जमीन	ज़मीन	ज़मीन, प्रथवी	भूमी, धरती	पृथ्वी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भूकंप	भूयकांप, भूकंप, भूचाल	भुइँचालो, भैँचालो भूकम्प्	भूकंप, भुमिकंप	भुंइकंप, भूमिकंप	युहार-हाबा	भूमिकंप, भुकंप	भूकंपमु	बूकंपम्	भूकंपम्	भूकंप
भूत, वीतेलुं	भूतकाळ	भूतकाल, अतीत, विगत	बिगत, अतीत	भूत, अतीत, अशरीरी, जगतर-सृष्टिर-मूल उपादान	हौखबा मतम	भूत, अतीत, पुर्बरु बा पुर्बे	भूतकालमु	इऱंद कालम्	कऴिञ्ञ कालम्, भूतकालम्	कळॆदु होद, भूत काल
प्रेत, पिशाच	भूत, पिशाच	प्रेत, पिशाच	प्रेत, पिशाच	भूत, प्रेत, अशरीरी, अपदेवता	भूत	भुत, प्रेत, पिशाच	भूतमु, दय्यमु	बूदम्, पिशासु	भूतम्	प्रेत, पिशाचि
भूतपूर्व	भूतपूर्व	पूर्वकालको, भूतपूर्व	भूतपूर्ब, पूर्बबर्ती, आगेर	पूर्बबर्ती, भूतपूर्व	हान्नगी	भूतपूर्ब, पूर्बबर्त्ती, आगरु	माजी	मुन्नाळैय, मुन्	मुन्	हिंदिन, माजि
भूमि, देश	भूंय, पृथ्वी	भूमि, भुइँ, पृथ्वी	पृथिबी	पृथिबी, माटी, स्थान	मालेम	भूमि, पृथिबी, भू	भूमि	बूमि	भूमि	भूमि
जमीन, धरती	धर्तरी, भूमी	जमिन, धरती	भूमि, जमि	भूमि, माटि, देश	लैबाक	जमि, भूमि, माटि	भूमि	निलम्, तरै	तऱु, निलम्	नॆल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भूमिका	स्त्री.	1. ग्रंथ आदि की प्रस्तावना	प्रस्तावना	भूमका	तम्हीद, दीबाचा	ग्वडुँ कथ	भूमिका, मुहागु	भूमिका, प्रस्तावना
		2. किरदार	अभिनय	–	अदाकारी	–	अदाकारी, पार्टु	अभिनय
		3. किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	अवदानम्	–	किरदार (रोल)	–	कंहिं क्षेत्र में कयलु कार्यु	कार्य
भूरा	वि.	मटमैला, खाकी	वभ्रुः	भूरा	ख़ाकी (रंग)	काच्रुर, खॉक्य	ख़ाकी, भूरो	भूरा, करडा
	पुं.	खाकी रंग	कपिशः	भूरा	ख़ाकी रंग	–	–	खाकी रंग
भूल-चूक	स्त्री.	लेखे या हिसाब में दृष्टि-दोष आदि के कारण होने वाली गलती, अशुद्धि	न्यूनाधिक्यम्	भुल-चुक	ग़लती	बुल-चुख	भुल-चुक	चूक-भूल
भूलना	अ. क्रि.	1. याद न रहना, विस्मृत होना	वि + √ स्मृ	भुल्लणा	भूलना	मॅशिथ-गछुन	विसारणु, भुलिजी वञणु	विसरणें
		2. गलती या त्रुटि करना	प्र + √ मद्	भुल्लणा	ग़लती	गलती	भुल करणु	चूक करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भूमिका, प्रस्तावना	भुमिका	भूमिका, प्रस्तावना	भूमिका, प्रस्तावना	भूमिका, पातनि आग कथा	अवाओबा	भूमि	पीठिक	मुन्नुरै, मुगवुरै	मुखवुर	मुन्नुडि
अभिनय, पात्र	अभिनय, चरित्र	चरित्र, पात्र	अभिनय	अभिनय	खागी मचु	अभिनय, भुमिका	पात्र	नड़िप्पु	वेषम्	नटने, अभिनय
कार्य	काम	योगदान, भूमिका	–	कार्य बा भूमिका	थबक	कार्य (कार्ज्य), भूमिका	पात्र	चॅयल्, पंगु	पंकुॅ	कॅलस- कार्यगळा वहिसिद
भूरुं	म्हळको म्हेळें	खैरो, खाकी	मेटे, खाकी	खाकी बा माटिया रङ्र	अशोङ् अङाम	खाकि, भाटिआ- रंग	बूडिदरंगु	पळुप्पु निऱ्मान	तविट्टु निऱ्मुळ्ळ	खाकि
–	खाकी	मट्याइलो खैरो रङ	–	–	खाकी	–	खाकी- रंगु	काक्कि निरम्	तविट्टुनिरम्	खाकि, कंदु बण्ण
भूल-चूक, भूल	भूल- चूक	भूलचूक, गल्ती	भुल- भ्रांति, बढ़ा-टुटा	भुल- भटका, बढ़ा-टुटा	काओबा अरान्बा, अशोइबा	भुलभ्रांति, भुलमटका, दोषत्रुटि	पॉरबाटु	पिळैगळुम् तवरुगळुम्	तेट्टुम् कुट्टवुम्	तप्पु ऑप्पु
भूलवुं	विसरप	भुल्नु, बिर्सनु	भुले याओआ	पाहर, पाहरणि	अरान्बा, अशोइबा	भुलिबा, बिस्मित हेबा, बिस्मरण हेबा	मरचुट	मऱंदु विड	मरक्कुक	मरॅयुवुदु
भूल करवी	चूक करप	भूल गर्नु, बिराउनु	भुल	भुल कर	अरान्बा	भुल- करिबा	पॉरबडुट	पिळै चॅय्य	तॅट्टिक्कुक	तप्पु माडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
भेजना	स. क्रि.	रवाना करना, प्रेषण करना	प्र √ इष्	भेंजणा	भेजना	सोजुन	मोकिलणु	पाठविणें
भेद	पुं.	1. अंतर, फरक	भेद:	फरक, भेद	फ़र्क़	फरुॅख	तफ़ावतु, फ़र्क़ु	भेद, अंतर, फरक
		2. रहस्य, मर्म	रहस्यम्	भेंत	राज़	राज़	भेदु, गुझु	रहस्य, मर्म
		3. प्रकार, तरह	भेद:	प्रकार	क़िस्म (नौ)	–	किसिम, किस्म	प्रकार, पद्धत
भोला	वि.	1. छल-कपट रहित, सीधा-सादा, सहज-विश्वासी	निश्छल	भोंला	भोला, सादालूह	स्योंद, सादुॅ	बालो-भोलो	भोळा, सरळ
		2. बुद्धू	सरल	भोंला	बेवकूफ़	–	बुधू	मूर्ख
भौतिक	वि.	1. लौकिक, सांसारिक	ऐहिक	भौतक	दुनियावी	–	संसारी, दुनियावी	लौकिक, सांसारिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोकलवुं	धाडप	बिदा गर्नु, अन्भाउनु, पठाउनु	पाठान, प्रेरण करा	पठिया प्रेरण करा	थाबा	पठाइबा	पंपुट	अनुप्प	अयक्कुक	कळुहिसुवुदु
भेद, जुदापणुं	फरक	फरक, भिन्नता	भेद, अंतर	भेद, अंतर, पेट चला रोग	खेन्नबा	पार्थक्य-भेद, अंतर, फरक	भेदमु	वित्तियासम्	व्यत्यासम्	व्यत्यास
मर्म, रहस्य	रहस्य	रहस्य, मर्म	रहस्य, मर्म	रहस्य, मर्म, गोपनीय-कथा	अथुप्पा	रहस्य, मर्म, गुढ़	रहस्यमु	रगसियम्	रहस्यम्	गुट्टु
वर्ग, विभाग	प्रकार	प्रकार, किसिम	प्रकार, रकम	प्रकार, तरह	मखल	प्रकार, रकम भलि	रकमु	विदम्	वक, तरं	तरह
भोळुं, सीधुं	भोळो	सोझो, निष्कपट, सीधासाधा, भोला	सरल, सहज	बम भोला, खोला अंतरर	इतिङ् तिङ्बा	सरल, सहज	अमाय-कुडैन	कबटमट्ट, अप्पवियान	कपटमिल्लात्त	सरल, मुग्ध, निष्कळंक
भोळियुं	बुद्ध	बोधो, बुद्धु	बोका	मूर्ख	अपङ्बा	मूर्ख, बोका	तेलिवि-लेनि	मुट्टाळ्	मठयन्	बेप्प
लौकिक, सांसारिक	लोकीक	लौकिक, पार्थिव	लौकिक, सांसारिक	लौकिक, ऐहिक, सांसारिक	संसारगी ओइबा	भौतिक, सांसारिक	लौकिकमैन	उलग इयलान, इलगायदमान	लौककम्, ऐहिकम्	लौकिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पंचभूतों से संबंध रखने वाला	भौतिक	भौतक	माद्दी	समसॉर्य	भौतिक, मादी	भौतिक
भ्रम	पुं.	मिथ्या ज्ञान, कुछ का कुछ समझना, धोखा	भ्रमः	भँरम	वहम, भरम	ब्रम	भ्रभु, दोखो	संभ्रम
भ्रमण	पुं.	घूमना-फिरना, विचरण	भ्रमणम्, अटनम्	फेरी	सैर	सॉर करुन	घुमणु-फिरणु	भ्रमण, फिरणें, हिंडणें
भ्रमर	पुं.	भौंरा, मधुप, भँवर	भ्रमरः	भौरा	भौंरा	बोंबुर	भौरों/भौंरु	भुंगा, भोंवरा, भ्रमर
भ्रष्ट	वि.	1. बुरे आचार-विचार वाला	भ्रष्ट	भ्रिशट	बद् उनवान	ब्रश्ट	भ्रष्ट, बदचाल	पतित, भ्रष्ट
		2. (मार्ग से) च्युत, विचलित	च्युत, विचलित	–	गुमराह	–	किरियलु	विचलित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भौतिक, स्थूल	भौतीक	भौतिक	भौतिक	भौतिक	मै, ईशिङ् नुङ्शित् अतिया आकाश, पृथ्वी गा मरि लैनबा	भौतिक, स्थूल	लौकिकमैन॒	बौदिग	भौतिकम्	भौतिक
भ्रम, संदेह	भास	धोका, भ्रम	भ्रम, धोंका	भ्रम, भ्रांति, त्रुटि पाहरि मोया	अकाओबा, अशोइबा	भ्रम, भ्रांति, धोका, संदेह	भ्रम॒, भ्रांति	भ्रमम्	अमळि	भ्रमे
भ्रमण	फिरप, हिंडप	यात्रा, भ्रमण	भ्रमण, बिचरण	भ्रमण, फुरण-बिचरण पर्यटन	कोइबा	बिचरण, बुलिबा	भ्रमणमु	चुट्टुदल्, पयणम्	चुट्टि-त्तिरियल् यात्र	तिरुगाट
भ्रमर	भोंवरो	भमरो, भँमरो	भ्रमर, भोमरा	भ्रमर, भोमोरा	खोइमु	भ्रमर, भअँर	भ्रमरमु, तुम्म॒द	करुवंडु	भ्रमरम्, वण्टु	दुंबि
भ्रष्ट, पापी	भ्रश्ट	दुश्चरित्र, भ्रष्ट	भ्रष्ट, निंदनीय	भ्रष्ट, असत्, बिच्युत, पतित	माङ् ताक्नि-ङ्ङाइ ओइबा	भ्रष्ट, पतित, पापी, असत, निंदनीय	भ्रष्टमैन॒	ऊऴल मलिंद	आचारहीनन्, अऴिमति-क्कारन्	दुराचारि
मार्ग च्युत	पतीत	पथभ्रष्ट, मार्गच्युत	पथभ्रष्ट, बिचलित	स्खलित, पतित	लैखा ताबा	स्खलित, पतित, पथ बा-मार्गच्युत	भ्रष्टमैन॒	नडत्तै तवरिय	(वऴि) तेट्टिय, अधः पतिच्च	दारि-तप्पिद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मंगल	वि.	कल्याणकारी, शुभ	मङ्गल	मंगल	नेक	मंगल, रुत	शुभ, मंगलकारी	मंगलकारी, शुभ
	पुं.	1. कल्याण, भलाई, हित	मङ्गलम्	मंगल	नेकी	–	कल्याणु, भलाई	हित, कल्याण, मंगल
		2. सौर मंडल का एक ग्रह	भौम	मंगल	मिरीख़	बोम	मंगल	मंगल ग्रह
		3. मंगलवार	मङ्गलवासर:	मंगल्	मंगल	बौंवार	मंगल	मंगळवार
मंगल-सूत्र	पुं.	सधवा स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला पवित्र सूत्र	मङ्गलसूत्रम्	मंगल-सूतर	मंगल सूत्र	स्वर्नुं-माल, मंगल-सूतुंर	मंगल सूत्रु	मंगलसूत्र
मंगलाचरण	पुं.	1. शुभकार्य के आरंभ में पढ़ा जाने वाला मांगलिक मंत्र, श्लोक, पद्यमय रचना आदि	मङ्गलाचरणम्	मंगलाचरण	दुआ	मंगलाचरन	मंगलाचरणु	मंगलाचरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मंगल, शुभ	कल्याण-कारी	कल्याण-कारी, मङ्गल	मंगल, कल्याण-कारी	मंगल-जनक, शुभ, कल्याणकारी, शुभाशुभ-निर्णय	मङ्गोल ओइबा	मंगल, शुभ, कल्याणकारी	मंगळकर-मैन̄	मंगळकर-मान	मंगळकरम्	शुभ
हित, कल्याण	मंगळकारी	कल्याण, हित	कल्याण, मंगल	मंगल, कल्याण	याइफबा	कल्याण, मंगल, हित, भल	मंगळग्रहमु	नन्मै	मंगळं, हितं	हित
मंगळनो ग्रह	मंगळग्रह	मङ्गल (ग्रह)	मंगल-ग्रह	मंगलग्रह	सौर मंडलगी ग्रह अमा	मंगल-ग्रह	अंगारकुडु	चॅव्वाय्, गिरहम्	चॉव्व, कुजन्	मंगळ ग्रह
मंगळवार	मंगळवार	मङ्गलबार	—	मंगल-बार	लैबाक पोक्पा	मंगलबार	मंगळवारमु	चॅव्वाय् किऴमै	चॉव्वाऴ्च्च	मंगळवार
मंगल(ळ) सूत्र	मंगळसूत्र	मङ्गल-सूत्र	मंगल-सूत्र	मंगल-सूत्र	मंगल-सूत्र	मंगल-सूत्र	मंगळसूत्रमु	तालि, मंगल-नाण्	कॅट्टुतालि, मंगल्यसूत्रम्	मांगल्य
मंगळा चरण	मंगला चरण	मङ्गला-चरण	मंगलाचरण (न)	मंगलाचरण	मंगला-चरण, याइकाइरोल	मंगला-चरण	नांदि	इऱै वणक्कम्	ईश्वर प्रार्थन	देवर स्तुति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. ग्रंथ के आरंभ में मंगल की कामना तथा उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए लिखा जाने वाला पद्य	मङ्गलाचरणम्	मंगलाचरण	दुआइया	–	–	मंगलाचरण
मंच	पुं.	1. सभा-समितियों में ऊँचा बना हुआ मंडप, जिस पर बैठकर सर्व-साधारण के सामने किसी प्रकार का कार्य किया जाए, रंगमंच (स्टेज)	मञ्चः	मंच	इस्टेज	स्टेज	स्टेज, मंचु	रंगमंच
		2. कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य-कलापों के लिए उपयुक्त क्षेत्र (फोरम)	सङ्घटनम्	मंच	फ़ोरम	फोरम	फ़ोरम	फोरम
मंजिल	स्त्री.	1. गंतव्य (डेस्टिनेशन)	गन्तव्यम्, लक्ष्यम्	मंजिल	मंज़िल	मंज़िल	मंज़िल	लक्ष्य, गंतव्य, मुक्काम
		2. पड़ाव, मुकाम	स्थितिः	मंजिल	मुक़ाम	–	–	पडाव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
—	मंगलाचरण	मङ्गला-चरण	—	मंगलाचरण	वाहौदोक	मंगला-चरण	श्रीकारमु, मंगला-चरणमु	नूलिन् आरंबतिल इऱैवण-क्कप्पा	मंगल श्लोकम्, नांन्दि	मंगळा-चरणे
मंच, व्यास-पीठ	रंगमाची	मञ्च, रङ्गमञ्च	मञ्च, रंगमंच, स्टेज	मंच सजा-चा	स्टेज, फंपाक	मंच, रंगमंच	वेदिकं	मेडै	अरङ्डु, वेदि	वेदिकं, पीठ
मंच, तख्तो	फोरम, माची	सभास्थल, मञ्च	मंच, बेदी	मंच, फोराम, बेदी	फोरम	मंच, क्षेत्र	वेदिकं	मन्ऱम्	वेदि	फोरम्, सभा स्थान
मंज़िल, गंतव्य	निमाणें पेणें	लक्ष्य, गंतव्य-स्थान	गंतव्य, स्थल (ब्बो)	लक्ष्य, गंतव्य स्थान	थुङ्फम	गंतब्य, लख्य-स्थान, उद्देश्य बा लख्यस्थल	गम्य-स्थानमु	पोय् चेरवेण्डिय इडम्	लक्ष्यम्	गम्य स्थान
पड़ाव, मुकाम	मुकाम	बिसौनी, ठेगान	मोकाम	जिरणि-घर	पन्फम	लख्य, उद्देश्य	शिबिरमु, मजिली	पयणत्तिन् इडैयै तंगुमिडम्	पाळयम्	बीडु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मंत्र	पुं.	1. देवताओं को प्रसन्न करने अथवा सिद्धि आदि प्राप्त करने वाला शब्द-समूह	मन्त्रः	मंतर	वज़ीफ़ा	मंतुॅर	मंत्रु	मंत्र
		2. कार्य-सिद्धि का ढंग, गुर	मन्त्रः	मंतर	मंतर	माँथुॅर	तरीको	मंत्र
मंत्री	पुं.	1. मंत्रणा अथवा परामर्श देने वाला	मन्त्रिन्	मंतरी	मुशीर	वज़ीर	मंत्री, वज़ीरु	मंत्री
		2. अमात्य	मन्त्रिन्	मंतरी	वज़ीर	–	–	अमात्य
		3. सचिव	मन्त्रिन्	सकत्तर, मंतरी	नाज़िम, मोतमद	सकतर, सेंकट्री	सेक्रेटरी	सचिव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मंत्र	मंत्र	मंत्र	मंतर	मंत्र, उपासन करा बचन, वश करिबले व्यवहार-करा बाक्य उपदेश, नाति	मंत्र	मंत्र, श्लोक	मंत्रमु	मंतिरम्	मंत्रम्	मंत्र
मंत्रणा	मंत्रणा	परामर्श, मंत्रणा, मंत्र	मंत्रणा	उपाय, गुप्त-परामर्श	थबक-पाङ्नबगी-दमक्ता पीबा लम्ताक वाहै	मंत्र, उपाय	मंत्रमु	वट्टि रगसियम	सूत्रम्	मंत्र, उपाय
मंत्री, सलाहकार	मंत्री	मंत्री, परामर्शदाता	मंत्री	मंत्री, परामर्श-दाता, उपदेष्टा, प्रधान बिषया	मंत्री	परामर्शदाता, मंत्रणादाता, उपदेष्टा	मंत्रि	मंतिरि	मंत्रि	सलहेगार
प्रधान	मंत्री, अमात्य	अमात्य, बजिर	अमात्य	मंत्री, अमात्य	प्रधान, मकोक	मंत्री, अमात्य	मंत्रि	अमैच्चर	मंत्रि	मंत्रि
प्रधान	सचीव	सचिव	सचिब	सचिव	सेक्रेटरी	सचिब	कार्यदर्शि	चॅयलाळर्	सचिवन्, कार्यदर्शि	कार्यदर्शि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मंदा	वि.	जिसकी माँग कम हो (सौदा), जिसमें तेजी न हो (व्यापार)	शिथिल	मंदा	मंदा (कसाद बाज़ारी)	सस्तुँ	माठो (धंधो-वापारु), सुस्त	मंद
मंदिर	पुं.	देवालय	मन्दिरम्	मंदर	मंदिर	मंदर	मंदिरु	मंदिर, देवालय
मक्कार	वि.	कपटी, छली	प्रवञ्चक	मक्कार	मक्कार	मकार, दगाबाज़	मक्कार	कपटी, धूर्त
मखमल	स्त्री.	एक तरह का चिकना तथा रोएँदार कपड़ा	श्लक्ष्णवस्त्रम्	मख़मल	मख़मल	मखमल	मख़मल	मखमल
मगर	पुं.	घड़ियाल	ग्राहः, मकरः	मगर	मगर	मगर-मछ	मांगर मछु, वाघू	मगर
	अव्य.	लेकिन, परंतु	किन्तु, परम्	मगर	लेकिन	अमापोँज़ लीकिन, मगर	पर, लेकिन	परंतु, पण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मंदी, कमीपणुं	मंदी	शिथिल	मंदा	सस्तीया, घोर-मँदा	शित्तबा	मांदा, मंथर, चाहिदा-नथिबा	मंदगुडि, मंदमु	मंदमान	विलयिटिञ्ञ	अग्गद, कडिमेयाद
मंदिर, देवालय	देवूळ	मंदिर, देवालय	मंदिर	मंदिर, देवालय, आलय, आश्रय	लाइशङ्, मँदिर	मंदिर, देबालय	देवालयमु	कोविल्/ कोयिल्	देवालयम्, क्षेत्रम्, अंपलम्	देवस्थान, मंदिर
कपटी	धूर्त	छली, कपटी	खल, बञ्चक, धूर्त, (प्रबञ्चक)	कपटीया, धूर्त	लौनम तौबा, नम्थाक तौबा	कपटी, धुर्त, प्रतारक, धपाबाज, छलिया	कपटि, मोसगाडु	वंजनैयुळ्ळ	तट्टिप्पु-कारन्, चतियन्	मोसगार, कपटि
मखमल	विलोद	मखमल	मखमल	मखमल	रेशम	मखमल्, मसृण	मखमलु	वेल्वेट्टु तुणि	विल्लीस्	मखमल्लु
मगर	मानगें	गोही	कुमीर, मकर	धरियाल, मकर, राशि चक्रर दशम राशि	गुंभीर	मगर, घड़ियाल, कुंभीर	मोसलि	मुदलै	मुतल	मोसळे
पण, परंतु	पूण	तर्, किंतु, परंतु	किंतु	किंतु	अदुबु, तौइगुम्-बसुङ्	परंतु, किंतु	कानी	आनाल्	पक्षे	आदरे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मग्न (मगन)	वि.	किसी काम या बात में तन्मय, लीन	मग्न, तन्मय	मगन	मुस्तग़्रक़ (मगन)	मगन	मग्न/मगन	मग्न, तल्लीन, तन्मय
मच्छरदानी	स्त्री.	जालीदार कपड़े का बना हुआ आवरण, जिसका उपयोग मच्छरों से बचाव के लिए किया जाता है, मसहरी	मशहरी	मच्छरदानी	मच्छरदानी	मछर दॉन्य	मछरदानी	मच्छरदाणी
मजदूर	पुं.	शारीरिक श्रम द्वारा जीविका कमाने वाला व्यक्ति	श्रमिक:	मजूर, मजदूर	मज़्दूर	मोंज़ूर	मज़दूरु	मजूर, हमाल
मजदूरी	स्त्री.	1. मजदूर का काम	श्रम:	मजूरी, मज़दूरी	मज़्दूरी	मोंज़ूर्य	मज़दूरी, मजूरी	मजुरी, हमाली
		2. भाड़े या वेतन के रूप में मजदूर को दिया जाने वाला धन	वेतनम्, भृति:	–	–	–	–	भाडें
मजबूत	वि.	1. दृढ़, पक्का, टिकाऊ	दृढ, स्थिर	मज़बूत	मज़्बूत	मज़बूत	मज़बूत	दृढ़, टिकाऊ, मजबूत, बलिष्ठ.
		2. हृष्ट-पुष्ट तगड़ा, शक्तिशाली (देह)	दृढ़	मज़बूत	मज़्बूत	पूछना	पूछना	तगड़ा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मग्न, तल्लीन, मगन, राजी	तल्लीन	मग्न, तल्लीन	मग्न, तन्मय, लीन, बिभोर	मग्न, तन्मय, बिभोर	पुक्निङ्, चङ्बा	मग्न, लीन, तन्मय, बिभोर	मग्नमु	आऴ्ंद	लीनन्, मग्नन्	तल्लीन
मच्छर-दानी	मच्छरदाणी	मच्छड-दानी, मच्छर-दानी, झूल	मशारी	आँठुवा, महरी	काङ्खल	मशारी	दोमतॅर	कॉशु वलै	कॉतुकुवल	सॉळ्ळपरदॅ
मजदूर	मजूर, कुली	मजदुर, ज्यामी	मजुर	मजुर, श्रमिक, बनुआ	हाजिरा शुबा मी	मज़दुर, श्रमिक, कुलि, मुलिआ	कूलिवाडु	कूलियाळ्	कूलिक्कारन् तॉळि़लाळि	कूलि, आळु
मज़दूरी, मजूरी	मजुरी	मजदुरी	मजुरेर काज	मजदुरि	हाजिरागी थबक	मजदुरि, मजुरि, पारिश्रमिक	कूलिपनि	कूलि वैलै, वाडगै	कूलिवेल	कूलि कॅलस
भाडुं	भाडें	ज्याला, मजुरी	मजुरी	मजुरि, परिश्रमिक	खूत्शुमन्	मूल	कूलि	कूलि	कूलि	मजूरि
मजबूत, दृढ़	टिकपी	बलियो, मजबुत	मजबुत, शक्त	मजबुत, दृढ़	अचेत्पा मशामङ	मजभूत, दृढ़, शक्त	गुट्टि	उरुदियान, दिडमान	उरच्च, दृढ़माय	बाळिकॅ-बरुव
सबल	बल्ठिष्ट	बलिष्ट, तागतदार	बलिष्ट, तगड़ा	शक्तिशाली	फबा मपाङगल कन्बा	हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ	बलशालि	दिडगालिर-मान (नबर्), बलुवान	शक्तियुळ	गट्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मजाक	पुं.	परिहास, हँसी, दिल्लगी	परिहास:	मख़ौल, मज़ाक	मज़ाक़	मज़ाख	मज़ाकु, दिल्लगी	मस्कारी, टर, टिंगल, चेष्टा
मझधार	स्त्री.	1. नदी आदि के बीच की धारा	मध्यधारा.	मंझदार	मंझधार	मंज़-दरियावस	विचसीरु	मध्यधारा
		2. किसी काम या बात के मध्य की स्थिति	मध्यस्थिति:	मंझदार	–	आवलुन	–	मधली स्थिती
मठ	पुं.	साधु-संन्यासियों के रहने का स्थान	मठ:	मठ	मठ	मठ	मठु, मढ़ी	मठ, आश्रम
मतदान	पुं.	चुनाव में मत देने की क्रिया	मतदानम्	मतदान	राएदही	वोट द्युन	मतदानु, वोट ड्रियणु	मतदान
मताधिकार	पुं.	किसी चुनाव या विषय में मत देने का अधिकार	मताधिकार:	मत-अधिकार	हक़्क़े राएदही	वोटुक हख	मत-अधिकारु, वोट जो हक़ु	मताधिकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मजाक, ठठ्ठो	टिंगल, मस्करी	दिल्लगी, ठट्टा	परिहास, हासिठाट्ठा	हाँहि-धेमालि	करेमनबा, फागी जुगाइ	परिहास, थटटा, उपहास, बिद्रुप	परिहासमु	परिगासम्	नेरंपोक्कु, विनोदम्	हास्य, गेलि
मझधार	मध्यधारा	मध्युधारा	माझामाझि, नदीर माझेर स्रात	माजर सुति बा धार	ईयाइ	मझिधार	नडिनीळ्ळु, नट्टेरु	नट्टारु-	आट्टिन् नटुवें	होळे अथवा नदि मध्य
—	मदली स्थिति	अनिश्चय, अन्योल	—	अनिश्चयता	मयाय	मझिरे मझा	नट्टेरु	वेलैयिन् नडुप्पगुदि	मध्यस्थिति	नडुवे
मठ, आश्रम	मठ	मठ	मठ	मठ, आश्रम, दल, देवालय	साधु-सन्यासी शिङ्गी लैफम	मठ, आश्रम	मठमु	मडम्	मठम्	मठ
मतदान	मतदान	मतदान	भोटदान, मतदान	भोट दान, मतदान	भोत् थादबा	मतदान, भोट	एंन्निक	वाक्कळिप्पु	वोट्टटुप्पु	मतदान
मताधिकार	मताधिकार	मताधिकार	भोटाधिकार, मताधिकार	भोटाधिकार	भोत् थादबगी अधिकार	मताधिकार	ओटु-हक्कु	वाक्कुरिमै	वोट्टवकाशम्	मताधिकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मथना	स. क्रि.	दूध, दही को मथानी आदि से बिलोना	√मथ्, वि √लोड्	रिड़कणा	मथना	मथुन	विलोइणु	मंथन करणें, घुसळणें
मथानी	स्त्री.	दही मथने का काठ का बना हुआ एक उपकरण	मन्थ	मर्धाणी	मथनी	द्योन	मांधाणी	रवी
मद	पुं.	1. नशा, मस्ती	मदः	मद	नशा	मद, नशि	नशो, मस्ती	नशा, मस्ती
		2. अहंकार या गर्व	मदः	मद	ग़ुरूर	–	बांवरु	गर्व
		3. मतवाले हाथी का कनपटी से बहने वाला गंधयुक्त द्रव्य	मदः	मद	मद	–	मदु	मद
मदारी	पुं.	1. बाजीगर	सौमिकः	मदारी	मदारी	बॉज़्यगर	मदारी, बाज़ीगरु	गारुडी, डोंबारी
		2. बंदर-भालू आदि नचाकर जीविका चलाने वाला	सौमिकः	मदारी	बाज़ीगर	–	–	मदारी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मथवुं, वलोववुं	चाळप	मथ्नु, हुँड्ल्नु	मंथन करा	मथ, घोंट, मंथन	नैबा	मंथिबा, मुहिँबा	मथिंचुट, चिलुकुट	कडैय	कटयुक	कडॆयुवुदु
रवैयो, वलोव-वानो वांस	रवी	मधानी, मंथनी	मउनि	घोंटनी	माखोल शुङ्नबा चै	खुआ, मंथनदंड	कव्वमु	मत्तु	कटकोल्	कडॆगोलु
मद, केफ	नशो	नशा, मद	प्रमत्तता, नेशा	मद, अहंकार, दर्प हातिर-हिमेजू	निशा, मयाइ काबा	मद, निशा	मदमु	वॆरि, बोदै	लहरि	मत्तु
गर्व, तोर	गर्व	अभिमान, मद, दर्प	गर्व	गर्ब, अहंकार	अचाओरम काबा	अहंकार, गर्ब, दंभ	मदमु	अहंतै	मदॅ	कॊब्बु
मद	मद	मद	मद	मद, हिमेजु	निशा	मद	मदमु	यानैयिन् मद नीर्	मदजलम्, मदॅ	मद
मदारी, बाजीगर	गारुडी	बाजीगर	बाजिगर, जादुकर	बाजिकर, जादुकर	मित्रं तौबा मी	कुहुक-बिषारद, जादुकर, ऐंद्र-जालिक	गारडीवाडु	कुऱ्-गाट्टि	इंद्रजाल-क्कारन्	मंग अथवा करडि आडिसुवव
गारुड़ी	मदारी	मदारी	मादारी	बांदर बा भालुक नचुवाइ-फुरा मानुह	योङ् जागोइ शाहन्बा मी	–	कोतुलवाडु	कुरङ्-गाट्टि, करडि वित्तै-क्कारन्	कुरङ्ङाट्टि	मंगलवन्ना-डिसुवव, करडियान्ना-डिसुवव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मदिरा	स्त्री.	शराब, मद्य	मद्यम्	शराब	शराब	शराब	शराबु, दारू, मदिरा	दारु, मद्य, मदिरा
मद्यप	पुं.	जो मदिरापान करता हो, शराबी	मद्यपः, सुरापी	शराबी	शराबी	शरॉब्य	शराबी	मद्यपी, दारुडा
मधु	पुं.	1. शहद	मधुम्	शहद, माखिओ	शहद	माँछ	माखी	मधु, मछ
		2. शराब	मद्यम्	शराब	शराब	शराब	शराबु, मधु	दारू
		3. बसंत ऋतु	मधु	बहार	बहार का मौसम	सोंथ	बसंतु	वसंतऋतु
मधुर	वि.	मीठा, जिसका स्वाद मधु के समान हो	मधुर	मधुर	शहद आगीं (शीरीं)	मोंदुर	मिठो, मधुर	मधुर
मध्यस्थ	पुं.	आपस में मेल या समझौता कराने वाला, बिचौलिया	मध्यस्थ	विचोला	सालिस	मँज़्युम-योर	विचवारो	मध्यस्थ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मदिरा, शराब, दारू	सोरो	रक्सी, मद्य, मदिरा	मद्य, मद, मदिरा	मदिरा, मद, सुरा	यू	मदिरा, मद, सुरा	सारायि	मदु, सारायम्	मद्यम्	हेण्ड, मद्य
दारूडियो, शराबी	बेबदो	जँड्याहा, रक्सीबाज	मद्यप (द्द)	मद्य, मदपी, मदाही, मद्यपायी	यू डाओबा मी, यू थकपा मी	मद्यप, मदुआ	तागुबोतु	कुडिकारन्	कुटियन् मद्यपन्	कुडुक
मधु	मधु	मह	मधु	मौ, मकरंद, फूलर मौ	खोइही	मधु, महु	मधुवु, तेर्न	तेन्	मधु, तेन्	जेनु तुप्प
दारू	सोरो	महुवा, मदिरा	मद, मदिरा	फटिका, मद	यू	मद, सुरा	सारायि	मदु	मद्यम्	हेण्ड
बसंत-ऋतु	वसंतरुतु	वसंत ऋतु	बसंत ऋतु	बसंत काल, चत माह	बसंत ऋतु	बसंत-काल, बसंतरुतु	मधुमासमु	बसंत कालम्	वसंतम्	वसंत ऋतु
मधुर, मीठुं	मधुर	मीठो (स्वाद), मधुर	मधुर, मिष्ठ	मधुर, मिठा	अथुंबा, खोइथुम्नबा, अमेङ्बा	मधुर, मिठा, मिष्ट, प्रतिपद	मधुरमैन	इनिमैयान	मधुर रमाय	सिहि
मध्यस्थ, तटस्थ	मध्यस्थी	मध्यस्थ	मध्यस्थ	मध्यस्थ, माजर, अभ्यंतर, माजत थका, समद्रवर्त्ती	शङ्दा-इनबा	मध्यस्थ	मध्यस्थुडु	मद्दियस्तन्	मध्यस्थन् इटनिल-क्कारन्	मध्यस्थगार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मन	पुं.	1. मनुष्य के अंतःकरण का वह अंश, जिससे वह अनुभव, इच्छा, बोध और संकल्प-विकल्प करता है	मनस्	मन	मन (दिल)	मन, दिल	मनु	मन
		2. वजन में चालीस सेर	चत्वारिंशत्सेर-परिमाणम्	मण	मन (वज़्न)	–	मणु	मण
मनचाहा	वि.	जिसे मन चाहता हो, इच्छानुसार	अभीष्ट	मनचाहिआ	मन पसंद, ख़ातिर ख़्वाह	मनस प्रेंयिवुन	मन-चाहियो	मनोवांछित
मनोरंजन	पुं.	दिल बहलाव, मन की प्रसन्नता	मनोरञ्जनम्	मनोरंजन	तफ़रीह	मनोरंजन, मनुच-खुशी	मनोरंजनु	मनोरंजन
मनोरथ	पुं.	अभिलाषा, वांछा, इच्छा	मनोरथः	मनोरथ	तमन्ना, आर्जू	कांख्या	मनोरथु	मनोरथ
मनोरम	वि.	जिसमें मन रमने लगे, सुंदर या आकर्षक	मनोरम	मनोहर	दिलकश	मॉर्य मोंदं	वणंदड़ु, सुंदरु	मनोरम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मन, इच्छा	मन	मन, चित्त	मन	मन, अंत:करण, हृदय बिबेचना, तर्क	पुक्निङ्	मन, इच्छा	मनस्सु	मनदु	मनस्सुॅ	मनस्सु
मण	मण	मन	मन (ओजोन)	मोन, ओजनत चल्लीस सेर	मोन	महण	मणुवु	मणङ्गु	मन्नुॅ	मण
मनचाह्युं, मनपसंद	मना प्रमाणें	इच्छा-अनुसारको	पछंदसइ, मन: पूत	बांछित, मनोमत, इच्छानुसरि	पुक्निङ्ना खोइदाबा, पुक्निङ्ना पामजबा	मनलाखी, मनपसंद, बांछित	कोरिन॒, इष्टमयिन॒	विरुंबिय	इष्टप्पट्ट	बेकाद, इष्टवाद
मनोरंजन, मजा	मनोरंजन	मनोरञ्जन, मनोविनोद	मनोरंजन	मनोरंजन, मनत-रं लगोवा	पुक्निङ् नुङ्ङाइ-हन्बा	मनोरंजन, प्रसन्नता, खुसि, मजा	विनोदमु, वेडुक॒	पोळुदु पोक्कु	मनोविनोदं, नेरंपोक्कुॅ	मनोरंजनं
मनोरथ, मुराद, मनसूबो, इच्छा	मनोरथ	मनोरथ, अभिलाषा, कामना	मनोरथ, इच्छा	मनोरथ, वाञ्छा, अभिलाष	अपांबा	इच्छा, मनोरथ, मनोवान्छा, आकांख्या	मनोरथमु, कोरिक॒	आशै, विरुप्पम्	मनोरथम्	मनोरथ
मनोरथ	मनोरम	मनोहर, मनोरम	मनोरम, रमणीय	मनोरम, रमणीय, आकर्षणीय, सुंदर, मनोलोभा	पुक्निङ् हुनिंङाइ ओइबा	मनोरम, रमणीय, सुंदर, मनोहर	मनोहरमैन॒	मनदैक् कवरुगिऱ्, अऴगान	मनोरमम्, आकर्षकम्	आकर्षक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ममता	स्त्री.	1. अपनत्व का भाव, ममत्व	ममत्वम्	ममता	ममता	ममता	ममता	ममत्व
		2. मन में होने वाला मोह या लोभ का भाव	ममत्वम्	ममता	–	ममता	–	ममता, मोह
मरना	अ. क्रि.	1. मृत्यु को प्राप्त होना, प्राणांत होना	√मृ	मरना	मरना	मरुन	मरणु	मरणें
		2. खेलों में खिलाड़ियों का हार जाना	परा +√जि	मरना	–	मरून	–	हारणें
मरहम (मलहम)	पुं.	घाव आदि पर उपचार के लिए लगाया जाने वाला औषधियों का लेप	अवलेपः	मल्लहम	मरहम	महलामुँ	मरहम/मलम	मलम
मरोड़ना	स. क्रि.	किसी चीज में घुमाव, बल आदि डालने के उद्देश्य से उसे कुछ जोर से घुमाना, ऐंठना	√मुट्	मरोड़ना	मरोड़ना	वुठुन	मरोड़ṇु	पिरगळणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ममता	ममता	ममता, ममत्व	ममता, ममत्व	ममता, आत्मीयता, स्नेह	ऐगी ओइबा भाव	ममता, स्नेह, आत्मीयता	ममकारमु	तन्मै	ममत	ममते
ममत्व	मोह	मोह, आसक्ति	मोह, आसक्ति	ममता, मोह, मरम, आसक्ति	नुङशिबा, मीहौबा	ममता, मोह, आसक्ति	ममकारमु	पट्टु	मोहम्	मोह
मरवुं	मरप	मर्नु, स्वर्गे हुनु	मरा	मर, ढुका, मृत्यु शस्यर थोक	शिबा	मरिबा, मृत्यु, परलोक	मरणिंचुट	मरणमडैय, इरंदु पोग, विळैयाट्टिळ्	मरिक्कुक	सायु, सोलु
हारी जवुं	हारप	पराजित हुनु, हार्नु	हारा	दम (ढेरी) (खेलात) मर, हार	माइथिबा	हारिजिबा, पराजय	—	तोट्टुप्पोदल्	तोल्क्कुक	आउट् आगुवुद
मलम, लेप	मलम	मलम	मलम	मलम, प्रलेप सानि दिया औषध	मोलोम	मलम	पट्टी, मलामु	मरुंदुप्पूच्चु, कळिंबु	कुळंपुं	मुलामु
मरडवुं, मरोडवुं	पिरंगळप	निमोठ्नु, बटार्नु, मर्काउनु	मोचड़ देओया	मोचर, पकाइ दें, नइर भाँज (नदी का मोड़)	लैथेकपा	मोड़िबा, जोररे बुलाइबा	मॅलिबॅट्टुट	मुरुक्क	पिरिक्कुक	तिरिचुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मर्म	पुं.	किसी बात के अंदर छिपा हुआ तत्व, भेद, रहस्य	मर्मन्	भेद	राज़	राज़	मर्मु, राजु, गुझु, रहस्यु	मर्म, रहस्य
मर्यादा	स्त्री.	1. सीमा, हद	मर्यादा	मरयादा, मरिआदा	हद	मॅर्ययादा	मर्यादा, हद	सीमा, मर्यादा
		2. लोकप्रचलित व्यवहार नियम आदि, लोकाचार	मर्यादा, आचार	मरयादा, मरिआदा	रिवायत	मॅर्ययादा	मरजाता	मर्यादा
मलना	स. क्रि.	1. किसी पदार्थ को कहीं लगाने के उद्देश्य से रगड़ना	घृष्	मलणा	मलना	मलुन	महिटणु	रगडणें, चोळणें
		2. लेप करना	लिप्	मलणा	–	–	लगाइणु	लेप लावणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मर्म, रहस्य	रहस्य	मर्म, भेद, रहस्य	मर्म, रहस्य, भेद	मर्म, रहस्य, सार कथा, तात्पर्य हृदय	अथुप्पा वा	मर्म, रहस्य, भेद	रहस्यमु, मर्ममु	मर्मम्, रगसियम्	मर्मम्, रहस्यम्	गूढार्थ, मर्म
मर्यादा, हद	शीम	सीमा, हद	सीमा, मर्यादा (ज)	सीमा, हद, मर्यादा, संभ्रम	पङ्खै	मर्य्यादा, सीमा	हद्दु	एॅल्लै	अतिरॅ	एॅल्लॅ
अदब, विवेक	मर्यादा	मर्यादा, लोकाचार	लोकाचार, शिष्टाचार	लोकाचार, शिष्टाचार	चत्न-लोलचत्	आचार, ब्यबहार, चालिचलन, आचरण	मर्यादॅ	मरियादै मुरै	मर्याद, नाट्टाचारम्	मर्यादॅ
मसळवुं, चोळवुं रगडवुं	चोळप	मल्नु, माड्नु	घषा, माजा	घँह, लगा, मोहार, मोचर	तकपा, नोइबा	मलिबा, घषिदेबा, घषिबा, माजिबा	नलुपुटॅ	कैयाल् तेय्क्क	पुरट्टुक	उज्जुवुदु
लेप करवो	लेप लावप	लेप लगाउनु, मालिस गर्नु	प्रलेप देओया	लेओ दि	तैबा	लेप-करिबा, लगाइबा, प्रलेप-करिबा	पूयुटॅ	तडव	तेय्क्कुक, लेपनम् चेय्युक	लेपिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मलबा	पुं.	कूड़ा-करकट, टूटी या गिराई हुई इमारत का ईंट-पत्थर, चूना आदि	अवस्करः, भग्नावशेषः	मलबा	मलबा	मलबॖ	गंदु-कचिरो, मलबो	केरकचरा, डबर
मलिन	वि.	1. मैला-कुचैला, गंदा	मलिन	मैला	गंदा	मॉलॖ	मेरो, गंदो	मळका, मलिन
		2. उदास, म्लान	म्लान	उदास	कबीदा (अफ्सुर्दा)	वोंदास	उदास	उदास, म्लान
मल्लाह	पुं.	नदी में नाव खेकर अपनी जीविका अर्जित करने वाला व्यक्ति, केवट, माँझी	निषादः, कैवर्तः	मलाह	मल्लाह	हाँज़	मल्लाहु, मांझी	नावाडी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कचरो, काटमाळ	कोयर, भग्न अवशेश	रद्दी पदार्थ, कसिङ्गर, धूलोमूलो, भग्नावशेस, घसरपसर	जंजाल, आबर्जना, ध्वंसाबशेष	जाबर जोँथर, मलि, ध्वंसावशेष	अमोत् अकाइ, युम निङ्-खाइबगी चेक-नुङ्, मकुम-मराङ् नचिङ्बा	मइला, आबर्जना, ध्वंसाबशेष	चॆत्तचॆदारु, चॆत्त-कुप्प	कुप्पै कूळम्, इडिंद कारै कल् मुदलियवै	चवरॅ, कुप्प, भग्नावशेषम्	कसकड्डि, इट्टिगे चूरु, मण्णु मुंतादवु
मलिन, मेलुं	म्हेळें	फोहोर, मैलो, फोहोरी	मलिन, मयला	मलिन, मलियन, म्लान	अमोत्पा, फत्तबा	अपरिष्कृत, आबर्जना, मलिन, मइला	मलिनमैन	अळुक्कान	मलिनम्	कोळे
उदास, म्लान	उदास	मलिन, उदास, निस्तेज	म्लान, विषण्ण (न्न)	म्लान, विमर्श लेतेरा मलि-युक्त	नुङ्नाङ्बा	म्लान, बिबश, बिषर्ण्ण, उदास	दिगालु-पडिन	मनम् वाडिय	म्ळानम्	मंकु
मल्लाह, नाविक	तांडेल	मल्लाह, मलाहा, नाविक, माझी	माझि, नाइया	नावरीया, माजी, नावर-गुरुयाल कैवर्त्त	हिहोन्बा	केउट, माझी, नाउरिआ	पडववाडु	पडगोट्टि	वळ्ळक्कारन्	अंबिग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
महँगा	वि.	जिसका दाम अधिक हो	महार्घ	महिंगा	महँगा, गिराँ	द्रॉग	महांगो	महाग
महँगाई	स्त्री.	उचित से अधिक मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री	महार्घता	महिंगाई	महँगाई, गिरानी	दॉजर	महांगाई	महागई
महत्ता	स्त्री.	बड़प्पन, महिमा, महत्व	महत्ता	महत्ता	अज़मत (अहमीयत)	बड़ॉयी, बजर	महत्व, वडाई	महत्ता, मोठेपणा, श्रेष्ठता
महत्व	पुं.	बड़प्पन, महिमा	महत्त्वम्, महिमन्	महत्तव	अज़मत	बजर	महत्व	महत्तव
महत्वाकांक्षा	स्त्री.	महत्व प्राप्त करने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा	महत्त्वाकाङ्क्षा	उच्च अकांखिया	जाहतलबी	बॉड-बनुँनुक-हवस	ऊंची आकांख्या, वडी इछा	महत्वाकांक्षा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोंघुं, कींमती	म्हारग	महँगो, किम्मती	माग्गि, महार्घ	महङा/ दामी, पावलै टान मरगीया	अताङ्बा	महंगा, दामी, महर्ग	प्रियमयिन̄	गिराक्कियान, अगविलै, अदिगमान	विलकूटिय, विलयेरि̱य	दुबारि
मोंघवारी	म्हारगाय	महँगी, महँगोपन	महार्घ, दाम	महङादरत बेचा, मूल्य-बृद्धि	अताङ्बा	महर्ग, मूल्य-बृद्धि, उच्च बा-चढ़ा दर	प्रियमु, गिराकि	गिराक्कि, अगविलै	विलक्कय-ट्ट̱म	तुटिट
महत्ता, महिमा	व्हडवीक	महत्ता, महत्व̱, महिमा	माहात्म्य, महिमा	महत्व, गुरुत्व, वृहतत्व डाङर	मतिक मगुन्	महत, महिमा, महत्व, गारिमा	प्रामुख्यमु	मंन्मै, महत्तुवम्	महत्वम्	हिरिमे
महत्व, मोटापणुं	म्हत्व	महत्व̱, महत्ता, बडप्पन	महत्व, गौरब	महत्व, डाङर गुण उदारल	मतिक मगुन्	महत्व, गौरब, बड़पणिआ	महनीयत̄, घनत̄	मंदिप्पु, मेन्मै	वलिप्पम्, महत्वम्	महत्व
महत्व-कांक्षा	म्हत्वाकांक्षी	महत्वाका-ङ्क्षा, उच्चाकाङ्क्षा	उच्चाकांक्षी	उच्चाकांक्षा, बड़ होबार हेपाह	चाओ-निङ्बगी अपांबा, चाओखत्-निङ्बगी अपांबा	महत्वाकांख्या, उच्च-आकांख्या, बड़ आशा	कांक्ष̄, कीर्तिकामन̄	उयंर्द कुरि̱क्कोळ्	महत्वा-भिलाषम्	महत्वाकांक्षे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
महल	पुं.	भवन, प्रासाद	प्रासादः, हर्म्यम्	महिल	महल	मॅहल	महलु	महाल/प्रासद
महान	वि.	1. बहुत बड़ा, विशाल	महत्	महान	अज़ीम	बोॅड	महान	खूप मोठा, विशाल
		2. उच्च कोटि का	महत्	महान	आला	–	अज़ीम	महान
महापुरुष	पुं.	महिमाशाली पुरुष, श्रेष्ठ जन	महापुरुषः	महापुरख	अज़ीम इंसान	महापोॅरुश, बोॅड मॅहन्युव	महापुरुषु	महापुरुष
महा-विद्यालय	पुं.	उच्च शिक्षा देने वाला विद्यालय, कॉलेज	महाविद्यालयः	महाविदिआला	कालिज	कालेज	महाविद्यालय	महाविद्यालय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महेल	महाल, पालास	महल, दरबार, भवन	महल, प्रासाद	महल, प्रासाद, आट्टालिका	कोनुङ, भवन	महल, प्रासाद, अट्टालिका, नबर	मेडॅ, भवंति	अरण्मनै, माळिगै	कॉट्टारम्, माळिक	महलु, अरमने
महान, मोटुं	व्हड, विशाळ	ठूलो, विशाल	अत्युन्नत्, वृहत्	महान, विशाल, उच्चमना	अचौबा, अपाक्पा	महान्, बिशाल, बृहत	गॉप्प	पॅरिय	वळर्र वलिय	दॊड्ड, विशालवाद
–	म्हान	उच्च्, महत्, महान	महान, श्रेष्ठ, उदार	ओख-खापर, श्रेष्ठ, उच्चमना	अवाङ्बा थाक्की ओइबा	महान, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कर्ष	महा	उयंर्द	महत्तय	उच्चकोटिय
महापुरुष, सज्जन	महापुरूश	महापुरुष, पूज्य व्यक्ति	महापुरुष, साधु पुरुष	महापुरुष, साधु-पुरुष, असाधारण-शक्ति संपन्न-पुरुष	मतिक मगुन लैबा मी, अथोइबा मी	असामान्य, महापुरुष, श्रेष्ठब्यक्ति, साधुपुरुष, प्रधान	महापुरुषुडु	सान्ऱोर्, महान्	महान्	महापुरुष
महा-विद्यालय, कॉलेज	महावि-द्यालय, कॉलेज	महा-विद्यालय, कलेज, क्याम्पस	महा-बिद्यालय	महाबि-द्यालय, कलेज	कालेज	महाविद्यालय, कलेज	कळाशालॅ, कॉलेजि	कल्लूरि	काळेज्, कलालयम्	कालेजु, महावि-द्यालय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
महिला	स्त्री.	स्त्री, औरत	महिला, स्त्री	महिला	ख़ातून, औरत	ज़नानुॅ, ज़ॅन्य	स्त्री, औरत	महिला, स्त्री
माँग	स्त्री.	1. माँगने की क्रिया या भाव, याचना	अभ्यर्थना	मंग	मुतालबा	मंग	घुर	याचना
		2. किसी निश्चित मूल्य पर किसी चीज की खरीद या चाही जाने वाली मात्रा	आवश्यकता	मंग	तलब	मंग	घुर	मागणी
		3. सिर के बालों को विभक्त करने से बनने वाली रेखा, सीमंत	सीमन्तः	चीर, मांग	माँग	सुम	सींधि	मांग
माँगना	स. क्रि.	किसी से यह कहना कि आप अमुक वस्तु या धन दें, याचना करना	याच्	मंगणा	माँगना	मंगुन	घुरणु, मङणु	मागणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महिला, स्त्री	अस्तुरी, स्त्री	महिला, आइमाई	महिला	महिला, तिरोता, नारी, भद्रलोकर-स्त्री	नुपि, मतु (अ. पु.) नतु (म. पु.) इतु (उ. पु.)	महिला, स्त्री, नारी	महिळ॒, स्त्री	मगळिर्	महिळ	महिळ॒, हेंगसु, स्त्री
मांग	हकांचें मागप	माग्ने काम वा क्रिया, याचना, प्रार्थना	दाबि, चाओया, प्रार्थना	मागन, भिक्षा, याच, खोज, माग	निबा	मगा-जचा, भिख्या, मागिबा	याचन॒	विंरुबि-क्केट्टल्	आवश्यप्प्टल्	बेडिके, केळुविके
मागणी	मागणी	खाँचो, आवश्यकता, माग	–	चाहिदा	लैबा, निबा	दाबि, चाहिदा	गिराकि	तेवै	आवश्यम्	मागणि
सेंथो	मागो	सिउंदो, स्यूँदो, सीमं<u>त</u>	सीमंत, सिंथि	सेँओता, बा सीमंत, मूर मेलाइ-दूभागकरा-चूलिर माजर-रेखा	शम् खाइबम, शेङ्ग्रेङ्	सीमंत	पापट॒	वगिडु	सीमंतरेख	बैतले
मागवुं	मागप	माग्नु, याचना गर्नु, माग गर्नु	चाओया, याच्ञा	खोजा, बिचरा, यचा	निबा, हाय्जबा	मागिबा, जाचना-करिबा	याचिंचुट॒, अडुगुट॒	कॅट्टु, वांग, याशिक्क	आवश्य-प्प्टुक, याचिक्कुक	बेडुवुदु, केळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
माँजना	स. क्रि.	1. पात्र को अच्छी तरह से साफ करने के लिए राख, साबुन आदि से अच्छी तरह मलना या रगड़ना	√मृज्, √मार्ज्	मांजणा	माँझना	मांजुन	मलणु, मांझणु	घासणें
		2. किसी काम या चीज का अभ्यास करना ताकि कार्य में महारथ हासिल हो या पूर्ण सफलता मिले	अभि + √अस्	मांजणा	–	मांजुन	अभ्यास करणु	अभ्यास करणें
मांस	पुं.	शरीर में हड्डियों तथा चमड़े के बीच का मुलायम तथा लचीला पदार्थ	मांसम्	मास	गोश्त	नैंनि, माज़	मासु	मांस
माड़ना	स. क्रि.	1. गूँधना, सानना	पिण्डी +√कृ	गुन्हणा	गूँधना (मांडना)	मांडुन	ग॒ोहिणु	तिंबणें
		2. अन्न की बालों में से दाने झाड़ना		भीरना	गाहना (मांडना)	–	संगनि मां दाणा कढणु	तळणी करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मांजवुं, अज- वाळवुं	घासप	माझनु, मल्नु, धुनु	माजा, घषा	माज, घँह	फेङ्बा	माजिबा, घाषिबा, रगड़िबा	तोमुट, मरुगु- पट्टुट	तुलक्क, तेय्क्क	तेय्क्कुक, मिनुक्कुक	उज्जुवुदु, तिक्कुवुदु
अभ्यास करवो	अभ्यास करप	अभ्यास गर्नु	अभ्यास करा	अभ्यास- कर	हन्ना- हन्ना होत्लबा	अभ्यास- करिबा, पुनः पुनः ब्यबहार, प्रयोग	अभ्यसिंचुट	पयिल, अब्बिय- सिक्क	अभ्य- सिक्कुक	अभ्यासि- सुवुदु
मांस, चरबी	मास	मासु	माङ्स (मांस)	मांस, मङह खाद्य हिचापे व्यवहृत पशु- पक्षीर	शदोङ्	मांस	मांसमु	मामिसम्, पुलाल्	मांसम्	मांस
गूंदवुं	मळप कालवप	मुछ्नु, साँध्नु	मारवा, ठासा	मार, सान	नोइबा	दलिबा, मकचिबा	कलुपुट	पिसैय	कुळय्क्कुक	नादुवुदु, कलसुवुदु
झाडवुं	झाडप	झाँट्नु, झटनी गर्नु	झाड़ानो, झाड़ा	मार, मरणा मार	खोक्पा	झाड़िबा, उपुडिबा	मर्दिंचुट	कदिरडिक्क	धान्यं उतिर्क्कुक	केरुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मातृभाषा	स्त्री.	अपने जन्म स्थान या घर में बोली जाने वाली भाषा	मातृभाषा	मातर भाशा, मां बोली	मादरी ज़बान	माजि-ज़्यव, मादरी-ज़बान, ज़बान	मातृ भाषा, मादरी ज़बान	मातृभाषा
मातृभूमि	स्त्री.	जन्मभूमि, स्वेदश	मातृभू	मातरभूमी	मादरे वतन	मादरि-वतन	मातृभूमी स्वदेशु	मातृभूमी
मादक	वि.	नशा उत्पन्न करने वाला, नशीला	मादक	नशीला	नशा आवर	नशीलुँ	नशेदार	मादक
माधुर्य	पुं.	1. मधुरता, मिठास	माधुर्य	मिठास	शीरीनी	मेछर	मेठाजु	माधुर्य, गोडी
		2. काव्य का एक गुण	माधुर्य	मधुरता	तरन्नुम (नग़मगी)	मेछर, माधुर्य	कविता जो हिकु गुणु, मेठाजु, नग़मगी	माधुर्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मातृभाषा	मायभास, मातृभाषा	मातृभाषा	मातृभाषा	मातृभाषा, निजजातिर-भाषा	ममारोल (अ. पु.), इमारोल (उ. पु), नमारोल (म. पु)	मातृभाषा	मातृभाषँ	ताय्-मॊळि	मातृभाष	मातृभाषॆ
मातृभूमि	मातृभूमी, मायभूंय	मातृभूमि, जन्मभूमि	जन्मभूमि, मातृभूमि, स्वदेश	मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वदेश	इरम्दम (उ. पु.), नरम्दम (म. पु.), मरम्दम (अ. पु.)	मातृभूमि, जन्मभूमि	मातृभूमि	ताय्-नाडु	मातृभूमि	मातृभूमि
मादक, केफी	मादक, उन्माद हाडप	मादक, नशादार, नसालु	मादक, नेशार द्रब्य	मादक, रागियाल, रागि-लगोवा	मयाइ काबा, निशा काबा	मादक, निशाकारी	मत्तुकलि-गिंचुनट्टि	बोदै उण्डा-क्कुकिऱ्	मादकम्, लहरियुळ्ळ	मादक
माधुर्य, मधुरता	मधुर, गोडी	मीठोपन, मधुरता, मधुरोपना	माधुर्य, मिष्टता, (ज) मधुरता	माधुर्य, मधुरता, सौंदर्य, लालित्य	अथुंबा	माधुर्ज्य, मधुरता, मिठा	माधुर्यमु	इनिमै	मधुरम्, माधुर्यम्	माधुर्य
—	माधुर्य	सौंदर्य, माधुर्य	—	काब्यर-एटा-गुण	काव्य (शैरेङ) गी गुण अमगी ममिङ्	मिठा, मधुर, अमृत	माधुर्यमु	मदुरम्, इनिप्पु	माधुर्यम्	माधुर्य गुण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
माध्यम	पुं.	साधन, जरिया	माध्यमम्	माधिअम	ज़रिआ, ज़रिया	जॅरियि	वसीलो, ज़रीओ, साधनु, माध्यमु	माध्यम
मानक	पुं.	वस्तुओं के आकार-प्रकार, महत्व आदि जाँचने का कोई आदर्श मानदंड या रूप	मानक, मानदण्डः	मिआर, मानक	मेयार	मयॉरी	स्टैंडर्ड, मानकु, मिआरु	मानदंड
मानकीकरण	पुं.	एक ही वर्ग की बहुत-सी वस्तुओं के गुण, महत्व आदि का एक मानक रूप स्थिर करने की क्रिया या भाव (स्टैंडर्डाइजेशन)	मानकीकरणम्	मानकीकरण, मिआरीकरन	मेयार बंदी	मयॉरीकरन	मानकीकरणु, मिआरबंदी	दर्जा, ठरविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माध्यम	माध्यम	माध्यम, साधन	माध्यम	माध्यम, यार माजेदि कार्यसंपन्न हय	पांबै ओइबा, मतेङ् ओइबा	साधनोपाय, माध्यम, जरिआ	माध्यममु, साधनमु	मूलम्, वऴि	माध्यमम्	माध्यम
मानदंड, धोरण	प्रमाण, मानक	मानक, मानदण्ड	मान, मानदण्ड	मान, मानक	स्टैन्डर्ड, मयाम्ना यानरबा पोत- अमगी शक्तम् अमदि थाक्	मानक, मान- दण्ड, माप- काठि	प्रमाणमु	निगरम्, तिट्टमान	निलवारम्, मानदंडम्	मान, प्रमाण
धोरण स्थापन	प्रमाणी- करण, मानकी- करण	परिमाण- करण, एकरूप- करण	मान- निर्धारण	मान- निरुपण, मानकीकरण, मान- निर्धारण	काङ्लुप अमतगी ओइबा पोत्शिङ्गी मगुन, मतिकमगुन नचिङ्बा मयाम्ना यानरबा थाक्ना लेप्पा	मानककरण, मान- निर्धारण	प्रमाणी- करणमु	तर निर्णयम् संय्दल	निलवार- प्प्टुतल्	प्रमाण निष्कर्षे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मानना	स. क्रि.	1. स्वीकार करना, सहमत होना	✓मन्	मन्नणा	मानना	मानुन	मञणु	मान्य करणें, कबूल करणें
		2. (किसी के प्रति) श्रद्धा रखना, गुण योग्यता आदि का कायल होना	बहु +√मन्	मन्नणा	–	मानुन	मञता ड्रियणु	श्रद्धा ठेवणें
मानव	पुं.	मनुष्य, आदमी	मानवः	मानव, मनुक्ख	आदमी (इंसान)	इनसान, आदम	मानवु, माण्हूं, मनुष्यु	मानव, माणूस
मानवता	स्त्री.	1. मानव होने की अवस्था या भाव	मानवत्वम्, मानवता	मानवता, मनुक्खता	बशरीयत	इनसॉनियत	मानवता, माण्हपो	मानवता
		2. मनुष्य के आदर्श तथा स्वाभाविक गुणों, भावनाओं आदि का प्रतीक या समूह	मानवत्वम्, मानवता	मानवता, मनुक्खता	इंसानियत	–	इन्सानियत	मानवीय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मानवुं, कबूल करवुं	मानप, कबूलप	स्वीकार गर्नु, मन्जुर गर्नु	स्वीकार करा, कबुलकरा	मान, स्वीकार-करा	याबा	राजि-हेबा, मानिबा, मान्यता, स्वीकार-करिबा	अंगीक-रिंचुट	ऑप्पु-क्कोळ्ळ	अंगीकरि-क्कुक, सम्मति-क्कुक	ऑप्पुवुदु
गणवुं, लेखवुं	मानुन-घेवप, श्रद्धाळु	मान गर्नु, आदर गर्नु, श्रद्धा गर्नु	श्रद्धा करा	मानि ल	नोलुक्ना, भक्ति, थंबा, याबा	–	गौरविंचुट	मदिक्क	मानिक्कुक, करुतुक	गौर्विसुवुदु
मानव, माणस	मनीस, मानव	मानिस, मान्छे, मानव	मानब, मानुष	मानव, मानुह-जाति	मी, मीओइबा	जनता, मानब, मनुष्य, मणिष, लोक	मानवुडु	मानिडन्, मनिदन्	मनुष्यन्	मानव, मनुष्य
मानवता	मनीसपण, मानवता	मानवता	मानबता	मानवता, मानवत्व	मी ओइबा मतौ, मीओइबा जाति	मानबता, मनुष्यता	मानवजाति	मनिदत्तन्मै	मनुष्यत्वम्, मानवराशि	मानवीयते
माणसाई	मानवीय	मनुष्यत्व	–	मानवत्व, मनुष्यत्व, मानुहर-गुण बा गौरव	मीओइबगी फिदम, हौनशाओइबा गुण, गी खुदम अमदि मपै	मानबत्व, मनुष्यता	मानवत्वमु	मानिद-पण्बु, मानुडम्	मनुष्यत्वम्	मनुष्यत्व

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मानसिक	वि.	मन-संबंधी	मानसिक	मानसिक, दिली	दिली	द्यमॉगी	मानसिक, मन संबंधी	मानसीक
मान्य	वि.	1. मानने योग्य	मान्य	मन्नण योग	क़ाबिले क़ुबूल	मानुँनस लायक	मञण जोगो	मान्य
		2. आदरणीय, सम्मान का अधिकारी	मान्य	मान योग	लाइक़े ताज़ीम, मोह्तरम	मानुँनस लायक	मानवारो	आदरणीय, माननीय
माप	स्त्री.	1. मापने की क्रिया या भाव	मापनम्	माप	पैमाइश	मींच़	माप	माप
		2. मापने पर ज्ञात होने वाला नाप, परिमाण, मात्रा या मान	परिमाणम्	माप	–	मींच़	–	वजन, परिमाण, माप
मापना	स. क्रि.	वस्तु का विस्तार, घनत्व या वजन मालूम करना	मा	मापणा	नापना	मेनुन	मापणु	मोजणें, मापणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मानसिक	मानसीक	मानसिक, मन-संबंधी	मनोगत, मानसिक	मानसिक, मन-संबंधी	पुक्निङ्गी ओइबा	आत्मिक, मानसिक, मनोगत	मानसिकमैन॒	मनदै शार्द	मानसिकम्	मानसिक
मान्य, माननीय	मान्य	मान्न योग्य, मान्य	मान्य (न्न), सम्मान	मान्य, सम्मान-पाबर-योग्य, सर्वजन ग्राह्य	लौनिङाइ ओइबा	मान्य, मानिबा, मान्यता	ऑप्पुको-दगिन॒	ऑप्पत्तक्क, मदिप्पि-कुरिय	अंगीकार्यमाय	ओप्पुवंथ
शिष्ट, आदर-पात्र	माननीय, सम्मानीय	मान्य, माननीय, सन्मानीय	माननीय, सम्मानीय	मान्य, माननीय, सन्मानीय	इकाइखुम ननिङाइ ओइबा	माननीय, सम्माननीय, आदरणीय	माननीयुडैन॒	मदिप्पि-कुरिय	मान्यन्	आदरणीय
माप	माप	माप, नाप्ने काम	माप	जोख, जोखा-कार्य	ओन्बा, चाङ् ओन्बा	परिमाण, मात्रा	कॉलत॒	अळत्तल्	अळवुँ, अळक्कल्	अळते
लंबाई, वजन	वजन	परिमाण, मात्रा, नाप	परिमाण (न)	जोखा, माप	चाङ्-ओन्लबा	परिमाण, मात्रा	कॉलत॒	अळवु	अळवुँ	अळते
मापवुं	मापप	नाप्नु, तौलनु	मापा	जोख	ओन्बा अरुंबा, अशाङ्बा, खङ्दोक्पा	मापिबा	कॉलचुट॒	अळक्क	अळक्कुक	अळेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
माफ	वि.	क्षमा किया हुआ	क्षान्त	माफ	माफ़	माफ	माफ़	माफ
मायका (मैका)	पुं.	विवाहित स्त्री की दृष्टि से उसके माता-पिता का घर और परिवार, नैहर, पीहर	पितृगृहम्, मातृगृहम्	पेका, पोडका	मायका, मैका	माल्युन	मैको (घरु), पेको	माहेर
मारना	स. क्रि.	1. जान लेना, हत्या करना	✓मार्, ✓हन्	मारना	मारना	मारुन	मारणु	मारणें
		2. पीटना, प्रहार करना, चोट पहुँचाना	✓ताड्	मारना	–	मारुन	–	चोपणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माफ	भोगसप, माफ	माफी, माफ	माफ, क्षमा (ख)	क्षमा-करा, मार्जना रेहाइ	ङाक्पि-निङाई ओइबा, ङाकपिखबा	ख्यमा (क्षमा), त्रुटि-मार्जना-करिबा, दोष मुक्ति	मन्निंनॅ-बडिनॅ, क्षमिंप-बडिनॅ	मन्निप्पु	माप्पुॅ	मन्निसिद, क्षमिसिद
पियर	कुळार	माइत्, माइती	बापेर बाड़ी	आइर-घर	इपाम (उ. पु.), नपाम (म. पु.), मपाम (अ. पु.)	बापघर	पुट्टिल्लु	पॅण्गळिन्, पिरंदगम्	जन्मगृहम्	तवरुमने
मारवुं	हत्याकरप	ज्यान लिनु, मार्नु	मारा, बधकरा	मार, बध-कर	हात्पा	मारिबा, हत्या-करिबा, बध-करिबा	चंपुटॅ	कॉल्ल	कॉल्लुक	कोल्लुवुदु
पीटवुं	मारप	पिट्नु, कुट्नु, ठटाउनु, थिचोमिचो गर्नु, दबाउनु	–	मार, कोबा	फूबा	पिटिबा, प्रहार-करिबा, आघात-करिबा	कॉट्टुटॅ	अडिक्क, काय-प्पडुत्त	तल्लुक, अटिय्क्कुक	होडेयुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. मानसिक या शारीरिक आवेग दबाना या रोकना	नि +√यम्, √दम्	मारना	–	मारुन	मारणु	आवरणें वा दाबणें
मार्ग	पुं.	1. रास्ता, पथ, राह	मार्गः, पथिन्	मारग	रास्ता, राह	वथ	मार्गु, पथु, राह	रास्ता, मार्ग
		2. माध्यम, साधन	साधनम्	मारग	–	वथ	साधनु, वसीलो	माध्यम, साधन, मार्ग
मार्मिक	वि.	मर्म स्थान पर प्रभाव डालने वाला, मर्मस्पर्शी	मर्मस्पृक्	प्रभावक	दिलचस्प	सनॅुवुन	दिल खे छुहंदड़ु	मार्मिक, मर्मस्पर्शी
माल	पुं.	1. प्रत्येक ऐसी मूल्यवान वस्तु, जिसका कुछ उपयोग होता है	सम्पदा	माल	माल	माल	मालु	सामान, माल
		2. धन-संपत्ति, रुपया-पैसा, दौलत	सम्पत्	माल	माल	–	रुपयो-पैसो	धनदौलत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दाबवुं	चिड्डावप, अंदप, दामप	मन मार्नु	–	शामकटा, दमन कर	नम्थबा, थिङ्बा	दमन-करिबा, दबाइबा, प्रशमित-करिबा	अणचुकॉनुट	मन एंळुच्चियै तडुक्क	नियंत्रि-क्कुक, अटक्कुक	तडेगट्टुवुदु
मार्ग, रस्तो	रस्तो, मार्ग	बाटो, सडक	रास्ता, पथ	मार्ग, पथ, बाट, साधनार पंथ, गुह्य द्वार	लंबी, सरोक्	मार्ग, पथ, बाट, रास्ता	मार्गमु	वळि/ सालै	मार्गम्, वळि	मार्ग दारि
माध्यम, साधन	माध्यम, साधन	माध्यम, साधन, उपाय	माध्यम	माध्यम	पांबै	मार्ग, माध्यम, साधन, संपन्न, कृत्य	मार्गमु, साधनमु	वळि	मार्गम्	माध्यम, साधन
मार्मिक, मर्मभेदी	मार्मीक	मार्मिक, मर्मस्पर्शी	मार्मिक, मर्मस्पर्शी	मर्मस्पर्शी, मर्मभेदी, कष्टदायक	मनुङ् हक्चिन्बा	मर्मस्पर्शी, मर्मभेदी, कष्टदायक	मार्मिकमैन, गंभीरमैन	मनदै तॉडुगिर्	मर्म प्रधानम्	मार्मिक
माल, मालमत्ता	माल	माल, मालसामान	माल, पण्य (न्न)	माल, बस्तु, संपत्ति	ममल यांबा पोत	माल, द्रब्य, बस्तु	वस्तुवु, सरुकु	पोरुळ्, चरक्कु	चरक्कु	मालु
विसात, पूंजी	आस्पत, धनसंपत्ती	चीजबीज, धन-संपत्ति	धन संपत्ति, टाका-पयसा	धन-संपत्ति	लन-थुम, पैसा-नुङ्शा	धन-संपत्ति, टंका-पइसा	आस्ति, धन-संपत्ति	पण-म्काशु, सॉत्तु, शेलवम्	स्वत्तुॅ, संपत्तुॅ	संपत्तु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मालूम	वि.	जाना हुआ, ज्ञात, विदित	ज्ञात, विदित	मलूम, मालम	मालूम	मोलूम	मालूम	ज्ञात, माहीत
मिटाना	स. क्रि.	1. दाग, निशान आदि दूर करना	अप + √मृज्, प्र + √मृज्	मिटाउणा	मिटाना	नाहवुन, मिटावुन	मिटाइणु, डाहिणु	मिटविणें, डाग पुसणें
		2. नष्ट करना, बरबाद करना	√नाशय्	मिटाउणा	–	नाहवुन, मिटावुन	–	नष्ट करणें
मिट्टी	स्त्री.	धरती की ऊपरी सतह का वह भुरभुरा मुलायम तत्व, जिसमें प्राय: पेड़-पौधे उगते हैं	मृद्, मृत्तिका	मिट्टी	मिट्टी (ख़ाक)	म्यॅच़	मिटी	माती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मालूम, जाणवुं	जाण, खबर	मालुम, विदित	जाना, ज्ञात, मालुम हओया	ज्ञात, जना, विदित, अवगत	खङ्लबा	ज्ञात, जणा, बिदित, अबगत	तॅलिसिनॅ, तॅलुसु	तॅरिंद, अरिंद	अरियावुन्नु	गोत्ताद, तिळिद
मटाडवुं, दूरकरवुं	पुसप	मेट्नु, पुछ्नु, दाग हटाउनु	मेटानो, चुकानो	गुचा, खेदा, एरुवा	मुथत्तपा	क्रमेइबा, ह्रास करिबा, उपशम- करिबा, प्रशमित- करिबा	तुडि- चिवेयुटॅ	तुडैत्तु अळिक्क	माच्चु कळयुक	अळिसुवुदु
रद करवुं	नाशकरप	सखाप पार्नु, नष्ट गर्नु	नष्ट करा	नष्ट कर	माङ्हन्बा	नष्ट- करिबा, बिनाश, क्षति, बिलोप, ध्वंश- करिबा	नाशनमु चेयुटॅ	नाशप्पड्डुत्त	नशिप्पि- क्कुक	नष्ट- पडिसुवुदु
मिट्टी, माटी	माती	माटो, मट्टी	माटि, मृत्तिका	माटि, मृत्तिका, ठाइ, भूमि, पृथिवी	पृथ्वीगी पांबी हौबा ङंबा मपाल थङ्बा लैरोल, लैबाक	माटि, मृत्तिका	मट्टि	मण्	मण्णॅु	मण्णु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मिठाई	स्त्री.	विशिष्ट प्रकार की बनाई हुई खाने की मीठी चीजें	मिष्ठान्नम्, पक्वान्नम्	मिठिआई	मिठाई, मीठा	मिठॉय	मिठाई	मिठाई, पक्कवान्न
मितभाषी	वि.	कम तथा आवश्यकतानुसार बोलने वाला व्यक्ति	मितभाषी	घट्टबोलणा	कमगो, कमसुख़न	कम कथुं करन-वोल	घटि ग़ाल्हाऊ	मितभाषी
मित्र	पुं.	दोस्त, सखा	मित्रम्, सखिः	मित्तर	दोस्त	दोस्त, यार	मित्रु, दोस्तु	मित्र
मिथ्या	वि.	1. असत्य, झूठा	मिथ्या, अनृतम्	झूठा	बातिल	अपुज़ मेंथ्या	मिथ्या, कूड़ु	खोटे, असत्य, मिथ्या
		2. कृत्रिम, बनावटी	कृत्रिम	झूठा	मस्नूई	अपुज़, मेंथ्या	बनावटी	कृत्रिम, बनावटी
मिलनसार	वि.	जिसकी प्रवृत्ति सबसे मिल-जुल कर रहने की हो	सख्यशील	मिलणसार	मिलनसार, ख़लीक़	मिलनसार	रिलिणे-मिलिणो	मनमिळाऊ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मीठाई	मिठाय	मिठाई, मिष्ठान्न	मिष्ट द्रव्य, मेठाई, मिष्टि	मिठाइ	मिठाई	मिठाइ, मिष्टान्न, मिठा-द्रव्य	मिठायि	मिट्टाय्, इनिप्पु पण्डम्	मिठायि, मधुर-पलहारम्	सिहि तिंडि
मितभाषी	मित्तभाशी	मितभाषी, अल्पभाषी	मितभाषी, मितबाक	मितभाषी, अल्पभाषी, कमकथाकोवा	ङाङ्गंदबा	मितभाषी, अल्पभाषी, अलप बा कम कहुथिबा लोक	मितभाषि	अळवोडु पेशुगिर	मितभाषि	मितभाषि
मित्र, भाईबंध	इश्ट, मित्र, आमीग	मीत, मिता, मित्र, साथी	मित्र, सखा, दोस्त, बंधु, सुहृद	मित्र, बंधु, मिता, सुहृद	मरुप	मित्र, सखा, बंधु	स्नेहितुडु	तोऴन्, नण्बन्	सुहृत्तुॅ	स्नेहित
मिथ्या, असत्य	फाल्स, लटके, फट	झूटो, झुट्टो, मिथ्या	मिथ्या, मिछा	मिछा, असत्य, अशुद्ध	चम्दबा, ओइदबा	मिथ्या, मिछ, असत्य	मिथ्य	पॉय्	मिथ्य	सुळ्ळु
—	कृत्रीम, अडेचें	मिथ्या, कृत्रिम	नकल, कृत्रिम	कृत्रिम	अशाबा, शाजिन्नबा	कृत्रिम, नकलि	कृत्रिममैन	संयर्कैयान	कृत्रिममाय	कृत्रिम
मिलन-सार, मळतावडुं	गोड स्वभावाचो, चौगांतलो	मिलनसार, मिलनशील	मिशुक, सामाजिक	सरबरही, अमायिक	पुम्नमक का तिन्नबा पांबा	सदृश्य, समानता, सामंजस्य, तुल्यता	स्नेह-शीलि	नन्नु पऴगुगिर्	स्नेह-स्वभावियाय	होंदिकोळ्ळुव स्वभावदव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मिलान	पुं.	1. तुलनात्मक दृष्टि अथवा ठीक होने की जाँच करने के लिए दो या अधिक चीजों या बातों का आपस में साथ रखकर मिलाया और देखा जाना	मानम्, उपमानम्	मिलान	मिलान (मुवाज़ना)	मिलुॅनावुन	मिलाइण या भेटण जो कमु	तुलना
		2. गुण, दोष, विभिन्नता या समानता जानने के लिए दो चीजों या बातों के संबंध में किया जाने वाला विवेचन, तुलना	आकलन	मिलान	मिलान (मुआज़ना)	मिलुॅनावुन	–	तुलना
मिलाना	स. क्रि.	1. मिश्रित करना, एक करना, मिलावट करना	√मिश्र्, √यु	रलाउणा	मिलाना	मिलवन	मिलाइणु, गडु॒णु	मिळवणें
		2. जोड़ना, सटाना	√युज्	मिलाउणा	–	मिलवन	जोड़णु	जोडणें, चिकटविणें
		3. एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मेल-मिलाप कराना, भेंट कराना	√मेलय्	मिलाउणा	–	मिलवन	भेंट करणु	भेट घडविणें
		4. तुलना करना, जाँच करना	परि +√ईक्ष्	मिलाउणा	–	मिलवन	भेट करणु	तुलना करणें, तपासणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
केळववुं ते, मेळवणी	सरकरप, तुळकरप	मिलान, रुजू	मिल- मेलानो	मिलोवा कार्य, मिलाइ चोवा कार्य	चाङ्द- म्नबा, चाङ्ये- ङ्नबा	मिलाइबा, परताल, तुलना, उपमा	सरिचूचुट, पोल्चुट	ऑप्पिट्टु पार्त्तल्	ऑत्तु- नोक्कुक	होलिके
तुलना, मुकाबलो	तुळा	तुलना, दँजाइ	मिल, तुलना	तुलना, रिजनि	अथुम अरान मान्नबा, माननदाबा	तुलना, उपमेयता	पोलिक	ऑट्टुमै वेट्टनेकलिक आप्पिडुदल	तारतम्य- प्पेटुतल	होलिके
मेळववुं, एकठुं करवुं	मिळवप	मिसाउनु, सरोबर- गर्नु,	मिलानो, मेलानो, मेशानो	मिहला, मिला, मिल कर, मिश्रितकर	तिनशिन्बा, यान्शिन्बा, चाङचेङनबा	मिलाइबा, परताल, तुलना, उपमा	कलुपुट	ऑन्रु सेर्क्क, कलक्क	कलर्त्तुक	बेरसुवुदु
उमेरवुं	चिटकवप, जोडप	जोड्नु, संयुक्त पार्नु	जोड़ा देओआ	लग लगा, जोर लगा, रिजा, प्राप्तिकर, तुलनाकर	तिनशिन्बा, ङाथबा	जोड़िबा, लगाइबा, मिलाइबा, देखा बा साक्षात- करिबा	जोडिंचुट	इणैक्क, कूट्ट	कूट्टक, चेर्क्कुक	जोडिसुवुदु
मेळवी आपवुं	मेळप	भेटाउनु, मिलाउनु	–	साक्षात् करा, चिनाकि करि दिया	चाङ्द- म्नबा, चेङ्बा	साक्षात- करिबा	परिचयमु- चेयुट	संदिक्क वैक्क	परिचय- प्पेटुत्तुक, संधिप्पि- क्कुक	परिचय माडिसुवुदु
सरखामणी करवी	तुळ करप	दाँज्नु, जाँच्नु	–	रिजा, तुलना- कर	हाप्चिन्बा	सम्मुखिन- हेबा	पोल्चुट	ओप्पिड	तुलनम् चेप्युक, ऑत्तुनो- क्कक	होलिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		5. किसी को अपने पक्ष में लाना	पक्षं आ √नी	मिलाउणा, रलाउणा	–	मिलवन	–	पक्षात घेणें
मिलावट	स्त्री.	किसी बढ़िया वस्तु में घटिया वस्तु का मेल	अपमिश्रणम्	रला, मिलावट	मिलावट, आमेज़िश	मिलावठ	मिलावट	भेसळ, निसळ
मिश्रण	पुं.	1. दो या अधिक चीजों को एक में मिलाना, मिलावट करना या मिलाना; मिलावट	अपमिश्रणम्, मिश्रणम्	मिशरण	आमेज़िश, मिलावट	मिलावठ	मिलावट	मिश्रण करणें, भेसळ
		2. उक्त प्रकार से मिलाने से तैयार होने वाला पदार्थ या रूप	मिश्रणम्	मिशरण	आमेज़ा, मुरक्कब	–	मिशरणु, मिक्स्चर	मिश्रण
मीठा	वि.	1. जिसमें मिठास हो, मधुर रस वाला	मधुर	मिट्ठा	मीठा, शीरीं	म्यूठ	मिठो	गोड
		2. धीमा, मंदा	मन्द	मट्ठा	धीमा, मंदा	–	–	हळू, मंद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पक्षमां लेवुं	मेळवप	आफ्नो पक्षमा मिल्ने पार्नु	–	निजर पक्षलै आना	–	तुलना बा-परताल-करिबा, निज पक्षकु-आणिबा	कलुपुकोनुट	तन्नुडन् चेर्त्तु-क्कोळ्ळल	वशत्ताक्कुक	सेरिसुवुदु
मिलावट, भेग	भेसळ, भरसण	मिसौट, मिलावट, मिसावट	भेजाल, मिश्रण	भैँजाल, मिहलि	यानशिन्बा	अपमिश्रण, भेजाल	कल्ती	कलप्पडम्	कलर्प्पु	बेरके
मिश्रण करवुं, मिलावट	मिसळावप भरसण, भेसळ	मिसौट, मिसावट	–	मिश्रण, मिहलि-करा	अमा नत्रगा अमदगी हेन्बा मशिङ् यान्शिन्बा	मिश्रण, मिशाइबा, भेजाल	मिश्रणमु, कल्ती	कलवै	मिश्रणम्, कलार्प्पु	बेरसुविके, बेरके
मिश्रण, मेळवणी	मिश्रण	मिश्रण, घोल	–	मिश्रण, मिश्र	यान्नरगा शेंबा पोत, मिक्चर	मिश्रण, मिश्र	मिश्रितमु	चेर्त्तु-क्कोळ्ळल्	मिश्रण	मिश्रण
मीठुं, मधुर	गोड, गोडें, मधूर	मीठो, गुलियो	मिष्टि, मधुर	मिठा, मिष्ट	अथुँबा	मिठा, मधुर	तिय्यनि	तित्तिप्पान, इनिप्पान	मधुरमाय	सिहियाद
घीमुं, मंद	मंद	मधुरो, बिस्तारो, मंद्, मत्थर	हाल्का, मृदु	मृदु, लाहे-लाहे	अतप्पा, अइङ्बा	माँदा, धीर, मंथर, धीरे-धीरे	मॅल्लनि	मंदमान	पतुक्कर्न-युऴळ	मंदवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मीनाकारी	स्त्री.	सोने-चाँदी पर होने वाला मीने का रंगीन काम	अनुवेधनम्	मीनाकारी	मीनाकारी	मीनाकॉरी	मीनाकारी	मिन्याचे काम
मुँडेर	स्त्री.	छत के चारों ओर मेंड़-जैसी दीवार	प्राकारशीर्षम्	बनेरा	मुंडेर	बेर, देवारुँ, मोरख	बनो, मुंडेर	वखंडी
मुकदमा	पुं.	वह विवादास्पद विषय, जो न्यायालय के सामने विचार और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए	वादः	मुकदमा	मुक़दमा	मुकुँदिमुँ	मुक़दमो, केस	खटला
मुकुट	पुं.	एक प्रसिद्ध शिरोभूषण, जिसे राजा लोग पहनते हैं और जो प्रायः देवी-देवताओं की मूर्तियों के सिर पर पहनाया जाता है	मुकुटः	मुकट	ताज	मुकट	मुकुटु/मुटुकु	मुकुट
मुक्त	वि.	1. जो किसी प्रकार के बंधन से छूट गया हो	मुक्त	मुकत	आज़ाद	यलुँ, आज़ाद	आज़ाद	मुक्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मीनाकारी	मीनाकारी	मिनाकारी, मिना भर्ने काम	मिनार काज, मिनाकारी	मिना-करा-काम	सना-लुपा दा मचु शङ्दुना लैटेङ् शेंबा	कारूकार्य, तारकसि-काम	नगिषी	नकासुवेलै	पूच्चुपणि, गिल्टुपणि	ऐनामल कॅलस
मुंडेर	कट्टो, धड	(कौसीको) डिल, पर्खाल	–	पेरापेट	यम्थक्ता इकोइ कोइना खाजिन्बा पन्	पाचेरी, पारापेट	पिट्टगोड	कैप्पिड़ि-च्चुवर्	कैवरि	कुंबे
मुकद्दमो	खटलो, केस	मुद्दा, मुकदमा	मोकदमा, मामला	गोचर, मोकर्दमा, मामला, नालिश, अभियोग	मुकदमा, कैस	मोकदमा, मामला	केसु	वळक्कु	अन्यायम्, व्यवहारम्	दावे
मुकुट, पाघड़ी	मुकूट	श्रीपेच, शिरपेच, मुकुट	मुकुट	मुकुट, किरीट	लुहुप	मुकुट	किरीटमु	मुकुडम्	किरीटम्	किरीट
मुक्त	मुक्त	खुला, मुक्त	मुक्त	मुक्त, मुकति, ढाकलि, खोला	अफा-अपुन लैतबा	मुक्त, स्वाधीन	मुक्ति पोंदिन	विडुपट्ट	बंधन-मुक्तनाय	बिडुगडे हॉदिद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. मोक्ष-प्राप्त, भव-बंधन से मुक्त	मुक्त	मुकत	निजातयाफ़्ता	यलु	मुक्त, मोक्ष हासिल कयलु	मोक्ष-प्राप्त, मुक्त
		3. छूटा हुआ, फेंका हुआ	मुक्त	मुकत	गुज़ाश्ता	यलु	छुटलु	फेकलेला
मुक्ति	स्त्री.	1. किसी प्रकार के बंधन आदि से छुटकारा	मुक्तिः	मुकती	गुलू खुलासी, आज़ादी	मोंख्ती	आज़ादी	मुक्ती
		2. धार्मिक क्षेत्र में वह स्थिति, जिसमें जीव जन्म-मरण के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष	मुक्तिः, मोक्षः	मुकती	नजात	–	मुक्ती	मोक्ष
मुख	पुं.	1. मुँह	मुखम्	मुख, मूंह	मुँह	मोंख, बुथ	मुंहुं	तोंड, मुख
		2. किसी वस्तु का अगला या ऊपरी खुला भाग	मुखम्	मत्था	चेहरा, रुख़	–	मुंहु	तोंड

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोक्षप्राप्त	मोक्ष पाविल्लो	मोक्ष प्राप्त गरेको, मुक्ति पाएको	मोक्ष (क्ख)	मोक्ष, मोक्षप्राप्त	अरान् खुभम् फङ्बा	मोख्य, निर्बाण (मुक्ति)	मोक्षमु-पोंदिन	मोट्चम्	मोक्षम्	मोक्ष
छूटुं	मेकळो	फालिएको, मिल्काइएको	छाड़ा, खोला	एरि दिया, पेलाइ-दिया	नांथो-क्लबा, थादोक्लबा	छाड़ि-दबा, मुक्त	विसिरि वेसिन	विडुदलै अडैंद	मुक्तनाय	बिट्ट, ऐसेद
मुक्ति	मुक्ती	मुक्ति, स्वतन्त्रता	मुक्ति	मुक्ति, बंधन परा ओलाइ अहा	मुक्ति	मुक्ति, स्वाधीन	मुक्ति	विडुदलै	मोचनम्	मुक्ति
मोक्ष	मोक्ष	मोक्ष, मुक्ति	मोक्ष (क्ख)	मोक्ष, उद्धार, जीवर पुनर्जन्म, लाभर परा अत्याहति	थादोक्पा	मोख्य, निर्बाण (मुक्ति)	मोक्षमु	मोट्चम्	मोक्षम्	मोक्ष
मुख, मों, चहेरो	चेरो, मुख	मुख, अनुहार, मुहार	मुख्य, प्रधान	मुख, आनन, मोहाना	माइ	मुख, मुंह, उपरभाग	मुखमु, नोरु	वाय्, मुगम्	मुखम्	मुख
मुख, मों, चहेरो	तोंड	अग्रभाग, मुख	अग्रभाग	मुख, प्रवेश पथ, अग्र भाग, मुखा	ममाइ	उपरभाग (मुख)	मुखमु, मुंदु-भागमु	तिरंद मेल् बागम्	वायॅ	बायि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मुखपृष्ठ	पुं.	किसी ग्रंथ या पुस्तक का सबसे ऊपर वाला वह पृष्ठ, जिसमें उस पुस्तक तथा उसके लेखक का नाम छपा होता है	मुखपृष्ठम्	मुख पन्ना	सर वरक़	गोॅडु वरुख	पहियों पनो, सरवरक़ु	मुखपृष्ठ
मुख्य	वि.	1. प्रधान, खास	मुख्य	मुख	ख़ास	खास	मुख्य, ख़ास	मुख्य, खास
		2. महत्वपूर्ण या सारभूत	मुख्य	मुख	अह्‌म	–	–	महत्वपूर्ण
मुख्यालय	पुं.	किसी संस्था का केंद्रीय तथा प्रधान कार्यालय	मुख्यालयः	सदर मुकाम	सदर दफ़्तर	सदर मुकाम, बोंड दफ्तर	हेड आफ़ीस, प्रधान कार्यालय	मुख्य कार्यालय
मुग्ध	वि	मोहित, मूढ़	मुग्ध	मुगध	फ़रेफ़ता	मूह्‌यत, फिरेफतुॅ	मोहित, मोगो	मुग्ध, मोहित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुखपृष्ठ	मुखपृष्ठ	मुखपृष्ठ, आवरणको पृष्ठ	आख्यापत्र, मलाट	(कितापर) बेटुपात, किताबर-डाठ ढाकनी	लाइरिक् की अहान्बा चेना, लाइरिक् ममाइ	मलाट, मुख्य-पृष्ठा	कवरुपेजी, आवरण-पुट	पुत्तगत्तिन् मुदल् पक्कम्	पुरंचट्ट	आवरण, पुट, मुखपुट
मुख्य, प्रधान	मुख्य, मुखेल	खास, मुख्य, प्रधान	मुख्य, प्रधान	मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ	अखन्नबा, मचङ् ओइबा	मुख्य, प्रधान	मुख्यमैन	मुक्किय-मान	मुख्यम्	मुख्य
सारभूत	म्हत्वाचो, गरजेचो	महत्वपूर्ण, मूल	श्रेष्ठ	मुख्य, मूल	मरु ओइबा, मपुङ् ओइबा	श्रेष्ठ, प्रधान, महत्वपुर्ण, सार	मुख्मैन	चिरप्पान	प्रधानप्पट्ट	महत्वपूर्ण
मुख्य कार्यालय	मुख्यालय/ कचेरी	सदर मुकाम, मुख्यालय	मुख्य कार्यालय (ज)	प्रधान कार्यालय	हेड ऑफिस	मुख्य-कार्यालय	प्रधान-कार्यालयमु	तलैमै चयलगम्	प्रधान कार्यालयम्	प्रधान कार्यालय, मुख्य कचेरि
मुग्ध, मोहित	मुग्ध, बाबडो, भूल पडप	मुग्ध, मुक्ख, मोहित	मुग्ध, मोहित	मुग्ध, मोहित, बशीभूत	सुमत्पा	मुग्ध, मोहित, मंत्र-मुग्ध-करिबा	मुग्धतै चेंदिन	मयंगिय, तन्नै मरंद	मुग्धन्	मुग्ध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मुट्ठी	स्त्री.	1. हथेली की वह स्थिति, जिसमें उँगलियाँ अंदर की ओर मोड़कर बंद कर ली जाती हैं	मुष्टिः	मुट्ठ	मुट्ठी, मुश्त	मोंठ	मुठि	मूठ
		2. उतनी वस्तु जितनी मुट्ठी में आ सके	मुष्टिप्रमाण	मुट्ठ	–	–	मुठि	मूठभर
		3. मुट्ठी की चौड़ाई का माप	मुष्टि परिमाप	मुट्ठ	–	–	–	मूठ
मुद्रण	पुं.	1. छापने की क्रिया या भाव	मुद्रणम्	छपाई	तबाअत	छापुॅ	छपाई छपण जो कमु	मुद्रण, छपाई
		2. मुद्रा से अंकित करना, मोहर लगाना	मुद्रणकार्यम्, मुद्रापन	छपाई	सिक्का ज़नी	छपॉय	मुहर हणण जो कमु	मोहोर लावणें, शिक्का मारणें
मुद्रणालय	पुं.	जहाँ छापने का काम होता है, छापाखाना	मुद्रणालयः	छापाखाना	मत्बा	छापुॅखानुॅ	छापख़ानो, प्रिंटिंग प्रेस	मुद्रणालय, छापखाना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुठ्ठी, मूठी	मूठ	मुठी, मुट्ठी	मुठा, मुठो	मुठि, मुष्टि, मुठा	खुतुम ताबा	मुठि, मुठा, मुष्टि	पिडिकिलि	मुष्टि, पिड़ि	मुष्टि, पिटि	मुष्टि
मूठीभर	मूठभर	मुठीभर, मुठी-बराबर	–	एमुठि (परिमाण) मुष्टिर	खुतुम्दा याओरिबा पोत	मुठि, मुठा	पिडिकंडु	पिड़ि अळवु	आंरु पिटि	हिडि
मूठ	मूठ	मुष्टि, मुट्ठी, मुइकी	–	भिरतर धरा परिमाण	खुतुम	मुठा	पिडिकंडु	मष्टियिन, अळवु	पिटि	मुष्टि
मुद्रण	छपाई, मुद्रण	छपाइ, मुद्रण	मुद्रण, छापाइ (न)	मुद्रण, छपा	नंबा	मुद्रण, प्रकाशन, छापिबा	मुद्रणमु, अच्चु	अच्चडित्तल्	अच्चटि	मुद्रण
सिक्को मारवो	शिक्को मारप	छाप लगाउने काम, मुद्राङ्कन	–	मोहर-मरा	नंबा	मुद्रण, प्रकाशन, छापिबा	मुद्रणमु, अच्चु	अच्च-डित्तल्	अच्चटि-क्कुक	मुद्रण, प्रकाशन
मुद्रणालय, छापखानुं	छापखानो, मुद्रणालय	छापाखाना, मुद्रणालय	छापाखाना, प्रेस	छपाखाना, प्रेछ, मुद्रणालय	छापा खाना, प्रिटिंग प्रेस, नंफम्, प्रेस	मुद्रणालय, छपाखाना, प्रेस	मुद्रणा-लयमु	अच्चगम्	मुद्रणालयम्, अच्चटिशाल	मुद्रणालय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मुद्रा	स्त्री.	1. आँख-मुँह, हाथ आदि की ऐसी क्रिया, जिससे मन की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति या भाव प्रकट हो	मुद्रा, हाव:	मुद्रा	अदा	मोंद्रा	योग जूं मुद्राऊं	मुद्रा, मुखाकृती
		2. चिह्न, नाम आदि अंकित करने की मुहर, सील	मुद्रा	मोहर	मोहर	मोंहर, सील	सील, मुहर	मुद्रा, मोहोर, शिक्का
		3. क्रय-विक्रय का आधिकारिक माध्यम, सिक्का	मुद्रा	मोहर	सिक्का	मोंहर, सील	सिको, नाणो	नाणें, मुद्रा
		4. ऐसी अंगूठी जिस पर किसी का नाम या कोई वैयक्तिक चिह्न अंकित हो	मुद्रिका, अङ्गुलीयक	मोहर	खातिम	सिकुँ	–	अंगठी
मुनाफा	पुं.	क्रय-विक्रय में आर्थिक दृष्टि से होने वाला लाभ, नफा	लाभ:	मुनाफा	मुनाफ़ा	मुनाफुँ	फ़ाइदो, मुनाफ़ो	फायदा, नफा
मुरझाना	अ. क्रि.	1. फूल-पत्तों आदि का सूखने लगना, कुम्हलाना	√म्लै	मुरझाउणा	मुरझाना	हॅरिथ प्योंन, च़मुँठुन	मुर्झाइजणु, कूमाइजणु	कोमेजणें
		2. उदास या सुस्त होना, कांति, श्री आदि से रहित होना	√म्लै	मुरझाउणा	–	–	–	खिन्न होणें, मलूल होणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुखाकृति, मुखमुद्रा	मुद्रा, मुखामळ	मुखाकृति, हाउभाउ	हासिमुख, मुखादि. भङ्गी	मुद्रा, टका–पइचा, छाप मोहर	शक्लोल्	मुद्रा, भाब–भंगी	मुखँ–मुद्रँ, भंगिमँ	नाट्टिय मुद्दिरै	आंग्यम्, मुद्र	मुद्रे, भंगि
मुद्रा, छाप, महोर	शिक्को	मोहर, छाप	सील, मोहर	मोहर, मुद्रा, छाप	सील,	मुद्रा, मोहर	मुद्रँ	मुद्दिरै	मुद्र, सील्	मुद्रे, सीलु
सिक्को (नाणुं)	नाणे, मुद्रा	सिक्का, मुद्रा, रुपियाँ पैसा	टाका–पयसा	मुद्रा, टका–पइचा	पैसा, सेल मयेक्	मुद्रा, मोहर, टंका	मुद्रँ, नार्णमु	नाणयम्, चॅलावणि	नाणयम्	नाण्य
वींटी	मूदी	मुद्रिका, मुद्राक्षर, मुद्रा	–	नाम लिखा अंगुलि	खुदम याओबा खुदोप	नामांकित मुद्रिका	मुद्रिकँ	तन्पेयर पोरित मोदिरम्	मुद्रमोंतिरं	मुर्डयुंगुर
नफो, कमाणी	फायदो	फाइदा, नाफा	मुनाफा, लाभ	लाभ प्राप्ति, मुनाफा	शेंदोङ्	लाभ, मुनाफा, मूलधन उपरे–अधिक आय	लाभमु	लाबम्	लाभम्	लाभ
मुरझावुं, चीमळावुं	बावप	ओइलनु	म्लान हओआ, सुकानो	मरह, जँइ–पर	खुइबा	झांउलि–जिबा	वाडि–पोवुटँ	वाडिप्पोग	वाटुक	बाडुवुदु
उदास होवुं	उदास, सुस्त	फुस्रिनु, उदास हुनु, कांतिहीन हुनु	म्लान, श्रीहिन, विषण्ण (न)	कुमुलाइ, उदास ह, शेंता पर	तुक्थबा, मुक्शिन्बा	झांउलिबा, म्लान, उदास हेबा, मउलिबा	पालिपोवुटँ	ओंळि इळक्क	वाटुक, मङ्ङुक	खिन्नना–गुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मुर्दनी	स्त्री.	चेहरे से प्रकट होने वाला मुर्दे जैसा भाव	निर्विण्णत्वम्	मुरदेहाणा, मुरदणी	मुर्दनी	मुरछ़ा	मुर्दनी, बेरंगी	प्रेतकळा
मुश्किल	वि.	कठिन, दुष्कर, दुस्साध्य	दुष्कर	मुशकल	मुश्किल	मुश्किल	मुश्किल	कठीण, अवघड
	स्त्री.	कठिनाई, परेशानी	काठिन्यम्	मुशकल	परेशानी	मुशि़कल	–	अडचण
मुस्कान	स्त्री.	मंद-मंद हँसी, स्मित	स्मितम्	मुसकड़ी, मुसकान	तबस्सुम	असुन	मुश्क, मुस्कराहट	स्मित हास्य
मुहावरा	पुं.	वह वाक्यांश, जो अपने अभिधार्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो गया हो	आभाणक:	मुहावरा	मुहावरा	महावरु	इस्तिलाह, मुहावरो	वाक्प्रयोग, वाक्संप्रदाय, अभ्यास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चहेरा पर प्रगट थतुं मरण नुंचिह्न	मरणाची सया इंतेर, फुनैराल	मृतप्रायः, मरणचिह्न, मलामी	मृत्युर लक्षण, मृतप्राय	मृत्युर-लक्षण-प्रगट ह, शवयात्रा, प्रानहीन-देह	शिरुम-नारुमबा	उदासीनता, मलिनता	चावु कळ	शव कळै	मरण लक्षणम्	मरण-चिह्ने
मुश्केल, कठण	कठीण	मुस्किल, गाह्रो, सान्हो	मुशकिल, कठिण	कठिन, टान, आहूकाल, असुविधा, मस्किल	अरुबा, पाक्-तौबा ङम्दबा	टाण, कठिन, मुश्किल, दुर्बोध्य, दुःसाध्य	कष्टमु	कडिनमान	विषमम्, कठिनम्	कष्टवाद
मुश्केली, अडचरण, विघ्न	अडचण	कठिनाइ, अपठ्यारो, दुःख	संकट, विघ्न, बाधा	कठिनता, अभाव, कष्ट, असुविधा, मस्किल	अरुबा	संकट, बाधा, दुःसाध्य, प्रतिबंध, हइराण, असुविधा	इब्बंदि, कष्टमु	ताँदरवु, कष्टम्	काठिन्यम्, बुद्धिमुट्टु	तोंदरे, इक्कट्टु
स्मित, हास्य	अमुरक्यांनी हांसप	मुस्कान, मुस्क्यान, मुस्कुराहट	मुचकि हासि, स्मितो हास्य	मिचिकिया हाँहि, मिचकनि अलप-हाँहि	मोमोन नोक्पा	मुचुकि-हसिबा, स्मितहास्य, धीरे हसिबा	चिरुनव्वु	पुनचिरिप्पु, पुन्नगै	पुंचिरि	मुगुळुनगु
कहेवत, महावरो, अभ्यास, टेव	वाक् प्रचार	टुक्का, मुहावरा,	भाषा वैशिष्ट्य-मूलक प्रकाश-भंगि, अभ्यास (भ्भ)	जतुवा ठाँच, प्रवाद, अभ्यास बचन भंगी प्रवाद	प्रमाण-पांथै, आदत —	रुढ़ि-प्रयोग, ढग, पुरुणा कथा, प्रबाद बा-प्रचलित-कथा, प्रबचन अभ्यास, प्रयोग	नुडिकारमु	मोऴि नडै, मरबुच् चॉल् वऴक्कुम	शैलि कीळ् वळक्कम्	पडेनुडि नुडिगट्टु, अभ्यास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मुहूर्त	पुं.	1. काल का एक मान, जो दिन-रात के तीसवें भाग के बराबर होता है	मुहूर्तः	महूरत	साअत	साथ	महूरतु, मुहूर्त	मुहूर्त
		2. ज्योतिष के अनुसार शुभा-शुभ समय	मुहूर्तम्	महूरत	साअते सईद	साथ	–	मुहूर्त
		3. श्रीगणेश, आरंभ	शुभारम्भः	महूरत	मुहूरत	साथ रटुन, दस तुलुन	–	प्रारंभ
मूक	वि.,पुं.	गूँगा	मूक	गूंगा	गूँगा (गुँग)	कौंल	गूंगो	मुका
मूलभूत	वि.	आधार-रूप, बुनियादी	मूलभूत, आधारभूत	बुनियादी	बुनियादी	बुनियॉदी	बुनियादी	मूलभूत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुहूर्त	महूर्त	मुहूर्त	मुहूर्त	महूरत, आनुष्ठानिक शुभारंभ	युथक	मुहूर्त्त, घड़ि	मुहूर्तमु	मुहूर्त नेरम्, नल्ल नेरम्	मुहूर्त्तकालम्	मुहूर्त-गळिगे
मुरत	शुभ	साइत, लगन	शुभ समय, शुभलग्न	शुभ क्षण, मंगलजनक समय	अफबा पुङ्फम, याइफबा पुङ्फम	मुहूर्त्त, लग्न, शुभ-घड़ि	मुहूर्तमु	मुहूर्त्तम्	मुहूर्त्तम्	शुभ गळिगं
श्रीगणेश, शुभारंभ	आरंभ	श्रीगणेश, आरंभ, थालनी	आरंभ, शुरु	शुभारंभ, अनुष्ठानिक, समयत आरंभ	अहौबा, हौदोक्पा	शुभारंभ, श्री गणेश	आरंभमु	आरंबित्तल्	आरंभम्	प्रारंभ
मूक, मूंगुं	मुको, मोनो	लाटो, मूक	मूक, बोबा	बोबा, अँकरा	मरोल थोक्तबा	मूक, बोका, कथा न-कहिपारु-थिबा, निरब	मूग	ऊमै	ऊम, मूकन्	मूक
मूळभूत, बुनियादी	बुनियादी, मूळभूत	मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी	मूलीभूत, भित्ती, बुनियाद	बुनियादी, मूलीभूत, उत्स, आदिकारण-स्वरूप	युंफम, हौरक्फम	मूल, बुनिआदि-आधार	आधार-भूतमैन	आदारमान	आधार-भूतमाय	मूलभूत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मूल्यांकन	पुं.	मूल्य अथवा उपयोगिता निर्धारित या निश्चित करने की क्रिया या भाव	मूल्यांकनम्, मूल्यनिर्धारणम्	मुलंकण, मुल्लनिरधारण	निर्ख़बंदी	परखुन, मो'लुँआँकवन	कथ करणु, मुल्हु निरधारणु	मूल्यमापन, मूल्यांकन
मृत्यु	स्त्री.	मरण, मौत	मृत्युः, मरणम्	मौत, मिरतू	मौत	मोथ	मौतु, मिरित्यू, मृत्यू	मृत्यू
मेहँदी	स्त्री.	एक प्रकार की झाड़ी, जिसकी पत्तियाँ हाथ-पैर रंगने-सजाने के काम आती हैं	मेधिका, मेधी	महिंदी	मेहँदी, हिना	माँज़	मेंदी, मेहँदी	मेंदी
मेखला	स्त्री.	करधनी, कमरबंद, पेटी	मेखला, कटिबन्धः	कमरबंद, तड़ागी	कमरबंद	मेखला ऑट्यपन	चेल्हिकी, कमरबंदु	मेखला, करगोटा, कंददारा
मेधावी	वि.	असाधारण बुद्धि वाला, बुद्धिमान	मेधावी	सूझवान	ज़की	बोॅज़वान, लायख	बुधीमान	बुद्धिमान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्याङ्कन, मूल्य-निर्धारण	मूल्यांयन, मूल्य निर्धारण	मूल्याकंन, मूल्य निर्णय करा कार्य	ममल लेप्पा	मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण	मूल्य-निर्धारण	विलै मदित्तल्	मूल्यांकनम्, विलयिरुत्तल्	बेलेकट्टु-विके निर्धरि-सुविर्क
मृत्यु	मरण, मृत्यू	मृत्यु, मरण, निधन	मृत्यु, मरण (न)	मृत्यु, मरण, जीवनर-समाप्ति यम	शिबा	मृत्यु, मरण, परलोक, इहलिला-संबरण	मृत्युवु, मरणमु	मरणम्, चावु	मरणम्, मृत्यु	सावु, मृत्यु
मेंदी	मेंदी	मेहदी, मेन्धी	मेहेदि	जेतुका	मेहंदी	मेहंदी, हलदी	गोरिंटाकु	मरुदाणि	मयिलांचि	मदरंगि, गोरंटि
मेखला, कंदोरो	कमरबंद	कंधुनी, मेखुला	कटि भूषण, मेखला (न)	पेटी, करधनी पर्वतर-नामनि (मेखला-असमिया स्त्रियों की कमर में बाँधकर पहना जाने वाला लहंगा)	मेखला, फनेक	मेखला, कमर वंध बा पेटि	वड्डाणमु, मोलनूलु	ओड्डि-याणम्, बेलटु	मेखल	डाबु
मेधावी, पंडित	मेधावी, खूब हूशार	मेधावी, बुद्धिमान्	मेधाबी, बुद्धिमान	मेधावी, बुद्धिमान, तीक्ष्ण-स्मरणशक्ति संपन्न	लौशिङ् लैबा, बुधी-लौशिङ् लैबा	मेधाबी, पंडित, बुद्धिमान, प्रतिभाबान, असाधारण-ज्ञानी	मेधावि	मेदावि	प्रतिभाशालि	मेधावि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मेरा	सर्व, वि.	'मैं' का संबंध कारक	मम, मामक, मामकीन, मदीय	मेरा	मेरा	म्योन	मुंहिंजो	माझे
मेरु-दंड	पुं.	मनुष्यों और बहुत से जीवों में पीठ के बीचों-बीच गरदन से लेकर कमर तक जाने वाली एवं माला की तरह गुँथी हुई हड्डी	मेरुदण्डः	कंगरोड़	रीढ़ (सुल्ब)	थॅर कॉण्ड	करंघो, पुठीअ जो कंडो	मेरुदंड, पाठीचा कणा
मेहतर	पुं.	सफाई कर्मचारी	सम्मार्जकः	जमांदार	मेहतर	वातुल	मेहतर, भंगी	भंगी
मैं	सर्व.	सर्वनाम उत्तम-पुरुष में कर्ता का रूप, स्वयं, खुद	अस्मद्	मैं	मैं	बुॅ	मां	मी
मैदान	पुं.	1. विस्तृत क्षेत्र या भूखंड, दूर तक फैली हुई सपाट जमीन	स्थलम्	मैदान	मैदान	मॉदान	मैदानु	मैदान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मारो, मारी, मारुं, मारां	म्हजें	मेरो	आमार, मदीय	मोर, वक्तार- निजर	ऐगी	मोर, मोहर	ना- यांक्क	एंनदु	एन्टे	नन्न
मेरु- दंड, करोड़	मेरु- दंड	मेरुदण्ड, पृष्ठवंश	मेरुदण्ड	मेरुदण्ड, राजहाड़ पृथिवीर घूरणर-अक्ष	यांलेन, मेरु-दंड	मेरुदंड	मेरु- दंडमु, वंन्नुपूस	मेरु- दण्डम् मुदुर्गलुंबु	मेरुदण्डम्, नट्टॅल्लुं	बेन्नुमूळे
मेहतर, भंगी	भंगी	पोडे, च्यामे, पोढे	मेथर	मेतर, मल-परिष्कार करा लोक	थी शेङ्बा	जमादार, मेहेंतर	पाकीवाडु	तोट्टि	तोट्टि	भंगि, तोटि
हुं	हांव	म	आमि	निजक बुजोवा शब्द, मइ, वक्ता स्वयं	ऐ	मुँ	नेनु	नान्	ञान्	नानु
मेदान	मैदान	चउर, मैदान	मयदान, माढ	पथार समतल- ठाँइ, खेतीकरा- ठाँइ	लँपाक्	गोचर, पड़िआ, मैदान, प्रांतर	मैदानमु	निडल्, मैदानम्, तिरुंद वेंळि	मैतानम्	बयलु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न समतल भू-भाग	समभू	मैदान	मैदान	मॉदान	यकसार भूंइ	समतल भूमी
		3. खेल आदि का स्थान	प्राङ्गणम्	मैदान	मैदान	मॉदान	–	खेळाचे मैदान
		4. युद्ध-क्षेत्र, रण-भूमि	रणक्षेत्रम्	मैदान	जंग का मैदान	जंगुक मॉदान	जंगी मैदानु	रणभूमी, रणमैदान
मैल	स्त्री.	1. शरीर, कपड़े आदि की गंदगी, गर्द, धूल आदि	मलम्	मैल	मैल	मल	मैलु, मरु	मळ, घाण
		2. किसी के प्रति मन में सँचित दुर्भाव	मालिन्यम्, दुर्भाव:	मैल	कीना	मल	मैलु	मनोमालिन्य
मैलखोरा	वि.	धूल, गर्द आदि पड़ने पर भी जो मैला न दिखाई दे, जो मैल को छिपा सके	मलाच्छादक	मैलखोरा	मैलख़ोरा	मल खोंर	मैलख़ोर	मळखाऊ रंगांचा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समतल भूमि	समतळ भूंय	समथर भूभाग, समतल जमिन	समतल भू भाग	समभूमि, समतल, खला-बमान होवा भैयाम	तँपाक्	पड़िआ, (समतल-भूमि)	पल्लमु	समर्वळि	समतल भूमि	समतल भूमि
रमवानुं स्थल	खेळाचे मैदान	क्रीडास्थल, मैदान	मयदान, माठ	खेल-पथार	शन्नबुङ्	पड़िआ (समतल-भूमि)	मैदानमु	विळैयाट्टु-त्तिडल्	कळि स्थळम्, कळम्	क्रीडांगण
रणभूमि	रणभूंय, युद्धक्षेत्र	रणक्षेत्र, युद्धभूमि	रणभूमि, युद्धक्षेत्र (न) (ज)	रणथली, रणक्षेत्र	लाल्फम	जुद्धभूमि-रणक्षेत्र, संग्राम-भूमि, रण-भूमि	रणरंगमु	पोर्कळम्	युद्धक्कळम्	रण भूमि
मेल, कचरो, गंदकी	घाण	मयल, मैल, फोहोर	मयला	मलि, मल	मोत्पा	मइला, मनोमालिन्य	मलिनमु, मुरिकि	अळुक्कान	अळुक्कॅ	कोळे
कपट	दुर्भाव	दुर्भाव, दुर्भावना	मालिन्य, कुटिलता	ईर्षा, कपट	मक्पा	खराप-धारणा, कपटता	मनो-मालिन्यमु	कॅट्ट एँणम्	दुर्भावन	केट्ट-भावने
मेलखाउ	मळखाव, चिटप	मयलखोर	घृण्य	सहजे-लेतेरा-नोहोवा	अमोत्पा खङ्दबा	घृण्य, दुषित-व्यक्ति	मुरिकि-कानरानि	अळुक्कि-ल्लाद	अळुक्कि-ल्लात्त	कोळे-काणद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मैला	वि.	जिस पर मैल जमी हो, गर्द, धूल आदि पड़ी हो, गंदा, अस्वच्छ	मलिनम्	मैला	मैला (गँदा)	मॉलुँ	मेरो	घाणेरडा, अस्वच्छ
	पुं.	विष्ठा	विष्ठा, पुरीषम्	मैला	गिलाज़त	मल-मॉदान, गॅस	विष्ठा, टोरो	विष्ठा
मोटा	वि.	1. जिसकी देह में मांस-मेद अधिक हो, स्थूलकाय	पीन	मोटा	मोटा	व्यौंठ	थुल्हो	लठ्ठ, स्थूल
		2. जो पतला या बारीक न हो (कपड़ा आदि)	स्थूल	मोटा	–	व्यौंठ	स्थूल	जाड
मोती	पुं.	एक बहुमूल्य रत्न, जो प्राकृतिक रूप में सीपी में से निकलता है, मुक्ता	मुक्ता, मौक्तिकम्	मोती	मोती, गौहर	मौंखतुँ	मोती, गौहरु	मोती
मोदक	पुं.	1. आनंद देने वाला	मोदक	परसन्न चित	फ़रहत बख़्श, मुफ़र्रेह	–	सुखदायकु	आनंददायक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मेलुं, गंदुं	धूळेर	मैलो, फोहोर	मयला, मलयुक्त (जु)	मलिन, लेतेरा	अमोत्पा, अनैबा लुदबा	मइला, आवर्जना	मलिनमैन	अळुक्कान	मलिनम्, अळुक्कुळ्ळ	होलसाद, कोळेयाद
मळमूत्रादि	विष्ठा	विष्ठा, गुहु	मल, बिष्ठा	बिष्ठा, गु	–	बिष्ठा, मल, गुह	मलमु	विष्टै, मलम्, एच्चम्	मलम्	मल
जाडुं, स्थूल	मोठो, लट्ट	मोटो, थसुल्लो, थासे	मोटा, मांसल, स्थूल	मोटा, शक्त, मांसल, स्थूल	अनोइबा	मोटा, स्थूल	लावयिन	परुमनान	तटिच्च	दप्प
जाडुं	जाड	बाक्लो, मोटो	मोटा	डाठ, मोटा	अपौबा	मोटा	मुतक	दड़ियान	कट्टियुळ्ळ	दप्प
मोती	मोती	मोती, मुक्ताफल	मोति, मुक्ता	मुकुता, मुक्ता	मोती, मुक्ता	मोति, मुक्ता	मुत्यमु	मुत्तु	मुत्तुॅ	मुत्तु
आनंद-देवावाळुं	आनंद दितलो	हर्षप्रद, आनंद-दायक	आनंद-दायक	मोदक, आनंद-दिओंता, भाङर गुड़ित चेनी, मशला मिहलाइ प्रस्तुत कर औषध बा खाद्य	नुङाइ-निङाइ ओइबा	संतोषकारी, आनंद-दायी, सुखदायी, परितृप्त-कारी	मोदकरमु, आनंदमु-निच्चुनट्टि	मगिळ्च्चि अळिक्किर्	आनंद-मरुळुन्न	आनंद-पडिसुव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. लड्डू	मोदक	लड्डू	लड्डू	लोंड	लडूं	लाडू, मोदक
मोल	पुं.	कीमत, मूल्य, दाम	मूल्यम्	मुल्ल, कीमत	क़ीमत, निर्ख़	मोॅलि, कूॅमथ	मुल्हु	मोल, किंमत
मोह	पुं.	स्नेह, लगाव	रागः, आसक्ति	मोह	उल्फ़त	मुह	मोहु	स्नेह, मोह
मोहक	वि.	1. मोह उत्पन्न करने वाला	मोहन, मनोज्ञ	मोह्क	दिलफ़रेब	लूबवुन, मूहक	मोहींदड़ु	मोहकारक
		2. मन को आकृष्ट करने वाला, लुभावना	आकर्षक	मोह्क	–	–	–	मोहक, चित्ताकर्षक
मौत	स्त्री.	मरण, मृत्यु	मरणम्, मृत्युः	मौत	मौत	मोथ	मौतु, मिरित्यू, मृत्यू	मरण, मृत्यू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मोदक, लाडु	मोदक, लाडु	लड्डु, मोदक	मोदक, लाडु	लाडू, लारु-घुरनीया-मिठाइ	लड्डू	लड्डू	लड्डु	कॉळुक्कट्टै, मोदकम्	मोदकम्, कॉळुक्कट्ट	लाडु, मोदक
मूल, किंमत	मोल, मूल्य	मोल, किम्मत, मूल्य	मूल्य, दाम	मोल, मूल्य, गुनर-आदर	ममल	मूल्य, दाम	विलुव	विलै	विल	बॅलॅ
मोह, आसक्ति, प्यार	लागणूक, स्नेह	मोह, स्नेह	मोह, माया, आसक्ति	मोह, चेनेह, प्रीति, मरम पोवार-बासना लोभ	अपांबा, शुम्हत्पा	मोह, आसक्ति, स्नेह	मोहमु	मोहम्, अन्बु	मोहम्	मोह
मोहक	मोहकारी	मोहक	मोहजनक	मोहक, मोहमय, मनोमुग्ध-कर	शुम्हत्-निंङाइ ओइबा	प्रलोभनकारी, लोभनीय	मोहकमैन	मनत्तै मयक्कुम	मोहकारि	मोहिसुव
लोभामणुं	मोहक, चित्ताकर्षक	मनमोहक, चित्ताकर्षक	चित्ता-कर्षक, मनोहर	मोहनीय, मुग्ध-करिब परा	पुक्निङ् शुम्हतपा	मनोहर, चित्ताकर्षक, मंत्रमुग्ध-करिबा, सम्मोहनकारी	मोहज-नकमैन	मनत्तै कवरुगिर्	मोहिप्पि-क्कुन्न	आकर्षिसुव, सेळेयुव
मोत, मरण, मृत्यु	मरण, मृत्यू	मृत्यु, मरण, देहावसान	मरण, मृत्यु (न)	मरण, मृत्यु	शिबा	मरण, मृत्यु	चावु, मरणमु	मरणम्, चावु	मरणम्, मृत्यु	सावु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
मौन	पुं.	न बोलने की क्रिया या भाव, चुप्पी	मौनम्	चुप्प, मौन	ख़ामोशी	मोनम, छ्ूर्वोपुं	मौनु	मौन
	वि.	जो न बोले, चुप	मौनिन्	मोनी	ख़ामोश	मोनम, छ्ूर्वोपुं	चुप, ख़ामोश	मूक
मौलिक	वि.	1. मूल-संबंधी, मूलगत	मौलिक	मौलिक	बुनियादी	मूलुक	बुनियादी	मौलिक
		2. जो किसी की छाया, अनुवाद, अनुकृति आदि न हो	आत्मकृत	मौलिक	अस्ल	असुॅली	असुली, असुलोको/ असुलोकी	मौलिक
मौसम	पुं.	गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि के विचार से समय की स्थिति, ऋतु	ऋतुः	मौसम	मौसम	मूसिम	मौसम, मुंद	मोसम, ऋतू
मौसम विज्ञान	पुं.	मौसम की जानकारी से संबंध रखने वाला विज्ञान	ऋतुविज्ञानम्, जलवायुविज्ञानम्	मौसम विज्ञान	मौसिमयात	मूसिमी सयनस	मौसम विज्ञानु	हवामानशास्त्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मौन	वोगी रावप, मौन	मौन	मौन, नीरबता	मौनता, मौन	वा ङाङ्दबा, तुमिन लैबा	मौन, निरबता, चुप-रहिबा	मौनमु	मौनम्, पेशाम-त्तिरुत्तल	मौनम्	मौन
मूक, चुप	शांत, थंड	चुप, मौन	मौनी, चुपचाप	अँकरा मौन, निमात, नीरव, मौन-ब्रती	ङाङ्दबा, तुमिन लैबा	निरब, मौन	मौनि, मौनमुपूनिन̄	पेशामल् इरुक्किर्	मिण्डात्त	मौनि, शांत
मौलिक, मूल, मुख्य	मूलगत	मौलिक	मूल	मौलिक	हौरक्फम गा मरि लैनबा	मौलिक, प्राथमिक, मूल	मूलमुनकु-चेंदिन̄	असलान, मूल	अटि-स्थानपरम्, मौलिकम्	मूलद
—	मौलीक	मूल (रचना, कार्य इ.), नवीन	मौलिक	खाटि, मौलिक, प्रथमे-उद्भावन-करा	अशेङ्बा	मौलिक, प्राथमिक, अबिश्ले-षणीय, प्रारंभिक	मौलिकमैन̄	मूल (पडैप्पु)	स्वतंत्रम्	मूल
मोसम, ऋतु	ऋतू, रुतू	मौसम, याम	मौसम, ऋतु	काल, बतर, ऋतु	ऋतु, रितु	मौसम, पाग, रुतु	ऋतुवु	काल निलै, परुवम्	ऋतु, कालावस्थ	ऋतु, हवामान
वायु शास्त्र	हवामान शास्त्र	मौसम-विज्ञान	जलवायु-संक्रांत-विज्ञान	बतर-बिज्ञान, बतरर-कारक समूह अध्ययन करि आग जाननी दिब परा विद्या	अयिङ्-अशा नैनबा विज्ञान	मौसम-बिज्ञान, जलवायु-बिज्ञान	ऋतु-शास्त्रमु	वानिलै आय्वियल्	व्योम-निरीक्षण शास्त्रम्	हवामान-विज्ञान

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
म्यान	पुं.	तलवार, कटार आदि रखने का कोष या गिलाफ	असिकोशः	मिआन	मियान	मियान	मियाणु	म्यान
यंत्र	पुं.	औज़ार, उपकरण	यन्त्रम्, उपकरणम्	यंतर	औज़ार (आला)	यंथ़ुॅर	यंत्रु, ओज़ारु	यंत्र
यथार्थ	वि.	जैसा है वैसा, वास्तविक जो अपने अर्थ (आशय, उद्देश्य, भाव आदि) के ठीक अनुरूप हो, वास्तविक	यथार्थ	यथारथ	हक़ीक़ी	पज़र	यथार्थ, हक़ीक़ी	यथार्थ, वास्तविक
	पुं.	वास्तविकता	याथार्थ्यम्	–	–	–	–	–
यद्यपि	अव्य.	यद्यपि, अगर ऐसा है	यद्यपि	भांवें	अग़रचे	योंदवय, अगरचि, हरगाह	जेतोणीकि	यद्यपि, जरी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
म्यान	तरसाद, म्यान	दाप, म्यान, तरबार राख्ने खोल	खाप (तरबारिर)	फाक, तरोवाल बा दा कटारी सवुवाई थोवा छालर आवरण	थांखूम	कोष, तरबारिर- खोल	ऑर	वाळुरै	वाळुर्	ओरे
यंत्र	यंत्र	ज्याबल, यंत्र, औजार	यंत्र, यंत्रपाति, कल, सरंजाम	सरंजाम, उपकरण, यंत्रपाति	खुल्लाइ	उपकरण, सरंजाम	यंत्रमु	इयंतिरम्, करुवि	यंत्र	यंत्र
यथार्थ, साचुं, खरुं	वास्तवीक, वास्तवताय	यथार्थ, वास्तविक	यथार्थ (ज), वास्तविक	यथार्थ, प्रकृत, सत्य	अशेङ्बा, तशेङ्बा	बास्तविक, जथार्थ, ठिकरे, प्रकृतरे, निश्चय, प्रकृत पक्षरे	यथार्थमु	उण्मैयान, उण्मै यदार्त्तम्	यथार्थम्	यथार्थ, नैज
–	–	यथार्थ, वास्तविकता	–	यथार्थ, प्रकृत, सत्य	अरोङ्बा	–	वास्तवमु	–	–	–
यद्यपि, जो के	ज़री	यद्यपि, यसो भए तापनि	यद्यपि, यदिओ	यद्यपि, यदिओ	अदुम ओइनमक्	जद्यपि, जदि, जदिओ, जदिच	अयिननु	आयिनुम्, इरुंदालुम्	ऍकिलुम्	आदरू

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
यशस्वी	वि.	जिसका यश चारों ओर फैला हो	यशस्वी	जसवान	नामवर	मोशूर इन्सान	जसवारो, जसवान	यशस्वी
यह	सर्व.	एक सर्वनाम, जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर निकट के और सब मनुष्यों तथा पदार्थों के लिए होता है	एतत्, इदम्, अदस्,	एह, इह	यह	यि	हीउ, हीअ	हा, ही, हें
या	अव्य.	विकल्पसूचक शब्द, अथवा	वा, उत, अथवा	यां	या	या	या	वा, अथवा
याचक	वि., पुं.	माँगने वाला, भिक्षुक	याचक	मंगता, जाचक	साइल	मंगन वोल, बेछुँवुन	मंगतो, जाजकु	भिक्षुक, याचक
यातना	स्त्री.	घोर कष्ट	पीडा	तसीहा	अक़ूबत, अज़ाब	अज़ाब	कष्टु, पीड़ा	यातना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
यशस्वी	यशस्वी	यशस्वी	यशस्वी	यशस्वी, ख्यातिमान	ममिङ चत्लबा, मिङ्चत लैबा	लब्ध-प्रतिष्ठित, जशस्वी, प्रसिद्ध, बिक्षात, सुनामधन्य	यशस्वि, पेरुपॉदिन॑	पुगऴ् पॆट्ट	यशस्वि	यशस्वि, हेसरुवा-सियाद
आ	हें, ही, हो	यो	एइ	इ, एइ, इए, ये	मसि	एहि, इए	इतडु, ईमे, ई	इवन्, इवळ्, इदु, इंद	इवन्, इवळ्, इतुँ, ई	इदु, इवनु, इवळु
या, याने, अथवा	वा, अथवा	वा, अथवा	बा, अथबा	बा, अथबा, नतुबा किंना	नत्रगा	बा, अथबा, नचेत, नहिले	लेक॑	अल्लदु	अल्लॆङ्-किल्	अथवा
याचक, मागण	मागतलो	भिक्षुक, याचक, मगन्ता	उपयाचक, भिक्षुक	मगनीया, भिखारी, थाचोंता	हाय्जरिबा, निजरिबा	भिकारि, भिख्युक, भिख्याकारी	याचकुडु	याचकन्	याचकन्	याचक
यातना, दुख, पीड़ा	कश्ट	यातना, दुख, सास्ती	यातना, घोरकष्ट, पीड़ा	यातना, कष्ट, यंत्रणा	ओत नैबगी चैना	जातना, कष्ट, पीड़ा, दुख	यातन॑	कडुम् वेदनै	यातन	यातने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
यातायात	पुं.	एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहने की क्रिया या भाव, आना-जाना	यातायातम्, गमनागमनम्	आवाजाई	आमदो-रफ़्त	युन-ग़छुन, आम-द्रफ़्त	आमदरफ़्त	दळणवळण
याद	स्त्री.	स्मरण रखने की क्रिया या भाव	स्मृतिः	याद	याद	याद	याद, यादगीरी	आठवण, स्मरण
यान	पुं.	वह उपकरण या साधन, जिस पर सवार होकर यात्रा की जाती है अथवा माल ढोया जाता है	यानम्, वाहनम्	यान	गाड़ी	गॉड्य	वाहणु, सवारीअ जो साधनु	यान
युक्त	वि.	1. किसी के साथ जुड़ा, मिला या लगा हुआ	युक्त	युकत	मुल्हिक़	सूँत्य	जुड़ियलु, साथ लगलु	युक्त, जोडलेलें
		2. साम्मिलित	युक्त, युत	युकत	शामिल	सूँत्य	गडियलु	सम्मिलित
युग	पुं.	1. काल, समय	युगम्, कालः	युग, जुग	अह्द, ज़माना	काल, वख	युगु, जुगु	काळ, समय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वाहन, व्यवहार	येरादारी	यातायात	यातायात	यातायात, आह-जाह, अहा-योवा कार्य, गमनागमन	मफम् अमदगी मफम अमदा चत्थोक् चत्शिन् तौबा	जातायत, आबागमन, जिबा-आसिबा	राकपोकलु	पोक्कु वरत्तु	पोक्कुवरवॅु, संचारम्	सागणे, सारिगे
याद, स्मरण, यादी	याद	याद, सम्झना, झझल्को	स्मरण (न), मनेकरा	सोँवरण, स्मृति मने राखिबा	निङ्शिङ्बा, काओदबा	स्मरण-रखिबा, मने-रखिबा	गुर्तु, ज्ञापकमु	आपगम्, निनैवु	स्मरण, ओर्म्म	नॅनपु
यान, वाहन	यान, वाहन	यान, गाडी, वाहन	यान (ज), यान-बाहन	यान, वाहन, गाड़ी	गारी	जान-बाहन, गाड़ि	वाहनमु	वाहनम्, वण्डि	वाहनम्	वाहन
युक्त, जोडायेलुं	जोडलेले	युक्त	युक्त (ज)	युक्त, लग-लगा, संलग्न	लोइनबा	जुक्त, संयुक्त	संयुक्तमैन॒	इणैंद	चेर्न्न	सरिदि, कूडिकोण्ड, सहित
मळेलुं	शामील	सम्मिलित	सम्मिलित	सम्मिलित, मिलित	अपुन्बा, अयाओबा	सम्मिलित, मिलित, मिशि	सम्मि-लितमैन॒	कूडिय, चॅर्न्द	कूटिच्चेर्न्न	सेरिद
युग, काल, समय, जमानो	काळ, वेळ	समय, जमाना, काल	युग, काल (ज), समय	युग, काल, कालर-भाग, बार बछर-काल	मतम	जुग, काल, समय	युगमु, कालमु	कालम्, नेरम्	कालम्, समयम्	युग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. काल-गणना के विचार से कल्प के चार उप-विभाग (सत्, त्रेता, द्वापर और कलि में से प्रत्येक)	युगम्	युग, जुग	युग	योंग	–	युग
युगल	वि.,पुं.	युग्म, जोड़ा	युगल	जोड़ा	जोड़ा	जूर्य	जोड़ो	जोड़ा, युगल
युग्म	पुं.	दो चीज़ें, जो प्रायः या सदा साथ आती या रहती हों, जोड़ा	युग्मम्	जोड़ा	जोड़ा (ज़ौज)	जूर्य	जोड़ी, जोड़ो, जुतु	युगल, जोड़ा, युग्म
युद्ध	पुं.	अस्त्र-शस्त्रों की सहायता से दो पक्षों में होने वाली लड़ाई, रण, संग्राम	युद्धम्	जुद्ध, युद्ध	जंग	यो'द, लडॉय	जुधि, जंग	रण, संग्राम, युद्ध
युवक	पुं.	जवान आदमी	युवन्	जवान	जवान	नवजवान	जवानु, युवकु	तरुण, माणूस, युवक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
युग	युग	युग	युग	युग, एके लगे दूटो	युग	जुग, काल, समय	युगमु	युगम्	युगम्	युग
युगल, जोडुं	ज़ोडपें	युगल, यमल, युग्म	युग्म, जोड़ा (ज)	युगल, युग्म, योर युरीया	जुरा, पोङ्बा	जुगल, जुग्म, जोड़ा	युगळमु, जंट	जोडि, इरट्टै	युगळम्, जोडि, इरट्ट	जोते, जोडि
युग्म, युगल, जोडुं	ज़ोड	जोडा, जुम्ल्याहा, युग्म	युगल, युग्म (ज)	युग्म, युगल, युरीया	पोत्पा, जुरा	जुग्म, जुगल, जोड़ा	युग्ममु, जंट, जोडु	युग्मम्, इरट्टै	युग्मम्, जोडि	जोडि
युद्ध, लड़ाई	झूज, युद्ध	लडाइँ, युद्ध	युद्ध, रण, समर (ज), लड़ाई, संग्राम	जुद्ध, रण, समर, संग्राम	लाल्	रण, जुद्ध, संग्राम संमर, लढेइ	युद्धमु	युद्दम, पोर्	युद्धम्	युद्ध
युवक	तरणाटो	तन्नेरी, युवक	युवक, तरुण. (ज), युबा	युवक, डेका, डेका लरा, तरुण पुरुष	नहा	जुबक, तरुण	युवकुडु	इळैञन्	युवावुँ	युवक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
योगदान	पुं.	किसी को सहायता देने, हाथ बँटाने की क्रिया या भाव	योगदानम्, सहयोग:	देण	तआवुन	मदद	योगदानु	सहकार्य
योगी	पुं.	वह, जो योग की साधना करता हो	योगी	जोगी, योगी	जोगी	यूग्य, यूगी	योगी, जोगी	योगी
योग्य	वि.	योग्यता रखने वाला, काबिल, लायक, उपयुक्त, उचित	योग्य, अर्ह	योग, जोग	अह्ल, ज़ी इस्तेदाद, क़ाबिल	कॉबिल	जोगु, योग्य, लाइक, जोगो	योग्य, उपयुक्त, समर्थ
योग्यता	स्त्री.	योग्य होने की अवस्था या भाव, काबिलियत, गुण	योग्यता, पात्रता, गुण:	योगता	क़ाबलियत, अहलियत, ख़ूबी	कॉबलियत	लियाकत	योग्यता, गुण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
फाळो	सहकार्य	योगदान, अंशदान	योगदान, सहयोग (ज)	योगदान, सहयोग, संबंध-स्थापन	तेङ्बाड्बा, थोदाङ् यारंबा	जोगदान, सहजोग	सहकारमु	ओत्तुळैप्पु	सहकरणम्	सहाय-माडुविके
योगी, तपस्वी	योगी	योगी, जोगी	योगी, तपस्वी (ज), साधक	योगी, साधक, तपस्वी	जोगी	जोगी, साधक, तपस्वी	योगि	योगि, तवसि	योगि	योगि
योग्य, छाजतुं, लायक	योग्य, लायक	योग्य, लायक, उपयुक्त	योग्य, उपयुक्त, समर्थ (ज)	योग्य, लायक, समर्थ, उपयुक्त	मतिक् चाबा	जोग्य, उपजुक्त, समर्थ	योग्यमैन	तुगुदियुळ्ळ	योग्यम्, उचितम्	तक्क, योग्य
गुण	गूण	गुणयुक्त, मुनासिब	गुण	गुण, मुनासिब, उपयुक्ता	मतिक् चाबा मतौ मगुन	गुण, प्रकृति	योग्यत	गुणम्	योग्यत	गुण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
योजना	स्त्री.	किसी कार्य को निष्पादित करने का प्रस्तावित कार्यक्रम (प्लान)	योजना	योजना	मनसूबा	मंसूबॖ	योजना, रिथा	योजना
यौवन	पुं.	युवा या युवती होने की अवस्था या भाव	यौवनम्	जोबन	शबाब, जोबन	यावुन, जवॉनी	जोभनु, जवानी	तारुण्य, यौवन
रंग	पुं.	वर्ण (कलर)	रङ्गः, वर्णः	रंग	रंग	रंगु	रंग, वर्ण	रंग
रँगना	स. क्रि.	रंग में डुबा कर किसी चीज को रंगीन करना	√रञ्ज्	रंगणा	रंगना	रंगुन	रङणु	रंगवणें
रंगमंच	पुं.	वह ऊँचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं	रङ्गमञ्चः, रङ्गपीठम्	रंगभूमि, रंगमहल	स्टेज	सिटेज	रंगमंचु, स्टेज	रंगभूमी, रंगमंच

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
योजना, व्यवस्था	योजना	योजना	योजना, परिकल्पना (ज)	योजना, परिकल्पना आँचनि	पाङ् थोक्क- दौरिबा थौरम, प्लान	जोजना, व्यबस्था, परिकलपना	प्रणाळिक	तिट्टम्	पद्धति	योजने
यौवन, जुवानी	तरणेपण	युवावस्था, यौवन, जवानी, बैंस	यौबन, तारुण्य (ज)	यौवन, डेका- अवस्था, तरुण- बयस	नहा ओइबा, मतौ नहा	जौबन, जुबा कैशोर	यौवनमु	इळैमैप् परुवम्	यौवनम्	यौवन
रंग	रंग, कोर	रङ, वर्ण	रं, बर्ण (न)	रं, रहन वरण, बोल रंजक द्रव्य धेमालि	मचु	रंग, बर्ण	रंगु, वर्न	निरम्, चायम्	निरम्, वर्ण	बण्ण
रंगवुं	रंगीत	रँगाउनु	रङ्गनो	रं दि बोला, आमोद- प्रमोद	मचु शङ्बा	रंग- करिबा, रंगित- करिबा, रंग देबा	रंगु- वेयुट	चायम् पोड	निरं पिटिप्पि- क्कुक	बण्ण हाकुवुदु
रंगभूमि	रंगमाची	रङ्गमञ्च	रंगमंच, रंगभूमि, मंच	रंगमंच, नाट्यशाला, अभिनयर- गीत-वाद्य परिवेशनर मञ्च	स्टेज, रंगमंच, फंपाक	रंगमंच, मंच	रंगशाल, स्टेजि	नाडग मेडै	स्टेज्, अरङ्ङु	रंग- भूमि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रँभाना	अ. क्रि.	गाय का मुँह से आवाज करना	√रम्भ, √रेभ्	अड़िंगना, अरड़ाउना	रांभना	डां करुन	रंभणु	हंबरणें
रक्तपात	पुं.	लहू का गिरना या बहना, खून-खराबा	रक्तपात, हिंसा	खून खराबा	खूनरेज़ी	खून रीज़ी	खून रेज़ी, खून-ख़राबो	रक्तपात
रक्षा	स्त्री.	ऐसा काम, जो आक्रमण, आपद, नाश से बचने या बचाने के लिए किया जाता है, बचाव	रक्षा, रक्षणम्, भरणम्	राखी, रखिआ	दिफ़ा, तहफ़्फ़ुज़	रॉछ, हेफाज़थ	रक्षा, बचाउ	बचाव, रक्षण
रखना	स. क्रि.	किसी स्थान पर स्थित करना	√स्थापय्	रखणा	रखना	थवुन	रखणु	ठेवणें, सांभाळणें
रगड़	स्त्री.	1. रगड़ने की क्रिया या भाव	घर्षणम्	रगड़	रगड़	फश	रगड़	घर्षण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भांभरवुं	हांबेवप	(गाइबस्तुले) बाँ गर्नु, गाइबस्तुको कराई	हंबा, हांबा	हेंबेलिया	शन्ना खोङ्बा	हंबारड़ि- करिबा, बोबालिबा	'अंबा' अनुट	(माडु) कत्तुदल्	(पशु) अमरुक	अंबा- ऍंदु- कूगुवुदु
रक्तपात	रक्तपात	रक्तपात, रगतपच्छे	रक्तपात, खुन- खारापि	रक्तपात, तेज- ओलोवा-कार्य	ई तानबा	रक्तपात, हत्या	रक्त- पातमु	रत्तम् चिंदुदल्, रत्तक्कळरि	रक्तच्चांरि- च्चिल्	रक्तपात
रक्षा, बचाव, रखवाळी	रक्षा	रक्षा, बचाउ, सुरक्षा	रक्षा; त्राण, बाँचोया (क्ख) (न)	रक्षा, रक्षण, परित्राण, बिपदर परा उद्धार, प्रतिपालन	ङाक् शेन्बा	रख्या (रक्षा), त्राण- करिबा	रक्षणं	काप्पाट्टुदल्	रक्ष	रक्षणे
राखवुं, बचाववुं	सांबाळप	राख्नु	राखा	राख, थ, स्थापन- कर, नियोग कर	थंबा	रखिबा, थोइबा	उंचुट	वैक्क	वक्कुक	इडुवुदु
रगड़	रगडप	रगड	रगड़ानो, रगड़ा, घर्षण (न)	घँहन, घर्षण	तक्पा	रगड़, घर्षण	ओरिपिडि	तेय्त्तल, उराय्दल	उरसल्	उज्जुविके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. वह चिह्न, जो किसी चीज से रगड़े जाने पर दिखाई देता है, खरोंच	क्षतम्, त्वक्च्छेदः	रगड़	–	ज़ुॅल, खुॅह	–	उझरणें
रचना	स्त्री.	रचने की क्रिया या भाव; बना कर तैयार की हुई चीज, कृति, साहित्यिक कृति	रचना, कृतिः	रचना	तख़्लीक़	तखलीक, रच़्ॅना	रचना रचणु	रचना
रजनी	स्त्री.	रात, रात्रि	रजनी	रात	रात, शब	राथ	रात	रात्र, रजनी
रटना	स. क्रि.	कंठस्थ करना	√रट्	रटणा	रटना	गोटुॅ मारुन, याद करुन, च़ेॅतस् करुन	रटणु	तोंडपाठ करणें
रण	पुं.	लड़ाई, युद्ध	युद्धम्, रणः	रण	जंग, मारिका	लडॉय	जंग	युद्ध, रण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
–	झरको	खत, छाला खुत्तिएर लागेको चोट, खोस्याइ	आँचड़, दाग	आँचोर, घँहनिर-चिन	होल्काइबा	रगड़, रांछुड़ा-दाग	गीरॅ	शिराय्प्पु	पोरल	गीचु, गेरे
रचना, कृति	रचना	रचना, कृति	रचना, कृति	रचना, रच, रचना कर लिपिबद्धकर	लाइरिक इबा	रचना, सृष्टि	रचॅन, सृष्टि	पडैप्पु, तयारिप्पु	रचन, रचिक्कुक	रचने, रचिसुवुदु
रजनी, रात	रात	रात, राती, रात्रि	रजनी, रात, रात्रि	रजनि, राति	अहिङ्	रजनी, राति, रात्रि, निशि, जामिनि	रात्रि	रात्तिरि, इरवु	रात्रि, रजनि	रात्रि
रटवुं	तोंडपाठ करप	घोक्नु, रट्नु, कण्ठस्थ गर्नु	मुखस्थ करा	मुखस्थ कर, निंदा करि-फुर	चिन्फा पुबा	कण्थस्थ-करिबा, मुखस्त-करिबा, मने रखिबा	वल्लॅ-वेयुटॅ	मनप्पाडम् सॅय्य	मन:पाठम् आक्कुक	बायिपाठ, कंठपाठ-माडुवुदु
रण, लड़ाई	लडाय, युद्ध	लडाइँ, युद्ध	रण, युद्ध (नँ)	रण, जुद्ध, संग्राम, समर	लाल्	रण, जुद्ध, संग्राम, समर	युद्धमु	पोर्	युद्धम्, रणम्	काळग, युद्ध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रति	स्त्री.	1. काम क्रीड़ा	रतिः	प्रेम पिआर	मुबाशरत, जिमा	लोलुँ बाशि, प्रेंयम	प्रेमु प्यारु, संजोगु, संभोगु, मेलापु	काम क्रिडा, रती
		2. साहित्य में शृंगार रस का स्थायी भाव	रतिः	रती	वस्ल	–	–	शृंगार रसाचा स्थायी भाव, रती
रत्न	पुं.	बहुमूल्य पत्थर, जो आभूषण आदि में जड़े जाते हैं	रत्नम्	रतन	जौहर, जवाहिर	रॅतुॅन	रत्नु/रतनु	रत्न
रफ्तार	स्त्री.	चाल, गति	गतिः	रफतार	रफ़्तार	चाल, रफतार	रफ़्तार	गती, वेग
रमणी	स्त्री.	सुंदर नारी, युवती	रमणी, युवतिः	सोहणी	हसीना	रंबुॅवुॅन्य	रमणी, सुहिणी, स्त्री, हसीना	सुंदर स्त्री

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रति, आसक्ति, काम-क्रीडा	काम क्रीडा	कामक्रीडा, संभोग	रति, मैथुन	रति, कामकेलि, मैथुन, कामक्रीड़ा	अपाम्बा, इंद्रीगी अपांबा, नुङ्शिबा	रति, मैथुन, काम क्रीड़ा, प्रणय	रति	चिट्ट्रिन्बम्	रति	कामक्रीडे, रति, मैथुन
रति, शृंगार रसनो स्थायी भाव	स्थायीभाव	रति स्थायीभाव (शृङ्गार रसको)	रति, स्थायी भाब	रतिरस, शृंगार रस स्थायी भाव, आसक्ति ओजनर सरु एकक	रति	रस, शृंगार	रति	शृंगार रसत्तिन् निलैयान बावम्	रति	रति
रत्न	रत्न	रत्न	रत्न, मुल्यबान पाथर	रत्न, बहुमुलिया वस्तु, श्रेष्ठ संपद	मनि	रत्न	रत्नमु	रत्तिनम्	रत्नम्	रत्न
चाल, गति	गती, वेग	गति, चाल	चाल, गति	चाल, गति	खोङ्चत्	गति, बेग	वेगमु, वडि	नडै, वेगम्	वेगत	वेग
रमणी, स्त्री	सुंदर नार	रमणी, राम्री युवती, सुंदरी आइमाई	रमणी, युबती (न), सुंदरी	रमणी, सुंदरी-युवती, नारी	नाहा ओइरिबी	रमणी, नारी, तरुणी	रमणि, स्त्री	अळगिय	रमणि, युवति	युवति, तरुणी

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रमणीक	वि.	सुंदर, मनोहर	मनोज्ञ, रम्य, रमणीय	रमणीक	हसीन, दिलरुबा	सौंदर	रमणीक, सुंदर	सुंदर, मनोहर
रवि	पुं.	सूर्य	रविः	सूरज	सूरज	सिरियि	सिजु	सूर्य, रवी
रश्मि	स्त्री.	किरण	रश्मिः	रिशम	किरन, शुआ	जुचुं, किरन	किरणो.	किरण, रश्मी
रस	पुं.	1. शोरबा	रसः	रसा	शोरबा	रस	रसु	रस, रस्सा
		2. मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव, जो काव्य आदि पढ़ने या नाटक आदि देखने से होता है, काव्यानंद	रसः	रस	जज़्बा	रस	रसु	काव्यानंद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रमणीक, सुंदर	सुंदर, मनभु-लोवणें	मनोहर, सुंदर	रमणीय, रम्य, सुंदर, मनोहर	रमणीय, मनोहर, सुंदर, आनंद-दायक	चङ्खोन्बी, निङ्थिबी, फजबी	रमणीय, रम्य, मनोहर, सुंदर	रमणीयमैन	अळगान	रमणीयम्, मनोहरम्	रमणीय
रवि, सूर्य	सूर्य	सूर्य, सुर्जे, रवि	सूर्य, रबि	सूर्य, रबि	नुमित्	रबि, सूर्ज्य	सूर्युडु	सूरियन्	सूर्यन्, रवि	सूर्य
रश्मि, किरण	किरण	किरण, ज्योति, रश्मि	रश्मि, किरण (स्सिँ) (न)	रश्मि, किरण, पोहर-आदिये गति करा सरल रेखा	मङाल	रश्मि, किरण	किरणमु	ऑळि-क्कदिर्	रश्मि	किरण
रस, द्रव	रस, रोस	रस, झोल	रस, झोल	रस, जोल निर्यास सोवाद	रस, महि	रस	रसमु	चारु, रसम्	चारु	रस
काव्यानंद	काव्यानंद	काव्यानन्द रस (साहित्यमा पाइने)	काव्यानंदो (ब्ब), काव्यरस	(काब्यर) रस, अलंकार शास्त्रर-गुण	रस	रस	रसमु	इलक्कि-यच्चुवै	रसम्	रस, काव्यानंद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रसायन	पुं.	द्रव का अशोधित रूप, पौष्टिक औषधि	रसायनम्	रसाइण	कीमिया	कीमिया	कीमियागिरी रसायनु	रसायन
रसीला	वि.	रस से भरा हुआ, रसदार, स्वादिष्ट	रस्य, रसाल, स्वादु	रसीला	रसीला	रॅस्युल	रसीलो, रसवारो, सवादी	रसाळ
रस्सा	पुं.	मोटी डोरी	रज्जुः	रस्सा	रस्सा	मोॅट रज़	रसो, नोड़ु	दोर
रहट	पुं.	खेतों में सिंचाई के लिए कुएँ से पानी निकालने का चक्राकार यंत्र (पर्शियन व्हील)	अरहट्टः, अरघट्टकः	हरहट	रहट	अरहठ	नारु, रहट	रहाट
रहस्य	पुं.	मर्म या भेद की बात, गुप्त बात	रहस्यम्	रहस्स	राज़	राज़	रहस्यु, राजु	रहस्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रसायण	रसायण	रसायन	रसायन	रसायन (औषध), श्लेष्मा	पोत यान्बा, केमिस्ट्रि	रासायनिक	रसायनमु	रसायन पांरुळ्	रसायनम्	रसायन
रसीलुं, स्वादिष्ट	रसाळ	रसिलो, मीठो	रसाल, रसपूर्ण (न)	रसाल, सरस, जीपाल, आनन्द-जन्मोवा	महाओ लैबा महि होंबा	रसाल, स्वादिष्ट	रसवंतमैन	चारु निरैंद, रुचिकरमान	सरसम्	रसभरित
रस्सो, रसो	दोर	दाम्लो, मोटो डोरी	रशि, दड़ि, मोटा दड़ि	जरी, रचि	थौड़ी	मोटा-डोर, मोटा-दउड़ी	ताडु	तांबुक्कयिरु	वटम्	हग्ग
रहेंट	राट	पानी झिक्ने पाङ्ग्रे-यंत्र	कपिकल, दुनि, दुन	पथारलै नादर पानी तुलि निया यंत्र	इशिङ् चाइनबा खुत्लाई, पर्शियन हवील	पुलि	मोट	तण्णीर् इरैक्कुम राट्टु	राट्टु कप्पि	कप्प, राटे
रहस्य	रहस्य	रहस्य, गुह्य	रहस्य (स्स), धाँधा	रहस्य, गुढ़, गोपन, कौतुक	अथुप्पा, अरोनबा	रहस्य, गोपन, गुप्त, गुढ़	रहस्यमु	रगसियम्	रहस्यम्	गुट्टु, रहस्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रहित	वि.	(से) बिना, (से) खाली, विहीन	रहित, शून्य	रहित	बग़ैर (ख़ाली)	वरॉय	खां सिवाइ	रहित
राक्षस	पुं.	निशाचर, दैत्य	राक्षसः, रक्षस्	राखश, दैंत	इफ़रीत	राख्युस	राकासु, दैतु, दैत्यु	राक्षस
राख	स्त्री.	भस्म, किसी पदार्थ के बिल्कुल जले हुए अवशेष	भस्मन्	सुआह	राख	सूर	रख	राख
राग	पुं.	1. अनुराग, प्रेम	रागः	राग	राग	राग, मोंहब्बत	प्रेमु, प्यारु, अनुरागु	अनुराग, प्रेम
		2. शास्त्रीय संगीत का विशिष्ट गान-प्रकार	रागः	राग	राग	राग, मोंहब्बत	रागु	संगीत (राग)
राज	पुं.	1. राज्य, राजकीय शासन	राज्यम्, शासनम्	राज	राज, हुकूमत	राज़	राजु	राज्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रहित	शिवाय	रहित, बेगर, बिना	ख, रहित, बिहीन	रहित, बिहीन, बातिल, स्थगित	याओदबा	रहित, व्यतित, बिहीन, बिना, छडा	रहितमु	इल्लामल्, इन्रि	रहितम्, इल्लात	इल्लद, रहित
राक्षस, दैत्य	राक्षस	राकस, राक्षस, राच्छेस	राक्षस, दैत्य (क्ख)	राक्षस, दैत्य	अहिङ् चाक्ताबा, हिंचाबा	राक्षस, दैत्य	राक्षसुडु	राट्चसन्, अरक्कन्	राक्षसन्	राक्षस
राख	गोबर	खरानी	भस्म, खाक, छाइ	छाइ, भस्म	उत्	भस्म, पाउंस	बूडिद	चांबल्	चारम्, भस्मम्	बूदि
राग	मोग, प्रेम	प्रेम, माया, अनुराग	अनुराग, प्रीति, माया, स्नेह	प्रेम, अनुराग, आसक्ति रंग, रंजक द्रव्य, रँगा बरण	नुङ्शिबा	राग, प्रेम, अनुराग, प्रीति, श्रद्धा	अनुरागमु	अन्बु	अनुरागम्, स्नेहम्	अनुराग
सूर	संगीत	राग-सङ्गीतको	राग-संगीत, सुर	(संगीतर) राग (छह राग-विशेष)	राग	राग	रागमु	रागम्	रागम्	राग
राज, राज्य	राज्य	राज्य, राज, राजकीय शासन	राज्य, राजत्व	राज्य, राज्यर अंश	राज्य	राज्य, राज्य-शासन	राज्यमु	अरशु, अरशाट्चि	राज्यभरणम्	राज्याडळित

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. मकान बनाने वाला कारीगर (मेसन)	गेहकार:	राज	मेमार, राज	दॅसिल	राज़ो	गवंडी
राजकुमार	पुं.	राजा का पुत्र	राजकुमार:	राजकुमार	शहज़ादा	ऱाजुॅको'मार	राजकुमारु	राजकुमार
राजचिह्न	पुं.	राजकाज के संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भी चिह्न या साधन जो शासक के प्राधिकार का द्योतक हो	राजचिह्नम्, राजमुद्रा	राजचिंन, सरकारी निशान	सरकारी निशान	राजु निशॉन्य	राज॒ जो निशानु	राजचिह्न, निशानी
राजदूत	पुं.	किसी राजा या राज्य का दूत	राजदूत:	राजदूत	सफ़ीर	राजदूत, सफीर	राज॒दूतु, एलिची	राजदूत
राजद्रोही	पुं.	वह व्यक्ति जिसने सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया हो, बागी	राजद्रोही	राजधरोही	बाग़ी	बॉगी, बगावत करन वोल	राज॒द्रोही, बाग़ी	राजद्रोही

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कड़ियो	गवंडी	डकर्मी, वज्रकर्मी	राज मिस्त्री	राज-मिस्त्री	नुङ् शुबा, युम शाबा	राज-मिस्त्री	तापीवाड़ु	कात्तनार्	कल्पणि-क्कारन्, कात्तन्, कल्लाशरि	उप्पार, गौंडी
राजकुमार	राजकुमार	राजकुमार, शहजादा	राजकुमार	राजकुमार, राजकोँवर	निङ्थो मचा नुपा, राजकुमार	राजपुत्र, राजकुमार	राजकुमारुडु	अरश कुमारन्	राजकुमारन्	राजकुमार
राजचिह्न	राजचिह्न	लालमोहर, राजचिह्न	राजाज्ञा-चिन्ह, राजमोहर	राजलक्षण, दण्ड-इत्यादि राजकीय-चिन	खुदम ओइबा पोत्	राजचिह्न, राज-लक्षण	राजलक्ष-णमुलु	अरशु-चिन्नम्	राजचिह्नम्	राज्यद-चिह्ने
राजदूत, एलची	राजदूत	राजदूत	राजदूत	राजदूत, कटकी रजाइ-पठोवा-दूत	लैबाक्की पाओ पुबा, राजदूत	राजदूत	रायबारि	राज दूतन्	राजदूतन्, अंबासडर्	राजदूत
राजद्रोही	राजद्रोही	राजद्रोही	राजद्रोही, देशद्रोही, राज-बिरोधी	राजद्रोही, देशद्रोही, प्रचलित शासन-व्यवस्था विपक्षे द्रोह	लालहौबा, प्रजागी शांति अमसुङ् लैबाक्की मरा चेत्पबु थुगाइनबा तौबा	राजद्रोही, देशद्रोही	राजद्रोहि	राजदुरोहि	राजद्रोही, राज्यद्रोही	राजद्रोहि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
राजधानी	स्त्री.	किसी राज्य का वह नगर, जो उसका शासन केंद्र हो	राजधानी	राजधानी	दारुलसल्तनत, दारुलहुकूमत	राज़दॉन्य	राजु़धानी	राजधानी
राजनीति	स्त्री.	1. वह नीति या पद्धति, जिसके द्वारा किसी राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाता है (स्टेट्मैन शिप)	राजनीतिः	राजनीती	सियासत	सियासथ, राजनीति	राजु़नीती	राजनीती
		2. गुटों, वर्गों आदि की पारस्परिक स्पर्धा वाली स्वार्थपूर्ण नीति (पॉलिटिक्स)	राजनयः	राजनीती	सियासत	सियासत, राजनीति	–	राजनीती
राजभाषा	स्त्री.	किसी देश की वह भाषा, जो राजकाज तथा न्यायालयों आदि में प्रयोग में आती हो	राजभाषा	राजभाशा	सरकारी ज़बान	सरकॉर्य-ज़बान	राजु़भाषा	राज्यभाषा
राजमार्ग	पुं.	मुख्य मार्ग, राजपथ	राजमार्गः	राजमारग	शाहराह	जरनैली सड़क, कोमी शाहरा	राजु़पथु, शाहराह	राजमार्ग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राजधानी, पाटनगर	राजधानी	राजधानी	राजधानी, शासन-केंद्र	राजधानी	कोनुङ्	राजधानी	राजधानि	राजदानि, तलै नगरम्	राजधानी	राजधानि
राजनीति	राजनिती	राजनीति	राजनीति	शासन पद्धति, राजनीति	राजनीति	राजनीति, शासन-पद्धति	राजनीति	राज तंदिरम्	राजतंत्रम्	राज्यतंत्र प्रावीण्यते
कूटनीति	राजनिती	राजनीति	–	राजनीति, कूटनीति, शासन पद्धति	राजनीति	राजनीति, शासन पद्धति	राजकीयमुलु	अरशियल्	राष्ट्र मीमांस	राजनीति
राजभाषा	राजभास	राजभाषा, राष्ट्रभाषा	राजभाषा	राजभाषा, प्रधान-भाषा, शासनर-भाषा	लैंबाक् की वायेन थौदादा शिजिन्-नरिबा लोल, ओफिसेल ओइबा लोल	राजभाषा, प्रधान-भाषा, मूख्य-भाषा	अधिकार-भाष	आट्चि मॉळि	औद्योगिक भाष	आडळित भाषे
राजमार्ग	राजमार्ग	राजमार्ग, राजपथ	राजपथ	राजपथ	मरु ओइबा लंबी	राजमार्ग, राजपथ, राजरास्ता	राजमार्गमु	राज पाट्टै, नेंडञ्चालै	राजमार्ग, पेरुवळि	राजमार्ग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
राजस्व	पुं.	वह धन, जो राजा या राज्य को आधिकारिक रूप से मिलता हो	राजस्वम्	मालीआ (रेवन्यू)	मालिया	मॉलियि	ढल, टैक्स	महसूल
राजा	पुं.	वह व्यक्ति, जो किसी राज्य या भूखंड का मालिक हो, नृपति, भूपति	राजा	राजा	बादशाह (राजा)	राजुॅ	राॼा, राजा	राजा
रात्रि	स्त्री.	रात, निशा	रात्रिः	रात	रात	राथ	रात	रात्र, निशा
राशि	स्त्री.	1. किसी पदार्थ का समूह	राशिः	राशी	अंबार (ढेर)	राश	ढेरु, ढिगु	रास, ढीग
		2. गणित में कोई ऐसी संख्या, जिसके संबंध में जोड़, गुणा, भाग आदि क्रियाएँ की जाती हैं	राशिः	राशी	रक़म	रकम	रक़म	संख्या
		3. ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत क्रांति वृत्त में पड़ने वाले 12 तारा समूहों में से कोई एक	राशिः	रास	बुर्ज	राश	रासि	रास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
महेसूल, आवक	कर	राजस्व	राजस्व, राजकर	राजह, राजस्व, राजकर	खाजना, सरकार अमगी अपुन्बा चागा	राज्य शुल्क	राजस्वमु, प्रभुत्वा-दायमु	वरि	राजस्वम्, रॅवन्यु	तेरिगे-आदाय
राजा, नृपति, भूपति	राजा	राजा, नरेश	राजा, भूपति, राज्येर प्रशासक	रजा नृपति, भूपति, देशर-अधिपति	निङ्थौ	राजा, नरपति, नरेश, नृपति, भूपति	राजु	राजा, अरशन्	राजावुँ	राज
रात्रि, रात	रात	रात, राती, निशा	रात, रात्रि, निशा	निशा, राति	अहिङ्	रात्री, निशा, जामिनी, राति	रात्रि	रात्तिरि, इरवु	रात्रि	रात्रि
राशि, ढ़गलो	रास, ढीग	रास, डङ्गुर, डुङ्गर, थुप्रो	राशि	राशि, समूह, धूप	मपै	राशि, समूह, समष्टि	राशि	कुवियल्	कूट्टम्	राशि, गुड्डे
संख्या	संख्या	सङ्ख्या, अङ्क	अंक, संख्या (ख्व)	(अंकर) राशि, संख्या	अपुनबा मशिङ्, मपूम	अंकर-राशि, संख्या	राशि	तॆगै	तुक	संख्ये
रास	राशी	राशि	–	(ज्योतिषत) राशि, बारोटां चिन	राशि	ज्योतिषर-राशि	राशि	राशि (जोदिडम्)	राशि (मेषादि)	राशि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
राष्ट्र	पुं.	राज्य, देश, किसी निश्चित और विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनकी भाषा और रीति-रिवाज एक से होते हैं	राष्ट्रम्, राज्यम्	राशटर, कौम	क़ौम	कोम	राष्ट्र, क़ौम	राष्ट्र
राष्ट्रगान	पुं.	किसी राष्ट्र या देश का मान्यता प्राप्त विशिष्ट गान, जो राष्ट्रीय उत्सवों आदि पर गाया जाता हो	राष्ट्रगानम्, राष्ट्रगीतम्	कौमी तराना, राशटर गान	क़ौमी तराना	कोमी बॉथ	राष्ट्र गानु, क़ौमी तरानो	राष्ट्रगीत
राष्ट्रध्वज	पुं.	किसी भी राष्ट्र या देश का मान्यता प्राप्त झंडा	राष्ट्रध्वजः	कौमी झंडा, राशटरी झंडा	क़ौमी परचम	कोमी जंडुं	क़ौमी झंडो	राष्ट्रध्वज
राष्ट्रभाषा	स्त्री.	राष्ट्र की ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग उसके निवासी सार्वजनिक कामों के लिए करते हों	राष्ट्रभाषा	राशटर भाषा, कौमी जबान	क़ौमी ज़बान	कोमी ज़बान	राष्ट्रभाषा	राष्ट्रभाषा
राष्ट्रमंडल	पुं.	ब्रिटेन तथा स्वतंत्र राष्ट्रों का मंडल, जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे (कामनवेल्थ)	राष्ट्रमण्डल	राशटर मंडल	दौलते मुशतरिका	कामन् वैंलथ, दोलति मुश्तरकुं	राष्ट्रमंडलु, क़ौमुनि जो मंडलु	राष्ट्रमंडल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राष्ट्र, देश	राष्ट्र	राष्ट्र	राष्ट्र, राज्य	राष्ट्र, देश, शासन-यंत्र	जाति, लैबाक्	राष्ट्र, देश	देशमु, राष्ट्रमु	देशम्, नाडु	राष्ट्रम्, राज्यम्	राष्ट्र
राष्ट्रगीत	राष्ट्रगीत	राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय गीत	जातीय संगीत, राष्ट्रिय गीत	राष्ट्रीय संगीत	जाति गी इशै	राष्ट्रीय गीत, जातिय-संगीत	जातीय-गीतमु	देशीय गीतम्, नाट्टुप्पण्	राष्ट्रगीतम्	राष्ट्रगीते
राष्ट्रध्वज	राष्ट्रध्वज	राष्ट्रध्वज	जातीय पताका/ ध्वजा	राष्ट्रीय पताका	जातिगी फिराल	राष्ट्रीय-पताका, राष्ट्रीय ध्वज, जातीय पताका	जातीय-पताकि	देशीयक् कोड़ि	राष्ट्र पताक	राष्ट्रध्वज
राष्ट्रभाषा	राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभास	राष्ट्रभाषा	राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सरकारी भाषा	राष्ट्र-भाषा, उमैहतिया-भाषा	जातिगी लोल, लैबाक् अमगी लोल	राष्ट्र-भाषा	जातीय-भाषे	देशीय माळि	राष्ट्र भाष	राष्ट्रभाषे
राष्ट्रसमूह	राष्ट्रमंडल	राष्ट्रमण्डल	राष्ट्र पुञ्ज	कामन वेल्थ, राष्ट्र-मंडलं	मयामगी फनबगीदमक लैबाक् मयाम्ना पुनबा काङ्लुप, कॉमन वेल्थ	राष्ट्र-मंडल, जेउँ-देशमाने-ब्रिटेन अधिनरे-थिले	राष्ट्रमंडलि	कामन्वेल्त्तु, नाडुगळिन् कुळु	कामण्-वेल्थ्	राष्ट्रमंडल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
राष्ट्रवादी	वि.	राष्ट्रवाद से संबंधित	राष्ट्रवाद सम्बन्धित	राशटरवादी	क़ौम परस्ताना	–	राष्ट्रवादी, क़ौमपरस्त	–
	पुं.	राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाला	राष्ट्रवादिन्	राशटर वादी	क़ौमपरस्त	कोम परस	राष्ट्रवादी, क़ौमी, क़ौमपरस्त	राष्ट्रवादी
राष्ट्रीयकरण	पुं.	सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने की क्रिया या भाव	राष्ट्रीकरणम्	राशटरीकरन	क़ौमियाना	कोमियावुन	राष्ट्रीकरणु	राष्ट्रीयकरण
रास्ता	पुं.	मार्ग, पथ	मार्गः, पथिन्	रस्ता	रास्ता	वथ	रस्तो, पथु	रस्ता
रिमझिम	स्त्री.	वर्षा की फुहार, छोटी-छोटी बूँदों की वर्षा	शीकरः	किणमिण	रिमझिम	रूदुँ लवुँ	रिम झिम	झिमझिम पाउस
रिवाज	पुं.	प्रथा, चलन	लोकचारः, रीतिः	रिवाज	रिवाज	रिवाज, रेंवाज	रिवाजु	प्रथा, चालरीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
राष्ट्रवादी	राष्ट्रवादी	राष्ट्रवादी	देश भक्त व्यक्ति, देशप्रेमिक	जातीयता-बादी, देशभक्त	जातिगी नीङ्तम्-लाल्हौबु शौगत्पा मी	राष्ट्रबादी, जातियबादी, देश भक्त	जातीयवाद-संबंधमैन	देशीय वादि	देशीयवादि, नेषनलिस्ट्	राष्ट्रवादि, राष्ट्रीय
–	–	राष्ट्रप्रति निष्ठावन, राष्ट्रवादी	–	–	नीङ्तम लाल्हौबु शौगत्लिबा	–	जातीयवादि	–	–	राष्ट्रीय
राष्ट्रीय-करण	राष्ट्रीकरण	राष्ट्रिकरण	राष्ट्रीय-करण	राष्ट्रीयकरण, सरकारर-द्वारा परिचालनार भार ग्रहण	कनागुंबबु लैबाक अमगी नागरिक ओइहन्बा	राष्ट्रीय-करण	जातीय-करणमु	देशीय मय-माक्कुदल्	देशवत्करणम्	राष्ट्री-करण
रस्तो, पथ, राह	रस्तो, मार्ग	बाटो, मार्ग, पथ	रास्ता, पथ	रास्ता, पथ, बाट	लंबी	रास्ता, पथ, मार्ग	दारि	रस्ता, वऴि	मार्गम्, वऴि	रस्ते, हादि, दारि
वर्षानी फरफर	बारीक पावस	बाछिटा, थोपाथोपी	झिर झिर वृष्टि, इलशे गुँड़ि	किनकिनीया-बरषुण	नोङ् मकुप-मकुम ताबा	कुंडा-झडिबा	चिट्-पट्, चिनुकुलु	मऴैत्तुरल्	चारल्, तुळ्ळिमऴ	तुंतुरुमळे
रिवाज, प्रथा, चाल	रिवाज	प्रथा, रीति, चलन	रेओयाज, दस्तुर, रीति, प्रथा	प्रथा, रीति, नियम	चत्नबी	प्रथा, चलणी, रीति, नियम	रिवाजु, आचारमु	वऴक्कम् संपिरदायम्	पतिवुँ, संप्रदायम्	संप्रदाय, रूढि, रीति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रिश्वतखोरी	स्त्री.	घूस लेने की क्रिया	उत्कोचचर्य्या	रिशवत खोरी, वड्‌ढी खोरी	रिश्वत ख़ोरी	रशवथ खूरी	रिश्वतख़ोरी	लाचलुपचत
रीझना	अ. क्रि.	मोहित होना, किसी पर प्रसन्न होना	अनु +√रञ्ज्	रीझणा	रीझना (फ़रेफ़्ता होना)	खोँश सपदुन	रीझणु	मोहितहोणें
रीति	स्त्री.	1. प्रथा, रिवाज	रीतिः, परिपाटी, आचार	रीत	रिवाज (रस्म)	रीथ	रीति, तरीक़ो	प्रथा, रीती
		2. काम करने का विशिष्ट ढंग या तरीका, कायदा	विधिः	रीत	क़ायदा	चलुॅनी	–	पद्‌धत
रुकना	अ.क्रि.	ठहरना, थमना	√स्था	रुकणा	रुकना	ठॅहरुन, रुकुन	रुकिजणु	थांबणें
रुकावट	स्त्री.	विघ्न, बाधा, अटकाव	बाधा, अवरोधः	रुकावट, रोक	रुकावट, ख़लल	रुकावट	रुकावट	विघ्न, बाधा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रिश्वत-खोरी	लांच	भ्रष्टाचार, घूसखोरी	घुश खाओया	घोच खोवा कार्य, उत्कोच-लोवा-काम	शेन् चाबा	उत्कोच, लान्च नेबा, घुष नेबा	लंचगां - डितनम्	लंचम्, ऊळल्	कैक्कूलि, कोळ्	लंच-तिन्नुविके
रीझवुं, खुश थवुं	मोहप	रिझिनु, खुसी हुनु	मुग्ध हओया, मोहित हओया	मोहित ह, मुग्ध ह	मीहौहन्बा, हराओहनबा	मोहित हेबा, प्रसन्न हेबा, संतोष, संतुष्ट हेबा, परितृप्त-करिबा	प्रसन्नुडगुट	मयंगि विड	संतोषि-क्कुक, मोहिक्कुक	मुग्ध-नागुवुदु
रीति, रुढ़ि	रीत	रीति, प्रथा	रीति, प्रथा, दस्तुर	रीति, प्रथा, चलित-नियम	चत्नबी	रीति, प्रथा, दस्तुर	आचारमु	वळक्कम्	रीति, पतिवॅं	रूढि
पद्धति, शैली	पद्धत	काइदा, तरिका	धरण	कायदा, पद्धति, रचनाशैली	थबक् तौबगी मओङ्	काइदा, पद्धति	रीति, पद्धति	चॅयल् मुरै	संप्रदायम्, मट्टॅं	रीति
रोकावुं	थांबप	अडिनु, रोकिनु, थामिनु	थामा, थामानो	र, थाम	खांबा, लेप्पा	रोकिबा, बंद-करिबा	आगुट	तंग, निर्क	निल्क्कुक	निल्लुवुदु
रुकावट, रोकाण	आडखळ	बाधा, अड्को, रोकावट	बाधा, प्रतिरोध, प्रतिबेध	बाधा, बांधकता	अथिङ्बा, अपन्बा	बिघ्न, बाधा, अंतराय-सृष्टि-करिबा	आटंकमु	तंगुतडै	विघ्नम्, तटस्सम्	तडे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रुचना	अ. क्रि.	रुचि के अनुकूल प्रतीत होना, अच्छा लगना; भाना	√रुच्	रुचणा	भाना	प्रेंयुन	वणणु, पसंद पवणु	रुचणें
रुचि	स्त्री.	1. अच्छा लगने की वृत्ति	रुचिः	रुची	ख़्वाहिश	रगबथ	रुची, चाहु	इच्छा
		2. दिलचस्पी	–	रुची	रग़बत, शौक़	–	दिलचस्पी	रुची, गोडी, आवड
रुपया	पुं.	सौ पैसे के मूल्य का भारतीय सिक्का या नोट	रुप्यकम्	रुपइआ	रुपया	रोंपुंयि	रुपयो	रुपया
रुष्ट	वि.	1. रोष से भरा हुआ, क्रुद्ध	रुष्ट	गुसैल	बरहम	रुठमुत, खफ़ुं	नाराज़	रुष्ट, क्रुद्ध
		2. रूठा हुआ, अप्रसन्न	–	रुस्सिआ	नाराज़ (ख़फ़ा)	नाराज़	रुठलु	रुष्ट, रुसलेला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रुचवुं, गमवुं	रुचप	मन पर्नु, रुच्नु	रोचा, रुचिकर, भालो लागा	भाल लाग, जुति लाग	पाम्जना	रुचिबा, भल-लागिबा	रुचिंचुट	मनदुक्कुप् पिडिक्क	रुचिक्कुक	रुचिसुवुदु
रुचि, इच्छा	रुची	रुचि, भोक, इच्छा	रुचि, इच्छा, अभिरुचि	रुचि, इच्छा, सेवाद, सौंदर्य	अनिङ्बा	रुचि, इच्छा	मक्कुव	इच्चै, चुवै	रुचि	इष्ट
दिल-चस्पी	गोडी	चासो, वास्ता, अभिरुचि	आग्रह	रुचि, जुति, शोभा, सौंदर्य	अपाम्बा	आग्रह, रूचि	अभिरुचि	विरुप्पम्	तात्पर्यम्	आसे
रुपियो	रुपयो, रुपय	रुपियाँ, रुपैयाँ	टाका	टका, टका-पइसा, मुद्रा	लुपा	टंका	रूपायि	रूबाय्	रूप, उरुप्पिक	रुपायि
रुष्ट	रागीश्ट	रुष्ट, क्रुद्ध	रुष्ट, क्रुद्ध	रुष्ट, क्रुद्ध, रुष्अ	अशाओबा	रुष्ट, क्रुद्ध, असंतुष्ट, राग	रोष-पडिन	कोपमडैंद	क्रुद्धन्	कोप-गोण्ड
रुठेलुं	अप्रसन्न	रिसाएको, अप्रसन्न	मानी, अभिमानी	असंतुष्ट, ओफोँदा-लगा	शाओ-निङ्बा, पेन्दबा	असंतुष्ट	अलिगिन	कोपमाह	पिणङ्ङिय	अप्रसन्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रूखा	वि.	जिसमें चिकनाहट का अभाव हो, शुष्क, नीरस	रुक्ष	रुक्खा	रूखा	होंख	अणिभो, रूखो, खुश्क	रुक्ष, कोरडा, नीरस, शुष्क
रूठना	अ.क्रि.	रुष्ट या अप्रसन्न होना	√रुष्	रुस्सणा	रूठना	रोशुन	रुसणु	रूसणें
रूढ़ि	स्त्री.	परंपरा से चली आई कोई ऐसी प्रथा, जिसे साधारणतया सभी लोग मानते हों	रूढिः	रूढ़ी (रिवायत)	रस्म	परंपरा	रसम, पुराणी रीति	रूढ़ी
रूपक	पुं.	1. ऐसी साहित्यिक रचना, जिसका अभिनय हो सके, नाटक	रूपकम्, नाटकम्	रूपक	ड्रामा	रूपक	नाटकु	नाटक
		2. साहित्य में एक प्रकार का अर्थालंकार (मेटाफर)	रूपकम्	रूपक	इस्तिआरा	शॉयिरी हुंद गन	रूपकु	रूपक, अर्थालंकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रुक्ष, लूखुं, नीरस	रुक्ष, सुकिल्लो, नीरस	रुखो, सुक्खा, फुस्रो, नीरस, बिर्सिलो, शुष्क	रुक्ष, रूखा (क्ख), शुष्क, नीरस	रुक्ष, कठुवा, शुकानं, नीरस, खहटा अमृसन	महाओ याओदबा, अकङ्बा, मरेक महाओ याओदबा	रुक्ष, नुखुरा, शुष्क, निरस, अप्रसन्न, निरानंद, निष्प्रभ	ऍंडि-पोयिन, शुष्कमैन	वरण्ड, चुवैयट्ट	मिनुसमि-ल्लात्त, उणङाङिय, शुष्कमाय	ओणगिद, तुप्प हच्चद, ओणगिद
रूठवुं, कोपवुं	राग येवप, रागार	क्रोधित हुनु, रिसाउनु, अप्रसन्न हुनु	मानकरा, रुष्ठ हओया	असंतुष्ट ह, रुष्ठ ह	शाओबा, ओइनबा	रागिबा, रुष्ठ हेबा, क्रुद्ध हेबा	अलुगुट	कोपिक्क, ऊडल् काळ्ळ	पिणङ्ङुक	मुनियुवुदु
रूढ़ि	रुढी	रूढि, परंपरा	परंपरागत	प्रचलन, रीति, परंपरा उत्पत्ति	चत्लबी	परंपरा, प्रचलन, रीति	रूढ़ि	परंपरै, वऴक्कम्	मामूल्, पारंपर्यम्	वाडिके
रूपक, नाटक	नाटक	नाटक, रूपक	रूपक, नाटक	रूपक, नाटक, बेशधारण	ड्रामा, शक्तम	रूपक, नाटक, एकांकिका	रूपकमु	चिरुनाडगम्	रूपकम्	नाटक
रूपक, अर्थालंकार	रूपक अलंकार	अर्थालङ्कार	अर्थालंकार	रूपक, उपमा-उपमेय-अभेदक अलंकार	अर्था-लंकार मखल आमा	रूपक, अर्थ अलंकार	रूपका-लंकारमु	उरुवणि	रूपका-लंकारम्	रूपक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रूपरेखा	स्त्री.	1. रेखाओं द्वारा ऐसा अंकन, जिससे किसी के रूप का स्थूल ज्ञान होता हो (स्केच)	रेखाचित्रम्	रूपरेखा	ख़ाका	खाकुँ	रूप रेखा	रूपरेखा
		2. किसी कार्य या बात के संक्षिप्त रूप (आउट-लाइन), योजना आदि का खाक़ा	रूपरेखा	रूपरेखा	–	–	–	रूपरेखा
रूपांतर	पुं.	रूप-परिवर्तन	रूपान्तरम्	रूपांतर	तब्दीली-ए-हैअत	तरजमुँ	उल्थो	रूपांतर
रेंगना	अ. क्रि.	पेट के बल सरकना (क्रीप)	√रिङ्ग	रेंगणा	रेंगना	येँड सूँत्य पकुन	रेढ़ियूं पाइणु, सुरणु	सरपटणें
रेखागणित	पुं.	ज्यामिति (जिओमिट्री)	रेखागणितम्	रेखागणित	इल्मुल मिसाहत	जामट्री	जामेट्री, रेखागणित	भूमिती, ज्यामिती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रूपरेखा	आराखडो, नक्शो, स्कॅच	रूपरेखा, रेखाङ्कन	परिलेख, स्केच	आँचनि, रूपरेखा, मूल-विषय-वस्तु	चाओराक्ना येक्पा, स्केच	रूपरेखा, चिन्ह, आकार, बाह्य-रेखा	रेखा-चित्रमु, स्केच	उरु वरैवम्	स्कॅच्	रूपरेखे
रूपरेखा	रूपकार, संक्षेप	मसौदा, खेस्रा, पूर्वयोजना	संक्षिप्त खसड़ा	रूपरेखा, आकृति बा सीमा-निर्देशक-रेखा	चाओराक्पा शक्तम	रूपरेख, संक्षिप्त-रूप, आकार	रूप-रेख	तिट्ट उरु वरै	संक्षिप्त रूपम्	स्थूल विवरणे
रूपांतर	रूपांतर	रूपांतर	रूपांतर, रूप-परिबर्तन	रूपांतर, अन्य रूप परिवर्त्तन	मशक् होङ्बा, मशक् ओन्बा	रूपांतर, परिवर्तन, अबस्था-बदलिबा	रूपांतरमु	उरु माट्रम्	रूपांतरम्	रूपांतर
सरकवुं	सरपटप	घस्रनु, घिस्रिनु, बामे सर्नु	हामागुड़ि देओया	चोँचर, बगुवा	उप्राक्ना शित्पा शित्तुना चत्पा	गुरुंडिबा, हामुडेइ-चालिबा	प्राकुट	तवळ	इळयुक	अंबेगालि-डुवुदु, तवळुवुदु
रेखा-गणित	भुमिती	रेखा-गणित, ज्यामिति	ज्यामिति	ज्यामिति, आँक-आँच ज्यामितिक-कार्य	जिओमिट्री	ज्यामिति, रेखागणित	क्षेत्र-गणितमु	क्षेत्तिर गणितम्, वरै गणितम्	रेखागणितम्	रेखागणित

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रेखाचित्र	पुं.	केवल रेखाओं से बनाया गया कोई चित्र या आकृति (स्केच)	रेखाचित्रम्	रेखाचित्तर	नक़्शा, ख़ाका	खाकुॅ	रेखाचित्रु	रेखाचित्र
रेजगारी	स्त्री.	छोटे सिक्के, छुट्टा	क्षुद्रनाणकम्	भाँन	रेज़गारी (ख़ुर्दा)	फुटॅ वोट	रेज़गारी	चिल्लर, खुर्दा
रेत	स्त्री.	बालू	सैकतम्, बालुका	रेत	रेत	स्यख	रेती, वारी	वाळुं, रेती
रेलगाड़ी	स्त्री.	भाप, डीजल, बिजली आदि से लोहे की पटरियों पर चलने वाली गाड़ी	रेलयानम्	रेलगड्डी	रेलगाड़ी	रेलगॉड्य	रेलगाॾी	आगगाड़ी
रोक	स्त्री.	1. प्रतिबंध	प्रतिबन्धः	रोक	रोक	रोक, ठाख	रोक	प्रतिबंध
		2. रोकने (बाधा डालने या निषेध करने) की क्रिया या भाव	अवरोधनम्	रोक	–	रोक, ठाख	रोक, रुकावट	आडकाठी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रेखाचित्र	रेखाचित्र	रेखाचित्र, खाका	रेखाचित्र, स्केच	रेखाचित्र, केवल-रेखाइ-तोला चित्र	साहित्यगी विधा अमा, स्केच	रेखाचित्र	रेखाचित्रमु	कोडुकळाल् वरैंद पडम्	रेखाचित्रम्, स्कॅच्	रेखाचित्र
रेजगी	सूट्टें	खुद्रा, रेजगी, खुजुरा, फुटकर पैसा	भाङ्गानि, खुचरा, रेज्गि	भंङा-पइचा, खुचरा, भँगिनिया पइचा	शेल अचोइबा	खुचुरा, भंगा-पइसा	चिल्लर	चिल्लरै	चिल्लर्	चिल्लरे
रेती, वालुका	रेंव	बालुवा, रेत	बालु, बालि	बालि	लैङोइ	बालि, बालुका	इसुक	मणल्	मणल्	उसुकु, मरळु
रेल	आगगाडी, रेलवे	रेलगाडी, रेल	रेलगाड़ि, ट्रेन	रेलगाड़ी, लोर-गड़ परा चला दीघल-गाड़ी	रेलगाड़ी, ट्रेन	रेलगाड़ी, ट्रेन	रइलु-बंडि	पुगै वंडि, रयिल् वंडि	तीवण्टि	रैलु
रोक	प्रतिबंध	प्रतिबंध, रोक	प्रतिबंध, रोक	बंध, निषेध	बैन, अथिङ्बा	बाधा, प्रतिबंध, ब्याघात, बिघ्न	प्रतिबंधमु	तडै, तडुप्पु	तटस्सम्	तडे, निषेध
–	आडखळ	रोक्का, रोकावट	रोक, निषेध	बाधा, प्रतिरोध	थिङ्बा	बाधा, निषेध, प्रतिरोध	अड्डु	तडुत्तल्	तटस्सर्प्प-टुत्तल्	तडेयुविके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रोकथाम	स्त्री.	किसी प्रवृत्ति, रोग आदि के उन्मूलन तथा प्रसार आदि को रोकने के उपाय	निवारणम्	रोकथाम	रोकथाम	रोंट, वोंपाय	ज़ाब्तो, रोक	अवरोध
रोग	पुं.	बीमारी	रोगः	रोग	बीमारी	रूग, बेंमॉर्य	रोगु, बीमारी	रोग
रोचक	वि.	अच्छा लगने वाला, मनोरंजक	रोचक, रुचिकर	रोचक	दिलचस्प	दिलचस्प, मनपसंद	रोचक, मज़ेदार	रुचकर, मनोरंजक
रोजगार	पुं.	धंधा, पेशा, आजीविका का साधन	वृत्तिः	रोज़गार	रोज़गार	रोज़गार, रीज़िख	रोज़गारु	रोज़गार, धंदा
रोना	अ.क्रि.	आँसू बहाना, रुदन करना	√रुद्	रोणा	रोना	वदुन	रुअणु	रडणें
रोम	पुं.	शरीर पर के बाल, रोआँ	रोमन्, लोमन्	लूँ, रोम	रुआं	जथ, रुम	वारु, रोमु	लव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
रोकवुं ते	निवारक उपाय	रोकथाम	प्रतिरोध	रोध, बंध, असुख	अथिङ्बा	प्रतिरोध, बंद	निलुपुदल	तडुप्पु	तटस्सम्, प्रतिरोधम्	तडे, नियंत्रण
बीमारी, रोग	रोग	रोग, बिमारी, व्यथा	रोग, व्याधि, अस्वाभाबिक अबस्था	रोग, बेमार, व्याधि	अनाबा	रोग, व्याधि, बेमारि	रोगमु	वियादि, नोय्	रोगम्	रोग, कायिले
रोचक	मन-भुलयणो, आनंदाचो	चाखलाग्दो, मनोरञ्जक, रोचक	रोचक, रूचिकर, मनोरंजक	रोचक, सुस्वादु, मनोरंजक	हैनिङ्बा नुङ्ङाइबा	रोचक, रूचिकर, मनोमुग्धकर, मनोरंजन-कारी	रंजकमैन	रुचि-करमान, मनदुक्कु इनिय	रुचिक्कुन्न	स्वार-स्यवाद
रोजगार	धंदो	रोजगार, व्यवसाय, पेसा, कामधंदा	रोजगार, उपार्जन	बृत्ति, जीविकार-उपाय, आर्जन	शिन्फम, हिङ्नबगी पांबै	रोजगार, बृत्ति, जिबिका, उपार्जन	पनि, उद्योगमु	तॊळिल्, उद्दियोगम्	तॊळिल्, उपजीवनम्	उद्योग, कसबु
रोवुं	रडप	रुनु	काँदा, रोदन करा	कांद, बिलाप-कर	कप्पा	कांदिबा, रोदन-करिबा	एड्चुट	अळ	करयुक	अळुवुदु
रोम, वाळ	लहंव	रौं, रउँ, रोम	रोम, लोम, रोँआ	नोम, कापारत-आँह गात गजा चुलि	तू, तूबुम	लोम, रूम	रोममु, वेंट्रुक	रोमम्, मयिर्	रोमम्	रोम, कूदलु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
रोली	स्त्री.	हल्दी और चूने के योग से बना एक प्रकार का चूर्ण, जिससे तिलक लगाया जाता है	कुङ्कुमम्	रोली	रोली	रोली	रोली, कुमकुम	कुंकू
रोशनदान	पुं.	रोशनी, हवा आदि आने का छोटा रास्ता, गवाक्ष, वातायन	जालाक्षः, वातायनम्	रोशनदान	रोशनदान	रोशनदान	रोशानदानु	गवाक्ष
रोष	पुं.	क्रोध, गुस्सा, कोप	रोषः	रोस	गुस्सा, ग़ज़ब	शरारथ, गुसुॅ	कावड़ि, ग़ुसो	क्रोध, रोष
रौंदना	स. क्रि.	किसी चीज़ को पैरों तले पीसना, कुचलना	√मृद्	मिद्धणा	रौंदना, कुचलना	लतुॅ मोंजि करुन	लताड़णु, चीथाड़णु	तुडविणें
रौनक	स्त्री.	1. चमक-दमक, शोभा	शोभा	रौणक	रौनक़	रोनख, शूब	रौनक़	शोभा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
कंकु	कुकूम	कुङ्कुम, केसरी, देवपूजामा प्रयोग गरिने रातो रङको चंदन	टीप, फोटा	रोली, सुगंधी, हालधीया गुडि	चुंदोल	तिलक	कुंकुम	कुंकुमम्	तिलकम्, कुंकुमम्	श्रीचूर्ण, तिलक
बारी, गवाक्ष	झरोको	वातायन	गबाक्ष, बातायन (क्ख)	खिरिकि, बातायन, सुरुङा	नुङ्शित् नुङ्शा चङ्नबा थोङ्नाओ	झरका, गबाक्ष, बातायन	पइ-किटिकी	चाळरम्, कात्तुवारि	जन्नल्, जालकम्	गवाक्ष
रोष, गुस्सो	कोप, राग	क्रोध, रिस, रोष	रोष, राग, क्रोध, कोप	रोष, क्रोध खं	अशाओबा	रोष, क्रोध, कोप, राग	रोषमु	रोषम्, कोबम्	रोषम्	कोप
कचडवुं, कचरवुं	मुड्डप	कुल्चनु, कुल्चिनु, किच्नु, मर्दन गर्नु	मर्दन करा, पेषण करा (न)	गचक, खचक	नेत्खाइबा, नेत्पा, नेथत्पा	दलिबा, मर्दन-करिबा बा-मलिबा, पेशिबा	मर्दिंचुट, अणगद्रा-क्कुट,	कालाल् नशुक्क	चविट्टि-त्तेय्क्कुक	तुळियुवुदु मेट्टुवुदु
रोनक, तेज	शोभा	चमक-दमक, झिलीमिली, शोभा	चकमक, दमक, शोभा	शोभा, जेउति, जाक-जमक	निङ्थि-जरकपा	शोभा, चकमक	तळुकु-बळुकु, शोभ	पहट्टु, मिनुक्कु	शोभ, कांति	कळे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. चहल-पहल, जमघट	चाकचिक्यम्	रौणक	चहलपहल	–	चहल-पहल	धामधूम
लँगड़ाना	अ.क्रि.	लँगड़ा कर चलना	√खञ्ज्	लंगड़ाउणा	लँगड़ाना	लंगुन	मंडिकाइणु	लंगडणें
लंगर	पुं.	1. लोहे का बहुत भारी काँटा, जिसे नदी, समुद्र आदि में गिरा कर जहाज आदि को रोक कर स्थिर किया जाता है	नौकीलः, पोतबन्धः	लंगर	लंगर	लंगर	लंगरु	लंगर
		2. वह स्थान, जहाँ पका हुआ भोजन पंगत में बैठे भक्तों और गरीबों को खिलाया जाता है तथा इस प्रकार बाँटा जाने वाला भोजन	सन्त्रशाला	लंगर	–	–	लंगरु	अन्नछत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
भभको	–	चहल पहल, रौनक	धुमधाम, भिड़	हेँचा-ठेला, भीड़	मीयाम तिन्बा	धुमधाम, भिड़, आड़ंबर	संदडि	विमरिशै, कौलाहलम्	उत्साहम्	सडगर
लंगडावुं	लंगडप	खोच्याउनु, लँगडाउनु	खोँड़ानो, खोँड़ार मतो चला	लेङेरा, लेकेचिया	खोङ् शेक्ना चत्पा	छोटेइबा	कुंटुट	नॉण्ट	मुटंतुक	कुण्टुवुदु
लंगर	लंगर	लङ्गर	नङ्गर, नोङर (नौका बा जाहाजेर)	लंगर, नाओ-जाहाज-आँकोरा-यतन	जहाज फाननबा योटकी काची कारोङ्	नंगर, लंगर, जाहाज-रोकिबा, गरीब लोकंकु खाईबाकु देबा	लंगरु	नंगूरम्	नंकूरम्	लंगरु
लंगरखानुं, सदाव्रत	जेवण, अन्नछत्र	साधु, आगंतुक एवम् गरिब-हरुलाई सधैँ खानेकुरा बाँडिने पाकशाला, सदावर्त, सत्र	लङ्गरखाना, अन्नसत्र	दुखीया दरिद्रक खाद्य बिलोवा ठाइ	–	अन्न-छत्र, छतर-बाँटिबा, दुःखी-दरिद्र-मानंकु-खाद्य दान-करिबा	उचितं भोजनमु	अन्नदान चत्तिरम्	सत्रम्, सर्वणि भोजनम्	अन्नसत्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लंपट	वि.	कामी, विषयी	लम्पट	विशई, बिखई	बदकार, ज़िनाकार	लफंगुॅ, बदकार	कामी, बदकार	लंपट
लंबा	वि.	1. जो अधिक ऊँचा हो	प्रांशु	लम्मा	लंबा	ज़्यूठ, थोॅद	डिघो, लंबो	उंच
		2. अधिक विस्तार वाला, दीर्घकायिक	दीर्घकाय:	लम्मा	–	–	–	दीर्घकालीन
लकड़ी	स्त्री.	कटे पेड़ का कोई भी सूखा भाग, शाख, टहनी आदि	काष्ठम्	लकड़ी	लकड़ी	लर्कुॅर, ज़्युन	काठु, काठी	लाकूड
लकीर	स्त्री.	रेखा (लाइन)	रेखा	लकीर	लकीर	रुॅख	लीक, लकीर	रेघ, ओळ
लक्षण	पुं.	1. किसी वस्तु या व्यक्ति में होने वाला कोई ऐसा गुण या विशेषता जो सहसा औरों में दिखाई न देती हो (फीचर, करेक्टरिस-टिक्स)	लक्षणम्	लच्छण, लक्खण	सिफ़त, ख़स्लत, ख़ासियत	लख्यन	लछण, लक्षण, ख़ासियत	लक्षण, वैशिष्ट्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लंपट, कामी, व्यभिचारी	लंपट	लंपट, कामुक	लंपट, कामुक	लंपट कामुक	इराङ् तौबा, इराङ् पांबा	लंपट, कामुक, व्यभिचारी	कामुकुडु, विषयि	कामवॅरि कोण्ड	लंपटन, विष्या-सक्तन्	लंपट, कामि, व्यभिचारि
लांबुं	उंच	लामो, लामु, अग्लो	लँबा	अति ओख, दीघल	अवाङ्बा	लंबा, डेंगा, उच्चा	पॉडवयिन॑	नीळमान, मिग उयरमान	नीळमुळ्ळ	एत्तरवाद
दीर्घ-कालिन	दीर्घकाय	दीर्घकाय, बडेमाको	प्रसारित, विस्तृत	बिस्तृत, सुदीर्घ	अशाङ्बा	बिस्तृत, बिशाल, दीर्घ, व्याप्त	विशाल-मयिन॑	नींडकाल-त्तिय	दीर्घकालम्, निल्क्कुन्न	उद्दवाद
लाकडुं	लाकूड	काठ, लकडी	काठ	शुकान काठ	उशा अकङ्बा उ अकङ्बा	काठ, काष्ठ	कॉय्य॑, कर्र	मरक्कट्टै	तटि	कट्टिगे
लकीर, रेखा	रेघ, वळ	रेखा, धर्सो, लकिर	रेखा, लंबा दाग	रेखा	लैई, लाइन	रेखा, सरल-रेखा	गीत॑, रेख॑	कोडु	वर, रेख	गेरे
लक्षण, विशिष्टता	लक्षण, विशेषताय	विशेष चिह्न, गुण, परिचायक चिह्न, लक्षण	वैशिष्ट्य, गुण, लक्षण (ट्ट) (न)	लक्षण, बैशिष्ट, चिन, शुभाशुभ-बुजोवा	तौथोक्र-क्पा मओङ्	लक्षण, बिशिष्ट-गुण	लक्षणमु	लक्षणम्, विशेष गुणम्	लक्षणम्	लक्षण, गुणगळु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. शरीर में दिखाई पड़ने वाले वे चिह्न आदि, जो किसी रोग के सूचक हों या सामुद्रिक के अनुसार शुभाशुभ के सूचक हों	लक्षणम्	लच्छण	अलामत	लख्यन, लखचिन्य	निशानियूं	लक्षण, चिह्न
लक्षणा	स्त्री.	वह शब्द शक्ति, जो सामान्य अर्थ से अन्य अर्थ प्रकट करती हो	लक्षणा	लक्खणा, लच्छणा	अलामतीयत	लॅगिथ माने, लख्यना	लक्षणा	लक्षणा
लक्ष्मण-रेखा	स्त्री.	ऐसी सीमा, जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सके	लक्ष्मणरेखा	लछमण-रेखा	हिसार	लख्यमन रॅख	लक्ष्मण-रेखा	लक्ष्मण-रेखा
लक्ष्मी	स्त्री.	धन-संपत्ति की देवी, श्री, धन संपति	लक्ष्मीः, वित्त	लछमी	दौलत, शानो-शौकत, इक़बाल	लॅखिमी, लॉखिमी	लक्ष्मी/लछिमी	लक्ष्मी, धन, संपत्ती, श्री शोभा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चिह्न	चिह्न	लक्षण	लक्षण (न)	लक्षण, चिन, स्वभाव, चरित्र	हक्वाङ्दा उत्लक्पा लैनागी खुदम	लक्षण, चिन्ह, सुचना, संकेत	लक्षणमु	उडलिल् काणप्पडुम् अडैयाळंगळ्	लक्षणम्	लक्षण
लक्षणा	लक्षणा	लक्षणा	लक्षणा (न)	लक्षणा, आरोपित-अर्थ-बुझोवा	शब्द शक्तिगी मखल अमा	लक्षण, चिन्ह, अर्थ, माने	लक्षण	आगुर्पयर्	लक्षण	लक्षणा
लक्ष्मण-रेखा	लक्ष्मण-रेखा	लक्ष्मण रेखा	लक्ष्मण-गण्डि-रेखा (क्ख) (न)	लक्ष्मण-रेखा	लक्ष्मण-रेखा	लख्मण-रेखा, बिपदरेखा	लक्ष्मण रेख	ताण्डक् कूडाद एल्लैक् कोडु	लक्ष्मण रेख	लक्ष्मण रेखं
धनसंपत्ति, लक्ष्मी, शोभा, श्री	लक्ष्मी, धन-संपत्ती, शोभा, श्री	लक्ष्मी, श्रीसंपत्ति, समृद्धि, शोभा, सौभाग्य	लक्ष्मी, धनसंपत्ति (क्ख), शोभा, श्री	धन-संपत्तिर अधिष्ठात्री-देवी, धन-ऐश्वर्य शोभा, श्री, धान-चाउल	लन्गी लाइरेंबी, निङ्थिजबा	लख्मी, धन-संपत्ति-श्री, धन संपत्ति	लक्ष्मि, शोभ	सल्वम्, अळ्हु	ऐश्वर्यम्, शोभ	लक्ष्मि, ऐश्वर्य, संपत्तु, शोभे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लक्ष्य	पुं.	1. निशाना	लक्ष्यम्	निशाना, टीचा	निशाना	निशानुँ	निशानु, लक्ष्यु	लक्ष्य
		2. अभीष्ट वस्तु, उद्देश्य	–	निशाना, टीचा	नुस्बुलऐन	मकसद	मक़सदु	उद्देश्य
लखपती	पुं.	लाखों रुपए का मालिक, बहुत अमीर व्यक्ति	लक्षपतिः	लक्खपती	लखपती	लछि वोल	लखापती	लक्ष्याधीश
लगन	स्त्री.	मन का किसी ओर लगना, धुन, लौ	अभिनिवेशः	लगन	लगन	लगन, कल, मन, लगुन	लगन	छंद, ध्यास, तळमळ
	पुं.	विवाह या अन्य शुभ कार्य का मुहूर्त्त	मुहूर्त	लगन	–	–	कंहिं शुभ कम जो मुहूर्त	मुहूर्त,
लगान	पुं.	सरकार को मिलने वाला भूमि कर, भूकर	भूकरः	हाला, मुआमला, मालगुज़ारी	लगान (मालगुज़ारी)	लगान मॉलियि	ढल, लगान	महसूल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लक्ष्य, निशान	लक्ष्य	लक्ष्य्, निसाना	लक्ष्य, बेध्य	लक्ष्य, उद्देश्य, काम्य-विषय	पांदम	लख्य, उद्देश्य	लक्ष्यमु	कुरि	उन्नम्, लक्ष्यम्	गुरि
उद्देश्य, ध्येय	उद्देश्य	उद्देश्य्, ध्येय, ताक	उद्देश्य	उद्देश्य, दृष्टि-आघात-कील खोजा वस्तु	अनिङ्बा पांदम	उद्देश्य, अभिष्ट, अभिलाष	लक्ष्यमु	कुरिक्कोळ्	उद्देशम्	उद्देश
लखपति	लखपती, लाखोपती	लखपति	लक्षपति	लाखपति, बहुटका-थका-लोभ	लाखपति, इनाक् खुन्बा मी	लक्षपति, धनी	लक्षाधिकारि	लक्षातिपति	लक्षाधिपति, लक्षप्रभु	लक्षाधिपति
लगन, धून	ध्यास	लगन, तल्लीनता	झोंक, आग्रह, तन्मयता	आसक्ति, रति, ध्यान, तन्मयता	पुक्निङ् चङ्बा	लग्न, लगन, ध्यान, तन्मयता	पट्टुदल	ऊक्कम्	उत्साहम्, तात्पर्यम्	गमन
लग्न	मुहूर्त	लगन, मुहूर्त, साइत	लग्न	लग्न, शुभक्षण, ध्यान-तन्मयता	–	लग्न, शुभ क्षण, शुभ-समय	लग्नमु	नल्ल नेरम्	शुभ लग्नम्, मुहूर्त्तम्	लग्न
महेसूल	कर	मालपोत, भूमिकर	कर, खाजना, राजस्व	राजह, खाजाना	अफबा पुङ्फम	भूमिकर, खजणा, राजस्व	शिस्तु	निलवरि	भूनिकुति	कंदाय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लगाना	अ. कि.	1. जोड़ना, संलग्न करना	√योजय्	लाउणा	लगाना	लगावुन	जोड़णु, लग़ाइणु	जोडणें
		2. रोपना	√रोपय्	लाउणा	मुन्सिलकरी करना	ववुन	लग़ाइणु, पोखणु	लावणें
लगाम	स्त्री.	बाग, रास	रश्मिः, वल्गा	वाग, लगाम, रास	लगाम	लाकम	लग़ामु	लगाम
लगाव	पुं.	1. जुड़ने का भाव, स्नेह	स्नेहः	लगाउ	लगाव	लगाव, दिलचस्पी	लग़ाउ, नेहु	स्नेह
		2. दिलचस्पी	रुचिः	लगाउ	दिलचस्पी	दिलचस्पी	दिलचस्पी	आवड
लघुतम	वि.	सबसे छोटा	लघुतम	लघुतम	असग़र	सारिवुँय लोकुट	सभ खां नंढो/नंढी	लघुतम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लगाववुं	जोडप	जोड्नु, संलग्न गर्नु, लगाउनु	जोड़, युक्त करा	जोरा, लगलगा, संयोग करा	लमगी खाजना	लगाइबा, जोड़िबा, संजोग-करिबा	जोडिंचुट	इणैक्क	कूट्टुक	जोडिसुवुदु
रोपवुं	रोपप	रोप्नु (बोट-बिरुवा) लाउनु	लागानो, रोपा	रो, पोत, रोपण करिबा	नप्शिन्बा, हापचिन्बा, थाबा	लगाइबा, रोपण-करिबा	नाटुट	नड	नटुक	नेडुवुदु
लगाम, राश	लगाम	लगाम	लगाम, बलगा, रास	लेकाम, लेगाम	चुक्ली	लगाम, घोड़ार-बाग	कळ्ळ्मु	लगान, कडिवाळम्	कटिञ्ञाण्	लगामु
लगाव, स्नेह	स्नेह	स्नेह, दयामाया	आसक्ति, अनुराग	मरम, स्नेह	नुङ्शिबा	स्नेह, आसक्ति, अनुराग	अनुरागमु	अन्बु, पट्टु	स्नेहम्	स्नेह
दिलचस्पी	आवड	चासो, सरोकार	रुचि	आकर्षण	थवाइ याओशिन्बा	आकर्षणीय, रुचिकर, मनलोभा, मनोमुग्धकर	आसक्ति	अक्करै	अभिरुचि, तात्पर्यम्	अभिरुचि
लघुतम	सगळया ल्हान, लघुत्तम	लघुतम	सबचेऐ छोढो	आटाइतकै सरु, हीन, अपदस्थ	ख्वाइदगी पिक्पा	लघुतम, क्षुद्रतम, सान	कनिष्ठमैन	मिगच्चिरिय	लघुवाय, वळरे चूचेरिय	अत्यंत-चिक्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लचकना	अ. क्रि.	1. दबाव आदि पड़ने के कारण किसी लंबी चीज का मध्य भाग पर से कुछ झुकना या मुड़ना	अव +√नम्	लिफणा	लचकना	अलोंद गछुन	लचिकणु	वाकणें, लचकणें
		2. चलते समय कमर का थोड़ा झुकना या मुड़ना	अव + √कुञ्च्	लिफणा	ख़म खाना	ग्राय ख्यॅन्य	–	लचकणें
लजाना	अ. क्रि.	लाज या शर्म से सिर नीचा करना, शर्माना, लज्जित होना	√लज्ज्	संगणा	शर्माना	शरमंदुं गछुन	लज करणु, शर्माइणु	लाजणें
लज्जा	स्त्री.	लाज, शर्म, हया	लज्जा	संग, लाज	शर्म (हया)	शरॅम	लज, शरमु	लज्जा, लाज
लटकना	अ. क्रि.	1. ऊँची जगह से नीचे की ओर लंबित होना	√लम्ब्	लटकणा	लटकना	अलोंद ग़छुन	लटिकणु, टंगिजणु	लोंबकळणें, लोंबणें
		2. काम पूरा न होना, देर होना	वि + √लम्ब्	लटकणा	इलतेवा में पड़ना	–	देर थियणु	उशीर होणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लचकवुं	वाकप	लच्कनु	झुंका/ झोंका	भाँज लाग, बैंका ह	कोंथरक्पा, चोंथरक्पा	लटकिबा, नचकिबा	वंगुट, कंपिचुट	तुवळ, वळैंदु कोडुक्क	वळयुक	मणियुवुदु
लचकवुं	लचकप	लच्कनु, लस्कनु	झुँकानो, बाँकानो	कँकाल हाल	कोन्बा	बांकिबा, नइंबा, नइं नइं- चालिबा	वंगुट	कून् विळ	कूनुक	बग्गुवुदु
शरमावुं, लाजवुं	लज़प	लजाउनु, सर्माउनु	लज्जित हओया	लाज- पा	इकाइना लुक्थबा, इकाइबा	लाजेइबा, लज्जित- हेबा	सिग्गु- पडुट	वेट्कप्पड	लज्जिक्कुक नाणिक्कुक	नाचिके पडुवुदु
लज्जा, शरम	लाज़	लाज, सरम	लज्जा, व्रीड़ा, शरम	लाज, संकोच, क्रीड़ा	इकाइबा	लज्जा, लाज, सरम, अपदस्त बा- अपमानित	लज्ज, बिडियमु, सिग्गु	वेट्कम्, नाणम्	लज्ज, नाणम्	नाचिके
लटकवुं, झूलवुं	लोंबकळप	लट्कनु, झुन्डिनु	लटकानो, टाङ्गानो	ओलमा	यांथरक्पा	लटकिबा, नचकिबा	व्रेलाडुट	तोङ्ग	तूङ्डुक	नेताडुवुदु
मोडा पडवुं	उशीर जावप	काम बाँकी रहनु, झुन्डिनु, लट्कनु	झुलानो	असंपूर्ण है, थाक बा र	लोइहौदबा	लटकिबा, असंपूर्ण- हेबा, ड़ेरि हेबा	आगि- पोवुट	वैलै तामदप्पड	कुळयुक	तडवागुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लट्टू	पुं.	लकड़ी का एक खिलौना, जिसके मध्य में कील जड़ी होती है और जो चलाए जाने पर उक्त कील पर घूमने या चक्कर लगाने लगता है (स्पिनिंग टॉप)	भ्रमरक	लाटू	लट्टू	मर्चु पिपिन्य, मरचु लॉट	लाटूं	भोवरा
लड़कपन	पुं.	1. बाल्यावस्था, बचपन	बाल्यम्, शैशवम्	बचपण	लड़कपन	लॉकचार	नंढपणु, बालपणु	बालपण
		2. बचकाना आचरण	बालिशत्वम्	बचपणा	बचपन	लॉकचार	बाराणो वहिंवारु	पोरकटपणा
लड़का	पुं.	1. बालक, जो अभी युवक न हुआ हो	बालः	मुंडा, लड़का	लड़का	बालुख, लॅडकुँ	छोकरो	मुलगा
		2. पुत्र	पुत्रः	मुंडा, लड़का, पुत्तर	लड़का	लॅडकुँ	पुटु	पुत्र
लड़खड़ाना	अ. क्रि.	चलते समय सीधे न रह सकने के कारण इधर-उधर झुकना, डगमगाना	√स्खल्	लड़खड़ाउणा	लड़खड़ाना	लंगुन	थाबिड़िजणु	लटपटणें, तोलजाणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लट्ट, भमरडो	भोंवरो	लट्टू, भुरूङ	लाटीम, लाट्टु	लाटुम, लाटिम	खूङ्	लटु, नटु	बोंगरमु	पंबरम्	पंपरम्	बुगुरि
बचपण, बाळपण	बाळपण	लडकपन, बालकपन	बाल्याबस्था, छेलेबेला	शैशब, लराकाल, बाल्यकाल	अङाङ् ओइबा मओङ्	पिलाबेल, बाल्याबस्था, शैशब	बाल्यमु	पिळ्ळै-प्परुवम्	कुट्टिक्कालम्	बाल्य
छोकरमत	पोरकटपण	केटा-केटीको आचरण, लडकपन	छेले मानुषि	लरालि	अङाङ्गी लिचत्	शैशव, पिलालिआ	पिल्ल-तनमु, कुर्र-तनमु	चिरु पिळ्ळैत्तनम्	कुट्टित्तम्	हुडुगुतन
छोकरो	चलो	केटो, ठिटो	बालक	लरा, पुत्र-संतान, कम-बयसीया लोक	नुपामचा	बालक, पिला, छोट पिला	बालुडु	पैयन्	आण्कुट्टि, बालन्	हुडुग
पुत्र, दीकरो	पूत	छोरा, पुत्र	पुत्र	पो, पुत्र	मचानिपा	पुत्र, पुअ	कुमारुडु	मगन्	पुत्रन्	मग
लडथडवुं, गोथुं खावुं	लटपटप	लडबडाउनु, लरबराउनु	टला, टलमलानो	ढलं पलं कर, थरक-बरक कर, लरक-फरक	फैरङ्-तुरङ् चत्पा, हाइरङ्-तुरङ् चत्पा	टल-मल-हेबा, थरि-थरि-चालिबा, दोलायित बा-कंपित भाबरे-चालिबा	तडबडुट	तळ्ळाड	इटरुक, चांचाटुक	तूराडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लड़ना	अ. क्रि.	लड़ाई करना, भिड़ना, झगड़ना	√कलह्	लड़ना	लड़ना	लड्डुन	विढ़णु	भांडणें
लता	स्त्री.	जमीन पर या किसी आधार पर फैलने वाला पौधा, बेल	लता	वेल	बेल	पोशि थॅर, क्रीपर	वलि, लता	वेल, लता
लदना	अ.क्रि.	बोझ या भार से युक्त होना	भारेण √ नम्	लद्दणा	लदना	लदुन	लड्डिजणु	लादणें
लपकना	अ. क्रि.	1. सहसा तेजी से या फुर्ती से आगे बढ़ना	क्षिप्र + √धाव्	बोचणा, लपकणा	लपकना	जेंम्प्य छुँनुँन्य, लपुकुन	तकिड़ो या ओचितो वधणु	झेप घेणें
		2. फेंकी गई किसी वस्तु को जमीन पर गिरने से पूर्व पकड़ लेना	प्र + √ ग्रह	–	लपकना	थफ दिन्य	झपणु	पकडणें
लपट	स्त्री.	आग की लौ, ज्वाला	शिखा	लाट	लपट, लौ	रेंह, ब्रेंह	जिभ़ी, लौ, लाट	ज्वाला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लडवुं	झगडप	जुध्नु, लड्नु, भिड्नु	लड़ाइ करा, झगड़ा करा (झगड़ा करा)	युँज, काजिया-कर, संग्राम-करा	खत्नबा, लाल् शोक्नबा	लढ़ाई करिबा, कलिकजिआ-करिबा, कलि-करिबा; झगड़ा करिबा	पोराडुट	चण्डैयिड, पोर् पुरिय	युद्धम् चेय्युक, पट वेट्टुक इटयुक	जगळ माडुवुदु, युद्ध-माडुवुदु
लता, वेल	वेल, लता	लहरा, लता	लता, बल्लरि	लता, लतिका	ऊरि	लता, बल्लभि	लत, तीर्ग	कोडि	लत	बळ्ळि, लते
लादवुं	लादप	लादिनु	लादा, बोझा चापानो	बोजाइ ह, गधुर ह	लुंबा	लदिबा, बोझ-लदिबा	बरुवु-मोयुट	चुमै एट्टप्पड	भारम् कयट्टुक	होरल्पडुवुदु
लपकवुं	ताबडतोब	लम्किनु	एगोनो	बेगेरे आग बाढ़, जोरेर-ओलोवा-जुइ	परप-परप चत्पा	द्रुत-चालिबा, शीघ्र-चालिबा, फुर्तिरे चालिबा	वेगमुगा-मुंदुकु-सागुट	मेले पाय, विरैंदु मुन्नेर्	कुतिच्चु चाटुक	पुटियुवुदु, चिम्मुवुदु
पकडी लेवुं, झीलवुं	पकडप, धरप	समाउनु, पक्रनु	लुफा	थाप मारि धर	ओक्पा	तोलि नेबा, धरि नेबा	पैनुंडे-पट्टुकोनुट	पिडिक्क	चाटि पिटिक्कुक	हिडियुवुदु
ज्वाळा	ज्वाळा	लप्को, राँको	अग्नि-शिखा	जुइर शिखा	मैरी	ज्वाला, ज्वलन निआँर-तेज	मंट	तीप् पिळंबु, जुवालै	ज्वाल	ज्वाले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लपेटना	स. क्रि.	सूत, कपड़े आदि को किसी चीज के चारों ओर फेरा देकर बाँधना	अव+ √ चि	वल्हेटणा	लपेटना	वलुन	लपेटणु	गुंडाळणें
लय	पुं.	एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विलीन होना, समा जाना	लय:	लै	हल्	लय	लइ थियणु	विलय
	स्त्री.	स्वर के आरोह-अवरोह का ढंग	लय:	लै	लय	लय	लइ	लय
ललकार	स्त्री.	लड़ने के लिए प्रतिपक्षी को दी गई चुनौती	समाह्वानम्	वंगार	ललकार	ललकार	ललकार	ललकार
ललकारना	स. क्रि.	विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना	सम् आ + √ह्वे	वंगारना	ललकारना	ललकारुन	ललकारणु	ललकारणें, आव्हान देणें
ललचाना	स. क्रि.	कोई चीज देखकर किसी के मन में लोभ का भाव जगना	√लुभ्, √गृध्	ललचाउणा	ललचाना	तंबॅलुन	लालचाइणु	लालायित होणें, लालचावणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लपेटवुं, वीटवुं	गुंडाळप	बेर्नु, लपेट्नु	जड़ानो	मेरियाब, पका नुरिया	योमशिन्बा	बाँधि- रखिबा	चुट्टुट	चुट्ट	चुट्टुक	सुत्तुवुदु
लय, विलय	विलीन	विलय, मिलान	लय, बिलीन	लय, लीन काल- परिमाण	तिन्बा	बिलय, विलीन, निश्चिह्न	लयमु	आॅन्रि विडुदल्	विलयम्	लय विलीन- वागुवुदु
लय	लय	लय	लय, बिलीन	लय, लीन, विलीन- होवा, नाश	स्वरगी अनेम- अवाङगी मओङ्	लय, लीन, तन्मय, हजिजिबा, बिस्मृत हेबा	लयॅ	लयम् (इशैयिल्)	लयम्	लय
ललकार, डकार	ललकार	हाँक, चुनौती, ललकार	ललकार	आह्वान, प्रत्याह्वान	शिङ्नबगी खोल्लाओ	आह्वान- करिबा	पिलुपु, सवालु	अरैकूवल्	वॅल्लुविळि	युद्धक्के करेयुविके
ललकारवुं, पडकारवुं	ललकारप	ललकार्नु, हाँक दिनु	लड़ाई-ए आह्वान	प्रत्याह्वान कर	शिङ्नबा, मुक्खाइ- नबा	आह्वान- देबा	कालु- दुय्युट	अरैकूव	वॅल्लु विळिक्कुक, पोरिनु विळिक्कुक	युद्धक्के आह्वानि- सुवुदु
ललचावुं, लालसा करवी	ओडलावप	लोभिनु, ललचाउनु	लुब्ध हओया	लोभ लगा, लालायित कर	मीहौबा	लोभ- करिबा, लालायित- हेबा, प्रलुब्ध- हेबा	आश पडुट	आशै काट्ट	कॉतिप्पि- क्कुक	आसे पडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
ललाट	पुं.	1. माथा	ललाट	मत्था	पेशानी	ड्यकुॅं	ललाटु, मथो, निरिड़ु	ललाट, कपाळ
		2. भाग्य	भाग्य	भाँग	किस्मत	लोन	भाग्य, भागु	भाग्य, नशीब
ललित	वि.	मनोहर, सुंदर	ललित	सोह्णा, ललित	लतीफ़ (जमील)	सौंदर	सुहिणो, मनोहर	ललित
लहर	स्त्री.	हिलोर, मौज, तरंग (वेव)	तरङ्गः	लहिर	लहर (मौज)	मलख, लॅहर	लहर	लाट, तरंग, मौज, आनंद
लहराना	अ. क्रि.	हवा के झोंकों से हिलना-डुलना	आ+ √कम्प्	लहिराउणा	लहराना	लहरावुन, वुडुन	लहराइणु, फड़िकाइणु (झंडो)	फडफडणें, हलणें
लहलहाना	अ. क्रि.	हरा भरा होना, पनपना	आ + √कम्प्	खिड़ना	लहलहाना	फौलुन, खिलुन	साओ-सब्जु थियणु	बहरणें
लहू-लुहान	वि.	खून से तर-बतर	रक्तरञ्जित	लहू लुहान	लहू लुहान	रतुँ दॉव्य, खूनुॅं-सर्य	रतो-रतु	रक्त रंजीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
ललाट, कपाळ	कपाळ	निधार, मस्तक	ललाट, कपाल, माथा	कपाल	लाइबक	ललाट, कपाल, मथा, मुंड	ललाटमु, नॊसलु	नॆट्टि	नॆट्टि, ललाटम्	हणे
भाग्य	भाग्य, नसीब	भाग्य, प्रारब्ध	भाग्य	भाग्य	नोङदंबा	भाग्य, भवितव्यता, विधि	ललाटरेख, नोसटिव्रात	विदि, तलैएॅ कुत्तु	भाग्य, विधि	हणे बरह
ललित, मनोहर, सुंदर	ललित	ललित, मनोहर, सुंदर	ललित, मनोहर, सुंदर	मनोहर, सुंदर, ललित, सुकोमल	निङ्थिजबा, फजबा	सुललित, (ललित) मनोहर, सुंदर	ललितमैन	अऴगान	लळितम्	मनोहर, ललित
लहेर, तरंग, मोजुं	लाट, तरंग	छाल, लहर	ढेउ, तरंग	लहर, ढौ, तरंग, शारी	ईथक्, ईपोम्, नुङ्इबा	लहड़ी, तरंग, ढ़ेउ	अलॆ, कॆरटमु	अलै	तरंगम्	अलॆ
लहेरावुं	तरंगप, धोलप	हल्लनु, हल्लिनु	दोल खाइपा, दुलुनी	हाल-जाल, दोलायित	ईथक हौबा	आंदोलित-हेबा, दोलायित-हेबा	आडुटॆ, अल्लाडुटॆ	अलै वीश, काट्टिल असैय	तिरयटि-क्कुक	अल्ला-डुवुदु
लहेरावुं	फुलोर, कवकवीत	लहल-हाउनु, हरिलो-भरिलो हुनु	सबुज हओया, पल्लबित हओया	लहपहकै बाढ़, लहपहा	ईशङ् शङ्बा, तेकखत्पा	सबुज-हेबा, सागुआ हेबा, पल्लबित-हेबा	पच्चॆ-पच्चगा-मॆरयुटॆ	पसुमै तविऴ	तळिर्क्कुक, पच्च पिटिक्कुक	हुलुसागि-बॆळॆयुवुदु
लोही-लोहाण	रक्त बंबाळ	रक्ताम्मे, रगतपच्छे	रक्ताक्त	तेजेरे लुतुरि-पुतुरि	ईना पुम्लुप् लुप्वा, ईखेङ् ताबा	लहु-लुहाण, रक्ताक्त, रक्त-रंजित	रक्तसि-क्तमैन	रत्तक्कळ-रियान	रक्तमयम्, चोरपुरण्ट	रक्तमय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लाँघना	स. क्रि.	डग भर कर या छलाँग लगाकर पार करना, फाँदना	√लङ्घ्, उत् + √ लङ्घ्	लंघणा	फाँदना	लांफ तुलुॅन्य	लंघणु	उल्लंघणें
लांछन	पुं.	चरित्र पर धब्बा, कलंक	लाञ्छनम्	तोहमत	दाग़	दाग	कलंकु, दागु	कलंक
लाख	पुं.	सौ हजार की अंकों में सूचक संख्या–1,00,000	लक्षम्	लक्ख	लाख	लछ	लखु	लाख, लक्ष
	वि.	जो संख्या में सौ हजार हो	शतसहस्रम्	लक्ख	–	–	–	–
लागत	स्त्री.	किसी पदार्थ के निर्माण में होने वाला खर्च	उत्पादनव्ययः	लागत	लागत, सर्फ़ा	लागथ	लागति	खर्च
लाचारी	स्त्री.	मजबूरी, असमर्थता, विवशता	विवशता	लचारी, लाचारी	लाचारी	लाचॉरी	लाचारी	अगतिकता, विवश्ता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लांघवुं	हुपप, उडी मारप	हाम फाल्नु, नाघ्नु, फड्कनु	डिङ्गानो	चेरा, पार ह	चोङ्बा	फांदिबा, पर-करिबा	दाटुट, दूकुट	तांडिच्चे-ल्लल्, तांडुदल्	चाटिक्कट-क्कुक, कटक्कुक	दाटुवुदु
लांछन, कलंक	कलंक	दोष, लाञ्छन, कलङ्क	लांछन, कलंक	कलंक, चका, दाग, अपमान	मराल कलैक	लांछना, कलंक-दाग	कळंकमु, मच्चे	माशु, कळंगम्	कळंकम्	कळंक
लाख	लाख, लक्ष	लाख	लक्ष, लाख	लाख, लक्ष	लाख	लक्ष्य, एकशह-हजार	लक्ष	लक्षम्	लक्षम्	लक्ष
–	–	लाख	–	–	–	–	–	–	लक्षम् (तुक)	लक्ष
लागत, पडतर-खर्च	खर्च	लागत, खर्च	खर्चा	गढ़नी, खरच	पोत अमा शागत्पदा चङ्गदबा शेन्फम्	खर्च, अर्थ-बिनिजोग, पुंजि	खर्चु, पंट्टुबडि	अडक्क चेलवु	मुतल् मुटक्कुं	खर्चु, वेच्च
लाचारी, विवशता	लाचारी, दुबळो	विवशता, लाचारी	असमर्थता, बिबशता	असमर्थता, असहाय अवस्था, दुर्बल, मूर्छित	तौफम् खङ्दबा	नाचार, असमर्थता, असहाय, बिबशता	विवशत्वमु	वेरुवऴियिन्मै	गतिकेटुं	विवशते

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लाड़-प्यार	पुं.	प्रेमपूर्ण व्यवहार, दुलार	लालनम्	लाड-पियार	लाड प्यार	लाड़-प्यार, खानुँ माज्यर	लाड़ु-प्यारु	प्रेम, लाडकोड
लाभ	पुं.	1. प्राप्ति, लब्धि	लाभः	लाभ	हासिल (हुसूल)	लाब, नफ़ा, फॉयदुँ	लाभु, फ़ाइदो	लाभ, प्राप्ती
		2. फायदा, नफा	लाभः	लाभ, फायदा	फ़ाएदा (नफ़ा)	फॉयदुँ	–	फायदा, नफा, लाभ
लाभदायक	वि.	जो लाभ कराता हो, लाभ देने वाला	लाभप्रद	लाभदायक, लाहेवंदा	नफ़ाबख़्श	नफ़ा-दिनुँ वोल, फॉयदुमंद	लाभदाइक, फ़ाइदेमंद	लाभदायक
लाभांश	पुं.	लाभ का वह अंश, जो हिस्सेदारों को लगाई गई पूँजी के अनुपात में मिलता हो (डिविडेन्ड)	लाभांशः	लाभ-अंश	मुनाफ़ा	मुनाफ़ुँ, नफ़ा-हुक-हिसुँ	लाभ जो हिसो	लाभांश
लाल	पुं.	1. छोटा और प्रिय बालक, प्यारा बच्चा, पुत्र, बेटा	शिशुः, दारकः	लाल	मुन्ना, प्यारा, बेटा	लाल, टोठ, नैंचुव	लालु, पुटु	पुत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लाड चाग, दुलार	अपुरबाय	लाडप्यार	प्रीतिपूर्ण व्यबहार, स्नेह (न)	आदर-सादर, आदर-चेनेह	नुङ्शिना तौबा	गेल, प्रेमपूर्ण-व्यबहार, सादर, प्रीति, मैत्रिपूर्ण-ब्यबहार	आपेक्ष, मुरिर्पमु	चॅल्लम् कॉंजल्	स्नेहं, लाळन	मुद्दाट
लाभ	प्राप्ती	लाभ, प्राप्ति	प्राप्ति, मुनाफा	लाभ, प्राप्ति, आय	फङ्बा	लाभ, प्राप्ति, मुनाफा	लब्धि	किडैत्तल्	प्राप्ति	प्राप्ति
फायदो	फायदो	फायदा, मुनाफा	लाभ, मुनाफा	लाभ, उपकार	कान्नबा	लाभ, फाइदा	लाभमु	लाबम्	लाभम्	लाभ
लाभ-दायक, लाभप्रद	फायदो आशिल्लो	लाभदायक	–	लाभजनक, लाभदायक, उपकारी	कान्नगदबा	लाभदायक, लाभजनक	लाभकरमैन	लाबकरमान	लाभकरम्	लाभदायक
लाभांश	लाभांश	लाभांश	लभ्यांश	लाभांश, हाते जमार अंश	येन्नगदबा शेंदोङ् मशिङ्	लाभांश	लाभांशमु	लाबत्तिन् पंगु विहितम्	लाभवीतम्	लाभांश
लाल, पुत्र, छोकरो	मोगाचो पूत	लाल, छोरो	दुलाल, बापधन	सोणाइ, बोपाइ, पुत्र, रङा	नुङ्शिरबा अङाङ	दुलाल, पुत्र	मुद्दुलॅ-बालुडु	चॅल्लप्पिळ्ळै मगन्	ओमनप्पुत्रन्, ओमन	मरि, कंद

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. माणिक नामक रत्न	–	लाल	लाल	लाल, हीरुॅ	माणिकु	माणिक
	वि.	रक्तवर्ण का, सुर्ख	रक्तवर्ण, लोहित	लाल	लाल (सुर्ख़)	वोंजुल	ग़ाढो	लाल
लालच	पुं.	कोई वस्तु पाने की बहुत बड़ी इच्छा, लोभ	लोभः	लालच	लालच	तमाह, लूब, लालच	लालच	हांव, लोभ, लालूच
लालटेन	स्त्री.	हाथ में लटकाने योग्य चिमनीदार लैंप, कंडील	कोशदीपः	लालटैन	लालटेन	लालटीन	लालटीन, लालटेन	दिवा, कंदील
लाश	स्त्री.	किसी प्राणी का मृत शरीर, शव	शवः	लोथ, लाश	लाश	लाश	लाशु	प्रेत, शव
लिपि	स्त्री.	वर्णमाला के अक्षर लिखने की एक प्रणाली, अक्षरों-वर्णों के चिह्न	लिपिः	लिपी	रसमुलख़त	लिपी, रस्मुलख़त	लिपी	लिपी
लीन	वि.	1. जो किसी में समा गया हो	लीन	लीन	ग़र्क़	लीन	लीन	तन्मय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
माणेक	माणीक	माणिक (रत्न)·	माणिक (न)	माणिक (रत्न)	माणिक, मणि	माणिक	माणिक्यमु	माणिक्कम्	माणिक्यम्	केंपु
लाल, रातुं	तांबडो लाल	रातो	लाल, रक्तवर्णेर (न)	रङा, रङचुवा, पाचक-रस	अङाङ्बा	लाल, रक्त-बर्ण, जबा	एरुपु रंगु	चिवंद	चुवन्न	केंपाद
लालच, ललचावुं ते	वसवसपण, आशा-दोशीपण	लोभ	लोभ	लालसा, लोभ, स्पृहा हेंपाह	मीहौबा	लालसा, लोभ	आशॆ, लोभमु	पेराशै	कांति, अत्याग्रहम्	अति आसे, दुरासे
लालटेन, फानस	लाटन, कंदील	लालटिन, लालटेन, लालटिनी	हारिकेन	लेंप	लालटेन	लंठन, ल्यांप	लांतरु	लांदर् विळक्कु	ऱांतल्	लालटेनु, कंदीलु
लाश, शब	मडें, प्रेत	लास, शव	शब, लाश	श, लाच, मरा श	अशिबा हक्चाङ्	लाश, शब	शवमु	पिणम्	शवम्	हेण
लिपि	लिपी	लिपि	लिपि	लिपि, हातेलिखा पाण्डुलिपि, लिखित-प्रतीक-चिन	मयेक	लिपि, हात लेखा, पाण्डुलिपि	लिपि	मॊऴियिन् एऴुत्तुगळ्	लिपि	लिपि
लीन, विलीन	विरगळप	लीन, विलीन	लयप्राप्त, मिलित	लीन, बिलीन मिलि-योवा	पुक्निङ् चङ्बा, थवाइ याओबा	लीन, बिलिन, मिलित	लीनमैन	आऴ्ंदु ईडुपट्ट	लीनन्	मग्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. जो किसी काम में इस प्रकार लगा हुआ हो कि उसे और बातों का ध्यान न रहे, तन्मय	कार्यलीन	लीन	–	लीन	लीन	तन्मय
लीपना	स. क्रि.	किसी वस्तु पर गाढ़े या पतले तरल पदार्थ का लेप करना	√लिप्	लिप्पणा	लीपना	लिवुन	लेपणु	लिंपणें
लुटेरा	पुं.	लूटने वाला, डाकू	लुण्ठकः	लुटेरा	लूटेरा	लुटेरुॅ, डाकू, लूटन-गोॅर	लुटेरो, फोरू	लुटारू
लुभाना	अ. क्रि.	आकृष्ट, मोहित या राग-युग्त होना, लालच में पड़ना	√लोभय्	लुभाउणा	ललचाना	खोॅश करुन	लालचिजणु, लालचाइणु	मोहित होणें
लू	स्त्री.	1. ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली बहुत गर्म हवा	घर्मवातः	लू	लू	लू, गरुॅम-हवा,, ग्रिश्मु चॅंड	लुक, गरम हवा	ऊष्ण, वारा
		2. ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा लग जाने से होने वाली एक बीमारी	तापज्वरः	लू	–	–	–	ऊष्ण वार्याची झळीमुळे होणारा रोग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तन्मय, तल्लीन	तनरी	तल्लीन, तन्मय	तन्मय	मग्न, बिभोर, तन्मय	पुक्निङ् लुप्पा	तन्मय, मग्न, लीन, बिभोर, बिलिन	लीनमैनॅ	लयित्तु- प्पोन	लयिच्च	तन्मय
लीपवुं	लिंपप	लिप्नु, पोत्नु	लेपा	लिप, लेओ दि	तैबा	लिपिबा, लेपिबा	अलुकुटॅ, पूयुटॅ	मेळुग, पूश	पूशुक	बळियुवुदु
लुटारू, लूटनारो	लुटारु, चोर	लुटाहा, लुटेरो	लुटेरा, डाकात	डकाइत, डाकु, लुटियार	लूट तौबा, डाकु	लुट- करिबा- बाला, ड़ाकु, ड़कायत	दोपिडि- दॉग	कॉळ्ळै- क्कारन्	कॉळ्ळ- क्कारन्	दरोडेगार
लोभावुं, ललचावुं	आकृष्ट जावप	लोभिनु	लुब्ध/ मोहित	आकृष्ट कर, मुग्ध कर	शुमहत्पा पुक्निङ् चिङ्शिन्बा	लोभेइबा, आकृष्ट- हेबा, मुग्ध हेबा	आशॅ पडुटॅ, आशॅ पॅट्टुटॅ	वशीकरिक्क आशैप्पड	कॉतिक्कुक	मोहिसुवुदु
लू, लूनो- पवन	गर्मवारो	लू, तातो हवा	लु, गरम बताह	लु (बायु), उत्तप्त-बताह	अशाबा नुङ्शित्	लू, गरम- पबन, झांजि	वडॅ- गालि	अनल् काट्टु	चूटुकाट्टु	बिसिगाळि
लू लागवाथी थतो रोग	लू, ताप- झीट	लू	लु लगा	रदे धरा, ठँक	अशाबा नुङ्शिला यैबदा नाबा	झाइंमरा	वडॅ- दॅब्ब	कडुमैयान	सूर्यातापम्	बिसिलु, ज्वर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लूट	स्त्री.	1. जबरदस्ती छीनने की क्रिया	लुण्ठनम्	लुट्ट	लूट	लूठ	लुट	लूट
		2. लूट से मिलने वाला धन या संपत्ति	मोषः	लुट्ट	–	–	–	लुटीचा माल
लेकिन	अव्य.	परंतु, किंतु, मगर	परम्	पर, तांवी	लेकिन	लीकिन, अमापोंज	लेकिन	किंतु, पण, परंतु
लेखक	पुं.	पत्र-पत्रिका आदि के लिए लेख लिखने वाला या साहित्यिक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति	लेखक	लेखक, लिखारी	मुसन्निफ़	लिखॉर्य, लेखन-वोल	लेखकु	लेखक
लेखा-जोखा	पुं.	हिसाब-किताब	लेखा, आय-व्ययविवरणम्	लेखा-जोखा	हिसाब-किताब	हिसाब-किताब	लेखो-जोखो, हिसाबु-किताबु	आढावा, हिशोब

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लूट, लूंट	लूट	लुट	लुट/ लुठ	लुट, लुटपात, लुट आरु अत्याचार	लूट	लूट, लुंठन	दोपिडि	कॉळ्ळै-यडित्तल्	पिटिच्चुपरि्, कॉळ्ळ	कोळ्ळे लूटि
लूंटनो माल	लूटीचो-माल	लुटको धन	लुटेर धन	लुट, लुटि-लोवा बस्तु बा संपत्ति	लूट की पौत	लूट, लुटा-धन	दोपिडि-धनमु	कॉळ्ळै अडित्त पॉरुळ्	कॉळ्ळ मुतल्	कॉळ्ळय मालु
लेकिन, पण	पूण	तर्, किंतु, पर्तु	किंतु, अथच	किंतु, पिचे	अदुबु	किंतु, परंतु, अथच	कानि	आनाल्	पक्ष, एन्नाल्	आदरे
लेखक	लेखक	लेखक	लेखक	लेखक, लिखक, रचक, ग्रंथकार	अइबा	लेखक	रचयितँ, ग्रंथकर्तें	एळुत्ताळर् (नूल्) आशिरियर्	लेखकन्, एऴ्त्तुकारन्	लेखक
हिसाब-किताब	हिशोब	लेखा-जोखा, लेखो-जोखो	लेखा-जोखा, हिसाब	हिचाब-पत्र	हिसाब-किताब	लेखा-जोखा, हिसाब-किताब	लॅक्कॅ	कणक्कु-विवरम्	कणक्कुँ	लेक्काचार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लेटना	अ. क्रि.	विश्राम करने के लिए लंबाई के बल पड़े रहना	√शी	लेटणा, पैणा	लेटना	शौंगिथ रोजुन	लेटणु	लबंडणें, निजणें
लेन-देन	पुं.	1. किसी को कुछ देने और उससे कुछ लेने का व्यवहार	दानादानम्	लैण-देण	लेन-देन	दारुँहोर	ड॒े-वठु	देवाण-घेवाण
		2. उधार लेने-देने का व्यवहार	–	लैण-देण	लेन देन	लेन-देन	–	उधारीची देवाण घेवाण
लेना	स.क्रि.	1. थामना, पकड़ना	√ग्रह्	लैणा	लेना	रटुन, न्युन	वठणु	पकडणें
		2. खरीदकर या उधार के रूप में प्राप्त करना	√ग्रह्	लैणा	–	अनुन	–	घेणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सूवुं, आडा चडवुं	आड पडप	लेट्नु, पल्ट्नु, ढल्क्नु	शोया, शयन करा	दीघल दि, आराम कर, धुलि-बोका चोंचराइ ने	हिप्पा	शोइबा, गड़ि-पड़िबा, लँबा-सोइ-विश्राम-करिबा, आराम-करिबा, शयन-करिबा	परुंडुटँ	पडुक्क	किटक्कुक	मलगुवुदु
लेण-देण	देणें-घेणें	लेनदेन, लिनदिन	लेनदेन, आदान-प्रदान	आदान-प्रदान, लेन-देन, संपर्क	लौथोक, लौशिन तौनबा	आदान-प्रदान, देबा-नेबा	इच्चि-पुच्चुकॉनुटॅ, लावादेवी	कॉडुक्कल्-वांगल्	कॉटुक्कल्-काङ्ङल्	व्यवहार
लेवड-देवड	उधारीची देण-घेण	सरसापट	–	धार, लेन-देन	पुथोक् पुशिन् तौनबा	देणलेण (देणनेण)	वड्डी व्यापारमु	कडन् कॉडुक्कल्-वांगल्	कॉटुक्कल्-वाङ्ङल्	व्यवहार
झीलवुं, पकडवुं	पकडप	लिनु, समात्नु	नेओया, धरा	धार ल	खांबा, फाबा	नेबा, धरिबा	पट्टुकॉनुटॅ	एंडर्त्त-क्कोळ्ळ पिडिक्क	एंटुक्कुक	तेगेदु कोळ्ळुवुदु
–	घेवप	लिनु, ग्रहण गर्नु	–	किन, ल	लैबा, लौबा	किणिबा	तीसिकॉनुटॅ	विलैक्कु-वांग, कडनागप्पॅर्	वाङ्ङुक	कोंडु कोळ्ळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लेप	पुं.	1. गीली या घोली हुई चीज, जो किसी दूसरी चीज पर पोती जाए	लेप:	लेप	लेप	लिवुन	लेपु	लेप
		2. शरीर पर लगाया जाने वाला उबटन आदि	अवलेप:	लेप	–	–	–	उटणें
लोक कथा	स्त्री.	लोक विशेषत: ग्राम्य लोगों में प्रचलित कोई प्राचीन गाथा (फोक टेल)	लोककथा	लोक कथा	अवामी क़िस्सा, लोक कहानी	लुकुँ कथ	लोककथा	लोककथा
लोककला	स्त्री.	अंचल विशेष में परंपरागत प्रचलित नृत्य, गीत आदि कलाएँ	लोककला	लोककला	अवामी फ़ुनून	लूकुँ-फन	लोककला	लोककला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लेप, खरड	लेप	लेप, लेपन	लेप	लेओ, लेप, डाठ-आवरण	तैबा	लेप, प्रलेप	लेपनमु	पूच्चु	लेपनम्	लेप
उबटण	उबटाण	लेपन, चंदन	प्रलेप, अंगराग	गात घँहा बस्तु, प्रलेप	–	प्रलेप, लेप	पूत	नलुंगुप्पोडि	कुळंपुं, तैलम्	अनुलेप
लोककथा	लोककथा	लोककथा	रूपकथा	किंबदंति, प्रवाद, साधुकथा, राइजर-मुखर-कथा-मात	फुङ्गा वारी, फोक टेल	लोककथा, किंबदंती	जानपद-कथ	नाडोडिक्कदै	नाटोटिक्कथ, ऐतिह्यम्	जानपद-कथे
लोककळा	लोककला	लोककला	लोक कला	लोक कला, लोक-संस्कृति, परंपरागत-भाव, प्रचलित कला	लोक कला (खुनुङ्-ईशै खुलङ ईशै, खुनुङ् जगोइ नचिङ्बा)	लोक-कला, लोक-संस्कृति	जानपद-कळ	नाट्टार् कलैगळ्	नाटन् कल	जानपद-कले

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लोकगीत	पुं.	जनसाधारण में प्रचलित गीत	लोकगीतम्	लोकगीत	लोकगीत, अवामी गीत	लूकुँ बाँथ	लोक गीतु	लोकगीत
लोकप्रिय	वि.	जो जनसाधारण को प्रिय हो	लोकप्रिय	लोक पिआरा	मक़्बूले-अवाम	लुकन-टोठ, हरदिल-अज़ीज़	लोक प्रिय, आम में प्यारो	लोकप्रिय
लोक संगीत	पुं.	परंपरा से चला आया वह संगीत, जो लोक में प्रचलित हो	लोकसङ्गीतम्	लोक संगीत	अवामी मौसीक़ी	लूकुँ-ग्यवुन	लोक संगीत	लोकसंगीत
लोकापवाद	पुं.	लोक निंदा, बदनामी	लोकापवादः	बदनामी	बदनामी, रुसवाई	न्येंद्या, बदनॉमी	लोक निंदा, बदनामी	लोकापवाद
लोकोक्ति	स्त्री.	लोकोक्ति	लोकोक्ति, आभाणक	अखाण	ज़र्बुल-मसल, कहावत	कहावथ	चविणी, कहावत	लोकोक्ती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत	लोकगीत, परंपरागत भावे-प्रचलित-गीत	खुनुङ ईशै, फोक सौंग	लोकगीत	जानपाद-गेयमु	नाट्टु-प्पांडल्	नाटन् पाट्टुॅ	जनपद-हाडु
लोकप्रिय	लोकप्रिय	लोकप्रिय्	लोकप्रिय	लोकप्रिय, जनप्रिय राइजर-मनत रं लगोवा	मीयाम्ना याबा	लौकिक, जनप्रिय, लोक-प्रिय, सार्बजनीन	जनप्रियमैन	पांदु मक्क-ळुक्कुप् पिडित्त	जन सम्मतम् नेटिय	जनप्रिय
लोक-संगीत	लोकसंगीत	लोक-सङ्गीत	लोक सङ्गीत	लोक-संगीत, राइजर परंपरागत संगीत	लोक संगीत, फोक म्यूजिक	लोक-संगीत	जानपद-संगीतमु	नाडोडि इशै	नाटोटि संगीतम्	जनपद संगीत
लोका-पवाद, बदनामी, लोकनिंदा, अपकीर्ति	लोकापवाद	लोकापवाद, लोकनिंदा	लोक निंदा	लोकापबाद, परनिंदा	मीयाम्णा यादबा, बदनाम चारबा	लोकापबाद, लोकनिंदा	अपकीर्ति, लोका-पवादमु	अवदूरु, पळिच्चॉल्	जनापवादम्	लोकापवाद, केट्ट-हेसरु
लोकोक्ति, कहेवत	म्हणीं	लोकोक्ति, उखान	प्रबाद-प्रबचन	लोकोक्ति, प्रबचन, जनश्रुति	पाओरौ	प्रबचन	लोकोक्ति, सामॆत	पऴमॊळि़, चोलवडै	पऴंचॊल्लुॅ	गादेमातु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लोभ	पुं.	दूसरे की वस्तु पाने की प्रबल कामना, लालच	लोभ:	लोभ	लालच, तम्आ	लालच, लूब	लोभु	लालसा, लोभ
लोरी	स्त्री.	छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत	धात्रीगीत, स्वापगीतम्	लोरी	लोरी	मंज़ुॅल्य बॉथ	लोली	अंगाई गीत
लोहा	पुं.	प्राय: काले रंग की एक प्रसिद्ध धातु	लौह	लोहा	लोहा, आहन	शॅशतुॅर	लोहु	लोखंड
लौ	स्त्री.	1. आग की लपट, ज्वाला	शिखा, ज्वाला	लाट	लौ	रैंह	ज़िभी, लाट, लौ	ज्वाळा
		2. लगन, धुन	ऐकाग्र्यम्, तन्मयता	लिव	लगन	–	लिंव, धुन	एकाग्रता, तन्मयता
लौकिक	वि.	सांसारिक	ऐहिक	लौकिक	दुनियावी	व्यवहॉरी, समसॉरी	लौकिक, संसारी	लौकिक, सांसारिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लोभ, लालच, तृष्णा	लोभ, वसवस	लोभ, लालसा	लोभ, लालसा	लोभ, लालसा, प्रबल इच्छा	मीहौबा	लाभ, लालसा	लोभमु, दुराश	पेराशै	लोभम्, कांति	दुरासे
हालरडुं	आल्लय	लोरी	लोरी, शिशुदेर घुम-पाड़नी गान	निचुकनि गीत	नाओशुम् ईशै	नानाबाया-गीत	लालिपाट, जोलपाट	तालाट्टु	ताराट्टुं	जोगुळ
लोह, लोढुं, लोखंड	लोखंड	फलाम, लौह	लोहा	लो, लोहा, धातु विशेष	योत्	लुहा	इनुमु	इरुंबु	इरुंपुं	कब्बिण
अग्नि-शिखा, ज्वाला, आगनी झाळ	ज्वाला	ज्वाला, लप्को, राँको	अग्निशिखा	जुइर-शिखा	मैरी	ज्वाला, तेज, शिखा	ज्वाल	तीक्कोळुंदु, जुवालै	ज्वाल	ज्वाले
लहे, लगनी, चाह	निश्ठा	लगन, तन्मयता	संलग्नता, एकाग्रता	अनुराग, निचा, एकाग्रता, तन्मयता	नूंशिब	एकाग्रता, तन्मयता, ध्यान	दीक्ष	ईडुपाडु	तात्पर्यम्	तन्मयते
लौकिक, दुन्यावी	लौकीक, संवसारीक	लौकिक, सांसारिक	लौकिक, सांसारिक, ऐहिक	लौकिक, ऐहिक, सांसारिक	संसारगी ओइबा	लौकिक, सांसारिक	लौकिकमैन	उलग	लौकिकम्	लौकिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
लौटना	अ.क्रि.	1. वापस आना या जाना	आ +√वृत्	मुड़णा, परतणा	लौटना	वापस युन	मोटणु	परतणें
		2. पीछे की ओर घूमना, मुड़ना	परि +√वृत्	मुड़णा, परतणा	मुड़ना	वापस युन	पुठियां मुड़णु	मागेवळणे
वंश	पुं.	जीव या प्राणी की संतान, परंपरा, कुल	वंश:	खानदान, बंस	ख़ानदान	खानदान	वंशु	बंश, कुल
वंशज	पुं.	वंश विशेष में उत्पन्न संतान	वंशज	उलाद	औलाद	अवलाद, संतान	वंश में ॼावलु	वंशज
वंशावली	स्त्री.	किसी वंश में उत्पन्न पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रम सूची	वंशावली	बंसावली	नसब नामा	कोंलावली, नसुॅबनामुॅ	वंशावली, शजिरो	वंशावळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पाछा आववुं	परत येवप, परतप	फर्कनु, फिर्नु	फेरा	घूर, ओलट, ओभत	हल्लक्पा	लेउटिबा, फेरिबा	तिरिगि- वच्चुट	तिरुंबिवर	मटङ्ङुक	हिंतिरुगुवुदु
पाछा फरवुं, ऊलटुं थवुं	वळप	मुड्नु, पछाडि फर्कनु	घोरा, पिछन फेरा	घूर, पिच होहँक, ओभता	हन्ना येङबा, लैथोक्पा	पछकु- बुलिबा	मरलुट	पिन् पक्कम् तिरुंब	पिंतिरियुक, मटङ्ङुक	तिरुगुवुदु
वंश, कुळ	कुल, वंश	वंश, खानदान	बंश, कुल	बंश, कुल, फैद, गोष्ठी	शागै	बंश, कुल	वंशमु	कुलम्	वंशम्	वंश, कुल
वंशज, संतान, ओलाद	वंशज	वंशज, खलक, कुल, संतति	बंशज	बंशज, संतान, सति- संतति	शागैगी मचा	बंशज, उत्तराधिकारी, संतान- संतति,	वंशजुडु	कुलत्तोर्	वंशजन् पिन्मुर- क्कारन्	वंशज
वंशावली, वंशानी सूचि, पेठीनामुं	वंशावळ	वंशावली	बंशाबली, कुलजि	बंशावली, वंशर विस्तृत बिबरण थका तालिका, बुरञ्जी	शागै अमदा पोकखिबा नुपाशिङ्गी ममिङ मथङ-मनाओ	बंशाबली, पुरुष क्रमानुक्रम	वंश- वृक्षमु	वंश- परंपरै, वम्शावळि	वंशावलि	वंशावळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वकालत	स्त्री.	1. वकील का काम या पेशा	अधिवक्तृत्वम्	वकालत	वकालत	वकालथ	वकालत	वकीली
		2. किसी के पक्ष का किया जाने वाला मंडन, पक्ष समर्थन	समर्थनम्	वकालत	–	वकालथ	समर्थनु	समर्थन
वचन-बद्ध	वि.	जिसने किसी को कोई काम करने या न करने का वचन दिया हो	वचनबद्ध	बचन-बद्ध	पाबंद	पाबंद, लफज़्स-प्यठ-डॅटिथ	वचन-बधु	बचनबद्ध
वध	पुं.	अस्त्र-शस्त्र से की जाने वाली हत्या	वधः	कतल	क़त्ल	खून, हत्या, कतुॅल	कत्लु, खूनु, हत्या	हत्या, वध
वधू	स्त्री.	1. ऐसी कन्या, जिसका विवाह हो रहा हो, अथवा हाल में हुआ हो, दुलहन	वधूः	वहुटी	बहू, दुलहन	न्वश	कुंआंरि	नवरी, वधू
		2. पत्नी	वधूः, पत्नी	वहुटी	बीवी	आर्शेन्य, ज़नानुॅ	ज़ाल	पत्नी, बायको

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वकीलात, वकीली	आदोगासी	वकालत	ओकालति	उकालति, उकीलर-काम-व्यवसाय	उकिलगी थबक्	ओकिलाति	वकीलु-पनि	वक्कील् तॊळिल्	वक्कील्पणि	वकालत्तु
—	वकिली करप, बाजू मांडप	समर्थन	पक्ष-समर्थन (आदालते)	उकालति, पक्ष समर्थन	उकिलगी थबक्	पक्ष-समर्थन-करिबा	समर्थन	वक्कालत्तु	वक्कालत्तॅ	पक्ष समर्थन
वचनबद्ध	वचनबद्ध	वचनबद्ध	बचनबद्ध, जबान-बंदी	बचन-बद्ध	वाशक्खिबा	बचन-बद्ध	वचन-बद्धडु	वाक्कुक्कु कट्टप्पट्ट	वाक्कु कॊटुत्तु	मातिगे-कट्टुबद्ध
वध, घात, हत्या, कतल, नाश	वध, हत्या	हत्या, वध	बध	बध, हत्या, प्राणनाशर-कार्य	हात्पा	बध, हत्या	वध	वदम्, कॊलै	वधम्	कोले, वधे
वधू, वहु	व्हंकल, वधू	बेहुली, बधू	बधू, कने, बउ	न-कइना, बोवारी	कन्या	बधू, बोहू	वधुवु	मणप्पॆण्	वधु	मदुमगळु, वधु
जुवान पत्नी, वहु	बायल, पतीण	पत्नी	बउ, स्त्री, पत्नी	बधु, घैनी, पत्नी, स्त्री	नुपि	स्त्री, बधु, पत्नी	भार्य	मनैवि	पत्नि, भार्य	हेंडति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वनवास	पुं.	वन का निवास, जंगल में रहना	वनवास:	बनवास	सह्रानशीनी (सह्रा गुज़ीनी)	वनुॅवास	बनवासु	वनवास
वनस्पति	स्त्री.	जमीन से उगने वाले पेड़, पौधे, लताएँ आदि	वनस्पति:	बनसपती	नबातात	वनसपथ, नबातात	वनस्पती	वनस्पती
वनिता	स्त्री.	औरत, स्त्री	वनिता	तीवीं	औरत (ज़न)	ज़ॅन्य	ज़ाल, स्त्री	वनिता, बाई
वयस्क	वि.	1. पूर्ण शारीरिक विकास प्राप्त, प्रौढ़	प्रौढ, वयस्थ	बालग	बालिग़	बालेंग जवान	बालिग़	प्रौढ़, वयस्क
		2. विधिक दृष्टि से आयु विशेष का वह व्यक्ति, जिसे निर्वाचन में मत देने, अपनी संपत्ति की व्यवस्था करने, कानूनन विवाह करने आदि का अधिकार प्राप्त होता है, बालिग	प्राप्तव्यवहार	बालग	–	बालेंग जवान	–	सज्ञान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वनवास, वस्ती छोडी वनमां रहेवा जवुं ते	वनवास	बनबास	वनवास	बनबास हानित-थका, निर्वासन	बोन चत्पा, बोंदा लैबा	बनबास	वनवासमु	वन वासम्, काट्टिल् वसित्तल्	वनवासम्	वनवास
वनस्पति, झाड़पान	वनस्पत	बनस्पति	वनस्पति	बनस्पति, गछ-गछनि, उदभिद, डाँगेरगछ	ऊ,वा नापी शिङ्बी मना-मशिङ्	बनस्पति	वनस्पति, वृक्षजालमु	तावरम्	सस्यवर्गम्, वनस्पति	वनस्पति
वनिता, स्त्री	वनिता	आइमाई, बनिता	स्त्री, बनिता	तिरोता, महिला	नुपि	बनिता, स्त्री, महिला	वनिते, स्त्री	मंगै	वनित	वनिते, स्त्री
वयस्क, उंमर लायक, उंमरनुं	वयस्क	बालिग	बयस्क, प्रौढ़	महिला, बयस्क, बयसीया, प्रौढ़	मपुङ मरै फारबा	बयस्क, प्रौढ़	वयस्कुडु, वयोजनुडु	वयदुवंद	पूर्णवळर्च्च एत्तिय	प्रायक्के बंदव, महिळे
प्रौढ़, पुख्त	वयस्कर	प्रौढ, वयस्क्	साबालक	प्राप्त-बयस्क, डाङर, प्रोढ़, साबालक विशेष-बयसर	भोत थादबा अमदि कोर्ट ता लुहोंगबा यारबा मीओइ	प्रौढ़, साबालक	वयस्कुडु, मेजरु	मेजरान	प्रायपूर्त्तियाय	वयस्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वर	पुं.	1. कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त पात्र	वरः	वर	बर	महराज़ुं	वरु, घोटु	वर
		2. नव विवाहित स्त्री का पति, दुल्हा	वरः	वर	दूल्हा	महराज़ुं	दूल्हो	नवरा
		3. वरदान	वरः	वर	वरदान	वर	वरु	वरदान
वरदान	पुं.	देवता, महापुरुष आदि के द्वारा दिया हुआ वर	वरदानम्	वरदान	वरदान	वरदान	वरदानु	वरदान
वर्ग	पुं.	1. स्वजातीय या समान-धर्मियों का समूह, श्रेणी	वर्गः	वरग, जमात	तबक़ा	ज़ाथ	वर्गु, तबको	वर्ग
		2. कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए बना लोगों का समूह, दल	वर्गः	वरग, जमात	जमाअत	ज़ाथ	पार्टी, धुरि	समुदाय, दल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वर, वरराजा	वर	वर, केटो	पात्र	बर, दरा	बोर	बर-पात्र, बर	वरुडु	वरन्	वरन्	वर
पति	घोव, नवरो	बेहुलो, दुलहा, वर	बर	बर, स्वामी, स्वामी रुपे अधीनत स्वीकार कुर	लुहोङ्बदा ङाइरिबा नुपा	बर, स्वामी	पॆंड्लि-कॊडुकु	मण मगन्	पुतुमाप्पिळ, नवविवा-हितन्	वर, मदुमग
वरदान, वरनुं-इष्ट वस्तुनुं दान	वरदान	वरदान	बरदान	बर, आशीर्वाद, कृपा	बोर	बरदान, कृपा, आशीर्बाद	वरमु	वरम्	वरम्	वरदान
वरदान	वर्ग	वरदान	बरदान, (फलसिद्धि) आशीर्बाद	बर, आशीर्बाद	लाइगी बोर	बरदान, आशीर्बाद	वरमु	वरम् कॊडुत्तल्	वरदानम्, अनुग्रहम्	वर
वर्ग, कोटि, कक्षा, श्रेणी	जमात, समुदाय	वर्ग, श्रेणी	सजातीय समूह	बर्ग, समुह, समाज	बोर	बर्ग, समूह, समाज	वर्गमु	वगुप्पु	समूहम्	वर्ग, जाति समुदाय
समुदाय, दल	वर्गीकरण	दल, समूह	समूह, दल, बर्ग	समान दल, संघ	काङ्लुप्	दल, संघ, समूह, बर्ग	वर्गमु	पिरिवु	वर्गम्	वर्ग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वर्गीकरण	पुं.	गुण-धर्म, रंग-रूप, आकार-प्रकार आदि के आधार पर वस्तुओं आदि के भिन्न-भिन्न वर्ग बनाना	वर्गीकरणम्	वरगीकरण	दर्जा-बंदी	ज़ॉच बॉगरन, दरजि बंदी	दर्जेवारि करणु, विराहिसत	वर्गीकरण
वर्णन	पुं.	किसी विशिष्ट अनुभूति, घटना, दृश्य, वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में विस्तारपूर्ण कथन	वर्णनम्	वरणन	बयान	ज़िकिर, खुलासुॅ	बयानु, वर्णनु	वर्णन
वर्णमाला	स्त्री.	किसी लिपि के वर्णों या अक्षरों की यथाक्रम सूची	वर्णमाला	वरनमाला, ऊड़ा-ऐड़ा, पैंती	हुरुफ़े-तहज्जी (हुरुफ़े-हिजा)	वरनु माल	वर्णमाला	वर्णमाला
वर्तमान	वि.	1. जो इस समय अस्तित्व या सत्ता में हो अथवा लागू हो	वर्तमान	वरतमान	मौजूदा	अज़कल	मौजूद, हलंदड़ु	वर्तमान
		2. उपस्थित, प्रस्तुत, विद्यमान	वर्तमान	वरतमान	हाज़िर	–	हाज़िर	उपस्थित, प्रस्तुत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वर्गीकरण, वर्गवार समज पाडवी ते	–	वर्गीकरण	श्रेणी-विभाजन	बर्गीकरण	काङ्बु	बर्गीकरण, श्रेणी, बिभाग	वर्गीकरणमु	वगैप्पडुत्तल्, इनवारियाह पिरित्तल्ल्	वर्गीकरणम्	वर्गीकरण
वर्णन, वर्णववुं, बयान	वर्णन	वर्णन, बखान, विवरण	बर्णन (न), बर्णना, बिबरन	बर्णन, बर्णना, बिबृत्ति	काङ्लुप खाइबा	बर्णन, बर्णना, बिबृत्ति	वर्णनमु	वर्णनै	वर्णन	वर्णने
वर्णमाळा	वर्णमाला	वर्णमाला	बर्णमाला (न)	बर्णमाला, एटा भाषर क्रम-समूह-आखर	शिङ्थाबा लिपिगी	बर्णमाला	वर्णमाल	मॉळियिन् ऍळुत्तु वरिशै	अक्षरमाल, वर्णमाल	वर्णमाले
वर्तमान, चालु, आधुनिक	वर्तमान	वर्तमान	बर्तमान, आधुनिक, बिद्यमान	बर्तमान, जीवित-थका, आधुनिक, बिद्यमान	मथङ् मनाओ, हौजिक्की	बर्त्तमान, एबेकार, आधुनिक	वर्तमानमुलो, उन्नटुवंटि	निगळ् कालत्तिय	वर्तमानम् इन्नत्ते	वर्तमानद ईगिन
हाजर, विद्यमान, हयात, जीवंत	हाजीर, प्रस्तुत	विद्यमान, उपस्थित	–	उपस्थित चलिथका-काल एतिया	हौजिक् ओइरिबा	हाजीर, बिद्यमान	उन्नटुवंटि	–	–	इत्तीचिन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वर्षगाँठ	स्त्री.	जन्म की तिथि के बाद प्रतिवर्ष पड़ने वाला दिवस, जन्मदिन, सालगिरह	जन्मदिवसः	वर्हे गंढ	साल गिरह	वोंहरु वोद	सालगिरह, जनम डींहुं	वाढदिवस
वसीयत	स्त्री.	1. वह लिखित आदेश, जिसमें मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति की संपत्ति के वारिस का वर्णन हो	इच्छापत्रम्	वसीअत	वसीयत	वसीयथ	वसीयत	मृत्युपत्र
		2. वसीयत-नामा, इच्छापत्र	इच्छापत्रम्	वसीअत	–	–	–	मृत्युपत्र
वसुंधरा	स्त्री.	पृथ्वी	वसुन्धरा	धरती	ज़मीन	प्रथवी, बुतराथ	पृथ्वी, धरती	वसुंधरा, पृथ्वी
वसूली	स्त्री.	वसूल करने की क्रिया या भाव, उगाही	आदानम्	वसूली	वुसूली	वॅसूली	वसूली	वसूली
वस्तु	स्त्री.	गोचर पदार्थ, चीज	वस्तुम्	वसत, वसतू	चीज़ (शै)	चीज़	शइ, वथु	वस्तू

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वर्षगांठ, जन्मदिन	वाढ दिवस	वर्षगाँठ, जन्मदिवस	जन्मदिन, बर्षपूर्ति	जन्म दिवस, जन्म-तिथि	मपोक् नुमित	जन्मदिन, जन्म-दिबस	पुट्टिन-रोजु, जन्मदिनमु	पिरंद नाळ्	पिरन्नाळ्, जन्म दिनम्	जन्म-दिन
वसियत, वारसा-व्यवस्था	मृत्यूपत्र, मरण-पत्र	इच्छापत्र	उइल, अधिकार-पत्र	उइल, इच्छा-पत्र, अधिकार-पत्र, दान-पत्र	उइल-नामा पान्बा	अधिकार-पत्र	वीलुनामा	उयिल्	मरणपत्रम्, आॅस्यत्तुं	उयिलु, मरण-शासन
वारसा-खत	–	वसियत, इच्छापत्र	इष्टिपत्र	इच्छापत्र	उइल-चे, नामा पान्बा चे	इच्छापत्र	वीलुनामा	उयिल्	मरण पत्रम्, आॅस्यत्तुं	उयिलु
बसुंधरा, पृथ्वी	पृथ्वी, वसुंधरा	वसुंधरा, पृथ्वी	पृथिबी, बसुंधरा	बसुंधरा, पृथिबी	पृथ्वी, मालेम	बसुंधरा, धरा, भू, पृथिवी	भूमि, पृथ्वि	बूमि	भूमि, वसुंधर	वसुंधरे
वसूलात, प्राप्ति	वसूली	असुली, वसुली	आदाय, उसुल	आदाय, प्राप्ति	खोम्जि-ल्लबा शेन्फम	आदाय, प्राप्त-करिबा	वसूलु	वसूलित्तल्	वसूल्, पिरिवुँ	वसूलि
वस्तु, चीज, पदार्थ	वस्तू, गोचर	वस्तु, चीजबीज	बस्तु, जिनिस-पत्र	बस्तु	पोत्	बस्तु, जिनिष	वस्तुवु	वस्तु, पॉरुळ्	वस्तु	वस्तु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वस्त्र	पुं.	ऊन, रुई, रेशम आदि के कपड़े	वस्त्रम्	बसतर	कपड़ा	कपरु, कपुर	कपड़ो, वस्त्रु	वस्त्र
वह	सर्व.	बातचीत में दूर स्थित या परोक्ष व्यक्ति या पदार्थ को संकेत का शब्द	तत्	ओह	वोह	सु	हू, हुअ	तो, ती, तें
वहाँ	अव्य.	उस स्थान में, उस जगह	तत्र	ओथे	वहाँ	तति	हुते	तेथे
वांछनीय	वि.	जिसकी वांछा या कामना की गई हो या की जाने वाली हो	वाञ्छनीय	चाहुण योग	मतलूबा	योंछ़मुत	चाहियलु	वांछित, इच्छित
वांछित	वि.	चाहा हुआ, इच्छित	वाञ्छित	मन चिंदिआ, इच्छित	मतलूबा	योंछ़मुत	चाहियलु	वांछित, इच्छित
वाङ्मय	पुं.	लिपिबद्ध विचारों का समस्त संग्रह या समूह, साहित्य	वाङ्मयम्	साहित्त	अदब	साहत्य, अदब	साहित्यु, साहितु, अदबु	वाङ्मय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वस्त्र, कपडुं	वस्त्र	वस्त्र, पोसाक, कपडा	बस्त्र, कापड़, पोषाक	कापोर, बस्त्र	फि	बस्त्र, लुगापटा	वस्त्रमु	तुणि	वस्त्रम्	बट्टे
ते	तो, ती, तें	ऊ, त्यो	मध्ये (संकेत शब्द)	सि, तैँओ, ताइ	मदु	से	अतड्डु (पुं.), आमे (स्त्री.), आ, आदि (वि.)	अवन्, अदु, अवळ्, अंद	अवन्, अवळ्, अतुं, आ	अदु, अवनु, अवळु, आ
त्यां, ते ज्यां	थंय	त्यहाँ, त्यता	ओखाने, सेखाने	तात	मफम अदुदा	सेठि, से-स्थानरे, से जागारे	अक्कडॆ	अंगे	अविर्टे	अल्लि
वांछनीय, इच्छवा योग्य	वांछनीय	वाञ्छनीय, आवश्यक	बाञ्छनीय, अभिलाष, आबश्यक	बांछनीय, बांछित	पाम्नि-ङ्ङाइ ओइबा	बांछनीय, बांछित	बांछनीयमु, अभिलषॆ -णीयमु	विरुंबिय	आग्रहिच्च	बयसिद, अपेक्षिसिद
वांछित, चाहेलुं, इच्छेलुं	वांछित	वाञ्छित, चिताइएको	बांछित, आकांक्खित	बांछित, बिचरा	अपांबा, अनिङ्बा	बांछित, इछित, मनोनित	बांछितमु	विरुंबिय	आग्रहिच्च	बयसिद, इच्छिसिद
वाङ्मय, साहित्य	वाङ्मय	वाङ्मय, ग्रंथ, साहित्य	वाङ्मय, ग्रंथ, साहित्य	बाङमय, लिखित-साहित्य	साहित्य	साहित्य	वाङ्मयमु	इलक्कियम्	साहित्यम्, वाङ्मयम्	साहित्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वाणिज्य	पुं.	बड़े पैमाने पर होने वाला व्यापार	वाणिज्यम्	वणज	तिजारत	कारुॅबार	वणिजु	वाणिज्य, व्यापार
वाणी	स्त्री.	1. मुँह से निकलने वाली सार्थक बात, वचन	वाणी	बाणी	लफ़्ज़ (कलाम)	आवाज़	वाणी	वाचा, वाणी
		2. जिह्वा, जीभ	जिह्वा	जीभ, बाणी	ज़बान	ज़्यव	जिभु	जिव्हा, जीभ
		3. सरस्वती	वाणी (सरस्वती)	वाणी	–	सरस्वती	सरस्वती	सरस्वती
वातानुकूलन	पुं.	तापमान नियंत्रक उपकरण	वातानुकूलनम्	एअर कंडीशन, वातानुकूलन	एयर कंडिशनिंग	एयर कंडिशनिंग	एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलण	वातानुकूलन
वातावरण	पुं.	1. वायु की वह राशि, जो पृथ्वी, ग्रह आदि पिंडों को चारों ओर से घेरे रहती है, वायुमंडल	वातावरणम्	वा मंडल, वातावरन्	फ़ज़ा	माहोल, फिज़ा	वातावरणु, वायुमंडलु	वातावरण, वायुमंडल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वाणिज्य, वेपार	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य (न), बय्वसाय	बाणिज्य, बणिज, ब्यवसाय	ललोल् इतिक	बाणिज्य, बेउसा, ब्यबसाय	वाणिज्यमु	वणिगम्	वाणिज्यम्, व्यापारम्	वाणिज्य
वाणी, बोली, वाचा, बोल	वाणी	वाणी, वचन, बोली	बाणी, बचन, स्वर (न), सरस्वती देबी	बाणी, कथा	वङाङ्	बाणी, कथा	वाणि	वाक्कु, कुरल्	वचनम्, स्वरम्	नुडि
जीभ	जिहवा, जीभ	जिब्रो, जिह्वा	जिह्वा, जीभ	जिभा	लै	जिभ, जिह्वा, रसना	नालुक	नाक्कु	नाक्कुॅ, जिह्व	नालिगे
सरस्वती	सरस्वती	सरस्वती, वाणी	सरस्वती (देबी)	सरस्वती, ज्ञानर अधिष्ठन्नो देवी	सरस्वती, महैगी लाइरेंबी	सरस्वती, (हिंदु धर्मर-ज्ञानर-अधिष्ठात्री-देबी)	सरस्वति	कलैमगळ्, सरस्वति	सरस्वति	सरस्वति
वातानु-कूलन	वातानु-कूलन	वातानु-कूलन	बातानुकूल, शीतताप नियंत्रित	शीत-ताप नियंत्रण, बातानुकूल	एयर कण्डीशनिंग	बातानुकूलन, शीत-ताप-नियंत्रण	समशी-तोष्णमु	कुळिर् पदनप् पडुत्तल्	वातानुकूलनं, एयर् कंडिशनिंग	वातानु-कूलित
बातावरण, वायुमंडल, पृथ्वीनी चोमेर हवानो पट छे-ते	वातावरण	वातावरण, वायुमण्डल	बायुमण्डल, बाताबरण	बायुमंडल	पृथ्वीबु कूप्लिबा नुङ्शित् की मरोल, वायुमंडल	परिबेश, बाताबरण, बायुमंडल	वातावरणमु, वायु-मंडलमु	वायु-मण्डलम्, काट्टु मण्डलम्	अंतरीक्षम्	वायुमंडल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. परिस्थिति, पर्यावरण	परिवेशः	वा मंडल, वातावरन्	माहौल	माहोल	माहौल	वातावरण, परिस्थिती
वात्सल्य	पुं.	माता-पिता का बच्चों के प्रति नैसर्गिक प्रेम	वात्सल्यम्	ममता	मुहब्बत	टार्ठुन्यार	माउ-पाउ जो ॿार लाइ प्यारु	वात्सल्य
वाद-विवाद	पुं.	तर्क-वितर्क, खंडन-मंडन, वाद-विवाद	वाद-विवादः	वाद-विवाद, बहस, बैस	बहसो-मुबाहसा	बहसुॅ-बॅहस	वाद-विवादु, बहसु-मुबाहिसो	वादविवाद
वादी	पुं.	वह, जो न्यायालय में किसी के विरुद्ध कोई अभियोग उपस्थित करे, फरियादी	वादिन्	वादी	मुद्दई, फ़र्यादी	मुदयी	मुद्दई, फ़रियादी	वादी
वायु	स्त्री.	हवा, पवन	वायुः	वा, हवा	हवा	हवा, वाव	हवा, वाउ	वायु

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
परिस्थिति	वायुमंडल	परिस्थिति, पर्यावरण	परिस्थिति, बाताबरण, पर्याबरण	परिस्थिति, बाताबरण	अकोइबदा लैरिबा नाक येत्की फिभमशिङ्	परिस्थिति, परिबेश, बाताबरण	वातावरणमु	चूळ्निलै	चुट्ट्पाटुॅ	सन्निवेश
वात्सल्य, प्रेम, वहाल	वात्सलय	ममता, वात्सल्य्	बात्सल्य, ममता, संतानेर प्रतिप्रेम	बात्सल्य, संतान-प्रीति	ममा-मपा ओइबना मचागी नूंशिबा	बात्सल्य, संतान प्रेम, प्रीति	वात्सल्यमु	कुळ्दैग-ळिडम् काट्टुम् अन्बु	वात्सल्यम्	वात्सल्य
वाद-विवाद, तकरार	वाद-विवाद	वाद-विवाद	बाद-बिबाद, तर्क-वितर्क, बादी	बाद-बिबाद, तर्क-बितर्क	मरै-येत्नबा	बाद-बिबाद, तर्क-बितर्क	वाग्वादमु, वादन्, डिबेटु	वाक्कु-वादम्	वादम्, तर्कम्	वादविवाद
वादी, फरियादी	फिर्यादी	वादी	बादी, फरियादी	बादी	वाकत्लिबा	बादी, मुदाला	वादि	वादि	वादि	फिर्यादि, वादि
वायु, वात, हवा	वाय	वायु, हावा	हाओया, बायु, बात, पबन	बायु, बताह, पबन	नूङ्शित्	बायु, हाबा, पबन	वायुवु	काट्टु	वायु	गाळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वायुमार्ग	पुं.	हवाई मार्ग, विमान मार्ग	वायुमार्गः	हवाई रसता	फ़ज़ाई रास्ता	हवॉई वथ	हवाई रस्तो	वायुमार्ग
वायु सेना	स्त्री.	वायुमार्गों की रक्षा करने वाली सेना, हवाई सेना	वायुसेना	हवाई सैना	फ़िज़ाइया	हवॉई फोज	हवाई फ़ौज	वायुसेना
वार्तालाप	पुं.	बातचीत, कथोपकथन, संवाद	वार्तालापः	गल्ल बात, गल्ल कत्थ	गुफ़्तुगू	कथ-बाथ	गुफ़्तगू, ग़ाल्हि-ब़ोल्हि	वार्तालाप, संभाषण, संवाद
वार्षिक	वि.	1. प्रतिवर्ष होने वाला, एक वर्ष के बाद होने वाला	वार्षिक	सालाना, वारशक	सालाना	वॅरियुक	सालियानो, वार्षिक	वार्षिक
		2. एक वर्ष तक चलता रहने वाला	वार्षिक	सालाना, वारशक	–	वहरुक	–	वार्षिक
वाष्प	पुं.	भाप	वाष्पः	भाफ	भाप	वाहॅं	बाष्प, ब़ाफ	बाष्प, वाफ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वायुमार्ग	वायुमार्ग	वायुमार्ग	बायुमार्ग, बिमान-मार्ग, आकाश-पथ	बायु मार्ग, बिमानपथ, आकाश-मार्ग	नुङ्शित् लंबी	आकाश-मार्ग, बिमानमार्ग	वायुमार्गमु	विण् वऴि, आगाय विमान वऴि	विमान मार्गम्	वायुमार्ग, आकाशमार्ग
हवाई दल	वायुसेना	वायुसेना	बिमान बाहिनी, बायुसेना	बायु सेना, बिमान बाहिनी	नोङ्थक्की लाल्मी	बायुसेना, बिमान-बाहिनी	वायुसैन्यमु	विमानप्पडै	व्योमसेन	वायुसेने
वार्तालाप, संवाद	वार्तालाप	कथनोपकथन	कथाबार्ता, बार्तालाप	कथोपकथन, बार्तालाप	वारि वताई शान्नबा	बार्तालाप	संभाषण	उरैयाडल्	संभाषणम्	मातुकते, संभाषणे
वार्षिक	वर्सुकी	वार्षिक, वर्ष, वर्ष को	बार्षिक, बात्सरिक	बार्षिक, बछेरेकीया	चहिगी ओइबा	वार्षिक, बर्षिकिआ, एकबर्षरै	वार्षिकमु	वरुडांदिर	वार्षिकम्, आण्टोटाण्टु	वार्षिक
वार्षिक	वार्षिक	वर्षव्यापी, वार्षिक	बर्षब्यापी	एबछरीया	चहि अमा फाओबा	बर्षब्यापि	वार्षिकमु	वरुडम् मुऴुद्म नडक्किऱ्	वार्षिकम्	वार्षिक
वराळ	वाफ	भाप, भाफ, वाष्प	भाप, बाष्प	बाष्प, भाप	मनिल्	बाष्प, बांफ	बाष्पमु, आविरि	नीरावि	बाष्पम्, नीरावि	आवि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वास्तविक	वि.	जो वास्तव में हो, यथार्थ, सत्य	वास्तविक, यथार्थ	वासतविक	हक़ीक़ी	पॅज़्य पॉठ्य, असली	हक़ीक़ी, असुली	वास्तविक
वाहन	पुं.	सवारी, यान	वाहनम्	वाहन	सवारी	सवार्य	वाहणु	वाहन
विकराल	वि.	भीषण आकृति वाला, डरावना	विकराल	डराउणा	मुहीब	खतरनाक, व्यकुॅरॉल्य	ख़ौफ़नाक	विक्राळ
विकल	वि.	बेचैन, व्याकुल	विकल	विआकुल, बैचैन	बेकल, बेचैन	गमगीन	बेचैन, व्याकुल	विकल, व्याकुळ
विकास	पुं.	उन्नति, प्रसार, अभिवृद्धि	विकासः	विकास	तरक़्क़ी (फ़रोग़)	फॉलाव	विकासु	विकास, उन्नती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वास्तविक, खरेखरुं, यथार्थ	वास्तवीक	वास्तबिक, साँचो	बास्तविक, यथार्थ	बास्तविक, यथार्थ, सत्य	तशेङ्ना, अशेङ्बा, अचुंबा	बास्तविक, प्रकृतरे, जथार्थरे, सत्य बा सतरे	वास्तवमैन॑	वास्तवमान, उण्मैयान	वास्तवम्, यथार्थम्	निजवाद, यथार्थ
वाहन	वाहन	वाहन	बाहन, जान-बाहन (या)	बाहन, यान-बाहन (परिबहन)	तोङ्ननबा	बाहन, जान, जानबाहन	वाहनमु	वाहनम्, सवारि, वण्डि	वाहनम्	वाहन, गाडि
विकराळ, डरामणुं	विकराळ	डरलाग्दो, विकराल	भीषण, भयानक, कराल	भीषण, भयानक, भयंकर	मओङ् काइबा, किनिङ्ङाइ ओइबा	बिकटाल, भयंकर, भीषण, भयानक	भयंकरमैन॑	बयंगरमान	भयंकरम्	विकराळ
विकळ व्याकुल, बेचेन	व्याकुळ	व्याकुल, विकल	बिकल, आकुल, ब्याकुल	ब्याकुल, आतुर	मीपाइबा लाङ्तक्नबा	ब्याकुल, आतुर, बिकल, आकुल	विकलमैन॑, व्याकुलमैन॑	मन अमैदियट्ट	व्याकुलन्	व्याकुल
विकास, उत्क्रांति	विकास	विकास	बिकास, प्रसार, उन्नति	बिकाश, प्रसार, उन्नति	शंदोक्पा, चाओखत्पा	बिकास, प्रसार, उन्नति, अग्रगति	विकासमु	वळर्चि, मलर्चि, मुन्नेट्टम्	विकासम्	विकास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
विक्रम	पुं.	पौरुष, बल, वीरता, पराक्रम	विक्रमः	बल	मर्दानगी (शुजाअत)	बल, ताकथ	बहादुरी, विक्रमु	विक्रम, पराक्रम
विख्यात	वि.	प्रसिद्ध, मशहूर	विख्यात	प्रसिद्ध, मशहूर	मशहूर	मशहूर	मशहूर	विख्यात, प्रसिद्ध
विचार	पुं.	1. सोचने-समझने की क्रिया या भाव, मनन, चिंतन	विचारः	विचार	ख़्याल	ख़याल	वीचारु	विचार
		2. मत, राय, धारणा	विचारः, मतम्	विचार	राय	–	–	मत
विचार-विमर्श	पुं.	विचारों का आदान-प्रदान, सलाह-मशवरा	विमर्शः, मन्त्रणा	सलाह-मशवरा	तबादलए-ख़्याल	सोच-समुंज	सलाह-मस्लिहत	विचार-विमर्श
विचित्र	वि.	साधारण से भिन्न, अद्भुत, अनोखा	विचित्र, विलक्षण	बचित्तर	अजीब	अजीब	विचित्र, अजीब	विचित्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विक्रम, पराक्रम, बळ, ताकात	विक्रम	विक्रम, पराक्रम	पौरुष, बल, बीरता	बिक्रम, बल, बीरता	थौना लैबा	बिक्रम, पौरुष, बल, बीरता	विक्रममु, पराक्रममु	परा-क्किरमम्, वीरम्	पराक्रमम्	पराक्रम
विख्यात, जाणीतुं, मशहूर	प्रसिद्ध	विख्यात, प्रसिद्ध	बिख्यात, प्रसिद्ध	बिख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध	अफाओबा	बिख्यात, प्रसिद्ध, ख्यात	विख्यातॅ-मैनॅ	पिरसिद्दि पॅट्ट, पुगऴ् पॅट्ट	विख्यातन्, विख्यातम्, प्रसिद्धम्	विख्यात
विचार, ख्याल	विचार	विचार, चिन्तन	बिचार, मनन, बिबेचना	बिचार, चिंता, बिबेचना	वाखल	बिचार, चिंता, बिबेचना	आलोचनॅ	ऍण्णम्	विचारम्	आलोचने
अभिप्राय, उद्देश	मत	मत, धारणा	मत, धारणा	मत, अभिमत, धारणा	मत	बिचार, मत, धारणा, अभिमत	अभिप्रायमु	करुत्तु	अभिप्रायम्	अभिप्राय
विचार-विमर्श, सलाह	विचार विमर्श	विचार विमर्श, सरसल्लाह	बिचार-बिमर्श, शला-परामर्श	बिचार-बिलोचना, बिचार-परामर्श	खन्न-नैनबा	बिचार-बिमर्श, बिचार-आलोचना	परामर्शॅ, संप्रतिंपु	करुत्तुप्-परिमाट्टम्, आलोचनै	आशय विनिमयम्	विचार विमर्शॆ, सलहॆ
विचित्र, अद्भुत	विचित्र	विचित्र, अनौठो	बिचित्र, अद्भुत	बिचित्र, अभिनव, अद्भुत	अङ्कपा	बिचित्र, अद्भुत, अजब	विचित्रमैनॅ	विचि-त्तिरमान, अदिशय-मान	विचित्रम्, अद्भुतम्	विचित्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
विजय	स्त्री.	1. शत्रु या प्रतिस्पर्धी को हराना, जीत	विजयः	जित्त	फ़तह	फतह	विजय, जीत	विजय
		2. सफलता, कामयाबी	साफल्य	जित्त	कामयाबी (जीत)	–	कामयाबी	यश
विजेता	पुं.	जीतने वाला, विजयी	विजेता	जेतू	फ़ातेह	ज़ेनन वोल, फातेह, फतह-हासिल-करन वोल	विजयी, जीतींदड़ु	विजयी
विज्ञान	पुं.	आविष्कृत सत्यों तथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान	विज्ञानम्	बिगिआन	साईंस (इल्म)	साइनस	विज्ञानु, साइन्स	विज्ञान
विज्ञापन	पुं.	1. प्रचार तथा बिक्री आदि के उद्देश्य से वस्तु के गुण, कार्य-पद्धति बताते हुए पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना	विज्ञापनम्	इशतिहार	इश्तिहार	इश्तिहार	इश्तहारु, ज़ाहिरात	जाहिरात

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विजय, जीत,	विजय	विजय, जित	बिजय, जित,	जय, विजय	ङंबा थोइबा	बिजय, जय, जितिबा	विजयमु	वॆट्टि	विजयम्	विजय, गेलवु
सफळता, फतेह	यश	सफलता	सफलता	सफलता, कृतकार्यता	महै यान्बा	सफलता, कृतकार्ज्य, बिजय	सफलतँ	जयम्	साफल्यम्	साफल्य
विजेता, विजयी, जीतनार	जैतीवंत, विजेता	विजेता, विजयी	बिजयी, बिजेता	बिजेता, बिजयी	अङँबा	बिजेता, बिजयी	विजेतँ	जयित्तवन्, वॆट्टि पॆट्टवन्	विजेतावुँ	गेद्दव, विजयि
विज्ञान	विज्ञान	विज्ञान	बिज्ञान (गग)	बिज्ञान	विज्ञान	बिज्ञान	विज्ञानमु, शास्त्रमु	विञ्ञानम्	सयन्सॅ, शास्त्रम्	विज्ञान
विज्ञापन, जाहेर खबर	जायरात	विज्ञापन	बिज्ञापन (गग), प्रचारपत्र	बिज्ञापन, जाननी	नोटिश् तौदुना मयामदा शंदोक्पा, एडवटाइज	बिज्ञापन	प्रकटनँ	विळंबरम्	परस्यम्	प्रकटने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. प्रचार आदि के उद्देश्य से बाँटी जाने वाली सामग्री, इश्तहार	विज्ञापनपत्रकम्	इशतिहार	ऐलान	इश्तिहार	इश्तिहारु, पधरनामो	विज्ञापन
विडंबना	स्त्री.	1. क्रूर, परिहास	विडम्बना	मखौल	हैअत कज़ाई	बदनॅसीबी, करमुँखुर	डुखोईदंड़ चिथर, मख़ौलबाज़ी	विडंबन
		2. असंगति	विडम्बना	मखौल	सितमज़रीफ़ी	करमुखुर	ग़ैर-मुनासिबत	विसंगती
वितरण	पुं.	बाँटना, देना	वितरणम्	वंड, वंडाई	तक़्सीम	बॉगरुन	विरिछ, विराहिसत	वितरण
विदूषक	पुं.	अपने विचित्र वेश, चेष्टा, बातचीत आदि से दूसरों की नकल उतार कर लोगों को हँसाने वाला, मसखरा, नाटकों में इस प्रकार का पात्र	विदूषकः	भंड, मसखरा	मस्ख़रा (नक़्क़ाल)	मसखरुँ, विदूशक, जोकर	मस्ख़रो चर्चाई	विदूषक
विदेश	पुं.	दूसरा देश, परदेश	विदेशः, परदेशः	परदेस	ग़ैर मुल्क (परदेस)	परदेस	विदेशु, परदेसु	परदेश

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
–	–	विज्ञापन, इस्तिहार, जनाउ	इस्तिहार, बिज्ञप्ति	जाननी, प्रचारपत्र, इस्ताहार, विज्ञप्ति	पाओ येंथोक्पा/ शंदोक्पा	बिज्ञापन, इस्ताहार, बिज्ञप्ति	प्रकटन नोटीसु	विञ्ञापनम्	नोट्टीसं	जाहीरातु, प्रकटणे
विडंबना, उपहास, मश्करी	विडंबन	विडंबना, उपहास	बिडंबना	विड़ंबना, क्रूर परिहास	नोक्नबा, करेम्नबा	ब्यतिक्रम, बिड़ंबना, परिहास	विड्डूरमु	केलि, परिहासम्	क्रूर विनोदम्	विडंबने
विसंगति	विसंगती	असङ्गति	असंगति	बिसंगति, असंगति	जूद् चान्नदबा	असंगत, अजुक्तिकर	असंगति	पॅरुंदामै	वैलक्षण्यम्, पोरुत्तमिल्लाय्म	असंगति
वितरण, दान	वितरण	वितरण, बाँडचुँड	बितरण, बिलि (न)	बितरण	येंथोक्पा, पीबा	बितरण, बण्टन	पंपिणी, वितरणमु	पंगीडु, पगिंर्दु कोडुत्तल्	वितरणम्	हंचुविके, वितरणे
विदूषक, मश्करो	विदूषक	विदूषक	बिदूषक, भाँड	बिदुषक, बहुवा	जोकर	बिदूषक	विदूषकुडु	विदूषकन्, कोमाळि	विदूषकन्	विदूषक
विदेश, परदेश	परदेश, विदेश	परदेश, विदेश	बिदेश	बिदेश	मीरैबाक, मीरम्दम	बिदेश, परदेश	विदेशमु	वॅळिनाडु	विदेशम्	परदेश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
विद्या	स्त्री.	1. अध्ययन, शिक्षा आदि से अर्जित किया जाने वाला ज्ञान	विद्या	विदिआ	इल्म	ऑलिम	विद्या	विद्या
		2. किसी तथ्य या विषय का विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान	विद्या	विदिआ	–	ऑलिम	–	विद्या
विद्यालय	पुं.	शिक्षण संस्थान, स्कूल, पाठशाला	विद्यालयः	विदिआला	मद्रसा (मक्तब) (स्कूल)	स्कूल, ज़्राटुॅहाल	विद्यालयु, विद्यालो	विद्यालय
विद्युत	स्त्री.	बिजली	विद्युत्	बिजली	बिजली (बर्क़)	बिजली	विजु, बिजली	विद्युत, वीज
विद्रोह	पुं.	राज्य या शासन के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण और व्यवहार, उपद्रव	विद्रोहः, राजद्रोहः	विदरोह, विद्रोह, बगावत	बग़ावत, सरकशी	बगावथ	विद्रोहु, बलिवो, बग़ावत	विद्रोह, बंड
विधर्मी	पुं.	1. अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, धर्म-भ्रष्ट	अधर्मिन्	विधरमी	मुल्हिद	दरमुॅ ब्रश्ट	विधर्मी, अधर्मी	धर्मभ्रष्ट, अधर्मी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विद्या, ज्ञान	विद्या	विद्या	बिद्या (द्द), ज्ञान	बिद्या	महै, विद्या	बिद्या, ज्ञान	विद्य	कल्वि, अरिवु	विद्या, ज्ञानम्	विद्ये, ज्ञान
–	–	विद्या	–	बिद्या, तथ्य	–	बिद्या, तथ्य	विद्य	आळ्ंद अरिवु, पुलमै	विज्ञानम्	शास्त्र
विद्यालय, शाळा	विद्यालय	विद्यालय, पाठशाला	बिद्यालय (द्द), स्कुल, शिक्खा प्रतिष्टान	बिद्यालय, पाठशाला	महै तंफम शङ्, स्कूल	बिद्यालय, पाठशाला	बिद्यालयमु	पळ्ळिळ्-कूडम्	विद्यालयम्	शाले
विद्युत, बीजळी	वीज	विद्युत, बिजुली	विद्युत् (द्द), बिजली	बिद्युत्, बिजली	बिजली, मै	बिद्युत, बिजुलि	विद्युत्तु	मिन्सारम्	वैद्युति	विद्युत्
विद्रोह, बळवो	विद्रोह, बंड	विद्रोह	बिद्रोह, उपद्रब	बिद्रोह, उपद्रब	यानिङ्दबा लिच-त्शाजत्, उपद्रव	बिद्रोह, उपद्रब, बिप्लब	तिरुगुबाटु	पुरट्चि	विप्ळवम्	विद्रोह
विधर्मी, अधर्मी	धर्मभ्रश्ट	विधर्मी, धर्मभ्रष्ट	बिधर्मी, धर्मभ्रष्ट	बिधर्मी, अधर्मी	धर्मगी माइयोक्ता लैबा	बिधर्मी, अधर्मी, धर्मभ्रष्ट, धर्मच्युत	धर्मभ्रष्टुडु	पिर् मदत्तवन्	विधर्मि	विधर्मि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. दूसरे धर्म का अनुयायी	विधर्मिन्	विधंरमी	मुरतद	वोंपर दरमुक	बिए धर्म जो	परधर्मी, विधर्मी
विनती	स्त्री.	विनीत भाव से की जाने वाली प्रार्थना, अनुनय-विनय	विनतिः	बेनती	इल्तिजा	गुज़ॉरिश	वेनती	विनती
विनय	स्त्री.	1. विनम्रता और सौजन्य	विनयः	बिने	इंकिसारी	गुज़ॉरिश	निउड़त, वेनती, अर्जु	विनय, विनम्रता
		2. नम्रतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती	विनयः	बिने	इल्तिजा	व्यनय	वेनती, अर्जु	विनंती
विनीत	वि.	जिसमें विनय हो, विनयी, नम्र,	विनीत	सुशील	मुन्कसिर	गुज़ारिशी, व्यनीत	निउड़त वारो, सुशील	विनीत, विनयी
विनोद	पुं.	1. मन-बहलाव, मनोरंजन	विनोदः	जी परचावा	तफ़्रीह	ठठुं-मसखरी	विंदुर, मनोरंजन	विनोद, मनोरंजन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
–	परधर्मी	परधर्मी	अन्य धर्माबलंबी	बिधर्मी, अन्यधर्मी	अतोप्पा धर्म चत्खिबा	बिधर्मी, अलगा-धर्मर-व्यक्ति बिशेष	परमतस्थुडु	वेरुमदत्त्वर्	अन्य-मतस्थन्	विधर्मि, अन्य धर्मावलंबि
विनंती, अरजी	विनंती	विनती, बिन्ती	बिनति, प्रार्थना, मिनति, अनुरोध	मिनति, प्रार्थना	हाइज-नोन्जबा	बिनति, अनुरोध, प्रार्थना	विन्नपमु	वेण्डु कोळ्	विनयम्, प्रार्थन, अपेक्ष	बिन्नह
विनय, विनम्रता	विनय	विनय, नम्रता	बिनय, बिनम्रता, सौजन्य	बिनय, बिनम्रता	नोनलुक्ना	बिनय, बिनम्रता, सौजन्य	विनयमु	अडक्कम्, नर्पण्बु	विनयम्	विनय
विनंति	नमळायेन	प्रार्थना, बिन्ती	–	मिनति, अनुरोध	हाइजबा	मिनति, बिनति, अनुरोध	विन्नपमु, प्रार्थन	वेण्डु कोळ्	अपेक्ष	अरिके
विनीत, विनयी, सौम्य, नम्र	विनयी	विनीत, विनयी	बिनीत, बिनयी, नम्र	बिनीत, बिनयी, नम्र, भद्र	नौल्लुक्पा, मराइ लुक्पा	बिनीत, बिनम्र, नम्र, भद्र	विनम्रुडु, विनयशीलि	अडक्क-मुळ्ळ	विनीतन्	विनयशील
विनोद, मोज, कौतुक, गमत	विनोद, मनोरंजन	विनोद, मनोरञ्जन	बिनोद, मनोरंजन	बिनोद, मनोरंजन	हराओ-नुङ्ङाइबा	बिनोद, मनोरंजन	विनोदमु, तमाशा	मन मगिळ्चि	विनोदम्	मनोरंजने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. हँसी-ठट्ठा	परिहासः	हासा-मखौल	–	–	खिल-मस्ख़री	थट्टा
विपक्ष	पुं.	विरोधी पक्ष या दल	विपक्षः	विपक्ख	हिज़्बे मुख़ालिफ़	मुख़ॉलिफ पार्टी	ब़ी धुरि, मुख़ालिफ़ पार्टी	विपक्ष
विपुल	वि.	संख्या या परिमाण में बहुत अधिक	विपुल	बोहत, विपुल	कसीर	स्यठाह	तमाम घणो	विपुल
विमल	वि.	मल-रहित, निर्मल, साफ	विमल	निरमल	साफ़ (पाक)	साफ, मलुँ-रँस	निर्मल	विमल, निर्मल
विमोचन	पुं.	1. बंधन आदि खोलकर मुक्त करना, छुड़ाना या छोड़ना	विमोचनम्	मोचण	गुलूख़लासी, रिहाई	मोंकुलावुन, व्यमूचन	छोड़णु, खोलणु	सुटका
		2. प्रकाशनोद्घाटन, लोकार्पण	ग्रन्थविमोचनम्, लोकार्पणम्	विमोचण	इज्रा	–	उद्घाटन, लोक अर्पणु	ग्रंथ विमोचन, प्रकाशन
वियोग	पुं.	1. प्रेमियों का एक-दूसरे से बिछुड़ना	वियोगः, विप्रलम्भः	वियोग	जुदाई	जुदॉयी	वियोगु, विछोड़ो	वियोग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मश्करी, हँसी–मजाक	मस्करी	हाँसठट्टा	हासि, ठाट्ठा, मश्करा	हाँहि–धेमालि	नोक् खेबा	ह्रास–परिहास, थटा–परिहास	विनोदमु	वेडिक्कै	कळि–तमाश	विनोद
विपक्ष, विरोधी	विपक्ष	विपक्ष	बिपक्ष, बिरोधी	बिपक्ष	माइयोक्ता लैबा काड्लुप	बिपक्ष, बिरोधी	प्रतिपक्षमु	एंदिर्कट्चि	प्रतिपक्षम्	ऐदुरु–पक्ष
विपुल, विशाल	खूब, विपूल	विपुल, प्रशस्त	बिपुल, अत्यधिक	अनेक, बिपुल, प्रचुर, अधिक	यांबा	ब्याप्त, बिपुल, अनेक, अधिक	विपुलमैन, विस्तारमैन	मिग अदिगमान	विपुलम्	बहळ
विमल, निर्मळ	विमल, निर्मळ	विमल, निर्मल	बिमल, निर्मल, स्वच्छ	बिमल, निर्मल, स्वच्छ	अरुबा, अशेङ्बा, तरु–तरुबा	बिमल, निर्मल, स्वच्छ	निर्मलमैन	माशट्ट, तूय, शुद्दमान	पवित्रम्, स्वच्छम्	विमल, शुद्ध
विमोचन, मुक्ति	विमोचन, उजवाडा हाडप	रिहाई	छाड़ानो, मुक्ति, प्रकाशण	बिमोचन, मोचन	फिजङ् हाइदोक्पा	बिमोचन, मुक्ति, मोचन	विमुक्ति	अविळ्त्तु विडुदल्	विमोचि–प्पिक्कल्	बिडुगडे, विमोचने
ग्रंथ प्रकाशन	प्रकाशन	विमोचन, लोकार्पण	–	उन्मोचन, अनावरण	लाइरिक फोङ्बा	उन्मोचन, अनाबरण	विडुदल	पुत्तग वॆळियीडु	प्रकाशनम्	उद्घाटने
वियोग, विरह	वियोग	वियोग, अलग्गयाइ	बियोग (ज), बिजुक्त (यु)	बिच्छैद, एराएरि	काइनबा	बिजोग, बियोग, बिच्छेद, अलगा–करिबा	वियोगमु	पिरिवु	वियोगम्, विरहम्	वियोग, अगलिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उक्त अवस्था का कष्ट	विरहव्यथा	वियोग	फुर्क़त	–	विछोड़े जो कष्टु	विरह
विराट	वि.	बहुत बड़ा या व्यापक	विराट्	विराट	अज़ीमुश्शान	बडि बोंड	विराट	विराट
विराम	पुं.	1. क्रिया, गति, चाल आदि में होने वाला अटकाव, ठहराव	विरामः	बिसराम	वक़्फ़ा (सुकून)	छ़्यन	तरिसणु, तर्सण या रुकिजण जी हालत	अडथळा, मुक्काम
		2. वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला रुकने का चिह्न, पूर्णविराम	विरामचिह्नम्	बिसराम	फ़ुलइस्टाप	छ़्यन	बीहक जी निशानी	पूर्ण विराम
		3. विश्राम, आराम	विश्रमः	बिसराम	आराम (सुकून)	छ़्यन	आरामु	विश्राम, आराम
विरोध	पुं.	कार्य या प्रयत्न को रोकने की कोशिश	विरोधः	विरोध	इख़्तिलाफ़	रुकावठ	विरोधु, मुख़ालिफत	प्रतिकार
विलंब	पुं.	औचित्य से अधिक समय, देरी	विलम्बः	देर, देरी	ताख़ीर, देर	दीरी	देर, अबेर	उशीर, विलंब

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विरह, दुःख	विरह	विरह, दुःख, विछोडको वेदना	बिरह	बिरह; बिच्छेद	काइन-मैशा	बिच्छेद, बिरह	विरहमु	पिरिवाट्टामै	विरह दुःखम्	विरह
विराट, भव्य	विराट	विराट, विशाल	बिराट, ब्यापक, बिशाल	बिराट, बिशाल, ब्यापक	पाक् चाओबा	बिराट, बिशाल, ब्यापक	चाला पेद्द, महा	मिगप्पेरिय, नन्गु परविय	विराटम्, व्यापकम्	बहळ, दोड्ड
विराम, विरमवुं	मुक्काम	विराम	बिराम, बिरति	बिराम, बिरति	पोत्थाबा, लेप्पा, पन्बा	बिराम, बिरति, बंद	विराममु, विश्रांति	इडैवेळि	विरामम्	तडे, विराम
पूर्ण-विराम	पूर्ण विराम	पूर्णविराम, विराम-चिह्न	दाँड़ि	बिराम चिह्न, यति	चाखै	बिराम-चिन्ह, पुर्णच्छेद	विराम-चिह्नमु	मुट्टु-प्पुळ्ळि	पूर्ण विरामम्, कुत्तुं	पूर्ण विराम
–	आराम	आराम, विश्राम	बिश्राम, जिरानो	जिरणि, बिश्राम	पोत्थाबा	बिश्राम, आराम	विश्रांति	ओय्वु	विश्रमम्	विश्रांति
विरुद्धता, तकरार, अणबनाव	विरोध	विरोध	बैपरीत्य, बिरोधिता, बिरोध	बिरोधिता	उन्न-तैनबा, माइयोक्ता	ब्यतिक्रम, बिरोधता, बिपरित	विरोधमु	विरोदम्, एॅदिर्प्पु	तटस्सर्प्प-टुत्तल्, ऐतिर्प्पु	विरोध
विलंब, वार	विलंब, उसरां	विलंब, ढिल्याइँ	बिलंब, देरि	बिलंब, पलम	येङ्बा, कुइना चङ्बा	बिलंब, डेरि	आलस्यमु	तामदम्	विळंबम्	तड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
विलय	पुं.	1. एक पदार्थ का अथवा राज्य का किसी दूसरे पदार्थ या राज्य में घुलना-मिलना, विलीन होना	विलयः	बिलै	इंज़िमाम/ इल्हाक़	मेलुन, इलहाक	मिली हिकु थी, वञण जी हालत	विलय
		2. सृष्टि का नष्ट होकर मूल तत्वों में मिल जाना, प्रलय अथवा ध्वंस, नाश	विलयः, प्रलयः	परलो	फ़ना (तह्लील)	प्रलय	प्रलय, प्रलइ	प्रलय
विलास	पुं.	1. सुख-सुविधाओं का यथोचित मात्रा से अधिक उपभोग	भोगः, विलासः, विलासपरायणता	विलास	अय्याशी	अयॉशी, व्यलास	शौकीनी, अयाशी, विलासु	चैन, विलास
		2. विषय भोग	विलासः	विलास	अय्याशी	वैंशयबूग	ऐश-अश्रत, भोग़-विलासु	भोगविलास
विलीन	वि.	1. जो अपनी स्वतंत्र सत्ता खोकर दूसरे में मिल गया हो	विलीन	विलीन	ज़म्	लीन ग़छुन, मीलिथ ग़छुन	विलीन, मिली हिकु थी वियलु	विलीन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विलय, लय	जिरोवप	विलय	बिलय, बिलोप, लय	मिल, चामिल	तिन्बा	बिलय, मिशिजिबा	विलयमु	आन्ऱि- विडुदल्	लयनम्	विलीन वागुविके
प्रलय, नाश	प्रलय	प्रलय, विलय, नाश	बिनाश, प्रलय	लय, प्रलय, बिनाश, नाश, ध्वंस,	प्रलय, माङ् ताक्पा	बिनाश, प्रलय, ध्वंस, नाश, नष्ट	प्रळयमु	प्रलयम्, पडैप्पिन अऴिवु	विलयम्	प्रळय
विलास, मोज	विलास, झगझग	विलास	विलास, बाबुगिरि	भोग- बिलास, बिलासिता	इथक- इराङ्	बिलास, भोग- बिलास, बिलास- ब्यसन	विलासमु	केळिक्कै वाऴ्क्कै, इन्ब वाऴ्क्कै	आडंबरम्	विलास
भोग- विलास, एश- आराम	चैनी	मनोविनोद, भोगविलास	बिलास, सुखभोग	भोग-बिलास, बिषयानंद	अपाम- नुङ्शिदा लुप्तुना लैबा	बिलास, भोग- बिलास, सुखभोग, बिषयानंद	भोगमु	चिट्ऱिन्बम्	क्रीडा- विलासम्	सुखो- पभोग
विलीन	विलीन	विलीन	बिलीन, अंतर्हित, लय	बिलीन, लीन	अतिन्बा, अयान्बा, अताङ्बा	बिलीन, लीन, अंतर्हित	विलीनमु	लयित्त, करैंद	अलिञ्ञ, विलयम् प्रापिच्च	विलीन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. गायब, लुप्त, अदृश्य	विलीन	विलीन	ग़ायब	लीन	–	लुप्त, अदृश्य
विलोम	वि.	1. विपरीत क्रम से होने वाला	विलोम	उलटा	नक़ीज़	वुलटुं	उबतड़ि, उबतो, उलटो	विलोम
		2. विपरीत अर्थ वाला	प्रतीप	उलटा	मुतज़ाद	मुतज़ाद	उबती माना डीदड़ु, ज़िदु (लफ़्ज़ु)	विपरीत अर्थाचा
विवश	वि.	मजबूर, बाध्य, लाचार	अवश	बेबस	लाचार	मजबूर	बेवसि	लाचार, विवश
विवाद	पुं.	1. कहा-सुनी, तकरार	विवादः, कलहः	झगड़ा, विवाद, मतभेंद	तक्रार	बहसुँ-बँहस	विवादु, तक्रारु	वाद विवाद, भांडण
		2. पारस्परिक मतभेद	विवादः	मतभेंद	इख़्तिलाफ़	इख़्तिलाफ	मतभेदु	मतभेद
विवाह	पुं.	1. शादी, पाणिग्रहण	विवाहः	बिआह	निकाह	नेथुँर	विहांउ, शादी	विवाह

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
गायब, लुप्त	शेणप	अदृश्य, लुप्त	लुप्त, अदृश्य	लुप्त, अदृश्य	माङ्खिबा, लुप्खिबा, उखिदबा	अदृश्य, लुप्त	मायमु, अदृश्यमु	मरैंदुपोन	काणाताय	मायवाद
विलोम, विपरीत	विपरीत अर्थाचो	विलोम	बिपरीत, प्रतिकूल	बिलोम, बिपरीत	उन्न तैनबा, ताइयोन्नबा	प्रतिकूल, बिपरीत	विलोममु	वरिशै ऍदिरान	विलोमम्	प्रतिकूल क्रमद, विलोम
ऊलटुं	–	विपरीत	बिलोम, बिपरीत	बिपरीत अर्थबाचक	उन्न तैनबा अर्थ ताक्पा	बिपरीत, ओलटा, ब्यतिक्रम	विपरीतार्थ- कमु	ऍदिरि- डैयान पॉरुळ्	विपरीतार्थकम्	विरुद्धार्थद
विवश, लाचार, पराधीन	निराधार	विवश, बाध्य, लाचार	बाध्य, बिबश, निरुपाय	बिबश, बाध्य, निरुपाय	तौफम् खङ्दबा	बिबश, बाध्य, निरुपाय, नाचार	विधि- लेनि, विवशत- चॅंदिन	तन् वश- मट्ट, कट्टाय- प्पडुत्त- प्पट्ट	निर्बधितन्, परवशन्	निरुपायनाद
विवाद, तकरार, झगडो	भांड	विवाद, भनाभन	बिबाद, झगड़ा, मतभेद	काजिया, तर्कातर्की	लाओनबा	बिबाद, झगड़ा, मतभेद, कलि	विवादमु	तकरारु	विवादम्	जगळ
–	मतभेद	झगडा, वाद-विवाद	बिरोध	मनोमालिन्य, मतभेद	मरै येत्नबा	मनोमालिन्य, मतभेद	भेदाभिप्रायमु	करुतु वेट्टुमै	अभिप्राय भेदम्	भिन्न अभिप्राय.
विवाह, लग्न	लग्न, काज़ार	विवाह, बिहे	बिबाह, परिणय, बिये	बिबाह, बिया, परिणय	लुहोङ्बा	बिबाह, परिणय	विवाहमु, पॅंड्लि	तिरुमणम्	विवाहम्	विवाह, मदुवे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. उक्त के अवसर पर होने वाला उत्सव या धार्मिक कृत्य	विवाहसंस्कार:	विआह	शादी	खाँदर	–	विवाह विधी
विवेक	पुं.	सत् और असत् के विवेचन निर्णय करने वाली बुद्धि, सुबुद्धि	विवेक:	बिबेक	तमीज़	तमीज़	विवेकु	विवेक
विशाल	वि.	1. बड़ा, बृहद्	विशाल	विशाल	अज़ीमुश्शान	अज़ीम, व्यशाल	विशाल	विशाल
		2. भव्य, शानदार	विशाल, भव्य	–	शानदार	व्यशाल	–	विशाल
विशिष्ट	वि.	1. (वस्तु) जिसमें औरों की अपेक्षा कोई बड़ी विशेषता हो	विशिष्ट	विशेश, खास	ख़ास, ख़ुसूसी	खास	ख़ास	विशिष्ट
		2. (व्यक्ति) जिसे अन्यों की अपेक्षा अधिक आदर, मान आदि प्राप्त हो	विशिष्ट, विलक्षण	विशेश, खास	ख़ास	खास	ख़ास	विशेष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लग्न-विधि	–	विवाहोत्सव, विवाहविधि	–	बिबाह कार्ज्य, बिवाह बिधि, धार्मिक कृत्य	विवाह	बिबाह-कार्ज्य, धार्मिक-कार्ज्य	विवाहमु	तिरुमण विळा, कल्याणम्	विवाहाघोषम्	मदुवे
विवेक	विवेक	विवेक	बिबेक	बिबेक, सुबुद्धि	अफ-फत लेप्पगी वाखल	बिबेक, सुबुद्धि	विवेकमु	पगुत्तरिवु	विवेकम्	विवेक, अरिवु
विशाल, मोटुं	होड	विशाल, विस्तृत	बड़ो, बृहद, बिशाल, बिपुल,	बिशाल, बिराट्, बृहत	पाक्-चाओबा	बिपुल, बिशाल, बड़, बृहत, बिराट	विशालमैन॒	विशालमान, अऴगान	विशालम्	दोड्ड, विशालवाद
–	भव्य, दबाजीक	भव्य, सानदार	प्रकाण्ड	भव्य, प्रकाण्ड	अचौबा, फजबा	भव्य, प्रकाण्ड, बिराट	भव्यमैन॒	चीरिय	गंभीरमाय	भव्य
विशिष्ट, विलक्षण	वेगळो, विशिश्ट	विशिष्ट	बिशिष्ट	बिशेष गुणयुक्त	थोइदोक्पा	विशिष्ट, प्रमुख, सुस्पष्ट	प्रत्येकमैन॒	तनिच्चि-रप्पान	विशिष्टम्	वैशिष्ट्-य्वुळ्ळ
विशिष्ट	विशिश्ट, प्रतिष्ठीत	विशिष्ट	–	विशिष्ट, बिशिष्ट	थोइदोक्ना इकाइ खुमनजरिबा	बिशिष्ट, प्रमुख	विशिष्ठतग॒ल॒	मदिप्पि-कुंरिय	विशिष्ट व्यक्ति	सम्मान्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
विशेष	वि.	1. जिसमें औरों की अपेक्षा कोई नई बात अथवा कुछ अलग हो, विशेषतायुक्त	विशिष्ट	विशेश, खास	ख़ास	खास	ख़ास	विशेष
		2. विचित्र, विलक्षण	विशिष्ट, विलक्षण	–	अजीब	अजीब	अजीब	विचित्र, विलक्षण
विश्राम	पुं.	आराम, चैन, सुख	विश्रम:	बिसराम	आराम	आराम	ब्रिस्रामु, आरामु	विश्राम, आराम
विष	पुं.	जहर	विषम्	विख, ज़हिर	ज़हर	ज़हर, वेंह	ज़हरु, विषु	विष
विषम	वि.	1. जो सम अर्थात् समान या बराबर न हों, असमान	विषम	असम	नामुसावी, ग़ैरमुसावी	बेंसोंम	ना बराबर, असमान	विषम
		2. जो (संख्या) दो से भाग देने पर पूरी न बँटे	विषमसंख्या	ताक	ताक़	ताक	इकी	विषम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विशेष	विशेस	विशेष, खास	बिशेष	बिशिष्ट, बिशेष	थोइदोक्पा	विशेष, बिशिष्ट, प्रधान, प्रमुख	विशेषमैन	विशेषमान, चिऱ्प्पान	प्रत्येकमाय	विशेष
विचित्र	बिलक्षण	विलक्षण, असाधारण	बिचित्र, बिलक्षुण (क्ख, न)	बिचित्र, असाधारण, बिलक्षण	अङक्पा	बिचित्र, असाधारण, बिलक्षण	विचित्रमैन, विलक्षणमैन	तनिप्पट्ट्, अदिशयमान	असाधारण-माय, विशेष प्पेट्ट	असाधारण
विश्राम, आराम	आराम, विश्राम	विश्राम, आराम, बिसाइँ	बिश्राम, बिराम, सुख, आराम	बिश्राम, आराम	पोत्थाबा, नुङ्ङाइबा	बिश्राम, आराम	विश्रांति	ओय्वु, सुगम्	विश्रमम्, शांति	विश्रांति
विष, झेर	विख	विष, बिख	बिष, जहर	बिष, बिह	हू	बिष, हलाहल	विषमु	नंजु, विषम्	विषम्	विष
विषम	असमान	विषम, असमान	असमान, बिषम	बिषम, असमान	मान्नदबा	बिषम, असमान	विषममु, असमानमु	वित्तिया-समान, ओन्ऱुपो-लिल्लाद	तुल्यमल्लात्त	विषम
विषम	विशम	बिजोर (सङ्ख्या)	बिजोड़	बिषम (संख्या)	चाङ् मान्न येंदबा	बिषम-संख्या, अजोडा-संख्या	बेसि	ओत्तैप्पडैयान	विषम संख्य, ओट्ट संख्य	विषम-संख्ये

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. (कार्य, स्थिति या विषय) जो कठिन या विकट हो	विषम	विक्खम	नामुसाइद	पीचीदुॅ	डुखियो	अवघड
विषय-सूची	स्त्री.	विषयों की अनुक्रमणिका या सूची	विषयानुक्रमणी, अनुक्रमणिका	विशे-सूची	फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन	फीरिस	विषय-सूची, पनोतरी	विषय सूची, अनुक्रमणिका
विसंगति	स्त्री.	संगति का न होना, असंगति	विसङ्गतिः	विसंगती	फ़र्क़	संगॅच़ रॅास फरुॅख	ग़ैर-मुनासिबत	विसंगती
विस्फोट	पुं.	एकत्र गैस, बारूद आदि का अग्नि या ताप के कारण जोर का शब्द करके बाहर निकल पड़ना	विस्फोटः	विसफोट	धमाका	दमाकुॅ, टास	फाटु, धमाको, विस्फोट	विस्फोट
वे	सर्व.	'वह' का बहुवचन रूप	ते, ताः, तानि	ओह	वोह	तिम	उहे	ते
वेग	पुं.	गति या चाल की तीव्रता या तेजी, शीघ्रता	वेगः, जवः	वेग	तेज़ी	तीज़ी	तेज़ी	वेग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विकट	अवघड	दुर्बोध्य, विषम	बिषम, कठिन	टान, कठिन	अरुबा	विषम, कठिन, टाण, कष्ट	कष्टक- रमैन	कडिनमान	प्रयास- मुळ्ळ, विषम- मुळ्ळ	विकट
विषय- सूचि, सांकळियुं	अनुक्रम- णिका, सूची	विषय सूचि, विषय- तालिका	विषयसूचि, अनुक्रम- णिका (न)	बिषय- सूची, कार्य- सूची	हिरम	बिषयसूची, कार्य्य- सूचि	विषयं - सूचिकं	अट्टवणै	विषयानुक्र- मणिक, विषय विवरम्	अनुक्रम- णिके, विषय- सूचि
विसंगति, असंगति	विसंगती	विसङ्गति, असङ्गति	बिसङ्गति, असङ्गति	बिसंगति, असंगति	चाशन्न- दबा, चुशिन्नदबा	असंगति, बिरोध	असंदर्भमु	पोरुंदामै	असंगति, युक्तिहीनत	असंगति
विस्फोट, धड़ाको	विस्फोट	विस्फोट	बिस्फोट, बिस्फोरण	बिस्फोरण, स्फोटन	पोखाइबा	बिस्फोट, बिस्फोरण	विस्फोटमु, ब्रद्दलगुंट	वेडित्तल्	विस्फोटनम्	सिडित, विस्फोट
तेओ	ते,त्यो, तीं	उनी, तिनी	तिनि, ताँरा	सिहँत, सेइबोर इत्यादि	मखोय	सेमाने	वारु, अवि	अवर्गळ्, अवै अंद	अवर्, अव, आ	अवरु, अवु
वेग, गति, झड़प	वेग	वेग, शीघ्र गति	बेग, द्रुतगति, त्वरा, गति	बेग, द्रुत, गति, तीव्रता	याङ्बा	गति, शीघ्रता, बेग, द्रुतता, क्षिप्रता	वेगमु	वेगम्	वेगम्	वेग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वेतन	पुं.	तनख्वाह, पगार	वेतनम्, भृतिः	तनखाह	तनख़्वाह	तनुँखाह	पघार/पघारु	पगार, वेतन
वेदवाक्य	पुं.	ऐसा वाक्य या कथन, जिसकी सत्यता असंदिग्ध हो	वेदवाक्यम्	वेदवाक	कलिमा-ए-हक़	वीदुॅ वाख	वेद-वाक्यु	वेदवाक्य
वेदी	स्त्री.	मांगलिक या शुभ कार्य के लिए तैयार किया हुआ चौकोर स्थान, वेदिका	वेदी, वेदिका	वेदी	वेदी	प्यँड	वेदी, वेडी	वेदी
वेशभूषा	स्त्री.	पहनने के कपड़े, पोशाक, पहनावा	वेशभूषा, वेशः	पोशाक, पहरावा	पोशाक, पहनावा	पलव, पोशाख	वेसु-वगो	वेशभूषा
वैज्ञानिक	पुं.	विज्ञान का ज्ञाता, विज्ञानवेत्ता	वैज्ञानिक	विगिआनक	साईंस दाँ	साइनस दान	विज्ञानी, विज्ञानिक	वैज्ञानिक
	वि.	विज्ञान-संबंधी	वैज्ञानिक	–	साईंसी	सयनुसी	–	विज्ञान-विषयक
वैर	पुं.	घोर शत्रुता	वैरम्	वैर	अदावत	वारॅ, हसद	वेरु	वैर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वेतन, पगार	पगार, पाग	तलब, वेतन	बेतन, माहिना	बेतन, दरमहा	तोलोप्	बेतन, दरमा	वेतनमु, जीतमु	चंबळम्	शंपळम्, वेतनम्	संबळ, वेतन
वेदवाक्य	वेदवाक्य	वेदवाक्य	बेदबाक्य	बेद-बाक्य, सतकथा	अचुंब्बा वङाङ्	बेदबाक्य, सतकथा	वेदवाक्यमु	वेद वाक्कु	वेदवाक्यम्	वेदवाक्य
वेदी, वेदिका	वेदिका, वेदी	वेदी, वेदिका	बेदी, बेदिका	बेदी, बेदिका	वेदी	बेदी	वेदिक	वेळ्वि मेडै	वेदि	वेदिके
वेशभूषा, पोशाक	वेशभूषा	वेशभूषा, पहिरन, पोसाक	बेशभूषा, पोशाक	बेश, पोछाक, बेश-भूषा, साज-पार	फिजेत् लैतेङ्	पोषाक, बेश-भूषा	वस्त्रधारण	उडै, उडुत्तुम् तुणिगळ्	वेषालंकारम्, उटुत्तुकेट्टु	उडिगे तोड़िगे
वैज्ञानिक	वैज्ञानीक	वैज्ञानिक	बैज्ञानिक (गग)	बैज्ञानिक, बिज्ञानी	विज्ञान, खङ्बा	बैज्ञानिक, बिज्ञानी	शास्त्रज्ञुडु	विञ्ञानी	शास्त्रज्ञन्	विज्ञानि
–	विज्ञान-विशींचे	वैज्ञानिक	बिज्ञान-संबंधी (गग)	बैज्ञानिक	विज्ञान गा मरि लैनबा	बैज्ञानिक	शास्त्रीयमैन, शास्त्रसंबंधमैन	विञ्ञान संबंदमान	शास्त्रीयम्	वैज्ञानिक
वेर, द्वेष, झेर	शत्रू	वैर, दुस्मनी	बैर, शत्रुता, बैरिता	बैरिता, शत्रुता	येक्नबा	बैरता, शत्रुता, बिरोध	वैरमु, पग	विरोदम्, पगैमै	वैरम्, शत्रुत	हगेतन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
वैश्य	पुं.	हिंदुओं में तीसरे वर्ण का व्यक्ति, जिसका मुख्य कर्म व्यापार कहा गया है	वैश्य	वैश	वैश	वैश, वोन्य	वैश्यु (हिकु वर्णु)	वैश्य
व्यंग्य	पुं.	1. शब्द की व्यंजना शक्ति द्वारा निकलने वाला अर्थ, कटाक्ष, ताना	व्यङ्ग्यार्थः	विअंग	तंज़ (ताना)	टसनुँ	तानो, मज़ाक, तन्ज़	व्यंग्य
		2. विडंबना	विडंबना	–	तज़्दीक	–	मज़ाकु, विडंबना	विडंबना
व्यंग्य-चित्र	पुं.	किसी घटना, बात, व्यक्ति आदि की हँसी उड़ाने के उद्देश्य से बनाया गया उपहासात्मक तथा सांकेतिक चित्र	व्यङ्ग्यचित्रम्	विअंग-चित्तर	कारटून	कार्टून	तन्ज़िया तस्वीर, कार्टून	व्यंग्यचित्र
व्यंजना	स्त्री.	1. व्यंग्यार्थ-बोधक, शब्द की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक	व्यञ्जना	विअंजना	जूमानवीयत	गूड-माने, सिखिम-माने	व्यंजना	व्यंग्यार्थ, व्यंजना
		2. व्यंग्यार्थ	व्यङ्ग्यार्थः	विअंजना	इशारीयत	गूडमाने	गुझो अर्थु, इशारो कयलु, हासिल मतलब	व्यंग्यार्थ, व्यंजना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वैश्य	वैश्य	वैश्य	बैश्य, बर्णभेदे तृतीय बर्ण	बैश्य, ब्यवसायी	वैश्य	बैश्य, ब्यबसायी, बेपारि, बाणिज्य-ब्यबसाय-करुथिबा-श्रेणीर लोक	वैश्युडु	वैशिय-जातियर्	वैश्यन्	वैश्य
व्यंग्य, कटाक्ष	व्यंग्य	व्यङ्ग्य	ब्यङ्ग-बिद्रुप, कटाक्ष	ब्यंगार्थ, श्लेष, ब्यंगोक्ति, कटाक्षपात	करेम्नबा	ब्यंग, बिद्रुप, हास-परिहास-जुक्त	व्यंग्यमु	केलि, अंगदम्, मुरण्पाडु	मुळ्ळुवाक्कुं, व्यंग्यम्	व्यंग्य, कटूक्ति
विडंबना	विडंबना	विडंबना	बिडंबना	बिड़ंबना, ब्यंग	नोक्नबा	बिड़ंबना, ब्यंग	वैरुध्यमु	किंडल, परिगासम	विलक्षणत्वम्, वैपरीत्यम्	विडंबने
व्यंग्य-चित्र	व्यंग्य-चित्र	व्यङ्ग्य-चित्र	ब्यङ्ग-चित्र, कारटुन	ब्यंग चित्र	कार्टून	ब्यंग्य-चित्र	व्यंग्य चित्रमु, कार्टूनु	केलि-च्चित्तिरम्	कार्टूण्, हास्यचित्रम्	व्यंग्य चित्र
व्यंजना	व्यञ्जना	व्यञ्जना	ब्यञ्जना, ब्यंग्यार्थ	ब्यंजना	व्यंजना (शब्द-शक्तिगी मखल) अमा	ब्यंजना	व्यंजना-शक्ति	कुरिप्पाल् उणर्त्तुदल्	व्यंजन	व्यंजना
व्यंग्यार्थ	व्यंग्यार्थ	व्यङ्ग्यार्थ	ब्यंग्यार्थ	ब्यंगार्थ	करेम कथाइनबा	व्यंगार्थ, गुढ़अर्थ	व्यंजनं	उट्पॊरुळ् वैत्तु पेशुदल्	व्यंग्यार्थम्	व्यंग्यार्थ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
व्यक्त	वि.	प्रकट, प्रत्यक्ष	व्यक्त	प्रगट, परगट	ज़ाहिर	प्रकट, प्रॅत्यख, ज़ॉहिर	ज़ाहिर, प्रकट	व्यक्त
व्यक्ति	पुं.	मनुष्य, आदमी	जनः	विअकती	शख़्स (फ़र्द)	नफर	माण्हू, शख़्सु	व्यक्ती
व्यक्तिगत	वि.	व्यक्ति विशेष से संबंधित	व्यक्तिगत	विअकतीगत	शख़्सी, इन्फ़िरादी	ज़ॉती	शख़्सी	व्यक्तिगत
व्यथा	स्त्री.	उग्र शारीरिक या मानसिक पीड़ा	व्यथा	पीड़	अज़ीयत, अज़ाब	दो'ख	डुखु, पीड़ा	व्यथा, वेदना
व्यय	पुं.	1. खर्च	व्ययः	खरच	सर्फ़	खरुॅच	ख़र्चु	व्यय, खर्च
		2. उपभोग आदि में आने के कारण किसी चीज का होने वाला क्षय, नाश या लोप	व्ययः	–	ख़र्च	खरुच	–	क्षय, विनाश
व्यवसाय	पुं.	जीविका-निर्वाह का साधन, पेशा, व्यापार	व्यवसायः, उद्योगः	कित्ता, पेशा	पेशा (रोज़गार)	कारुॅबार, पेशु	धंधो	व्यापार, व्यवसाय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
व्यक्त, प्रकट, खुल्लुं	व्यक्त	व्यक्त, प्रकट, खुलस्त	व्यक्त, प्रकट, प्रत्यक्ष	ब्यक्त, प्रकट	फोङ्दोक्पा	ब्यक्त, खोला, प्रकट	व्यक्तमु	तॆळिवान, वॆळिप् पडैयान	व्यक्तम्	प्रकट
व्यक्ति, माणस	व्यक्ती	व्यक्ति, मानिस	व्यक्ति, लोक, मानुष	ब्यक्ति, पुरुष, मानुह	मी	ब्यक्ति, लोक, मनुष्य	व्यक्ति	नबर्	व्यक्ति	व्यक्ति
व्यक्तिगत	व्यक्तीगत	व्यक्तिगत, निजी	ब्यक्तिगत, निजस्व	ब्यक्तिगत, निजस्व	मी मशातगी ओइबा	ब्यक्तिगत, निजस्व	व्यक्तिगतॅ - मैनॅ	तनिप्पट्ट	व्यक्तिपरम्	व्यक्तिगत
व्यथा, पीड़ा, दु:ख	व्यथा, वेदना	व्यथा, दु:ख	व्यथा, बेदना, जंत्रता	ब्यथा, पीड़ा, कष्ट, दुख	अवाबा, चैना	ब्यथा, पीड़ा, जंत्रणा, कष्ट	ब्यथॅ, वेदनॅ	मन वेदनै	व्यथ, वेदन	व्यर्थ
व्यय, खरच, वचराश	खर्च	खर्च, व्यय	ब्यय, खरच	ब्यय, खरच	खर्च	ब्यय, खर्च	व्ययमु, खर्चु	चॆलवु	चिलवॅु	खर्चु
क्षय, विनाश	व्यय	खर्च, नाश	क्षय, ह्रास	क्षय, खरच	माङ्बा	क्षय, खर्च	व्ययमु, खर्चु	तेय्मानम्, तेय्दु पोदल्	क्षयम्	तीरुविके
व्यवसाय, धंधो	वेवसाय	व्यवसाय, पेसा	व्यबसाय, जीबिका	बृत्ति, ब्यवसाय, जीबिका	शिन्फम्	बृत्ति, ब्यबसाय, जीबिका	वृत्ति, व्यापारमु	तॊऴिल्, जीविनोपायम्	तॊऴिल्	कसबु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
व्यवस्था	स्त्री.	1. प्रबंध, इंतजाम	व्यवस्था	प्रबंध, इंतिजाम	इंतिज़ाम	इंतिज़ाम	इंतिज़ामु, बंदोबस्तु	व्यवस्था, सोय
		2. ठीक अवस्था, अच्छी हालत	सुव्यवस्था	हालत	नज़्म	बोंदबस्त	सुठो बंदोबस्तु	चांगली स्थिती
व्यष्टि	स्त्री.	समष्टि का एक स्वतंत्र अंग, व्यक्ति	व्यष्टि:	फरद	फ़र्द	फरुँद, शख़ुॅस	शख़्सु, अलग॒ जुज़ो	व्यष्टी
व्यस्त	वि.	कार्य आदि में लगा हुआ अथवा उलझा हुआ	व्यापृत, निमग्न	रुज्झा	मस़्रूफ़, मशमूल	आवुर, कामि	मशग़ूल, रुधलु	व्यस्त, निमग्न
व्याकुल	वि.	1. बेचैन, व्यग्र, विकल	उद्विग्न, व्याकुल	बेकरार, बेकल	मुज़्तरिब	दो'खी, व्याकोंल	व्याकुल	बेचैन, व्याकुल
		2. उत्कंठित, उत्सुक	उत्कण्ठित	बेताब	बेक़रार	–	–	उत्कंठित, उत्सुक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
व्यवस्था, प्रबंध	बंदोबस्त	व्यवस्था, प्रबंध्	ब्यबस्था, बंदोबस्त, प्रबंध	ब्यवस्था, योगार, बंदोबस्त	थौशि-ल्थौराङ्	ब्यबस्था, प्रबंध, बंदोबस्त	एर्पाटु	एर्पाडु	व्यवस्थ, एर्प्पाडुँ	एर्पाडु, व्यवस्थे
सारी स्थिति	व्यवस्था	राम्रो अवस्था, राम्रो हालत	भालो अबस्था	बंदोबस्त, अवस्था, भाल अवस्था	अफबा फिभम्	भल-परिस्थिति-बा अबस्था	व्यवस्थ	ओळुंगान निलै	नल्ल निल	सुव्यवस्थे
व्यष्टि	व्यश्टी	व्यष्टि	व्यष्टि (बे)	ब्यक्ति, समष्टि	मीओइ अमा	ब्यष्टि, व्यक्ति	व्यष्टि	वेरुपट्ट तन्मै	व्यष्टि	व्यष्टि
व्यस्त	व्यस्त	व्यस्त्, निमग्न्	ब्यस्त	ब्यस्त, लागि-थका	अचिन्बा	ब्यस्त, निमग्न, मज्जित	निमग्नमैन	वेलैयिल् ईडुपट्ट	तिरक्कुळ्ळ	तल्लीन
व्याकुल, गभरूं, गभरायेलुं	व्याकुळ	व्याकुल, बेचैन	आकुल, ब्यग्र	ब्याकुल, आकुल	मिपाइबा, लाङ्तक्नबा	ब्याकुल, आकुल, ब्यग्र	व्याकुलमैन	मनम् कलंगिय	व्याकुलन्	विकल, कातर
उत्सुक, उत्कंठित	उत्सुक	उत्कण्ठित, उत्सुक	उत्कंठित, उत्सुक	उत्कण्ठित, ब्यग्र	खङ्निङ्बा	उत्कंठित, उत्सुक, ब्यग्र	आतुरतकल	आवलुळ्ळ	उत्सुकन्	उत्सुक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
व्याख्या	स्त्री.	1. सविस्तार वर्णन, विवेचन	व्याख्या	विआखिआ	तशरीह	व्यछ़निथ-वनुन, वखनुन	व्याख्या, टीका	विवेचन
		2. अर्थ का स्पष्टीकरण, टीका	व्याख्या	–	–	टीका (तशरीह), वखनय	समुझाणी	टीका
व्याघ्र	पुं.	बाघ, शेर	व्याघ्रः	बाघ	शेर	सुँह	शेरु, शींहुं	बाघ, व्याघ्र
व्याधि	स्त्री.	शारीरिक कष्ट, बीमारी	व्याधिः	रोग	मरज़, बीमारी	ब्यमार्य	बीमारी	व्याधी, रोग
व्यापक	वि.	1. चारों ओर फैला हुआ, विस्तृत	व्यापक	विआपक	मुहीत	च़्रो'पॉर्य फॅहलिथ	व्यापक	विस्तृत, व्यापक
		2. वृहद्	व्यापक	विआपक	वसी	–	–	बृहत्

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विवेचन	व्याख्या	व्याख्या, खुलस्त वर्णन	ब्याख्या	बिवरण, बिवरणी	शंदोक्ना नैनबा	ब्याख्या, टीका-बिबरण, बिबरणी, बिबृत्ति	व्याख्य	विरिवुरै	व्याख्यानम्	व्याख्ये, सविस्तार वर्णने
व्याख्या, टीका	स्पश्टीकरण	स्पष्टीकरण, टीका	टीका	टीका, ब्याख्या	व्याख्या	ब्याख्या, टीका	व्याख्य, टीका	विळक्क उरै	टीक	टीका
व्याघ्र, वाघ	वाघ	बाघ, व्याघ्र	ब्याघ्र, बाघ	बाघ	कै	ब्याघ्र, बाघ	व्याघ्रमु, पुलि	पुलि	पुलि, कटुव, व्याघ्रम्	हुलि
व्याधि, रोग	रोग	शरीरिक रोग, व्याधि	ब्याधि, रोग	ब्याधि, बेमार, रोग	लाइथुङ्	ब्याधि, बेमारि, रोग	व्याधि	वियादि, नोय्	व्याधि, रोगम्	रोग
व्यापक	व्यापक	व्यापक, विस्तृत	ब्यापक, बिस्तृत, बृहद्	बिस्तृत, ब्यापक	शंदोक्पा	ब्यापक, बहुल, बिस्तृत, अत्यधिक	व्यापिंचिन, विस्तरिंचिन	परवलान	व्यापकम्	व्यापक
बृहत	बृहद्, होड-प्रमाणें	बृहत्	—	बृहत, प्रकाण्ड	पाक्चा-ओबा	बृहद्, प्रकांड, बिशाल, बड़, बिराट	विशालमैन	मिहर्प्परिय	बृहत्ताय	बृहत्ताद, व्यापक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
व्यापार	पुं.	रोजगार, तिजारत	व्यवहार:, व्यवसाय:	वपार	रोज़गार	तिजारथ, बापार, कारु बार	वापारु	व्यापार
व्यायाम	पुं.	कसरत	व्यायाम:	कसरत	वर्ज़िश	वर्ज़िश, कसरत	व्यायामु, कसरत	कसरत, व्यायाम
व्युत्पत्ति	स्त्री.	मूल, उद्गम या उत्पत्ति का स्थान	उद्गम:	मसदर	मस्दर, मख़्रज	आगुर	उत्पती	उगम, उत्पत्ती
व्योम	पुं.	आकाश, अंतरिक्ष, आसमान	व्योमन्	अकाश, असमान, आसमान	आस्मान	आकाश	आसमानु,	व्योम, आकाश
शंका	स्त्री.	1. संशय, संदेह, शक	शङ्का	शक, शंका	शक	शेंख	शंका, शकु	संदेह, शंका
		2. भय, अंदेशा, खटका	आशङ्का	–	ख़द्शा	शख	डपु, खुटिको	भीती, आशंका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
व्यापार, वेपार	वेपार	व्यापार, बेपार, व्यवसाय	ब्यापार, बाणिज्य (न)	बेपार, जीविका, कारबार, ब्यवसाय	ललोनबा	बेपार, ब्यापार, कारबार, जीबिका, बाणिज्य-ब्यबसाय	व्यापारमु	वियापारम्	व्यापारम्, कच्चवटम्	व्यापार, उद्यम
व्यायाम, कसरत	व्यायाम	व्यायाम, कसरत	ब्यायाम, कसरत्	कछरत, ब्यायाम	हक्चाङ् शाजेल तौबा	ब्यायाम, कसरत	व्यायाममु	कसरत्तु, उडर् पयिर्चि	व्यायामम्, कसर्त्तु	व्यायाम, कसरत्तु
व्युत्पत्ति	व्युत्पत्ती	व्युत्पत्ति, उद्गम	ब्युत्पत्ति, उत्स, मूल	ब्युपत्ति, उत्स, उह	हौरक्फम्	ब्युत्पति, उप्तत्ति, उत्स	उत्पत्ति, व्युत्पत्ति	चॉल्-तोट्टम्	व्युत्पत्ति	व्युत्पत्ति
आकाश	असमंत	आकाश, अकास, व्योम	ब्योम, आकाश, महाशुन्य	ब्योम, महाकाश, आकाश, महाकाश	अतिया, नोंमदोल्	ब्योम, आकाश, महाकाश, महाशुन्य	आकाशमु	आहायम्	आकाशम्, व्योमम्	मुगिलु, आकाश,
शंका, संदेह, शक	दुबाव, अविश्वास	शङ्का, संसय	शंका, संशय, संदेह	आशंका, संदेह	चिङ्नबा	शंका, संदेह, संशय	संदेहमु	संदेहम्, ऐयम्	संशयम्, शंक	अनुमान, अपनंबिके
अंदेशो, खटको	भय	डर, भय, आशङ्का	भय, खट्का	संशय, भय, शंका, त्रास	अकिबा, खौदक तौबा	भय, डर, शंका, आतंक, त्रास	आशंकॅ, अनुमानमु	बय उणर्चि	भयम्, आशंक	हेदरिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शंख	पुं.	1. समुद्र में पैदा होने वाले एक जंतु का कड़ा और सफेद खोल	शंख:	संख	नाक़ूस (शंख)	शंख, हंख	शंखु	शंख
		2. दस खरब अथवा एक लाख करोड़ की संख्या	शङ्खम्	संख	संख	शंख	ड़ह खरब, शंख	एक लक्ष कोटी
शकुन	पुं.	विशिष्ट पशु, पक्षी, व्यक्ति, वस्तु, व्यापार आदि के देखने-सुनने, होने आदि से मिलने वाली शुभ-अशुभ की पूर्व-सूचना	शकुनम्	सगण	शगुन, फ़ाल	शोगून	सोणु, फ़ालु, शगुन	शकुन
शक्कर	स्त्री.	1. चीनी	शर्करा	शक्कर, खंड	शक्कर, चीनी	मोंदुरेर, शकर	खंडु	साखर
		2. कच्ची चीनी, खाँड	खण्ड:	शक्कर, खंड	खांड	–	–	साखर
शक्ति	स्त्री.	1. पराक्रम, बल, सामर्थ्य	शक्ति:	शकती	ताक़त (क़ुव्वत)	ह्यमथ, ह्यकथ	शक्ती, ताक़त	शक्ती, बळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शंख	शंख	शङ्ख	शंख, शाँख	शंख	मोइबुङ्	शंख	शंखमु	चंगु	शंखुं	शंख
एक लाख करोड़	एक लक्ष्य कोटी	शङ्ख (सय पद्मको सङ्ख्या)	–	शंख	–	शंख	शंखमु	लट्चम् कोडि	शंखं	ओंदुलक्ष कोटि
शकुन, शुकन, शुभ घड़ी	शकून	शकुन, शुभ मुहुर्त	शकुन (नि) (पक्षी बिशेष), शुभाशुभ लक्षण	शुभाशुभ-लक्षण बा आग-जाननी	अफ-फत्त ताक्पगी खुदम	शुभाशुभ-लक्षण	शकुनमु	शगुनम्	शकुनम्	शकुन
शक्कर	साखर	चीनी	चिनि, शर्करा	चेनि	चीनी	चिनि, शर्करा	चक्कॅर	शक्करै	पंचसार	सक्करे
खांड	खांड	सखर	–	केचा चेनि, खाण्ड	चीनी अङाङ्बा	गुड़	कंडॅ-चक्कॅर	अस्का	चक्कर	बेल्ल
शक्ति, सामर्थ्य, बळ	शक्ती	शक्ति, बल, सामर्थ्य	शक्ति, पराक्रम, सामर्थ्य (थ), बल, शक्तिर देबी दुर्गा	शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ	शक्ति, थौना	शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य	शक्ति	शक्ति, तिरन्	शक्ति	शक्ति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. दुर्गा	शक्तिः	शक्ती	देवी दुर्गा	दुर्गा, बगुँवती	दुर्गा	दुर्गा
शक्तिशाली	वि.	बलवान, शक्ति संपन्न	शक्तिशालिन्	शकतीशाली	ताक़तवर	बलुँवान	शक्तीशाली, ताक़तवर	बलवान, शक्तिशाली
शताब्दी	स्त्री.	सौ वर्षों की अवधि, शती, सदी	शताब्दः	सदी	सदी	हॅत्युल, सदी	सदी	शताब्दी
शत्रु	पुं.	वैरी, दुश्मन	शत्रुः	वैरी	दुश्मन	दुश्मन, शथुॅर	शत्रू, दुश्मनु	शत्रु
शपथ	स्त्री.	सौगंध, कसम	शपथः	सौंह	हलफ़, क़सम	कसम, दुॅय	क़समु	शपथ
शब्दकोश	पुं.	वह ग्रंथ, जिसमें शब्दों के सम्यक् वर्ण-विन्यास, अर्थ-प्रयोग, पर्याय आदि हों	शब्दकोशः	शबदकोश	लुग़त (लुग़ात)	डिकशनरी	शब्दकोशु, डिक्शनरी	शब्दकोश

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दुर्गा	दुर्गा	दुर्गा	देबी दुर्गा, शक्ति	दुर्गा, शक्ति	दुर्गा	शक्ति, देबी, दुर्गा	शक्ति, दुर्ग	दुर्गै अम्मन्	दुर्गादेवी	दुर्गा
शक्ति-शाली, बळवान	शक्तिशाळी	शक्तिशाली, बलिष्ठ	शक्तिशाली, बलबान्	शक्तिशाली, बली, बलबान	थौना लैबा, अङम्बा	शक्तिशाली, बलबान, बलशाली	शक्तिशालि, शक्ति-मंतुडु	बलम् पारुंदिय	शक्तिशालि	शक्तिशालि
शताब्दी, सदी	शताब्दी	शताब्दी	शताब्दी, शतक, एकशो बछर	शताब्दी, शतिका	शताब्दी	शताब्दी, शत संख्या	शताब्दमु	नूट्टाण्डु	शताब्दम्, नूट्टाण्डुं	शतमान
शत्रु, वेरी, दुश्मन, सामेवाळो	शत्रु, दुस्मान	शत्रु, वैरी	शत्रु, बैरी, अमित्र	शत्रु, बैरी	येक्नबा	शत्रु, बिरोधी, बैरी	शत्रुवु	पगैवन्, शत्तुरु	शत्रु	शत्रु
शपथ, सौंगद	सोपूत	शपथ, कसम, प्रतिज्ञा	शपथ, दिब्यि, किरा	शपथ, प्रतिज्ञा	वाशक	शपथ, प्रतिज्ञा	शपथमु, प्रतिज्ञ	आणै, शबदम्	शपथ	आणे प्रमाण
शब्दकोश	शब्दकोश	शब्दकोश	शब्दकोष, अभिधान, डिक्शनरी	शब्दकोष, अभिधान	वाहैगी पुक्कै	शब्दकोश, अभिधान	निघंटुवु, शब्दकोशमु	अगरादि	निघंटु	कोश, शब्दकोश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शमन	पुं.	1. बढ़े हुए उपद्रव, कष्ट, दोष को दबाने की क्रिया, दमन	शमनम्	दबाउणा	फ़िरो	शांती	ज़ाब्तो	शमन, दमन
		2. शांति	शम:	शांती	अम्न (सुकून)	–	शांती	शांती
शरण	स्त्री.	पनाह, आश्रय, संरक्षण	शरणम्	शरन	पनाह	शरन	शरणि	शरण
शरणार्थी	पुं.	1. शरण चाहने वाला, असहाय	शरणार्थी	शरनारथी, रिफूजी	पनाह गुज़ीं	रिफ्यूजी	शरणार्थी	शरणार्थी, असहाय
		2. किसी अन्य देश से भागकर शरण लेने के लिए आया हुआ, विस्थापित	शरणार्थी	शरनारथी, शरनागत	–	–	–	निर्वासित
शरमाना	अ.क्रि.	1. झेंपना	√लज्ज्	शरमाउणा	शरमाना	मंदुॅछुन शरुॅम करुॅन्य	शर्माइणु	लाजणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शमन	दमन	शमन, दमन	शमन, दमन	शमन-दमन, शेष करा	नम्शिनबा	दमन, निर्मुल, शेष, लोप, बिलोप	शमनमु	अडंगुदल्	शमनम्	शमन, दमन
शमता, शांति	शमन, शांत	शांति	शांति	शांति, उपशम	शांति	शांति, उपसम, आरोग्य	शमनमु	अमैदि	समाधानम्	शांति
शरण, रक्षण	शरण	शरण, आश्रय	शरण, आश्रय	शरण, आश्रय	चङ्जफम	शरण, आश्रय	शरणु	तंजम्, अडै-क्कलम्	शरणम्	मरे, आश्रय
शरणार्थी, शरणागत	शरणार्थी	शरणार्थी	शरणागत, शरणापन्न, शरणार्थी	आश्रय प्रार्थी, शरणार्थी	चङ्जरक्पा	शरणार्थी, आश्रय-प्रार्थी	शरणार्थि	तंजमडैंदोर्, अगदि	निस्सहायन्	आश्रय बेडुवव
निराश्रित	निर्वासीत	विस्थापित, शरणागत	–	शरणार्थी	चङ्जफम् थिरक्पा मी	शरणागत, शरणार्थी	शरणार्थि	इडम् पेयर्न्दोर्	अभयार्थि	शरणार्थि
शरमावुं, संकोच पामवुं	मर्याद जावप	सर्माउनु, सङ्कोच मान्नु	संकुचित हओया, लज्जित हओया	लाज कर, लाज-पा	इकाइबा	लाजेइबा, लज्या-करिबा, संकोच-करिबा	बिडियं-पडुट	वेट्कप्पड	लज्जिक्कुक, नाणिक्कुक	नाचुकेगोळ्ळु-वुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	2.	लज्जित होना	√लज्ज्	–	–	–	–	–
शराब	स्त्री.	मद्‌य, मदिरा	मद्यम्, मदिरा	शराब	शराब, मय	शराब	शराबु	मद्‌य, दारु
शरीर	पुं.	देह, तन	शरीरम्	सरीर	जिस्म	जिसुँम, दिह	शरीरु/सरीरु	शरीर
शल्य-क्रिया	स्त्री.	शारीरिक विकार को दूर करने के लिए की जाने वाली चीर-फाड़	शल्यक्रिया	जराही	अमले जर्राही	अपरेशन	चीर-फाड़	शस्त्रक्रिया
शव-परीक्षा	स्त्री.	मृत व्यक्ति के शव की मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए की जाने वाली परीक्षा या जाँच (पोस्टमार्टम)	शवपरीक्षा	शव परीखिआ	पोस्ट मार्टम	पोस माटम	मुर्दे जी जाच, शव-परीख्या	शव विच्छेदन, पोस्टमार्टॅम
शस्त्र	पुं.	हाथ में रखकर प्रयोग किया जाने वाला हथियार	शस्त्रम्	शसतर	हथ्यार (सिलाह)	हॅथियार	शस्त्रु, हथियारु	शस्त्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लाजवुं	लाज़प	लजाउनु	लज्जित हओया	लाज-पा	इकाइबा नङ्बा	लज्जित-हेबा, संकोच-करिबा	सिग्गुपडुटॅ	नाणमडैय	नाणिक्कुक	लज्जित-नागुवुदु
शराब, दारू	सोरो	रक्सी, दारु, मदिरा	मद्य, मदिरा, शुरा	मद, फटिका	यु	मद्य, मदिरा, मद	सारायि	मदु, चारायम्	मद्यम्	हॅंड
शरीर, देह, तन	शरीर, कूड	जीउ, शरीर	शरीर, गा, तनु, देह	शरीर, देह, गा	हक्चाङ्	शरीर, देह, तनु	शरीरमु	उडल्	शरीरम्	शरीर
वाढ़काम, शल्य-क्रिया	शस्त्र-क्रिया	शल्यक्रिया, शल्य-चिकित्सा	अस्त्रो-पचार, शल्य-क्रिया, अपारेशन	अस्त्रोपचार, शल्य क्रिया	ऑपरेशन	शल्यक्रिया, अस्त्रो-पचार	शस्त्र-चिकित्सॅ	रण चिकिच्चै	ओपरेषन्, शस्त्रक्रिय	शस्त्र चिकित्से
शव परीक्षा, पोस्टमार्टम	शव परिक्षा	शव परीक्षा	शव-व्यबच्छेद, पोष्ट-मरटेम	मरणोत्तर परीक्षा	पोस्ट मार्टम	शब-परीक्षा बा-ब्यबच्छेद	शवॅ-परीक्षॅ	शवपरीट्चै	शव परिशोधन	शव परीक्षॅ
शस्त्र, हथियार	शस्त्र	शस्त्र, हतियार	शस्त्र, आयुध, अस्त्र, हातियार	शस्त्र, अस्त्र	खुत्लाइ	मारणास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, शस्त्र, आयुध	आयुधमु, शस्त्रमु	पोर् करुवि	आयुधम्	शस्त्र, आयुध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शहद	पुं.	मधु	मधुम्	शहिद, माखिओ	शहद	माछ	माखी	मध
शहीद	वि.	अपने धर्म, कर्तव्य-परायणता अथवा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाला (मार्टेअर)	हुतात्मन्	शहीद	शहीद	शहीद	शहीद	हुतात्मा
शांत	वि.	1. आवेग, चंचलता, वासना अथवा विकास से रहित	शान्त	शांत	पुरसुकून	शांथ, खामोश	शांत	शांत
		2. निःशब्द, नीरव, चुप, मौन	शान्त	शांत	सुन्सान	छो़'पुं	सांत	शांत, नीरव
शांति	स्त्री.	1. नीरवता, सन्नाटा, स्तब्धता	शान्तिः	शांती	सुन्सान, सन्नाटा	शांती	शांती	शांतता
		2. उत्पात, उपद्रव, कलह आदि से रहित अवस्था, अमन	शान्तिः	शांती	आश्ती	–	सांती	शांती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मध	म्होव	मह़, मधु	मधु	मौ, मधु	खोइहि	मह़ु, मधु	तेर्न	तेन्	मधु, तेन्	जेनुतुप्प
शहीद	हुतात्मो	शहीद	शहीद	शहीद	शहीद	शहीद, आत्म-बलीदान	त्यागमूर्ति, अमरजीवि	वीरमरणम् ऐय्दियवर्	रक्तसाक्षि	हुतात्म
शांत, शमेलुं	शांत	शान्त	शांत, धीर	शांत, धीर, स्थिर	इङ् तप्पा	शांत, धीर-स्थिर	शांतमैन, शंतिचिन	अमैदियान	शांतन्	शांत, निश्चल
नीरव, चुप, मौन, चूप, मूगुं	नीरव	नि:शब्द, मौन, शान्त	नि:शब्द, नीरब, शांत, आराम, मौन, चुप	नीरब, मौन	चेक्-मोक् लाओदबा, मखोल थोक्तबा	निरब, मौन, चुप्	निश्शब्दमु	मौनमान	निश्शब्दन्	मौन
शांति, नीरवता, शांतता	शांतता	शान्ति	शाँति, नीरबता	नीरवता, निस्तब्धता	अचिक्पा, शांति	निस्तब्धता, शांति	शांति	अमैदि	निश्शब्दत	शांति, नीरवते
विश्राम, आराम, चेन	शांती	अमन, शान्ति	उप-द्रबहीनता	शांति	इराङ्-लैतबा, लाङ्दबा	निस्तब्धता, शांति	शांति	शांति	समाधानम्	नेम्मदि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. आराम, चैन	शान्तिः	शांती	आराम, चैन	आराम	आरामु	आराम
शाकाहारी	पुं./वि.	मांस न खाने वाला, निरामिष भोजी	निरामिषभोजिन्, शाकाहारिन्	वैशनो	सब्ज़ी ख़ोर	वशनव	वेश्नू, वैष्णव, सागु-सब्ज़ी खाइण वारो	शाकाहारी
शानदार	वि.	1. भड़कीला, तड़क-भड़क वाला	भव्य	शानदार	शानदार	शानदार	शानदार	रुबाबदार
		2. ऐश्वर्यपूर्ण, उच्च कोटि का	उत्तम	शानदार	–	शॉही	–	ऐश्वर्ययुक्त
शाप	पुं.	अनिष्ट कामना के उद्देश्य से कहा गया कथन, बद्दुआ	शापः	सराप	बद्दुआ	शाफ	सिरापु	शाप
शायद	अव्य.	कदाचित, संभवतः	कदाचित्	शाइद	शायद	शायद, मुमकिन	शायद	कदाचित

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आराम	आराम	आराम, चैन	शांति	आराम, शांति	इङ्ना- चिक्ना पोथाबा	आराम, शांति	शांति	ओय्वु, सुगम्, सौकरियम्	शांति, सुखम्	सुख, आराम
शाकाहारी	शाकाहारी	शाकाहारी	निरामिष भोजी	निरामि- षाहारी, शाकाहारी	शा- ङा चादबा, निरामिष,	निरामिषाशी, शाकाहारी	शाकाहारि	मरक्करि उण्बोर्	सस्य भुक्कुं	शाकाहारि
शानदार	शानदार	सानदार, भव्य्	चटकदार, चमकप्रद, भव्य्	जकमक, रंचङीया	निङ्थिजबा- फजबा	जाक- जमक, चमक- जुक्त	वैभवो- पेतमैन॑	पगट्टान	आडंबर- मुळ्ळ	थळथळिसुव
आलीशान	ऐश्वर्य- आशिल्लो	उत्तम, ऐश्वर्य्- पूर्ण, गौरवशाली	ऐश्वर्यपूर्ण (न)	ऐश्वर्यशाली, अत्युत्तम, सर्बोत्तम	इनाक- कैराक् खुन्बा, अवाङ्बा थाक्की	ऐश्वर्ज्य- शाली, अति- उत्तम, सर्बोत्तम	घनमैन॑	उयर्त उयर्तरमान	ऐश्वर्यपूर्ण- माय	भव्य
शाप, बद्दुआ	शाप, सराप	शाप, सराप, अभिशाप	शाप, अभिशाप	शाप, शाओ	शाप	अभिशाप, शाप	शापमु	शाबम्	शापम्	शाप
कदाच	आसत, कदाचित	सायद, सके, सम्भवत:	संभवत:, कदाचित	संभव, संभवत:, कदाच	ओइबा याबा	केबे केबे, संभवत:, कदाचित	बहुशा	ओरुक्काल्	ओरु पक्षे	बहुश:

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शायिका	स्त्री.	शयनिका (स्लीपर)	शायिका	सलीपर, शयनिका	स्लीपर	स्लीपर	स्लीपर	स्लीपर
शालीन	वि.	लज्जाशील, सुशील, शिष्ट	शिष्ट	सुशील	सलीक़ेमंद	हयावोल	लज़ारो, हलीम	शालीन
शाश्वत	वि.	सतत्, स्थायी, नित्य, सनातन	शाश्वत	सदीवी	जावेद	पोशिवुॅन्य	दाइम क़ाइम	शाश्वत
शासक	पुं.	शासन करने वाला व्यक्ति, शासन-कर्ता	शासकः	हाकम, शासक	हुक्मराँ, हाकिम	होॅकुमरान, हॉकिम	हाकिमु	शासक
शासन	पुं.	1. सरकार, हुकूमत	शासनम्	हकूमत, शासन	हुकूमत	हुकूमथ	हुकूमत	सरकार, शासन
		2. सरकार या किसी अन्य द्वारा नियंत्रण, संचालन, व्यवस्था आदि	शासनम्	हकूमत, शासन	इंतिज़ाम (नज़्म)	–	–	शासन व्यवस्था

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
यथारी, शय्या	शायिका	शयनिका, शायिका	शयनिका, शय्या	शोवार आसन, बिचाना	स्लीपर, तुंफम	शज्या, शयन-शज्या	स्लीपरु	स्लीपर्	स्लीपर्	हासलु, स्लीपर्
शालीन, सुशील	शालीन	शालीन, शिष्ट्, सुशील	शालीन, शिष्ट, अमायिक, भद्र	शालीन, अमायिक, बिनम्र, भद्र	इकाइथिबा, चङ्खोन्बा	शालीन, नम्र, भद्र, शुशील, शिष्ट	मर्यादगल̄, सौजन्युमु-गल̄	पण्बुळ्ळ	कुलीनन्	शालीन
शाश्वत, नित्य	शाश्वत, सासणाचे	शाश्वत	नित्य, सनातन, (त्त) स्थायी	शाश्वत, नित्य, स्थायी	लेप्तबा, नुङ्तिगी ओइबा, लेङ्दबा	शाश्वत, नित्य, स्थायी, चिरंतन	शाश्वतमैन̄	शाशुवतमान, निलैयान	शाश्वतम्	शाश्वत
शासक	शासक	शासक	शासक, शासन-कर्ता	शासक, शासनकर्त्ता	लैबाक् वायेन थौदारिबा	शासक, शाशन-कर्त्ता	परिपालकुडु, शासकुडु	आट्चि-याळर्	भरणाधिकारि	शासक
शासन, अमल	शासन	सरकार, प्रशासन	शासन, सरकार	चरकार, प्रशासन	सरकार	शासन, प्रशासन, सरकार	प्रभुत्वमु	आट्चि	भरणम्	सरकार
व्यवस्था, संचालन	शासन व्यवस्था	शासन	ब्यबस्था	शासन, शासन कार्य	शासन तौबा	शासन, शासन-कार्य	परिपालन̄	निर्वाहम्	भरणम्	आडळित

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शास्त्र	पुं.	1. धर्म ग्रंथ	शास्त्रम्	शासतर	सहीफ़ा	शास्तुॅर	शास्त्रु	धर्मग्रंथ, शास्त्र
		2. किसी कला, विद्या या विशिष्ट विषय का सांगोपांग ग्रंथ, विज्ञान	शास्त्रम्	शासतर	इल्म	–	इल्म	शास्त्र, विज्ञान
शिकायत	स्त्री.	1. किसी के दोष या अनुचित काम का किसी के समक्ष किया गया कथन	आक्षेप:	शिकाइत	शिकायत	शकायथ	शिकायत	तक्रार
		2. किसी के अनुचित काम के प्रति होने वाला असंतोष	असन्तोष:	शिकाइत, शिकवा	–	–	–	असमाधान
		3. हल्का शारीरिक कष्ट या रोग	रोग:	–	–	–	–	आजार
शिकार	पुं.	1. आखेट, मृगया	मृगया, आखेट:	शिकार	शिकार	शिकार	शिकारु	शिकार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शास्त्र, धर्मग्रंथ	शास्त्र, धर्मग्रंथ	शास्त्र, धर्मग्रंथ	धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ	शास्त्र, धर्म ग्रंथ	धर्मगी लाइरिक्	शास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्मग्रंथ	शास्त्रमु, धर्मग्रंथमु	शास्तिरम्	शास्त्रम्	धर्म ग्रंथ
शास्त्र	शास्त्र-विज्ञान	शास्त्र, सिद्धान्त-ग्रंथ, विज्ञान	–	बिद्या, तत्व, बिज्ञान	करिगुंबा हिरम अमदा कुप्ना नैनबा लाइरिक्	बिद्या, तत्व, बिज्ञान	शास्त्रमु	कलै, विञ्ञानम्	शास्त्र ग्रंथम्	विज्ञान, शास्त्र
फरियाद	फिर्याद	सिकायत, उजुरी	अभियोग, दोषारोप	परनिंदा, टोटक, दोषारोप	वाकत्पा	अभिजोग, दोषारोप	फिर्यादु	पुगार्	पराति	दूरु
असंतोष	तकरार	असंतोष, सिकायत	असंतोष	दुख, बेजार, अप्रसन्नता	चुम्दबा थबक्की-दमक पेंदबा	असंतोष, आपत्ति	असंतृप्ति	आक्षेपणै	आक्षेपम्	असमाधान
बिमारी, रोग	असुख	रोग, व्यथा	रोग	नरिया रोग, बेमार	अनाबा	लघुपीडा, कष्ट, रोग	जब्बु, कष्टमु	जाड्यम्, सुगवीनम्	असुखम्	अस्वस्थतॅ
शिकार, मृगया	कासाक	सिकार, आखेट	मृगया, शिकार	चिकार, मृगया	शा तान्बा	मृगया, शिकार	वेट	वेट्टै	नायाट्टुॅ	बेटॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आखेट में मारा या पकड़ा गया पशु-पक्षी	शरव्य	शिकार	शिकार	–	–	शिकार
शिक्षा	स्त्री.	1. किसी प्रकार के ज्ञान के सीखने-सिखाने का क्रम, पढ़ाई या उक्त प्रकार से प्राप्त ज्ञान या विद्या	शिक्षा	सिखिआ	तालीम	तॉलीम	शिक्षा, सिख्या, तालीम	विद्या, शिक्षण
		2. उपदेश, सबक, नसीहत	शिक्षा, उपदेशः	सिखिआ	सबक़	शेंख्या	नसीहत, सिख्या	उपदेश
शिखर	पुं.	1. किसी चीज का सबसे ऊपरी भाग, सिरा, चोटी, कलश, कंगूरा (मंदिर, मकान के संदर्भ में)	शिखरम्	सिखर	चोटी	बालुँ थोंग, त्यंतोल	चोटी	शीर्ष, शिखर
		2. पर्वत की चोटी	शिखरम्	सिखर	–	–	–	शिखर
शिथिल	वि.	1. जो कसकर बँधा न हो, ढीला	शिथिल	ढिल्ला	ढीला	नरॅम, ड्यॉल	ढिलो	सैल, ढिला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शिकार, शिकारु पशुपंखी	शिकार	सिकार	–	चिकारत-मरा जीव-जंतु	–	मृगया, शिकार	वेट-मृगमु	वेट्टै (पर्वै, पिराणि)	इर	बेटेय-जीव
शिक्षण, केळवणी	शिक्षण	शिक्षा, विद्या	शिक्षा, शेखा (क्ख), ज्ञान: आहरण	शिक्षा	लाइरिक तंबा-तंबिगी थबक्	शिख्या (शिक्षा)	क्दिय्, चदुवु	कल्वि	विद्याभ्यासम्	शिक्षण
ज्ञान, बोध, उपदेश	उपदेश	शिक्षा, अर्ती-उपदेश	उपदेश, आक्केल, बोध	उपदेश	विद्या, पाओताक्	ज्ञान, उपदेश	उपदेशमु, गुणपाठमु	बुद्दिमदि, पाडम्	गुणपाठम्	उपदेश, बुद्धिवाद
शिखर, टोच	शिखर	गजुर, टाकुरो	शिखर, शीर्ष, अग्रभाग, श्रृंग	शिखर, चूड़ा	पोत अमगी मतोल	शिखर, शीर्ष, चूड़ा, अग्रभाग	शिखरमु, गोपुरमु	उयर् मट्टम्	शिखरम्	शिखर
शिखर, श्रृंग	तेंमूक	शिखर, चुचुरो	श्रृंग, शिखर	श्रृंग, टिं	चीङदोल	श्रृंग, शिखर, चूल	शिखरमु	शिगरम्, उच्चि	कॉटुमुटि, शिखरम्	शिखर
शिथिल, ढीलुं, पोंचु	सदळ	खुकुलो	ढिला, शिथिल	शिथिल, ढिला	चोक्थबा	शिथिल, ढ़िला	शिथिलमैन	तळर्न्द	शिथिलमाय, अयञ्ञ	सडिलवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आलसी, सुस्त	शिथिल, अलस	ढिल्ला	काहिल	आलुॅछ्य	सुस्त	आलसी, सुस्त, शिथिल
		3. जिसे कुछ छूट दी गई हो, जिसका पालन दृढ़तापूर्वक न हो	शिथिल	ढिल्ला	–	डेंजरुॅ वोल	–	शिथिल
शिरकत	स्त्री.	1. शरीक होने की अवस्था, क्रिया या भाव, शामिल होना	सहयोगः, सहभागः	भाईवाली	शिर्कत	शर्यक्यथ	शिरकत	पाती, हिस्सा
		2. साझेदारी	सम्भूय, समुत्थानम्	भाईवाली	–	हिसुॅदॉरी	भाग़ीदारी	भागीदारी
शिरोमणि	पुं.	1. सिर या मस्तक पर धारण करने का रत्न, चूड़ामणि	चूडामणिः	सिरोमणी	सरताज	सरताज	शिरोमणी	शिरोमणी
		2. श्रेष्ठ पुरुष	शिरोमणिः	सिरोमणी	मुअज़्ज़म	रुत तुॅ थोंद पायुॅ बो'ड	सिरोमणी	श्रेष्ठ पुरुष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निर्बळ, थाकेलुं, आळसु	आळशी	शिथिल, लस्त, अल्सी, अल्छे	आलसे	एलेहुवा	अतन्बा	अलसुआमी, आलस्य	सडलिन्, सोमरि	चोंबेरि	मटियन्, अलसन्	सोमारि
शिथिल	सूट	शिथिल	शिथिल	ढिला, शिथिल	कोम्थोक्पा	शिथिल, मंथर, ढ़िला	सडलिन, शिथिलमैन्	विट्टुप्पोन	शिथिलमाय	शिथिल, सडिल-बिट्ट
सहभागी	वांटेकार	सहभागिता, सहयोग	योगदान, अंशिदारि	मिलन, संयोग	याओबा तिनबा	जोगदान, अंशदान	पाल्गॉनु	चेंर्दु कॉळ्ळल्	पंकॅटुक्कल्	पालुगारिकॅ
भागीदारी	भागीदारी	साझेदारी	भागीदारी	अंशीदारि	शरुक याबा	अंशीदारि, भागीदारि	पालु, भागमु	पंगु कॉळ्ळल्	पंकाळित्तम्	पालुगारिकॅ
शिरोमणि, चूड़ामणि	शिरोमणी	शिरोमणि	शिरोमणि, माथारमणि (न) (न)	शिरोमणि, शिरर-भूषण	कोक्ता हाप्नबा मणि	शिरोमणि, मथामणि, मुंड़र-भूषण	शिरोमणि	मगुड मणि	चूडामणि, शिरोरत्नम्	चूडामणि
मुख्य, श्रेष्ठ, नायक	श्रेष्ठ, श्रेश्ठ	शिरोमणि	श्रेष्ठ पुरुष, नायक	श्रेष्ठ पुरुष	अथोइबा मी	नायक, श्रेष्ठ-पुरुष, प्रधान	शिरोमणि	चिरंदोर्	श्रेष्ठन्, शिरोमणि	श्रेष्ठ-पुरुष

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
	वि.	सर्वश्रेष्ठ	शिरोमणि:	सिरोमणी	आला	सरताज	आलातरीन	सर्वश्रेष्ठ
शिलान्यास	पुं.	1. नए भवन की नींव के रूप में पत्थर रखना	शिलान्यास:	नींह पत्थर-रखाई	तासीस	कॅन-द्युन	बुनियादी पथरु रखणु	शिलान्यास
		2. नींव रखने का कृत्य या समारोह	शिलान्यास:	नींह पत्थर-रखाई	–	कॅन-द्युन	–	पायाभरणी
शिलालेख	पुं.	1. पत्थर पर खुदा हुआ लेख	उत्कीर्णलेख:	सिलालेख	कत्बा	कनि-प्यठुक-ले'खुत	शिलालेखु	शिलालेख
		2. लेख आदि से गुदा हुआ पत्थर	शिलालेख:	सिलालेख	–	–	–	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
मुख्य, श्रेष्ठ, नायक	सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेश्ट	सर्वश्रेष्ठ	सर्वश्रेष्ठ	सर्बश्रेष्ठ	थोइथोक् हेंदोक्पा मी	मुख्य, श्रेष्ठ, प्रधान	शिरोमणि	तलै चिरंद	सर्वश्रेष्ठन्	सर्वश्रेष्ठ
शिलारोपण	शिलान्यास	शिलान्यास	भित्ति स्थापन, शिलान्यास	भेँटि-स्थापन, शिलान्यास	अनौबा भवन शाबगी युंफमगी मओङ्दा नुङ खिन्बा	शिलान्यास, शिला-रोपण बा स्थापना, भित्ति प्रतिष्ठा	शंकु-स्थापन	अडिक्कल् नाट्टुदल्	तरक्क-ल्लिटल्, शिला-स्थापनम्	अडिगल्लु
पायो नाखवो	पायो घालप	गृहारम्भ समारोह, शिलान्यास	गृहारंभ उत्सब	आधारशिला, स्थापनर उत्सव	युंफम थोन्बगी कुम्है	शिलान्यास-उत्सब, भित्ति-प्रतिष्ठा-उत्सब	शंकु स्थापन	अडिक्कल् नाट्टुविळा	शिलास्थापनम्	शंकु स्थापना, समारंभ
शिलालेख	शिलालेख	शिलालेख	शिलालेख, शिलालिपि	शिलालिपि, लिपिथका-शिल	नुङ्दा हक्पा मयेक्	शिला-लेख, शिलालिपि	शिला-शासनमु	कल्वेट्टु	शिला-लिखितम्	शिला शासन
–	फातर पटो	शिलालेख, शिलापत्र	–	लिपिथका-शिल	मयेक् हक्लबा नुङ्	शिलालेख, शिलालिपि	शिला-शासनमु	कल्वेट्टु	शिलालिखितम् कोत्तिय शिल	शासनद कल्लु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शिल्प	पुं.	1. हस्तकला, दस्तकारी	शिल्पम्	शिलप, कारीगरी	दस्तकारी	कसुॅब, कॉरीगरी, हौंनर	दस्तकारी	शिल्प, हस्तकला
		2. रचना विधान, निर्माण	शिल्पविधानम्	शिलप, कारीगरी	कारीगरी (सन्नाई)	कसुॅब	बनावट, निर्माणु	निर्माण
		3. स्थापत्य, वास्तुकला	शिल्पशास्त्रम्	शिलप, कारीगरी	फ़न्ने तामीर	तॉमीरी हौंनर	पत्थर घड़न जी कला	शिल्प, स्थापत्य कला, वास्तु कला
शिल्पकार	पुं.	शिल्पी, कारीगर	शिल्पिन्	शिलपकार, कारीगर	कारीगर (सन्ना)	कॉसिब, कॉरीगर	कारीगरु, मूर्तीकारु	कारागीर, शिल्पकार
शिल्पी	पुं.	शिल्प संबंधी काम करने वाला, शिल्पकार	शिल्पिन्	शिलपी, कारीगर	दस्तकार, कारीगर	कॉरीगर	पथर घड़णु वारो कलाकारु, संगतराशु	शिल्पकार
शिविर	पुं.	1. पड़ाव, छावनी	शिविरम्	छाउणी	छावनी, डेरा	पडाव, छावुॅन्य	छावणी, ड॒रो	छावणी, शिबिर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शिल्प, हस्तकला	शिल्प, हस्तकला	शिल्प, हस्तकला	शिल्प, बस्तु निर्माण कर्म (न), हातेरकाज	हस्तकला, हस्तशिल्प	शिल्प, खुत्शा	शिल्प, हस्तकला, हस्त-शिल्प	शिल्पमु	शिर्पम्, कैविनै	करकौशलम्	कैगारिकै
निर्माण	रचना	रचना विधान	निर्मान, रचना	निर्माणर कौशल	हैबगी थबक्	निर्माण-कौशल	शिल्पमु	सॅय्मुरै	शिल्पम्	शिल्प
कारीगरी, कळा	वास्तुकला, स्थापत्य	वास्तुकला	बास्तुकला	स्थापत्य, स्थापित बिद्या	–	कारिगरि	स्थापत्यमु, वास्तुकळ	वीडु कट्टुम्कलै	स्थापत्यकल	वास्तु-कलॆ
शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर	शिल्पकार	शिल्पकार, शिल्पी	शिल्पी, कारिगर	शिल्पी, कारिकर, कारिगर	खुत्की शिन्फम अमदा है-शिङ्लबा मी	शिल्पकार	शिल्पि	शिर्पि	शिल्पि	शिल्पि
शिल्पी, शिल्पकार	शिल्पी	शिल्पकार, कालिगड	शिल्पी, शिल्पकार, कारिगर	शिल्पी, शिल्पकार	खुत की शिन्फम अमदा है-शिङ्लबा मी	शिल्पी	शिल्पि	शिर्पि	शिल्पि	शिल्पि
शिबिर, छावणी, पडाव, डेरो	शिबीर	शिविर, छाउनी	छाउनि, शिबिर, डेरा	शिबिर, बाहर, छाउनी	थुङ्फम्, लैफम्	शिबिर	शिबिरमु	मुकाम्	शिबिरम्, पाळयम्	पाळॆय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. खेमा, तंबू	शिविरम्	तंबू	ख़ेमा	कंप	तंबू	तंबू
शिशु	पुं.	1. बहुत ही छोटा बच्चा	शिशु	बाल, निआणा	तिफ़्ल	ज़ाशुर	ॿारु	लहान मूल
		2. सात-आठ वर्ष की अवस्था तक का बच्चा	शिशु	बाल, काका	बच्चा	शुर	शिशू	शिशु
शिष्ट	वि.	सभ्य, सज्जन	शिष्ट	साऊ	शाइस्ता	शॉयिस्तुँ, सथज़्न	शानाइतो, सभ्य	सभ्य, सुसंस्कृत
शिष्टता	स्त्री.	शिष्ट होने की अवस्था, गुण या भाव, सौजन्य	शिष्टता, सुजनता	भलमाणसी	शाइस्तगी	शॉयिस्तुँगी	भलमानसी, सभ्यता, शाइस्तगी	सौजन्य
शिष्टाचार	पुं.	1. शिष्टतापूर्ण आचरण और व्यवहार	शिष्टाचारः	सदाचार	अख़्लाक़	शॉयिस्तुँगी	भलमानसाई, सुठी हलति, दस्तूरी हलति	शिष्टाचार
		2. औपचारिक आचरण	शिष्टाचारः	सदाचार	–	–	दस्तूरी हलति	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
तंबू (बु)	तंबू	तंबू, पाल	तांबु, शिविर	तंबु	केम्यप	–	गुडारमु	कूडारम्	कूटारम्	डेरॆ
बाळक, बच्चुं	बाळ	शिशु, बच्चो	शिशु, बाच्चा	शिशु, केचुवा	अङाङ्	शिशु, छुआ	शिशुवु	कुऴंदै	शिशु, कुञ्ञुं	कूसु
नानुं बाळक	भुरगें	नानी	–	शिशु, केचुवा	चहि तरेत्-निपालगी अङाङ्	–	शिशुवु	चिरुवन्	चॆरिय कुट्टि	मगु, शिशु
शिष्ट, सभ्य, भद्र	सभ्य	सभ्य, शिष्ट	शिष्ट, सभ्य, भद्र	शिष्ट, साधु, सभ्य, भद्र, सज्जन	लैबाक् मचा ताबा	शिष्ट, साधु, सभ्य, भद्र	शिष्टुडैन, मर्यादस्थुडैन	पण्बुळ्ळ	शिष्टन्, संस्कार-संपन्नन्	शिष्ट, सभ्य
शिष्टता, सौजन्य	शिश्ट	शिष्टता, सौजन्य	शिष्टता, सौजन्य, भव्य	शिष्टता, सौजन्य, भद्रता	लैबाक मचा ताबा मतौ	भद्रामि, शिष्टता, सौजन्य	शिष्टत, सौजन्यमु, मर्याद	पण्बु	शिष्टत, सत्स्वभावम्	सौजन्य
शिष्टाचार	शिश्टाचार	शिष्टाचार	शिष्टाचार, सदाचार	शिष्टाचार	लैबाक मचा ताबा लम्चत्	शिष्टाचार, भद्र बा-उत्तम-व्यवहार	मर्याद	पण्बुळ्ळ	मर्याद	शिष्टाचार
–	उपचारीक	सदाचार	लौकिकता	सभ्य आचरण	–	सदाचार, शिष्टाचार	शिष्टाचारमु	नडत्तै	उपचारम्	उपचार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शिष्य	पुं.	1. छात्र, विद्यार्थी	शिष्य	शिश, शागिरद	शागिर्द	त़्राठ	शिष्यु, चेलो	शिष्य, विद्यार्थी
		2. अनुयायी, चेला	शिष्य	शिश, शागिरद	मुरीद	चेलुॅ	पोइलगु	अनुयायी, चेला
शीघ्र	क्रि. वि.	जल्द, अविलंब, तुरंत, फौरन	शीघ्रम्	तुरत, फौरन	जल्द, फ़ौरन	जलुॅद	जल्दी, सिघो	शीघ्र, सत्वर, लवकर
शीघ्रता	स्त्री.	1. जल्दी	त्वरा	तेज़ी	जल्दी	जलदी	तकड़ि, सेघ	घाई, त्वरा
		2. तेजी, फुर्ती	शीघ्रता	तेज़ी	तेज़ी	–	–	–
शीतल	वि.	1. ठंडा, सर्द	शीतल	सीतल, सरद	सर्द, ठंडा	शीतल, तुरुन, शुहुल	सीतल, थधो	थंड, शीतळ
		2. आवेशरहित, शांत, सौम्य	शान्त	–	पुरसुकून	शांथ	–	सौम्य, शांत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शिष्य, छात्र, विद्‌यार्थी	शिश्य, विद्‌यार्थी	शिष्य्, विद्‌यार्थी	शिष्य, छात्र, बिद्‌यार्थी	छात्र, बिद्‌यार्थी	छात्र	शिष्य, बिद्‌यार्थी, छात्र	शिष्युडु	चीडन्, माणवन्	शिष्यन्	शिष्य
अनुयायी, चेलो	अनुनायी	अनुयायी, चेलो	चेला, अनुगामी	अनुगामी, चेला, अनुगत	खोङ्‌लोइ	अनुगत, अनुगामी	शिष्युडु, अनुचरुडु	पिन् पट्टुबवर्	अनुयायि	अनुयायि
शीघ्र, सत्वर, जलदी	तुर्त	शीघ्र, छिटो, तुरुन्त	शीघ्र, सत्वर (त्त), त्वरा	शीघ्रे, तुरंत, सत्वर	थुनमक्, थुना	शीघ्र, तुरंत, सत्वर, जथाशीघ्र	शीघ्रमु, वंटने	शीक्किरम्, उडने	शीघ्रम्, वेगम्	बेग, कूडर्ले
शीघ्रता, उतावळ	बेगीन	चाँडो, छिटोपना	शीघ्रता, त्वरा	शीघ्रता, क्षिप्रता	थुबा	शीघ्रता, क्षिप्रता, द्रुत	शीघ्रत	अवसरम्	शीघ्रत	अवसर
–	–	शीघ्रता	क्षिप्र, द्रुत	बेग, खरधर	थुना तौबा	क्षिप्र, द्रुत	स्फूर्ति, वेगमु	तुरिदम्, वेगम्	वेगत	वेग
शीतल, ठंडुं	शीतळ	शीतल, ठन्डा	शीतल, ठाण्डा	चँचा, शीतल	अइङ्‌बा	शीतल, थंडा	शीतल मैन	कुळिर्ंद	शीतलमाय, तणुप्पन्	तंपाद
सौम्य, शांत	सौम्य	शांत, सौम्य	शांत, धीर	शांत, धीर	अतप्पा	शांत, धीर, सौम्य	शांतमैन, सौम्यतगल	अमैदियान	तणुप्पन्	शांत, सौम्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शीर्ष	पुं.	1. किसी चीज का सबसे ऊपरी तथा उन्नत सिरा	शीर्षम्	सिरा	चोटी	प्योंत, तेंताल	सिरो, मथो	शीर्ष
		2. सिर	शीर्षम्	सिर	सर	शेर, कलुँ	सिरो	मस्तक
		3. ज्यामिति में वह बिंदु, जिस पर दो ओर से दो तिरछी रेखाएँ आकर मिलती हों	–	सिरा	रास	शेर, कलुँ	सिरु	शीर्ष बिंदू
शीर्षक	पुं.	किसी लेख अथवा ग्रंथ आदि के ऊपर दिया जाने वाला नाम, जिससे उनके विषय का कुछ परिचय मिलता है (टाइटल)	शीर्षकम्, आख्या	सिरलेख	उन्वान	ड्यकुँ-टिकु, उनवान	सिरो, उन्वानु	शीर्षक
शीशा	पुं.	दर्पण, आईना	दर्पणः, आदर्शः	शीशा	शीशा	ऑनुँ	शीशो, आईनो, दर्पणु	आरसा, दर्पण
शुद्ध	वि.	1. पवित्र, निर्मल	शुद्ध	शुद्ध, खालस	साफ़	शो'द	शुधि	पवित्र, निर्मल, शुद्ध
		2. मिलावट रहित, असली	शुद्ध	शुद्ध, खालस	ख़ालिस (अस्ली)	–	ख़ालिस	शुद्ध, अस्सल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष, टुप्पो	शीर्ष	शीर्ष	मकोक् थङ्बा शरुक	शीर्ष, सर्बोच्च	शीर्षमु	मेल् बागम्, उच्चि, मुगडु	मेलट्टम्	मेल्भाग
सिर, माथुं	तकली	सिर, टाउको	मस्तक, माथा	शिर, मूर	मकोक्	मुंड, शिर	शिरमु, तलॅ	तलै	शिरस्सुॅ, तल	तलॅ
शिरोरेखा	शीर्ष-बिंदू	शीर्षबिन्दु	–	शीर्ष, बिंदु	लैइ अनि तिनफम बिंदु	शीर्ष-बिंदु	शीर्ष-बिंदुवु	मुक्कोण-त्तिन् कोण मुनै	शीर्ष बिंदु	शीर्ष
शीर्षक, मथाळुं	माथाळो, शीर्शक	शीर्षक	शीर्षक	शिरोनामा, शितान, शीर्षक	ममिङ्	शीर्षक, श्रेष्ठ	शीर्षिकॅ	तलैप्पु	तलक्कॅट्टुॅ	शिरोनोम
दर्पण, आयनो	हारसो	ऐना, दर्पण	आरशि, दर्पण	आइना, आर्ची	मिङ्शेल्	दर्पण, आरसी, आइना	अद्दमु	निलै-क्कण्णाड़ि	कण्णटि	कन्नडि
शुद्ध, पवित्र	शुद्ध	शुद्ध, पवित्र, शुद्ध	पबित्र, निर्मल	पबित्र निर्मल, विशुद्ध	अशेङ्बा	शुद्ध, पबित्र, निर्मल	शुद्धमैनॅ	शुद्दमान, तूय	पवित्रम्	शुद्ध, मडियाद
असली	असली	विशुद्ध, असल	खाँटि	आचल, निभाँज, खाँटि	यान्शि-न्नदबा	शुद्ध, असलि, खाण्टि	शुद्धमैनॅ, कल्तीलेनि	कलप्पड-मट्ट	कलर्प्पि-ल्लात्त, तनि	अप्पट, बॅरकॅ-इल्लद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. अशुद्धि, गलती या भूल से रहित, ठीक, सही	शुद्ध, निर्दोष	सही, ठीक	सही	–	सही	शुद्ध
शुभ-चिंतक	वि.	किसी की भलाई की सोचने वाला, शुभेच्छु	शुभचिन्तक, हितैषिन्	हितू, शुभचिंतक	ख़ैर अंदेश (ख़ैर ख़्वाह)	रुतकांछन-वोल	ख़ैरख़्वाह, शुभ-चिंतक	हितचिंतक, शुभेच्छु, शुभचिंतक
शुभागमन	पुं.	मंगलप्रद या सुखद आगमन	शुभागमनम्	शुभ आगमन	ख़ुश आमदीद, ख़ैर मक़्दम	स्वागतम, खो'शामदीद	शुभ-आगमनु ख़ुश आमदीद	शुभागमन
शुरु	पुं.	आरंभ, प्रारंभ	आरम्भः	शुरू	शुरू	शोॅरू, ग्वड-हूयोॅन	शुरू	आरंभ, सुरुवात
शुल्क	पुं.	1. वह धन, जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उपभोग, आयात, निर्यात आदि करने पर कानूनन कर के रूप में देय हो	शुल्कम्	मसूल, कर	महसूल	कश्टम्	टैक्स, महसूल	कर
		2. विशिष्ट सुविधा प्रदान करने पर किसी संस्था को दिया जाने वाला धन, फीस	शुल्कम्	फीस	फ़ीस	फीस	फ़ी, शुल्कु	फी, शुल्क
		3. चंदा	दानम्	चंदा	चंदा	चंदुॅ	चंदो	वर्गणी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साचुं, खरुं	शुद्ध	शुद्ध, सही, ठीक	ठिक, शुद्ध	शुद्ध	शोयदबा, अचुंबा	ठिक, शुद्ध	शुद्धमैन, असलैन	पिळैयट्ट	शरियाय	तप्पिल्ल
शुभचिंतक, शुभेच्छक	शुभचिंतक	शुभचिन्तक, हितैषी	शुभचिंतक, हितैषी	शुभाकांक्षी, शुभेच्छु	याइफनबा खन्बा	शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु	श्रेयोभिलाषि	नलम् नाडुबवर्, आदरि- प्पोर्	अभ्युदय- कांक्षि	शुभचिंतक, हितैषि
शुभागमन	शुभागमन	शुभागमन	शुभागमन	शुभागमन	याइफरक्पा, याइफ़बा पुरक्पा	शुभागमन	शुभागमनमु	नल्वरवु	स्वागतम्	सुखागमन
शरुआत, पहेल	सुरु	सुरु, आरंभ	शुरु, आरंभ	आरंभ, शुरु	अहौबा, अहान्बा	आरंभ	आंरभमु	आरंबम्, तोड्क्कम्	आरंभम्, तुटक्कम्	आरंभ
दाम, किंमत, भाव	कर	शुल्क, महसुल	मासुल, कर	शुल्क, कर	फी, टेक्स	शुल्क, मासुल, भड़ा	सुंकमु, शुल्कमु	कट्टणम्	चुङ्कम्	सुंक, तेरिगे
फी	फी	शुल्क, दस्तुर	फीस, शुल्क, माशुल	शुल्क, माचुल	फी	शुल्क, मासुल, भड़ा	फ़ीजु	चुंगवरि	फीस्	फीसु, शुल्क
फाळो	वर्गणी	चंदा	चाँदा	चांदा	चंदा	चांदा	चंदा	चंदा	वरिसंख्य	चंदा, वंतिगे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शुष्क	वि.	1. सूखा	शुष्क	सुक्का	ख़ुश्क	हौंख	ख़ुश्क	शुष्क, कोरडा
		2. सहृदयता एवं कोमलता रहित	नीरस	बेमज़ा, सुक्का	–	खो'शिख	रसहीण	रुक्ष
शून्य	वि.,पुं.	1. रिक्त, खाली	शून्य	खाली	ख़ला	शिन्याह, सिफर	ख़ाली	शून्य, रिक्त
		2. गणित में अभाव सूचक चिह्न	शून्यम्	सिफर	सिफ़्र	सिफर	बुड़ी	शून्य
शूर	वि.,पुं.	बहादुर, वीर, सूरमा	शूर	सूरा, सूरबीर	शुजा, सूरमा	बोंहदुर	सूरवीरु	शूर, वीर
श्रृंखला	स्त्री.	1. क्रम, तारतम्य, माला, पंक्ति, कतार	क्रमः	लड़ी, सिलसिला	सिल्सिला	सिलसिलुं, कतार	सिलसिलो	क्रम
		2. जंजीर, सिकड़ी	शृङ्खला, बन्धनम्	लड़ी, सिलसिला	ज़ंजीर	–	ज़ंजीर	शृंखला

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शुष्क, सूकुं	सूकें	सुक्खा, शुष्क्	शुष्क, शुक्नो	शुकान, नीरस	अकङ्बा	शुष्क, नीरस	शुष्कमैन॑	उलर्न्द	शुष्कम्, उणक्क	वांणगिद
नीरस, अरसिक	रुक्ष	बिर्सिलो, नीर्स	–	कर्कश, रुक्ष, निर्दय	थमोइ कन्बा, चगन्नबा	कर्कश, रूक्ष, निर्दय	शुष्कमैन॑	मंन्मैयट्ट	नीरस माय	नीरस
शून्य, खाली	रिक्त	खाली, रित्तो	शून्य, रिक्त	शून्य, रिक्त	अहाङ्बा	शून्य, खालि, रिक्त	शून्यमैन॑	कालियान	शून्यम्, ऑळिञ्ञ	खालि
मींडुं	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	शुन, शुन्य	सुन्न॑	पूज्यम्, सैफर	पूज्यम्	सोन्न॑
शूरवीर, बहादुर	शूर	बहादुर, पराक्रमी, शूर	शूर, बीर, देबता	बीर, पराक्रमी, साहसी	थौना फबा	शूर, बीर	शूरुडु	शूरन्, वीरन्	शूरन्, वीरन्	शूर
शृंखला	क्रम	तारतम्य्, सिलसिला	अनुक्रम, सारि	शृंखला, क्रम	परेङ्	शृंखला, क्रम	शृंखल॑, वरुस॑, श्रेणि	वरिशै, तोडर्चि	शृंखल, परंपर	क्रम
सांकळ, बेड़ी	शृंखला	शृङ्खला, साङ्लो, जन्जिर	शृंखला, निगड़	शिकलि, शृंखला	योत्हौ कोलहौ	जंजीर	गॅलुसु	चॅगिलि	चङ्ङल	सरपळि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शृंगार	पुं.	1. सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रसाधनों द्वारा बनाव-सजाव	शृङ्गार:	शिंगार	सिंगार, आराइश	सिंगार	सींगारु	शृंगार, प्रसाधन
		2. साहित्य में एक रस, रसराज	शृङ्गार:	शिंगार	वस्ल	साज़	शृंगार रसु	शृंगार रस
शेष	वि.	बचा हुआ, बाकी	शेष	बाकी	बाक़ी (बक़िया)	बाकुंय	बाकी, बचियलु	शिल्लक
शैली	स्त्री.	1. ढंग, तरीका, पद्धति	विधि:	ढंग, तरीका	तर्ज़ (तरीक़ा)	तरीकुं	ढंगु, तरीको	पद्धत, रीत
		2. (साहित्य, कला) रचना अथवा अभिव्यक्ति का विशिष्ट ढंग	शैली	शैली	उस्लूब (तर्ज़)	–	शैली, इबारत	शैली

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
श्रृंगार, प्रसाधन	श्रृंगार	श्रृङ्गार, सजावट	सौंदर्य वृद्धिर जन्य अंगराग, प्रसाधन	प्रसाधन, साजन-काचन	लैतेङ्, केमौबा	श्रृंगार, प्रसाधन	श्रृंगारमु	ऑप्पनै	अलंकारम्, चमयल्	सिंगार
श्रृंगार रस	श्रृंगार रस	श्रृङ्गार रस	श्रृङ्गार रस	श्रृंगार-रस	श्रृंगार रस मखल अमा नुङ्शि-नुङ्ङोल गी रस	श्रृंगार-रस	श्रृंगार-रसमु	अलंगारम्	श्रृंगार रसम्	श्रृंगार
शेष, बाकी	शेष	शेष, रहल	शेष, अबशिष्ट, बाकी	अवशेष, बाकी	अरेंबा, अवात्पा	शेष, अबशेष, अबशिष्ट, बाकि	शेषमु	मीदि, मिच्चम्	बाक्कि, शेषम्	बाकि, मिक्किद
ढब, रीत, पद्धति	पद्धत, रीत	शैली, तरिका, ढाँचा	रीति, प्रणाली	प्रणाली, रीति, ढंग, पद्धति, शैली	मओङ्	शैली, रीति, प्रणाली, पद्धति	पद्धति	नडै, मुरै	पद्धति	रीति, पद्धति
शैली	शैली	शैली	रचना शैली	(रचना) शैली, रीति	शैली	शैली, भंगि	शैलि	मोळि नडै	शैलि	शैलि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
शैशव	पुं.	शिशु होने की अवस्था, गुण या भाव, बचपन	शैशवम्	बचपण, बालपण	तुफ़ूलियत (तिफ़्ली)	लो'कचार	बालकपणो	बालपण, शैशव
शोक	पुं.	इष्ट वस्तु या आत्मीयजन की मृत्यु के कारण होने वाली मानसिक व्यथा, घोर दुख	शोकः	सोग	सद्मा (ग़म)	शूख	शोकु, ग़मु, दुखु	दुःख, शोक
शोध	पुं.	1. छिपी हुई तथा रहस्यपूर्ण बातों की खोज करना, अन्वेषण	शोधः, अन्वेषणम्	खोज	तह्क़ीक़	तहकीक	खोज	शोध, तपास, संशोधन
		2. जाँच, परीक्षण	परीक्षणम्, शोधनम्	जांच	जाँच	खोज	जाच	परीक्षण
शोभा	स्त्री.	कांति, चमक	शोभा	सोभा	नूर (रौनक़)	शूब, चमक	सोभिया, सूंहं	शोभा
शोषण	पुं.	परोक्ष उपायों से किसी की कमाई या धन धीरे-धीरे अपने हाथ में करना, दुखी करना (एक्सप्लायटेशन)	शोषणम्	लुट्ट-चुंघ, शोशण	इस्तेहसाल	नाजॉयिज़ फॉयदुँ	चूसणु, डुहणु	शोषण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
शैशव, बाळपण	बाळपण	बाल्यावस्था, शैशव	शैशब, बाल्यकाल	शैशब, बाल्यकाल	अङाङ ओइबा	शैशव, बाल्यकाल, पिला बेल	शैशवमु	कुळंदै-प्परुवम्	शैशवम्, कुट्टिक्कालम्	शैशव, बाल्य
शोक, खेद	दुख	शोक	शोक, दुख	शोक, दुख	अवाबा	शोक, दुख	शोकमु	वरुत्तम्, दुक्कम्	दुखम्, शोकम्	दुख, व्यर्थ
संशोधन, अन्वेषण	शोध	शोध, अनुसन्धान	गवेषणा, अनुसंधान	बिचार, अन्वेषण	थिजिन्बा	गबेषणा, बिचार, अन्बेषण	परिशोधन	आरायृच्चि	अन्वेषणम्, गवेषणम्	अन्वेषणं
—	परिक्षण	परीक्षण	परीक्षा (क्ख)	परीक्षण, निरीक्षण	चाङ्येङ्	जांच, परीक्षण बा-परीक्षा, निरीक्षा, निरीक्षण	परीक्षण	परीक्षित्तल्, परिशोदनै	परिशोधन, परीक्षणं	परिशीलनं
शोभा, कांति	शोभा	शोभा, कांति, दीप्ति	शोभा, कांति	शोभा, कांति	निंथिजबा, मका लांबा	शोभा, कांति, सुषमा, सुंदरता	शोभ, सोबगु	एंळिल्, ओळि	शोभ	होळपु
शोषण	शोषण	शोषण	शोषण (न)	शोषण	मी शिजिन्नबा	शोषण, निज-स्वार्थरे-लगाइबा	शोषणमु	चुरण्डल्	चूषणम्	शोषणं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
श्रद्धांजलि	स्त्री.	किसी पूज्य या बड़े व्यक्ति के संबंध में श्रद्धा और आदरपूर्वक कही जाने वाली बातें	श्रद्धाञ्जलि:	शरधांजली	ख़राजे-अक़ीदत	ख़राजे अक़ीदत, श्रदाँजली	श्रद्धांजली, श्रधांजली, ख़राजे अक़ीदत	श्रद्धांजली
श्रद्धा	स्त्री.	पूज्य और बड़े लोगों के प्रति आदरपूर्ण भावना,आस्था	श्रद्धा	शरधा	अक़ीदत	श्रदा, पछ़	श्रद्धा, श्रधा	श्रद्धा
श्रम	पुं.	1. मेहनत, परिश्रम	श्रम:, आयास:	मेह्नत	मेहनत	श्रम, मेहनथ	पोर्हियो, मेहनत	परिश्रम, मेहनत
		2. जीविका-निर्वाह या धन-उपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य	श्रम:	मेह्नत	मज़्दूरी	मोंज़ूर्य	–	श्रम
श्रमदान	पुं.	किसी सामूहिक हित के लिए स्वेच्छा से नि:शुल्क श्रम करना	श्रमदानम्	श्रम-दान	शरमदान	श्रमदान	श्रम-दानु, मेहनत-दानु	श्रमदान
श्रमिक	पुं.	शारीरिक श्रम द्वारा जीविका चलाने वाला, मजदूर	आत्मोपजीविन्, श्रमजीविन्	मज़दूर	मज़्दूर	मोंज़ूर, मो'हन्युव	पोर्हियतु, मज़ूरु	श्रमिक, मजूर
श्राद्ध	पुं.	1. सनातनी हिंदुओं में पितरों या मृत व्यक्तियों को प्रसन्न कराने के उद्देश्य से किया जाने वाला पिंडदान, ब्राह्मण-भोज आदि	श्राद्धम्	सराध	सराध	श्राद	श्राधु	श्राद्ध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
श्रद्धांजलि	श्रद्धांजली	श्रद्धाञ्जली	श्रद्धाञ्जलि	श्रद्धांजलि	श्रद्धांजलि	श्रद्धांजलि	श्रद्धांजलि	मरियादै चॅलुत्तल्	श्रद्धांजलि अर्पिक्कुक	श्रद्धांजलि
श्रद्धा, आस्था	श्रद्धा	श्रद्धा	श्रद्धा, भक्ति	श्रद्धा, भक्ति	नोल्लुक्ना, भक्ति लैबा	श्रद्धा, स्नेह, भक्ति	श्रद्धॅ	शिरद्दै, मदित्तल्, मरियादै	बहुमानम्	श्रद्धॅ
श्रम, महेनत	मेनत	परिश्रम, मिहिनेत	मेहनत, परिश्रम	श्रम, परिश्रम	नोंबा	श्रम, परिश्रम	श्रमॅ	उऴैप्पु	प्रयत्नम्, परिश्रमम्	दुडित, दुडिमे
—	श्रम	श्रम	खाटुनि, श्रम	खाटनि, श्रम	हिङ्नबगी नोंबा	श्रम, खटणि, परिश्रम, मेहनत,	कायकष्टमु	तॉऴिल्, उद्दियोगम्	वेल	दुडियुविकॅ
श्रमदान	श्रमदान	श्रमदान	श्रमदान	श्रमदान, खटा-कार्य	होत्न-मिन्नबा	श्रमदान	श्रमदानमु	उऴैप्पु दानम्	श्रमदानम्	श्रमदान
श्रमिक	श्रमीक, मजूर	ज्यामी, मजदुर, श्रमिक	श्रमिक, मजुर, मजदुर	श्रमिक, कामीला, बनुवा	शिन्मी, थबक सुबा मी	श्रमिक, मेहनत-कारी	कार्मिकुडु, श्रमिकुडु	तोऴिलाळि	तॉऴिलाळि	श्रमिक
श्राद्ध, पितृओनुं तर्पण	श्राद्ध	श्राद्ध	श्राद्ध	श्राद्ध, शराध, हराध	शोरात्, श्राद्ध कर्म	श्राद्ध	श्राद्धमु	शिराद्दम्	श्राद्धम्, चात्तम्	श्राद्ध

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, जिसमें विशिष्ट रूप से उक्त प्रकार के कृत्य करने का विधान है, पितृपक्ष	पितृपक्षः	सराध	–	श्राद्	–	पितृपक्ष
श्रीमान (श्रीमती)	पुं.	'श्री', पुरुषों के नाम के पूर्व प्रयुक्त एक आदर-सूचक विशेषण (स्त्री के नाम के पूर्व श्रीमती)	श्रीमत्, श्रीमती	स्रीमान, स्रीमती	मोहतरम/ जनाब, मोहतरमा	श्रीमान/जिनाब, श्रीमॅती	श्रीमान	श्रीमान (श्रीमती)
श्रुतलेख	पुं.	वह लेख, जो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्यों को सुनकर लिखा जाए	श्रुतलेखः, श्रुतलेखनम्	इबारत	इम्ला	इमला, डिक्टेशन	सूरतखती	श्रुतलेखन
श्रेणी	स्त्री.	1. कतार, पंक्ति	श्रेणी	स्रेणी	सफ़	दरजि, जमाथ	कतार, पंगति	ओळ, पंक्ती
		2. कार्य, योग्यता, आदि के विचार से पदार्थों, व्यक्तियों आदि का वर्ग, विभाग या दर्जा	श्रेणी, वर्गः	स्रेणी	दर्जा	दरजि	दर्जो	वर्ग, दर्जा, श्रेणी
श्रेय	पुं.	1. अच्छाई, उत्तमता	श्रेयस्	अच्छाई	ख़ूबी	बज्यर	चङाई, सुठाई	चांगलेपणा
		2. मंगल, कल्याण	श्रेयस्	भलाई	नेकी	रुत	भलो	मंगल, कल्याण
		3. यश	कीर्तिः	सिह्रा	नेकनामी	शोंहरत	जसु	यश, श्रेय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
पितृपक्ष	पितृपक्ष	सोहश्राद्ध, पितृपक्ष	पितृ-पक्ष (क्ख)	सराध, पितृपक्ष	लाङ्बन थादा तौबा दर्पण	पितृपक्ष	पितृपक्षमु	मकाळयपट्च, शिराद्दम्	महाळय पक्ष, श्राद्धम्	पितृपक्ष
श्रीमान, श्रीमती	श्रीमान, श्रीमती	श्रीमान्, श्रीमती	श्रीमान, सौभाग्य-शाली	श्रीमान्, श्रीमती	श्रीमान, श्रीमती	श्रीमान, श्रीमती	श्रीयुतुलु, श्रीमति	तिरुवाळर/ श्रीमान्, तिरुमति/ श्रीमति	श्रीमान्, श्रीमति	श्रीमान (श्रीमति)
श्रुतलेखन	श्रुतलेखन	श्रुतलेख	श्रुतिलेखन	श्रुतिलिपि	डिक्टेशन	श्रुतलिखन	विनुरातॅ, डिक्टेषनु	केट्टेळुत्तु	केट्ट्ळुत्तुॅ	उक्तलेखन
श्रेणी, पंक्ति	श्रेणी, वळ	श्रेणी, पङ्क्ति, लहर	श्रेणी, सारि (न), पंक्ति	शारी, लानि	परेङ्	श्रेणी, पंक्ति	श्रेणि, वरुस	वरिशै	श्रेणि, वरि, पंति	सालु
वर्ग, कक्षा, दरज्जो	वर्ग, दर्जो	वर्ग, दर्जा, श्रेणी	बिभाग	श्रेणी, बर्ग	थाक्	बर्ग, बिभाग	श्रेणि, वरुस	तरम्, वगुप्पु	क्ळासुॅ, तरम्	वर्ग
श्रेय	श्रेय	श्रेय	श्रेष्ठता, उत्तम	श्रेय, भाल	अफबा, कान्नबा	श्रेष्ठ, भल, श्रेय, उत्तम	श्रेयस्सु, मेलु	चिरप्पु	श्रेयस्स्	ऑळ्ळ्यतन
कल्याण, शुभ	मंगल, कल्याण	मङ्गल, कल्याण	श्रेय, मंगल, शुभ	कल्याण, मंगल	मंगोल, याइफबा	श्रेय, मंगल, कल्याण	श्रेयस्सु, मेलु	नन्मै	मंगळम्, नन्म	क्षेम
यश, पुण्य	यश	कीर्ति	यश, कीर्ति	यश, कीर्त्ति	मिङ्चत्	पुण्य, जश, किर्ति	यशमु, पेरु	कीर्ति, पुगळ्	कीर्ति	यशस्सु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
श्रेष्ठ	वि.	गुण, मान आदि के विचार से बढ़कर, उत्तम, उत्कृष्ट	श्रेष्ठ	उत्तम	बेह्तरीन (उम्दा)	रुत, ज़बर	श्रेष्ठ, उत्तम, सुठो	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट
श्रोता	पुं.	1. सुननेवाला (लिसनर)	श्रोतृ	स्रोता, सरोता	सामे	बोज़न वोल	बुधंदड़ु	श्रोता
		2. किसी सभा, नाटक-प्रदर्शन आदि के दर्शक, सुनने वाले या पाठक (बहुवचन में) (ऑडियंस)	श्रोतृ, सभ्य	सरोता	सामिईन	वुछन-तुं-बोज़न वॉल्य	बुधंदड़ु सामिईन	दर्शक
श्लाघनीय	वि.	प्रशंसनीय	श्लाघ्य	शलाघायोग	क़ाबिले-तारीफ़ (क़ाबिले-तहसीन)	तॉरीफ़-करनस-लायख	साराह जोगो	श्लाघनीय, प्रशंसनीय
श्लाघा	स्त्री.	1. प्रशंसा	श्लाघा	शलाघा	तारीफ़, सताइश	तॉरीफ	साराह, तारीफ़	प्रशंसा, श्लाघा
		2. चापलूसी	श्लाघा	शलाघा	ख़ुशामद	–	चापलूसी	खुशामत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम	उत्कृश्ट	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट	श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट	अथोइबा	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम	श्रेष्ठमैनॆ	मिगच्चिर्रॅन्द	श्रेष्ठम्, उत्कृष्टम्	श्रेष्ठ
श्रोता	श्रोता	श्रोता	श्रोता, श्रबणकारी (न)	श्रोता, शुनोता	तारिबा	श्रोता, श्रबणकारी	श्रोतॆ	गवनित्तुक् केट्पवर्	श्रोतावुॅ	केळुवव, श्रोतृ
–	श्रोतागण, दर्शकगण	श्रोतागण, श्रोतावृन्द	श्रोताबृंन्द	श्रोता, उपस्थित राइज	ओडियेन्स	श्रोता, उपस्थित- थिबा- लोकमाने	श्रोतलु	सबैयोर्	सदस्यर्	सभिकरु
वखाणवा लायक, प्रशंसनीय	प्रशंसनीय	प्रशंसनीय, श्लाघ्य	श्लाघनीय, प्रशंसनीय	श्लाघनीय, प्रशंसनीय	थागत्नि- ङ्ङाइ	प्रशंसनीय	पॊगडदगिनॆ	पुगळ्त्तक्क, पराट्टत्तक्क	श्लाघनीयम्, श्लाघ्यम्	श्लाघ्य, मॆच्चलु, योग्यवाद
श्लाघा, प्रशंसा, तारीफ	प्रशंसा	श्लाघा, प्रशंसा, सह्नी	खोशामद, प्रशंसा	तोषामोद	थागत्पा	प्रशंसा, स्तुति, गुणगान	पॊगड्तॆ, प्रशंसॆ	पाराट्टु	श्लाकिक्कुक, प्रशंस	हॊगळिकॆ
खुशामत	फुसलावप	चापलुसी, चिल्लो-घसाइ	खोशामद	तोषामोद	चिरोल तौबा	तोषामद	मुखॆ- स्तुति	मुगत्तुदि	मुख- स्तुति	मुख स्तुति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
श्वास	पुं.	1. प्राणियों का नाक से वायु खींचकर अंदर फेफड़ों या हृदय तक पहुँचाना और फिर बाहर निकालना, साँस	श्वसनम्	साह	सांस, दम	शाह	साहु	श्वास
		2. दमा नामक रोग	श्वासः	साह	दमा	शाँश	दमो, सहिको	दमा
श्वेत	वि.	1. धवल, उजला, सफेद, गोरा	श्वेत	सफ़ैद	सफ़ेद	सफेद	अछो, गोरो	श्वेत, पांढरा
		2. निर्मल, स्वच्छ, साफ	श्वेत, निर्मल	सफ़ैद	साफ़, शफ़फ़ाफ़	न्यर्मल, साफ	उजरो, साफ़	निर्मल, स्वच्छ
षड्यंत्र	पुं.	साजिश, कुचक्र	उपजापः	खड़िअंतर	साज़िश	सॉज़िश	साज़शि, मन्सूबो	कट, कारस्थान, षड्यंत्र
संकट	पुं.	विपत्ति, मुसीबत, आफत	सङ्कटम्	संकट	मुसीबत, आफ़त	संकट	संकटु	संकट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
श्वास	श्वास	श्वास, सास	नि:श्वास-प्रश्वास	श्वास, उशाह-निशाह	स्वर होनबा	श्वास, निश्वास-प्रश्वास	श्वासॆ, ऊपिरि	मूच्चु, शुवासम्	श्वासम्	उसिरु
दमनो रोग	अस्थमा	दमको रोग, धम्की	हाँपानि (फा) रोग	हापानि, श्वास रोग	हरा थुङ्बा	श्वास-रोग	उब्बसमु	शुवास नोय्	आस्तुम रोगम्, कासम्	दम्मु, गूरलु
सफेद, ऊजळुं, गोरुं	श्वेत	श्वेत, सेतो	श्वेत, सित, गोरा	बगा, स्वेत	अङौबा	श्वेत, गोरा	तॆल्लनि, श्वेतवर्णमु-गलॆ	वॆण्मैयान	वॆळुत्त, श्वेतम्	बिळि
निर्मळ, स्वच्छ	स्वच्छ	सफा, निर्मल	निर्मल, स्वच्छ	निर्मल, परिष्कार	अरुबा, अशेङ्बा तरु-तरुबा, मौत्तबा	निर्मल, परिष्कार, श्वच्छ	धवळमु, स्वच्छमैनॆ	तूय, शुद्दमान	स्वच्छम्, निर्मलम्	निर्मल
षड्यंत्र, कावतरुं	षड्यंत्र, कारस्थान	षडयंत्र, कुचक्र	षडयंत्र, कुचक्र	षडयंत्र, चक्रांत	लौतुनबा	षड़जंत्र, चक्रांत	कुट्र, पन्नागमु	सूळ्च्चि, सतियालोचनै	गूढालोचन	ऑळसंचु
संकट, मुसीबत, आफत	संकट	सङ्कट	संकट, विपद	संकट, बिपद, बिपत्ति	खुदोङ् थिबा	संकट, बिपद, बिपत्ति	संकटमु, आपदॆ	संकड्म्, तॊंदरवु	आपत्तुॅ, विषम-संधि	विपत्ति, गंडांतर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संकलन	पुं.	1. एकत्र करने की क्रिया, संग्रह करना	सङ्कलनम्	संकलन	तदवीन	सौंबरन, मजमूअु	गडुण जो कमु, संग्रह	संग्रह
		2. ऐसी साहित्यिक कृति, जिसमें अनेक ग्रंथों या स्थानों से बहुत-सी रचनाएँ इकट्ठी करके रखी गई हों	सङ्ग्रहः	संकलन	–	सौंबरन, मजमुअ़ु	संग्रह, मज्मूओ	संकलन
संकल्प	पुं.	1. दृढ़ निश्चय, इरादा	सङ्कल्पः	संकलप	अज़्म	संकलुॅप	संकल्पु	संकल्प, निश्चय
		2. सभा-समिति में किसी विषय में विचारपूर्वक किया हुआ पक्का निश्चय (रिजोल्यूशन)	सङ्कल्पः	मता	क़रारदाद	करारदाद	इरादो	निर्धार
संकीर्ण	वि.	तंग, संकुचित, अनुदार	सङ्कीर्ण, अनुदार, सङ्कुचित	संकीरण	तंग	तंग	तंग, सोढ़ो	संकीर्ण, संकुचित
संकेत	पुं.	1. अभिप्राय सूचक अंगचेष्टा, इशारा	सङ्केतः	संकेत	इशारा	इशारूॅ	इशारो	इशारा, संकेत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संकलन, संग्रह	संग्रह	सङ्कलन, सङ्ग्रह	संकलन, एकत्रिकरण (न)	संकलन, संग्रह	खोमजिन्बा	संकलन, एकत्रिकरण, संग्रह, ठुल	संग्रहमु	ऑन्रु शेर्त्तल्	संग्रहिक्कल, समाहरणम्	कूडिसुवुदु
–	संकलन	सङ्ग्रह	संकलन, संग्रह	संकलन	खोमजिन्बा	संकलन, संग्रह	संकलनमु	तॉगुप्पु	समाहारम्	संकलन
संकल्प, निश्चय, इरादो	संकल्प	सङ्कल्प, दृढ निश्चय	संकल्प, दृढ़ निश्चय	संकल्प, दृढ़ निश्चय	वारेप अनिङ्बा	संकल्प, दृढ़-निश्चय	संकल्पमु	तीर्मानम्, मन उरुदि	संकल्पम्	दृढ़-निश्चय
निर्धार	थाराव, ठराव	प्रस्ताव	प्रस्ताव	प्रस्ताव, सिद्धांत	वारेप	निर्धारण, प्रस्ताब	तीर्मानमु	तीर्मानम्, मुडिवु	प्रमेयम्	निर्धार
संकीर्ण, संकुचित	संकुचीत, संकीर्ण	सङ्कीर्ण, अनुदार, सङ्कुचित	अप्रशस्त, संकीर्ण (न)	संकीर्ण, ठेक	अखुबा, अचिन्बा	संकीर्ण, अप्रशस्त, अणचउड़ा, छोट	संकीर्णमैन, संकुचितमैन	कुरुगलान	संकीर्ण, इटुङ्ङिय	संकुचित
संकेत, इशारो	कुरु, संकेत	सङ्केत, इसारा, सान	संकेत, इशारा	इंगित, संकेत	इङ्गित्	संकेत, इंगित, ठार	संकेतमु, सञ्ज्ञ	शैकै, कुरिप्पु	आङ्ग्यम्	सन्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. चिह्न, निशान	सङ्केतः	निशान	–	निशानु	चिह्न, निशान	चिह्न
संकोच	पुं.	1. सिकुड़ने की क्रिया या भाव	सङ्कोचः	संकोच	इन्क़िबाज़	संकूच़	सोसि	आकुंचन
		2. झिझक, हिचक	लज्जा, सङ्कोचः, आशङ्का	संकोच	तरद्दुद, झिझक, तअम्मुल	–	हबक, लज	संकोच
संक्राति	स्त्री.	1. सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना	सङ्क्रान्तिः	संगरांद	तह्वीले-आफ़ताब	साँकराथ	संक्रांती	संक्राती
		2. वह दिन, जिसमें सूर्य का उक्त प्रकार का संचार होता है	सङ्क्रान्तिः	संगरांद	संक्रांत	–	–	संक्रांत
संक्रामक	वि.	एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला, छूत आदि से फैलने वाला (रोग) (कान्टेजियस)	सङ्क्रामक, संस्पर्शज, सांसर्गिक	छूत	मुतअद्दी	लागिदार	विचिड़ंदड़ु/ वचुड़ंदड़ु	सांसर्गिक, संक्रामक
संक्षिप्त	वि.	छोटा किया हुआ लेख, पुस्तक आदि का रूप, सार, संक्षेप	संक्षिप्त	संखेप	ख़ुलासा तल्ख़ीस	मोंखसर	मुख़्तसर, घटायलु	संक्षिप्त

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चिह्न	चिह्न	चिह्न, चिनु	चिन्ह, लक्षण (न)	चिन, चिह्न	खुदम	चिन्ह, लक्षण	संकेतमु, संज्ञ	अडैयाळम्	चिह्नम्, अटयाळम्	गुरुतु
संकोच	संकोचप	सङ्कोच	गुटानो	संकोच, काँच द्विधा	मसुप्, मसुप् नाइबा	द्विधा, संकोच	संकोचमु	चुरुंगुदल्	चुरुङ्ङल्	मुदुडुविर्के
आंचको, लज्जा, शरम	संकोच	धक, लाज, सङ्कोच	संकोच, इतस्सत:	द्विधा, संकोच	हङ्गोइबा, खौदक चाबा	द्विधा, संकोच	बिडियमु	कूच्चम्	सङ्कोचम्	संकोच, अंजिके
संक्रांति	संक्रांती	सङ्क्रांति	संक्रांति	सूर्यर राश्यांतर गमन	संक्रांति	संक्रांति	संक्रांति	संकिरांति	संक्रांति, संक्रमम्	संक्रांति
संक्रांत	संक्रांत	सग्राँती	संक्रांति	संक्राति, तिथि	–	संक्रांति-तिथि	संक्रमणमु	दक्षिणायन/ उत्तरायण आरंबम्	संक्रांति	संक्रांति
संक्रामक	संक्रामक	सङ्क्रामक, सरुवा रोग	संक्रामक (रोग)	संक्रामक, सौँचरा	लौनगन्बा लैना	संक्रामक, संस्पर्श, संसर्ग (डिआँ रोग)	संक्रामकं- मैन	तोत्तुगिर् (नोय्)	संक्रामकम्, पकरुन्न	अंटुरोग
संक्षिप्त, टूंकुं, सारभूत	संक्षिप्त	सङ्क्षिप्त, छोटो, छोटकरी	संक्षिप्त, सार	संक्षिप्त, सार, संक्षेप	अशंबा	संक्षिप्त, संक्षेप, सार	संक्षिप्तमु	चुरुक्कमान	संक्षिप्तम्, चुरुङ्ङिय	संक्षिप्त

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संक्षेप	पुं.	लेख आदि का काट-छाँटकर छोटा किया हुआ रूप, सार	सारः, संक्षेपः	संखेप	खुलासा, तल्ख़ीस	मो'खसर	सारु, इख़्तसारु	संक्षेप
संख्या	स्त्री.	1. गिनती, तादाद, गणना सार	संख्या	गिणती	तादाद	तेदाद	अद्दु	गणना
		2. 1, 2, 3 आदि अंक	संख्या	गिणती	अदद (हिंदिसा)	ग्रंद	अंगु	संख्या
संगठन	पुं.	कार्य विशेष की सिद्धि के लिए निर्मित कोई संस्था	संघटनम्, समितिः	संगठण	तन्ज़ीम	जमाथ, संगठन	संगठनु, संस्थान	संस्था, समिती
संगति	स्त्री.	1. मेल-मिलाप, संग, साथ, सोहबत	सङ्गतिः	संगत	सोहबत	मेल-जोल	संगति, साथु	संगत, साथ
		2. सामंजस्य, उपयुक्तता	सङ्गतिः	संगती	मुनासबत	–	मुनासबत	सामंजस्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संक्षेप, सार	संक्षेप	सङ्क्षिप्त, सारांश	संक्षेप, सार (क्ख)	संक्षेप, सार	वा-मचङ्	संक्षिप्त, सार, संक्षिप्त	संक्षेपमु, क्लुप्तमु	चुरुक्कम्, सारम्	संक्षेपम्, चुरुक्कम्, सारांशम्	संक्षेप, सारांश
संख्या, गणना	गणना	सङ्ख्या, गंती, गणना	गणना, हिसाब (न)	गणना, गंति	मशिङ्	संख्या-गणना, हिसाब	गणनँ लॅक्किंपु	एॅण्णिक्कै	एॅण्णम्, संख्य	एॅणिकॅ
संख्या (1,2,3, आदि)	संख्या (1, 2 3, 4 अशी)	सङ्ख्या, थान	अंक, संख्या	संख्या	मशिङ् थिबा	अंक, संख्या	संख्यँ	एॅण्गळ्	संख्य, अक्कम्	संख्यॅ
संगठन, संस्था	संगठन	सङ्गठन, सङ्घ	संगठन, समिति, संस्था	संगठन, संघ, संस्था	प्रतिस्थान, समिति	संगठन, संघ, संस्था, समिति	संगठनमु	अमैप्पु	संघटन	संस्थॅ, संघटनॅ
संगति, संयोग	संगती	मेलमिलाप, संगति	संगति, मिलन	संग, मिलन, संपर्क	तिन्नबा, संग, लोइनबा	संग, संपर्क	सांगत्यमु	चेर्क्कै	कूट्टुॅ	संगति, जॊतॆ
मेळ	सामंजस्य	सामञ्जस्य्	सामञ्जस्य	संगति, मिल, सामंजस्य	चाशिन्नबा	सामंजस्य, सादृश्य, उपजुक्तता	सामंजस्यमु	इशैवु	सामंजस्यम्, योजिप्पुॅ	सामंजस्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संगीत	पुं.	ध्वनियों या स्वरों का कुछ विशिष्ट लय में होने वाला प्रस्फुटन (म्यूजिक)	सङ्गीतम्	संगीत	मूसीक़ी	संगीत, ग्यवुन, मोसीकी	संगीत	संगीत
संगोष्ठी	स्त्री.	किसी निर्धारित विषय पर आमंत्रित विद्वानों की चर्चा तथा उनका निबंध-पाठ	सङ्गोष्ठी	गोशटी	सेमिनार	सेमिनार	बैठक, गोष्ठी	परिसंवाद
सग्रहालय	पुं.	वह स्थान, जहाँ विशेष महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया गया हो (म्यूजियम)	सङ्ग्रहालय:	अजाइबघर	अजाइबख़ाना	अजॉइबगर	अजायब-घरु, म्यूज़ियम	संग्रहालय
संग्राम	पुं.	युद्ध, लड़ाई, समर	सङ्ग्राम:	संगराम	जंग	लडॉय	संग्रामु, जंगि	युद्ध, संग्राम
संघटन	पुं.	1. कार्य विशेष की सिद्धि के लिए निर्मित कोई संस्था	सङ्घटनम्	संगठण	तंज़ीम	जमाथ, तंज़ीम, संगठन	संगठनु, संस्था	संस्था, संघ
		2. किसी चीज के विभिन्न अवयवों को जोड़कर उसे प्रतिष्ठित करना, रचना	सङ्घटनम्	संगठण	–	जमाथ, तंज़ीम, संगठन	संगठनु, संस्था	संस्था, संघ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संगीत	संगीत	सङ्गीत	संगीत	संगीत	इशै	संगीत, गीत	संगीतमु	संगीदम्, इशै	संगीतम्	संगीत, हाडुगारिके
संगोष्ठी, परिसंवाद	संगोश्ठी	सङ्गोष्ठी, परिसंवाद	गोष्ठी, आलोचना-चक्र, सेमिनार	संगोष्ठी/ आलोचना-चक्र	सेमिनार, संगोष्ठी	पाठ-चक्र, आलोचना-चक्र	गोष्ठि	करुत्तरंगु	चर्चा सम्मेळनम्	गोष्ठि
संग्रहालय	संग्रहालय	सङ्ग्रहालय	संग्रहालय, जादुघर	संग्रहालय, जादुघर	म्यूजियम	संग्रहालय, जादुघर	वस्तु-प्रदर्शनशालै	कलै-क्कूडम्	संग्रहालयम्, म्यूसियम, काळूच-बंग्ळावुँ	वस्तु-संग्रहालय
संग्राम, युद्ध	संग्राम, युद्ध	सङ्ग्राम, लडाइँ	संग्राम, लड़ाई, युद्ध	संग्राम, युद्ध	लाल्	संग्राम, लढेइ, जुद्ध	युद्धमु	युद्दम, पोर्	समरम्, युद्धम्	युद्ध
संघटन, संगठन	संघ, संस्था	सङ्घटन, सङ्गठन,	संगठन, संघ, संस्था	संघ, संस्था	शेमगत् शागत्पा संस्था	संगटन, संघ, संस्था	संस्थ	अमैप्पु	संघटन	संस्थे, संघटने
रचना	संघटन	सङ्घटन, बनोट	संघटन	रचना, गठन	शेमगत्पा	रचना, गठन	संघटनमु, रचन	ओन्रु चेत्तल्	घटन, ओन्निचु चेर्कुक	जोडिसुविके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संघर्ष	पुं.	1. स्पर्धा, होड़	स्पर्धा	संघरश	मुक़ाबला, कशमकश	हलुॅबलुॅ	संघर्षु	संघर्ष, हरीफाई
		2. कठिनाइयों या प्रबल विरोधी शक्तियों को दबाने के लिए प्राणपण से की जाने वाली चेष्टा	सङ्घर्षः	संघरश	जद्दो-जहद	मुकाबॅलुॅ	संघर्षु, टकरु	संघर्ष
संचय	पुं.	1. चीजें इकट्ठी करने की क्रिया या भाव	सञ्चयः	जोड़ना	जमा	सोंबरावुन	मेड़ु, ढिगु, ढेरु	संचय
		2. इकट्ठी की हुई चीजों का ढेर या राशि	सञ्चयः	ढेर	–	संच़्यथ	–	संग्रह, साठा
संचार	पुं.	1. गमन, चलना, चलाना	सञ्चारः	संचार	हरकत	यितुॅगछ़ मवासिलात	हलणु, हलाइणु	गमन, संचार
		2. संदेश, समाचार तथा सामान आदि भेजने की क्रिया, प्रकार और साधन	सञ्चारतन्त्रम्	संचार	मुवासिलात	शैंछ-वातुॅनावनुक-सिलसिलुॅ	संचारु	संचार व्यवस्था

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
–	स्पर्धा	सङ्घर्ष, स्पर्धा	संघर्ष, स्पर्धा, बिबाद	प्रतिद्वंद्विता, स्पर्धा	थेङ्नबा, तान्नबा	संघर्ष	संघर्षण, स्पर्ध	मोदल्	मत्सरं	स्पर्धे, पंद्य
संघर्ष	संघर्ष	सङ्घर्ष, घम्साघम्सी	संघर्ष	प्राणपणे करा चेष्टा	–	–	संघर्षण	पोराट्टम्	संघर्षम्	संघर्षणं, होराट
संचय, संग्रह	संचय	सञ्चय, जोरजाम	संचय, संग्रह	एके ठाइते गोटोबा, साँचन, संचय	खोम्जिन्बा	संचय	संग्रहमु, संचयनमु	शेगरित्तल्	शेखरणम्	संचय, संग्रह
जमा करवुं	संग्रह	सङ्ग्रह, राशि, थुप्रो	समूह	थूप दम	पैखत्पा	–	संचितमु	कुवियल्	संचयम्, शेखरम्	राशि
संचार	संचार	सञ्चार, यात्रा	संचार, चलन	गमन, चलन	–	संचार	संचारमु	संचरित्तल, चॅल्लुदल्	संचरिक्कल्	संचार, तिरुगाट
संचार, व्यवस्था	संचार व्यवस्था	सञ्चारतंत्र	योगायोग ब्यबस्था	योगायोग	–	–	वार्ता-रवाणा-सौकर्यालु	तगक्वल् नॉडर्बु	वार्ताविनिमयं	संचार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संचालक	वि.	चलाने या गति देने वाला (कंडक्टर)	सञ्चालक	संचालक	कंडक्टर	चलावन वोल	हलाईंदड़ु	संचालक
	पुं.	वह प्रधान अधिकारी, जो किसी कार्य, विभाग, संस्था आदि को चलाने की सारी व्यवस्था करता हो, निदेशक	सञ्चालकः	संचालक	डाइरेक्टर (नाज़िम)	डाइरेक्टर	संचालकु, मुख्य अधिकारी	निर्देशक
संतति	स्त्री.	संतान, बाल-बच्चे, औलाद	सन्ततिः	संतान	औलाद (नस्ल)	अवलाद	संतान, औलादु	संतती
संताप	पुं.	1. अग्नि, धूप आदि का बहुत तीव्र ताप	तापः	संताप	हिद्दत	ताफ	तपति, जलनि	दाह, ताप
		2. बहुत तीव्र मानसिक क्लेश या पीड़ा	सन्तापः	संताप	सोज़िश	द्यमॉगी-अज़ाब	मन जी तिखी पीड़ा	संताप
संतुलन	पुं.	1. वह स्थिति, जिसमें सभी अंग बराबर के हों	साम्यम्	संतुलन, समतोल	तवाज़ुन	तवोज़ुन	तवाज़ुन, बराबरी	तोल
		2. तोलते समय दोनों पलड़ों का बराबर होना	समतोलः	संतुलन, समतोल	–	–	–	समतोल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संचालक, चलावनार	संचालक	सञ्चालक	संचालक, गतिदायक	परिचालक, संचालक	कंडक्टर	संचालक	कंडक्टरु	नडत्तुनर्	नटत्तिप्पु-कारन्, कण्डक्टर्	कंडक्टर्
नियामक	निदेशक	सञ्चालक, निदेशक	निर्देशक	संचालक	डाइरेक्टर	निर्देशक, परिचालक, संचालक	संचालककुडु	मेलाळर्	मानेजर्, मेधावि	निर्देशक, संचालक
संतति, ओलाद	संतती	संतति	संतान, छेलेपुले	संतान, संतति	मचा	संतति	संतति, संतानमु	संतति, कुळ्न्दै कुट्टिगळ्	संतति	मक्कळु
संताप, दुख	ताप	ताप, राप, आँच	उत्ताप, दुख	ताप, उत्ताप	मैशा	संताप	संतापमु, वेडि	दहित्तल्	कोटुंचूटुं	बेगं, सेके
–	संताप	संताप	संताप	संताप	मैचाक्	–	संतापमु	मनक्कष्टम्, वेदनै	संतापम्, दुखम्	संताप, व्यर्थ
तोल, समतोल	संतुलन	संतुलन	सुसमता, सामन्जस्य	संतुलन, समता, भारसाम्य	चाङ्पुबा, चाङ् मान्नबा	संतुलन, समता, भारसाम्य	संतुलनमु	शीरान निलै	संतुलनम्	सामंजस्य, संतुलन
संतुलन	समतोल	समतोल	भार, साम्य	संतुलन, समानजोख	चाङ् मान्नबा	संतुलन, समानता	समतूकमु	शीर् तूक्कल्	सममान एँडै	समतूक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संतुष्ट	वि.	1. जिसको संतोष हो गया हो, तृप्त	सन्तुष्ट	संतुशट	आसूदा	खो'श-रोजुन	संतोषी	संतुष्ट, तृप्त
		2. जो समझाने-बुझाने से राजी हो गया हो	संतृप्त	संतुशट	मुत्मइन	मुतमॅयिन	राज़ी	सम्मत
संतुष्टि	स्त्री.	1. संतुष्ट होने की क्रिया या भाव, तृप्ति	सन्तुष्टिः	संतुशटी	आसूदगी	त्रप्ती	तृप्ती	तृप्ती
		2. संतोष	सन्तुष्टिः, सन्तोषः	–	इत्मिनान	संतूश	संतोषु	संतोष
संतोष	पुं.	1. वह मानसिक अवस्था, जिसमें व्यक्ति प्राप्त होने वाली वस्तु को यथेष्ट समझता है और उससे अधिक की कामना नहीं करता	सन्तोषः	संतोख	सब्र	संतूश, कनात	संतोषु	संतोष, समाधान
		2. सब्र, धीरज, इतमीनान	धैर्यम्	संतोख	क़नाअत	सबुॅर	–	धीर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संतुष्ट	संतुश्ट	संतुष्ट्, तृप्त	संतुष्ट, तृप्त	तुष्ट, संतुष्ट	अपेन्बा	संतुष्ट, तृप्त	तृप्ति चेंदिन	तिरुप्ति अडैंदवन्	संतृप्तन्	तणिद, तृप्त
संमत	सम्मत	राजी, मानेको, सहमत	सम्मत, राजी, सहमत	तुष्ट, जित-योवा, तृप्ति	थेम-नौदुना	संतुष्ट, तृप्त, सम्मत, राजि	समाधानै पडिन	ऑप्पु-क्कोण्ड	अनुकूलिच्च	समाधान-गांड, राजियाद
संतुष्टि, तृप्ति	तृप्ती	संतुष्टि, तृप्ति	संतुष्टि	संतुष्टि, तृप्ति	पेंथोक्पा	संतुष्टि, तृप्ति	संतृप्ति	मन निऱैवु	तृप्ति	तणियुविर्क, तृप्ति
संतोष	संतोश	संतोष, संतोक	संतोष	संतोष	अपेन्बा	संतोष	संतोषमु	तिरुप्ति	तृप्ति	समाधान
संतोष, तृप्ति	खोस	संतोष, संतोक	संतोष, तृप्ति	संतोष	पुकनिङ्गी अपेन्बा	संतोष, तृप्ति	तृप्ति	मन-निरैवु, तिरुप्ति	संतृप्ति	तृप्ति
धीरज	संतोश	धैर्य, सहिष्णुता	धैर्य	संतोष	फथबा, खाङ्बा	धैर्ज्य, सहिष्नुता, सहनशीलता	ओपिकँ	पॉरुमै	क्षम, समाधानम्	ताळ्मॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संतोषजनक	वि.	1. संतोष देने वाला, संतोषप्रद	सन्तोषप्रद	संतोखजनक	इत्मिनान बख़्श	तसलीबख़ुॅश	संतोष जोगो	संतोषप्रद
		2. पर्याप्त, यथेष्ट, काफी	पर्याप्त	–	काफ़ी	–	काफ़ी	पर्याप्त
संदर्भ	पुं.	पुस्तक, लेख आदि में वर्णित प्रसंग, विषय आदि, जिसका विचार या उल्लेख हो, प्रसंग	प्रसङ्गः	संदरभ, प्रसंग	हवाला (सियाक़ो-सबाक़)	हवालुॅ	हवालो, संदर्भु	संदर्भ
संदेश	पुं.	समाचार, पैगाम, खबर	सन्देशः	संदेस, सुणेहा	पैग़ाम	श्ये'छ-खबर, पॉगाम	संदेशु, पैग़ामु	संदेश
संन्यास	पुं.	1. पूरी तरह से छोड़ना, परित्याग करना	संन्यासः	सन्निआस	तर्क	सनियास	संन्यासु	परित्याग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संतोष-जनक	संतोसाचो	संतोष-जनक, संतोषप्रद	संतोष-जनक	संतोष-जनक	पेन्निङ्ङाइ ओइबा	संतोषजनक, तृप्ति-जनक	तृप्ति-करमैन	तिरुप्ति अळिक्किर्	तृप्ति करम्	तृप्तिकर, समाधानकर
पर्याप्त	जाय तितलो	प्रशस्त, यथेष्ट	यथेष्ट	यथेष्ट	मतिक् चाना	पर्ज्याप्त, प्रचुर, जथेष्ट, बहुत	यथेष्टमैन, चालिनंत	पोदुमान	यथेष्टम्	साकष्टु
संदर्भ	सँदर्भ	संदर्भ, प्रसङ्ग	प्रसंग, संदर्भ	संदर्भ, प्रसंग	मरि मखोङ्	संदर्भ, प्रसंग, परिप्रेक्षी	संदर्भमु	संदर्बम्, चूळ्निलै	संदर्भम्	प्रसंग
संदेश, समाचार, खबर	संदेश	संदेश, खबर	संवाद, वार्ता, समाचार	बातरि, समाचार, खबर, बार्ता	पाओ	संदेश, समाचार, बार्ता, खबर	संदेशमु, समाचारमु	सेय्दि, समाचारम्	संदेशम्	संदेश, समाचार
परित्याग	परित्याग, विरक्त	परित्याग	सन्न्यास, सँपूर्ण त्याग (न्न)	संपूर्ण वैराग्य	लंबोइबा, सन्यास	संन्यास, बैराग्य, त्याग	सन्यासमु, परित्यागमु	मुट्टुम् तुरत्तल, सन्नियासम्	संन्यासम्	परित्याग

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. चतुर्थ आश्रम, (हिंदुओं का) जिसमें सब प्रकार के सांसारिक संबंध छोड़कर मनुष्य त्यागी और विरक्त हो जाता है	संन्यासः	सन्निआस	फ़क़ीरी	सनियास	–	संन्यास
संन्यासी	पुं.	1. जिसने संन्यास आश्रम ग्रहण किया हो	संन्यासी	सन्निआसी	फ़क़ीर (सन्यासी)	सनियॉस्य	संन्यासी	संन्यासी
		2. त्यागी और विरक्त	संन्यासी	सन्निआसी	तारिकुद्दुनिया, ज़ाहिद	–	वैराग़ी	त्यागी, विरक्त
संपन्न	वि.	1. पूरा किया हुआ, पूर्ण, मुकम्मल	सम्पन्न	मुकम्मल	मुकम्मल	आसनवोल	पूरो, मुकम्मल	संपूर्ण, संपन्न
		2. किसी गुण या वस्तु से युक्त	सम्पन्न	मुकम्मल	पुर	सोंस	भरियलु	संपन्न, परिपूर्ण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संन्यास	संन्यास	सन्न्यास, वैराग्य	सन्यास, बैराग्य	संन्यास	सन्यास	सन्यास	सन्यासा-श्रममु	सन्नियासम्, तुरवरम्	संन्यासम्	सन्यास
संन्यासी, त्यागी	संन्यासी	सन्न्यासी	सन्यासी (न्न)	संन्यासी, संसार त्यागी	सन्यास लौरबा मी	संन्यासी, संसार-त्यागी	सन्न्यासि	सन्नियासि	संन्यासि	सन्यासि
त्यागी, विरक्त	त्यागी	जोगी, त्यागी	त्यागी, बैरागी	बैरागी	ओइजबा थादोक्पा कत्थोकपा, अपाँबा मीहौबा लैतबा, तोङ्ङान्बा	त्यागी, बैरागी	सन्न्यासि, विरक्तुडु	तुरवि	विरक्तन्	विरक्त
संपन्न	संपूर्ण, पुराय	संपन्न, संपूर्ण	संपूर्ण (न), संपादन	संपूर्ण	पाङ्थो-क्लबा	समाप्त, संपादन, संपन्न, शेष	समाप्तमैन	निरैवु पॆट्ट	निरवेरिय	पूर्णवाद, मुगिद
युक्त, सहित	संपन्न	परिपूर्ण, सहित, युक्त	युक्त, परिपूर्ण	संपन्न, परिपूर्ण	याओबा	संपन्न, परिपुर्ण	संयुक्तमैन, कूडिन	वशदियुडन् कूडिय	चेर्न्न	कूडिद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. खुशहाल, धनी, अमीर	सम्पन्न	अमीर	ख़ुशहाल	पतुॅ-बोॅड	अमीरु, धनवानु	संपन्न, श्रीमंत
संपर्क	पुं.	1. मेल, संयोग	सम्पर्कः	मेल, संपरक	रब्त, तअल्लुक़	रॉबितुॅ	राब्तो, संपरकु	संबंध, संसर्ग
		2. आपस में होने वाला किसी प्रकार का लगाव, वास्ता या संसर्ग	सम्पर्कः	मेल, संपरक	तअल्लुक़	म्युल	वास्तो, लागापो	संपर्क
		3. स्पर्श	सम्पर्कः	मेल, संपरक	लम्स	छिह	–	स्पर्श
संपर्क भाषा	स्त्री.	वह भाषा, जिससे विभिन्न देशों अथवा प्रदेशों के लोग आपस में सूचना, विचारों आदि का आदान-प्रदान करते हैं	सम्पर्कभाषा	संपरक-भाषा	राबिते की ज़बान	रॉबितुॅ ज़बान	जोड़ीदंड़ बोली, गांढू बोली	संपर्क भाषा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
श्रीमंत, वैभवशाळी	श्रीमंत, गिरेस्त	समृद्ध, संपन्न, अमिर	समृद्ध, धनी	अवस्थापन्न, धनी	हराओ तयांबा, इनाक् खुन्बा	धनबान, बिभबशाली, संपत्तिबान, संपत्ति- संपन्न	संपन्नुडु	सल्वम् पडैत्त	संपन्नन्, धनिकन्	श्रीमंत
संपर्क	संपर्क	संबंध, संपर्क	संबंध, संयोग	मिल, संयोग	तिन्नबा	संपर्क, संजोग, सापेक्ष, आत्मियता, संबंधजुक्त	संपर्कमु, संधानमु	इणैप्पु	संपर्कम्	सेरुविकॆ, संयोग
संबंध, संग	संसर्ग	मेल, संपर्क, संसर्ग	संपर्क, संसर्ग	संपर्क, संसर्ग	लोइनबा	संसर्ग, संपर्क, संबंध	संबंधमु	तॊडर्बु	संबंधम्, बंधम्	संपर्क
स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श, संपर्क	स्पर्श	स्पर्श, संयोग	शोक्पा	स्पर्श, संजोग	संसर्गमु, स्पर्श	तॊडुदल्	स्पर्शम्	स्पर्श
संपर्क भाषा	संपर्क भाषा	संपर्क भाषा	संपर्क- भाषा	संपर्क- भाषा	तोङान्बा लोल लोन्बशिङ्गी मरक्ता पाओ फाओननबा शिजिन्- नरिबा लोल	संपर्क- भाषा, संजोगकारी- भाषा	संधानॆ- भाषॆ	तॊडर्बु मॊऴि	संपर्क भाष, बंधभाष	संपर्क- भाषॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संपादक	पुं.	वह, जो किसी पुस्तक, सामयिक पत्र आदि के सब लेख या विषय अच्छी तरह ठीक करके उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाता है (एडिटर)	सम्पादक	संपादक	मुदीर	संपादक, मुदीर, अडिटर	संपादकु	संपादक
संपादकीय	वि.	संपादक संबंधी या संपादक का	सम्पादकीय	संपादकी	इदारिया	संपादकी	संपादकी लेखु	अग्रलेख
	पुं.	संपादक द्वारा लिखी हुई टिप्पणी या अग्रलेख	सम्पादकीय	संपादकी	इदारिया	संपादकी	संपादकी लेखु	अग्रलेख
संपादन	पुं.	1. पूरा करना, प्रस्तुत करना	सम्पादन	संपादन	तालीफ़	मुदीरी, अडिटिंग	पूरो करणु, पेश करणु	पुरेकरणें
		2. किसी पुस्तक का विषय आदि ठीक करके उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाना (एडिटिंग)	सम्पादनम्	संपादन	तालीफ़	संपादन	संपादनु	संपादन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संपादक, मंत्री	संपादक	संपादक	संपादक	संपादक	संपादक, एडिटर	संपादक	संपादकुडु	पत्तिरिगै आसिरियर्	पत्राधिपर्, एंडिट्टर्	संपादकरु
संपादकीय	संपादकीय	संपादकीय	संपादकीय	संपादकीय	संपादक का मरि लैनबा	संपादकीय	संपादकीयमु	पत्तिरिगैयिन् तलैयंगम्	पत्राधिपरुट्, अग्रलेखनम्/ एंडिट्टोरियल्	संपादकीय
अग्रलेख, तंत्रीलेख	संपादकीय	संपादकीय	संपादकीय	संपादकीय	संपादक का मरि लैनबा, संपादक ना इबा नोट	संपादकीय	संपादकीयमु	–	–	संपादकीय
पूरुं करवुं	पुराय करप	संपादन, प्रस्तुतीकरण	संपादन, निष्पन्न	संपादन, संपन्न	पाङ्थोक्पा, पुथोक्पा	संपादन, संपन्न, पुरा करिबा, शेष करिबा	पूर्ति- चेयुट, निर्वहिंचुट	मुडित्तल्	निर्वेट्टल्	पूरैसुवुदु
संपादन	संपादन	संपादन	संपादन	संपादन, संशोधन	एडिटिंग	संपादन, संशोधन	एडिट् चेयुट	पुत्तगम् अल्लदु संयदियै सरि पार्त्तु तिरुत्तुतल्, एंडिट् संय्दल्	एडिट्टॅ चंय्युकॅ	संपादनॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संपूर्ण	वि.	1. आदि से अंत तक सब, सारा, कुल, समूचा	सम्पूर्ण	संपूरन	तमाम (जमी)	सोरुय, पूरि पूर	समूरो, पूरो	संपूर्ण, सम
		2. पूरा या समाप्त किया हुआ	सम्पूर्ण	संपूरन	मुकम्मल	मुकमल	पूरो कयलु	पूर्ण केलेले
संप्रदाय	पुं.	1. एक ही तरह का मत या सिद्धांत रखने वाले लोगों का समूह या वर्ग	सम्प्रदायः	संपरदाई, फ़िरका	फ़िर्क़ा	फिरकुँ, तबकुँ, ज़ाथ	संप्रदाय, फ़िर्क़ो	संप्रदाय
		2. परंपरा से चला आया ज्ञान या सिद्धांत, प्रथा, परिपाटी या रीति	सम्प्रदायः	संपरदाई	–	फिरकुँ, तबकुँ, ज़ाथ	रीति, रिवाजु	संप्रदाय
		3. कोई विशिष्ट धार्मिक मत या सिद्धांत, धर्म	सम्प्रदायः	–	ज़ात, तबक़ा	फिरकुँ, तबकुँ, ज़ाथ	फ़िर्क़ो, मतो	सिद्धांत, धर्म

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संपूर्ण, बधुं, तमाम	संपूर्ण	समस्त, समग्र, संपूर्ण	संपूर्ण, समग्र	संपूर्ण, सकलो	हौबदगी लोइबा फाओबा पुम्नमक्, अपुन्बा	सकल, समस्त-बा सबु, संपूर्ण, समग्र	संपूर्णमु, समग्रमु	मुळु मैयान	संपूर्ण, मुळुवन्	एल्ल, मॊत्त, संपूर्ण
पूरुं करेलुं	पुराय केल्ले	समाप्त, संपूर्ण	समाप्त, निष्पादित	समाप्त, संपूर्ण	मपुङ फारबा, लोइरबा	समाप्त, संपूर्ण, संपादित	समाप्तमु	निरैवु पॆट्ट	पूर्ण-माक्किय	पूर्णगॊळिसिद
संप्रदाय, पंथ	संप्रदाय	संप्रदाय	संप्रदाय, दल, संघ	संप्रदाय, गोष्ठी	सिद्धांत अमगी मखादा लैबा मी काङ्लुप	संप्रदाय, दल, संघ, गोष्ठी	समुदायमु	मदप्पिरिवु	वर्गम्	मत, संप्रदाय
रिवाज	परंपरा	प्रथा, परंपरा, परिपाटी	प्रथा	परंपरागत रीति बा आचार	चत्न पथाप	प्रथा, रीति, परंपरागत-आचार	संप्रदायमु	परंपरै पळक्क वळक्कंगळ्	मामूल्, पारंपर्चमाय	कट्टळॆ
सिद्धांत, धर्म	सिद्धांत	सिद्धांत, धर्म, धार्मिक मत	सिद्धांत, मत	धर्मीय मत बा सिद्धांत	धर्म मान्नबा काङ्लुप्	सिद्धांत, धर्म, मत	संप्रदायमु	संप्रदायम्, मतम्	मतम्, प्रस्थानम्	धर्म

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संबंध	पुं.	1. रिश्ता, नाता	सम्बन्धः	संबंध	रिश्ता	संबंद, मेल, रिशतुॅ	रिश्तो, नातो	नाते
		2. आपस में होने वाली घनिष्ठता या मेल-जोल	सम्बन्धः	संबंध	तअल्लुक़	संबंद, मेल, रिशतुॅ	संबंधु, वास्तेदारी	संबंध
संभव	वि.	जो किया जा सकता हो, या हो सकता हो, मुमकिन	सम्भाव्य	संभव, मुमकन	मुम्किन	मुमकिन	मुम्किन, संभव	संभव
संभालना (सम्हालना)	स. क्रि.	1. पालन करना, सहारा देना	√पाल्	संभॅालणा	संभालना	संबालुन	संभालणु	सांभाळणें, पालन करणें, आधार देणें
		2. प्रबंध करना, भार उठाना	निर् +√वह्	संभॅालणा	इंतिज़ाम करना	संबालुन	बंदोबस्त करणु	व्यवस्था करणें
		3. गिरते हुए को बीच में रोकना	√धृ	संभॅालणा	–	–	संभालणु	धरणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संबंध, मित्रता	संबंद, संबंध	साइनो, नाता	संबंध, संपर्क	संबंध, संपर्क	मरि- मता	संबंध, संपर्क, मित्रता	संबंधमु	संबंदम्	बंधुत्वम्	नंटस्तिकं, संबंध
संयोग, परिचय	नाते	संबंध, मैत्री	योगायोग, आत्मीयता	घनिष्ठता, मिला प्रीति	तिन्न- खोत्नबा	संबंध, घनिष्ठता, आत्मियता, संजोग	संबंधमु	नेरुक्कम्	बंधम्, अटुप्पम्	बांधव्य
संभव, शक्यता	संभव	संभव	संभव	संभव, संभाव्य	तौबा याबा, ओइबा याबा	संभब हेबा, संभाबना, संभबपरता	संभवमु, साध्यमु	निकळ्क्- कूडिय	संभवि- क्कावुन्न	साध्य
संभाळवुं	सांभाळप	सम्हाल्नु, सँभाल्नु	पालन- पोषण करा	चंभाल, प्रतिपाल- कर	पाङ्थोक्पा	संभालिबा, पालन- पोषण, भरण पोषण, प्रतिपालन	संभाळिंचुट	काप्पाट्टु	पालिक्कुक, सहायिक्कुक	कापाडुवुदु
व्यवस्था करवी	बंदोबस्त करप	प्रबन्ध गर्नु, हेरविचार	धरा, धरे, फेला	परिचालना कर	पोत्लुम्	संभालिबा, परिचालित- करिबा, प्रबंध करिबा	निर्वहिंचुट	एपाडु चेय्य	एर्पाडु चेय्युक	व्यवस्थे- माडुवुदु, होर्णहोरे- युवुदु
संभाळवुं, रोकवुं	धरप	सहारा दिनु, बचाउनु	सहायता	धरि राख, आश्रय दि	तुगदौबबु कन्बा, ङाक्पा	संभालिबा, धरिनेबा, रक्षा करिबा	निलुपुट	ताङ्ग	ताङ्ङुक	हिडियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संयुक्त	वि.	1. किसी के साथ जुड़ा, मिला, लगा या सटा हुआ	संयुक्त	संजुगत	मुश्तरका	यिकवटुॅ	गड्रियलु, जुड़ियलु	संलग्न
		2. जिसके दो या अधिक भागीदार हों, साझा	संयुक्त	संजुगत	–	–	भाईवारीअ वारो, भाग्रीदारीअ वारो, संयुक्त	संयुक्त
संरक्षक	वि.	देखभाल, निरीक्षण करने वाला, आश्रयदाता, अभिभावक	संरक्षक	राखा, सरपरसत, निगरान	सरपरस्त, निग्राँ	पालनवोल, रछनवोल, सरपरस्त	संभालींदड़ु, संभाल कंदड़ु	आश्रयदाता, संरक्षक, अभिभावक
	पुं.	1. संस्थाओं आदि में वह बड़ा और मान्य व्यक्ति जो उसके प्रधान पोषकों और समर्थकों में माना जाता है	संरक्षक	सरपरसत	निग्राँ	सरपरस्त	संरक्षकु	आश्रयदाता
		2. वह, जिसके निरीक्षण या देख-रेख में किसी वर्ग के कुछ लोग रहते हों	संरक्षक	सरपरसत	सरपरस्त	सरपरस्त	संभालींदड़ु	संरक्षक, पालक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संयुक्त, जोडायेलुं	संलग्न	गाँसिएको, टाँसिएको, संयुक्त	संयुक्त, संलग्न	संयुक्त, युक्त, जड़ित	अपुन्बा, पुन्शिन्बा	संजुक्त, जुक्त, जड़ित, संलग्न	संयुक्तमु	इणैंद, ओट्टिय	चेर्न्न	जंटि, सेरिकेंडिरुव
मझियारुं	संयुक्त	सझियार, साझेदार, साझा	अंशिदार	अंशीदार युक्त	शरुक यारिबाशिङ् पुन्शिन्बा	भागीदार, अंशीदार	उम्मडि	पंगाळित्तुवं उळ्ळ	कूट्टाय	पालु-इरुव, जंटि
संरक्षक, आश्रय-दाता	संरक्षक	संरक्षक, आश्रयदाता, अभिभावक	संरक्षक (क्ख)	संरक्षक, रक्षक, अभिभावक	येङ्शिन्बा, चङजफम पीबा	संरक्षक, रक्षक, अभिभाबक, पालनकारी, पालनकर्त्ता	संरक्षकुडु	आदरि-प्पवर, पुरवलर्	संरक्षकन्, आश्रय-दातावुं	रक्षक
आश्रय-दाता	आश्रय-दितलो	संरक्षक	पृष्ठपोषक	पृष्ठपोषक	मवा चत्पा मी	पृष्ठपोषक, संरक्षक, आश्रयदाता, तत्वाबधारक	संरक्षकुडु	आदरवाळर्, पुरवलर्	रक्षाधिकारि, पेट्रण्	संरक्षक
संरक्षक, पालक	पालक	अभिभावक, रखवाला	अभिभावक	अभिभावक, संरक्षण-करोता	ङाक् शेल्लिबा मी	अभिभाबक, पालक, संरक्षक	संरक्षकुडु	पादुका-प्पाळर्	रक्षाकर्तावुं, संरक्षकन्	संरक्षक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संरक्षण	पुं.	1. अच्छी और पूरी तरह से रक्षा करने की क्रिया या भाव, पूरी देख-रेख और हिफंाजत (कस्टडी)	संरक्षणम्	निगरानी	हिफ़ाज़त, तहवील	हेफ़ाज़थ, रॉछ्य	हिफ़ाज़त, रख्या	संरक्षण
		2. अपने आश्रय में रखकर पालना-पोसना, आश्रय	संरक्षणम्	निगरानी, देखभाल	सरपरसती	सरपरस्ती	पनाह, सरपरस्ती	प्रतिपालन, आश्रय
संरचना	स्त्री.	1. कोई वस्तु ऐसी बनाने की क्रिया या भाव जिसमें अनेक प्रकार के अंगों-उपांगों को प्रयोग करना पड़ता है।	संरचना	संरचना	साख़्त	बनावुन, बनावठ	बनावत, रचना	रचना
		2. उक्त प्रकार से बनी हुई कोई चीज (स्ट्रक्चर)	संरचना	संरचना	साख़्त	–	रचना	रचना
संवाद	पुं.	1. बातचीत, वार्तालाप	संवादः	संबाद	मुकालमा	कथ-बाथ	गुफ़्तगू	संभाषण, संवाद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संरक्षण, रक्षण	संरक्षण	संरक्षण, जगेर्ना	संरक्षण (न)	संरक्षण, रखोवा	निङ्थिना ङाक् शेन्बा, कस्टडी	संरक्षण, रक्षण, मार्फत, तत्वाबधान, अभिभावकत्व	संरक्षण, रक्षणँ	पादुकाप्पु, संरक्षणै	सूक्षिप्पॅु	संरक्षणं
आश्रय	पोसप	आश्रय, संरक्षण	पालन- पोषण (न), आश्रयदान	भरण- पोषण, प्रतिपालन	—	भरण- पोषण, प्रतिपालन, आश्रय	संरक्षणँ, रक्षणँ, पोषणँ	संरक्षणै, आदरवु	आश्रयम्, संरक्षणम्	कापाडुवुदु
संरचना	गठन- कौशल	संरचना, निर्माण	रचना, संरचना	रचना, संरचना	शेंबा शाबा	संगठन, रचना- बिधान	कूर्पु, रचनँ	अमैप्पु	घटन	संरचनं
माळखुं	रचना विधान	रचना, बनोट	गठन- प्रणाली (न)	बनोट, गठन, निर्माण	शेमगत शागतपगी मओङ्	गठन- कौशल(शैली), निर्माण, गढ़न, रचना	निर्माणमु	—	संरचन	–
संवाद, वातचीत	संवाद, वार्तालाप	संवाद, वार्तालाप, कुराकानी	कथोप- कथन, संलाप	कथा- बार्त्ता, बार्त्तालाप	वारी वताइ शाबा	संबाद, कथाबार्ता, बार्त्तालाप, संलाप, कथोपकथन	संभाषणँ	उरैयाडल्	संभाषणम्	मातुकतं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. खबर, समाचार	संवाद:	संबाद	ख़बर	शेँछ, खबर	समाचारु, ख़बर	बातमी
संवाददाता	पुं.	1. संवाद या समाचार भेजने वाला	संवाददाता	नामानिगार, पत्तर प्रेरक	ख़बर रसाँ	नामुॅ-निगार	समाचारु मोकिलींदंड़ु, संवाददाता	बातमीदार
		2. आजकल वह व्यक्ति, जो समाचारपत्रों में छपने के लिए स्थानिक घटनाओं का विवरण लिखकर भेजता हो (रिपोर्टर)	संवाददाता	–	नामा निगार	शेँछखबर वातनावन वोल	अख़बार जो एविज़ी, ख़ातू	बातमीदार
सँवारना	स. क्रि.	1. सुसज्जित करना, सजाना	अलम् + √कृ	सुआरना	संवारना	पॉरुन, शेरुन सजावुन	संवारणु, सजाइणु	सजविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खबर, समाचार	खबर	खबर, संवाद	खबर, समाचार, संबाद	संबाद, खबर, बातरि	पाओ	संबाद, खबर, समाचार	वार्त, समाचारमु	संय्दि	वार्त्त	समाचार, वरदि
संवाददाता	संवाददातो, बातमीदार	संवाददाता	संबाददाता	संबाददाता, खबर दिओँता, बातरिदिओंता	पाओ पीब मी	सांबादिक, संबाददाता, पत्रकार	वार्ताहरुडु	संय्दि अनुप्पुबबर	पत्र प्रतिनिधि	वरदिगार, सुद्दिगार
रिपोर्टर	रिपोर्टर	समाचार- दाता	रिपोर्टर	संबाददाता	रिपोर्टर, खबरगी पाओ इबा मी	संबाद	विलेखरि	निरुबर् (पत्तिरिगै)	रिपोर्टर्, वार्ता लेखकन्	वरदिगार
सँवारवुं, तैयार थवुं	सजवप	सिँगार्नु, सजाउनु	साजानो, सज्जित करा	सजा, सुसज्जित कर	लैतेङ्बा	सजाइबा, सुसज्जित- करिबा, मंड़ित- करिबा, शोभित- करिबा	अलंकरिंचुट	अलंकरिक्क	अलंक- रिक्कुक	अलंक- रिसुवुदु

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. सुधारना, मरम्मत करना	परि + √कृ	सुआरना	संवारना	–	सुधारणु	सुधारणं
संवाहक	पुं.	एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, सुचालक, वहनक (कॅरियर)	संवाहक	कैरीअर (ढुहाक)	बारबरदार	कंडकटर, चलावन वोल	ढोईंदड़ु, ढोए खणी हलंदड़ु	संवाहक
संविधान	पुं.	राजनीति और शासनतंत्र में कानून के रूप में बने वे मौलिक नियम और सिद्धांत जिनके अनुसार किसी राष्ट्र, राज्य या संस्था का संघटन और संचालन होता है (कान्स्टि्यूशन)	संविधानम्	विधान	दस्तूरे-आसासी (आईन)	ऑयीन, दौंस्तूर	संविधान, जोड़ज़क	संविधान
संवेग	पुं.	मन में होने वाली खलबली, उद्विग्नता, घबराहट, डर	संवेगः	वेग	इज़्तिराब	गबराहट, तलवास	जज़्बो, मानसिक उथल-पुथल	उद्विग्नता, आवेग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सुधारवुं	सुधारप	सुधार्नु, मरम्मत गर्नु	संशोधन करा	शुधरा, मेरामति कर	शेम्जिन-शाजिन्बा	सुधारिबा, संशोधन-करिबा, ठिक-करिबा, मरामति-करिबा	सरिचेयुट, चक्कदि-द्दुट	शीर् पडुत्तु	नन्नाक्कुक	सरिमाडुवुदु
संवाहक	संवाहक, घेवन वतलो	संवाहक	संबाहक	बाहक, कढ़िया-ओँता	पोत पुथोक् पुशिन् तौबा मी	बाहक, बोझिआ	संवाहकुडु	ऍडुत्तु चॅल्बवन्	वाहकन्	ओय्युवव, वाहक, ओळेकार
बंधारण	संविधान, शासनतंत्र	संविधान, शासन-बिधि	संविधान, शासन-तंत्र	संबिधान, शासन-बिधि	संविधान, कान्स्टि-ट्यूशन	संबिधान, शाशनतंत्र, नियमतंत्र,	राज्यांगमु	अरशियल् अमैप्पु , चट्टम्	भरण घटन	संविधान
आवेग, गभराट	संवेग	संवेग, आवेग, उत्तेजना	संबेग, आबेग, उद्बेग, भयजनित त्वरा	उद्विग्नता, भय	पुकनिङ्दा फाओरक्पा इथिल, मीपाइबा, अकिबा	आबेग, उद्दीपना, उद्बिग्नता, अधीर, आग्रहान्वित, इछुक	मनोगति	आत्तिरम्, कलवरम्	आवेशम्	उद्विग्नते

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संवेदना	स्त्री.	1. मन में होने वाला बोध या अनुभूति, अनुभव	संवेदना	संवेदना	एहसास	एहसास	अहसासु	संवेदना
		2. दुख या सहानुभूति प्रकट करने की क्रिया या भाव (कंडोलेंस)	संवेदना	संवेदना, परचाउणी	हमदर्दी (ताज़ीयत)	हमदरदी	हमदर्दी	समवेदना
संशय	पुं.	1. संदेह, शक, अनिश्चय	संशयः	संसा	शक	समशय, शख	शकु	संशय, संदेह
		2. खतरे या संकट की आशंका या संभावना	संशयः	संसा	अंदेशा, ख़द्शा	अंदेशि	खुटिको, गुमानु	आशंका

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संवेदना, भाव, प्रतीति	संवेदना	संवेदन, अनुभव, अनुभूति	संबेदना, बोध, अनुभब, ज्ञान	संबेदना, अनुभूति	पुक्निङ्दा फाओरक्पा इथिल	अनुभब, अनुभुति, संबेदना-बोध, ज्ञान, प्रतीत, बहुदर्शिता	संवेदन	अनुताबम्, उणर्चि	संवेदनम्	संवेदनं, अनुभव
समवेदना	भुजवण	संवेदना	सहानुभूति, प्रबोधदान, समबेदना	समबेदना, सहानुभूति	अवाबा अमदि नुङाइतबा फोङ्दो-क्पगी मओङ्	संबेदना, (सहानुभूति), प्रबोध, शोकप्रकाश-करिबा, दुःख प्रकाश करिबा	सानुभूति	वरुत्तम् तेरिवित्तल्	अनुशोचनम्	सहानुभूति
संशय, संदेह, शक	अविश्वास	संदेह, शङ्का, संशय	संशय, संदेह, अनिश्चिय	संशय, संदेह	चिङ्नबा	संशय, संदेह, अनुमान-करिबा	संशयमु	संदेहम्, ऐयप्पाडु	संशयं	संशय संदेह, शंकं
आशंका	संशय	आशङ्का, संशय	(भविष्यत् संबंधे) भय, आशङ्का	आशंका, संभावना	खुदोङ्थिबा ओइर-क्कदबगी मओङ्	आशंका, भय, संभाबना	संदेहमु	अच्चम्	आशंक	आशंकं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संशोधन	पुं.	1. त्रुटि, दोष आदि दूर करके ठीक और दुरुस्त करना, सुधार	संशोधनम्	सुधाई	तसहीह	सुदार, शेरुन	सुधारो	शुद्धिकरण, सुधारणा
		2. शुद्ध करना या साफ करना	संशोधनम्	सुधाई	तसहीह	शोॅज़रावुन	सोधणु	शुद्ध करणें
संस्करण	पुं.	पुस्तकों आदि की एक बार में एक ही तरह की होने वाली छपाई, आवृत्ति (एडीशन)	संस्करणम्	छाप	एडीशन, बार	शुमारु	छापो	आवृत्ती
संस्कार	पुं.	1. किसी वस्तु को ठीक करके उचित रूप देने की क्रिया, परिष्कार	संस्कार:	संसकार	संस्कार	संस्कार, समसकार	संस्कारु	संस्कार, परिष्कार
		2. पूर्व जन्म के आचार-व्यवहार, पाप-पुण्य आदि का आत्मा पर पड़ा वह प्रभाव, जो मनुष्य के परवर्ती जन्म में उसके कार्यों, प्रवृत्तियों आदि के रूप में प्रकट होता है	संस्कार:	संसकार	–	संस्कार	संस्कारु	संस्कार (पूर्व जन्मीचे)

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संशोधन, शुद्धि, भूलचूक काढी सुधारवुं ते	संशोधन	संशोधन	संशोधन, भुल वा भ्रांति दूरीकरण (न)	संशोधन, संस्कार, शुधरणि, संशोधणि	शेम्दोक्पा, शेम्दोक् शादोक्पा	संशोधन, शुद्धि, भुल बा-भ्रंति-दूरीकरण संस्कार-करिबा	परिष्कृति, सवरणे, चक्क-दिद्दुट	तिरुत्तम्	तिरुत्तुॅ	संशोधनं
शुद्ध करवुं ते, सुधारवुं ते	शुद्ध करप	संशुद्धि	पबित्रीकरण, विशोधन, संस्कार साधन	संस्कार साधन, सुधरणि, संशोधनि	चुम्थोक्पा	शुधारिबा, संशोधन, संस्कार, शुद्ध, पबित्र	मार्जनमु	तिरुत्तल्	शरियाक्क, शुद्धीकरणम्	तिद्दुपडि
संस्करण, आवृत्ति (ग्रंथनी)	संस्करण, आवृत्ती	संस्करण, आवृत्ति	संस्करण, ग्रंथादि प्रकाशन (न)	संस्करण, ताङरण	खुत्लम्	संस्करण, प्रकरण, प्रकाशन	मुद्रणमु, आवृत्ति	पदिप्पु	पतिप्पुॅ, संस्करणम्	संस्करण
संस्कार, शुद्ध करवुं ते, सुधारवुं ते, शणगारवुं ते	परिष्कार	परिष्कार, सुधार, संस्कार	शुद्धि, शोधन/ परिष्कार	संस्कार, शोधन	शेम्दोक शादोक्पा, फजनबा शेमजिन्बा	संस्कार, शुद्धि, शुद्ध	परिष्कृति	शुद्दि-करित्तल्	परिष्करणम्	संस्करणं, परिष्कार
वासनाओं के कर्मोनी मन उपर पडती छाप, पूर्व कर्मोनुं फल	संस्कार	संस्कार	सहजात धारण, जन्मगत ज्ञान प्रवृत्ति व अनुभूति (पूर्वजन्मेर संस्कार) (न)	पूर्बजन्मर संस्कार, जन्मगत ज्ञान	नहाल्मुक की तौजरक्पा थबक्की फल	सहजात-गुण, पूर्ब-जन्मर-प्रभाब, प्रबृत्ति बा-अनुभूति, पूर्ब जन्मर-फल	संस्कारमु	विट्टकुरै	संस्कारम्	संस्कार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. हिंदुओं में जन्म से मरण तक होने वाले वे विशिष्ट धार्मिक कृत्य जो द्विजातियों के लिए विहित हैं	संस्कारः	संसकार	–	संस्कार	संस्कारु	संस्कार (सोळा)
संस्कृति	स्त्री.	आचरणगत परंपरा, सभ्यता (कल्चर)	संस्कृतिः	सभिआचार, संसक्रिती	सक़ाफ़त	सबिता, तमदुन	संस्कृती, सभ्यता, तहज़ीब	संस्कृती
संस्तुति	स्त्री.	1. अच्छी या पूरी तरह से होने वाली तारीफ या स्तुति	संस्तुतिः	सिफारश, उसतत	तारीफ़	मठि-मठि द्युन	साराह, तारीफ़, सिफ़ारिश	स्तुति, प्रशंसा
		2. अनुशंसा, सिफारिश	संस्तुतिः	सिफारश	सिफ़ारिश	सुफॉरिश	सिफ़ारिश	शिफारस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संस्कार, द्वीजोने जन्मथी मरण सुधी करवा पड़ता आवश्यक सोळ विधि	संस्कार	संस्कार	हिंदु धर्मेर दशविध शास्त्रीय अनुष्ठान	संस्कार, परिशोधन, शुचिकरण, मेरामति शरीर संशोधन करा हिँदू शास्त्रोक्त दहबिध-कार्य	पोक्पदगी शिबा फाओबदा लैबा धर्म गी ओइबा संस्कार	हिंदु-धर्मर-दशबिध-शास्त्रीय-अनुष्ठान, संस्कार, क्रिया	संस्कारमु	चडंगु	संस्कारम् (षोडश संस्कारम्), चडङ्ङु	संस्कार
संस्कृति, सभ्यता, सुधारो, सामाजिक प्रगति	संस्कृती	संस्कृति, आचरणगत मूल्य-परम्परा	संस्कृति, सभ्यता-जनित उत्कर्ष, कृष्टि	कृष्टि, संस्कृति, सत्यताजनित उत्कर्ष	संस्कृति, चत्न-लोन्वत्	सामाजिक रीति-नीति, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा	संस्कृति	पण्पाडु, कलाच्चारम्	संस्कारम्	संस्कृति
प्रशंसा, वखाण	संस्तुती	संस्तुति, तारिफ	स्तुति, खुब प्रशंसा	स्तुति, प्रार्थना, गुणानुकीर्तन, तोषामोद	फजना थागत्पा	प्रशंशा, स्तुति, गुणगान, गुण-कीर्त्तन	स्तुति	पुगळ्रै	प्रशंस	होगळुविर्क
भलामण	वसीलो लावप	सिफारिस, अनुमोदन	सुपारिश	अनुमोदन, छुपारिछ	फै हायदुना थागत्पा, रिकमेन्डेशन	सुपारिश, अनुमोदन, प्रशंशा	प्रशंसँ, सिफारसु	पुरिंदुरै, शिपार्शु	शुपार्श	सिफारिश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संस्था	स्त्री.	किसी उद्देश्य के लिए स्थापित संगठन	संस्थाम्	संसथा	अंजुमन	संस्था, उंजमन	संस्था, इदारो	संस्था
संस्थान	पुं.	साहित्य, कला, विज्ञान आदि की उन्नति के लिए स्थापित संस्था या संघटन	संस्थान	संसथान	इदारा	संस्था, इदारु॑	इन्स्टीट्यूट, संस्था	संस्था
संस्थापक	पुं.	1. स्थापित करने वाला	संस्थापक	संसथापक, मोढी	बानी	गॊंड दिनु॑वोल, बॉनी	पायो विझंदड़ु, संस्थापकु	संस्थापक
		2. नए काम या बात का प्रवर्तन करने वाला, प्रवर्तक	संस्थापक	संसथापक, मोढी	बानी	गॊंड दिनु॑वोल बॉनी	–	प्रवर्तक
		3. किसी संस्था, सभा या समाज की पहले-पहल स्थापना करने वाला	संस्थापक	संसथापक	बानी	बॉनीकार	–	संस्थापक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संस्था, मंडल, तंत्र	संस्था	संस्था, सङ्घ, समिति	संस्था, समिति, समाज, प्रतिष्ठान	संस्था, समाज, समिति, संघ	इन्स्टिट्- यूशन, संस्था	संस्था, समिति, प्रतिष्ठान, मंडल, समुह	संस्थ	स्तापनम् निरुवनम्	स्थापनम्	संस्थे
साहित्य कला विज्ञान आदिनी उन्नति माटे संस्थापित संस्था	संस्थान	संस्थान, संगठन, सङ्घ	साहित्य कला विज्ञान इत्यादि उन्नतिकल्पे स्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था	संस्था, संस्थान, जीवनधारनर उपाय, योत्र, अवस्थान	इन्स्टिट्यूट, संस्थान	संस्था, संगठन, प्रतिष्ठान	संस्थ, संस्थानमु	निरुवनम्, इन्स्टिट्यूट्	संघटन, इन्स्टिट्यूट्	संस्थान
संस्थापक, संस्थापन करनार	संस्थापीत	संस्थापक	संस्थापक	संस्थापक, स्थापन- करोंता, पतोंता	लिङ्खत्- पिरंबा मीओइ, हौदो- क्पिरंबा मीओइ	स्थापक, संस्थापक	संस्थापकुडु	स्तापकर, निरुवकर्	स्थापकन्	संस्थापक
प्रवर्त्तक	प्रवर्तक	प्रवर्तक, संस्थापक	प्रबर्तक	प्रबर्त्तक, चलाओंता	लम्यान्बा	प्रबर्त्तक, संस्थापक	प्रारंभकुडु	पुदिय वेलैये, तोडंगुबवर्	स्थापकन्, प्रवर्त्कव्	प्रवर्तक
प्रथम स्थापक	संस्थापक	संस्थापक	प्रथम संस्थापन- कारी	प्रतिष्ठाता, संस्थापन- कारी	हौदोक्पि- रंबा मीओइ	संस्थापक, प्रतिष्ठाता, संस्थापना- कारी	स्थापकुडु	निरुवनत्तै आरंबि- प्पवर्	स्थापकन्	स्थापक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
संस्मरण	पुं.	1. किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाओं या बातों का उल्लेख या कथन	संस्मरणम्	संसमरण (यादां)	तज़्किरा	यादावॉरी	यादगीरियूं	संस्मरण
		2. इष्ट देव आदि का बार-बार स्मरण करना या उनका नाम जपना	स्मरणम्	सिमरन	विर्द	सुमरन	स्मरणु	नामस्मरण
संहार	पुं.	1. ध्वंस, नाश	संहारः	संघार	तबाही, ग़ारतगरी	नाश, समहार	नाशु/नासु	ध्वंस, नाश
		2. बहुत से व्यक्तियों की युद्ध आदि में एक साथ होने वाली हत्या	संहारः	संघार	क़त्ले आम	कतलि आम	जंग वग़ैरह में घणनि माण्हुनि जी हत्या, क़त्ले आम	संहार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संस्मरण	संस्मरण	संस्मरण	स्मारक, जीबनेर स्मरण योग्य घटनार उल्लेख वा कथन (ज)	सौँवरण, सौँवरणि, स्मृतिलेख	संस्मरण, कनागुंबा अफाओबा नुपा अमगी मरुओइबा थौदोक्, अमदि वाफम पंदुना इबा साहित्यगी मखल अमा	स्मरण, स्मृति-उल्लेख, कथन	संस्मृति	निनैवुक्कुरि-प्पुगळ्	अनुस्मरणम्	संस्मरणं, नेनपुगळ-संग्रह
वारंवार स्मरण करवुं ते	नामस्मण	संस्मृति, नामजपाइ, जपन	स्मृति चारण, सर्वक्षण ईश्वर-स्मरण, नामजप (ज)	स्मरण, सौँवरण, सोंवरा	लाइ शोन्बा	स्मरण, नाम-जपिबा, स्तुति, गुणगान	स्मरणमु	नामजपम् चेय्दल्	इष्ट-स्मरणम्, नाम स्मरणम्	जप स्मरणं
संहार, ध्वंस, विनाश	संहार	नाश, ध्वंस	ध्वंस, बिनाश	संहार, नाश, ध्वंस, बधकर	माङ्हन्बा	संहार, नाश, नष्ट, बिनाश, ध्वस्त-बिध्वस्त	संहारमु	अळित्तल्	संहारम्	ध्वंस
नाश, कतल, उच्छेद, वध	नाश	संहार, काटमार	गण हत्या, संहार	संहार, सामूहिक हत्याकांड, ध्वंस	मीयाम हात्पा	संहार, हत्या, बध, हत्याकांड, समुह हत्या	संहारमु	पडुकॊलै	कूट्टक्कॊल	संहार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सकपकाना	अ.क्रि.	1. चौंकना, चकित होना	सम् + √भ्रम्	भौंतरना, भभत्तरना	हैरान होना	हॉरान सपदुन	अजब में पवणु	चकितहोणें
		2. घबराना (लज्जा आदि के कारण)	उद् + √विज्	–	बौखलाना	गाबरुन, थाँथरुन	घबुराइजणु	घाबरणे
सख्त	वि.	1. कठोर, कड़ा	कठोर	सखत	सख़्त	सखुॅत	सख़्त	कठोर, कडक
		2 कठिन, मुश्किल	कठिन	सखत	मुश्किल	कठ्युन	कठिन	कठीण, अवघड
सघन	वि.	घना, अविरल, ठोस	घन	संघणा, घणा, गाढ़ा	घना	गॉन	घाटो, ठोस	निविड, दाट, भरीव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अचरज पामवुं	थतर वितर जावप	चकित हुनु, विस्मित हुनु	चमत्कृत हओया, चमक	आचरित ह	ङक्पा, खङ्बा	चकित- हेबा, चमत्कृत, आश्चर्य, बिस्मित, बिस्मय	उलिकिपडुट	तिगैप्पडैय	ञट्टुक	आश्चर्य- पडुवुदु
शरमावुं	भियेवप	डराउनु, कहालिनु	लज्जा, संकोच	लाजत, संकोचकर	मीपाइबा	घाबरेइबा, लाज बा- संकोच- करिबा	गाबरा- चंदुट	कलवरप्पड	परिभ्र- मिक्कुक	अंजुवुदु
सखत, कठोर, कड़क	कठोर	कठोर, कडा	शक्त, कठोर, कड़ा	कठोर, टान	अकन्बा	शक्त, कठोर, टाण, कड़ा, निष्ठुर	गट्टि	कडुमैयान	कठोरम्, कट्टियाय, कटुत्त	गट्टि
कठिन, मुश्केल	कठीण	गाह्रो, मुस्किल, सख्त	कठिन, मुशकिल	कठिन, टान	अरूबा	टाण, कठिन, कष्टसाध्य, दु:साध्य, दुरुह	कठिनमैन	कडिनमान	कठिनम्	कठिण, कष्टवाद
सघन, घन, गाढ,	दाट	बाक्लो, घना, सघन	गाढ, अबिरल, घन	सघने, अनबरत बारे-बारे घटा, मेघयुक्त डावरीया	अनङ्बा, अशुक्पा, अकन्बा	अंतरंग, संपर्कीय, सघन, घन, गाढ़, अबिरल, निकट	सघनमैन, सांद्रमैन	अडर्तियान	इटतूर्न्न	दट्टवाद, गट्टियाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सचमुच	क्रि.वि.	1. यथार्थतः, वास्तव में	वस्तुतः	सचमुच	वाक़ई	पॅज़्य पॉठ्य	सचुपचु	वास्तविक
		2. निश्चित रूप से, अवश्य	अवश्यम्	सचमुच	यक़ीनन	पॅज़्य पॉठ्य	–	अवश्य, खरोखर
सच्चरित्र	वि.	जिसका चरित्र अच्छा हो, सदाचारी	सच्चरित्र, सदाचारिन्	सदाचारी	रास्तकिरदार	रुत चाल-चलन वोल	चरित्रवान, सुठे चरितरवारो	सदाचारी, सच्चरित्र
सच्चा	वि.	1. सच बोलने वाला, सत्यवादी	सत्यवादिन्	सच्चा	सच्चा	पॊज़	सचो	खरा, सच्चा, सत्यवादी
		2. ईमानदार	विश्वसनीय	सच्चा	ईमानदार	ईमानदार	ईमानदारु	प्रामाणिक
		3. जो नकली या बनावटी न हो, बल्कि असली और वास्तविक हो, जिसमें खोट न हो	प्रामाणिक	सच्चा	खरा	शॊंद	खरो	अस्सल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
खरेखर, निश्चित-रूपे	खरेंच	वास्तवमा, सही अर्थमा	सत्यि, यथार्थ, वास्तविक (ज)	यथार्थते, आचलते, प्रकृत	तशेङ्ना	जथार्थ, समुचित, बास्तबिक, निश्चित भाबरे	निज़मुगा	उण्मै-यागवे	वास्तवत्तिल्	निजवागि
अवश्य, जरूर	निश्चित	यथार्थत:, अवश्यनै, निश्चयनै	निश्चित भाबे, अबश्य	अवश्ये, निश्चय	अओइबमक, शोयदना	अबश्य, निश्चित-रूपरे	निखरमुगा	कट्टायमाग	तीर्च्चयायुम्	खंडितवागि, निश्चयवागि
चरित्रवान, सदाचारी	चरित्रवान	सदाचारी, चरित्रवान्, सच्चरित्र	सच्चरित्र, सदाचारी	चरित्रवान, सदाचारी, सत	फजबा लिचत् चत्पा	सच्चरित्र, सदाचारी, चरित्रबान	शीलवंतुडु, शीलवति	नन्नड-त्तैयुळ्ळ	सत्स्वभावि, सदाचार - शीलन्	सदाचारि
साचुं, सत्यवादी	सत्यवादी	साँचो, सत्यवादी	सत्यबादी	सत्यवादी, सँचाकथीया	अशेङ्बा, अचुंबा	सच्चा, साधु, सत्यवादी	सत्यवादि	उण्मैयान	सत्यवादि	सत्यवादि
प्रामाणिक	इमानदार	इमानदार, चोखो, सच्चा	विश्वासी, इमानदार	बिश्वासी, बिश्वस्त	पुक्चेल शेङ्बा	बिश्वासी, बिश्वस्त, बिश्वास-जोग्य	निजायि-तीगलॆ	योग्गियमान	सत्यसंधन्	विश्वास योग्य
असली, वास्तविक	उजू	सही, असली	आसल, साच्चा, विशुद्ध, खाँटि, अकृत्रिम	खाँटि, प्रकृत	अशेङ्बा	खाँटि, शुद्ध, बास्तबिक, असल, बिशुद्ध, प्रकृत, अकृत्रिम, असलि	सिसलयिनॆ	असलान	यथार्थमाय, कळ्ळ-मिल्लात्त	निजवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सजनी	स्त्री.	1. सखी, सहेली	सखी	सहेली, सजनी	सहेली	व्यस	सजनी, सहेली	सखी, साजणी
		2. प्रेमिका	सहचरी, प्रेयसी	–	महबूबा	लोलुॅ मॅच़	प्रेमिका	प्रेयसी
सजा	स्त्री.	अपराधी को दिया जाने वाला दंड	दण्ड:	सज़ा	सज़ा	सज़ा	सज़ा	शिक्षा
सजाना	स.क्रि.	1. वस्तुओं को ऐसे क्रम से रखना कि वे आकर्षक और सुंदर जान पड़ें, सँवारना	अलम् + √कृ	सजाउणा	सजाना	सजावुन	सजाइणु, संवारणु	सजविणें
		2. अलंकृत करना	अलम् + /कृ	सजावट	सजावट	सजावठ	सजावट	सजावट, शोभा, अलंकृत करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वेनपणी, सखी, सहेली	सजणी	सखी, सजनी	सखी, सहचरी	सखि, बांधबी	इता, इमान्नबी	सजनी, सखी, सहचरी, बांधबी, संगिनि	सखि, चॅलिकत्तॆ	तोळि	सखि, तोळि	सखि, गॆळति
प्रिया	मोगिका	मायालु, प्रेमिका	प्रेमिका, प्रणयिनी	प्रेमिका, प्रिया	नुङ्शि-थोइबी	प्रेमिका, प्रिया, प्रेयसी	प्रेयसि	कादलि	कामुकि, प्रेयसि	प्रॆयसि
सजा, दंड, शिक्षा	शिक्षा	सजाय	दण्ड, साजा	शास्ति, चाजा, दंड	दंडी	सज़ा, दंड, शास्ति	शिक्ष, दण्डनॆ	दंडनै	शिक्ष	शिक्षॆ
सजवुं	सजवप	सजाउनु	साजानो, सुश्रृंखल भावे, विन्यस्त करा	स़जा, शुवनीकै-राख, आयोजन	लैतेङ्बा	सजाइबा, शोभित-करिबा, मंड़ित-करिबा	अमर्चुटॆ	पॊरुळ्गळै अऴगाग वैत्तल्	अटुक्कि वय्क्कुक	सरिपडि-सुवुदु
शणगारवुं	अलंकृत करप	सजिसजाउ गर्नु, सिँगार्नु	साजानो, अलंकृत करा	साज, सजा, उत्तम-रुपरेखा	शेम्शाबा	विभूषित-करिबा, अलंकृत-करिबा, सजाइबा, शोभित-करिबा	अलंकरिंचुटॆ	अलंकरिक्क	अलंक-रिक्कुक	अलंकरि-सुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सजावट	स्त्री.	सजे हुए होने की अवस्था, क्रिया या भाव, शोभा	अलङ्कारः	सजावट	सजावट, आराइश	सजावठ	सजावट	सजावट, शोभा
सजीव	वि.	1. जीवयुक्त, जिसमें प्राण हो	सजीव	जिउंदा-जागदा, सजीव	ज़ीरूह, जानदार	जुवदार	जानदार	सजीव, जिवंत
		2. तेज, फुरतीला	सक्रिय	चुसत	जोशीला	वुछ्यदार	चुस्त	सक्रिय, तत्पर
सज्जन	वि./पुं.	भला आदमी, सत्पुरुष, शरीफ	सज्जनः	सज्जण	शरीफ़	रुत महो'हन्युव, रुत इन्सान	सजणु, शरीफ़ माण्हू	सज्जन
सज्जा	स्त्री.	साज-सामान	सज्जा	साज-समान	साज़ो-सामान	साजु-सामान	साजु-सामानु	साज सरंजाम

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सजावट, शोभा, सजवुं ते शणगार करवां ते	सोबीत-करप	सजावट, सजधज, सजिसजा-उपना	साज, साज-सज्जा, साजगोज	शोभा, साजन-काचन	लैतेङ्, निङ्थिजबा	साजसज्जा, सजहेबा, शोभा	अलंकरण	अलंकारम्	अलंकारम्	शोभे, अलंकरि-सुविर्क
सजीव, जीववाळुं, जीवतुं	जीवंत	सजीव, जीव, प्राणयुक्त, शरीरधारी	जीवंत, जियंत, जीवित	सजीव, जीवंत, जीया	अहिङ्बा	सजीब, जीबंत, जीबित	सजीवमैन	उयिरुळ्ळ	सजीवमाय, जीवनुळ्ळ	जीववुळ्ळ
जीवंत, प्राणवान	दिप्ती	तेज, फुर्तिलो	चटपटे, कर्मतत्पर, सक्रिय	सजीव, सक्रिय, चैतन्य	अहिङबा	सजिब, सक्रिय, कर्मतत्पर, जीबंत	तेजोवंतमैन	शुरु शुरुप्पान	शक्तियुळ्ळ, वेगतयुळ्ळ	चुरुकाद
सज्जन, सभ्य	सज्जन	भलादमी, सज्जन	साधु व्यक्ति, सत लोक, सज्जन	सज्जन, सतलोक, भाल-मानुह	लैबाक् मचा ताबा, अफबा	सज्जन, साधु, सतलोक	सत्पुरुषुडु, सज्जनुडु	नल्लवर्, शान्रोर्	सज्जनम्, कुलीनन्	सज्जन
साज-सामान	साज सजोवप	सर-सामान, मालमत्ता	साज-सरञ्जाम, सज्जा	साज-सरंजाम	लैतेङ्गी पोत्लुम्	साज-सरञ्जाम	परिकरमुलु	दळवाडम्, सादनंगळ्	अलंकरण वस्तु	शृंगार-सामग्रि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सटीक	वि.	1. जिस में मूल के साथ टीका भी हो, व्याख्या सहित, टीका सहित	सटीक	सटीक	मुशर्रह, मुहश्शा	व्यछ़नयदार, वखनय दार	टीका सां	सटीक
		2. बिलकुल ठीक, उपयुक्त	उपयुक्त, योग्य	–	बजा (बरमहल)	सही	सही, ठीक	उपयुक्त, योग्य
सड़क	स्त्री.	मार्ग, रास्ता, पथ	सरणिः	सड़क	सड़क	सडख	सड़क, रस्तो	सडक, रास्ता
सड़ना	अ. क्रि.	किसी वस्तु के संयोजक तत्वों का विकृत हो जाना	अव + √सो, वि + गल् √क्षि	सड़ना	सड़ना	सड्डुन	किनो थियणु	सडणें, नासणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सटीक, टीका वाळुं, टीका सहित (पुस्तक)	सटीक	सटीक	व्याख्या युक्त, टीका-युक्त	सटीक, टीकायुक्त	अर्थगा कोन्नना फोङ्बा लाइरिक्	सठिक, उपजुक्त, निर्भुल	टीका-सहितमु	विळक्क उरैयुडन् कूडिय	सव्याख्यानम्	टीकॆयुळ्ळ, सटीक
एकदम ठीक, योग्य	उपेगी, योग्य	उपयुक्त, सही	संपूर्ण ठिक, निर्मुल (न), यथार्थ	उपयुक्त, ठिक, निर्भुल, यथार्थ, सठिक	मतिक्चाबा, अचुम्बा	उपजुक्त, ठिक, निर्भूल, जथार्थ, जोग्य	सरिअयिन	मुट्टिलुम् सरियान	शरियाय	सरियाद
सड़क, मार्ग, पाको रस्तो, पथ	रस्तो	सडक	सड़क, रास्ता, पथ	रास्ता, पथ, बाट, आली	सोरोक, लंबी	सड़क, पथ, बाट, मार्ग, रास्ता	दारि, रहदारि	शालै, वीदि	मार्गम्, वऴि रोड्डु	रस्तॆ, दारि, मार्ग
सडवुं, कोही जवुं साव-बगड़बुं, भ्रष्ट थवुं	कुसप	कुहुनु, सड्नु	पचा, गलिया याओया (ज)	गेला, पचा, बिकृत	पुम्थरक्पा	पचिबा, नष्ट-होइजिबा	कुळ्ळुट	अळुग, नशितुप्पोग	अळियुक, चीयुक	होगुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सतत	क्रि. वि.	1. निरंतर, बराबर, लगातार	सततम्	हमेशा	हमेशा	लगातार	लगातार	निरंतर, नेहमी, सतत
		2. सदा, हमेशा	सततम्	हमेशा	हमेशा	–	सदाईं	सदा, सर्वदा
सतर्क	वि.	सचेत, सावधान, सजग, होशियार	सावधान	सावधान	होशियार, चौकस	हुशियार	सचेत, सावधान	सतर्क, सावध
सतर्कता	स्त्री.	सावधानी, होशियारी, सजगता	सावधानता	सावधानी	होशियारी, चौकसी	हुशारी	सावधानी	सावधगिरी
सत्कार	पुं.	1. आदर-सम्मान	सत्कारः	सतकार	ताज़ीम	यज़थ	सत्कारु, इज़्ज़त	आदर सत्कार

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सतत, लगातार	सतत	लगातार, अटुट	निरंतर, सतत	सतते, साधारणत	लेप्तना	सतत, सर्बदा, निरंतर, सबु-समयरे, लगातार, क्रमागत-भाबरे	सततमु, निरंतरमु	इडैविडादु	निरंतरम्, तुटर्च्चयाय	निरंतर, वंदसमर्न
निरंतर, हंमेशां, चालुं	केन्नाय	सदैव, सधैँभरि	सर्बदा	सदाय, साधारणत	मतम लैबा खिबिक्ता	सर्बदा, निरंतर	सततमु, एल्लप्पुडु	एप्पोळुदुम्, सदा	एप्पोळुम्	यावागलू
सतर्क सावधान, सजग, होशियार	सावध	सचेत, सतर्क	साबधान, अबहित, सतर्क, सचेतन, हुँशियार	सतर्क, सावधान, सजाग	चेक्शिन्बा हैशिङ्बा	सतर्क, साबधान, सजाग	अप्रमत्तमैन, मेलकुवगल	जागिर-दैयान, विळिप्पान	श्रद्धयोटुकूटि, जाग्रतयुळ्ळ	एच्चरि-केयुळ्ळ
सावधानी, सजगता, होशियारी	सावधगिरी	सावधानी, सतर्कता	साबधानता, सतर्कता, हुँशियार	सतर्कता, सावधानता	चेक्शिन्बा हैशिङ्बा	सतर्कता, साबधानता, सजागता	अप्रमत्तत, मेलकुव	एच्चरिक्कै, विळिप्पु	जाग्रत, उणर्वु	जागरूकत, एच्चरिक
सत्कार, आदरमान, स्वागत	समादर, सम्मान	मान-सत्कार	समादर, सम्मान	मान-सत्कार	इकाइ-खुम्नबा	सत्कार, सम्मान, आदर, स्वागत	सत्कारमु	उपचारम्, उपचरिप्पु	बहुमानम्	मर्याद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. आवभगत, आतिथ्य, खातिर	आतिथ्यम्	सतकार	तवाज़ो, ख़ातिरदारी	पॅछ्यलॉज़	सत्कारु, ख़ातिरदारी	स्वागत, आदरातिथ्य
सत्ता	स्त्री.	1. होने का भाव, अस्तित्व, हस्ती	सत्ता	सत्ता	वुजूद	हॅस्ती, वॊजूद	ताक़त	अस्तित्व, सत्ता, अधिकार
		2. अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य	सत्ता	सत्ता, शक्ती	हुकूमत	–	इख़्तदारु	सत्ता
सत्तू	पुं.	भुने हुए जौ, चने आदि का आटा या चूर्ण	सक्तुः	सत्तू	सत्तू	सॊंत	भुञ्यल चणनि, जवनि वग़ैरह जो अटो, सतू	सातूचेंपीठ
सत्यनिष्ठा	स्त्री.	सत्य पर निष्ठा, सत्य में विश्वास, सच या वास्तविक से प्रेम	सत्यनिष्ठा	विशवास, सच ते विशवास	सदाक़तकशी	पज़रॅच-पछ़	सचाईअ में विश्वासु	सत्यनिष्ठा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
आतिथ्य, खातर बरदास्त	स्वागत	आदरभाउ, मानभाउ	सेबा, आतिथ्य, अतिथि-सत्कार	आतिथ्य, अतिथि-सत्कार, सम्मान, समादर	हराओ तयाम्ना ओक्पा सेवा नुङ्बा तौबा	आतिथ्य, सेबा, अतिथि-सत्कार	मर्यादॆ	विरुंदोंबल्	सत्कारम्	उपचार
सत्ता, अस्तित्व, हस्ती	अस्तित्व	अस्तित्<u>व</u>, सत्ता	अस्तित्व, विद्यमानता	अस्तित्व, उपस्थिति, विद्यमानता	लैबगी मओङ्	सत्ता, अस्तित्व	अस्तित्वमु	इरुप्पुनिलै	अस्तित्वम्	अस्तित्व, इरुविर्के
अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, हक्क	सत्ता	अधिकार, शक्ति-सामार्थ्य	सत्ता	अधिकार, शक्ति-सामर्थ्य, सत्ता	शक्ति, तौबा ङम्बा	अधिकार, हक, शक्ति, शौर्ज, सामर्थ्य	शक्ति	अदिकारम्, शक्ति	अधिकारम्	अधिकार, सामर्थ्य
सत्तु, सक्तु, साथवो	सत्व	सत्तू, सातु, सतुवा	छातु	छातुगुरि	अङौबा जौ, चनानचि-ङबगी मकुप्	छतुआ	पेलपिंडि	सत्तु, मावु	मलरपॉटि	हुरिद कडले, गोधिय, हिट्टु, तंबिट्टु
सत्यनिष्ठा	सत्य निश्ठा	सत्य-निष्ठा	सत्या-नुराग, सत्यनिष्ठा, सत्य-परायणता (न)	सत्यनिष्ठा, सत्य-परायणता	अशेङ्बदा थाजबा	सत्यनिष्ठा, सत्य-परायणता, सत्यानुराग	निजाइती, निष्ठॆ	वाय्मै तवरामै, उण्मै उरुदि	सत्यनिष्ठ	सत्यनिष्ठ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सत्याग्रह	पुं.	1. सत्य का पालन और रक्षा करने के लिए किया जाने वाला आग्रह या हठ	सत्याग्रहः	सतिआग्रहि	मुक़ावमत	सत्याग्रह	सत्याग्रहु	सत्याचा आग्रह
		2. आधुनिक राजनीति में वह अहिंसात्मक कार्रवाई, जो किसी सत्ता या अधिकारी के व्यवहार आदि के प्रति असंतोष प्रकट करने के लिए की जाती है	सत्याग्रहः	सतिआग्रहि	मुक़ावमत	सत्याग्रह	सत्याग्रहु	सत्याचा आग्रह
सत्यापन	पुं.	जाँच या मिलान करके देखना कि ज्यों-का-त्यों और ठीक है कि नहीं	सत्यापनम्	तसदीक	तस्दीक़	तसदीख	तस्दीक़	परीक्षण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सत्याग्रह, सत्य-पालननो आग्रह, ते माटे लडातुं अहिंसक युद्ध	सत्याग्रह	सत्याग्रह	न्याय-सङ्गत अधिकार, प्रतिष्ठार जन्य दृढ़ प्रतिज्ञा (गाँ),	सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा, दृढ़-प्रतिज्ञा-कारणे गंभीर आग्रह	सत्याग्रह, अचुम्बा ङाक्न-बगीदमक् तक्नबा	सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा	सत्यसंधत	सत्तिया-गिरहम्, उण्मैयै-कडैप्पि-डित्तल	सत्याग्रहम्	सत्याग्रह
सविनय कानून भंग	सत्याग्रह	सत्याग्रह	सत्याग्रह, धर्मघट, सत्यरक्षार जन्य निष्क्रिय प्रतिरोध	सत्याग्रह, प्रोतिरोध, न्याय प्रतिष्ठार कारणे गंभीर आग्रह	अहिंसादा युंफम् ओइबा आंदोलन अचुम-अरान येङ्बा चाङ्येङ्	सत्याग्रह, धर्मघट	सत्याग्रहमु	सातुविकप् पोराट्टम्	सत्याग्रहम्	सत्याग्रह
खराई	परिक्षण	रुजू, सत्यापन	याचाइ	परीक्षण, परीक्षा, सत्यबुलि-प्रतिपादन-करा	अचुम-चुमदा येङ्बा, अचुम-अराल् येङ्बा	परीख्यण, परीख्या (परीक्षा)	सरिचूचुट, वेरिफ़िकेशनु	सरिपार्त्तल्, ओप्पाय्व्‌वु	प्रमाणीकरणम्, ओतुनोक्कुक, सत्यापनम्	परीक्षिसुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सत्रावसान	पुं.	विधान मंडल या विश्वविद्यालय आदि में दीर्घकाल के लिए किया जाने वाला स्थगन	सत्रावसानम्	कारज-सथगन	इल्तिवा	मुलतॅवी	बरख़्वास्तिगी, अधिवेशन जी वड्डे मुदे ताईं समाप्ती	सत्राची अथवा अधिवेशनाची समाप्ती
सत्संग	पुं.	1. अच्छे आदमियों का साथ, अच्छी सोहबत, सज्जनों के साथ उठना-बैठना	सत्संगः	सतसंग	सुहबते सालेह	सथसंग	सत्संगु	सत्संग
		2. वह समाज या जन-समूह, जिसमें कथावार्ता या भगवत् पाठ होता है	सङ्गतिः, समागमः	सतसंग	वाइज़	–	–	भक्त मंडळी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सत्र-समाप्ति	सत्र सोंपप	सत्रावसान, सत्रांत	विधान सभा वा संसदेर अधिवेशन भेङगें ना दिए किछुकालेर जन्य स्थगित राखा, मुलतबि राखा	अधिबेशन समाप्ति, समापन, सत्र-समाप्ति	मीफम् यैथोक्पा	अधिबेशन-समाप्ति-बा शेष	सभा-समाप्ति, प्रोरॉगेशन	कूट्ट-त्तोर्तॉडरिन् निरै्वु	सम्मेळनम् अवसानिप्पि-क्कल्	अधिवेशन-वन्नु-मुंदक्के-हाकुवुदु
सत्संग, संत के सज्जननी सोबत	सत्संग	सत्सङ्ग	सुसंग, सत्संसर्ग, सत्संग	सत्संग, साधु, धार्मिक-सज्जनलोकर साहचर्य	संग अफबा	सत्संग, साधु, सुजन-मानंक-सहित-बसाउठा-करिबा	सत्सांगत्यमु	नल्लोर् चेर्क्कै	सत्संगम्	सज्जनर-सहवास, सत्संग, वळळेय जनर गेळेतन
सत्संग मंडल	भक्त मंडळी	भजन-मण्डली, भजनियाँ, भजने	साधु संग, सत्संग	सत्संग, भक्तर-संग सतलोकर साहचर्य	सत्संग	सत्संग, साधुबर्ग	संकीर्तन्न, सत्काल-क्षेपमु	कताकाल-क्षेपम्, भजनै गोष्ठि	भक्तमंडलि	भक्त-मंडलि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सदन	पुं.	1. घर, मकान	सदनम्	घॅर	घर, मकान	गरुॅ, मकान	घरु, सदनु	सदन, घर
		2. वह स्थान, जहाँ किसी देश या राज्य के विधान बनने के कार्य होते हों	सदनम्	सदन	ऐवान	असंबली	उहा जगॣह जिते राॼ जा क़ानून ठहनि	संसद सदन
सदस्य	पुं.	1. उन व्यक्तियों में से हर एक, जिनके योग से कुटुंब, परिवार, समाज आदि बनते हैं	सदस्य	मैंबर, सदस्स	फ़र्द	म्यंबर	मेंबरु	सदस्य
		2. वह व्यक्ति, जिसका संबंध किसी समुदाय से हो और जिसका वह नियमित रूप से चंदा आदि देता हो या उसके कार्यों में सम्मिलित होता हो	सदस्य	मैंबर, सदस्स	रुक्न	म्यंबर	सदस्य	सभासद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सदन, घर, मकान, रहेठाण	घर	घर, भवन, सदन	गृह, सदन, घर	सदन, घर, बासगृह	युम	सदन, गृह, घर	सदनमु	वीडु, माळिगै	वीटॅु	मर्न
संसद सदन	सदन	सदन	आइन सभा, ब्यबस्थापक सभा	सभा, सदन, संसद. विधान-सभा वा लोक सभा अनुष्ठित होवा घर	आइन सभा	सभा, सदन, संसद	सदनमु	अवै, मन्रम्	सभामण्डपम्, असेंब्लि-मंदिरम्	सदन
सदस्य, सभ्य, सभासद	सदस्य	सदस्य	अनुष्ठान प्रभृतिर सभ्य, सदस्य, सभासद	सदस्य, कोनोप्रतिष्ठानर अंतमुक्ति होवा	मेंबर	सदस्य, सभ्य, सभासद	सभ्युडु	उरुप्पिनर्, अंगत्तिनर्	अंगम्	सदस्य
सभ्य	सभासद	सदस्य	सभ्य, सदस्य	सभ्य, सदस्य, भद्र, विशिष्ट व्यक्ति	मेंबर	सभ्य, सदस्य, सभासद	सभ्युडु	उरुप्पिनर्, अंगत्तिनर्	अंगम्, मेंबर्	सदस्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सदा	क्रि. वि.	1. नित्य, हमेशा, हर समय	सदा	सदा, हमेशा	सदा	हमेशुँ	सदा, सदाईं	सदा, सर्वदा, नेहमी
		2. निरंतर, लगातार	अनवरतम्, सदा	हमेशा	लगातार	लगातार	लगातार	सारखे, निरंतर
सदाचार	पुं.	अच्छा और शुभ आचरण, अच्छा चालचलन	सदाचारः	सदाचार	नेकचलनी	रुत-चालु-चलन	सदाचारु	सदाचार, सदाचरण
सदुपयोग	पुं.	अच्छा और उत्तम उपयोग	सदुपयोगः	सुवरतों	सहीह इस्तेमाल	रुत-इस्तिमाल	सही उपयोगु	सदुपयोग
सद्भाव	पुं.	1. शुभ भाव, हित का भाव, छल कपट, द्वेष आदि से रहित भाव	सद्भावः	सदभाव	नेकनियती, खुलूस	नेक-नियती, रुत-कांछुन	सुठी भावना	सद्भाव

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सदा, नित्य, हंमेशां	सदा	सधैँभरि, नित्, सदा	सदा, सर्वदा, नित्य, सकल-समये	सदाय, नितौ, प्रतिदिने, सदा-सर्वदा	नुङ्तिगी	सदा-सर्बदा, नित्य, सबु-समयरे	सदा, एल्लप्पुडु	एप्पोपोळ्दुम्	सदा, एप्पोळुम्	यावागलू
निरंतर, लगातार	निरंतर	लगातार, निरंतर	निरंतर, सतत, चिरकाल	अनबरत्, निरंतर	तत्तना, लेप्तना	अनवरत, निरंतर, चिरकाल, लगातार, सतत	एडतेगकुंडा	इडैविडादु	निरंतरम्	निरंतर, ओदेसमने
सदाचार, सदाचरण	सदाचार	असल चालचलन, सद्व्यवहार, सदाचार	सदाचार, शास्त्र-विहित वा साधु आचरण (न)	सदाचार, सज-आचरण	लम्चत् नाइबा	सदाचार-जुक्त चालि-चलन, साधु-आचरण बा-ब्यबहार	सदाचारमु, सत्प्रवर्तन	नन्नडत्तै	सदाचारम्	सदाचार, सन्नडते
सदुपयोग	सदुपयोग	सदुपयोग	सदुपयोग	सद्ब्यवहार	फजवा अमदि निङ्थिना, अफबदा शिजिन्नबा	सदुपयोग	सदुपयोगमु	नल्ल उपयोगम्	सदुपयोगम्	सदुपयोग
सद्भाव	सद्भाव	सद्भाव	सद्भाव, शुभ ओ निष्कपट भाव	सदभाव	अफबा भाव	सद्भाब	सद्भावमु	नल्लॅण्णम्	सद्भावम्	ओळ्ळेय, भावने, सद्भावने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. दो व्यक्तियों या पक्षों में होने वाली मैत्रीपूर्ण स्थिति	सद्भावः	सदभाव	इख़्लास	शो'ज़र	मित्रता जी भावना	सौहार्द
सद्व्यवहार	पुं.	1. अच्छा बरताव, अच्छा सलूक या व्यवहार	सद्व्यवहारः	चंगा विहार	खुश अख़्लाक़ी	रुत व्यवहार	सुठो वहिंवारु	सद्व्यवहार
		2. सद्वृत्ति, सदाचार	सद्वृत्तिः, सदाचारः	सदाचार	खुश मिज़ाज	–	सदाचार	सदाचार
सन्नाटा	पुं.	निस्तब्धता, नीरवता	शान्तिः	सन्नाटा	सन्नाटा	शिन्याह फ़ॊख	सनाटो, ख़ामोशी	नीरवता, निस्तब्धता, शांति
सपना (स्वप्न)	पुं.	वह घटना या दृश्य, जो सोए होने पर अंतर्मन में काल्पनिक रूप में भासित होता है	स्वप्नः	सुफना, सुपना	ख़्वाब	सॊपुन	सपनो, ख़्वाबु	स्वप्न

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सौहार्द	मैत्री	स्नेहभाव, सौहार्द्	सौहार्द, बंधुभाब	प्रीति, मैत्री, मिल, बंधुत्व, आंतरिकता	चान्नबा, तिन्नबा	प्रीति, मैत्री, बंधुभाब, सौहार्दपुर्ण, आदर, स्नेह	सद्भावमु, स्नेहमु	सिनेहम्	सौमनस्यम्, सौहृदम्	स्नेहभाव, गेळेतन
सद्-व्यवहार	सद्व्यवहार	सद्व्यवहार	उत्तम वा भद्र ब्यबहार, शिष्टाचार	सद्ब्यवहार, बंधुत्व, सज-व्यवहार	फजना लोइनबा	उत्तम बा-भद्र-व्यबहार, सद्ब्यबहार, शिष्टाचार	सत्प्रवर्तनं	नल्लोळु-क्कम्	सद्-व्यवहारम्	ओळ्ळे व्यवहार, उत्तम व्यवहार
सदाचार	सदाचार	सदाचार	सदाचार, सदुद्देश्य एवं ठिकमतो प्रयोग	सदाचार, सदबृत्ति, आत्मीयता	अफबा लिचत्	सदाचार, सदबृत्ति	सत्प्रवर्तनं	नन्नडत्तै	नल्ल नटपटि	सदाचार, वळ्ळे आचरणे
नि:स्तब्धता, नीरवता, शून्यता	थंडाय, किण्ण	चकमन्याइँ, निस्तुब्धता	निस्तब्धता, निरबता, शांति	निस्तब्धता, नीरवता, शांति	अचिक्पा	चुपचाप, निस्तब्धता, नीरबता, शांति, मौन	नि:शब्दमु	अमैदि	निश्शब्दत	नीरवतं, निस्तब्ध, शांत
स्वप्न, सपनुं	सपन	सपना	स्वप्न, स्वपन (स)	सपोन, स्वप्न	मङ्	स्वप्न, सपन	कलं, स्वप्नमु	कनवु	स्वप्नम्	कनसु, स्वप्न

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सपरिवार	वि.	परिवार के सदस्यों के साथ	सपरिवार, सपरिवारम्	सणे परिवार	मै अह्लेख़ाना	अयालुँ सान परिवारुँ सान	कुटुंब समेत	सपरिवार, सहकुटुंब
सप्तक	पुं.	1. सात वस्तुओं का समूह	सप्तक	सपतक	मुसब्बा	सफतक	सतनि शयुनि जो मेड़ु	सात वस्तूचा समूह
		2. संगीत के सात स्वरों का समाहार	सप्तक	सपतक	–	तारुँ सफतक	संगीत जा सत सुर	सप्तक
सफर	पुं.	यात्रा	सफर, प्रवास	सफ़र	सफ़र	सफर	प्रवासु	प्रवास
सफल	वि.	जिसका अच्छा परिणाम हो	सफल	सफल	कामयाब	कामयाब	सफल, कामयाब	यशस्वी, सफल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सपरिवार, परिवार, सहित, सहकुटुंब	सहकुटुंब	सपरिवार	सपरिबार	सपरिबार, सपरियाल	इमुङ् मनुङ्गा लोइनबा	परिबार-सहित, सपरिबार, सकुटुंब	सकुटुंबमुगा	कुडुबत्तिन-रुडन्	सकुटुंबम्, कुटंबसहितं	परिवार संगड, सपरिवार
सप्तक, सातनो समूह	सप्तक	सप्तक	सप्त-संख्यक, सातटिर समष्टि	सप्तक, सातर-समष्टि, सतोटार-समष्टि	पोत्लम तरेत्	सातटिर-समष्टि, सप्तक	सप्तकमु, एडु	एळुवस्तु-क्कळिन् तॊगुदि	सप्तकम्	एळर-गुंपु
सप्त स्वर, सप्त सूर, संगीतना सात सूर	सातक	सप्तक	(सङ्गीते) स्वरग्राम	सुर-सप्तक, सप्त-स्वर	सूर तरेत्	सप्त-स्वर, संगीतर-सात स्वर	सप्तकमु	एळु सुरंगळ्	सप्तस्वरम्	सप्तस्वर
सफर, मुसाफरी, प्रयास	यात्रा, भोवंडी	सफर, यात्रा	यात्रा, भ्रमण, सफर (ज) (न)	यात्रा, भ्रमण, पर्यटन	कोइबा, खोङ्चत्	जात्रा, भ्रमण, पर्य्यटन, गस्त	प्रयाणमु, यात्र	यात्तिरै, पिरयाणम्	यात्र	प्रयाण, यात्रे
सफल (ळ), फळवाळुं, सिद्ध, सार्थक	सफळ	सफल	सफल, कृतकार्य (ज)	सफल, कृतकार्य, वाञ्छित फल पोवा	महै यान्बा	सार्थक, सफल, कृतकार्य्य	सफलत-चेंदिन	वेट्ट्रिपॆट्ट, पयनुळ्ळ	सफलमाय	सफल

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सफलता	स्त्री.	सफल होने का भाव, कामयाबी, सिद्धि	सफलता	सफलता	कामयाबी	कामयॉबी	सफलता, कामयाबी	साफल्य
सबल	वि.	बलवान, ताकतवर, बलशाली	सबल	बलवान	ताक़तवर	ताकतवर	सबल, बलवान	बलवान, सबळ
सभा	स्त्री.	बैठक, परिषद्	सभा	सभा	मज्लिस	इजलास, बैठक	सभा	सभा
सभापति	पुं.	सभा का अध्यक्ष	सभापतिः, अध्यक्ष	सभापती	सद्रे जलसा (सद्रे मज्लिस)	सदरि-मॅजलिस, सबायि-हुंद ज़्युठ	सभापती	सभापती, अध्यक्ष
सभी	वि.	सार, संपूर्ण	सर्व	सब्भे, सारे	सभी	सॉरी	सभु	सर्व
सभ्य	वि.	जिसका आचार-व्यवहार उत्तम हो, शिष्ट, विनम्र	सभ्य	सभिअ	मोहज़्ज़ब	तहज़ीबुॅ वोल	सभ्य, फ़ज़ीलत वारो	सभ्य

गुजराती	**कोंकणी**	**नेपाली**	**बंगला**	**असमिया**	**मणिपुरी**	**ओड़िआ**	**तेलुगु**	**तमिल**	**मलयालम**	**कन्नड**
सफळता, सिद्धि, सार्थकता	सफळता	सफलता, सिद्धि	सिद्धि, सफलता/ साफल्य	सफलता, साफल्य, कृतकार्यता	माइ पाक्पा	सफलता, सिद्धि	साफल्यमु	वॆट्टि	साफल्यम्	सफलतॆ
सबल (ळ), बळवान	बळवान	शक्तिशाली, बलियो, बलशाली	बलबान, बलशाली, सबल	सबल, बलशाली, बलवान	पाङ्गन कन्बा	सबल, बलबान, बलशाली	बलवंतुडु	बलमुळ्ळ	बलवान्, शक्तिशालि	बलशालि
सभा	सभा, परिषद्	सभा, बैठक	सभा, समिति, परिषद्	सभा, समिति, संगठन, संघ	सभा	सभा, परिषद, समिति	सभॆ	सबै, अवै	सभ	सभॆ
सभानो प्रमुख, सदर, अध्यक्ष	सभापती	सभापति, अध्यक्ष	सभापति, सभाध्यक्ष (क्ख)	सभापति, सभार-परिचालक, अध्यक्ष	सभापति	सभापति, सभाध्यख्य, अध्यक्ष	सभाध्यक्षुडु	अवैत्तलैवर्	अध्यक्षन्	अध्यक्ष, सभापति
बंधा, संपूर्ण	सगळें, सर्व	सबै, जम्मै, संपूर्ण	सबाइ, समस्त	सकलो, गोटेइ, आटाइ	पुम्नमक्	सकल, सभिएँ, समस्ते	अंदरू, अन्नी	ऍल्लारुम्, ऍल्ला	ऍल्लावरुम्, ऍल्लाम्	ऍल्ल
सभ्य, विवेकी, शिष्ट	सभ्य	सभ्य, शिष्ट, विनम्र	सभ्य, शिष्ट, भद्र, नम्र	सभ्य, शिष्ट सदस्य, सज-लोक भद्र	चाओ-खत्लबा	सभ्य, शिष्ट, भद्र, नम्र	नागरिकतगल, शिष्टतगलॆ	नागरीगमान, पण्बुळ्ळ	संस्कारमुळ्ळ	विनयशील, विनम्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सभ्यता	स्त्री.	1. सभ्य होने की अवस्था या भाव	सभ्यता	सभिअता	तहज़ीब	तहज़ीब	सभ्यता, तहज़ीब	सभ्यपणा
		2. किसी जाति या देश की बाह्य तथा भौतिक उन्नतियों का सामूहिक रूप	सभ्यता, संस्कृतिः	सभिअता	तमद्दुन	तहज़ीब	–	संस्कृती
समकक्ष	वि.	जोड़ या बराबरी का, सब बातों में बराबरी करने वाला	समकक्ष, समान	जोड़, समान	हमसर	ह्युव, बराबर	बराबरी, बराबरी कंद्डु	बरोबरीचा
समझना	अ. क्रि.	1. किसी बात को ठीक और पूर्ण रूप से मन में बैठाना	अधि + √गम्	समझना	समझना	समजुन	समुझणु	जाणणें, समजणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सभ्यता, सभ्यपणुं, सुधारो	सभ्यता	सभ्यता	शिष्टता, भद्रता	सभ्यता, शिष्टता, सुरुचि-संपन्नता	चाओखत्पा	सभ्यता, भद्रता बा-भद्रामि	सभ्यतॅ, नागरिकतॅ	नागरीगम्	सभ्यत, परिष्कारम्	नागरिकतॅ
संस्कृति	संस्कृताय	सभ्यता, संस्कृति	सभ्यता, जीबन-यापन प्रणालीर उत्कर्ष (ज) (न)	सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता-जनित-उत्कर्ष कृष्टि	चाओ-खत्लबा, सिविला-इजेशन	सभ्यता, संस्कृति, जीवन-जापन पुणालीर उत्कर्ष	नागरिकतॅ	अरिंदु-कोळ्ळ	संस्कारम्	संस्कृति
समकक्ष, समान कक्षानुं, सरखुं	बरोबरीचो	बराबरीको, समकक्ष	तुल्य, समान, समकक्ष (क्ख)	समकक्ष, समान-शक्ति वा गुन विशिष्ट समनीया	चाङ्-मान्नबा	तुल्य, समकक्ष, समान, बराबर	समस्थायि, सरिसमानमु	समनिलैयान, सममान	ऑप्पम्	समानवाद, सरीक
समजवुं, जाणवुं अर्थ करवो, खरा खोटानी तुलना करवी	समज़प	सम्झनु, बुझ्नु	बोझा, जाना, भालो भाबे जाना	बुज, जान, बिबेक बुद्धि	खङ्बा	बुझिबा, जाणिबा, अर्थ-करिबा, ज्ञान प्राप्त-करिबा	तॅलिसिकॉनुटॅ	अरिंदु-कोळ्ळ	मनस्सि-लाक्कुक, अरियुक	अरियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. विचारना	√चिन्त्	समझना	ग़ौर करना	व्यन्नारुन	–	चिंतन मनन करणें
समझौता	पुं.	1. राजीनामा, मेल, सुलह	सन्धिः	समझौता	समझौता	समजोतु	ठाहु	समझोता
		2. आपस में होने वाला करार या निश्चय, संधि	सन्धिः	–	क़रार	–	–	तह, करार
समता	स्त्री.	सादृश्य, बराबरी, संतुलन	समता	समता	बराबरी, मुसावात	बराबॅरी	बराबरी, साग़ियाई	सादृश्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
विचार करवो	चिंतन	ठान्नु, विचार गर्नु	बिबेचना करा	बिबेचना कर, चिंतन-करा	वाखल तौबा	बिबेचना-करिबा, बुझिबा, बिचार-करिबा	अर्थमुचे-सिकांनुट, आलोचिंचुट	निनैक्क	आलोचि-क्कुक	एणिसुवुदु
समजूती, मेळ, सुलेह	समजूतदारी	समझौता	समझोता, बोझापड़ा	आपोच, मिटमाट	यान्नबा	बिचार-करिबा, राजिनामा, चुक्ति, सम्मति	राजी	उड-न्पडिक्कै	ओत्तुतीर्प्पु	ओप्पंद
समजवुं ते, मानी लेवुंते, खुलासो, शिखामण, सलाह	संधी	करार, संधि	परस्परेर संधि, चुक्ति	चुक्ति, संधि	संधि	संधि, चुक्ति, राजिनामा	ओडंबडिकं	उडन्पाडु	संधि	करारु, ओप्पंद
समता, समत्य, सरखापणुं	समता	समानता, बराबरी	समता, समतल, सादृश्य	समता, सादृश्य	मान्नबा	समता, समत्व, सदस्यता-बा सादृश्य	समत्वमु	समत्तुवम्, ओरुमैप्पाडु	समत्वम्	समानतॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समदर्शी	वि.	सब को एक-सा देखने-समझने वाला	समदर्शिन्	समदरशी	यकनज़र	कुनी-नज़र-करन-वोल	सा<u>गी</u>अ नज़र सां <u>डि</u>संदडु, समदर्शी	समदर्शी, निष्पक्षपाती
समन्वय	पुं.	वह अवस्था, जिसमें कथनों या बातों का पारस्परिक विरोध न रहे	समन्वयः	समनवे	यकसानियत	हिहुय-थवुन, हिशर	मेलापु, हिक-<u>बि</u>ए सां ठाहे-मिलाए बीहारण	समन्वय
समय	पुं.	1. दिन-रात के विचार से काल का कोई मान, वक्त	समयः	समां	वक़्त	वख़ुॅत, समय	वक्तु, समो	काळ, बेळ, समय
		2. अवसर, मौका	अवसरः	समां	मौक़ा	मोकुॅ	मौक़ो	संधी
समय-सारणी	स्त्री.	1. समय सूचित करने के लिए बनाई हुई सारिणी	समय-सारिणी	समां-सारणी	नज़्मुल-औक़ात	टायिम टेबुल, समय-सूचणी	टाईम टेबुल, समय-सारणी	वेळापत्रक, समय-सारिणी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समदर्शी, निष्पक्षपाति	समदर्शी	समदर्शी, पक्षपात-रहित	समदर्शी, निरपेक्ष (क्ख)	समदर्शी	मान्नना उबा	समदर्शी, निरपेक्ष	समदर्शि	पारपट्-चमट्ट	समदर्शि	समदर्शि
समन्वय	समन्वय	समन्वय, सामञ्जस्य, मेल	सङ्गति, सामञ्जस्य, समन्वय	समन्वय, संगति, सामंजस्य	चाशिन्नबा, खेन्नदबा	समन्वय, सामंजस्य, संगति	समन्वयमु	ऑरुङ्-गिणैप्पु	समन्वयम्	समन्वय
समय, वखत, काल, जमानो	समय, वेळ	समय, बेला	काल, बेला, समय	समय, काल	मतम	समय, अबसर, बेला, काल	समयमु	समयम्, नेरम्	समयम्, नेरम्	समय
अवसर, तक, लाग	चांस	मौका, अवसर	अबसर, फुरसत उपयुक्त वा निर्दिष्ट काल	अवसर	तान्जा	अबसर, मौका, फुरसत	समयमु, अवकाशमु	वाय्प्पु, तरुणम्	इट, अवसरम्	संदर्भ
समय-पत्रक, समयनी, फाळवणीनी नोंध	वेळापत्रक	समय-तालिका	समय-निर्घण्ट	समय-सूची, समय-फलि	मतम यात्पा	समय-निर्घण्ट, समय-सूचि	कालि-पट्टिकि, टाइम टेबुलु	काल अट्टवणै	टाइम् टेबिळ्	वेळापट्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. वह पुस्तिका, जिसमें विभिन्न गाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों से छूटने और पहुँचने के समय का उल्लेख सारिणियों में किया जाता है (टाइमटेबल)	समय-सारिणी	समां-सारणी	टाइमटेबल	–	–	वेळापत्रक, समय-सारिणी
समर	पुं.	युद्ध, संग्राम, लड़ाई	समर	जुद्ध, संग्राम, लड़ाई	जंग	जंग	जंग	युद्ध, समर
समर्थ	वि.	जिसमें कोई काम करने की शक्ति हो, योग्य, उपयुक्त	समर्थ	समरथ	क़ादिर, अहल	कॉबिल	समर्थ, बलवान	समर्थ, बलवान
समष्टि	स्त्री.	अनेकों का समूह, संपूर्णता	समष्टिः	समूहकता	इज्तिमाइयत, जर्म्ईयत	परिपूरन	घणियुनि शयुनि जो मेड़ु, समष्टी	समष्टी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समय पत्रक, टाईम-टेबल	–	समय-सारिणी, समय-सूची	समय-सारणि, टाइमटेब्ल (न)	समय-सूचि, समय-फलि	थबक्की अमदि थौदोक्की मतम ताक्पा चे	समय-सूची, समय-सारणि	काल-पट्टिकँ, टाइम-टेबुलु	रयिलवे काल अट्टवणै	समय विवर-प्पवाट्टिक, टाइम्टेबिळ्	वेळापट्टि
समर, युद्ध, संग्राम, लड़ाई	युद्ध, झूज	लडाइँ, युद्ध	युद्ध संग्राम, लड़ाई, समर (ज)	समर, युद्ध, रण	लाल्	समर, संग्राम, जुद्ध, लढेइ	समरमु, युद्धमु	युद्दम्, पोर्	युद्धम्, समरम्	युद्ध, काळग
समर्थ, बळवान, शक्तिमान, योग्य, उपयुक्त	समर्थ, योग्य	समर्थ बलवान्, लायक, योग्य, उपयुक्त	बलशाली, समर्थ, योग्य, उपयुक्त (ज)	समर्थ, बलवान, योग्य, उपयुक्त, पारग, शक्ति-संपन्न	वौ ङंबा, मतिक् चाबा	समर्थ, शक्तिमान, बलशाली, उपजुक्त, जोग्य, सशक्त	समर्थत-कल, योग्यतकल	तिरमैयुळ्ळ तगुंद	शक्तन्, उपयुक्तन्	शक्तिशालि, योग्य
समष्टि, समग्रता, समुदाय	समश्टी	समूह, जमात, समष्टि	समष्टि, समग्रता, संपूर्णता (न)	समष्टि, समूह, संख्यम्-मूठ	अपुन्बा, मपुङ्फाबा	समष्टि, समूह, समग्र, सबु, समस्त, समुदाय	समष्टि	चंक्कै, कूट्टु	समष्टि	सामूहिकतॆ, संपूर्णतॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समांतर (समानांतर)	वि.	जो समान अंतर पर रहे	समान्तर	समवित्थ, समानंतर	मुतवाज़ी	मुतवॉज़ी	पूर विछोटि, पूरी विछोटीअ ते रहंदड़ु	समांतर
समाचार	पुं.	खबर, वृत्तांत, संदेश	समाचारः, वार्ता	समाचार	ख़बर	शेंछ-खबर	समाचारु, ख़बर	समाचार, वृत्तांत
समाचार-पत्र	पुं.	नियमित समय पर प्रकाशित होने वाला वह पत्र, जिसमें अनेक प्रदेशों, राष्ट्रों आदि से संबंधित समाचार रहते हों (न्यूज़पेपर)	समाचारपत्रम्, वार्तापत्रम्	अख़बार, समाचार-पत्तर	अख़बार	अखबार	अख़बार	वृत्तपत्र, समाचार पत्र
समाज	पुं.	1. बहुत से लोगों का समूह	समाजः	समाज	गिरोह	समाज	समाज	समाज
		2. किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित की हुई सभा	समाजः	समाज	अंजुमन	समाज	–	समिती, संघ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समांतर, समान अंतरवाळुं, पेरेलल	समांतर	समानांतर, बराबरीको	समांतर, समांतराल	समांतराल, सर्वत्र समान व्यवधान-विशिष्ट	चप् मान्नगा लाओबा चाङ् मान्नबा	समांतर, समान, समानांतर	समानांतरमु	सम दूरत्तिलुळ्ळ	समांतरम्	समानांतर
समाचार, खबर, बर्तमान	खबर्‍यो	खबर, समाचार	समाचार, संवाद, ख़बर, बार्ता	बातरि खबर, संबाद, बार्त्ता	पाओ	समाचार, संबाद, बार्ता, खबर	वार्त, समाचारमु	समाचारम्, सॅय्दि	वर्तमानम्, वार्त	समाचार, सुद्दि
वर्तमानपत्र, छापुं	पेपर	समाचार-पत्र, अखबार	संवादपत्र, खबरेर-कागज	बातरि-काकत, संबादपत्र	पाओजेल-चे, खबर	संबाद-पत्र, खबर-कागज	वार्ता-पत्रिकॅ	सॅयदित्ताळ्, नाळिदळ्	वर्तमानपत्रम्, पत्रम्	समाचार-पत्र, वर्तमान पत्र
समाज, समुदाय, व्यवस्थित जन समूदाय, जनता	समाज	समाज	समाज, जनसमष्टि	समाज, संघ सभा, नियम-शृंखला	समाज	संप्रदाय, समाज, सभ्यता	समाजमु	समूहम्	जनसमूहम्	समाज
मंडली, सभा	समिती	संस्था, सङ्घ, समिति	विशेष उॅद्देश्ये स्थापित सभा	समाज, संघ	सभा	समाज, संघ, सभा, मंडल	संघमु	समाजम्, कळगम्	समाजम्	समाज, सभे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. किसी प्रदेश या भूखंड में रहने वाले लोग जिनमें सांस्कृतिक एकता होती है	समाजः	समाज	मुआशरा, समाज	समाज	–	समाज
समाज-विज्ञान	पुं.	मानव समाज का विकास, प्रकृति और नियम बताने वाला वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र (सोशिअलॉजी)	समाज-विज्ञानम्	समाजविगिआन	समाजियात (उम्रानियात)	समॉजी-साइनस	समाज विज्ञानु	समाजशास्त्र
समाजी-करण	पुं.	किसी काम, बात, व्यवहार को ऐसा रूप देना कि उस पर समाज का अधिकार हो जाए और सब लोग समान रूप से उसका लाभ उठा सकें (सोशिअलाइजेशन)	समाजीकरणम्	समाजीकरन	समाजियाना	समॉजीकरन	समाजीकरणु, समाज जे अधिकार में आणणु	समाजीकरण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
एक धर्म के आचार-वाळे जन समूदाय	समाज	समाज	कोनो प्रदेश वा भूखण्डेर अधिवासी	समाज	समाज	समाज, संप्रदाय, जाति, एक-प्रदेश बा-भूखण्डर-अधिबासी	समाजमु, संघमु	समुदायम्	समुदायम्	समाज
समाज शास्त्र, समाज-बिद्या, समाज-व्यवस्थानुं शास्त्र	समाज-विज्ञान	समाज-विज्ञान	समाजतत्व, समाज-शास्त्र	समाज बिज्ञान, समाज-शास्त्र	समाजगी मरमदा नियम-परिङ् ताक्पा, सोशिअ-लाजी	समाज-बिज्ञान, सामाजिक-बिज्ञान, समाज-शास्त्र, मानब-समाजर-प्रकृति ओ-बिकाशर तत्व	समाज-शास्त्रमु	समूह इयल्	सामूह्य-शास्त्रम्	समाजशास्त्र, समाज विज्ञान
समाजी-करण	समाजी-करण	समाजी-करण	सामाजिक-करण	समाजीकरण	समाजगी ओइना कान्नबा तौरक्पा थौओङ्	सामाजिकी-करण (समाज-करण)	समाजी-करणमु (सोशियल-इजेशन)	समूहमय-माक्कल्	समुदायी-करणम्, सामूह वलकरणम्	सामाजीकरण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समाधान	पुं.	1. आपत्ति की निवृत्ति करना, संदेह निवारण करना	समाधानम्	समाधान, निबेड़ा	हल	अँज़रावुन	समाधानु	समाधान, शंका, निवारण
		2. समस्या का हल	समाधानम्	समाधान, निबेड़ा	–	हल	हलु	समाधान, निराकरण
समापन	पुं.	समाप्त करने की क्रिया या भाव, समाप्ति	समापन	समापती	इख़्तिताम	खतुॅम-सपदुन, अंद-वातुन	समाप्ती	समाप्ती, समापन
समाप्ति	स्त्री.	खत्म या पूरा करने की क्रिया या भाव, समापन	समाप्तिः	समापती	ख़ातिमा	अंद, खतुॅम	समाप्ती	समाप्ती, समापन
समायोजन	पुं.	1. अनुकूल बनाने की क्रिया या भाव	समायोजनम्	अनुकूलता, अनुसारी	तत्बीक़	मुतॉबिकत	मुनासिबत	अनुकूळ करणें
		2. आँकड़ों का मेल बिठाना या ठीक-ठाक करने की क्रिया या भाव	समायोजनम्	–	मिलाना	तालमेल-करुन, वाठ-द्युन	जोड़ु, अंगनि जो मेल ठीक करणु	आंकडे़मोड़ करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
निवारण	समाधान	समाधान, निराकरण	समाधान, समापन, निष्पत्ति	समाधान, निष्पत्ति, मीमांसा, संपादन	शङ्दाइनबा	समाधान, निष्पत्ति	समाधानमु	संदेह विंळक्कम् पॆरल्	संशय-निवृत्ति	निवारणॆ
समाधान	निराकरण	हल, समाधान	मीमांसा	समाधान, निराकरण, निस्पादन, संपादन	समस्या कोक्हन्बा	मिमांशा, समाधान, निराकरण	परिष्कारमु	पिरच्नै-गळुक्कु तीर्वु काणुदल	समाधानम्	परिहार
समापन, समाप्ति	समापन	समाप्ति, टुङ्ग्याइ, समापन	समापन, उद्यापन, संपूर्णता (ज) (न)	समापन, समाप्ति, संपन्न	लोइशिन्बा, लोइरबा	समापन, समाप्त, समाप्ति, संपुर्ण, उद्जापन	समाप्ति	मुडित्तल	समापनम्	समाप्ति
समाप्ति	समाप्ती	टुङ्ग्याइ, समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति, समापन, संपूर्ण	लोइरबा	समाप्ति, संपुर्ण, समापन	समाप्ति	मुडिवु	समाप्ति	मुक्ताय
समायोजन	जुळोवन घेवप	समायोजन	अनुकूलता	मिल करा, समाधान	चाशिन्नबा	अनुकूल, ठिक समय	समायोजनमु	अनुकूल-माक्कुदल्	अनुकूल-माक्कल्	हॊंदिसुविकॆ
आंकडानो मेळ बेसाडवो	जुळोवणी	संतुलन	जमा खरच मेलान, सुसमता	मिलोवा काम	चानबा	जमा-खर्च-हिसाब	समायोजनमु	कणक्कु-सरिकट्टल्	कणक्कुं नोक्कल्	हॊंदाणिकॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समारोह	पुं.	कोई ऐसा शुभ आयोजन, जिसमें चहल-पहल हो	समारोहः	जशन, जलसा, समागम	जश्न	जलसुँ	जल्सो, जशनु	समारोह, सभारंभ
समालोचक	पुं.	समीक्षक	समालोचक	समालोचक	नक़्काद	नकाद कुँठ-कडन-वोल	आलोचकु, नकादु	समीक्षक, समालोचक
समास	पुं.	1. योग, मेल	समासः	जोग, मेल	तर्कीब	म्युल, समास	मेलु, समासु	समास
		2. दो या अधिक पदों के मेल से बनने वाला नया पद	समासः	समास	–	–	समासु, ब़िनि या वधीक लफ़्ज़नि मां जुड़ियलु नओं लफ़्ज़ु	समास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समारंभ	समारोह	समारोह, उत्सव	समारोह, जाँकजमक, सहअनुष्ठित उत्सव	समारोह, जकि-जमक, धूमधाम, आडंबर	समारोह, अफबा थौदोक्का मरि लैनबा कुम्हे	समारोह, सरगरम, जाक-जमकरे अनुष्ठित-करिबा	उत्सवमु	विऴा	उत्सवम्, आघोषम्	समारंभ
समालोचक	समीक्षक	समा-लोचक, समीक्षक	समालोचक, समीक्षक	समालोचक समीक्षक, गुण-दोष बिबेचक, समालोचनकारी व्यक्ति	आलोचक	समालोचक, समीक्षक, दोषगुण बिचारक, दोषदर्शी	समा-लोचकुडु, विमर्शकुडु	विमरिशकर्, तिर्नाय्वाळर्	निरूपकन्	विमर्शक
समास	योग	योग, मेल	मिलन, योग (ज)	योग, मिलन	पुन्सिन्बा	मिलन, जोग, एकाठि	कलयिकॅ, योगमु	चेर्क्कै	योजिप्पु, चेर्च	कूडुविकॅ, योग
समास	समास	दुई मुक्त शब्दहरुको एकमेल हुने क्रिया, समास	समास, एकाधिक-पदेर एक-पदीकरण	समष्ट-पद, एकधिक पदर लोप-करिएटा पदकरा कार्य	वाहै अनि नत्रगा अनिदगी हेन्बा वाहैशिङ् ना पुन्शिल्लगा शेंबा अनौबा वाहै, समास	समास, एक-पदिकरण	समासमु	तॉगैच्चॉल्	समासम्	समास

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समाहार	पुं.	1. बहुत-सी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, संग्रह	समाहारः	इक्ट्ठ, इक्कतरीकरण	मज्मूआ	सोंम्बिरुन	समाहारु	संग्रह
		2. ढेर, राशि	समाहारः	ढेंर	ढेर	–	ढेरु	ढीग, रास
समिति	स्त्री.	1. किसी विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों का समूह	समितिः	समिती	मज्लिस	समती, कॅमीटी	समिती	सभा, समाज
		2. किसी विशेष कार्य के लिए गठित कुछ व्यक्तियों की सभा	समितिः	समिती	कमेटी	–	–	समिती, मंडळ
समुदाय	पुं.	1. समाज, बिरादरी	समुदायः	समुदाइ	बिरादरी	बरादरी	बिरादरी	समुदाय, समाज

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समाहार, संग्रह	संग्रह	सङ्ग्रह, समाहरण, समाहार	समाहार, संग्रह, मिलन	समाहार, संग्रह, समूह	खोम्जिन्बा	मिलन, समाहार, समाबेश, एकाठि, एकत्र	समाहारमु	ऑन्रु शेर्त्तल	समाहरणम्	संग्रह, ऑट्टु-माडुविर्क
ढगलो	ढ़ीग	समूह, थुप्रो	समूह, राशि	दम, राशि, समूह	मपै	समुह-राशि	राशि	कुवियल्	कूट्टम्	राशि
समिति, मंडळी	सभा	समिति, मंडल	समिति, सभा, समाज, सङ्घ	समिति, सभा, संघ, परिषद	सभा, समिति	संगठन, सभा, समाज, संघ	समिति	कुळु	समिति	समिति, मंडळी
समिति, मंडळी	समिती, मंडळ	परिषद, सभा	विशेष उद्देश्ये गठित सभा	समिति, सभा, संघ, परिषद	समिति	समिति, सभा, मंडल	समिति	कमिट्टि	कम्मट्टि	समिति, संघ
समुदाय, जत्थो	समुदाय	समुदाय, जमात, संप्रदाय	समुदाय, जाति, संप्रदाय, दल	समाज, संप्रदाय, सकलो, समग्र	काङ्बु, काङ्लुप	समुदाय, समाज, संप्रदाय, दल, गोष्ठि	समुदायमु	समूगम्, समुदायम्	समुदायम्	समुदाय, तंड

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. समूह, राशि	समुदायः	समूह	अंबोह	जमाथ	टोली, मेड़ु	संग्रह
समुद्र	पुं.	सागर	समुद्रः	समुंदर	समंदर	समंदर, सॅदुॅर	समुंड्डु	समुद्र
समूह	पुं.	1. बहुत-सी चीजों का ढेर, राशि	समूहः	समूह	अंबोह	डेर	ढेरु, मेड़ु	रास, ढीग
		2. झुँड, समुदाय	समूहः	इकट्ठा, झुंड	फ़िर्क़ा	–	झुंड्डु, मज्मूओ	समूह, समुदाय
समृद्ध	स्त्री.	संपन्न, धनवान	समृद्धः	खुशहाल, खांदा-पींदा	मुतमव्विल, ख़ुशहाल	दनवान, आसन-वोल	शाहूकारु	समृद्ध, संपन्न

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समूह	टोली	समूह, राशि	समूह, राशि, समष्टि	समूह, राशि, दम, समष्टि जाक गण	मपै	समुह, राशि, समष्टि	समूहमु, राशि	कुवियल्	कूट्टम्	राशि
समुद्र, दरियो	समुद्र	समुद्र, सागर	समुद्र, सागर	सागर, समुद्र, जलधि	समुद्र	समुद्र, सागर	समुद्रमु	समुत्तिरम्, कडल्	समुद्रम्	समुद्र
समूह, टापुं	रास	समूह, राशि	राशि, गण (न)	समूह, राशि, दम जाक	मपै	समूह, समुदाय, राशि,	समूहमु	कुवियल्, कूट्टम्	समूहम्, कूट्टम्	राशि
समूह, समुदाय	समूह	समुदाय, जमात	दल, समुदाय	दल, समाज जाक गण	शङ्गु, काङ्लुप	दल, गोष्ठि, समाज, समूह, समुदाय	गुंपु	–	–	गुंपु
समृद्ध, धनवान	समृद्ध	संपन्न, समृद्ध	संपदशाली, संपन्न, समृद्ध	समृद्ध, धनवान, संपन्न सम्यक् वृद्धि प्राप्त	मरल मथुम वात्बा, इनाक् खुन्बा	समृद्ध, संपन्न, धनबान, धनी	समृद्धमैन	वळमुळ्ळ, शेलवमुळ्ळ	संपन्नन्, धनिकन्	श्रीमंत, साहुकार

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
समृद्धि	स्त्री.	बहुत अधिक संपन्नता, अमीरी, ऐश्वर्य	समृद्धिः	खुशहाली	ख़ुशहाली, तमव्वुल	ॲमीरी	शाहूकारी, वाधारो	श्रीमंती, समृद्धी
सम्मान	पुं.	इज्जत, आदर, प्रतिष्ठा	सम्मानः	सनमान	इज़्ज़त	यज़थ	मानु, सम्मानु	प्रतिष्ठा, सन्मान
सम्मेलन	पुं.	1. मनुष्यों का किसी विशेष उद्देश्य से अथवा किसी विषय पर विचार करने के लिए एकत्र होने वाला समाज	सम्मेलनम्	समेलन	इज्तिमा	समनबल, समेलन	सम्मेलन	सम्मेलन
		2. कोई बहुत बड़ी स्थायी संस्था	सम्मेलनम्, संस्था	समेलन	कान्फ़रेंस	कान्फरेंस	कांफ़रंस	संस्था

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
समृद्धि, ऐश्वर्य	समृद्धी	समृद्धि, संपन्नता	समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता (ज)	समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, संपत्ति	मरल लैबा, इनाक खुनबा, पैसा पाइबा	समृद्धि, ऐश्बर्य, बैभबशाली	समृद्धि	वळम्, शेल्वम्	समृद्धि, ऐश्वर्यम्	श्रीमंतिके, ऐश्वर्य
सन्मान, सत्कार	मान	आदर-भाउ, प्रतिष्ठा, सम्मान	समादर, मर्यादा (ज)	सन्मान, मान, मर्यादा, श्रेष्ठत्व, स्वीकृति	इज्जत, इकाइ-खुमनजरिबा	आदर, प्रतिष्ठा, सम्मान, मर्ज्यादा, मान	सन्मानमु, आदरणं	मरियादै	बहुमानम्	मर्यादे
सम्मेलन	सम्मेलन	सम्मेलन, जमघट, समागम	सम्मिलन/ सम्मेलन, सभा, जनसमाबेश	सन्मिलन, सम्मिलनी, सन्मिलनी	सम्मेलन	सम्मेलन, सभा, जनसमाबेश	सम्मेळनमु	मानाडु, सम्मेळनम्	सम्मेळनम्	सम्मेलन
संस्था	संस्था	सम्मेलन, महासभा	स्थायी एवं बड़ संस्था	(स्थायी) सभा, सन्मिलन, सभा समाज	अचौबा संस्था	सम्मेलन, संस्था, मंडल, सम्मिलनी	संस्थ	निरुवनम्	स्थापनम्	संस्थे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सम्मोहन	पुं.	मोहित करने या लुभाने की क्रिया, मुग्ध करने की शक्ति या गुण	सम्मोहनम्	सम्मोहन, मोहणी शक्ती	फ़रेफ़्ता करना, इश्वा	मूहित करुन	मोहिणु, मोहिण जी ताक़त या गुणु	मोहित करणें, सम्मोहन शक्ती
सम्राट	पुं.	साम्राज्य का स्वामी	सम्राज् (सम्राट्)	शहनशाह, समराट	शहंशाह	सम्राठ, शहनशाह	सम्राटु, महाराजा	सम्राट
सरकना	अ.क्रि.	1. जमीन से सटे हुए आगे बढ़ना, रेंगना	√सृ	सरकणा	सरकना	डलुन, खोंखजि-पकुन	सरिकणु, सुरणु	सरपट्णें
		2. धीरे-धीरे तथा थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना	√सृ, √सल्	सरकणा	सरकना	सोंति-सोंति-पकुन	रेढ़ियूं पाइणु	सरकणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संमोहन, मूर्छा, मोह	भुलोवप, भुलोवचो गुण	सम्मोहन, मोहित गर्ने गुण	सम्मोहन, मुग्ध करण (न), मोहिनी शक्ति	सम्मोहन, माहिनी-शक्ति, मुग्ध-करण	सुम्हत्पा, सुम्हत्-निङ्ङाइ ओइबा गुण	सम्मोहन, मुग्ध, मोहित, सम्मोहन बा-मुग्ध करिबार-शक्ति (गुण)	सम्मोहनमु	मनदैक्-कवर्दल्, कवरुम्-तिऱन्, वशिय शक्ति	मोहिप्पि-क्कल्, सम्मोहन शक्ति	मोहगॊळि-सुविर्क, मोहिसुव, सामर्थ्य
सम्राट, शहेनशाह	सम्राट	सम्राट, महाराजा-धिराज	सम्राट, राजा	महारजा, सम्राट, रजा, राष्ट्रर-अधिपति	निङ्थौ	सम्राट, महाराजा	सम्राट्टु	चक्करवर्त्ति	सम्राट्टु, चक्रवर्ति	चक्रवर्ति
सरकवुं, खसवुं	सरपटप	घस्रनु, घस्रिनु, घिस्रनु	सरे याओया, बुके भर दिया चला, हामागुड़ि देओया	चौँचर, चुँचरिया	चिङ्बा, शित्पा	गुरुण्डिबा, हामुड़ेइ-चालिबा	ज़रुगुट	नगर, तवऴ	वऴुतुक, मुट्टिल् इऴयुक	तॆवळुवुदु
धीरे धीरे आगळ वधवुं	सरकप	रगडिँदै अगाडि सर्नु	आस्ते-आस्ते एगोनो	लाहे-लाहे-आग बाढ़	शित्ल-शित्ल चत्पा	धिरे धिरे-बा आस्ते-आस्ते-आगेइबा	सागुट	मेळ्ळ मेळ्ळ मुन्नेऱ्	इऴयुक	जरुगुवुदु, सरियुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सरकार	स्त्री.	शासन तंत्र	सर्वकार:, प्रशासनम्	सरकार	सरकार, हुकूमत	सरकार	सरकार	सरकार
सरल	वि.	1. सीधा, भोला	सरल	सरल	सीधा	आसान, सॅहल	सिधो, ब़ालो-भोलो	सरळ, भोळा-भावडा
		2. आसान, सहज	सरल, सहज	असान	आसान	–	सवलो	सोपा
सरस	वि.	1. रसयुक्त, रसीला	सरस	सरस, रसदार	रसीला (रसदार)	रॅस्युल	रसवारो, रसीलो, सरस	रसाळ
		2. रचना जो भावमयी और मोहक हो	सरस	सरस, रसदार	पुरकैफ़	–	रचना जेका वणंदड़ हुजे	सुरस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सरकार	सरकार	सरकार, सर्कार, शासन-सत्ता	सरकार, राष्ट्र-शासनतंत्र	चरकार, प्रशासन, सरकार	सरकार	सरकार, प्रशासन	प्रभुत्वमु, दोरतनमु	अरशु	सर्कार्, भरणकूटम्	सरकार
सरल, सादुं, सीधुं	भोळो	सोझो, सीधा, सरल	सरल, सहज, सोजा, निरीह, सादासिधा	पोन, सहज, सरल, उजू	अतिङ्बा, अचंबा	सरल, सहज, निरीह, साधासिधा	सरळमु	नेरान	शुद्धन्	सरळ, भोळया
सहज	सरळ	सजिलो, सुगम	सहज	सरल, सहज, उजू	अराइबा	सहज, सरल	सुलभमु	सुलबमान, एळिदान	एळुप्पमाय	सुलभ, सरळ
सरस, रसवाळुं	रसाळ	रसिलो, रसयुक्त	सरस, रसयुक्त (ज)	सरस, रसाल, रसपूर्ण, आमोदजनक	महाओ याओबा, महि याओबा, महि हौंबा	उत्कृष्ट, सरस, रसाल, उत्तम	सरसमैन	रसमुळ्ळ, सुवार-सियमान	रसमुळ्ळ	सरस, रसदुंबिद
रस पडे एवुं	सुंदर	सरस, रसपुर्ण	सरस, मनोरम	रसाल, आमोद-जनक	रस चेन्बा	सरस, उत्तम, मनोरम, उत्कर्ष, उच्चकोटिर	रसवंतमैन	चुवैयुळ्ळ	सरसमाय	रसपूर्ण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सराहना	स्त्री.	1. तारीफ, प्रशंसा	प्रशंसा	सलाहुणा, सराहुणा	तारीफ़	तॉरीफ़	साराह	प्रशंसा
		2. तारीफ करना, प्रशंसा करना	प्र + √शंस्	–	सराहना	तॉरीफ करुॅन्य	साराहिणु	प्रशंसा करणें
सरोकार	पुं.	वास्ता, संबंध	सम्बन्धः	सरोकार	सरोकार	वाठ, वाबस्तगी	वास्तो, सरोकारु	संबंध
सरोवर	पुं.	तालाब	सरस्	सरोवर	तालाब	तलाव	तलाउ, सरोवरु	सरोवर
सर्ग	पुं.	किसी ग्रंथ विशेषतः काव्य ग्रंथ का अध्याय	सर्गः	सरग	फस्ल	बाब, अद्याय	बाबु, अध्याउ	सर्ग, अध्याय
सर्जन	पुं.	उत्पन्न करना या जन्म देना	सर्जनम्	सिरजण	तख़्लीक़, तक्वीन	पॉदुॅ करुन	सर्जणु, रचणु	रचना, उत्पत्ती, सृजन
सर्प	पुं.	साँप	सर्पः	सप्प	साँप	सरुफ	नांगु, सांपु, सपु	सांप, सर्प

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
वखाण, गुणगान	तोखेवप	सन्हनी, प्रशंसा	प्रशंसा, सुख्याति	प्रशंसा, गुणगान	थागत्पा	प्रशंसा, स्तुति, गुणगान	पॉगड्तॆ	पुगळ्दल्, मॆच्चुदल्	प्रशंस	हॊगळिकॆ, प्रशंसॆ
–	तोखणाय	तारिफ गर्ने काम	प्रशंसा करा	प्रशंसा कर, गुणा गा	थागत्पगी थबक	प्रशंसा-करिबा	पॊगडुटॆ	पुगळ्, मॆच्च	प्रशसिक्कुक, श्लाघिक्कुक	हॊगळुवुदु
संबंध	संबंद, संबंध	चासो, वास्ता, सरोकार	संबंध, संपर्क	संबंध, संपर्क	मरि	आत्मियता, कुटुंबिता-संपर्क	संबंधमु	संबंदम, तॊडर्बु	बंधम्	संबंध
सरोवर	तळें	पोखरी, तलाउ, सरोवर	बड़ पुकुर, सरोबर	सरोवर, पुखुरी, ह्रद डाँगर पुखुरी	पुखी	सरोबर, पोखरी, पुष्करिणी	सरोवरमु	कुळम् पॊयगें	सरोवरम्, कुळम्	सरोवर
सर्ग, अध्याय	आवेस्वर, सर्ग	परिच्छेद, सर्ग	ग्रंथादिर अध्याय वा परिच्छेद	(कितापर) खण्ड बा अध्याय	ताङ्कक्, अध्याय	सर्ग, खण्ड, अध्याय, परिछेद	सर्ग	सरुक्कम्, अद्दियायम्	सर्गम्	सर्ग, खंड
सर्जन	सर्जन	सृष्टि, सर्जन, सिर्जना	सृष्टि	सरजन, सृजन, सृष्टि-कर साज-पार	शेंबा, शाबा, सर्जन	सर्जना, सृजन, सृष्टि, निर्माण, उत्पत्ति	सृजनॅ	शिरुष्टि, पडैप्पु	सृष्टि	सृजन्, जन्म कॊडुविकॆ
सर्प, साप	सोरोप	सर्प, साँप	सर्प, साप	साप, सर्प	लिल्	सर्प, साप	सर्पमु, पामु	सर्पम् पांबु	सर्पम्, पाम्पॅु	हावु, सर्प

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सर्वज्ञ	वि.	सब कुछ जानने वाला	सर्वज्ञ	सरवग्ग	अलीम (हमादाँ)	सोरुय-ज़ानन-वोल	सभु कुछ जाणंदड़ु, सर्वज्ञ	सर्वज्ञ
	पुं.	ईश्वर	सर्वज्ञः	सरवग्ग	ख़ुदा	बगवान	ईश्वर	ईश्वर
सर्वत्र	क्रि. वि.	सब जगह	सर्वत्र	सरवत्त	हमेजा, हरजा, हर जगह	प्रथ-जायि, सरवतुॅर	हर हंधि	सर्वत्र
सर्वव्यापक	पुं.	जो सब स्थानों और सब पदार्थों में व्याप्त हो	सर्वव्यापक	सरबविआपक	मुहीते-कुल, हाज़िरो-नाज़िर	सॉरिनुय-जायन-मूजूद	सर्वव्यापी	सर्वव्यापक
सर्वसम्मति	स्त्री.	सबकी एक सम्मति या राय, मतैक्य	सर्वसम्मतिः	सरबसमती	यकराई	यखराय	यकराइ	सर्व सम्मती, मतैक्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ, सबै कुरा जान्ने	सर्बज्ञ	सरबजान, सकलो-विषयर जना, सर्वज्ञ	पुम्नमक खङ्बा	सर्बज्ञ, सर्बदर्शी	सर्वज्ञुडु	एॅल्ला-मरिंद	सर्वज्ञन्	सर्वज्ञ
ईश्वर	ईश्वर	ईश्वर	ईश्वर	ईश्वर, भगवान	ईश्वर	सर्बशक्ति-मान ईश्वर, भगबान	ईश्वरुडु	कडवुळ्	भगवान्	देवरु
सर्वत्र	सर्वत्र	सर्वत्र, सबैतिर्	सर्बत्र	सर्बत्र, सकलोते, सकलो-ठाइत	मफम पुम्नमक्ता	सर्बत्र, सबु-स्थानरे, सबुआडे	सर्वत्र	एॅल्ला इंडगळिलुम्	सर्वत्र	एॅल्ला कर्ड, सर्वत्र
सर्व-व्यापक	सर्व-व्यापक	सर्व-व्यापक	सर्व-ब्यापी	सर्बब्याप्त, सकलो ठाइत, बियपि थका	पाक् शन्बा मफम खुंदिङ्दा लैबा	सर्बब्यापक, सर्बब्याप्त, सर्बब्यापी	सर्व-व्यापकमु	एॅङ्गुम् निरैंद	सर्वव्यापि	सर्वव्यापक
सर्व संमति	सर्वसंमती	सर्वसम्मति, मतैक्य	सर्बसम्मति, सकलेर अनुमोदन	ऐक्यमत, सर्बसन्मति, सकलोरे-सम्मति थाका	मत अमत्ता ओइबा	सर्बसम्मति, एकमत, अनुमोदन	सर्वसम्मति	एॅल्लोरुम् सम्मदित्तळ् प्पडल्	सर्वसम्मतम्, ऐककंठ्यम्	ऑम्मत, सर्वसम्मति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सर्वांगीण	वि.	1. सब अंगों में व्याप्त होने वाला	सर्वाङ्गीण	सरबंगी	हमागीर, जामे	हमॅगीर	समूरो, सभिनी अंगनि में समायल हुजणु	सर्वांगीण
		2. जो सभी अंगों से युक्त हो	सर्वाङ्गीण	सरबंगी	जामे	प्रथ अंगुॅ सोंसे	–	–
सर्वेक्षण	पुं.	किसी विषय के सही तथ्यों की जानकारी के लिए उसके सभी अंगों का किया गया आधिकारिक निरीक्षण	सर्वेक्षण	सरवेखण	जाइज़ा (सर्वे)	जॉयजु	सर्वे, सरसरी जाइज़ो, सरवेखणु	सर्वेक्षण
सर्वोदय	पुं.	1. सभी का उदय या उन्नति	सर्वोदय	सरबोदै	रिफ़ाहे आम	सर्वोदय	सर्वोदय	सर्वोपकारी
		2. सब लोगों के आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया स्वतंत्र भारत का आंदोलन	सर्वोदय	सरबोदै	सर्वोदय	सर्वोदय, आम-बे'हबूदी, रिफायि-आम	–	सर्वोदय आंदोलन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सर्वांगीण	सर्वांगीण	सर्वाङ्गीण	सर्बाङ्गीण, सर्बाङ्ग-व्यापी (न)	सर्बांगीण, समस्त, देहर सकलो अंगर	शरुक खुदिङ्-मक्की ओइबा	सर्बांगीन, सबु-प्रकारर	सर्वांगीणमैन	एंल्ला उरुप्पुगळुम् उडैय, परविय	सर्वांगीणम्	सर्वांगीण
–	सर्वांगी	सर्वाङ्गीण	पूर्णाङ्ग	सकलो अंगते थका	हक्चाङ् शिन्ब थुङ्वा	सर्बाग्र	समग्रमैन	एंल्ला उरुप्पुगळुम् उडैय, पूरणमान	सर्वांगयुक्तम्	–
सर्वेक्षण	सर्वेक्षण	सर्वेक्षण	परिमाप, जरीप, निरीक्षा (क्ख)	जरीप, पूर्णांग जरीप	थिजिन्बा	सर्बेक्षण, माप, मापचुप, निरीक्षा	सर्वेक्षण, विहंगाव-लोकनमु	मेर्पार्वै, विवरंगळै अरिदल्	सर्वेक्षणम्, सर्वे	मोजणि, सर्वेक्षण
सर्वोपकारी	सर्वोपकारी	सर्वोदय	सबाइर उन्नति, सर्वोदय	सर्बोदय, सबार-उन्नति होबा	चाओखत्-मिनबा	सर्बोदय, बहुलोक बा जनतार उन्नति परिप्रेक्षीरे	सर्वोदयमु	एंल्लोरुडैय मुन्नेट्टम्	सर्वोदयम्	सर्वर, एल्लर अभिवृद्धि
सर्वोदय आंदोलन	सर्वोदय	सर्वोदय	सर्बोदय आंदोलन	सर्बोदय आँदोलन	सर्वोदय आंदोलन (विनोवा भावेगा हौदोक् लँबा)	सर्बोदय आँदोलन	सर्वोदयमु	सर्वोदय इयक्कम्	सर्वोदय प्रस्थानम्	सर्वोदय

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सलाहकार	पुं.	राय देने वाला, परामर्शदाता	परामर्शदाता	सलाहकार	मुशीर	सलाहकार	सलाहकारु	सल्लागार
सस्ता	पुं.	1. कम मूल्य का	अल्पमूल्य	ससता	सस्ता	श्रौंग, सस्तुॅ	सस्तो	स्वस्त
		2. घटिया	तुच्छ	होछा, ससता	घटिया	–	–	हलका
सहकारिता	स्त्री.	साथ मिल कर काम करना, मदद, सहायता	सहकारिता, सहकार्य	सहकारता	तआवुन, इश्तिराके-अमल	रॅलिथ मीलिथ कॉम करुॅन्य	सहकार	सहकार्य, मदत
सहज	वि.	1. जन्मजात, प्राकृतिक	सहज	सहिज	पैदाइशी	आसान, सहल	कुदरती, सुभावीक	जन्मजात, नैसर्गिक
		2. आसान	सहज	सहिज	आसान	–	सवलो	सहज, अनायास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सलाहकार	सल्लागार	सल्लाह-कार, परामर्शदाता	परामर्शदाता	मंत्रणदाता, उपदेष्टा	राय पीबा मी, बा तानफम	मंत्रणादाता, परामर्शदाता, उपदेष्टा	सलहा-दारुडु	आलोचकर्	उपदेष्टावुँ	सलहॅगार
सस्तुं	सवाय	सस्तो	सस्ता	सस्ता, सस्तीया	अहोङ्बा, ममल याम्दबा	शस्ता, कम् दाम	चवुकॅ	मलिवान	विल कुरञ्ञ	अग्गवाद
हलकुं	हलको	मामुली, साधारण	खेलो, निरेस	निकृष्ट, बेया	–	निकृष्ट, निरस	चवुक रकमु	विलै कुरैंद	तरम् ताळ्न्न	कीळु
सहकारी-पणुं	सहकार्य	सहकारिता, सहकारी	सहकारिता, साहाय्य, सहायता (ज)	सहकारिता, सहायता, सहाय	तेङ्बाङ्-नरिबा	सहकारिता, सहायता, सहाय	सहकारमु	कूट्टुरवु	सहकरणम्, कूट्टाय्म	सहकार
सहज, स्वाभाविक	जल्मजात	स्वाभाविक, सहज	जन्मजात, प्राकृतिक	सहज, जन्मजात, उजू, जन्मर समयत लाग करा	महौशागी ओइबा	सहजात, स्वाभाबिक, जन्मजात, प्राकृतिक	सहजमैनॅ	इयर्क्कैयान	जन्मसहजम्	सहज
अनायास	सहज	सुगम, सहज	सहज	सहज, जन्मजात, उजू	अराइबा	सहज, सरल, अनायास	सुलभमैनॅ	एळिदान	एळुप्पमाय	सुलभ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सहन शक्ति	स्त्री.	सहने की शक्ति, सहिष्णुता, सहनशीलता, सह्यता	सहनशक्तिः	सहिनशकती	कुव्वते बरदाश्त	बरदाश करनुक ताकत	सहण जी ताक़त, सहन-शक्ती	सहनशक्ती
सहना	स.क्रि.	1. सहन करना, झेलना	√सह्, √क्षम्	सहिणा	सहना	बरदाश करुन	सहणु	सहन करणें
		2. बर्दाश्त करना, कष्ट उठाना	√सह्, √क्षम्	सहिणा	बर्दाश्त करना	–	–	–
सहमत	वि.	जो दूसरे के मत को मान कर उसकी पुष्टि करता हो	सहमत	सहिमत	मुत्तफ़िक़	मुतफ़िक	सहमत	सहमत
सहमति	स्त्री.	सहमत होने का भाव या अवस्था, एक मत होना	सहमतिः	सहिमती	इत्तिफ़ाक़, इतिफ़ाक़े-राय	राय	सहमती, यकराइ थियणु	सहमती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सहन शक्ति	सहनशक्ती	सहनशक्ति	सहिष्णुता, सहनशीलता, सहनशक्ति (न)	सहनशक्ति, सहिष्णुता, धैर्य	खाङ्बा ङम्बगी शक्ति	सहनशक्ति, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहिबा-शक्ति	सहनशक्ति, ओर्पु	पारुत्तक्-कोळ्ळुम् तिरुमै, पारुमै	सहनशक्ति	सहनशक्ति
सहेवुं	सहन करप	सहनु, सहन गर्नु	सह्य करा.	सह, सह्य कर, सहि थाकिब परा	खाङ्बा	सहिबा, सह्य-करिबा, बरदास्त-करिबा	सहिंचुट	पारुत्तुक्-कोळ्ळ	सहिक्कुक	सहिसुबुदु
–	सोंसप	बेहोर्नु, कष्ट भोग्नु	कष्ट सह्य करा, बरदास्त करा	कष्ट कर	अवाबा खाङ्बा	कष्ट-करिबा, बरदास्त-करिबा, सहिबा	ओर्चुकानुट	–	पारुक्कुक	ताळुवुदु, तर्डयुवुदु
सहमत	सहमत	सहमत, मतैक्य	सम्मत, एकमत	एकमत, ऐक्यमत	यानिङ्बा, मत मान्नबा	एकमत, सम्मत, एक मन, एकता	अंगीक-रिंचिन, एकी-भविंचिन	ओरुमनदान, इणंगिय	योजिप्पुळ्ळ	ओम्मतवाद
एकमतए सहमती	सहमती	सहमति, मतैक्य	सम्मति	सहमति, एकमति	मत अमत् ओइना यानिङ्बगी मओङ्	सहमतिता, सम्मति, मेल, राजि हेबा	अंगीकारमु, एकीभावमु	ओरुमन-प्पडुदल्, इणक्कम्	अभिप्रायैक्यम् योजिप्पुँ	सम्मति, ओम्मत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सहयोग	पुं.	1. साथ मिलकर काम करना	सहयोगः	सहियोग	तआवुन	अथुँवास, मदद	सहयोगु, तआवनु	सहयोग
		2. किसी के काम में हाथ बँटाना	सहयोगः, सहकार्यम्	सहियोग	तआवुन	–	–	सहकार्य
		3. सहायता देना	साहाय्यम्	सहियोग	मदद देना	–	–	साहाय्य
सहयोगी	पुं.	साथ में काम करने वाला, सहायता करने वाला	सहयोगिन्	सहयोगी	रफ़ीक़ेकार, रफ़ीक़	सूँत्य-कॉम-करन-वोल, रफीक	सहयोगी, साथी कमु कंदड़ु	सहयोगी
सहलाना	स.क्रि.	धीरे-धीरे मलना या हाथ फेरना	√स्पृश्	पलोसणा	सहलाना	फश-फश द्युन	सहलाइणु, थधिड़ा कढणु	हात फिरवणें, कुरवाळणें
सहानुभूति	स्त्री.	हमदर्दी	सहानुभूतिः	हमदरदी	हमदर्दी	हमदरदी	हमदर्दी	सहानुभूती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सहकार	सहयोग	सहयोग	सहयोग (ज)	सहयोग	तेङ्बाङ्	सहजोग, सहायता, साहाज्य	सहकारमु	ओत्तुळैप्पु	सहकरणम्	सहयोग
सहकार्य	सहकार्य	पारस्परिक सहायता	सहयोग (ज)	सहायता, सहाय	तेङ्बाङ्बा	साहाज्य, सहयोग, सहायता, साहचर्ज्य	सहकारमु	उदवि अळिक्क	सहायम्	सहाय
मदद	सहाय्य करप, मदद करप	सघाउ	साहाय्य (ज्ज)	सहायता, सहाय	मतेङ् पीबा	–	सहायमु	उदवि अळिक्क	सहायिक्कुक	सहाय
सहकार	सहयोगी	सहयोगी	सहयोगी, सहकर्मी (ज)	सहयोगी, सहकर्मी	तेङ्बाङ्-नरिबा	सहजोगी, सहकर्मी	सहोद्योगि	ओत्तुळैप्पवर, सग ऊळियर्	सहप्रवर्तकन्	सहयोगि
पंपाळवुं	मायेन हात भोंवडावप	सुमसु - म्याउनु, मुसार्नु	आस्ते आस्ते, हात बुलानो	हातबुला, हातफुरा	नाल्बा	आऊंषिबा, हात-बुलाइबा	निमुरुट	तडविक्को-डुक्क	तटवुक	तडवुवुदु, सवरुवुदु
सहानुभूति	सहानुभूती	सहानुभूति	सहानुभूति	सहानुभूति, समबेदना, आनर दखत दुखी होबा	मीनुङ्शि	सहानुभूति, अनुराग	सानुभूति	अनुताबम्	सहतापम्	सहानुभूति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सहायता	स्त्री.	मदद	सहायता	सहाइता	मदद (तआवुन)	मदद	सहायता, मदद	सहायता
सहिष्णु	वि.	सहने वाला, बरदाश्त करने वाला	सहिष्णु	सहिनशील	मुतहम्मिल (साबिर)	सोंबूरुॅवोल	सहनशील, सबुर वारो	सहिष्णू
सहिष्णुता	स्त्री.	सहनशीलता	सहिष्णुता	सहिनशीलता	तहम्मुल, माद्दाए बरदाश्त	सोंबूर बरदाश-करनुक-मादुॅ	सहनशीलता, सबुरु, तहम्मुल	सहिष्णुता
सहृदयता	स्त्री.	1. दयालुता, करुणा	सहृदयता	सहिरदता	दर्दमंदी	दरुॅद मंदी	रहमदिली, सहिरदता	दयाळुपणा, सहृदयता
		2. रसज्ञता	सहृदयता	–	ज़ौक़	च्रुॅक्यदॅरी	ज़ौक	गुणग्राहकता

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सहायता, मदद	सहाय्य	मदत, मद्दत, सहायता	साहाय्य, सहायता (ज)	सहायता, सहाय	मतेङ्	सहायता, साहाज्य	सहायमु	उदवि	सहायम्	सहाय
सहिष्णु	सहिश्णू	सहनशील	सहिष्णु	सहिष्णु, सहनशील	खाङ्लिबा	सहिष्णु, सहनशील, सह्य-करिबा	सहिष्णुवु	पारुत्तुक्को-ळ्गिर्	सहिक्कुन्न, सहनशक्ति युळ्ळ	सहिष्णु, सैरणॆयुळ्ळ
सहिष्णुता, सहन-शीलता	सहिश्णुता	सहनशीलता	सहिष्णुता	सहिष्णुता, सहनशीलता	खाङ्बा कन्बगी मतौ	सहिष्णुता, सहनशीलता, सहन शक्ति	सहिष्णुतॆ, सहनमु	पोरुमै, पारुत्तुक्को-ळ्ळुम् गुणम्	सहिष्णुत	सैरणॆ
सहृदयता, करूणा	सहृदयता	सहृदयता, करुणा	सहृदयता, दया, करुणा (न), सदाशयता	दया, करुणा, सहृदयता	थमोइ नौबा	सहृदयता, दयालुता, दया, करुणा	सौहार्दमु	कनिंदमनम्, करुणै	करुण	करुणॆ, सहृदयतॆ
रसज्ञता	रसज्ञता	सहृदयता	रसज्ञता, रसिकता, सहृदयता	रसज्ञता, रसिकता, सहृदयता	रसचुप्पा/ रस खङ्बा	रसिकता, सहृदयता	सहृदयतॆ	रसिकत्तन्मै	सहृदयत्वम्	रसिकतॆ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सांकेतिक	वि.	संकेत संबंधी, संकेत रूप में होने वाला	साङ्केतिक	संकेतक	अलामती	अलामती	अलामती, संकेतिक	सांकेतिक
सांगोपांग	वि.	सभी अंगों और उपांगों सहित	साङ्गोपाङ्गम्	संपूरन	मुकम्मल	सोंगूपांग	पूरो, समूरो, संपूरन	सांगोपांग
सांत्वना	स्त्री.	शोकाकुल या संतप्त व्यक्ति को शांत करने या समझाने-बुझाने की क्रिया, तसल्ली	सान्त्वना	धारस, दिलासा	तसल्ली	तसुॅली	दिलासो, ड॒ढु, तसल्ली	सांत्वन
साकार	वि.	1. मूर्त, आकारयुक्त	साकार	साकार	मुजस्मम	साकार	साकार, रूपवारो	मूर्त, साकार
		2. बात या योजना, जिसे क्रियात्मक रूप प्राप्त हुआ हो	साकार	साकार	तश्कीलयाफ़ता	–	–	सक्रिय योजना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सांकेतिक	सांकेतीक	साङ्केतिक, इसाराका रुपमा बताइने	सांकेतिक, सङ्केत-कारक, इशारा	सांकेतिक, संकेत संबंधी	इंगित्ला खङ्नबा	सांकेतिक, संकेत, सूचना, इशारा, आभाष, इंगित	सांकेतिकमैन॑	अडैया-ळमान	सांकेतिकम्	संकेतद, सांकेतिक
सांगोपांग	सांगोपांग	अङ्गप्रत्यङ्ग-युक्त, साङ्गोपाङ्ग	साङ्गो-पाङ्गो	सांगोपांग, अंग आरु उपांग-सहित	मशा पुंबगी ओइबा	सर्बांग, देहर-समस्त-अंश	सांगोपांगमु	मुळुमैयान	सांगोपांगम्	सांगोपांग
सांत्वना, आश्वासन	सांत्वना	सांत्वना, ढाढस	सांत्वना, प्रबोध-दान	सांत्वना, आश्वासन	थेम्जन्बा फाथबिवा	सांत्वना, आश्वासना, प्रबोध, दुखोपोनोदन	ओदार्पु, ऊरडिंपु	आरुदल्	सांत्वनम्, आश्वासम्	समाधान
साकार, मूर्त	साकार	साकार, आकृति-युक्त	साकार, आकारयुक्त (ज)	साकार, मूर्त, रुपायित	मओङ् नाइबा, मशक् नाइबा	साकार, बास्तबता, बास्तबिकता, सत्यता, बस्तुता	साकारमैन॑	उरुवमुळ्ळ	मूर्तम्, साकारम्	साकार, रूपवुळ्ळ
सक्रिय योजना	क्रियाशील	कार्यरूपमा परिणत भएको, मूर्त रूप	कार्यकरी परिकल्पना (ज)	रूपायित, क्रियाशील	थबक् ओइरक्पा	रूपायित, कार्यकारी	कार्यरूपमु पोंदिन॑	अमुला-क्कप्पट्ट	सफलम् नटप्पिलाक्किय	कार्यरूप गॊळिसिद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साक्षरता	स्त्री.	पढ़े-लिखे होने का भाव	साक्षरता	साखरता	ख़्वांदगी	खांदगी-लीखिमुॅल्य	तालीम-याफ़्ताई, साखरता	साक्षरता
साजन	पुं.	1. पति, स्वामी	पतिः	सज्जण	शौहर	रून, बरथा	साजनु, सज़्ज़णु	पति, स्वामी
		2. प्रेमी	प्रेमिन्	सज्जण	आशिक़	यावनमोॅत	साजनु, प्रेमी	प्रियकर, साजण
साज-सामान	पुं.	1. सामग्री, उपकरण, असबाब	सामग्री	साज-समान	साज़ोसामान	साजुॅ-सामान	साजु-सामानु	साजसरंजाम
		2. ठाठ-बाट	सज्जा	–	असबाब	असबाबुॅ	ठाठ-बाट	थाटमाट
साझेदारी	स्त्री.	हिस्सेदारी, शराकत	सह, सहकारः	भाईवाली	शिराकत	हिसुॅदॉरी	हिसेदारी, भाईवारी, भाग़ीदारी	भागीदारी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साक्षरता	साक्षरता	साक्षरता	साक्षुरता (क्ख)	साक्षरता, आसरर ज्ञान-थका	इबा-पाबा ङम्बा	साक्षयरता, लेखा-पढ़ा	अक्षरास्यतॅ	एॅळुत्तरिवु	साक्षरत्वम्	साक्षरतॅ
साजन, पति	घोव	स्वामी, पति	स्वामी	पति, स्वामी, गिरियेक	मपुरोइबा	पति, स्वामी	भर्ते	कणवन्	पति, भर्त्तावॅु	गंड, यजमान, मनेयव
प्रेमी	मोगी, प्रेमी	प्रेमी	प्रेमी, प्रेमिक	प्रेमिक, प्रणयी, भक्त, प्रेमसक्त	नुङ्शिनबा नुपा	प्रणयी, प्रेमिक	प्रियुडु	कादलन्	कामुकन्	प्रेमि
साज-सामान	साज सामान	सर-सामान, मालमत्ता	साज-सरञ्जाम, जिनिसपत्र, उपकरण	साज-सरंजाम, सा-सजुलि	तङ्ङाइ-फदबा पोत्चङ्	जिनिष-पत्र, उपकरण, साज-सरंजाम	साधनॅ सामग्रि	सादनंगळ्, करुविगळ्	उपकरणम्, सामग्रि	सज्जु-सरंजाम
ठाठमाठ	थातोमातो	ठाँटबाँट, सजधज	जाँकजमक, ठाटबाट, साज-सज्जा	जाक-जमक	अरङ् अराक्की पोत्लम	साज-सज्जा, जाक-जमक, चाक-चक्य, थाट-बाट	पटाटोपमु	दडबुडल्	आडंबरम्	आडंबर
भागीदारी	हिस्सेदारी	साझेदारी, हिस्सेदारी	भाग, अंशीदारि	अंशीदारि	शरुक् याबा	अंशीदारि, भाग	भागस्वाम्यमु	कूट्टु (वियाबार-त्तिल्)	पंकाळित्तम्, पंकॅु	पालुगारिकॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सात्विक	वि.	सतोगुणी, सत्वगुण-प्रधान, अनुभूति या भावनाजन्य	सात्त्विक	सातविक	सालेह	सतूगुनी	सात्विक, सतोगुणी	सात्विक
सादर	क्रि. वि.	आदरपूर्वक, इज्जत से	सादरम्	आदर समेत, सतिकार नाल, माण नाल	मुअद्दबाना	य़ज़तुं सान	आदर सां, इज्ज़त सां	आदर पूर्वक, सादर
सादा	वि.	1. खालिस, बिना मिलावट	विशुद्ध	सादा	सादा	सादुं	सादो, ख़ालिस	विशुद्ध
		2. जिसमें किसी तरह की उलझन, पेंच की बात या बनावट न हो, सरल	सरल	सादा	आसान	–	सिधो	साधा, सरळ
सादृश्य	पुं.	समानता, तुल्यता, बराबरी	सादृश्यम्	समानता	मुमासलत	बराबरी, हिशर	साग़ियाई समानता	समानता, बरोबरी, सादृश्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सात्विक	सात्विक	सत्वगुणले भरिएको, सात्विक	सात्विक, सत्वगुण संबंधीय, सत्वगुण विशिष्ट मनोभाव संपन्न	सात्विक सत्व- गुण- संबंधी, उत्तम गुण विशिष्ट	सतगुण याओबा	सात्विक, सत्वगुण- संबंधीय, नीतिगत, न्याय- संगत	सात्विकं- मयिन	सातुविक- मान	सात्विकम्	सात्विक
सादर	सादर, मान	आदरपूर्वक, सादर, ससम्मान	सादरे	सन्मानपूर्बक, ससन्माने, आदर मरम आंतरिक संभाषन	इकाइ- खुम्नना	सम्मान- सहकारे, सादर, सम्मान- सहित बा- पुर्बक	आदरपुर्वकं - मुगा	मरियादै- युडन्	आदरपूर्वम्	आदर- पूर्वक
विशुद्ध	सरल	विशुद्ध	खाँटि	बिशुद्ध, खाँटि, धर्मपरायण	यांदबा	शुद्ध, बिशुद्ध	निराडंबरं - मैनं	कलप्पड- मट्ट	कलर्प्पि- ल्लात्त	सराळ, सात्विक
सादुं, सरळ	शुद्ध	सोझो, सरल, छलकपट नभएको	सोजा, सरल, सादा सिधा	सरल होजा, उजू	अतिङ्बा, अचंबा	सरल, बिशुद्ध	सरळमैनं	सादा	नेर्वळि- क्कुळ्ळ	सरळवाद
सादृश्य, समानता	सादृश्य	समानता, सादृश्यु	सादृश्य, एकरूपता, तुल्यता	सादृश्य, मिल, तुल्यता	मान्नबा	सादृश्य, सामंजस्य, तुलना, समानता	सादृश्यमु, समानतं	ऑरुमैप्पाडु	सादृश्यम्	समानतं

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साधन	पुं.	1. सामान, सामग्री, उपकरण	साधनम्	साधन	सामान	ज़ॅरियि	साधनु, ज़रिओ	साधन, सामग्री
		2. कोई ऐसी चीज या वस्तु, जिससे कुछ कर सकने की शक्ति आती है (मीन्स)	साधन	साधन	ज़रीया, ज़रीआ	–	उपाउ, वसीलो	साधन, उपाय
		3. जिसके सहारे कोई काम पूरा होता है (रिसोर्सिस)	साधनम्	साधन	वसीला	वसीलुँ	ज़रीओ, वसीलो	साधन संपत्ती
साधना	स्त्री.	1. कोई कार्य सिद्ध करना	साधना, उपासना	साधना	तक्मील	सादना	साधना	साधना, पूर्ती
		2. ऐसी आराधना या उपासना, जो बहुत कष्ट सहते हुए मनोयोगपूर्वक की जाती है अथवा किसी महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने के लिए त्याग तथा परिश्रम से किया गया प्रयत्न या प्रयास	तपश्चर्या, आराधना	साधना	रियाज़त	अबादथ, रियाज़	साधना, रियाज़	साधना, उपासना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साधन, उपकरण	साधन	उपकरण, औजार	सामग्री, उपकरण	सामग्री, उपकरण, सधाकार्मर समग्री साधन	पोत्लम	आबश्यकीय-जिनिष, साधन, सामग्री	साधनमु	सादनंगळ्, दळवाडंगळ्	उपकरणम्	सलकरणं
उपाय, साधन	उपाय	साधन, उपाय	उपाय करण (न)	उपादान, सँजुलि	पांबै, उपाय	उपादान, साधन	साधनमु	सादनम्	वळि	साधन
साधन संपत्ति	संसाधन	संसाधन	साधन, सहाय	साधन-सामग्री, साधनार सामग्री	थबक् पाङ्थोकपदा मतेङ् ओइरिबा मी	आवश्यक-पदार्थ, सामग्री, संपद, भंडार	साधनमु	वशदिगळ्	विभवं	साधन-सौलभ्य
साधवुं ते	साधना	साधना	कार्य संपादन, साधना	साधन, पूरण	थबक पाङ्थोक्पा	साधन, पूरण, संपादन, संपुर्ण	साधन	सादित्तल्	कार्यम् नेटल्	कार्यसिद्धि
साधना, उपासना	उपासना	उपासना, तपश्चर्या, आराधना, साधना	आराधना वा उपासना (तांत्रिक साधना)	साधना, तपस्या, उपासना	अनिङ्बगी मखा पोन्ना होत्लबा	साधना, तपस्या, उपासना	साधन	सादनै, पेरुमुयर्चि	साधन, उपासन	साधनं, पूजे, उपासने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साधारण	वि.	1. जिसमें कोई विशेषता न हो, सामान्य, मामूली	साधारण	साधारन, सधारन	आम	सादारन	साधारण, आम	सामान्य, साधारण
		2. सहज, सुगम, सरल	सरल	सधारन	आसान	स्योंद सादुँ	सवलो, सहज	सुगम, सरल
साधु	पुं.	1. संत, महात्मा	साधुः	साधू	पारसा, नेक	साद	साधू	साधु, संत
		2. बढ़िया, उत्तम	साधुः	वधीआ	नेक	रुँत	–	उत्तम
		3. सज्जन, भला आदमी	साधुः	साऊ	शरीफ़	रुँत मनोश	सज॒णु, सखर माण्हू	सज्जन, साधू
साध्य	वि.	1. जो सिद्ध या पूरा किया जा सके	साध्य	साधण जोग	क़ाबिले-अमल (मुम्किन)	स्यद	पूरो करण जोगो॒	साध्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साधारण, सामान्य	साधारण	मामुली, साधारण	विशिष्टता वर्जित, साधारण (न)	साधारण, गतानुगतिक, विशेषत्व-हीन, उमैहतीया	इचम् चँबा, इतिङ् तिङ्बा	साधारण, सामान्य, मामुलि	साधारणमैनँ	सादारणमान	साधारण	साधारणवाद, सामान्यवाद
सुगम, सरळ	सहज	सजिलो, सरल, सहज	सहज, सरल	सहज, सुगम, सरल, उमैहतिया	अराइबा	सहज, सुगम, सरल	सरळमैनँ	एंळिदान	साधारण	सहजवाद
साधू, साधु	संत	साधु, संत	साधु, महात्मा	सत, साधु	साधु	साधु, महात्मा	साधुवु	सादु, महात्मा	महात्मावुँ, सन्यासि	संत, महात्म, साधु
सारुं, उत्तम	उत्तम	राम्रो, उत्तम	उत्तम, उत्कृष्ट	भाल, उत्तम	अथोइबा	उत्तम, उत्कृष्ट	साधुवु	चिरुंद	श्रेष्ठम्	ओळ्ळय
सदा-चारी	सज्जन	सज्जन, शिष्ट	सत् (व्यक्ति), शिष्ट, भद्र	सत्पुरुष, भालमानुह	अफबा, लैबाक मचा ताबा	सज्जन, भल-मणिष	साधुवु	नल्लवर्	साधु	सज्जन
साध्य	साध्य	साध्य, संभव	साध्य, साधनीय	साध्य, यिटो-साधिब-करिब	पाङ्थोक्क दौरिबा थबक्	साध्य, संभबपर, संभाब्य	साध्यमु	साद्दियमान	साध्यम्	साध्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. (रोग आदि) अच्छा करने योग्य	साध्य	साधण जोग	क़ाबिले इलाज	यलाजस लायख	छुटण जोगो	चिकित्सा योग्य
सान्निध्य	पुं.	निकटता, समीपता	सान्निध्यम्	नेड़	क़ुर्बत	नखुं, निशुं	वेझाई, साथ	सान्निध्य, सामीप्य
सापेक्ष	वि.	जो किसी की अपेक्षा रखता हो, जो दूसरों पर अवलंबित हो	सापेक्ष	सापेख	मोहताज	कॉंसि-प्यठ, अलोंद, मोहताज	निस्बती, बिए ते आधार रखंदड़ु	सापेक्ष
साफ	वि.	स्वच्छ, शुद्ध, स्पष्ट	स्वच्छ, निर्मल	साफ	शफ़्फ़, साफ़, बेशक	साफ, नोंकसुॅ-वरॉय	साफ़, निर्मल	स्वच्छ, निर्मळ, त्रुटिहीन, निस्संदेह

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
चिकित्सा योग्य	चिकित्सा योग्य	चिकित्सा योग्य	साधन-योग्य (चिकित्सा), साध्य	(रोग) भाल करिब परा	फहनग-दौबा	आरोग्य	साध्यमु	सरिप्पडुत्त-क्कूडिय	साध्यम्	गुणपडिसुव
सान्निध्य, समीपता	सान्निध्य	सान्निध्य, सामीप्य	सान्निध्य, सामीप्य, नैकट्य	सान्निध्य, समीपता, निकटता	नक्नबा	सान्निध्य, समिपता, निकटता	सान्निध्यमु	अरुगामै, अणुक्कम्	सॉनिध्यम्	सामीप्य, सान्निध्य
सापेक्ष	सापेक्ष	अर्काको आशा राख्ने, सापेक्ष	सापेक्ष, अपेक्षायुक्त (क्ख)	सापेक्ष, अपेक्षा-करा, किहनार-उपरत निर्भर करा	मतेङ् लौबा	निर्भर-करिबा, अबलंबन-करिबा, बिश्वास-करिबा, आस्था-स्थापन-करिबा	सापेक्षमु	पिरै नंबियिरु-क्किर	सापेक्षम्	सापेक्ष
साफ, निर्मल, त्रुटिहीन, निस्संदेह	स्वच्छ, त्रुटिहीन, निस्संदेह	सफा, निर्मल, साफ, त्रुटिरहित, स्पष्ट, खुलस्त, निस्संदेह	परिष्कृत, स्वच्छ, निर्मल, साफ सुडौल/ सुडोल, सुगठित	चाफा, निर्मल, स्वच्छ, निर्दोष, त्रुटिहीन, नि:संदेह	अशेङ्बा, मोत्तबा अरुबा, शोयदबा, चिङ्न-निङ्ङाइ ओइद्रबा	सफ़ा, निर्मल, स्वच्छ, निर्दोष, त्रुटिहीन, नि:संदेह, संदेह-रहित, असंदिग्ध	स्वच्छमैन, स्पष्टमैन	शुद्दमान, पिळैयट्ट, कुळप्पमट्ट संदेहमट्ट	वृत्तियुळ्ळ, निर्मलमाय, कुट्टमिल्ला संशय रहितमाय	स्वच्छ, चोक्कटवाद, निभ्रांत, स्पष्टवाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साबुन	पुं.	नहाने या कपड़े धोने का एक पदार्थ (सोप)	फेन	साबण	साबुन	साबन	साबुणु	साबण
सामंजस्य	पुं.	वह स्थिति, जिसमें परस्पर किसी प्रकार की विपरीतता या विषमता न हो, संगति, अनुकूलता	सामञ्जस्य	अनुकूलता	मुताबक़त	मिलुॅच़ार	मुनासिबत, समानता	सामंजस्य
सामग्री	स्त्री.	1. आवश्यक वस्तुओं का समूह, सामान	सामग्री	समग्गरी	सामान	सामुॅग्री	सामग्री, सामानु	सामग्री, सामान
		2. किसी उत्पादन, निर्माण रचना आदि के सहायक अंग या तत्व	सामग्री	समग्गरी	मवाद (मसाला)	सामानुॅ	सामान-सड़ो	सामान, साहित्य
सामने	अव्य.	1. आगे, समक्ष	समक्षम्	साह्मणे, साह्वें	सामने	ब्रोहंकनि	साम्हूं	समोर
		2. मुकाबले में	अपेक्षया	साह्मणे, साह्वें	मुक़ाबलतन	–	–	तुलनेने

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साबु	साबांव, शाबू	साबुन	साबान	चाबोन	सापोन्, सोप	साबुन	सब्बु	सोप्पु	सोप्पुॅ	साबूनु, सबकार
सामंजस्य	सामंजस्य	अनुकूलता, मिल्दोपना, सामञ्जस्य	सामञ्जस्य, औचित्य, संगति	सामंजस्य, संगति	चाशन्नबा	सामंजस्य, संगति, अनुकूलता	सामंजस्यमु	पोरुत्तम्	सामंजस्यम् , पोरुत्तम्	सामंजस्य
सामग्री	सामग्री	सरसामान, सर्जाम, सर्दाम	सामग्री, जिनिसपत्र	सामग्री, संजुलि	पोत्लम	सामग्री, उपादान, जिनिष पत्र, आबश्यकीय जिनिषपत्र	सामग्रि	सामान्गळ्, पंडंगळ्	सामग्रि	सामानुगळु, सरंजामु
सामान, साहित्य	साहित्य	सामग्री, साधन	उपादान, उत्पादन-तत्त्व	उपादान, उत्पादक-तत्त्व	पोत्चङ्	उपादान, आबश्यकीय पदार्थ	सरुकु	तुणै-पोरुळ्गळ्	साधनम्	सामानु, सामग्री
सामे, आगळ, रूबरू	मुखार, सामकार	सामुन्ने, अगाडि	आगे, सम्मुखे, सामने	समुखते, उचरते, उसरते	माङ्दा	आगरे, सम्मुखरे	मुंदु, एंदुरुगा	एंदिरे	मुन्पिल्, ऐतिरे, नेरे	मुंदे
मुकाबले	परस	सामु, दाँजोमा	मुखोमुखि (क्ख) (मुखोमुखि)	मुखामुखिकै	लाँबा तौबदा, येङ्नबदा	तुलनारे, अपेक्षाकृत, तुलनाकृत	एंदुट	मुन्	अपेक्षिच्चुॅ	एदुरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सामर्थ्य	पुं.	कोई कार्य करने की योग्यता और शक्ति	सामर्थ्यम्	समरत्था	मक्दूर, क़ुद्रत	ताकथ, सामरथ	समर्थी, सघ, ताकत	शक्ती, सामर्थ्य
सामयिक	वि.	1. समयोचित, ठीक समय में	यथासमयम्, कालोचित	समेसिर	बरवक़्त	वकती	वक़्ताइतो	समयानुकूल
		2. वर्तमान समय का	अद्यतन	अजोका	असरी	ॲज़्युक	हलंदड़ वक्त जो	वर्तमानकालीन
सामाजिक	वि.	समाज का, समाज से संबंध रखने वाला	सामाजिक	समाजिक	समाजी	समॉजी	समाजिक, समाजी, पंगती	सामाजिक
सामान्य	वि.	1. मामूली	सामान्य	ममूली, मामूली	मामूली	मोमूली	मामूली, रिवाजी	सर्वसाधारण, सामान्य
		2. सार्वजनिक, आम	सार्वजनिक, सार्वजनीन	आम	आम	मोमूली	आम	सार्वजनिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सामर्थ्य, शक्ति	सामर्थ्य	क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य	सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, शक्ति	सामर्थ्य	तौ ङम्बगी शक्ति	सामर्थ्य, जोग्यता, क्षमता, शक्ति	सामर्थ्यमु	सामर्त्तियम् तिरुमै	सामर्थ्यं, कऴिवुॅ	सामर्थ्य, योग्यते
सामयिक	सामयीक	समयको, समया-नुकूल,	सामयिक, समयोचित	समयोचित	मतम चाबा	सामयिक, समयोचित, ठिक-समयरे	समयानु-गुणमैन	समयो-चितमान	समयोचितम्	समयोचित
वर्तमान समयनुं	वर्तमान-कालीन	समयोचित, वर्तमान बेलाको, सामयिक	बर्तमान समय	सामयिक, बर्तमान समयर	हौजिक्की	सामयिक, बर्तमान-समयरे, आजिकालि, एबे	प्रस्तुतमु	तर्पोदैय	तात्कालिकम्	इंदिन
सामाजिक, समाजनुं	सामाजिक, समाजीक	सामाजिक, समाजको	सामाजिक, समाज-संबंधीय	सामाजिक	समाज गी ओइबा	सामाजिक, समाज-संबंधी	सामाजिक-मैन, सांघिकमैन	समूगम् चार्द	सामूह्यम्	सामाजिक
सामान्य, मामूली	सामान्य	मामुली, साधारण	सामान्य, साधारण	सामान्य, विशेषत्व न थका, साधारण	इचम-चंबा	सामान्य, साधारण	सामान्यमैन	सादारणमान	साधारण	सामान्य, साधारण
सार्वजनिक	सार्वजनीक	सार्वजनिक, सामान्य	सर्ब-बिषयक, सर्बजनिन	सार्बजनिक	ममामगी ओइबा	सार्बजनिक, सार्बजनीन	सार्वजनीन-मैन	पोदुवान	पोतु	सार्वजनिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साम्राज्य	पुं.	वे अनेक राष्ट्र या देश, जिन पर कोई एक शासन-सत्ता राज्य करती हो	साम्राज्यम्	सामराज	सामराज, सल्तनत	सामराज	साम्राजु, सल्तनत	साम्राज्य
साम्राज्य-वाद	पुं.	वह सिद्धांत, जिसमें यह माना जाता है कि किसी देश को अपने अधिकृत देशों में वृद्धि करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए (इम्पीरियलिज्म)	साम्राज्यवादः	सामराजवाद	सामराजियत, मुलूकियत	सामरॉजी	साम्राजवाद, सल्तनतशाही	साम्राज्यवाद
सामुद्रिक	वि.	समुद्र संबंधी, समुद्र से संबंध रखने वाला	सामुद्रिक, सामुद्र	समुंदरी	बह्‌री (समंदरी)	समंदरुक, समंदरस-सूँत्य-वाबॅस्तुँ	सामूंडी	सामुद्रिक, सागरी
	पुं.	फलित ज्योतिष की वह शाखा, जिसमें मनुष्य की हस्त रेखाओं और शरीर के चिह्नों आदि के शुभ-अशुभ फल पर विचार होता है	सामुद्रिकम्	सामुद्रिक	इल्मुलयद् (इल्मेक़ियाफ़ा)	जोतिश फल	हथ-पेर-ज्योतिष, रेखा-फल	सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साम्राज्य	साम्राज्य	साम्राज्य	साम्राज्य	साम्राज्य	निङ्थोरेल अमगी मखादा लैबा अपुन्बा लैबाक्, साम्राज्य	साम्राज्य	साम्राज्यमु	साम्राज्यम्	साम्राज्यम्	साम्राज्य
साम्राज्य-वाद	साम्राज्यवाद	साम्राज्यवाद	साम्राज्यबाद	साम्राज्यबाद	लोइलम शंदोक्पा	साम्राज्यबाद	साम्राज्य-वादमु	एकादि-पत्तियम्	साम्राज्यवादं, एकाधिन्यम्	साम्राज्यवाद
सामुद्रिक	सामुद्रीक	सामुद्रिक	सामुद्रिक, समुद्र-संबंधीय	सामुद्रिक, सागर-संपर्कीय	समुद्रगा मरि लैनबा	सामुद्रिक, समुद्र-संबंधीय	समुद्र-संबंध-मयिनॅ	कडल् संबंदमान	समुद्र-संबंधमाय	सामुद्रिक
सामुद्रिक-शास्त्र, ज्योतिष	सामुद्रीक शास्त्र	समुद्र सम्बन्धी, समुद्रको, सामुद्रिक	ज्योतिष शास्त्र, देहस्थ अन्यान्य चिह्नद्वारा शुभाशुभ निर्णयेर शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र (न)	(फलित ज्योतिषत) सामुद्रिक बिचार	खुबाक मयि येङ्बा	ज्योतिष-शास्त्र	हस्त-सामुद्रिकमु	सामुद्दिरिका शास्तिरम्, मुगम् पार्त्तु कुरि चॉल्लल्	सामुद्रिक शास्त्रम्	सामुद्रिक शास्त्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सामूहिक	वि.	कई व्यक्तियों (समूह) द्वारा किया जाने वाला	सामूहिक	समूहक	इज्तिमाई	मजमूही	गड्डियलु, मज्मूए जे रूप में	सामुदायिक
सार	पुं.	1. मूल भाग, सत	सारः	सार	जौहर	सार	सारु, सतु	सत्व, सार
		2. तात्पर्य या निष्कर्ष, सारांश	सारः	सार	लुब्बे-लुबाब	लुबि लुबाब	लुब्बे लुबाबु	सारांश, तात्पर्य
सारणी	स्त्री.	वर्गीकृत सूची (टेबल)	सारणी	सारणी	नक़्शा	लिस्ट	टेबल, ख़ाको	तक्ता, पत्रक, टेबल, सारणी
सारांश	पुं.	संक्षिप्त रूप, सार, निचोड़, उपसंहार	सारांशः	निचोड़	खुलासा	लुबिलुबाव	सारु, निचोड़ु	सारांश, तात्पर्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सामूहिक	सामुहीक	समूहको, सामूहिक	सामूहिक	सामूहिक, सकलो लोक संबंधी, समूहिया	अपुन्बा	सामूहिक, समबेत, मिलित, जौथ, समष्टि	सामूहिकमु	समूगत्तिय	सामूह्यम्	सामूहिक
सार, सारुं	सार	मुख्य अंश, तत्त्व	सार, मूल वा उत्कृष्ट अंश	सार, मूल, श्रेष्ठ-अंश	मचङ्	सार, मूल, उत्कृष्ट-अंश	सारमु	सारम्, सत्तु	सारम्, सत्तुॅ	मूलभाग
सारांश, तात्पर्य	सारांश	निचोर, निष्कर्ष, मजबुन	सारांश, तात्पर्य, निष्कर्ष (ज)	सारांश, सार, सार-कथा	वा-मचङ्	सारांश, सार, चुंबक, संक्षेप, संक्षिप्त	सारांशमु, तात्पर्यमु	करुत्तु, सारांशम्	आशयम्, चुरुक्कम्	सारांश
सारणी, कोठो	सारणी	सारणी, तालिका	सारणी/ सारणि, तालिका, निर्घण्ट	तालिका, फलि	टेबल	सूची, तालिका, सारणी, निर्घण्ट	पट्टिकॅ	अट्टवणै	पट्टिक	सारणि, पट्टि
सारांश, तात्पर्य	सारांश	निचोर, निष्कर्ष सारांश	सारांश, सारांशरूप, उत्कृष्ट अंश, उपसंहार	सारांश, मर्मार्थ	वा मचङ्, वारोइसन	सारांश, सार, उपसंहार, संक्षिप्त, संक्षेप	सारांशमु	सारांशम्, चुरुक्कमान करुत्तु	सारांशम्, पॅारुळ्	सारांश, तात्पर्य

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सारा	वि.	कुल, समस्त, पूरा, समग्र	समग्र	सारा	सारा	सोरुय	सारो, समूरो, सजो, पूरो	समग्र, समस्त
सार्थक	वि.	जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थवान	सार्थक	सारथक	बामानी	मानेदार	अर्थवारो	सार्थक, उपयोगी
सार्वजनिक	वि.	1. सर्वसाधारण-संबंधी	सार्वजनिक	जंतक	अवामी	आम	सर्वजनी, अवामी	सर्वसाधारण
		2. समान रूप से सब लोगों के काम आने वाला	सार्वजनीन	जंतक	अवामी	आम लूकन-हुंद	आम, अवामी	सार्वजनिक
सावधान	वि.	सचेत, सतर्क, खबरदार	सावधान	साबधान	ख़बरदार	खबरदार	सावधान, ख़बरदार	सावधान, सतर्क
साहित्य	पुं.	ग्रंथों का समूह, किसी भाषा की समस्त गद्य तथा पद्यात्मक रचनाएँ	साहित्यम्	साहित्त	अदब	अदब	साहित्यु, साहितु, अदबु	साहित्य, वाङ्मय

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सारूं, आखुं	समग्र	जम्मै, संपूर्ण, भएजति सबै	सारा, समस्त, समग्र	समष्ट, सकलो	पुम्नमक्	सारा, समस्त, पूरा, समग्र, सकल, पूरापूरि	समस्तमु, अंता	मुळ्, एॅल्ला	समस्तम्, एॅल्लाम्	एॅल्ला
सार्थक, उपयोगी	सार्थक	अर्थपूर्ण, सार्थक	सार्थक, अर्थयुक्त (ज)	अर्थयुक्त, अर्थपूर्ण, सफल	अर्थ थोक्पा, अर्थ लैबा	सार्थक, उपजोगी	सार्थकमु, अर्थवंतमु	अर्त्तमुळ्ळ	अर्थवत्ताय	सार्थक
—	सर्व-साधारण	सार्वजनिक	सर्बजनीण	सार्बजनिक	मीयामगी ओइबा	सार्बजनिक, जन-साधारणंक पाइं	सार्वजनीनमैनॅ	पोदुमक्कळ् चान्र्द	सर्वसाधारण-माय	सार्वजनिक
सार्वजनिक	सार्वजनिक	सार्वजनिक, सबैसित संबंधित	सर्बहित-कर	साधारण, सकलोरे कामत अहा	मीयामगी ओइबा	सार्बजनिन, जनहितकर	सार्वजनीनमैनॅ	एॅल्लोरुक्कुम् पयन् पडुगिर	पॉतुतात्पर्य-मुळ्ळ	एॅल्लरिगू सेरिद
सावधान, सावचेत	सावधान	होसियार, सावधान	साबधान, सतर्क	सावधान, सतर्क	चेक्शिन्बा	साबधान, सतर्क, सचेतन	हॅच्चरिकॅ-गलॅ	गवनत्तुडन् कूडिय	श्रद्धयुळ्ळ	एॅच्चरिकॅ
साहित्य	साहित्य, वाङ्मय	साहित्य	साहित्य	साहित्य	साहित्य	साहित्य, सारस्वत	साहित्यमु	इलक्कियम्	साहित्यम्	साहित्यिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
साहित्यकार	पुं.	साहित्य की रचना करने वाला	साहित्यकारः	साहित्तकार	अदीब	अदीब	साहित्यकारु, साहितकारु	साहित्यकार, साहित्यिक
साहूकार	पुं.	बड़ा व्यापारी, महाजन	महाजनः	शाहुकार	साहूकार	महाजन	शाहूकारु	सावकार
सिंगार (शृंगार)	पुं.	सजाने की क्रिया, सजधज	शृंगारः	शिंगार	सिंगार	सिंगार	सींगारु	शृंगार
सिंगारदान	पुं.	शृंगार की सामग्री रखने का छोटा संदूक	शृंगारपेटिका, शृंगारमञ्जूषा	शिंगारदान	सिंगारदान	सिंगारदान	सींगारदानु, सींगार जी पेती	फणी पेटी
सिंदूर	पुं.	एक प्रकार का लाल चूर्ण, जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ माँग में भरती हैं	सिन्दूरः	संधूर	सिंदूर	स्यंदुॅर	सिंधूर, सिंदूर	शेंदूर
सिंहनाद	पुं.	सिंह का गर्जन, युद्ध आदि के समय गरज कर की जाने वाली ललकार, जोरदार शब्दों में ललकार कर कही जाने वाली बात	सिंहनादः, युद्धगर्जना	सिंघनाद	दहाड़, शद्दे मुख़ालिफ़	सुॅहुग्रजुन, जंगुॅक्रख	शींहं जी गजगोड़	सिंह गर्जना, सिंहनाद, युद्धगर्जना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
साहित्य-कार	साहित्यकार	साहित्-कार	साहित्यिक	साहित्यकार, साहित्यिक	साहित्य इबा	साहित्यकार, साहित्यिक	साहित्यवेत्त	इलक्कियकर्ता, पडैप्पाळि	साहित्य-कारन्	साहिति, लेखक
शाहुकार	सावकार	महाजन, साहूकार	साहुकार, बणिक	सदागर, बर-महाजन	महाजन, अचौबा व्यापार तौबा	साहुकार, बेपारी, महाजन	षाहुकारु	पेरिय वियापारी, लेवादेवि-क्कारन्	उण्टियल् व्यापारि	साहुकार, व्यापारी
शणगार	शृंगार	सिँगार, सजि-सजाउ	सज्जा, प्रसाधन	प्रसाधन, साजन-काचन, धुन-पेच	लैतेङ्	बेश-भूषा, प्रसाधन	सिंगारमु, अलंकारमु	ऑप्पनै, अलंकारम्	अलंकारम्, चमयम्	शृंगार, सिंगार
शणगार पेटी	शृंगार पेटी	सिँगार-दानी	प्रसाधन-पेटिका	प्रसाधन वस्तु, रखा चंदुक	लैतेङ्गी पोत् हाप्फम	प्रसाधन-पेड़ी, सिंगार-दानी	सॊम्मुलॆ-पॆट्टॆ,	ऑप्पनै पॆट्टि, अळगु सादन प्पॆट्टि	आभरण-प्पॆट्टि	शृंगार-पेट्टिगे
सिंदूर	सेंदूर	सिँदुर, सिन्दूर	सिंदूर	सिंदुर, सेंदुर	सिंदूर	सिंदूर	कुंकुमॆ	कुंकुमम्	सिंदूरम्, कुंकुम्	कुंकुम
सिंह गर्जना, सिंहनाद, युद्धगर्जना	सिंह गर्जना, जूझ-नादी	सिंहनाद, सिंहको गर्जन, ललकार, हाँक, हुङ्कार	सिंहनाद, सिंहेर गर्जन, युद्धेर आह्वान (ज)	सिंहर गर्जन, रणहुंकार, रणनिनाद	नोङ्शाना ङङ्बा नोङ्शागी खोल्लाओ	सिंहनाद, सिंह-गर्जन, सिंहनाद, रणहुँकार, जुद्ध आह्वान	सिंहगर्जनॆ, सिंहनादमु	सिंगत्तिन् गर्जनै, अरैकूवलै-कुरिक्कुम् गर्जनै	सिंहगर्जनम्, सिंहनादम्	सिंहगर्जनॆ, सिंहनाद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सिंहासन	पुं.	राजा का आसन, राजगद्दी	सिंहासनम्	सिंघासन	तख़्त, सिंघासन	राजगॉद्य, सिंगासन	राज॒गदी, तख़्तु	सिंहासन
सितारा	पुं.	1. तारा, नक्षत्र	नक्षत्रम्, तारा	सितारा, सतारा	सितारा	तारुख	तारो, सितारो	तारा, नक्षत्र
		2. भाग्य	सौभाग्य	सितारा, सतारा	क़िसमत	–	सितारो, नसीबु	नशीब
सिद्धांत	पुं.	1. निश्चित मत जिसे सत्य के रूप में ग्रहण किया जाए (प्रिंसिपल)	सिद्धान्तः	असूल, सिधांत	उसूल	ओंसूल	उसूल, सिद्धांत, सिधांत	–
		2. विचार, तर्क और प्रयोग द्वारा सिद्ध मत; कला, विज्ञान आदि के संबंध में कोई ऐसी मूल बात जो किसी विद्वान द्वारा प्रतिपादित हो और जिसे बहुत से लोग ठीक मानते हों। (थीअरी)	सिद्धान्तः	सिधांत	नज़रिया	ओंसूल	सिद्धांत	सिद्धांत
सिपाही	पुं.	1. फौजी, सैनिक	सैनिकः	सिपाही, सिपाई	सिपाही	सिपाह, फ़ूजी	सिपाही	सैनिक, शिपाई
		2. पुलिस विभाग का साधारण कर्मचारी	आरक्षक	–	सिपाही	–	फ़ौजी	पोलिस, शिपाई

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिंहासन, राजगदी, सिंहासन	सिंहासन	सिंहासन	सिंहासन, सिंहमूर्ति-युक्त आसन (ज)	राज सिंहासन, सिंहासन	निङ्थौ खुभम्, सिंहासन	सिंहासन, राजगादि, सिंहासन, उच्च-आसन	सिंहासनमु	सिंगासनम् अरियणै	सिंहासनम्	सिंहासन
सितारो, ग्रह, भाग्य	नखेत्र, नक्षत्र, नशीब	तारा, नक्षत्र, भाग्य, किस्मत	तारका, नक्षत्र (क्ख), भाग्य	तरा, नक्षत्र, भाग्य, कपाल	थवान् मिचाक् लाइबक्	तारा, नक्षयत्र, भाग्य, कपाल	नक्षत्रमु अष्टममु	नक्षत्तिरम्, विण्मीन् अदिरुष्टम्	नक्षत्रम् भाग्यम्	नक्षत्र अदृष्ट
सिद्धान्त	मत	सिद्धांत, मत	सिद्धांत	नीति, सूत्र, सिद्धान्त	अचुम्बा वाफमदा युंफम ओइबा अरेप्पा मत, सिद्धांत, प्रिंसिपल	सिद्धांत, सत्य-नीति, सूत्र	सिद्धांतमु	कोळ्गै, कोट्पाडु	सिद्धांतम्, तत्वम्	तत्व, सिद्धांत
सिद्धांत	सिद्धांत	सिद्धांत	सिद्धांत	सिद्धांत, तत्व, मतबाद	थोऑरी	सिद्धांत, तत्व, मतबाद	सिद्धांतमु	तत्तुवम्	सिद्धांतम्, वादम्	तत्व
सिपाई, सैनिक	सैनीक, सैनीक	सिपाही, सैनिक	सैनिक, सेपाइ	सैनिक	लालमी, सिफाइ	सैनिक, सिपाही	सिपायि	शिप्पाय् जवान्	पट्टाळ-क्कारन् ळिप्पायि	सैनिक
पोलिस	शिपाय	प्रहरी, पुलिस	कनस्टेबल	(पुलिचर) चिपाही	पोलिस	सिपाही	पोलीसु	कावलर, टाणाक्कारन्	पोलीसुकारन्	सिपायि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सिफारिश	स्त्री.	1. किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना	संस्तुतिः	सिफारश	सिफ़ारिश	सुफॉरिश	सिफ़ारिश	शिफारस, वशिला
		2. किसी के गुण, योग्यता आदि का परिचय देने वाली बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहना, जो उस पहले व्यक्ति का कोई उपकार कर सकता है, संस्तुति	संस्तुतिः	सिफारश	–	सुफॉरिश	–	शिफारस
सिर्फ	वि.	बस, इतना ही, केवल	केवलम्	सिरफ	सिर्फ़	सिरिफ	सिर्फ़, फ़कत	केवळ, फक्त
सिलसिला	पुं.	एक के बाद एक का क्रम, शृंखला	शृङ्खला, क्रमः	सिलसिला	सिल्सिला	सिलसिलुॅ	सिलसिलो	क्रम
सिलाई	स्त्री.	1. सीने की क्रिया या भाव	सीवनम्, सूचनम्	सुआई	सिलाई	सिलॉय	सिलाई, सेबो	शिलाई, शिवणें
		2. सिलने पर दिखाई पड़ने वाले टाँके	टङ्कः	सुआई	–	सिलॉय	सिलाई	शिवण
		3. सिलने के बदले में मिलने वाली मजदूरी	सूचनभृतिः	सुआई	सिलाई	सिलॉय	सिलाई	शिलाई

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
लागवग, सिफारस	वशिलो, फावोर	भनसुन, सिफारिश	सुपारिश	अनुरोध	तौबिनबा हायजबा	सुपारिश, अनुरोध	सिफार्सु	परिंदुरै, शिपारिशु	शुपार्श	सिफारिसु
भलामण	संस्तुती	संस्तुति, भनसुन	प्रशंसापत्र	अनुमोदन	तौबा ङम्बा मीदा कनागुंबा अमगी मगुन ताक्तुना तौननबा हायजबा	सुपारिश, अनुमोदन	प्रशंसॅ, प्रशंसा-पत्रमु	शिपारिशु	शुपार्श	प्रशंसापत्र
सिर्फ, फक्त, केवळ	फक्त	केवल, मात्र, खालि	शुधु, केबल	केवल, मात्र	शुप्नगी	जथेष्ट, केबल, मात्र	केवलमु, मात्रमु	मट्टुम्	मात्रम्, केवलम्	केवल, बर्रे
सिलसिलो, क्रम	क्रम	सिलसिला, क्रम	अनुक्रम, शृङ्खला	शृंखला, क्रम, अनुक्रम	मथङ् मनाओ	क्रम, शृंखला, अनुक्रम	वरुसॅ, क्रममु	तॉडर्चि	क्रमम्, तुटर्च्चं	क्रम
सिलाई	शिवप	सियाइ	सेलाइ	चिलाइ, सियनि	लोनबा	सिलाइ	कुट्टु	तैयल्	तुन्नुक, तय्क्कुक	हॉलियुविकॅ
सीवण, टांको	शिवण	सिलाइ, टाँका	टाँका, सेलाइ	गाँथनि, चिलनि	किसी	सिलाइ	कुट्टु	तैयल्	तय्यल्	हॉलिगॅ
सिलाई	शिलाय	ज्याला, सिलाइ	सेलाइयेर मजुरी	चिलाइ-खरच बा मजुरि	चिलाह, सियनि	सिलाइ-मजुरि	कुट्टुकूलि	तैयर्कूलि	तय्यल-क्कूलि	हॉलिगॅ कूलि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सिवाय	अव्य.	जो है या हो उसको छोड़कर	अतिरिक्तम्	छुट, बगैर, बाझों	सिवा	सिवाय, रॉस	सिवाइ, बग़ैर	शिवाय
सींचना	स.क्रि.	खेत या पेड़े-पौधों में पानी देना	√सिञ्च्	सिंजणा	सींचना	सग द्युन	पाणी डियणु	पाणी लावणें
सीखना	स.क्रि.	किसी विषय या कला का ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना	√शिक्ष्	सिक्खना	सीखना	हेंछुन	सिखणु	शिकणें
सीधा	वि.	1. जिसमें टेढ़ापन या घुमाव न हो	निष्कपट:	सिद्धा	सीधा	स्योंद	सिधो	सरळ
		2. जिस में छलकपट न हो	सरल	सिद्धा	–	शोंद	निष्कपट	निष्कपट
		3. सरल, सुगम, आसान	सरल	सिद्धा	आसान	सॅहल	आसान	सुलभ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सिवाय, बगर	शिवाय	बाहेक, सिवाय	अधिकंतु, ताछाड़ा	तदुपरि, उपरि, बाहिरे	मदु नत्तना, अदुतनत्ना	अधिकंतु	तप्पँ, काकँ	तविर	कूटार्त	बिट्टु
सींचवुं	उदक घालप, सिचप	सिँच्नु, सिँचाइ गर्नु	सेचनकरा, सेचा	जल सिंचन कर, पानी दिया	चीङ्बा	छिंचिबा, सिंचिबा	नीरु पोयुटँ	नीर्पाय्च्य	ननय्कुक	नीरॅयुवुदु
शीखवुं, भणवुं	शिंकप	सिक्नु, पढ्नु	शेखा	शिका, पढ़ा	तंबा	शिखिबा, पढ़िबा, ज्ञान-आहरण-करिबा	नेर्चुकॉनुटँ	कट्टुं-क्कॊळ्ळ, पडिक्क	पठिक्कुक	कलियुवुदु
सीधुं, सरळ	सादो	सोझो	सोजा, एकटाना	पोन, सरल	अतिङ्बा	सिधा, सरल	नेरुगा	नेरान, कोणलट्ट	वळविल्लात्त, नेरॆ थुळ्ळ	नॆट्टगिरुव
निष्कपट	निशकपट	छलकपट-रहित	सरल, अकपट	खोला, निष्कपट	नम्थाक् याओदबा	निष्कपट, अकपट, खोला	अमायकमैनँ	कपडमट्ट	कपट-मिल्लात्त	निष्कपट
सुलभ	सरळ	सरल, सजिलो, सुगम	सरल, सहज, सोजा	सरल, सहज-सहजते पोवा	अचंबा, अराइबा	सरल, सहज, सुलभ	सुलभमैनँ	सुलबमान	ऍळुप्पमाय	सरळ, सुलभ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सीना	स.क्रि.	सिलाई करना	√सीव्	सीउणा	सीना	सुवुन	सिबणु	शिवणें
	पुं.	छाती, वक्षस्थल	वक्षस्थलम्	सीना	छाती	सीनुॅ	सीनो, छाती	छाती
सीमा	स्त्री.	1. एक स्थान से दूसरे स्थान को विभाजित करने वाली रेखा, हद, सरहद	सीमा	सीमा, हद्द, सरहद	सरहद	सरहद	हद, सीमा	सीमा, सरहद्द
		2. वह अंतिम हद जहाँ तक कोई बात हो सकती हो या होनी उचित हो, नियम या मर्यादा की हद	मर्यादा	हद	हद	हद	हद	परिसीमा
सीमित	वि.	1. विभाजक रेखा के अंदर 2. जिसका प्रभाव या विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत हो	ससीम, परिमित	सीमित	महदूद	महदूद	महदूद	मर्यादित, सीमित, परिमित
सुंदर	वि.	जो आँखों को अच्छा लगे, खूबसूरत	सुन्दर	सोहणा, सुंदर	हसीन	सोंदर	सुंदर	सुंदर
सुख	पुं.	इंद्रियों को अनुकूल लगने वाली चेतना, चैन, आराम	सुखम्	सुख	सुख	सोंख	सुखु	सुख

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सीववुं	शिवप	सिउनु	सेलाइ करा	सि, चिलाइ कर	लोन्बा	सिलाइ करिबा	कुट्टुट	तैक्क	तय्क्कुक, तुन्नुक	हॉलियुवुदु
सीनो, छाती	छाती	छाती, वक्षस्थल	छाति, वक्षस्थल	बुकु, बक्षस्थल, छाती	थबाक	छाति, बक्षस्थल	रोम्मु	मार्बु	नेञ्चुं, मारुॅ	एदॆ, वक्षस्थल
सीमा, हद	हद्द	सीमा, सिमाना	सीमा, प्रांत	सीमा, दाँति	सीमा, पंखे	सीमा, प्रांत	सरिहद्दु, एल्ल	एल्लै, मुडिविडम्	अतिरुॅ	गडि, मिति
सरहद	शीम	हद, परिसीमा, मर्यादा	सीमा, अबधि, शेष	प्रांत सीमा, शेष सीमांत	लिमिट, इज्जद	चौहदि, परिसीमा, सीमा, शेष	मेर	वरंबु	सीम	एल्लॆ
सीमित	मर्यादीत	सीमित, सीमाबद्ध	सीमित, परिमित	सीमित, ससीम	पन्ना कोशिन्बा	सीमित, सीमाबद्ध	परिमितमैन	एल्लैक्कु-ट्पट्ट	सीमितम्	सीमित
सुंदर	सुंदर	राम्रो, आकर्षक, सुन्दर	सुंदर	सुंदर, धुनीया, रूपवान	फजबा, निङ्थिबा	सुंदर, सुश्री, मनोहर	अंदमैन	अऴगान	सुंदरमाय	सुंदर, अंदवाद
सुख	सुख	सुख (सुक्ख), चैन, आराम	सुख, आराम, आनंद	सुख, आराम, आनंद, संतोष	नुङ्ङाइबा हराओबा, पोताथाबा	सुख, आराम, आनंद, संतोष	सुखमु	सुगम्, मनमगि-ऴ्च्चि, सौकरियम्	सुखम्	सुख

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुख-सुविधा	स्त्री.	ऐसी चीजें, जिनके होने पर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सके	सुखसाधनम्	सुख-सौख	आसाइश	सोंख तुं आराम	सुखु-सुविधा	सुख-सोय
सुगंध	स्त्री.	अच्छी गंध, खुशबू, प्रिय महक	सुगन्धः, सुवासः	सुगंध, खुशबू	ख़ुशबू	खोशबू	सुगंधि, खुशबू	सुवास, सुगंध
सुगम	वि.	1. सहज में आने या पाने योग्य	सुगम	सुगम, सौखा, सुखाला	सह्ल	आसान	आसान	सुगम
		2. आसान, सरल	सुकर, सरल	–	आसान	–	सवलो	सोपे, सुलभ
सुघड़	वि.	1. जिसकी बनावट सुंदर हो, सुडौल	सुघटित, सुघट	सुग्घड़	सुडोल (ख़ुशवज़ा)	डोलदार	ठाहूको, डौलाइतो	रेखीव, डौलदार
		2. कुशल, निपुण, होशियार	कुशल, निपुण	सुग्घड़	सलीक़ेमंद	मॉहिर	सुघड़ु, भड़ु	कुशल, निपुण

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सुख-सगवड़	सुख सोय	सुख-सुविधा	सुख स्वाच्छंद्य	सुख-सुबिधा	नुङाइना लैनबगी पोत्लमशिङ्	सुख-सुविधा, सुख स्वाछंद्य, खुब आराम-दायक	सौकर्यमु, हायि, सौख्यमु	सौकरियंगळ्, वाळ्क्कै-वशदिगळ्	सुख-सौकर्य-ङ्ङ्ळ्	सुखोप-करणगळु
सुगंध, खुशबू	सुगंध	मीठो बास्ना, बासना, सुगंध	सुगंध	सुगंध, सुबास, भालगंध	नुङ्शिबा मनम, मनम्नु-ङ्शिबा	सुगंध, सुबास	सुवासन, सुगंधमु	नरुमणम्	सुगंधम्	परिमळ
सुगम, सरल	सुगम सुलभ	सुगम	सुगम, सहज लक्ष्य	सुगम, सहज-लभ्य	अराइबा	सुगम, सरल	सुगम्यमु, सुलभमु	सुलबमाग-प्पुरिक्कूडिय	सुगमम्	सुगम, सहज
सहेलुं	सुलभ	सजिलो, सहज, सरल	सहज, आसान	सहज, सरल	इराइ-लाइबा	सरल, सहज	सुलभमु	ऍळिदान	एळुप्पमुळ्ळ	सुलभ
सुघड	रेखीत	राम्रो, सफा, सुग्घर	सुडोल, सुगठित	सुगढ़ी, सुठाम	मओङ् फजबा, मओङ् ताबा	सुढ़ल, सुंदर, सुगठित	सौंपयिन	अऴगान	वटिवोत्त	अंदवाद, चॆलुवाद
चतुर, विवेकी	कुशळ, निपुण	कुशल, निपुण	कुशल, निपुण	निपुण, पाकैत	हैशिङ्बा	निपुण, सिद्ध, कुशली, पटुता	नेर्पुगल	समर्त्तन्	सामर्थ्य-मुळ्ळ	कुशल, बुद्धिवंत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुचारु	वि.	अत्यंत सुंदर, मनोहर, बहुत खूबसूरत	सुचारु	सुचज्जा	अह्सन	स्यठाह-सोंदर	सुहणो, सुंदर, ख़ूबसूरत	मनोहर
सुझाव	पुं.	1. सुझाने की क्रिया या भाव	परामर्श:	सुझाउ	राय	मशवरॅ	रिथा, रिथ,	सूचना, योजना
		2. वह नई बात जो किसी को सुझाई गई हो या जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया हो (सजेशन)	परामर्श:	सुझाउ	मशवरा	मशवरॅ	सलाह	सूचना
सुडौल	वि.	सुंदर डीलडौल या आकार वाला	सुन्दराकार	सड़ौल, सुडौल	सुडौल	सॅडोल	सुडौल, ठाहूको	डौलदार, रेखीव
सुध-बुध	स्त्री.	1. होश-हवास, चेतना	बोध:, सञ्ज्ञा	सोझी, सुध-बुध	होशोहवास	सोंद बोंद	सुधि-बुधि	शुद्ध बुद्ध

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सुचारु, मनोहर	मनोहर	सुचारु, खुब राम्रो	सुचारु, अति सुंदर, मनोहर	अति सुंदर, बरसुंदर	याम्ना फजबा, निङ्थिबा, पुक्निङ् हुबा	सुचारु, अति-सुंदर, मनोहर, रमणीय	रम्यमयिन	मिग अळगान	सुचारु, सुंदरम्	सुंदर, मनोहर
सूचन	सुचवप	सुझाउ	परामर्श-दान	मंत्रणा, उपदेश	खङहन्बा, ताकपिबा, खङ्-ताक्पिवां वाफम	सूचना, परामर्श, उपदेश	सलहा	योशनै	उपदेशम्	तिळिसु
सूचना	सुचोवणी	राय-सल्लाह	इङ्गित वा संकेत, मतामत जानानो	परामर्श, दिहा, उपदेश, आलोचना	हौदोक्पा, राय पिबा	प्रस्ताव, मतामत	सूचन	आलोचनै	अभिप्रायम्	सलहे
सुडोल	सुरेख	सुडौल	सुडौल/ सुडोल	सुगढ़ी, सुठाम	फिबम् मूर्ति फजबा शाबाल फजबा, मउङ् फजबा	सुढल, सुठाम, सुगठित, सुंदर	तीर्चि दिद्दिन अंदमैन	अळगान उडलमै-प्पुळ्ळ	नल्ल आकृतियि-लुळ्ळ, सुंदरम्, वटिवोत्त	अंद, सुंदर
सूधबूध, होश	सुद्ध-बुद्ध	होस-हवास	चेतना शक्ति, संज्ञा, ज्ञान	संज्ञा, चेतना, ज्ञान	बुद्धि-लौशिङ्	चेता, होश, संज्ञा, ज्ञान	स्पृह	उणर्वुळ्ळ निलै	बोधम्	प्रज्ञ, तिळिवळिके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		2. याद	स्मृतिः	–	याद	होश हवास	यादगीरी	आठवण
सुधा	स्त्री.	अमृत, पीयूष	सुधा	अम्रित, अमरत	आबेहयात	अमर्यथ	अमृतु	अमृत, सुधा
सुधार	पुं.	1. दोष दूर करने या होने का भाव	संस्कारः, परिष्कारः	सुधार	इस्लाह	सुदार	सुधारु, सुधारो	सुधारणा
		2. वह काँट-छाँट, जो किसी रचना को अच्छा रूप देने के लिए की जाती है	संशोधनम्	सुधार	–	शेरुँज़ॉर	–	सुधारणा
सुधीर	वि.	धैर्यवान, जिसमें धैर्य हो	सुधीर	धीरा	मुतहम्मिल	हौसलुँमंद	धीरजवान	धैर्यवान

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
यादगीरी	याद	सुद्धी, याद	स्मृति शक्ति	स्मृत्ति, स्मरण, संवरन	निङ्- शिङबा	स्मृति, स्मरण- शक्ति, मने- रखिबा शक्ति	ज्ञापकमु	ञाबगम्	ओर्म्म	नॅनपु
सुधा, अमृत	सुधा, अमृत	अमृत, सुधा	सुधा, अमृत	सुधा, अमृत	अमृत	सुधा, अमृत, पीयूष	सुधॅ, अमृतमु	अमिर्दम्, अमुदम्	अमृतम्, सुध	अमृत, सुधॅ
सुधार	सुधारप	सुधार	संशोधन, दोषत्रुटि दूर करा वा हओया	संशोधन, शुधरणि	शेङ्- दोक्पा, शेंदोक्पा, फगत्पा	ठिक- करिबा, सुधारिबा, संशोधन, सुधुरिबा, भुल- सुधारिबा	परिष्कारमु, शुद्धि	शीर्- तिरुत्तम्	परिष्कारम्, मॅच्च- प्पॅटुत्तल्	सुधारणॅ
फेरफार	सुधारणा	संशोधन, जीर्णोद्धार	संशोधन	संशोधन	कक्थोक् कक्शिल तौदुना फजनबा शेम्दोक्पा	संशोधन, परिबर्तन, रूपांतर	संशोधनॅ, परिष्करणॅ	तिरुत्तल्	नन्नाक्कल्	तिद्दुपडि
सुधीर	सुधीर	सुधीर, धैर्यवान	सुधीर	धीर, सुधीर	अचेतपा वाखल लैबा, मपुक्निङ चेत्पा	धैर्य्यशील, सुधीर, धैर्य्यबान, सहनशील, साहिष्णु	धीरत्वमु- गलॅ	दैरियशालि	सुधीरन्, धीरन्	धीर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुनना	स.क्रि.	कानों से शब्द या ध्वनि ग्रहण करना	√श्रु	सुणना	सुनना	बोजुन	बुधणु, सुणणु	ऐकणें
सुनहरा (सुनहला)	वि.	सोने के रंग का	सौवर्ण	सुनहिरा	सुनहरा	सॊनहॉर्य	सोनहरी	सोनेरी
सुबोध	वि.	जो आसानी से समझ आ जाए, सरल और बोधगम्य	सुबोध	सुबोध	आसान, फ़ह्म	आसान, सॅहल	सवलो, आसान, आसानीअ सां समुझ में अचण जहिड़ो	सुबोध
सुमति	स्त्री.	अच्छी मति या बुद्धि	सुमतिः	सुमत	अक़्ले-सलीम	रॅच़ बॊद	सुठी मति	सुमती
सुमन	पुं.	पुष्प, फूल	सुमनस्	फुल्ल	फूल (गुल)	पोश	गुलु, पुष्पु	फूल, सुमन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सांभळवुं	आयकप	सुनौलो, सुनौला	शोना, श्रबणकरा, कर्णपात करा	शुन, श्रवणकर, कान पात	ताबा	शुणिबा, श्रबण-करिबा	विनुट	कादाल् केट्क, मनदिल् वांगि-क्कोळ्ळ	केळ्क्कुक	केळुवुदु
सोनेरी	भांगराळो, सोनेरी	सुबोध, बोधगम्य	सोनाली	सोणाली रं	सनामचु	सुनेली	पसिडि-रंगु कलै	तंग निर्मान	स्वर्ण वर्णमाय, पोंन्निर्-मुळ्ळ	होंबण्णद
सुबोध, सरळ	सुबोध	सुबोध, बोधगम्य	सुबोध, बोधगम्य, सहज बोध्य	सुबोध, सहजे बुजिपोबा	खङ्गन्बा, लाइना खङ्गन्बा	सुबोध, बोधगम्य, बुझिबारे-सहज, सरल	बोधपडु, सुलभमुगा, नट्टि	एळिदिल् पुरिंदुकोळ्ळ-त्तक्क	बोधगम्यम्	सुलभ
सुमति, सद्बुद्धि	सुमती	सुमति, सुबुद्धि	सुमति, सुबुद्धि	सुमति, सुबुद्धि	बुद्धि लैबा, वाखल् लैबी, ज्ञान ताबी	उत्तम बा भल बुद्धि, सुमति, सुबुद्धि	सुमति, सद्बुद्धि	नल्ल अरिवु	सद्बुद्धि	सुबुद्धि
सुमन, पुष्प	सुमन, फूल	फूल, पुष्प, सुमन	फुल, सुमन	फुल, पुष्प	लै, लैराङ्	फुल, सुमन, पुष्प	पुव्वु	पु, मलर्	पुष्पम्, पूवुँ	हूवु, पुष्प

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुरंग	स्त्री.	1. जमीन खोद कर उसके नीचे बनाया हुआ रास्ता	सुरङ्गा, बिलम्	सुरंग	सुरंग	श्रोंग	सुरंग	बोगदा
		2. जमीन या समुद्र के नीचे बिछाया गया बारूद, जाल आदि जिससे व्यक्ति या जहाज नष्ट हो जाते हैं	अन्तःस्फोटकम्	सुरंग	–	सुरंग, श्रोंग	माइन	माइन
सुर	पुं.	1. गले, बाजे आदि से निकलने वाला स्वर	स्वरः	सुर	सुर, नग़मा	सॉर	सुरु	स्वर, सूर
		2. देवता	सुरः	सुर	देवता	दिवताह	देवता	देव, सुर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बोगदुं	बोगदो, सुरंग	सुरुङ	सुड़ंग/ सुरंग	सुरँग	सुरुग	सुडंग, पाहाड, भितरे- खोदित- रास्ता	सारंगमु	सुरंगप्पादै	तुरङ्कम्	सुरंग
सुरंग	मिनाखण	भुइँमंत्तिर् वा समुद्रमा राखिएको भाँडा- भित्रको विस्फोटक सुरुङ, बारुदे धराप, माइन	खनि, शत्रुर दुर्ग, जाहाज प्रभृति उड़ाइया देओयार अन्यगर्त- मध्ये, समुद्रवक्षे वा अनुरूप स्थाने रक्षित बिस्फोटक द्रव्यबिशेष बा बिस्फोरनेर फोरनेर जन्य निर्मित गुहा पथ, माइन	माइन बिस्फोटक खनि आकर	लैबाक्ता अमदि समुद्र- दा बोम् फुंम्बा, माइन	समुद्र- जल- भितरे- बारूद- जाल, माइन	मंदु पातर	कण्णि वेडि	खनि	सिडिमद्दिन- जाल, खणी
सूर, स्वर	स्वर	स्वर	सुर, ब्धनि	सुर, स्वर	स्वर	सुर, स्वर, ध्वनि	स्वरमु	स्वरम्	स्वरम्	स्वर
देव	देव, सुर	देवता, सुर	देबता	सुर, देवता, सूर्य	लाइ	देबता, देब, दिअॅ, इस्ट	सुरुलु, देवतलु	देवर्गळ्	देवन्, सुरन्	देवर्त

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुरक्षा	स्त्री.	1. समुचित रक्षा	सुरक्षा	सुरखिआ	सलामती	ह्'याफाज़त, रॉछ	सलामती, सुरख्या	संरक्षण
		2. आक्रमण, आघात आदि से बचने के लिए किया जाने वाला प्रबंध	सुरक्षाव्यवस्था	सुरखिआ	दिफ़ा (तहफ़्फ़ुज़)	ह्'यफाज़त	रक्षा, रख्या	संरक्षण, व्यवस्था
सुरभि	स्त्री.	सुगंध, खुशबू	सुरभिः	खुशबो	खुशबू	खोॅशबू	सुगंधि, खुशबू	सुगंध, सुरभी
सुरमा	पुं.	काजल	अञ्जनम्	सुरमा	सुर्मा	सोॅरमुॅ	सुरमो	सुरमा
सुराही	स्त्री.	जल आदि रखने का मिट्टी का पात्र, जिसका नीचे का भाग लोटे की तरह गोल और ऊपर का भाग लंबा नल की तरह होता है	सुराधि	सुराही	सुराही	सुरय	सुराही, घुघी	सुरई

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संरक्षण	सुरक्षा	सुरक्षा, संरक्षण	सुरक्षा (रक्ख)	सुरक्षा, संरक्षण	निङ्थिना ङाक्शेन्बा	सुरक्षा, प्रतिरोध, रक्षा	रक्षण, भद्रत	पादुकाप्पु	सुरक्ष	सुरक्ष, संरक्षण
संरक्षण, व्यवस्था	सुरक्षा बंदोबस्त	प्रतिरक्षा, बचाउ	आक्रमणादि हइते वांचार व्यबस्था, निरापत्ता	रक्षणाबेक्षण	लांदाबा, खुदोङ् थिबदगी कन्जनबा थौराङ्	रक्षणा-बेक्षण, निरापत्ता-ब्यबस्था, प्रतिरोध, देशरक्षा	भद्रत	पादुकाप्पु-एर्पाडु	प्रतिरोधम्, राज्यरक्ष	संरक्षणे व्यवस्थे
सुरभि, सुगंध	सुरभी	मीठो बास्ना, सुगन्ध	सुरभि, सुगंधि, सुबास	सुरभि, सुबास, सुगंध; कामधेनु	नुङ्शिबा मनम्	सुरभि, सुबास, सुगंध	सुरभि, सुवासन	नरुमणम्	सुगंधम्, सौरभ्यम्	परिमळ
सुरमो	सुरमो	सुर्मा	रसाञ्जन-चूर्ण, काजल	चुर्मा, चुरुमा चकुत-लगोवा-अंजन	सुरमा	सुरमा, सुर्मि, अंजन, कला	सुर्मा, काटुक	कण् मै	सुरुम	काडिगे
सुराही	सुरई	सुराही	सोराइ, कुँजा	चुराइ	सनाबुल	सोरेइ, कुंभ	कूजा	कूजा	कूज	मण्णिन हूजि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुलगना	अ. क्रि.	इस प्रकार जलना कि उसमें से लपट न निकले, बल्कि धुआँ निकले, धीरे-धीरे जलना	मन्दं √ज्वल्, √दह्	धुखणा, सुलगणा	सुलगना	सोंत-सोंत-दजुन	दुखणु, सुलगणु	पेटणें
सुलझना	अ. क्रि.	किसी समस्या आदि की पेचीदगी का दूर होना	सम्-आ√धा (कर्म.)	सुलझणा	सुलझना	खुरनेरुन	सुलझणु, मोंझारो लहणु	उलगडणें
सुलभ	वि.	जो आसानी से मिल जाए	सुलभ	सुलब्भ	सहलुल-हुसूल	सॊलबुॅ, आसॉनी-सान-मेलुन	सुलभ, जेको आसानीअ सां मिली सघे	सुलभ
सुवास	स्त्री.	अच्छी महक, खुशबू, सुगंध	सुवासः	मेहक	खुशबू	सॊगंद, खॊशबू	ख़ुशबू	सुगंध, सुवास

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सळगवुं, बळवुं	पेटप	सल्कनु, सल्किनु	प्रब्जलित हओया (ज्जो)	उमि-उमि ज्वल	ओमदुना चाक्पा	निंआ-कुहुलिबा; धिरे धिरे (आस्ते-आस्ते) जलिबा	राजुकॉनुटॅ	कनलुल्	मङ्ङि कत्तुक	हॉत्तिकॉ-ळ्ळुवुदु
ऊकेलवुं	उलगडप	समस्याको टुङ्गो लाग्नु, समाधान निस्कनु, छिनुफानु हुनु	समाधान हओया, समाधान करा	समाधान सँम्पादन, निष्पत्ति, मीमांसा	किसी लौथोक्पा, चयेत्लबा कोक्पा	समस्या-मुक्त हेबा, संशयमुक्त-हेबा, समाधान	चिक्कुविडुटॅ, परिष्कारम-गुटॅ	शिक्कल् नींग	ज्वळिक्कुक, बळियुक	बगॅहरि-युवुदु
सुलभ	सुलभ	सुलभ, सुलभ्य	सुलभ	सुलभ, सहज-लभा, सहजते-पोवा	लाइना फङ्बा, इराइ लाइना फङ्बा	सुलभ, सुबिधा	सुलभमु	एॅळिदाग किडैक्किर्	सुलभम्	सुलभ्य
सुवास, सुगंधी	सुगंध, परमळ	मीठो बास्ना, सुवास, सुगंध	सुवास, सुगंध	सुबास, सुगंध, भाल-गोंध	मनम् नुङशिबा	सुबास, सुगंध	सुवासनॅ	वासनै, नरुमणम्	सुगंधम्	सुवासनॅ

हिंदी	व्या. कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुविधा	स्त्री.	1. आसानी	सौख्य:	सौख	आसानी	आसॉनी	आसानी, सहंजु-सहूलियत	सोय
		2. आराम	सुखम्	–	आसाइश	सुहूलियथ	आरामु	आराम
सुसज्जित	वि.	भली-भाँति सजा या सजाया हुआ	सुसज्जित	सज्जिआ	आरास्ता	शूबिदार	सींगारियलु, चिटियल-डिखियल	सजलेला, सुसज्जित
सुस्ताना	अ. क्रि.	थकावट दूर करना, थोड़ी देर के लिए आराम करना	क्लान्तिं दूरी√कृ, विश्रान्तिं √लभ्	सुसताउणा	सुस्ताना	थख कडुन	साहु पटणु	विश्रांती घेणें, विश्रांती
सुहाग	पुं.	1. विवाहिता स्त्री की वह स्थिति, जिसमें उसका पति जीवित हो, सौभाग्य	सौभाग्यम्	सुहाग	सुहाग	ड्यकुँ बजर	सुहागु	सौभाग्य
		2. विवाह के समय कन्यापक्ष में गाए जाने वाले मांगलिक गीत	विवाहगीतम्	सुहाग	सुहाग	वनवुन, खांदर बॉथ	सुहागु जो गीतु, लाडो	मंगळगीत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सुविधा, सगवड़	सोय	सुबिस्ता, सुविधा	सहज	सुबिधा, सुयोग	अराइबा	सुबिधा, सहज, सुजोग, सरल	सुळुवु, सौकर्यमु	सुलबम्	सौकर्यम्	सौकर्य
आराम	आराम	आराम	सुख-स्वाच्छंद्य, सुविधा	स्वाच्छंद्य	पोत्थाबा	सुबिधा, सुख-स्वाच्छंद्य	हायि	वशदि	सौकर्यम्	सुख
सुसज्जित	सुसज्जित, सजिल्ले	सजिसजाउ, सुसज्जित	साजानो, सुसज्जित	सुसज्जित, सज्जित	लैतेङ्लबा	सुसज्जित, शोभित, सज्जित, मंडित	अलंकरिं-चबडिन	नन्गु अलंकरि-क्कप्पट्ट	समलंकृतम्	सुसज्जित
आराम करवो	सुस्तावप	थकाइ मार्नु, सुस्ताउनु	जिशनो	जिरा, भागरमार जिरनो	ङहाक पोत्थबा	क्लांति-दूर करिबा, विश्राम-करिबा	विश्रांति तीसिकॉनुट	इळैप्पार्	विश्रमिक्कुक	विश्रांति-तेगेदुकोळ्-ळवुदु
सधवावस्था, सौभाग्य	सौभाग्य	सध-वापनको चिनु, सौभाग्य	सौभाग्य	सुहाग, सधवा-अवस्था, भाल-भाग्य समृद्धि	युम पान्बा	सुहाग, सधबा-पण, सौभाग्य	अयिद-वतनमु, सौभाग्यमु	कणवनुडन् वाळ्म् निलै	मंगल्यम्	सौभाग्य
मंगळगीत	मंगळगीत	मङ्ग-लगान, मङ्गलगीत	बिबाहो-त्सबे माङ्-गलिक गानविशेष	बियार मांगलिक-गीत, बियानाम	याइफ-ईशै, लुहोङ्बगी इशै	बिबाह-कालीन-कन्या-पक्षीय-मांगलिक-गीत	पेळ्लि-वेडुक-पाटलु	तिरुमणत्तिल् पाडप्पडुम पाट्टु	मंगळ गीतम्, कल्याण-प्पाट्टु, ओप्पन-प्पाट्टु	मंगळगीत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सुहागा	पुं.	एक क्षार द्रव्य, जो सोना गलाने और दवा के काम आता है	कनकक्षारः, सुभगः	सुहागा	सुहागा	वावथ	सुहागो, कंगणखारु	टांकणखार
सूक्ष्मदर्शी	वि.	बारीकी से देखने वाला	सूक्ष्मदर्शिन्	सूखमदरशी	बारीकबीं	बॉरीकबीन	सूखमदरशी, बारीकबीं	सूक्ष्मदर्शी
सूखा	वि.	1. शुष्क, निर्जल	शुष्क, नीरस	सुक्का	खुश्क	होंख	खुश्क	शुष्क, कोरडा
		2. अकाल, दुर्भिक्ष	अनावृष्टिः, दुर्भिक्षम्	काल	–	–	ड्डुकरु	–
सूचना	स्त्री.	कुछ बताने या जताने के लिए कही या लिखी गई बात, इत्तिला	सूचना	सूचना	इत्तिलाअ	खबर	सूचना, इत्तिलाउ	सूचना

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
टंकण- खार	टंकण- खार	स्वाग, सुहागा	सोहागा	सुवगा	थुम् मान्बा खोनिदगी थोक्पा पोत्, बोरेक्स	एक क्षर- द्रव्य जाहा- सुनतरलेइबारे- लागे	वॅलिगारमु	पॉन्कारम्	पोन्कारम्	बिळिगार
सूक्ष्मदर्शी	सूक्ष्मदर्शी	सूक्ष्मदर्शी	बिचक्षण, सूक्ष्मदर्शी	सूक्ष्मदर्शी	कूप्ना येङ्बा	बिचक्षण, दूरद्रष्टा	सूक्ष्मदर्शि	कूर्मैयाग- पार्प्पवन्	सूक्ष्मदृक्कु	कुशाग्रमति
शुष्क, लूखुं निरस	सुकें, रुक्ष	सुक्खा, निर्जल, रूखो, नीरस, अनिकाल, दुर्भिक्ष	शुखा, शुका, नीरस, शुक्नो	शुकान, नीरस, कर्कश, रुक्ष	अकङ्बा, ईशिङ् याओदबा, थमोइ कन्बा, मीनुङ्शि याओदबा	शुखा, शुष्क, निरस, मृत, नीरस, रुख्य, कर्कश	शुष्कमैन॑, नीरसमैन॑, दुर्भिक्षमु, करुवु	उलर्न्द, सत्तट्ट	उणक्क, वरण्ट, विरसन्	ऑणगिद, नीरस
सूचना, चेतवणी	सूचना	सूचना, जनाउ	सूचना, खबर	सूचना, जाननी, गोहारि	खङ्हन्बा	सूचना, खबर	गमनिकॅ	अरिविप्पु	अरियिप्पुॅ	सूचनॅ

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सूची	स्त्री.	किसी प्रकार की वस्तुओं, नामों, बातों आदि का क्रमबद्ध लेखा या विवरण	सूची, सूचि, अनुक्रमणी, अनुक्रमणिका	सूची	फ़ेहरिस्त	फिहरिस्त	सूची, लिस्ट, फ़ेहरिस्त	अनुक्रमणिका, सूची
सूजना	अ. क्रि.	शरीर के किसी अंग का अधिक फूलना या फैलना	√शुज्	सुज्जणा	वरम (सूजना)	वरॅम-खसुन, हुॅनुन	सुजणु	सुजणें
सूझना	अ. क्रि.	1. अचानक ध्यान में आना	√बुध् अव√गम्	सुज्झणा	सूझना (तमीज़ होना)	खयाल	सुझणु	सुचणें
		2. दृष्टि में आना, दिखाई देना	दृग्गोचरी √भू	सुज्झणा	नज़र आना	द्यमागस-मंज़-युन	नज़रि अचणु	दिसणें
सूत्र	पुं.	1. महीन सूत या धागा	सूत्रम्	सूतर	सूत	सुॅथुॅर	सुटु	सूत, धागा, दोरा, सूत्र
		2. गूढ़ अर्थयुक्त संक्षिप्त वाक्य या पद	सूत्रम्	सूतर	इशारती कलिमा	छोॅटकथ, सूतुॅर	सूत्रु	सूत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सूची	सूची	सूची, फेहरिस्त	सूची, तालिका	सूची, तालिका, सूचनावली	पोत्की, मिङ्गी मथङ् मनाओ नाइना इबा परेङ्, लिस्ट	सूची, तालिका, सुचनावली	जाबिता पट्टिकि	पट्टियल, जापिता	पट्टिक, सूचिक	सूचीपत्र
सूजवुं	सुज़प	सुनिनु	फुला, फोला	उफ, ओफंद, उखहि-उक	पोंबा, पोम्-खत्पा	फुलिबा, बृद्धि-हेबा, वली, स्फीति	वाचुटे	वींग	वीर्कुक, वीङ्ङुक	ऊदि कोळ्ळु, बातु-कोळ्ळु
सूझवुं, नजरे पडवुं	सुचणें	मनमा कुरा उब्जनु, विचार आउनु	मने पड़ा	मनत-खेला	वाखल खन्बा	ध्यानरे मने-पकाइबा, स्मरण-करिबा	तट्टुटे	मनदिल तोन्ऱ	तोन्नुक	तोरु, तोचु
देखावुं	दिसप	देखा पर्नु, देखिनु	देखा (-देया) याओया, दृष्टिगोचर हओया	चकुत पर, दृष्टिगोचर ह	उरक्पा	दृष्टिरे-आसिबा, देखादेबा, दृष्टिगोचर	कनिपिंचुटे	तोन्पड	काणप्पेटुक	गोचरिसु तोचु
सुत्र, दोरो	धागो, दोरो	धागो, तंतु	सूता/ सूता/ सुतो	सूता, सूत्र	लङ् लङ्ला	सूता	सूत्रमु	सूत्तिरम्	सूत्रम्	सूत्र, नूलु
सूत्र	सूत्र	सूत्र	गूढ़ार्थ युक्त संक्षिप्त वाक्य वा पद	सूत्र, संक्षिप्त-प्रकाश, नीति	मरु ओइबा अर्थ याओबा वाहै नत्रगा वाहै परेङ्	संक्षिप्त	सूत्रमु	नूल् चरटुं	नूल्, नूलु	सूत्र

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
		3. संकेत, पता, सुराग	सूत्रम्, सङ्केतम्	सूह	सुराग़	पय	संकेतु, निशानु, पतो, सगु	संकेत
सूद	पुं.	ब्याज	वृद्धिः	सूद	सूद	सूद	व्याजु	ब्याज
सूना	वि.	जनहीन, निर्जन	विजन, शून्य	उजाड़, सुन्ना	वीरान	शिन्याह	सुञो, सुनसान, वीरान	ओसाड, सुने
सूराख	पुं.	छेद, छिद्र	छिद्रम्	छेक	सूराख़	गॊंद, जॊंद	सोराखु, टुंगु	भोक, छिद्र
सूर्य	पुं.	सूरज, रवि	सूर्यः	सूरज	सूरज, आफ़ताब	सिरियि, अफताब	सिजु, सूरजु	सूर्य
सृजन	पुं.	सृष्टि करने अर्थात् जन्म देने की क्रिया या भाव, रचना	सर्जनम्	सिरजन	तख़्लीक़, तक्वीन	थुरुन, बनावुन	सिरजन करणु	सृजन

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
संकेत	संकेत	सुइँको, सुराक	संकेत सूत्र	संकेत, इंगित, आँत	अशेन्बा-अथुप्पा खङ्बा	संकेत, इंगित, सूत्र, आभास, चिन्ह, लक्षण	सूत्रमु	अडैयाळम्	प्रभाव स्थानम्	संकेत, पत्ते
ब्याज	कळंतर	ब्याज	सुद	सुत, सुद	शेंदोइ	सुध, कलंतर	वड्डी	वड्डि	पलिश	बड्डि
सूनुं, उज्जड	खाली, निर्जन	निर्जन, सुनसान	निर्जन, जनशून्य, निभृत	जनप्राणी-हीन, निर्जन	अचिक्पा, मी तादबा	शून्य, निर्जन, जनशून्य, निभृत	शून्यमु	मनिद नडमाट्ट मिल्लाद	शून्यमाय, ऑळिञ्ञ	निर्जन
काणुं, छिद्र	भोक, छिद्र	प्वाल, छिद्र	छेँदा, फुटो, सुत्र	छिद्र, फाँक	अहोबा, मखून	छिद्र, फाँक	रंध्रमु	दुवारम्, तुळै	ओट्ट, द्वारम्	तूतु, छिद्र
सूर्य, सूरज	सूर्य	सूर्य, सुर्जे	सूर्य (ज)	बेलि, सूर्य	नुमित्	सूर्ज्य, रबि, दिनकर, दिनमणि	सूर्युडु	सूरियन्	सूर्यन्	सूर्य
सर्जन	सृजन	सिर्जना, सृजना, रचना	सृजन, सृष्टि	स्रजन, रचना, सृज, निर्माणकर	नौना इबा, शबा	सृजन, सृष्टि, सर्जना, रचना	सृजनं	उंडा-क्कुदल, आक्कल्	सृष्टि, सर्ज्जनम्	सृष्टि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सृष्टि	स्त्री.	1. सारा विश्व तथा इसके सभी प्राणी एवं पदार्थ	सृष्टि:	स्रिशटी	ख़ल्क़त	थ्यथ, स्रे'श्टी	सृष्टी	सृष्टी
		2. निर्माण, रचना	सृष्टि:	रचना	–	–	रचना	सृजन, निर्माण
सेंकना	स.क्रि.	1. आँच के पास या आग पर रख कर गरम करना अथवा पकाना	√श्रि	सेकणा	सेंकना	बॅंदरावुन	सेकणु	भाजणें, शिजवणें
		2. शरीर को गरमी या धूप देना	√श्रिष्, √श्रि √तप्	–	–	टकोरॅ करुॅन्य	–	शेकणें
सेठ	पुं.	बहुत धनवान या संपन्न व्यक्ति	श्रेष्ठिन्, धनिक	सेठ	सेठ	सेठ	सेठ	शेठ
सेतु	पुं.	नदी आदि पार करने के लिए बनाया हुआ रास्ता, पुल	सेतु:	पुल	पुल	कॅंदुल, सोंथि	पुल	सेतु, पुल

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सृष्टि	सृश्टी	सृष्टि	सृष्टि	सृष्टि, ब्रह्माण्ड, स्रजन कार्य	लैशेंबा	सृष्टि, ब्रह्माण्ड	सृष्टि	पडैप्पु	सृष्टि	जगत्तु
सर्जन, निर्माण	रचना	सृजना, निर्माण	सृजन, निर्माण	सृष्टि, रचना, स्रजन कार्य	शेम्नात्पा	सृजन, सृष्टि, रचना, निर्माण	सृष्टि, निर्माणमु	आक्कल्	सृष्टि	सृष्टि
शेकवुं	भाजप	सेक्नु, पोल्नु, तताउनु	सेका/ सेँका	सेँक, भापत-दि, तपता, सिजा	याइबा, फौबा	सेकिबा	वेयिंचुट, काल्चुट	कुळिर् काय	चूटु कायुक	बिसिमाडु
तापणुं	शेकप	ताप्नु, सेकाउनु	रोद पोयानो	(गात) सैँक दि, तायदि	याइबा, फौबा	सेकिबा	कापट-पट्टुट, काचुट	ऑत्तडम् कोडुक्क	चूटु कॉडुक्कुक	कावु-कोडुवुदु
शेठ, शाहुकार	शेट	सेठ, महाजन	धनी लोक	शेठ, धनी-लोक, श्रेठी	मरल-मथुम लैबा, पैसा पाइबा	धनी, शाहुकार, वित्तशाली	सेट्टि, श्रेष्ठि	दनवान्, शेल्वंदन्	सेट्टु	साहुकार, शेट्टि
सेतु, पुल	पुल	साँगु, साँघु, पुल, सेतु	सेतु, साँको, पुल	सेतु, दल, साँको, बाँध	थोङ्	सेतु, पोल	सेतुवु, वंतेन	पालम्	पालम्	सेतुवे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सेना	स्त्री.	रण-शिक्षा प्राप्त सशस्त्र व्यक्तियों का दल, फौज	सेना	सैना	फ़ौज (लश्कर)	फोज	सेना, फ़ौज	सेना, सैन्य
सेनापति	पुं.	सेना का नायक, फौज का अफ़सर	सेनापतिः	सैनापती	सिपहसालार	सिपाह-सालार	सेनापती	सेनापती
सेवा	स्त्री.	1. परिचर्या, टहल	सेवा	सेवा	ख़िदमत	सीवा	सेवा/शेवा	सेवा, परिचर्या
		2. नौकरी	सेवा	नौकरी	मुलाज़मत	खॅदमथ	नौकरी	नोकरी
		3. पूजा, आराधना	सेवा	सेवा	–	–	पूज़ा, आराधना	पूजा, आराधना
सैकड़ा	पुं.	सौ, शत की संख्या का सूचक, जो इस प्रकार (100) लिखा जाता है	शतम्	सैंकड़ा	सैंकड़ा	हथ, शथ	सउ (100), सेकडो	शेकडा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सेना	सैन्य	सेना, फौज, पल्टन	सेना, सैन्यदल	सेना, सैन्य, रणुवा	लाल्मी	सेना, सैन्य	सैन्यमु	सेनै, पडै	सैन्यम्, सेन	सैन्य, सेने
सेनापति	सेनापती	सेनापति, गणनायक, सेनाध्यक्ष	सेनापति	सेनापति, सेनाध्यक्ष	सेनापति, लालमीगी अफसर	सेनापति, सेनानी, सेनाध्यक्ष	सेनापति	सेनापति, पडैत्तलैवर्	सेनापति, सेनाना-यकन्	सेनापति
सेवा	सेवा	सेवा, टहल	सेबा, परिचर्या (ज)	सेवा, परिचर्या, भक्ति-प्रदर्शन, उपासना	सेबा तौबा	सेबा, टहल, परिचर्य्या, परिबेषण	सेवॅ, परिचर्य	तॉण्डु, सेवै	सेवनम्	सेवे
चाकरी	नोकरी	नोकरी, जागिर	चाकरि	चाकरि, सुश्रूषा	थबक	चाकिरि	उद्योगमु	सेवगम्	जोलि, पणि	नौकरि
पूजा	पुजा, आराधना	आराधना, उपासना, पूजा, अर्चना	पूजा, आराधना	सेवा, पूजा, भृत्य भक्ति	पूजा, सेबा	सेबा, पूजा, आराधना	कैंकर्यमु, अर्चन	आरादनै, वळिपाडु	सेव पूज	पूजे
सो, शतक (100 संख्या सूचक)	शेंकडो	सयकडा	शतकरा, 100 संख्यार सूचक	100, एश बुजोवा संख्या	चाम्मा	शतकडा	वंद, नूरु	नूरु	नूरु	नूरक्के, प्रतिशत

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सैनिक	वि.	सेना-संबंधी, सेना का	सैन्य	सैनिक	फ़ौजी	फ़ूजी	सेना सां वास्तेदार	सैन्यासंबंधी
	पुं.	सेना या फौज का सिपाही, फौजी	सैनिकः	सैनिक	–	–	सैनिक, फ़ौजी	सैनिक
सैर	स्त्री.	मनोरंजन के लिए घूमना-फिरना, भ्रमण	विहारः	सैल-सपाटा, सैर	सैर	सॉर	सैरु, सैलु/ शैलु	सहल, फेर-फटका
सोचना	स.क्रि.	1. किसी विषय पर विचार करना	√चिन्त्	सोचणा	–	सोंचुन	–	विचार करणें
	अ.क्रि.	2. चिंता या फिक्र में पड़ना	अनु √ शुच्	सोचणा	सोंचना	सोंचुन	सोचणु	काळजी वाटणे, विचार करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सैनिक-संबंधी	सैन्याचें	सैनिक	सेना संबंधीय, सामरिक	सेना-संबंधीय, सैन्य	लाल्मी ओइबा	सैनिक, सिपाहि, सैन्य	सैन्य-संबंधमैन	पडै संबंदमान	सैनिकम्	सैन्यक्के संबंधिसिद
सैनिक	सैनीक	सैनिक, योद्धा	सैनिक, सेपाई	सैनिक, सेना, युँजारु, रनुवा	सैनिक	सैनिक, सैन्य, सेना	सैनिकुडु	शिप्पाय्	पटयाळि, सैनिकन्	सैनिक
सहेल, भ्रमण	भोवंडी, सहल	सयल, विहार, सैर	परिभ्रमण, बेड़ानो (न)	घुरि-फुरा, बिचरण, परिभ्रमण	कोइबा	भ्रमण, बिहार, बिचरण, जात्रा (यात्रा), गस्त	षिकारु, वाह्यळि	उलावुल	विनोदयात्र, पर्यटनम्	तिरुगाट, प्रवास
विचारवुं	विचार करप	चिंता लिनु, सोच्नु, कल्पना गर्नु, मनन गर्नु, विचारमग्न हुनु	चिंता करा, स्मरण (न), कल्पना वा बिचार करा	चिंता कर, बिबेचना कर	खन्जन्बा	बिचार-करिबा, कल्पना-करिबा, अनुमान-करिबा, चिंता बा-बिबेचना-करिबा	आलोचिंचुट	योचिक्क, चिंतिक्क	चिंतिक्कुक	चिंतने, ऊहिसुवुदु
चिंता	चिंतेस्त	चिंतामा पर्नु	चिंतित हओया	चिंतित ह, चिंतात पर. भावना	खन्बा	भाबिबा	विचारिंचुट, दिगुलु पडुट	कवलैप्पड	विचारि-क्कुक	योचिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सोना	पुं.	स्वर्ण, कँचन	सुवर्णम्	सोना	सोना	सॉन	सोनु	सोने, स्वर्ण
	अ.क्रि.	1. निद्राग्रस्त होना, नींद लेना	√शी √स्वप्	सोना	सोना	शोंगुन	सुम्हणु	झोपणें
		2. एक ही स्थिति में रहने के कारण सुन्न होना	जड़ी √भू	सोणा	–	–	–	बधिर होणे
सोपान	पुं.	सीढ़ी, ज़ीना	सोपानम्	पौड़ी, पउड़ी	ज़ीना (सीढ़ी)	हेर	ड॒ाकणि, ड॒ाको	शिडी, सोपान
सौंपना	स.क्रि.	(कोई वस्तु आदि) किसी के जिम्मे या सुपुर्द करना, किसी के अधिकार में देना	सम् + √अर्प्, न्यासी √ + कृ	सौंपणा	सौंपना	हवालुँ-करुन	सौंपणु	सोपविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सोनुं, स्वर्ण	भांगर, स्वर्ण	सुन, सुवर्ण, स्वर्ण	स्वर्ण, सोना	सोण, स्वर्ण	सना	सुना, स्वर्ण, सुबर्ण	बंगारमु	तंगम्	स्वर्णम्, पॉन्नॅ	चिन्न
सूवुं	न्हिदप	सुत्नु, निदाउनु	घुमानो, निद्रा	शो, शयन कर घुमा, निद्रा	तुंबा	शोइबा, शयन-करिबा, निद्रा जिबा	निदुरिंचुट	तूंग	उऱङ्ङुक	मलगुवुदु
बहेराचणुं	सुन्न	निदाउनु, इंद्रीयहरू, संबेदनहीन हुनु	(अंग) झिमझिम करा, अबशता बोध, अबशाद	सारसुर-नो होवा-ह	बोर चुबा, हैनिङ्दबा	अबशाद, अबश	तिम्मिर्र-क्कुट	मरत्तु-प्पोग	मरविक्कुक	जोमुहिडि-युवुदु
सोपान, सीड़ी	सोपण, मेट	भऱ्याङ, सिँढी	सिँड़ि, सोपान	जखला, सोपान, खटखटि	थाक्, सीढ़ी	सोपान, शिढ़ि, पाबछ, पाहाच	सोपानमु, मेट्टु	माडिप्पडि	सोपानम्	एणि, मेट्टिलु
सोंपवुं	सोंपप	सुंपनु, बुझाउनु	समर्पण करा, उत्सर्ग करा (न)	सँप, न्यस्त कर, गताइ दि दायित्व-अर्पनकर	शिनबा	न्यासरूपरे-देबा, समर्पिबा, न्यस्त-करिबा, समर्पण करिबा	अप्पगिंचुट	ऑप्पडैक्क	एल्पिक्कुक	ओप्पिसु, वहिसु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
सौजन्य	पुं.	सज्जनता, भलमनसाहत	सौजन्यम्	सज्जणता, साऊपुणा, भलमाणसी	शराफ़त	शराफथ	भलमानसाई, सज्जणता, मेहरबानी	सौजन्य
सौतेला	वि.	1. सौत से उत्पन्न	वैमात्रेय, सापत्न	मतेआ, मत्रेआ	सौतेला	वोरुॅ	माटेलो	सावत्र
		2. सौत अथवा सपत्नी संबंधी	सपत्नी	मतेआ, मत्रेआ	सौतेला	वोरुॅ	माटेलो	सावत्र
सौभाग्य	पुं.	1. अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत	सौभाग्यम्	सुभाग	खुशक़िस्मती	खोॅश कुॅस्मती	सभागु, सुठो भागु	सुदैव
		2. सुहाग	सौभाग्यम्	सुहाग	सुहाग	–	सुहागु	सौभाग्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सौजन्य	सौजन्य	सौजन्य्, सज्जनता, भला-दमीपन	सौजन्य, भद्रता, शिष्टाचार	सौजन्य, भद्रता, सज्जनता, शिष्टता	मी अफबा, हौन खङ्बा	सौजन्य, शिष्टाचार, शिष्टता, भद्रामि, भद्रता, सज्जनता	सौजन्यमु	इनिय इयल्बु	सन्मन्स्सुॅ	वळ्ळेयतन, सज्जनते
शोकनुं, शोक संबंधी	सवत	सौतेलो, सौतिने, सौतिनी	सत्, सतिन-संपर्कित	सतियै	लोल्नबी	सपत्नी-संबंधी, साबत-पत्नी-संपर्कीय	सवति	माट्टां-त्तायिन्	वैमात्रेय	सवतिय
सावकुं	सावत्र	सौता वा सपत्नी संबंधी	सतोबा, सपत्नी-जात	सँतीया, सतिनी-गर्भत, उपजा	नूपी लोल्बदगी ओइरक्पा	साबत-पुअझिअ	सवति	माट्रां-त्ताय्क्कुप् पिरंद	–	सवतियिंद-हुट्टिद
सौभाग्य, सारुं भाग्य	बरे नशीब	सौभाग्य्, उत्तम प्रारब्ध्	सौभाग्य, अनुकूल भाग्य	सौभाग्य, समृद्धि, श्रीवृद्धि	लाइबक फबा	सौभाग्य, अनुकूल-भाग्य	अदृष्टमु	अदिरुष्टम्	सौभाग्यम्	अदृष्ट, सुदैव
सधवा-वस्था	सौभाग्य, सवाशी-णपण	सधवा-पनको चिनु, सौभाग्य्	सौभाग्य	सौभाग्य	मपुरोइ-बगा नुङ्शि चान्ना लैरिबा, युमपान्-नरिबा	सौभाग्य, सधबा, पति थिबा-पत्नी	सौभाग्यमु, मुत्तैदुवॅ-तनमु	कणव-नुडन् मंगल वाळ्वु	मंगल्यम्	मुत्तैदेतन

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्तंभ	पुं.	1. खंभा	स्तम्भः	खंबा	सुतून	कूट, थंब	थंभो, खंभो	खांब, स्तंभ
		2. पत्र-पत्रिका आदि में ऐसे विभाग, जिनमें किसी विशेष विषय का प्रतिपादन अथवा निरूपण होता है	स्तम्भः	कालम	कालम	कालम	कालम्	विभाग, कॉलम
स्तब्ध	वि.	जड़ीभूत, निश्चेष्ट, हक्का-बक्का	स्तब्ध	हक्का-बक्का	मब्हूत	हय बुंगुॅ	वाइड़ो, हैरत में पियलु	स्तब्ध, निश्चेष्ट
स्तुति	स्त्री.	आदर भाव से किसी के गुणों के कथन करने का भाव, बड़ाई, तारीफ	स्तुतिः	उसतत, सतोतर	तारीफ़, हम्दो-सना	तौ॑ता, पूज़ाह	तारीफ़, साराह, स्तुती, सिना	स्तुती, प्रशंसा, स्तोत्र
स्तोत्र	पुं.	वह रचना, विशेषतः पद्यबद्ध रचना, जिसमें किसी देवता आदि की स्तुति हो, स्तव, स्तुति	स्तोत्रम्	सतोतर	हम्द	सुतोत्र, हमुद, तो'ता	स्तोत्रु, महिमा जो गीतु	स्तवन, स्तोत्र

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्तंभ, थांभलो, टेको	खांबो	खामो, खंबा, थाम	स्तंभ, थाम	स्तंभ, ओख- डाँगर- खुँटा	युंबी	स्तंभ, खुण्ट	स्तंभमु	तूण्, कंबम्	तूणुं	कंब, कांड
कटार, वर्तमान पत्रनुं कोलम	कॉलम	स्तंभ	खांभा, संबाद- पत्रेर विभाग	स्तंभ, ओख डाँगर खुँटा	कालम (लेख)	स्तंभ, खंब	कालम्	पत्तिरिगैयिन् पगुदि, पत्ति	पंक्ति, कोळम्	कालम्, अंकण
स्तब्ध, दिज्मूढ, निश्चेष्ट, स्तंभित	स्तब्ध	स्तब्ध, निश्चेष्ट, जड	स्तब्ध, जड़, निस्पंद, हतबाक	स्तब्ध, अचल	चङक्नबा	स्तब्ध, जडिभूत, निश्चल, निस्पंद	स्तब्धमैन	तिगैप्पडैंद बिरमित्त	स्तब्धम्	कदलद प्रज्ञेइल्लद
स्तुति, गुणगान, वखाण	स्तुती	तारिफ, प्रशंसा, बखान	स्तुति, सुख्याति	स्तुति, स्तव, तोषामोद	थागत्पा	स्तुति, प्रशंसा, गुणगान	स्तुति	तुदितल	स्तुति, प्रशंस	होगळिके
स्तोत्र, देव- देवीनी स्तुति, प्रार्थना, स्तवन	स्तवन, स्तोत्र	स्तुति, स्तोत्रपाठ, प्रार्थना, स्तोत्र, स्तव	स्तुति, स्तोत्र, स्तब	स्तोत्र, स्तुतिवाद, स्तब, माहात्म्य- पद वा श्लोक	शोन्बा, श्लोक, शैथाबा	प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति, स्तब	स्तोत्रममु	तोत्तिरम्, तुदिपाडल्	स्तोत्रम्	स्तुति, स्तोत्र, देवर नाम

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्त्री	स्त्री.	1. महिला, औरत	स्त्री	इसत्री	औरत	ज़नानुँ	स्त्री, औरत	स्त्री
		2. पत्नी, जोरू	पत्नी	इसत्री	बीवी	आर्शेन्य	ज़ाल, पत्नी	पत्नी, बायको
स्थगन	पुं.	सभा की बैठक, बात की सुनवाई या विचार अथवा कोई चलता हुआ काम कुछ समय के लिए रोक रखना	स्थगनम्	मुलतवी, सथगन	इल्तिवा	मुलतॅवी	मुहिमुली	तहकूबी, ॲडजर्नमेंट
स्थान	पुं.	1. जगह, स्थल	स्थानम्	थाँ	मुक़ाम	जाय	स्थानु, जगह	स्थान, ठिकाण, स्थल
		2. पद, ओहदा	स्थानम्, पदम्	पद	ओहदा	ओ'हदुँ	दर्जो, उहदो	पद, हुद्दा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्त्री, नारी, बैरी अबळा	अस्तुरी, स्त्री	स्त्री, स्वास्नी- मान्छे	स्त्री, नारी	स्त्री, तिरोता, महिला, भार्या	नुपी	स्त्री, नारी, रमणी, पत्नी	स्त्री	पॅण्, मङ्गै	स्त्री	हेंगसु, महिळे
पत्नी, बैथर, बहु	बायल	पत्नी, स्वास्नी	पत्नी, बउ, स्त्री	पत्नी, घैनी, भार्या, बिया- कराइ अना तिरोता	मतु (अ. पु.), नतु (म. पु.), इतु (उ. पु.)	पत्नी, स्त्री	भार्ये	मनैवि	भार्य	हेंडति
मोकूफी, सभा- मोकूफी	स्थगन	स्थगन, अस्थायी अवरोध, अस्थायी रोकावट	स्थगन, निबर्तन, क्षांति (क्ख)	स्थगन, पाचत- करिबलै- थोवा	यैथोक्पा	स्थगित, अंत, बंद	आपुदल, वायिदा	ऑत्ति- प्पोडल्	निर्त्तिवय्पॅ माट्टिवय्क्कुक	मुंदूडूविके
स्थान, जग्या, ठेकाणुं, स्थळ, श्हेठाण, बेठक, आसन	जागो, स्थान	ठाउँ, थलो, स्थान	स्थान, जायगा	स्थान, ठाइ, थल	मफम्	स्थान, जागा, ठिकणा	स्थानमु	इडम्	स्थानम्	जाग, स्थळ
पदवी, दरज्जो	पद, हुद्दो	पद, ओहदा	पद	पद, पदबी, उपाधि	फम्	पद, सम्मान, पदबी	पदवि	पदवि	पदवि, स्थानम्	स्थान, हुद्दे

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्थानांतरण	पुं.	किसी वस्तु या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या भेजना, बदली	स्थानान्तरणम्	बदली, तबादला	तबादला	तबदीली	बदिली	बदली
स्थानीय	वि.	स्थान विशेष का, मुकामी, स्थानिक	स्थानीय, देशीय	सथानक	मुक़ामी	मुकॉमी	मकानी	स्थानीय, स्थानिक
स्थापना	स्त्री.	1. स्थापित करने की क्रिया या भाव	स्थापना	सथापणा, थापणा	क़ियाम	कॉयमी	स्थापना	स्थापना
		2. प्रतिपादन, निरूपण	स्थापना	सथापणा, थापणा	इस्बात	थार्पॅना	स्थापना	प्रतिपादन, निरूपण
स्थायी	वि.	1. सदा स्थित रहने वाला, हमेशा बना रहने वाला, स्थिर, अटल, नियत	स्थायिन्, स्थिर	सथाई	टिकाऊ, मुस्तकिल	मुस्तॅकुल, रोज़बुन	टिकाऊ, स्थिर, पको	टिकाऊ, स्थायी
		2. टिकाऊ	स्थायिन्, स्थिर	सथाई	टिकाऊ	दरुॅवुन	टिकाऊ	टिकाऊ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
बदली, स्थानांतर, स्थळांतर	बदली	स्थानान्तरण, पदांतर, सरुवा	बदलि, स्थानांतरण (न)	स्थानांतर, बदलि, हस्तांतरण	मफम्-होङ्बा, लैफम् होङ्बा	स्थानांतरण, बदलि, हस्तांतरित	स्थलमुमार्पु, बदिली	इडमाट्टम्	स्थलमाट्टम्	वर्गावणे
स्थानीय, स्थानिक	स्थानीय, गाँवचो	रैथाने, स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय, स्थानिक	मफम् मफमगी, लम-लमगी	स्थानीय	स्थानिकमैन	उळ्ळूरै चेर्न्द	स्थलत्तुळ्ळ	स्थळीय
स्थापना	स्थापना	स्थापना, स्थापन	स्थापन/ स्थापना	स्थापना, स्थापन थोवाबा रखा-कार्य	लिङ्-खत्पा	स्थापना, दृढ, प्रतिष्ठा	प्रतिष्ठापनमु	निरुवनम्	स्थापिक्कल्	स्थापने
प्रतिपादन, निरूपण	प्रतिपादन	प्रतिपादन, निरुपण	प्रतिपादन, निरूपण (न)	प्रतिपादन, निरूपण, मीमांसा प्रतिपन्नकरण	फोङ्-दोक्पा	प्रतिपादन, निरूपण, संपादन, शेष	प्रतिपादनमु, निरूपणं	निलैनाट्टल्	प्रतिपादनम्	निरूपणं
स्थायी, स्थिर, कायमी	स्थायी	स्थायी, अटल	स्थायी, स्थितिशील, स्थिर, अटल	स्थायी, एकेदरेथका	मतम चुप्पगी ओइना लेङ्दना लैबा	स्थायी, नित्य, अटल, साकार	खायमु, स्थिरमु	निरंतरमान, निलैयान	स्थायियाय	शाश्वत
टकाउ	टिकाऊ	दिगो, टिकाउ, खपुवा	टेकसइ, मजबूत	बहु दिन टिका	पल्लिबा, पंथरिबा कुइना चत्पा	स्थायी, दृढ़, दूर्भेद्द, मजबुत	मन्निकें-कलें	नीडित्तु-निर्किर्	उऱप्पुळ्ळ	बाळिकें

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्थिति	स्त्री.	1. दशा, हालत, अवस्था	स्थितिः, दशा	सथिती	हालत	हालथ	हालत	दशा, अवस्था, स्थिती
		2. पद, मर्यादा आदि के विचार से समाज में स्थान	स्थितिः, पदम्	सथिती	हैसियत	कूॅफियत	दर्जो, जाइ	स्थान
		3. किसी कार्य आदि की प्रगति की अवस्था, चरण	स्थितिः	सथिती	कैफ़ियत	हालथ	हालत	परिस्थिती
स्थिर	वि.	1. अटल, निश्चल	स्थिर	सथिर, थिर	साकिन	सॉकिन, थ्यर	अचल	स्थिर, दृढ़, निश्चल
		2. स्थायी	स्थिर	सथिर, थिर	मुस्तक़िल	–	दाइम, काइम	स्थायी
		3. धीर, शांत	स्थिर	सथिर, थिर	पुरसुकून	–	शांत, बिना हलचल	धीर, शांत

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्थिति, दशा, अवस्था	दशा, अवस्ता	स्थिति, अवस्था, हालत	स्थिति, अबस्था, दशा	दशा, अवस्थान, विद्यमानता	फिभम, दशा	स्थिति, अबस्था, परिस्थिति, दशा	स्थिति	निलैमै	स्थिति	स्थिति
पद, दरज्जो, मर्यादा	स्थिती	स्थिति, दर्जा, स्थान	पद बा मर्यादा हेतु समाजेर मध्ये प्राप्त प्राधान्य	पदवी, मर्यादा, स्थान	मफम्	पदबी, मर्ज्यादा, स्थान, उच्चता	होदा	अंतस्तु	स्थानम्	स्थान
परिस्थिति, अवस्था, प्रगतिनुं चरण	स्थिती	चाँजो पाँजो, बंदोबस्त, परिस्थिति	कार्यादिर अबस्था	अवस्था, स्थिति, अवस्थिति	थाक्, मफम्	अबस्था, स्थान, निबेश, अबस्थान, अबस्थिति, परिस्थिति	स्थिति	निलै	निलवारम्, अवस्थ	मट्ट
स्थिर, हालतुं चालतुं न होय तेवुं, दृढ़	स्थीर शाश्वत, धीर, शांत	स्थिर, अटल, अचल	स्थिर, अचल, निश्चल	स्थिर, अचल, निश्चल	लेङ्दबा	स्थिर, अचल, निश्चल	स्थिरमैन॑	अशैयाद	निश्चलम्	निश्चल, अचर
स्थायी, अटल	शाश्वत	स्थायी, अक्षय	स्थायी, अक्षय (क्ख)	स्थायी, निर्धारित	लेङ्दबा	स्थायी, अटल, निर्धारित	स्थिरमैन॑	स्तिरमान, निलैयान	स्थिरम्	शाश्वत
धीर, शांत	धीर, शांत	धीर, शांत	धीर, शांत	धीर, स्थिर	अतप्पा, अइङ्बा	धीर, शांत, सरल	स्थिरमैन॑	अमैदियान	शांतम्	धीर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्नेह	पुं.	1. प्रेमियों, हमजोलियों, बच्चों आदि के प्रति होने वाला प्रेमभाव	स्नेहः	पिआर, नेहुं, निहुं	मुहब्बत, उंसीयत	श्रेह	प्यारु, स्नेहु	प्रेम, स्नेह
		2. चिकना पदार्थ, चिकनाहट वाली चीज	स्नेहः	थिंधा	दुहनी	–	सणिभी शइ	स्निग्ध पदार्थ
स्पंदन	पुं.	1. धीरे-धीरे हिलना या काँपना	स्पन्दनम्	कंबणी	जुंबिश, इर्तिआश	थरॅ-थरॅ	चुरपुर, हलचल	कंपन, स्पंदन
		2. फड़क, प्रस्फुरण, गति	स्पन्दनम्	कंबणी	–	–	–	प्रस्फुरण, गतिशीलता
स्पर्धा	स्त्री.	प्रतियोगिता आदि में किसी से होने वाली होड़	स्पर्धा	बराबरी, होड़	रक़ाबत	मान-मान	चटाभेटी	स्पर्धा, चढ़ाओढ़
स्पर्श	पुं.	1. त्वचा का वह गुण, जिससे छूने, दबने आदि का अनुभव होता है	स्पर्शः	छोह	लम्स	जीर लगॅुन्य, छुहुन	छुहावु	स्पर्श
		2. एक वस्तु के तल का दूसरी वस्तु के तल से सटना या छूना, संपर्क	स्पर्शः, संयोगः	छोह	–	छिह	संपर्क	संपर्क

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्नेह, प्रेम, प्रीति, बहाल	स्नेह	प्रेम, माया, स्नेह	प्रीति, प्रेम, भालबासा	प्रेम, प्रीति, चेनेह, स्नेह	नुङ्शिबा	स्नेह, प्रीति, प्रेम, श्रद्धा	स्नेहमु	अन्बु	स्नेहम्	स्नेह
चीकणों पदार्थ, तेल	स्निग्ध पदार्थ	चिल्लो पदार्थ	तैल जातीय पदार्थ	मरमू, चेनेह सेनेहिल, पिच्छल	अनान्बा	मसृण, चिकण	स्नेहमु, तैलमु	एंण्णंय् पशै	स्निग्धत	जिड्डु
स्पंदन, कंप	स्पंदन	कम्पन, हल्लाइ	स्पंदन, कंपन	स्पंदन, कँपनि मृदुकंपन	निक्पा, थमोइ तनिक् तनिक्पा	स्पंदन, दोलन, कंपन, आंदोलन	स्पंदनमु	नडुक्कम्	स्पंदनम्	स्पंदन, कंपन अल्लाडुविके
स्फुरण	झंकार, फडकन	धुकधुकी, स्फुरण, फुरफुराइ	स्फुरण, गति (न)	कँपनि प्रकाश	खोङ्चत् नाइबा, फ्रङ् हौबा	गति, बेग, द्रुत, क्षिप्र, त्वरा	स्पंदनमु	तुडिप्पु	तुटिक्कल्, तुटिप्पुॅ मिटिप्पुॅ	गतिशीलते, मिडियुवुके
स्पर्धा, हरीफाई	स्पर्धा	होडबाजी, प्रतियोगिता, स्पर्धा	स्पर्धा, प्रतियोगिता	स्पद्र्धा, प्रतियोगिता	लंबा तौनबा	स्पर्धा, आस्फालन, बड़िमा, प्रतिजोगिता	पोटी, स्पर्धे	पोट्टि	मत्सरम्	स्पर्धे, पैपोटि
स्पर्श, स्पर्शवुं, अडवुंते	स्पर्श	छुवाइ, स्पर्श	स्पर्श, त्वगिँद्रिय-ग्राह्य गुण (न)	स्पर्श, परश, छोवा कार्य	थेङ्बा, शोक्पा	स्पर्श, छुईंबा	स्पर्श	तॊडुउणर्चि	स्पर्शम्	स्पर्श
संसर्ग	संपर्क	सम्पर्क, स्पर्श	छोँया, ठेकाठेकि	स्पर्श, संसर्ग, संस्पर्श, संपर्क	थेङ्नबा	स्पर्श, संपर्क, संस्पर्श	संसर्गमु	तोडुदल्	तॊटुक, संपर्कम्	संसर्ग, संपर्क

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्पष्ट	वि.	जिसे देखने, समझने, सुनने आदि में नाम मात्र भी कठिनता न हो, बिलकुल साफ	स्पष्ट	सपशट	साफ़, वाज़ेह	वाज़ेह, साफ	साफ़, चिटो	स्पष्ट
स्फूर्ति	स्त्री.	तेजी, फुर्ती	स्फूर्तिः	फुरती	तेज़ी, फुर्ती	ताकत, फुरती	फुड़िती, चुस्ती	स्फूर्ती
स्मरण	पुं.	कोई बात फिर से याद आने की क्रिया या भाव, स्मृति, याद	स्मरणम्	याद, सिमरन	याद	याद, सोंरुन	यादगीरी, स्मरणु	स्मरण
स्मारक	वि.	स्मरण कराने वाला	स्मारक	यादगार, समारकी	याद अंगेज़	यादगार	याद कंदड़ु	स्मरण करणों
	पुं.	स्मरण चिह्न, यादगार	स्मारकम्	समारक	यादगार	यादगार	यादगारु	स्मारक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्पष्ट, चोख्खुं	स्पश्ट	छर्लङ्ग, परिष्कार, स्पष्ट	स्पष्ट, ब्यक्त, प्रकाशित	स्पष्ट, ब्यक्त, परिष्कार, जिलिका फटफटीया	मयेक् शेङ्बा	स्पष्ट परिस्फुट, ब्यक्त, प्रकाशित	स्पष्टमु	तळिवान	स्पष्टम्	स्पष्ट
स्फुर्ति (र्त्ति), तेजी	स्फूर्ती	फुर्ती, जाँगर, स्फूर्ति	चटपट, तत्परता	बेग, तीब्रता, उलाह, फूर्ती	अयाङ्बा	स्फूर्ति, बेग, तत्परता, शीघ्र	स्फूर्ति	उर्चागम्, शुरु शुरुप्पु	उत्साहम्, वेगम्	प्रोत्साह, हेम्मे
स्मरण, याद, स्मृति, नाम जपवुंते	याद, स्मरण	सम्झना, याद, स्मरण	स्मरण, स्मृति (सँ) (सिँ)	स्मरण, स्मृति, मनत-पेलोवा	निङ्शिङ्बा	स्मरण, स्मृति, मनेपकाइबा	स्मरणमु, ज्ञापकमु	निनैवु	स्मृति, ओर्म	नेनपु
स्मारक	स्मारक	स्मारक, यादगार	स्मारक, स्मृतिर, उद्बोधक	स्मारक, अभिनयत-मनत-पेलाइदिवा लोक	निङ्शिङ्ल-कइबा	स्मारक, स्मृति, उद्बोधक	स्मारकमु	निनैवु पडुत्तुगिर्, निनैवूट्टुम्	ओर्मिप्पि-क्कुन्न	नेनपु कोडुव, ज्ञापिसुव, स्मारक
स्मारक	यादस्तीक	स्मरण चिह्न, सम्झौटो, स्मारक	स्मारक-चिन्ह	स्मृति-चिह्न	निङ्शिङ् खुदम	स्मारक-चिन्ह, स्मृति-चिन्ह	स्मरण चिह्नमु	ञापगार्त्तम्, निनैवुच्चिन्नम्	स्मारकम्	स्मारक, स्मृति चिन्हे

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्मृति	स्त्री.	1. स्मरण शक्ति	स्मृतिः	हाफजा, सिमरती	हाफ़िज़ा, याददाश्त	यादाश्त	यादगीरी, स्मृती	स्मृती, स्मरणशक्ती
		2. याद, अनुस्मरण	स्मृतिः	सिमरती, चेता	याद	याद	याद, स्मरणु	आठवण
		3. धर्म, आचार-व्यवहार आदि से संबंधित हिंदू धर्मशास्त्र, जिसकी रचना ऋषियों और मुनियों ने वेदों का स्मरण या चिंतन करके की थी	स्मृतिः	सिमरती	–	स्मृति-ग्रंथ	स्मृती (धर्मी किताबु)	स्मृती (शास्त्र)
स्रष्टा	वि.	सृष्टि या रचना करने वाला, रचयिता, निर्माता	स्रष्टृ	सिरजनहार	ख़ालिक	बनावन वोल	सिर्जणहार	स्रष्टा, निर्माता, सृष्टी रचणारा
	पुं.	ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता	स्रष्टृ	सिरजनहार	–	–	ब्रह्मा	ब्रह्मा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्मृति, स्मरणशक्ति	स्मृती	स्मृति, स्मरणशक्ति	स्मरण शक्ति	सोंवरण स्मृति, स्मरण शक्ति	निङ्शिङ्बगी शक्ति	स्मृतिशक्ति स्मरण शक्ति, मनेपकाइबा शक्ति	स्मरण शक्ति	ञापक शक्ति	ओर्म्मशक्ति	स्मृति, ज्ञापक शक्ति
याद	स्मरण	सम्झना, याद, स्मरण	स्मृति, स्मरण (न)	स्मरण, सोँवरण	निङ्शिङ्बा	स्मृति, स्मरण	गुर्तु, ज्ञापकमु	निनैवु	ओर्म्म	नेनपु
धर्मशास्त्र (प्रत्येक)	स्मृती ग्रंथ	स्मृतिग्रंथ	स्मृति शास्त्र	स्मृति (शास्त्र), हिंदू धर्म्म विधि	स्मृति	स्मृति-शास्त्र	स्मृति	हिंदुचट्ट तोगुप्पु, स्मृति	स्मृति	स्मृति (ग्रंथ)
सृष्टि, बनावनार	सृश्टीकरतो, सृश्टा	रचयिता, निर्माता	स्रष्ठा, निर्माता	स्रष्टा, निर्माता, ईश्वर	अइबा, करिगुंबा अमा शेम्मत् शागत्लिबा मी	सृष्टिकारी, स्रष्टा, विधाता, निर्माता	स्रष्ट	शिरुष्टिकर्ता, उण्डाक्कुबवर्	स्रष्टावुँ	सृष्टिकर्त
ब्रह्मा, ईश्वर	ब्रह्मा	ब्रह्मा, स्रष्टा	ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता	ब्रह्मा, बिधाता, सृजनकारी	ब्रह्मा, विधाता	ब्रह्मा, विधाता	सृष्टिकर्ते	बिरम्म देवर्	ब्रह्मावुँ	ब्रह्म

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वचालित	वि.	अपने आप चलने वाला, जिसके अंदर ऐसे कल-पुरजे लगे हों कि एक पुरजा चलाने से ही वह अपने आप चलने या कोई काम करने लगे	स्वचालित	स्वैचालत	ख़ुदकार	पानय-चलन-वोल, खोंदकार	खुद हलदंड़ु, स्वचालित, ओटोमेटिक	स्वयंचालित, ओटोमेटिक
स्वजन	पुं.	1. अपने परिवार के लोग, आत्मीय जन	स्वजनः	साक	रिश्तेदार, ख़्वेश	पर्नुंन्य नफर	कुटुंबी	स्वजन, आप्तेष्ट जन
		2. सगे-संबंधी, रिश्तेदार, बंधु-बांधव	स्वजनः	–	–	बंद-बांदव	रिश्तेदारु, अज़ीज़ु	बंधु-बांधव, नातेवाईक
स्वतंत्र	वि.	1. जिसका तंत्र अथवा शासन अपना हो, जो किसी के तंत्र या शासन में न हो, आजाद	स्वतन्त्र	सुतंतर	आज़ाद	आज़ाद	आज़ाद, स्वतंत्र	स्वतंत्र, मुक्त
		2. किसी प्रकार के नियंत्रण, दबाव या बंधन से रहित	स्वतन्त्र	सुतंतर	–	–	–	स्वतंत्र
स्वतंत्रता	स्त्री.	स्वतंत्र रहने या होने की अवस्था या भाव, आजादी, स्वातंत्र्य	स्वतन्त्रता	सुतंरता	आजादी	आज़ॉदी	आज़ादी, स्वतंत्रता	स्वातंत्र्य

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वसंचालित	स्वयं चलीन	स्वचालित	स्वयंचालित, स्वयंक्रिय	स्वयंचालित, स्वयंक्रिय	मथंता चत्वबा	स्वयंचालित, चालनक्षम, स्वत: प्रवृत्त, स्वयंक्रिय	स्वचालितमैन॒	ताने इयंगुगिर्	स्वयं प्रवर्त्तिक्कुन्न	स्वयंचालित
स्वजन, पोतानुं माणस	आपले लोक	स्वजन, परिजन	स्वजन, आत्मीय	आत्मीय लोक, स्वजन, ज्ञाति	ईमुङ् मनुङ्गी मीशिङ्	स्वजन, आत्मीय-जन, ज्ञातिकुटुंब	स्वजनुलु, आत्मीयुलु	तन् कुडुंबत्तिर्	स्वजनम्	परिवारदवरु, मनेयवरु
सगुं, संबंधी, बंधु-बांधव	नातेवाईक	नातादार, बंधुबांधव	बंधु-बांधब, परिजन	लगा-भगा, बंधु-बांधव	मरि-मता शागै-नातै मरूप-मपाङ्	बंधु-बांधब	बंधुवुलु	उऱविनर्	बंधक्कार्	नेटंरु
स्वतंत्र, स्वाधीन	स्वतंत्र	स्वतंत्र, स्वाधीन	स्वतंत्र, स्वाधीन	स्वतंत्र, स्वाधीन, पृथक्	मनिङ् मखा तंबा	स्वतंत्र, मुक्त, स्वाधीन, मुक्ति	स्वतंत्रमैन॒	पिऱर् अदिकारत्तिल् इल्लाद	स्वतंत्रम्	स्वतंत्र
मुक्त, आज़ाद	मुक्त	फुक्का, बंधनमुक्त	–	मुक्त, बंधनरहित	अफा-अपुन लैतबा	स्वतंत्र	स्वेच्छकल॒	–	–	स्वच्छंद
स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी	स्वातंत्र्य	स्वतंत्रता, मुक्ति	स्वाधीनता	स्वाधीनता, स्वतंत्रता	मनिङ् मखा तंबा मतौ	स्वतंत्रता, स्वाधीनता	स्वातंत्र्यमु	सुतंदिरम् विडुदलै	स्वातंत्र्यम्	स्वतंत्र

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वप्न	पुं.	1. सपना, ख्वाब	स्वप्नः	सुफना, सुपना	ख़्वाब (ख़ाब)	सोंपुन	सपनो, ख़्वाबु	स्वप्न
		2. मन ही मन की जाने वाली बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ और बाँधे जाने वाले मनसूबे	स्वप्नः, मनोरथः	सुफना	–	खयॉली-पोंलाव	ख़याली पुलावु	मनोरथ, कल्पना
स्वभाव	पुं.	1. प्रकृति, खासियत, मिजाज	स्वभावः, धर्म	सुभा	फ़ितरत	सोंबाव	सुभाउ, फ़ितरत	स्वभाव
		2. आदत, बान	स्वभावः, शीलम्	सुभा	आदत	फितरथ	–	सवय, ब्रीद
स्वयं	वि., क्रि.वि.	खुद (व्यक्ति)	स्वयम्	आपे	खुद, आप	पानुँ, पॉन्य-पानय	खुद, पाण, पंहिंजो पाण	स्वयम्, स्वतः, आपोआप होणारे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वप्न, सपनुं	सपन	सपना	स्वप्न	स्वप्न, सपोन	मङ्, मङ्लान	स्वप्न, सपन	स्वप्नमु	कनवु	स्वप्नम्	कनसु
महत्त्वा-कांक्षा	मनोरथ	कल्पना, मनकान्छे, मनोरथ	आकाश-कुसुम	अलीक-कल्पना, स्वप्नाबिस्ट	मङ्लान फूरा शाबा	आकाश-कुसुम, दिबा-स्वप्न	मनोरथमु	कर्पनै	संकल्पम्	कल्पने
स्वभाव, प्रकृति, तासीर	सभाव, स्वभाव	स्वभाब, सहज-प्रकृति	स्वभाव, प्रकृति (स)	स्वभाव, प्रकृति, गुण, धर्म	हौनशा, हैनबी, लम्चत	स्वभाब, प्रकृति	स्वभावमु	सुबावम्, इयल्बान गुणम्	प्रत्येकत	स्वभाव
टेव, आदत	संवय	आनीबानी, आदत	अभ्यास	अभ्यास, स्वभाव, आचरण, चरित्र	हैनबी	अभ्यास, स्वभाव, आचरण	स्वभावमु	वऴक्कम्	स्वभावम्	अभ्यास, वाडिके
स्वयं, हुं, पोते-जाते, आपोआप, पोतानी मेळे	आपलेआप, आपोआप	स्वयम्, आफैं, आफैंआफ, स्वयमेव	स्वयं, निजे (स), स्वयंक्रिय, स्वइच्छाय (स)	स्वयं, निजे, आपुनि, निज-इच्छामते आपोना-अंपुनि	मशा, मशामक, मशाना, मशामक्ना	स्वयं, निजे, निज-इच्छारे	तनंतटे तानु, स्वंतमु, स्वंतमुगा	तान्, तानागवे निगऴगिर/ सॅय्गिर्	स्वयं, स्व, तनिये (संभविक्कुक)	स्वतः, स्वयं, तानु, तानागियं, आगुव

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वरूप	पुं.	1. आकृति, रूप, शक्ल	स्वरूपम्	सरूप	माहीयत	हयथ, शर्कुल	रूपु, शिकिल	स्वरूप, आकृती
		2. प्रकृति, स्वभाव, गुण	स्वरूपम्, स्वभाव:	सरूप	हैअत	–	सुभाउ, गुणु	स्वभाव, गुण
स्वर्ग	पुं.	1. देवलोक	स्वर्ग:	सुरग, देवलोक	आलमे-क़ुदुस, आलमे-बाला	सॊरुग	सुरगु, सुर्गु	स्वर्ग, देवलोक
		2. ऐसा स्थान, जहाँ सभी प्रकार के सुख प्राप्त हों और नाममात्र भी कष्ट या चिंता न हो	स्वर्ग:	सुरग, जन्नत	जन्नत, बहिश्त	–	सुरगु	स्वर्ग
स्वर्ण-युग	पुं.	उत्कर्ष का समय, अभ्युदय काल	सुवर्णयुगम्	सुनहिरी युग	अहदे-ज़र्रीं	सॊनहरी दोर	सोनहरी ज़मानो	सुवर्णयुग
स्वर्णिम	वि.	सोने का, सुनहला	सौवर्ण	सुनहिरा	ज़र्रीं	सॊनहर्य	सोनो	सोन्याचा, सोनेरी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वरूप, आकृति, रूप, घाट, आकार	स्वरूप	आकृति, रूप, अनुहार	स्वरूप, आकृति	आकृति, स्वाभाविक-आकार, गढ़ अविस्थल	शक्तम, शकओङ्	स्वरूप, आकृति, आकार, गढ़ण	स्वरूपमु	उरुवम्	स्वरूपम्	आकृति, रूप
लक्षण, स्वभाव	प्रकृती	स्वभाव, प्रकृति	प्रकृति, स्वभाब (स)	प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप, तुल्य	मओङ्, स्वभाव, मगुण	स्वभाब, प्रकृति, आबभाब	प्रकृति, गुणमु	इयल्बु	स्वभावम्	प्रकृति, स्वभाव, गुण
स्वर्ग	देवलोक	स्वर्ग, देवलोक	स्वर्ग, देवलोक (स)	सुखर ठाइ, स्वर्गपुरी	स्वर्ग, लाइरैबाक	स्वर्ग	देव लोकमु, स्वर्गमु	सॉर्ग लोगम्	स्वर्गम्	स्वर्ग
देवोनो लोक	स्वर्ग	स्वर्लोक, इन्द्रपुरी	चिरसुखमय स्थान	देवलोक	अवात्-अपा लैतबा, नुङाइ-याइफबा मफम	देबलोक	स्वर्गमु	सॉर्ग लोगम्	स्वर्गम्	स्वर्ग
स्वर्णयुग	स्वर्णयुग, भांगरा युग	सुनौलो युग, स्वर्णयुग	स्वर्णयुग, ऐश्वर्य ओ समृद्धि काल (स) (न) (ज)	स्वर्णयुग, सोणालीयुग	स्वर्ण युग, लन-थुम, कला साहित्य चाओखत्पा अमदि वायेन थौदादा शांति ओइबा अतम	स्वर्णजुग, सुवर्णजुग	स्वर्णयुगमु	पॉर्-कालम्	स्वर्णयुगम्	स्वर्णयुग, सुवर्णयुग
स्वर्णिम, सोनेरी, सोनानुं	भांगराळो, स्वर्णीम	सुनौलो, सुनजस्तै चम्किलो	स्वर्णमय, सोनार, सोनाली	सोणाली, स्वर्ण-कान्ति	सनागी, सनाना शाबा	स्वर्णमय, स्वर्णिम	स्वर्णाभमु	तंगमयमान	पॉन्मयं	चिन्नद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वस्थ	वि.	रोग, विकार आदि से रहित	स्वस्थ	सिहतमंद	सेहतमंद, तनदुरुस्त	सेहथमंद, तंदरुस	सेहतमंद, तंदुरुस्त, चङोभलो	निरोगी
स्वागत	पुं.	सादर अभिनंदन	स्वागतम्, प्रत्युत्थानम्, अभिनन्दनम्	जी-आइआं, सुआगत	ख़ैरमक़्दम, इस्तिक़बाल	स्वागत, इस्तेकबाल	स्वागतु, आजियां, इस्तकबाल	स्वागत, सत्कार, स्वीकार करणें
स्वाद	पुं.	खाने-पीने पर जीभ को होने वाली अनुभूति, जायका	स्वादः, रसः	सुआद	ज़ाइक़ा, लज़्ज़त	मज़ुँ, साद	सवादु	स्वाद, लज्जत
स्वादिष्ट	वि.	जिसका जायका या स्वाद बहुत अच्छा हो	स्वादु, स्वादिष्ठ	सुआदी	ज़ाइक़ेदार, लज़ीज़	मज़ुँदार	सवादी	स्वादिष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वस्थ, नीरोगी, तंदुरस्त	आरोग्य, निरोगयाव्ठो	निरोगी, स्वस्थ्, तंदुरुस्त	सुस्थ, निरोग	सुस्थ, निरोग	नादबा, मशा-फबा	स्वस्थ, निरोग	आरोग्य-मैन	आरोग्गियमान, नोयट्ट	आरोगदृढ-गात्रन्	स्वस्थ, आरोग्यकर
स्वागत, सत्कार, स्वीकार करवुं, मान्य करवुं	स्वागत, मान्यकरप	स्वागत, सत्कार, ग्रहण, स्वीकार, शिरोधार्य	स्वागत, संबर्धना	स्वागत, अभ्यर्थना, शुभागमन, ग्रहण, स्वीकार, मानिलोवा	स्वागत, नुङ्शिना अमदि इकाइखुम्नना ओक्चबा, हराओना ओकपा, ओकपा लौबा, लैशिनबा	स्वागत, सत्कार, अभ्यर्थना, संबर्धना, ग्रहण, स्वीकार, मानिनेबा	स्वागतमु	वरवेरुपु, नल्वरवु	स्वागतम्, स्वागतम् चेय्यल्,	स्वागत, स्वीकार
स्वाद, चाखवो ते चसको	स्वाद, रूच	स्वाद, रुचि	स्वाद	स्वाद, सोवाद, अस्वादु	महाओ	स्वाद, आस्वादन, रुचि, प्रवृत्ति, अनुराग, भोग	रुचि	रुचि	स्वादुँ	रुचि
स्वादिष्ट, स्वादु, स्वादवाळुं, स्वादिष्ट, रोचक	स्वादिश्ट, रूचीक	स्वादिलो, स्वादिष्ठ	स्वादिष्ट, सुस्वादु, रुचिकर	सुस्वादु, मिटा सुवदि	अहाओबा	स्वादिष्ट, सुस्वादु, रूचिकर	रुचिकरमैन	रुचिकरमान, चुवैयुळ्ळ	स्वादुळ्ळ, स्वादिष्टमाय	रुचिकर

हिंदी	व्या.- कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वाभाविक	वि.	1. प्राकृतिक, कुदरती	सहज	सुभाविक	फ़ितरी	कोंदरती	सुभावीक	नैसर्गिक
		2. जो या जैसा प्रकृति के या स्वभाव के अनुसार साधारणत: हुआ करता है	स्वाभाविक	–	–	फितुॅरती	–	स्वाभाविक, सहज
स्वामित्व	पुं.	1. मालिक अथवा स्वामी होने की अवस्था या भाव	स्वामित्वम्, स्वत्वम्	मालकी, मलकीअत	मिल्कियत	मॉल्यकियथ	मालिकी, मिल्कीयत	स्वामित्व, मालकी
		2. प्रभुता, आधिपत्य	स्वामित्वम्, प्रभुत्वम्	मालकी	–	मॉल्यकियथ	हक्कु, अधिकारु	प्रभुता, आधिपत्य
स्वामी	पुं.	1. वह व्यक्ति, जिसे किसी वस्तु पर पूरे और सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, मालिक	स्वामिन्	मालक	मालिक	मॉलिख	स्वामी, मालिक	स्वामी, मालक
		2. पति, शौहर	पतिः	मालक	ख़ाविंद	रून, सॉमी, खानुॅदार	स्वामी	पति, नवरा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वाभाविक, प्राकृतिक	प्राकृतीक	स्वाभाविक, प्राकृतिक	प्राकृतिक, नैसर्गिक	स्वाभाविक, प्राकृतिक	हौनशा ओइबा, प्रकृतिगी ओइबा	स्वाभाविक, प्राकृतिक, साबलिल	सहजमैन	इयक्कैयान	स्वाभाविकम्	प्राकृतिक
कुदरती, अकृत्रिम, सहज	स्वाभावीक	सहज	स्वाभाबिक, प्रकृतिगत	सहज, स्वाभाविक	लाइना, हौनशा ओइना	सहज, प्रकृतिगत, स्वाभाविक	स्वभाव-सिद्धमैन	इयल्बाग नडक्किर्	स्वाभाविक-माय, प्रकृत्याउळ्ळ	स्वाभाविक, सहजवाद
स्वामित्व, मालिकी	स्वामीत्व	मालिक्याइँ	स्वामीत्व, मालिकाना	स्वामित्व, मालिकी स्वत्व, स्वामिर स्वत्व	मपु ओइबा, मपु	स्वामित्व, मालिक, स्वामी	स्वाम्यमु	तन्उडैमै, सॉदम्	उटम, उटमस्था-वकाशम्	स्वामित्व, ओडेतन
धणीपणुं, प्रभुता	मालकी	प्रभुता, प्रभुत्व, आधिपत्य	प्रभुत्व, आधिपत्य (त)	प्रभुत्व, अधिकार, कर्तव्य	मपु, मपुङ ओइबा, मपु ओइबा	प्रभुत्व, आधिपत्य, अधिकार	आधिपत्यमु	आदिक्कम्	अधिकारम्, आधिपत्यम्	प्रभुत्व
स्वामी, मालिक	मालक	स्वामी, मालिक	अधिकारी, मालिक, प्रभु	गराकी, मालिक, प्रभु	मपु	स्वामी, प्रभु, मालिक	यजमानि	एंजमान्, उरिमैयाळर्	उटमस्थन्	यजमान
पति	घोव, घरकार	पति, लोग्ने	स्वामी, पति	पति, स्वामी, गिरिहत	मपुरोइबा, मवा	स्वामी, पति, प्रभु	भर्त	कणवन्	भर्तावुँ	गंड, पति

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वार्थ	पुं.	अपना अर्थ या उद्देश्य, अपना मतलब	स्वार्थः	गरज मतलब	ख़ुदग़रज़ी, ख़ुदकामी, ख़ुदमत्लबी	मतलब, गरज़	स्वार्थु, ख़ुदग़रज़ी	स्वार्थ
स्वार्थी	वि.	मात्र अपने उद्देश्य की सिद्धि चाहने वाला, खुदगर्ज़	स्वार्थी	खुदगरज, मतलबी	खुदग़रज़, मत्लबी	मतलॅबी, खोॅदगरज़	स्वार्थी, ख़ुदग़रज़, मतलबी	स्वार्थी
स्वावलंबन	पुं.	अपने पर ही भरोसा रखने और दूसरे से सहायता न लेने की अवस्था, गुण या भाव; आत्मनिर्भरता	स्वावलम्बनम्	आतम निरभरता	ख़ुदकफ़ालत	पर्नॅन्यन-ज़ंगन-प्यठ-इस्तादुॅ-रोज़न-वोल, खोॅदकॅफील	खुदयावरी, पाण ते भाड़णु, आत्मनिर्भरता	स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता
स्वावलंबी	वि.	अपने ही बल पर काम करने वाला, दूसरे की सहायता न लेने वाला, आत्मनिर्भर	स्वावलम्बिन्	आतमनिरभर	खुदकफ़ील	पर्नॅन्यन-ज़ंगन-प्यठ-इस्तादुॅ, खोॅदकॅफील	पाण ते भाड़ीदंड़ु	स्वावलंबी, आत्मनिर्भर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वार्थ	स्वार्थ	स्वार्थ, मतलब	स्वार्थ	स्वार्थ, निजरहित	मशा गी ओइजबा (अ.पु.), नशागी ओइजबा (म.पु.), इशागी ओइजबा (उ.पुं.)	स्वार्थ, उद्देश्य	स्वार्थमु	सुयनलम्	स्वार्थम्, स्वार्थन	स्वार्थ
स्वार्थी, आप मतलबी, स्वार्थीलु, स्वार्थवाळुं, एकलपेटुं	स्वार्थी	स्वार्थी, मतलबी, स्वार्थपरायण	स्वार्थी, स्वार्थपर	स्वार्थी, स्वार्थपर, स्वार्थंधि	ओइजबा थिबा	स्वार्थपर	स्वार्थपरुडु	सुयनलम् कॉण्ड	स्वार्थि	स्वार्थि
स्वावलंबन, स्वाश्रय, आत्म-निर्भरता	स्वावलंबन	आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन	स्वालंबन, आत्मनिर्भरता (सा)	स्वावलंबन, निजरसहायत निजे	मशाना मशागी मतेङ् लौजबगी मओङ्, फियम्	आत्मनिर्भरता, स्वाबलंबन	स्वावलंबनमु, स्वशक्ति	सुयतेवैप्पूर्त्ति कॉळ्गै	स्वाश्रयशीलम्	स्वावलंबन
स्वावलंबी, स्वाश्रयी, आत्मनिर्भर	स्वावलंबी	स्वावलंबी, आत्मनिर्भर	स्वाबलंबी (सा), आत्म-निर्भरशील	स्वावलंबी, आत्म-निर्भरशील	मशना मशागी मतेङ् लौबा, माशना मशाबु तेङ्बाङ्जबा मीगी मतेङ् पाङ्दबा	स्वाबलंबी, आत्म-निर्भरशील	स्वावलंबने-परुडैने	तन्नबिक्क-युळ्ळ	स्वाश्रयशीलन्	स्वावलंबि

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
स्वास्थ्य	पुं.	स्वस्थ अर्थात् नीरोग होने की अवस्था, गुण या भाव, आरोग्यता, तंदुरुस्ती	स्वास्थ्यम्	तंदरुसती, अरोगता	सेहत (तनदुरुस्ती)	सेहथ	तंदरुस्ती, चङभलाई, सेहत	आरोग्य, स्वास्थ्य
स्वीकार	पुं.	1. अपना बनाने, ग्रहण करने या लेने या अपनाने की क्रिया या भाव	स्वीकार:, स्वीकरणम्	सवीकार, परवान	क़ुबूल	मानुन	स्वीकार, कबूल	स्वीकार
		2. कोई बात मान लेने की क्रिया या भाव	स्वीकार:, स्वीकृति:	सवीकार, परवान	–	मानुन	मञिता	मान्य
स्वीकृति	स्त्री.	1. स्वीकार करने की क्रिया या भाव, सहमति	स्वीकृति:	परवानगी, रज़ामंदी	मंजूरी	मनजूरी	कबूलियत, मंजूरी, मञिता, रज़ामंदी	सम्मती, स्वीकृती
		2. प्रस्ताव, शर्त आदि मान लेने अथवा ग्रहण करने की क्रिया या भाव	स्वीकृति	परवानगी, रज़ामंदी	रज़ामंदी	रज़ामंदी	–	स्वीकृती, मान्यता
हँसना	अ. क्रि.	1. मुख-मुद्रा द्वारा प्रसन्नता प्रकट करना	√हस्	हस्सणा	हंसना	असुन	खिलणु	हंसणें
		2. दिल्लगी, मजाक या परिहास करना	परि √हस्	हस्सणा	दिल्लगी	–	दिल्लगी करणु	थट्टा करणें, चेष्टा करणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
स्वास्थ्य, स्वस्थता, तंदुरस्ती	आरोग्य, स्वास्थ्य	स्वास्थ्य, अरोग्य, तंदुरुस्ती	स्वास्थ्य (सा)	स्बास्थ्य, नीरोगता	मशा फबा, मशा मऊ फबा	स्वास्थ्य, आरोग्य	आरोग्यमु	आरोग्गियम्, उडल्नलम्	आरोग्यम्	आरोग्य, क्षेम
स्वीकार, स्वीकारवुं ते	स्वीकार	स्वीकार, कबुल, अँगालाइ	ग्रहण, अंगीकार	स्वीकार, स्वीकृति, सत्यता-मानिलोवा	चाबा, लौबा	स्वीकार, अंगीकार, ग्रहण	स्वीकारमु	एट्टुक्कॊळ्ळल्	स्वीकरिक्कल्	स्वीकार
मानवुं ते, कबूल करवुं ते	मानून घेवप	मान्य, मन्जुरी	स्वीकार	ग्रहण, मानि लोवा	याबगी थबक, याबगी भाव	ग्रहण, स्वीकार, मानिनेबा	अंगीकारमु	ऑप्पु-क्कॊळ्ळल्	अंगीकरिक्कल्	ओप्पुविर्के, वप्पिगॆ
स्वीकृति, स्वीकार, संमति	स्वीकार करचे	स्वीकृति, सहमति	स्वीकृति, सम्मति (शी)	स्वीकृति, सम्मति	याबा, याबगी भाव	स्वीकृति, सम्मति	स्वीकृति	ऑप्पुदल्	स्वीकृति, सम्मतम्	सम्मति, ओप्पिगे
मान्यता, स्वीकृति	स्वीकृती	अङ्गीकार, मान्यता, स्वीकृति	अंगीकार, ग्रहण (न)	ग्रहण, स्वीकार, सै काढि-कोवा कथां	याबा	स्वीकार, ग्रहण	अंगीकृति	एर्पु	अंगीकारम्	अंगीकार
हसवुं, दाँत काढवा	हांसप	हाँस्नु, खुसी हुनु, दङ्ग पर्नु	हासा	हँहा, हाँहि मार	नोक्पा	हसिबा	नव्वुट	चिरिक्क	चिरिक्कुक	नगुवुदु
हांसी करवी	मसकरी करप	जिस्कनु, हँस्सी-दिल्लगी गर्नु, गिजिनु	परिहास, हासि-ठाट्टा	हाँहि, हँहाकार्य, तामचा कर	नोक्नबा, फागी	मजाकरिबा, परिहास-करिबा, उपहास करिबा	परिहसिंचुट	परिहसिक्क, केलि संय्य	परिहसिक्कुक	हास्यमाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हँसमुख	वि.	जिसका मुख सदा हँसता हुआ-सा रहता हो, विनोदी	हसन्मुख	हस्समुख	हंसमुख (ख़ंदापेशानी)	असवुन	हसमुख, खिलिणो	हसरा
हँसली	स्त्री.	1. गले के नीचे और छाती के ऊपर की धनुषाकार हड्डी	जत्रुकम्	हसली	हंसली	अहरन	हँसली	गळ्याचे हाड
		2. स्त्रियों का एक चंद्राकार गहना	ग्रीवास्थिम्	हसली	–	तोॅलसी, न्येकुलिस	गले जो हारु	गळ्यातला एक अलंकार
हँसी	स्त्री.	1. हँसने की क्रिया, ध्वनि या भाव	हासः	हासा	हँसी	असुन, मज़ाख	खिल, हँसी	हसूं, हास्य
		2. परिहास, दिल्लगी, मज़ाक, ठट्‌ठा	परिहासः	हासा	–	असुन, मज़ाख	–	थट्‌टा, चेष्टा
हकलाना	अ. क्रि.	अटक-अटक कर बोलना	स्खलितं √वद्	थथलाउणा	हकलाना	अडुॅकजर	ब॒ताइणु, बि॒त बि॒त करणु	तोतरे बोलणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हसमुखुं, हसता मुखवाळुं, आनंदी	हांसयारें	हँसमुख, ठट्यौलो, विनोदी, हँस्यौलो	हासिमुख, बिनोद, बिनोदकारी	हाँहिमूखीया, फुर्तिबाज	नोक्कन्बा	हसमुख, बिनोदनकारी, आनंद	नव्वुमुखमु, नगुमोमु	चिरित्तमुग-मुडैय	प्रसन्नन्	नगुमुख
हांसडी	गव्व्या हाड	हँसली, कण्ठहाड	कंठा	गला-हार	ङक्का थबाक् का ताइनबगी शरू	धनुहाड़ (गलार)	मॅडनरमु	तोळ्पट्टै एॅलुंबु	अक्षकास्ति	कुत्तिगेय ऐलुबु
गळानुं एकु घरेणुं	गव्ठसरी	हँसुली	हाँसुलि, कंठहार	गलपता	नेक्लेस	कंठ बा, गला हाड़, हंसुली, कंठ हार	हारमु, कंटॅ	अड्डिगै	अड्डियल् नॅक्लेस्	कंठाभरण
हास्य, हसी, हास	हांसप	हाँसो, हँस्सी	हासि	हाँहियार, हँहाकार्य	नोक्पा	हस	नव्वु	चिरिप्पु	चिरि	नगु
हंसी, मज़ाक, मश्करी	मसकरी	परिहास, दिल्लगी, ख्यालठट्टा	परिहास, हासि ठाट्टा	हाँहि-घेमालि, ठाट्टा-मस्करा	नोक्नबा	परिहास, मज़ा, थटा	परिहासमु	परिहासम्, केलि	परिहासम्	हास्य, गेलि
तोतडावुं	चोंचरे उलोवप	भकभकाउनु	तोतलानो	खोना, खोनाइ, खोनाइ-कथा क	मरै लोंबा, स्टैमरिग	खनेइ-खनेइ-कहिबा, रहिरहि कहिबा, तोतला कथा, अस्पष्ट-भाबरे कहिबा	नत्तिगा माट्लाडुट	तिक्किप्पेश	विक्कुक	उग्गुवुदु, बिक्कुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हटना	अ. क्रि.	एक जगह से चल कर, खिसक कर या सरक कर दूसरी जगह जाना	दूरं √गम्, अप √सृ, परि √हृ, वि + अति √गम्	हटणा	हटना	हटुन, दूर रोजुन, पथ-फेंरुन, नेरुन	हटणु, टरणु	हटणें, सरकणें बाजूला होणें, टळणें
हड़ताल	स्त्री.	विरोध प्रकट करने के लिए काम बंद करना	कर्मविराम	हड़ताल	हड़ताल (स्ट्राइक)	हरताल, तंबुॅ	हड़ताल, हटताड़	हरताळ
हड़पना	स.क्रि.	1. मुँह में डाल कर निगलना या पेट में उतारना	नि √गृ, √ग्रस्	हड़प्पणा	हड़पना	ब्रख-वालुन	गीं॒हणु, हड़प करणु	गिळणें
		2. किसी की चीज अनुचित रूप से लेकर दबा बैठना	√ग्रस्	हड़प्पणा	–	–	हड़प करणु, खाई वञणु	गिळंकृत करणे

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
दूर खसवुं, खसी जवुं, टाळवुं	सरकप, कडसरप, टळप	हट्नु, यताउति सर्नु, छुटिनु, अलग्गिनु, पन्छिनु, टर्नु, स्थगित हुनु	सरा, सोरे जाओया, बिमुख हओया, स्थगित हओया, मुलतबि राखा	आँतर, दूर-ह, पिच-होँहुक, बिमुख ह, स्थगित ह	हंदोक्पा, यैथोक्पा	हटिबा, दूरेइ जिबा पघघुंचा देबा, हटिजिबा, विमुख हेबा, स्थगित हेबा, बंद करिबा, टालिबा	तॉलगुट, तॉलगि पोवुट	नगन्दु पोग, पिन्वांग, निन्रु पोग	मारुक पिंतिरियुक, ऑळिवाकुक	सरियुवुद, जरुगुवुदु
हडताल (ळ)	हडताळ, हडताल	हडताल, हरताल	धर्मघट, हरताल, बंध्	हरताल, धर्मघट, बंधा, बिक्षोभ-प्रदर्शन	अवाबा, अशाओबा, पेंदबा, फोङ्दोक्पा हौबा इहौ, स्ट्राइक	हरताल, धर्मधट, बंद	सम्मे	वेलैनिरुत्तम, कडैयडैप्पु	हर्ताल्, पणिमुटक्कुं	मुष्कर
गळवुं	गिळप	निल्नु, खानु	गिले नेओया	गिल, काढ़िलोवा	योतशान्बा	गिलिबा, उदरस्थ-करिबा	मिंगिवेयुट	विळ्गिविड	विळुङ्ङक	नुंगुवुदु
हडपवुं, हडप करवुं	नाडप	हडप्नु, पचाउनु	हातानो, आत्मसात करा	बेयाभावे, आत्मसात कर	मुनबा, मत्पा	हस्तगत-करिबा, आत्मसात-करिबा	अपहरिंचुट	कबळीगरम् संय्य	तट्टिर्यटुक्कुक अपहरिक्कुक	दक्किसि-कोळ्ळुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हत्था	पुं.	हाथ से चलाए जाने वाले बड़े औजारों और छोटी कलों का वह हिस्सा, जिसे हाथ से पकड़ कर घुमाने या चलाने से वे चलते हैं, दस्ता	हस्त्यम्	हत्था, दसता	दस्ता	दन	हथियो, दस्तो	मूठ
हथ-करघा (हाथ-करघा)	पुं.	कपड़ा बुनने का वह करघा, जो हाथ से चलाया जाता है	वेम, वैमन्	खड्डी	हथकरघा	यंदुॅर	आड॒णो	हाथमाग
हथियाना	स.क्रि.	अपने प्रभुत्व या अधिकार में कर लेना	हस्तगतं √कृ	हथिआउणा	हथियाना (क़ब्ज़े में करना)	ज़बरदस्ती-न्युन	ज़ोरीअ हथ में करणु, कब्ज़े में करणु	हस्तगत करणें
हथियार	पुं.	अस्त्र-शस्त्र	आयुधम्	हथिआर	अस्लिहा (हथियार)	हथियार, अवज़ार	हथियारु	हत्यार, अस्त्र-शस्त्र
हथौड़ा	पुं.	धातु, पत्थर, ईंट आदि ठोकने-पीटने वाला लोहे का एक औजार	घनः	हथौड़ा	हतौड़ा	डोंकुर	हथोड़ो, मुतिर्को	हातोडा
हदबंदी	स्त्री.	दो खेतों, प्रदेशों, राज्यों, देशों की सीमा निर्धारण करना	सीमाविनिर्णयः	हदबंदी	हदबंदी	हदबंदी	हदबंदी	हद्द ठरविणें

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हाथो	मूठ	मुठ, मुष्टि, हातो	हाता	मुठि, बस्तुर हातेरे, मुठि मारि, धरा-अंश	हात्पा	दस्ता, करत्राण	पिडि	कैप्पिडि	कैप्पिटि	हिडि
हाथसाल	हातमाग	हातकरघा	ताँत, हैंडलुम	ताँतशाल	योङ्घम्	उपकरण, तंतशाल	चेनेत̄ मग्गमु	कैत्तरि	कैत्तरि̱	कैमग्ग
कबजामां लेवुं	हस्तगत करप	हत्याउनु	हातानो, हात करा	हातकर, हातलै, हातकरिलै	लौशिन्बा	आयत्त-करिबा, हात करिबा, अक्तिआर-करिबा	लागु कॉनुट̄, अपहरिंचुट̄	तन्वशमाक्कि कॉळ्ळ, कैप्पटट	कैवशप्पेट्टुत्तक	कैवशपडिसि-कॉळ्ळुवुदु
हथियार, शस्त्र, आयुध	अस्त्र-शस्त्र	हतियार	हातियार, अस्त्र-शस्त्र	अस्त्र-शस्त्र	खुत्लाइ	हतिआर, शस्त्र, आयुध	आयुधमु	आयुद्म्	आयुधं	शस्त्रास्त्र
हथोडो	हातोडा	हतौडो, हतौडा, होत्रो	हातुड़ि, हातुड़ी	हातुरी	नुङ्थङ्	हातुड़ी	सम्मेट̄, सुत्ते	चुत्तियल्	कॉट्टुवटि, चुट्टिक	सुत्तिगे
हदबंधी	हद्दथारोवप	हदबंदी	जमि-ग्राम-राज्य-देशादिर सीमा निर्धारण (न)	सीमा निर्धारण	लम् ओन्थोक्पगी थबक्	सीमा-निर्धारण	हद्दु पॅट्टुट̄	एॅल्लैयै वरैयरुत्तल	अतिरॅ तिरिक्कल्	एल्ले कट्टुविके

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हम	सर्व.	उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम 'मैं' का बहुवचन	वयम्	असीं	हम	ॲस्य	असीं	आम्ही
हमारा	वि.सर्व.	'हम' का संबंधकारक रूप	अस्माकम्	साडा	हमारा	सोन	असांजो	आमचे
हमेशा	क्रि.वि.	सदा, सर्वदा, सदैव	सदा, सर्वदा	हमेशा	हमेशा	हमेशुँ	हमेशह/ हमेशा, सदाईं	नेहमी, सर्वदा, सदैव
हरण	पुं.	उठा ले जाना, छीनना या लूटना	हरणम्	हरन	दस्तबुर्द	ज़ोर-जबरदस्ती न्युन	फुरणु, लुटणु, भज़ाए वञणु	हरण करणें, लूटणें
हरा	वि.	1. ताजी उगी हुई घास या पत्तों के रंग का, हरित, सब्ज़	हरित	हरिआ	सब्ज़	सबुॅज़ार, सबुॅज़	साओ, सब्ज़	हिरवा
		2. हरियाली से भरा हुआ	शस्यश्यामल	हरिआ, हरा	सब्ज़	सबुॅज़ार, सबुॅज़	साओ-सताबो	हिरवळयुक्त
		3. हरा रंग	हरितः	हरिआ, हरा		–	साओ	हिरवा रंग

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
अमे, आपणे	आमीं	हामी	आमरा (आमि)	आमि	ऐखोय	आमे, आंभे, आंभेमाने	मेमु, मनमु (हमलोग)	नाम्, नांगळ्	नाम्, नम्मळ् ञङ्ङळ्	नावु
अमारुं, आपणुं	आमचें	हाम्रो, हामीहरूको	आमादेर (आमार)	आमार	ऐखोयगी	आमर	मार्याक्क , मनर्याक्क	नम्मुडैय, एंगळुडैय	नम्मुट्, ञङ्ङळुट्	नम्म
हंमेशां, हंमेश, नित्य, रोज	सदीं	सधैँ, सदैव, सदा	सदा, सर्बदा, हमेशा	सदाय, नितौ	मातम लैबा खिबिक्ता	सर्बदा, सदा, सबुबेले, सबुसमयरे	एंल्लप्पुडु	एंप्पोळुदुम्	एंल्लाय्पोळ्म्, सदा	यावागलू
हरण हरवुं, हरी जवुं	हरणकरप	हरण, अपहरण, चोरी	हरण, लुण्ठन, (न)	हरण, लुट, लुंठन चूरि पलुवाइ निया	मत्पा मुन्बा	हरण, लुण्ठन, चोरि	हरणमु, अपहरणॆ	पिडुंगि-क्कोळ्ळल्	अपहरिक्कल्	कसिदु कोळ्ळुविके
हरुं, लीलुं, हरित	पाचवो	हरियो, हरित	सबुज, हरित	सेउजीया	इशङ् शङ्बा	सबुज रंग, सागुआ	आकु पच्चनि	पच्चै निरमान	पच्चनिरमुळ्ळ	हसिराद
हरियाळी	पाचवी चार	हरिलोभरिलो	–	सेउजीया, घॉहनि	इशङ् शङ्बना थल्बा	सबुज, सबुजिमा	पच्चदनमुतो-निंडिनॆ	पशुमैयान	पच्चप्पटर्पाय	हसिराद
लीलो रंग	पाचवो	हरियो	–	सेउजीय रं	अशङ्बा मचु	सबुज, शागुआ	आकुपच्चॆ-रंगु	पसुमै	पच्चनिरम्, हरितवर्णम्	हसिरु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हरित	वि.	हरे रंग का, हरा	हरित	हरिआ	सब्ज़	सबुॅजार	साओ, सब्ज़	हिरवा
हरित-क्रांति	स्त्री.	फल-फूल, पौधे आदि को लगाए जाने के लिए किया जाने वाला आंदोलन	हरितक्रान्तिः	हरिआ क्रांती	सब्ज़ इन्क़िलाब	सबुॅज़-इनकॅलाब	सब्ज क्रांती	हरित क्रांती
हरियाली	स्त्री.	1. हरे-भरे पेड़-पौधों आदि का विस्तृत फैलाव या समूह	हरीतिमन्	हरिआवल, हरिआउल	सब्ज़ा, सबज़ाज़ार	सबुॅज़ार	सावक	हिरवळ
		2. आनंद, प्रसन्नता	आनन्दः	–	सरसब्ज़ी	सबुॅज़ार	सुखु, आनंदु	आनंद, प्रसन्नता
हर्ष	पुं.	प्रसन्नता, आनंद, खुशी	हर्षः	खेड़ा	ख़ुशी, मसर्रत	खोॅशी, हरुॅश	सुखु, ख़ुशी	हर्ष, आनंद

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हरित, लीला रंगनुं, लीलुं	पाचवे	हरित, हरियो रङ्	सबुज रङ्गेर	सेउजीया रङर	अशङ्बा मचुगी, अशङ्बा	नील	आकुपच्चनि	पच्चैनिरमान	निरत्तलुळ्ळ	हसिराद
हरित क्रांति	हरित क्रांती	हरितक्रांति	सबुज-क्रांति, सबुज-बिप्लब	बनमहोत्सव, बृक्षरोपण-आंदोलन	ऊ, वा. मना-मशिङ् थादुना इशङ् शङ्नबा तौबा आंदोलन	सबुजविप्लव, बनमहोत्सव, बृक्षरोपण-आंदोलन	सस्य विप्लवमु	पशुमैप्पुरट्चि	हरितविप्ळवं	हसिरू क्रांति
हरियाळी, लीलोतरी	पाचवीचार भूंय	हरियाली, हरितिमा	सबुज बनानी	सेउजिया, सेउजी	इशङ् शङ्बा मतौ, इशङ् शङबा	सबुजिमा	पंट पैरुल- पच्चदनमु	पशुमै	पच्चनिरम् पच्चप्पटर्प्पु	हुल्लुगावलु
लीलोतरीनी शोभा	आनंद	आनंद, खुसी, प्रसन्नता	आनंद, प्रसन्नता	आनंद, प्रसन्नता	हराओबा	आनंद, प्रसन्नता	कळकळ	मगिऴ्च्चि	आनंदम्	आनंद
हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, खुशी, हरख	खोस	हर्ष, खुसी, खुसियाली	हर्ष, आनंद, खुशि, संतोष	हर्ष, आनंद	हराओबा, नुङाइबा, अपेन्बा	हर्ष, उत्फुल्लता, आनंद, खुशि, आमोदप्रमोद	हर्षमु, संतोषमु	मगिऴ्च्चि, आनंदम्	हर्षम्	प्रसन्नते, हर्ष, आनंद

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हल	पुं.	1. खेत जोतने का एक प्रसिद्ध यंत्र	हलम्	हल	हल	अलुॅबॉन्य	हरु	नांगर
		2. गणित के प्रश्न का उत्तर	उत्तरम्	हल्ल	हल	हल	हलु	गणिताच्या प्रश्नाचें उत्तर
		3. किसी विषय या समस्या का समाधान	समाधानम्, उपाय:	सुलझाउ	–	वो'पाय	हलु	समस्येचे समाधान
हलचल	स्त्री.	दौड़-धूप	संक्षोभ:	हलचल	हलचल, हंगामा	वोंसुॅद्रोंस	हलचल	खळखळ, गोंघळ, गडबड
हवन	पुं.	देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में घी, जौ आदि की आहुति देने की क्रिया, होम	हवनम्, होमम्	होम, हवन	हवन	हवन	हवनु	हवन
हवाई-अड्डा	पुं.	वायुयानों के उतरने, रुकने या उड़ान भरने का स्थान	विमानपत्तनम्	हवाई अड्डा	हवाई अड्डा	हवॉयी अडुॅ	हवाई अड्डो	विमानतळ

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हल (ळ)	नांगर	हलो	हाल, लाङ-गल	नाङल, हाल	लाङ्गोल	हल, लंगल	नागलि	एर्	कलप्प	नेगिलु
गणीतना प्रश्नोत्तर	उलगडप	हल, गणितको प्रश्नको उत्तर	गणितेर प्रश्नेर उत्तर	अंकर-प्रश्नोत्तर	अंक फल ताबा	अंकर उत्तर, गणित-प्रश्नोत्तर	जवाबु	केळ्विक्कु विडै	उत्तरम्	उत्तर बिडिसुव बगे
समाधान	सोडवप	समाधान	समस्या-समाधान	समाधान, निराकरण, निस्पत्ति	फल ताबा	मीमांसा, समाधान, निराकरण, बुझामणा, निस्पत्ति	समाधानमु	तीर्वु	समाधानम्	परिहार
हलचल, खळभळ, उपद्रव	घुसपागोंदव्ळ	हलचल	हइचइ, शोरगोल, परिस्हिति	उखल-माखल, हुलस्थूल	निल-खोङबा, लाङ्बा मीयाम तिन्बा	हलचल, चहल, हुल-स्थूल	संदडि, अलजडि	चलसलप्पु, किळर्चि	अंच्चयुम्, अनक्कवुम्	गलाटे, गद्दलु गलाटे
हवन, होम, यश, यज्ञमां आहुति होमवी ते	हवन	हवन, होम, यज्ञ	होम, यज्ञ	होम, आहुति, दाम, यज्ञर-आहुति	यज्ञ तौबा	होम, आहुति	होममु	वेळ्वित्तीयिल् अविस् पोडुदल्, होमम्	होमम्, हवनम्	होम
हवाई-मथक, विमान-मथक	विमानतव्ळ	विमानस्थल, विमानघाट	बिमान-घाँटि	बिमान बंदर, बिमान कोठ	प्लेन ताफम	बिमानघाटी, विमान बंदर	विमानाश्रयमु	विमान-त्तळम्	विमानत्तावळम्	विमान निल्दाण

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हवाई जहाज	पुं.	हवा में उड़ने वाला यान, वायुयान, विमान	विमानम्	हवाई जहाज़	हवाई जहाज़	हवॉयी जहाज़	हवाई जहाजु	विमान
हवाई डाक	स्त्री.	वायुयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने वाली डाक, चिट्ठियाँ आदि	विमानप्रैष:	हवाई डाक	हवाई डाक	हवॉयी डाख	हवाई टपाल, एयरमेल	हवाईडाक
हस्तकला	स्त्री.	हाथों के कौशल द्वारा किया जाने वाला काम	हस्तकला	हत्थकला, हसतकला	दस्तकारी	अथुँ हो'नर, अथुँ कॉम	हथ जो हुनरु, हथ जो कमु	हस्तकला
हस्तक्षेप	पुं.	किसी दूसरे के काम में अनावश्यक रूप से तथा बिना अधिकार दखल देना	हस्तक्षेप:	दखल अंदाज़ी	मुदाख़लत, दख़्लअंदाज़ी	मुदॉखलत	दस्तअंदाज़ी, दख़्लअंदाज़ी	ढवळाढवळ, हस्तक्षेप
हस्तांतरण	पुं.	वस्तु, संपत्ति का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना	हस्तान्तरणम्	हसतांतरण	इंतिक़ाल	हवालुँ करुन	हथ मट, हिक हथ खां ब़िए हथ में वञणु, बदिली	हस्तांतरित, बदल करणें
हस्ताक्षर	पुं.	किसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाने वाला अपना नाम, जो इस बात का सूचक होता है कि ऊपर लिखी हुई बातें मैंने लिखी हैं और उनका दायित्व मुझ पर है, दस्तखत	हस्ताक्षरम्	हसताखर, दसखत	दस्तख़त	दसखथ	सही, दस्तख़तु	सही, हस्ताक्षर

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हवाई-जहाज, विमान, एरोप्लेन	विमान	हवाईजहाज, विमान	बिमान, बायुयान (ज), उड़ो जाहाज	बिमान, उरा-जाहाज	प्लेन, एरोप्लेन, दोलाइ-अपाइबी	उड़ाजाहाज, बिमान	विमानमु	आगाय विमानम्	विमानम्	विमान
हवाई डाक, एर-मेल	ऍरमेल	हवाइडाँक	बिमान बाहित डाक	बिमान-डाक	प्लेन ना चिथि पुथोक् पुशिन तौबा	हावाइ डाक, आकाश पथ-ड़ाक	विमान-तपाला	विमानत्तपाल्	विमानत्तपाल्	वैमानिक तपालु
हस्तकला (ळा), हाथनी कारीगरी	हस्तकला	हस्तकला, हस्तकौशल, हातको सीप	हस्तशिल्प, कारिगरि	हस्तशिल्प, हस्तकला	खुत् शा हैबगी थबक्	हस्तकला, हस्तशिल्प	चेति पनि, हस्तकळ	कै वेलै	करकौशलम्	कैगारिके
हस्तक्षेप	हस्तक्षेप	हस्तक्षेप	हस्तक्षेप (क्ख)	हस्तक्षेप	खुट् थिङ्जिन्बा	बाधादेबा, हस्तक्षेप	हस्तक्षेपमु, जोक्यमु	तलैइडुदल्	इटपेटल्	हस्तक्षेप
हवालो, कबजो, सोंपणी, सुपरत	हस्तातंरण	हस्तांतरण	हस्तांतर	हस्तांतर	शिन्नबा	हस्तांतर, स्थानांतर, बदल	चेतुलु मारुट, हस्तांतरणमु	कै मारुदल्	कैमाट्टम्	हस्तांतरण
हस्ताक्षर, सही, दसकत	सय, सही, हस्ताक्षर	सही, दस्तखत	हस्ताक्षर (क्ख)	स्वाक्षर, हस्ताक्षर	शोय	हस्ताख्यर, दस्तखत	संतकमु, चेव्रालु	कैयॅळुत्तु, ऑप्पम्	कैयॉप्पुं, ऑप्पुं	रुजु, हस्ताक्षर

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हाँ	अव्य.	स्वीकृति, निश्चय आदि का सूचक शब्द	आम्	आहो, हां	हाँ	आ, अवुँ आ	हाँ	होय, स्वीकृती
हाँकना	स.क्रि.	1. जानवरों को आगे बढ़ाने के लिए मुँह से कुछ कहते हुए चाबुक आदि लगाना, पशु वाली गाड़ी चलाना	प्र + √नुद्	हिक्कणा	हाँकना	होकि-पर्कुनावुन, हांकुन	हकलणु	हांकणें
		2. बहुत बढ़-चढ़ कर बातें करना	√श्लाघ्	हिक्कणा	बढ़ाई करना	–	ब॒टाक हणणु	बड़ाई मारणें
हाँफना	अ. क्रि.	थकावट, भय आदि के कारण फेफड़ों का जल्दी-जल्दी और लंबे साँस लेना	कृच्छं √श्वस्	हफणा	हाँपना	फ्रख खसुन	सहकणु	धापा टाकणें
हाथापाई	स्त्री.	वह लड़ाई, जिसमें एक-दूसरे के हाथ को पकड़ कर खींचते और ढकेलते हैं	हस्ताहस्ति:	हत्थोपाई	हाथापाई	अर्थुं-शलख, हाथा पॉई	छिकताण, धकु-बुजो, मारकुट	मारामारी

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हा, संमतिसूचक उद्‌गार, हा कहेवी ते, स्वीकार	हय	हुन्छ, अँ	हाँ/ह्याँ	हय, अँ, सै कढ़ा कार्य	होइ	हँ, सम्मति- सूचक शब्द	अवुनु	आम्, आमाम्	अर्त	हौदु, सरि
हांकवुं	हांकप	हाँक्नु	हाँका, चैंचिए डाका	(जीव-जंतु) खेद, थका खेदा	होइबा	हांकिबा, अटकाइबा	तोलुट̄	ओट्ट	तौळिक्कुक	अट्टुवुदु, ओडिसुवुदु
गप मारवी	फटाशी मारप	गफ चुट्नु	हाँका, हाँकदेयोया	दांकोप मार	हेन्जिन्ना हायबा	बाहास्फोट- मारिबा, बड़-बड़- कथा कहिबा	गॉप्पर्चप्पुट̄	जंबंपेश, पेरुमैयडिक्क	वीं·पुॅ प॒रयुक	जंभ कॉच्चुवुदु
हांफवुं, हांफ चडवी	धापप	हाँप्नु, स्वाँस्वाँ गर्नु	हाँफानो	हँफा, फौंपा	निक्पा, स्वर थबेत् थबेत् होन्बा	धकेइबा	आयासपडुट̄, रॉप्पुट̄	मेल् मूच्चुवांग	कितक्कुक	मेलुसिरु- बिडुविदु
मारामारी	मारामारी	मारामार, हानाहान, कुटामारी	हाताहाति	हताहति	फुनबा	हाताहाति, मुहाँमुहिँ	कॉट्लाट̄, जगडमु	कै कलप्पु, अडि तडि	कैयांकळि, अटिपिटि	जगळ, होडेदाडुवुदु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हाथी दाँत	पुं.	हाथी के मुँह के दोनों ओर निकले हुए सफेद दाँत	हस्तिदन्तः	हाथी-दंद	हाथीदांत, आज	हॅस्य दंद	हाथीअ जा ॿाहर निकितल ॾुंद	हस्तीदंत
हानि	स्त्री.	क्षति, नुकसान	हानिः	नुकसान, हानी	नुक़सान, ख़सारा	नॉखसान	हाञी, नुक्सानु	हानी, नुकसान
हार	स्त्री.	पराजय, जीत का विपर्याय	पराजयः	हार	हार	हार	हार	हार, पराजय
	पुं.	फूलों-मोतियों आदि की माला	हारः	हार	–	माल, हार	हार	हार (फुलांचा)
हारना	अ. क्रि.	1. युद्ध, खेल आदि में पराजित होना, गँवाना, खोना	परा √भू (कर्म.)	हारना	हारना	हारुन	हाराइणु	हारणें
		2. विफल होना	विफली √भू	हारना	फ़ेल होना	हारुन	ढिलो थियणु, फ़ेल थियणु	निष्फल होणें
हार्दिक	वि.	हृदय में रहने या होने वाला, हृदय का	हार्दिक	दिली, हारदिक	दिली, क़ल्बी	दिली	हिर्दे सां, दिल सां, दिली	हार्दिक

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हाथीदांत, हाथीनो दंतशूळ	हस्तीदंत	हस्तिदंत	हाती, हातिर दाँत	हातीर दाँत, हाती-दाँत	शामु मया	हाती-दांत, हातीर दांत	एनुगु-दंतमु	यानै तंदम्	आनक्कोम्पुं, दंतम्	दंत
हानि, नुकसान, पायमाली, नाश	नुकसान	नोक्सान, टुट्टा, हानि	क्षति, लोकसान, हानि (ख)	हानि, क्षति, लोकचान, नाश	माङ्बा, माङजबा	हानि, क्षति, नष्ट, अपचय, नाश	हानि, नष्टमु	तींगु, नष्टम्	दोषम्, नष्टम्	हानि, नुकसान
हार, फूलमाल	पराभव	हार, पराजय	पराजय, हार	हारि जा, पराजित	माइथिबा	हार, पराजय	ओटमि, पराजयमु	तोल्वि	तोल्वि, पराजयम्	सोलु
हार, पंक्ति	माळ	माला, हार, कंठश्री	हार, माला (कण्ठहार)	हार, माला, डिंगित पिंधा अलंकार	लै परेङ्	हार, माला	हारमु, मालॅ	मालै, आरम्	हारम्, माल	हार
हारवुं, पराजित थवुं	हारप	हार्नु, हार खानु, पराजित हुनु	हारा, हेरे जाओया	हार, पराजित ह	माइ पाकतबा	हारिबा, पराजित हेबा	ओडि पोवुटॅ	तोल्वि अडैय	तोल्कुक	सोलुवुदु
निष्फल थवुं	निष्फल जावप	असफल हुनु	विफल	विफलह	माइथिबा	निष्फल, बिफल	निष्फल मगुट	तोट्टप्पोग	निष्फलं आकुक	विफलवागुवुदु
हार्दिक, अंतरनुं	हार्दीक	हार्दिक	हार्दिक, आंतरिक	हार्दिक, आंतरिक, हृदय-संबंधी	थम्मोयगी ओइबा, थम्मोयगी	हार्दिक, आंतरिक	हृदयॅ पूर्वकमैनॅ	मनमुवंद, उळम्कनिंद	हृदयंगममाय	हार्दिक

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हालचाल	पुं.	अवस्था, दशा, वृत्तांत, समाचार	दशा, अवस्था	हालचाल	हालचाल, कैफ़ियत	हालचाल	हालचाल	समाचार
हालाँकि	अव्य.	1. यद्यपि	यद्यपि	भांवें, जदों कि	हालांकि	हालांकि	जेतोणीकि	यद्यपि
		2. अगरचे	–	जदों कि, भांवें	अगरचे	–	–	जरी
हास्य	पुं.	1. हँसने की क्रिया या भाव, हँसी, हास	हास्यम्	हासी, हस्सी	हंसी	मज़ाख, असुन	खिल	हास्य
		2. दिल्लगी, मजाक	परिहासः	हासी	मज़ाक़	मज़ाख, असुन	मज़ाकु	थट्टा, विनोद, मस्करी
		3. साहित्य में नौ स्थायी भावों या रसों में से एक	हास्यम्	हास	मिज़ाह	मज़ाख, असुन	साहित्य में हिकिड़ो भावु या रसु	हास्य रस

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हालचाल	वृतांत	हालचाल, चालामाला, अवस्था	बृत्तांत, समाचार, हाल-चाल	अवस्था, खबर, दशा	फिभम्, पाओ, मओङ् फिभम्	हालचाल, अबस्था, परिस्थिति, खबर	क्षेम-समाचारमुलु	निलवरम्	अवस्थ	समाचार
जो के	जरीय	यद्यपि	सत्वेओ	यदिओ	अदुम ओइनमक्	जद्यपि, जदि, जदिओ	अयिनप्पटिकी	आयिनुम्	एङ्किलुम्	आदाग्यू, आदरू
यद्यपि	तशीच	हुन् ता	जदिओ	यदिओ	–	जदिओ, सुतरां, अतएव, एणु	अयिन-प्पटिकी	इरुंद-पोदिलुम्	–	आदाग्यू, आदरू
हास्य	हांसो	हाँसो, हँस्सी, हास्य	हास्य, हासि	हाँहि, हास्य	नोक्निङ्बा, नोकनिङ्बगी भाव	हास्य, हस	नव्वु	चिरिप्पु	चिरि	हास्य, नगु
हास्य, विनोद	विनोद, मजा	दिल्लगी, ख्यालठट्टा	हासि-ठाट्टा, परिहास	रं तामाचा, फुचुरि	फागी	थटा, परिहास	परिहासमु	परिगास्मु, केलि	नेरंपोक्कुं	तमाषे
हास्य रस	हास्यरस	हास्यरस	–	हास्य (रस)	साहित्यगी रस अमगी ममिङ्	हास्य-रस, थट्टा तामसा	हास्यरसमु	नगैच्चुवै	हास्यम्	हास्यरस

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हिंसा	स्त्री.	1. हत्या, वध	हिंसा, वध:	हिंसा	क़त्ल	मारुँमारय	हिंसा, हत्या	हत्या, वध
		2. किसी प्रकार की हानि पहुँचाने, अनिष्ट या अपकार करने, कष्ट या दुख देने की क्रिया या भाव	हिंसा	हिंसा	तशद्दुद	तशदुद	तशदुद	हिंसा
हिचकी	स्त्री.	1. खाँसी, छींक, डकार आदि की तरह का एक शारीरिक व्यापार, जिसमें साँस लेने के समय क्षण भर के लिए फेफड़े का मुँह बंद होकर पेट की वायु कुछ रुक कर हल्का शब्द करती हुई बाहर निकलती है (हिकप)	हिक्का	हिचकी	हिचकी	ह्युक	हिड्ळिकी	उचकी
		2. उक्त के फलस्वरूप झटके से होने वाला तीव्र शब्द, जो कंठ से निकलता है	हिक्काशब्द:	हिचकी	–	ह्युक	हिचकी	–

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हिंसा	हत्या, वध	हिंसा, हत्या, वध	हिंसा	हत्या, वध	जीव हात्पा	हिंसा, बिरोध, शत्रुता	हिंसॆ	कॉलै	वधम् कोल	कोलॆ, हिंसॆ
हिंसा	हिंसा	अपकार, हिंसा	अपरेर अनिष्ठ/ अपकार	हिंसा, अहित-चिंतन, शत्रुता, ईर्ष्या	ओत्पा, माङ्हन्बगी थवक, भाव	बिपक्षता, हिंसा, अनिष्ट, अपकार	हिंसॆ	तुन्बुरुत्तल, इंसित्तल्	हिंस	हिंसॆ, पेट्टु, नाश
हेडकी, वाधणी	खिव्ठणी, उचकी	हिक्का, बाडुल्की, बाडुली	हेँचकि	हिकटि, हेंकटी	थगोक्पा	हाकुटि	ऍक्किळ्ळु	विक्कल्	ऍड्ङल, इक्किळ्	बिक्कळिके
–	खिव्ठणी, उचकी	हिक्का, किक्क्- किक्क्को ध्वनि	–	हिकटी- आह, हिकटीर- शब्द	थगोकपगी मखोंल	हाकुटि	एक्किलि शब्दमु	–	विक्कुक	बिक्कु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हितैषी	वि.	भला चाहने वाला, कल्याण मनाने वाला, हितचिंतक	हितैषिन्, हित	हितू	खैरख़्वाह	रुत कांछन वोल	भलो चाहींदड़ु	शुभेच्छू
हिनहिनाना	अ. क्रि.	घोड़े का हिन-हिन शब्द करना, हींसना	√हेष्	हिड़हिड़ाउणा	हिनहिनाना	हिनुँरारय करुँन्य	हिणकणु, हिणकार करणु	खिंकाळणें
हिरासत	स्त्री.	1. किसी को इस प्रकार अपने बंधन या देख-रेख में रखना कि वह भाग कर कहीं जाने न पाए, अभिरक्षा, परिरक्षा	अभिरक्षा, निग्रह:	हिरासत	हिरासत	हिरासत	हिरासत, पहरे हेठि	कच्ची कैद
		2. वह स्थान, जहाँ उक्त प्रकार के लोग बंद करके रखे जाते हैं	कारा, बन्धनागार:	हिरासत	हिरासत	हिरासत	हिरासत, लॉक-अप	हवालात, लॉकअप

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हितैषी	हितचिंतक	हितैषी, हितेच्छु, हितचिंतक	हितैषी, हिताकांक्षी	हितैषी, हितकारी, हितचिंताकारी	फनबा खन्बा	हितोपकारी, हितैषी, हितकारी, हिताकांक्षी, कल्याणकारी, शुभचिंतक	श्रेयोभिलाषि	नलम् विरुंबुबवर्	अभ्युदयकांक्षी, शुभाकांक्षी	हितचिंतक
हणहणवुं	खिंकाव्ळप	हिनहिनाइनु, घोडा कराइनु	हेर्षा-ध्वनि, अश्वध्वनि	(घोराँह) हिँ-हिँ-हिँ कर	शगोलना खोङ्बा	हृेषारब, अश्वध्वनि	सकिलिंचुट	कनैक्क	करयुक	केनेयुवुदु
नजर कैद, पोलीस कस्टड़ी	बंदखण	हिरासत, कैद	नजरबंदी, तत्वाबधान, रक्षणाबेक्षण (न)	दायित्व, न्यास, तत्वावधान	फादोक् ताबा, फादोक् थंबा, फाशिन्बा	गिरफ, हेपाजत, जिम्मा, तत्वावधान, अभिरक्षा, अबरोध, निरोध	अधीनमु (कस्टडी)	चिरैकावल्	कस्टडि, अधीनम	कावलु, सेरे
काची जेल, लोक-अप	लॉक अप	थुना, खोर, थुनाघर	हाजत	हानोत, अभिरक्षा	लाक-अप	हाजत, जेल, कारागार, बंदीशाला, कएदिखाना, गारदघर	लाकप्पु	कावर्कूडम्, लाक्कप्	लोक्अप्	सेरेमने

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हिलाना	स.क्रि.	1. हिलने में प्रवृत्त करना, झुलाना	√कम्प्, √धू	हिलाउणा	हिलाना	हिलावुन	लोडुणु	झुलविणें
		2. हेल-मेल में लाना, परचाना	√लल्	–	हिलाना	अलरावुन	चुरपुर में आणणु	माया लावणें
हिसाब-किताब	पुं.	1. लेखा-जोखा	लेखा	हिसाब-कताब	हिसाब-किताब	हिसाब-किताब	हिसाबु-किताबु	जमाखर्चा चा हिशोब
		2. व्यापारिक लेन-देन या व्यवहार	दानादानम्	हिसाब कताब	हिसाब किताब	–	–	देवाज घेवाण
हिस्सा	पुं.	1. भाग, अंश, खंड	अंशः	हिस्सा	हिस्सा	हिसुँ	हिसो	भाग, अंश
		2. वह धन जो किसी साझे की वस्तु या व्यवसाय में किसी एक या हर एक साझेदार ने लगाया हो (शेयर)	भागः	हिस्सा	हिस्सा	हिसुँ	–	हिस्सा, भाग
		3. साझेदार को मिलने वाला आनुपातिक लाभ या अंश	अंशः	हिस्सा	हिस्सा	हिसुँ	–	नफ्याचा वाटा

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हलाववुं	धोलवप	हल्लाउनु, डोलाउनु	नड़ानो, दोलानो	लरा, लरचर करा	हाइबा	हलाइबा, झुलाइबा, दोलाइबा	कदिलिंचुट	अशैक्क	इळक्कुक	अळ्ळाडिसुवुदु
माया लगाडवी	अपुरबाय करप	हेलमेल बढाउनु	–	लालना लरोवा हिंदोलन	अङाङ्बु नुङ्शिना फम्दुना हाइबिबा	हलाइबा, दोहलाइबा, झुलाइबा	आडिंचुट	कुळंदैयै अनबुडन् आट्ट	इणक्कुक, लाळिक्कुक	तूगाडिसुवुदु
हिसाब किताब	जमा खर्च	हरहिसाब	जमा–खरच निर्धारण (न)	हिचाब–पत्र, खाता–बही	हिसाब होत्पा, हिसाब तौबा	हिसाब– किताप, जमाखर्च– निर्धारण	लॅक्कलु	वरवु–चॅलवु, कणक्कु	कणक्कॅु	लेक्काचार, जमा खर्चु
लेणदेण	देण घेण	हिसाब– किताब	हिस्सा, अंश, भाग	भाग, अंश, व्यवहार	ललोन्नबा पोत लौथोक् लौशिन तौबा	हिसा, भाग, अंश, बांट	खाता	बागम्	भागम्	व्यापार– व्यवहार
भाग, अंश	भाग	हिस्सा, खंड	अंश	अंश, खण्ड	शरुक	भाग, अंश	भागमु	पंगु	पंकॅु, षॅयर्, ओहरि	भाग, अंश
हिस्सो, भाग	शॅर	भाग	भाग	अंश–भाग	पुथोक्खिबा शेल्गी शरूक	अंश–भाग	भागमु	पालु, वंतु	भागम्	पालु
नफानी वहेंचणी	नफयाचो वांटो	अंश, लाभांश	–	लाभांश	शेंदोङ् शरुक	हिसा, अंश (लाभांश), भाग, बाण्ट	भागधनमु	पंगु विहितम्	ओहरि विहितम्	पालु, लाभांश

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हुंडी	स्त्री.	1. एक लिखित पत्र, जिस पर लिखा रहता है कि इतने रुपए अमुक व्यक्ति, महाजन या बैंक को दे दिए जाएँ	हुण्डिका, हुण्डी	हुंडी	हुंडी	हो'ण्ड	हुंडी	हुंडी
		2. वह महाजनी पत्र, जिस पर यह लिखा रहता है कि ऋणकर्ता इतने दिनों में ब्याज समेत चुका देगा	हुण्डिका, हुण्डी	हुंडी	हुंडी	हो'ण्ड	हुंडी	हुंडी
हृदय	पुं.	1. कलेजा, दिल	हृदयम्	दिल, हिरदा	दिल, क़ल्ब	दिल, वॉलिंज, दिलिजिगर	दिल, हिर्दो	हृदय, मन
		2. अंत:करण	हृदयम्	दिल, हिरदा	ज़मीर	अंत:करन, ज़ॅमीर	–	अंत:करण
हृष्ट-पुष्ट	वि.	मोटा-ताजा	हृष्ट-पुष्ट	रिशट-पुशट	तनोमंद	व्यो'ठ-पूठ, हेृंश्ट पोंश्ट	हृष्ट-पुष्ट, थुल्हो-मतारो	हृष्ट-पुष्ट

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हूंडी, विनिमय पत्र	हुंडी	हुन्डी	हुंडि, बिनिमय पत्र	हुंडी	हुंडी, ड्राफ्ट, चेक	हुंडी, बिनिमय पत्र	हुंडी, ड्राफ्टु	केट्पु वरै ओलै	हुंडी, उण्डियल्	हुंडि कागद
हूंडी, बंधणी, बंधनी लेणा-खत, खातुं	डिबेंच्यर	ऋणपत्र, बंधपत्र, तमसुक	ऋणपत्र	ऋण-पत्र, दलिल खत	हूंडी	हुंडी, ऋण पत्र	बांडु, डिबेंचरु	कडन् पत्तिरम्	बोंडु, प्रमाणम्	बांडु, सालपत्र, डिबेंचर् पत्र
हृदय, दिल, हैयुं, मन	काव्ळीज, हृदय	मुटु, हृदय, मन, चित्त	हृद्‌पिंड, हृदय. (हार्ट)	बूकर अभ्यंतर भाग, हिया, हृत्पिण्ड, हृदयम, अंतर, हृद्‌गति	थम्मोई	हृत्पिण्ड, हृदयंत्र, हृदय, मन, अंतकरण, मर्मस्थान, आत्मा	हृदयमु	इरुदयम्, इदयम्, मनदु	हृदयम्	हृदय, एदे
अंतःकरण	अंतःकरण	अंतःकरण, अंतरात्मा	अंतःकरण	अंतःकरण	थम्मोइनुङ्	अंतकरण, बिबेक	अंतःकरणमु	मनदु	अंतःकरणं, विवेकं	अंतःकरण
हृष्ट-पुष्ट	हृश्ट-पुश्ट	मोटोघाटो, हृष्टपुष्ट	हृष्ट-पुष्ट, मोटा-सोटा	डाठ, शकत, हृष्ट-पुष्ट, प्रफुल्लित आरु स्वास्थ्यवान	अनोइबा	हृष्ट-पुष्ट, सुस्थ, मोटासोटा, स्वास्थ्यबान	बलिष्ठमैन	वाट्ट शट्टमान	तटिच्च कोळुत्त	हृष्ट-पुष्ट

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
हेरा-फेरी	स्त्री.	चालबाजी, गड़बड़	प्रवञ्चना	हेरा-फेरी	हेराफेरी	हेराफेरी, ठगी	हेरा-फेरी	फेर-फार, गड़बड़
होना	अ.क्रि.	1. अस्तित्व में आना	√भू, सम √जन्	होणा	होना	सपदुन, आसुन	थियणु, हुअणु	होणें
		2. कार्य या घटना का क्रियात्मक या वास्तविक रूप में सामने आना		होणा	–	बनुन, शुदुन	–	घडणें
होनी	स्त्री.	ऐसी घटना या बात, जिसका होना अनिवार्य हो	भवितव्यता	होणी	होनी (शुदनी)	बॉवी	हुअणी, होनी, थियणी	भवितव्य
होश	पुं.	1. चेतना, संज्ञा	सञ्ज्ञा	सोझी, होश	होश	होश	होशु	शुद्‌ध, संज्ञा
		2. याद, स्मृति	स्मृतिः	–	–	–	–	स्मृती

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
हेरा-फेरी	गडबड	गडबड, अन्डबन्ड, गोलमाल	चालबाजि, चालाकि	चालाकि, चालबाजी, धूर्त्तांली	चलाक्	हेर-फेर, चालाकि, गड़बड़, चालबाजी	मोसमु, गल्लंतु	तंदिरम्	तिरिमरि, कुळप्प्	अदलु-बदलु, कुतंत्र
होवुं, थवुं	आसप	हुनु, प्रकट हुनु, अस्तित्वमा आउनु	अस्तित्वे थाका (त्ते), बा हओया	ह, आछ विद्यमान ह	ओइबा	हेबा, घटिबा	उंडुट, अगुट	इरुक्क	उण्डाकुक	इरुवुदु
घडवुं	घडप	घट्नु, घटना हुनु	–	घटा सिद्धिकर	ओइबा	घटिबा, बास्तबरे-हेबा	अगुट	निगळ, उंडाग	संभविक्कुक	आगुवुदु
होनहार	भविश्य	हुनामी, भवितव्य	अबश्यंभावी घटना, भबितब्य	भवितब्य, होब लगा नियति	तङाइफादना तौगदबा	भबितब्यता, अबश्यंभाबी, निश्चितता	भवितव्यमु, कानुन्नदि	विदिच्चियल्	विधि	भाग्य, होणे, हणेबरह
होश	सुद	होस, सुद्धी	चेतना, संज्ञा	हुच, चेतना, संज्ञा	ज्ञान, लौशिङ्	उपलब्धता, होश, संज्ञा, चेतना, बोध, ज्ञान	स्पृह	पिरज्ञै, उणर्चि	बोधम्	ज्ञान, प्रज्ञे
स्मृति	याद	सम्झना, याद	स्मृति	स्मरण, स्मृति, सोंवरणि	निङ्शिङ्बा	स्मृति, स्मरण, मनेपकाइबा-शक्ति	ज्ञापकमु	निनैवु	ओर्म	नेनपु

हिंदी	व्या.-कोटि	हिंदी अर्थ	संस्कृत	पंजाबी	उर्दू	कश्मीरी	सिंधी	मराठी
होशियार	वि.	1. सावधान, सतर्क, सजग, चौकस	सावधान, जागरूक:	हुशिआर	होशियार	हुशार	होशियार, चालाक	सावध, जागरुक
		2. चतुर, चालाक	चतुर	हुशिआर	चालाक	चालाख	चतुर	चतुर, चलाख
		3. माहिर, कुशल, दक्ष	कुशल, दक्ष	हुशिआर	माहिर	त्रुक	माहिर	हुशार, निपुण
ह्रास	पुं.	1. क्षय, नाश, घटती	ह्रास:	नास, पतन	इन्हितात	गिरुन, गटुन	ज़वाल, गिरावट, घटिताई	क्षय, ह्रास
		2. पतन, अवनति	ह्रास:	नास, पतन	तनज़्ज़ुल, ज़वाल	ज़वाल, वॅंजाल	ज़वाल, गिरावट	अवनती, अपकर्ष

गुजराती	कोंकणी	नेपाली	बंगला	असमिया	मणिपुरी	ओड़िआ	तेलुगु	तमिल	मलयालम	कन्नड
सावध, जागरुक	हुशार	होसियार	हुँशियार	सावधान, सतर्क	हैशिङ्बा	साबधान, सतर्क, सजाग, हुशिआर	जागरूकुडैन	जाग्गिरदैयान	जाग्रतयुळ्ळ	ऐच्चर
चतुर, चालाक	चालु	चलाख, धूर्त	चालाक	चतुर, दक्ष	चलाक लैबा	चतुर, कुशल, दख्य, चंचल, चालाक	चतुरतग्ल	सामर्तिय-शालियान	कौशलक्कारन्	जाण, बुद्धिवंत
होशियार, निपुण	कुशळ	बुद्धिमान, समझदार, सिपालु	–	दक्ष, कुशल, निपुण	हैशिङ्बा	चालाक, दक्ष, सतर्क	चुरुकयिन नेर्पुग्ल	–	विदग्धन्	चतुर
ह्रास	नाश	ह्रास, क्षय, विनाश	ह्रास, विनाश, क्षय	ह्रास, क्षय	अमाङ्बा	ह्रास, पतन, अपव्यय, कम	क्षयमु, क्षीणत	कुरैदल, अळिवु	क्षीणम्, कुरवुं	कुग्गुविके क्षीणते, अपव्यय,
अवनति	पतन, अवनती	पतन, अवनति	–	अवनति, कमिजोर अवस्था, अवक्षय, अध:पात, ध्वंस	लैखा ताबा	पतन, अबनति, अपकर्ष, ह्रास, न्युन, क्षय, कमिजिबा	पतनमु, अवनति	वीऴ्च्चि	पतनम्, अपकर्षम्, अध:पतनम्	अवनति, कीळुतन

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

द्वारा प्रकाशित/प्रकाशनाधीन कोश और वार्तालाप पुस्तिकाएँ

प्रकाशित

1. हिंदी–नेपाली कोश
2. हिंदी–स्वाहीली कोश
3. हिंदी–अंग्रेजी कोश
4. चीनी–हिंदी कोश

6. फ्रेंच–हिंदी कोश
7. अरबी–हिंदी कोश
8. हिंदी–फारसी वार्तालाप पुस्तिका
9. हिंदी–अरबी वार्तालाप पुस्तिका
10. हिंदी–तेलुगु कोश
11. स्पेनी–हिंदी कोश
12. नेपाली–हिंदी कोश
13. हिंदी–सिंधी वार्तालाप पुस्तिका
14. ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी
15. हिंदी–बोडो अंग्रेजी कोश
16. अभिनव हिंदी कोश

प्रकाशनाधीन

1. हिंदी–तिब्बती कोश
2. उर्दू–हिंदी कोश
3. कश्मीरी–हिंदी कोश
4. हिंदी–चीनी वार्तालाप पुस्तिका

6. हिंदी–सिंहली कोश
7. पंजाबी–हिंदी कोश
8. हिंदी–पश्तो कोश

निदेशालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

भाषा (द्वैमासिक) वार्षिक चंदा 125.00 रुपए, एक प्रति 25.00 रुपए

- वार्षिकी
- साहित्यमाला

संपर्क करें

अनुसंधान अधिकारी (बिक्री)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्ण पुरम
नई दिल्ली–110066
Web Site: www.hindinideshalya.nic.in

अथवा

प्रकाशन विभाग
भारत सरकार
सिविल लाइंस
दिल्ली–110054